Catalogue of Catalogues of Sanskrit & Spiritual Book Publishers
National Register
प्रकाशकों के सूचीपत्रों का राष्ट्रीय रजिस्टर



ADHYATMIK GRANTHA GANGOTRI

RASHTRIYA ADHYATMIK PUNARJAGRAN ABHIYAN

PARMARTH TRUST

NATIONAL SPIRITUAL REJUVENATION ABHIYAN

SPIRITUAL THINK TANK OF INDIA

71, ARYA NAGAR ALWAR 301001 NCR RAJASTHAN

CHAIRPERSON : RAM SHASTRI # 09810267700

adhyatmikpunarjagran@gmail.com

Updated : 1 Jan, 2018

RASHTRIYA ADHYATMIK PUNARJAGRAN ABHIYAN

National Spiritual Rejuvenation Abhiyan

Spiritual Think Tank of India

71, Arya Nagar, Alwar 301001 NCR Rajasthan

adhyatmikpunarjagran@gmail.com

Spiritual Regeneration: Need of the Hour

Crying Need for Country's Spiritual Rejuvenation



Spiritual Regeneration: Need of the Hour

Crying Need for Country's Spiritual Rejuvenation

The spiritual and cultural rejuvenation of the country has become overdue. It has been happening at different intervals from the Vedic times. Historically, India has shown the light of knowledge and wisdom to the world. This knowledge got gradually destroyed due to decline in State patronage and may be because of some conscious efforts by the Moghul and more vehemently by the British. It is no secret, now, that all advanced nations have undertaken extensive research on ancient Indian texts. Most of the scientific inventions, over the years, we will find that they are based on postulates given by great Indian sages e.g. Dattatreya, Agustya, Yagyavalkya, Vashistha, Vishvamitra, Astavakra, Vedvyas, Aryabhat, Bhaskaracharya, Kanad, Nagarjuna, Charak, Sushrut, Varahmihir, Patanjali, Bharadwaj, Kapil etc. Many years ago, Lord Maculay and German scholar Max Mueller were among the first to take note of the golden era of spiritualism in India. Max Mueller wrote about 'what India teaches us'. It is necessary to understand the context of Indian spiritualism and culture. Culture implies a beautiful creation. Foreign scholars have created a misconception about the term culture and spiritualism. It has become necessary to present the divine voice of the Vedas in a new light in the 21st century. It will not do to claim that the Vedas had mentioned about planes attacking targets with deadly weapons. In the 19th and 20th centuries there was a strong wave to infuse new life in the teachings of the Vedas. Swami Dayanand took the revolutionary step of taking the Vedas to women and the lower castes. At a meeting in Mumbai, he said that if what he says is wrong it should be rejected. The 19th century revolutionary Swami Vivekanand raised the banner of Indian culture at a world religious conference in America. Indian religious and spiritual thinkers defined the term Arya as meaning the best. It may be recalled that Swami DayanandSaraswati and Swami Vivekanand were at the forefront of the freedom movement in the 19th century.

In the 20thcentury, Lokmanya BalGangadhar Tilak presented the Gita in a new light and wrote books on solar energy. In the 20th century, scholar Shri T.V. Kapali Sastri presented a new interpretation of the Rig Veda. He surprised everyone by the contemporaneous frame in which he explained the intricacies and mysteries in the words, language and principles in the ancient Rig Vedas, as enshrined in the treatises of Acharya Sayan and Acharya Yasak. Acharya Yasak has acknowledged that he did not understand the meanings of certain difficult words used in the Vedas. In the Rig Veda a word may refer to fame but at another place it may have a culinary connotation. Shri Kapali Sastri has tried to end many controversies about the Vedic texts by reinterpreting the meaning of certain words like 'Gau' (cow) and Saraswati. Mahamahopadhyay Sri Sripad Damodar Satwelkar, Mahamahopadhya Shri Madhusudan Ojha and some others followed the same tradition. The mysteries about the Vedic gods of fire, wind, storm, light, sun, Ashwinikumar, Indra, Varun, Poosha etc have been lifted by Maharishi Arvind, MM Satwelkar, MM Shri Ojha, Acharya Bhaskar Rai and Shri Kapali Sastri, Dr. Kapil Dev Dwivedi, Pt. Bhagwad Dutt, Sh. Gurudutt, Sh. Rele etc.. The Vedic mantras have been well explained in Brahmin treatises. The mystery world of the Vedas was confined to the intellectual world of the Rishis and Munis. The story tellers performed the yeoman task of interpreting the ancient Puranas to the common man. The 18 Puranas are the source of Indian culture, religion and spiritualism. But it is not necessary to accept all the stories in the Puranas. Upanishads followed the rejuvenation of the religious spirit. The more than 149 compilations of thoughts and memoires (Samhita) of Rishis that form part of ancient Indian literature are also part of the exercise of religious rejuvenation. Its foundation was laid by the literary outpourings of the ancient Rishis. Rishi Yagyavalakya advises against taking 'sanyas' (renunciation), though many other sages do not agree with this view. The works of the ancient sages and Rishis needs to be scientifically studied. The magical power of AksharNaad is used in the recitation of mantras and religious prayers. The recitation of Sanskrit mantras in three different 'swaras' (tones) has been prescribed.

In the 20thcentury,Gyangang dikshit Paramhans Vishudhananad used to perform the miracle of reviving dead birds in Gyanganj, situated in the lap of the god's own Himalayas, with the help of the power of the Sun and mantras. (See, Paul Briton's 'Search of Secret India.). With his power of concentration he was able to transport (teleport) himself hundreds of miles away to provide timely cure to the needy. C.W Leadbeater has predicted the day of divine visit in the Himalayas. How the semi-naked loin cloth wearing, ash-smeared Sadhus roam in the holy Kailash Mansarovar of Lord Shiv! The Shabar mantra in common Hindi that conveys the Vedic mantras to the ordinary person has the same magical powers. During their time AdiShankaracharya and Guru Gorakhnath sounded the bugle of religious rejuvenation and unified India. In all corners of India, East or West, North or South, Sanskrit is used for all prayers and religious invocations. During the middle ages the saint poets rejuvenated religion with the Bhakti cult. These saints tried to uproot religious hypocrisy. In the last 300 years during the colonial British rule these saint poets fought against the British rule and many of them were martyred. The history of these martyred saint poets has never been written. We should take pride in the pre-Christ era's Kautilya Arthshastra by Acharya Vishnugupt Chanakya as a symbol of Indian intellectualism. Bankim holds YogirajShrikrishna as relevant to the present. Our cultural values demand that Dharma should guide our administration. Dharma has to be taken to mean justice. The world has acknowledged the Indian concept of Universal Brotherhood. Indian culture came under severe attack after Independence. The moral yardsticks of Indian culture were torn apart. From the Vedas to the Puranas, all are being neglected. It is unfortunate that the forgotten Indian practices and concepts are hailed loudly when they return to the country only after finding acceptance in the West. We do not value our inheritance. Religious and cultural rejuvenation will not come about by merely talking loudly about the Vedas. It is the need of the hour to present in a contemporary form our religious and spiritual inheritance embodied in the Vedas and Puranas and other books and scriptures written 39,00,000 to 15,00,000 years ago. The cultural research organizations have to take up this job. A religious-cultural rejuvenation programme has to start to unfold the mysteries of the Vedic culture. A new beginning has to be made to let the world know about the mysterious powers of the ancient Indian wisdom.

Indian Thought: Magical, Divine, Spiritual Music & Books

The spiritual music & Books of India, once the spiritual Guru of the world, has once again drawn attention of the world. India has had a long tradition of spiritually strong music that predates the Vedic era. The Rishi of the Vedic era with their divine power received the knowledge of the Vedas directly from Brahma in the form of music. The compilation of the Vedas began with the songs of the gods. Studies have revealed that musical ties brought Greece, Iran, China, Cambodia, Thailand, Malaysia and India closer to each other. It is very important to render the correct notes while reciting the mantras and religious chants in Buddhism, Jainism and the Sanatan Dharma.

The Indian spiritual thought is based on faith and trust but the West wants to scrutinize it scientifically. The ancient sacred books equate the mind with the mantras. The purpose of the mantra is to relieve one of problems. The recitation of spiritual music in all its forms fills the body with energy. In meditation, the recitation of the mantras concentrates positive energy. They also reveal the secrets and mysteries of divine powers. India and Egypt share the seed letter for the Sun god. The ancient holy books have references about how after many years of meditation the sages were able to see Brahma in the skies in the form of letters. Thousands of years ago the sages of ancient India had proved the power of the letter and the science of sound. During their meditation, the Rishis of India had determined the notes in three octaves for singing the mantras.

The Rishi-Munis always believed that before reciting a mantra it is necessary to understand its meaning. It helps to make the power of the mantra more manifest. It has also been necessary to recite the mantra in pure prescribed tones. For example, Maharaishi Valmiki's SundarKand recitation should be absolutely tuneful lasting nine hours. Scholars have, however, not recommended its rendition in the form of pure song. Wrong recitation, on the other hand, renders the whole exercise meaningless. Shri P.V. Ramakrishna Prasad, information adviser of a former prime minister, has in his book given a vivid description of the rain after Shri Varun Yagyna was performed at the Tirupati Devalaya. From the Vedas to the Tantra Shashtras, all have given a classical shape to the singing of hymns. According to the Vedic texts, astonishing results are obtained after the intense vibrations generated by the spiritual music create positiv energy. It is believed that in the Hiamlayan abode of the gods lives the 28th Manu. We do not want to go into what this belief is about. There is no dearth of people in the country who believe in the power of the mantras and thousands of manifestations of god power.

The contemporary world is familiar with the amazing power of Shabar mantras mention of which is found in texts from the Vedic era to Goswamy Tulsidas's RamcharitManas. The magic of these mantras is known to the Naath community but the correct interpretation of the mantras is nearly imposible. The words in the Vedic mantras have their importance because of which Brahmi,Pali and Prakrit lanuagues were popular. The religious philosophies of the Buddhists and Jains are written in Pali and Prakrit. The legacy of India's magical mantras is kept hidden by the Bhotias of Tibet. But it is true that with the passage of time and changing circumstances the character of the mantras has changed. Indian thought is very clear that only the knowledegeable can turn the tide of time. Knowledge alone rides over time.

Think India: Spiritual Music & Books

Indian thought i.e. books and spiritual music provide a way out of today's troubled world. There is a dearth of those who can correctly read and recite the spiritual and religious texts of India. To overcome this shortcoming a centre for research on Indian spiritual music and Indian thoughts will be set up. It will include the contributions of the Sanatan Dharama, Buddhism, Jainism and other religions and their rare works in the field.

There is need to encourage research and study on all kinds of religious and spiritual literature in print as well as audio-visual forms.

Honour will be bestowed on the best reciters of spiritual, religious music and awards will be given to such persons as it will encourage spiritual regeneration in the country.

A national register of all types of spiritual and religious music produced by musical companies & reciters will facilitate the availability of the best of spiritual music with the push of a button.

The first national fair will be held in the national capital on all religious and spiritual literature in audio-visual and book form in Indian languages.

ADHYATMIK AMRITUM : Spiritual Music & Books

The spiritual and cultural rejuvenation of the country has become overdue. It has been happening at different intervals from the Vedic times.

The spiritual books & music of India, once the spiritual Guru of the world, has once again drawn attention of the world. The importance of the sound of Naad Brahma has been accepted from the Vedic age. The Vedic age described the godly power of the Akshar Brahma Swara, the voice of Brahma. In the Ramayana and the Mahabharata the word has been called the Supreme Brahma. All forms of mantras, religious recitations and prayers derive their mysterious powers on this basis.

The compilation of the Vedas began with the songs of the brahma. Studies have revealed that musical ties brought Oraion, Greece, Iran, China, Cambodia, Thailand, Malaysia and India closer to each other. It is very important to render the correct notes while reciting the mantras and religious chants in Buddhism, Jainism and the Sanatan Dharma.

The industrial, urban and highly consumerist societies are presenting extremely complicated and complex world views leading to pathless and frivolous generations. We are again having to fall back upon the principles of Indian spiritualism, yoga and ayurveda for human well being. Slowly, we are reaching a conclusion that modern science has little answers to human disease except for ineffective quick fixes.

The answers to all human woes are hidden in our ancient texts and it has now become imperative that we revisit our heritage that had been relegated to the background in the face of the concept of 'modern scientific temper'. Our tradition and heritage is no different from this concept, it only is more scientific.

Indian thought and spiritual music provide an escape from today's troubled world. There is a lack of people who can correctly read and recite spiritual and religious texts. To overcome this shortcoming a centre for research on Indian spiritual music and philosophy is being set up. This Centre shall encourage research and study of all kinds of religious and spiritual literature in print as well as audio-visual forms.

RAM SHASTRI, CHAIRPERSON

Divine Cooperation Needed

The national spiritual regeneration campaign is dedicated to the cause of universal flow of spiritual and religious knowledge. Expressing keen interest in spiritualism will be the most welcome contribution to this noble mission from the intellectuals, scholars and lovers of humanity. This is the reason why monetary help of any sort is being declined in all humility. The divine power of spiritualism will take this programme forward, as indeed it has so far. Hence, those who value the unique experience of spiritualism are requested to the divine power. However, contribution in the form of rare books and volumes will be gratefully accepted. The address to which it can be sent is: National Spiritual Regeneration Campaign, ShriNeelkanthGyanganj, 71, Arya Nagar, Alwar 301001, Rajasthan. The e-mail address is: adhayatmikpunarjagran@gmail.com

Catalogue of Publishers: National Register

Many difficulties cropped up in gathering old texts for research at the ShriNeelkanthGyanganjcentre. The most important thing is that in the catalogue with the publishers either many of the texts were either not listed or were damaged by the ravages of time. It is like plucking stars from the sky to get books from the Sanskrit and Indian language publishers. Problems also arose because of inadequate information on the contents of the books from the titles. In the national capital Delhi there is no complete list of the publishers. How can then we expect a complete list of spiritual and religious books in state capitals and district headquarters? Even on-line search on the internet did not help much in knowing about the availability of ancient texts and books on spiritualism.

It is the call of the time to save and protect the spiritual and cultural heritage in India, the world leader in spiritualism. For this purpose, a request was sent to nearly 262 religious publishers in the country to prepare a comprehensive catalogue of ancient and invaluable religious and spiritual works. Requests were also sent to district magistrates, police chiefs and district bar associations for help in locating and discovering religious and spiritual literature. Letters were also addressed to all heads of the states in the country, chief ministers, chief justices of high courts, chief secretaries, Devasthan secretaries and secretaries of arts and culture departments in the states. In addition letters were also sent to the Sanskrit departments in 285 universities in the country, teachers associations, student unions as also various departments and ministries of the federal government.
In all, 7500 letters were dispatched.

It has been our effort that details of all relevant publications, rare as well as those still not published, be included in the proposed national catalogue. Efforts are continuing to obtain rare texts from research institutes. We firmly believe that our efforts will help all those in the world who believe in spiritualism.

BOOK PUBLISHERS LIST :

1. Swadhyay Mandal, Pardi
2. Vaidik Samshodhan Mandal, Pune
3. Anand Ashram, Pune
4. Bhandarkar Oriental Research Institute (BORI), Pune
5. Rajasthan Prachya Vidya Pratishthan, Jodhpur
(Also known as Rajasthan Oriental Research Institute (RORI)), Jodhpur
6. Aurobindo Ashram, Pondicherry
7. Theosophical Society Hindi Prakashan, Varanasi
8. The Asiatic Society, Calcutta
9. Tirupati Devsthan, Tirupati
10. Shri Aurobindo Kapali Shastri Vaidik Sanskriti Sodh Sansthan Bengaluru
11. Shri Krishna Janm Bhoomi Seva Sansthan, Mathura
12. Naag Prakashan, Delhi
13. Motilal Banarsidass (MLBD), Delhi
14. Chukhamba Sanskrit Prakashan, Delhi
15. Vaidik Vangmay Prakashan, Prayag
16. Kalyan Mandir Prakashan Allahabad
17. Amarswami Prakashan, Delhi
18. Adwait Ashram Prakashan, Kolkatta
19. Vijay Kumar GovindRam HasaNand, Delhi
20. Chinmaya Mission Prakashan
21. Hindustani Academy, Allahabad
22. Uttar Pradesh Hindi Granth Academy, Lucknow
23. Bihar RashtraBhasa Parishad, Patna
24. Hope Prakashan, Delhi, Gurgoan
25. JanGanna Vibhag, Jaipur
26. Jagdish Sanskrit Pustakalaya, Jaipur

27. Hansa Prakashan, Jaipur
28. Nagari Pracharni Sabha, Varanasi
29. Hindi Sahitya Samelaaan, Allahabad
30. Shree Pitambara Sanskrit Parishad, Datia
31. Munshilal Manoharlal, Delhi
32. Vishwavidyalaya Prakashan Varanasi
33. Osho Prakashan
34. Megh Prakashan, Delhi
35. Diamond Books, Delhi
36. LokBharati Prakashan, Allahabad
37. Shree Aditya Prakashan, Delhi
38. Prabhat Prakashan, Delhi
39. Oriental Institute (MS University), Baroda
40. Shree GorakhNaath Mandir Prakashan, Gorakhpur
41. Shree Shankaracharya Dwarka ShardaPeeth, Dwarka
42. Sampurnanand Sanskrit Vishwvidyalya, Varanasi
43. Rashtriya Sanskrit Sansthaan, Delhi
44. Bhuwan Vani Trust, Lucknow
45. Tejkumar Book Depot, Lucknow
46. Hindi Pracharak Sansthaan Private Limited, Varanasi
47. Bhartiya Vidya Bhawan, Mumbai
48. Venketeshwara Press, Mumbai, Thane
49. Nirnaya Sagar Press, Mumbai
50. Archaeological Survey of India, Delhi
51. Bihar School of Yog, Munger
52. Indira Ghandi National Centre of Arts, Delhi
53. Sanskriti Sansthaan, Bareli
54. Literary Circle, Jaipur
55. Indra Prakashan, Bhopal
56. Satyam Publishing House, Delhi
57. RajKamal Prakashan, Delhi
58. KitaabGhar, Delhi
59. Sahitya Sodh Sansthaan, Delhi (Sri. Ravindra Seth)
60. RamLal Kapoor Trust, Haryana
61. New Bharatiya Book Corporation, Delhi
62. Yug Nirmaan Yojna, Mathura
63. Shree Saraswati Sadan Prakashan, Delhi (Shri. Satyeketu Vidyalankaar)
64. Sasta Sahitya Mandal, Delhi
65. Ayurved Sanskrit Hindi Pustak Bhandar, Jaipur
66. Shivalik Prakashan, Delhi
67. Shri Vallabhacharya Trust Prakashan, Mandavi, Kutch
68. Dewaat Vedaant Foundation, Begaluru
69. Jammu Kashmir Sanskriti Bhasa Vibhag, Srinagar
70. Shri RamTeerth Prakashan, Delhi
71. Eastern Book Linkers, Delhi
72. Bhartiya Vidya Prakashan, Delhi, Varanasi
73. Hindi Sahitya Sadan, Delhi (Sri. GuruDutt)
74. Bhartiya Gyanpeeth, Delhi
75. Dhanuka Prakashan, Delhi

Rashtriya Aadhyatmik Punarjagran Abhiyan : Publisher's Catalogue

विषय कूट	क्रमांक	पुस्तक का नाम	लेखक	प्रकाशक	मूल्य	वर्ष
Sub. Code	**Sr. No.**	Name of Book	Author	**Publisher**	**Price**	**Year**
0000 A	1	गोरखवाणी	डॉ० पीताम्बर दत्त बरथवाल	हिन्दी साहित्य सम्मेलन	150.00	–
0000 A	2	हिमालय का योगी	डॉ० भगवती शरण मिश्र	प्रकाशन संस्थान, दिल्ली	350.00	–
0000 A	3	गौतम गाथा	शिवदास पाण्डेय	प्रकाशन संस्थान, दिल्ली	400.00	–
0000 A	4	जनचेतना के संत–कवि भजनदेव	रामानुज तिवारी	प्रकाशन संस्थान, दिल्ली	600.00	–
0000 A	5	महाकवि सूरदास	डॉ० बलदेव वंशी	प्रकाशन संस्थान, दिल्ली	350.00	–
0000 A	6	लंका की परछाइयाँ	सुल्तान अहमद	प्रकाशन संस्थान, दिल्ली	400.00	–
0000 A	7	भारत के समाज सुधारक	रविकांत मिश्र	प्रकाशन संस्थान, दिल्ली	200.00	–
0000 A	8	भारत के विश्वप्रसिद्ध संत	रविकांत मिश्र	प्रकाशन संस्थान, दिल्ली	200.00	–
0000 A	9	योग और प्रणायाम	लालचन्द मौर्य	प्रकाशन संस्थान, दिल्ली	200.00	–
0000 A	10	लोकप्रिय ब्रत एवं त्योहार	विनय शर्मा	प्रकाशन संस्थान, दिल्ली	250.00	–
0000 A	11	ज्योतिष प्रकाश	बिमल कुमार लाभ	प्रकाशन संस्थान, दिल्ली	400.00	–
0000 A	12	पश्चिमी हिमालय में नाग परंपरा	हीरालाल ठाकुर, विद्या शर्मा	प्रकाशन संस्थान, दिल्ली	350.00	–
0000 A	13	दादू ग्रंथावली	सं० बलदेव वंशी	प्रकाशन संस्थान, दिल्ली	700.00	–
0000 A	14	जायसी ग्रंथावली	सं० आचार्य रामचन्द्र शुक्ल	प्रकाशन संस्थान, दिल्ली	700.00	–
0000 A	15	जायसी कोश	डॉ० आशा किशोर	प्रकाशन संस्थान, दिल्ली	400.00	–
0000 A	16	स्वामी सहजानन्द सरस्वती रचनावली (छह खंडों में)	सं० राघव शरण शर्मा	प्रकाशन संस्थान, दिल्ली	5600.00	–
0000 A	17	कबीर ग्रंथावली	डॉ० श्याम सुंदर दास	प्रकाशन संस्थान, दिल्ली	500.00	–
0000 A	18	धर्म नीति–ज्ञान एवं संस्कृति	डॉ० विश्वम्भर नाथ पाण्डेय	प्रकाशन संस्थान, दिल्ली	200.00	–
0000 A	19	मैं राम बोल रहा हूँ	भगवतीशरण मिश्र	प्रकाशन संस्थान, दिल्ली	750.00	–
0000 A	20	अस्तित्ववाद और मानववाद	ज्यां पाल सार्त्र (अनु. जबरीमल्ल पारख)	प्रकाशन संस्थान, दिल्ली	100.00	–
0000 A	21	हिन्दी साहित्य का इतिहास	आचार्य रामचन्द्र शुक्ल	प्रकाशन संस्थान, दिल्ली	500.00	–
0000 A	22	गोस्वामी तुलसीदास	आचार्य रामचन्द्र शुक्ल	प्रकाशन संस्थान, दिल्ली	200.00	–
0000 A	23	सूरदास	आचार्य रामचन्द्र शुक्ल	प्रकाशन संस्थान, दिल्ली	200.00	–
0000 A	24	चिन्तामणि–1	आचार्य रामचन्द्र शुक्ल	प्रकाशन संस्थान, दिल्ली	250.00	–
0000 A	25	त्रिवेणी	आचार्य रामचन्द्र शुक्ल	प्रकाशन संस्थान, दिल्ली	200.00	–

0000A	26	हिन्दी साहित्य में राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता	डॉ० कवीश्वर ठाकुर	प्रकाशन संस्थान, दिल्ली	150.00	–
0000 A	27	कबीर और तुलसी	डॉ० शशिभूषण चौधरी	प्रकाशन संस्थान, दिल्ली	400.00	–
0000 A	28	बिहारी रत्नाकर	जगन्नाथ दास 'रत्नाकर'	प्रकाशन संस्थान, दिल्ली	350.00	–
0000 A	29	वाल्मीकि रामायण का समीक्षात्मक अध्ययन	मिनी भारद्वाज	प्रकाशन संस्थान, दिल्ली	300.00	–
0000 A	30	वाल्मीकि रामायण में नीति तत्व	योगेन्द्री गुप्ता	प्रकाशन संस्थान, दिल्ली	300.00	–
0000 A	31	भास, कालिदास और भवभूति : एक अध्ययन	अंजू रस्तोगी	प्रकाशन संस्थान, दिल्ली	450.00	–
0000 A	32	कैलाश मानसरोवर यात्रा	वीरेन्द्र कुमार	प्रकाशन संस्थान, दिल्ली	175.00	–
0000 A	33	उपनिषदों का दिव्य ज्ञान	एनी बेसेन्ट	दा इण्डियन बुक शॉप	40.00	–
0000 A	34	मेरे जीवन में थियोसॉफी कैसे आयी	लेड बीटर	दा इण्डियन बुक शॉप	40.00	–
0000 A	35	मनुष्य तथा उसके कोष	एनी बेसेन्ट	दा इण्डियन बुक शॉप	15.00	–
0000 A	36	मानव पुनरूत्थान	राधा बर्नियर	दा इण्डियन बुक शॉप	35.00	–
0000 A	37	गीता अध्ययन	अनु० डॉ० रघुवीर शरण गुप्ता	दा इण्डियन बुक शॉप	45.00	–
0000 A	38	गायत्री	अनु० डॉ० रघुवीर शरण गुप्ता	दा इण्डियन बुक शॉप	45.00	–
0000 A	39	आत्म साधना	अनु० डॉ० रघुवीर शरण गुप्ता	दा इण्डियन बुक शॉप	55.00	–
0000 A	40	आध्यात्मिक जीवन	अनु० कौशल्या देवी मेहता	दा इण्डियन बुक शॉप	60.00	–
0000 A	41	बुद्ध और क्राइस्ट	अनु० रामचन्द्र शुक्ल	दा इण्डियन बुक शॉप	5.00	–
0000 A	42	भुवर्लोक	अनु० पंड्या बैजनाथ	दा इण्डियन बुक शॉप	35.00	–
0000 A	43	दुःख का अर्थ और उपयोग		दा इण्डियन बुक शॉप	15.00	–
0000 A	44	ध्यान माला	अनु० रामचन्द्र शुक्ल	दा इण्डियन बुक शॉप	30.00	–
0000 A	45	श्री गुरुदेव चरणेषु		दा इण्डियन बुक शॉप	15.00	–
0000 A	46	ह्रदय के सिद्धांत		दा इण्डियन बुक शॉप	25.00	–
0000 A	47	ध्यान के श्लोक	अनु० पंड्या बैजनाथ	दा इण्डियन बुक शॉप	10.00	–
0000 A	48	जीवन की पहेली		दा इण्डियन बुक शॉप	10.00	–
0000 A	49	विचार–शक्ति		दा इण्डियन बुक शॉप	28.00	–
0000 A	50	योगाभ्यास	एस.एस. वर्मा	दा इण्डियन बुक शॉप	15.00	–
0000 A	51	जीवनमुक्त और मुक्तिमार्ग	अनु० पंड्या बैजनाथ	दा इण्डियन बुक शॉप	20.00	–
0000 A	52	कर्म	ए.बी.	दा इण्डियन बुक शॉप	10.00	–
0000 A	53	किशोर नागरिक	ए.बी.	दा इण्डियन बुक शॉप		–
0000 A	54	मनुष्य के सात तत्व	अनु० जे.पी. श्रीवास्तव	दा इण्डियन बुक शॉप		–

0000A	55	ब्रह्मा जिज्ञासु का जीवन	अनु० डॉ० रघुवीर शरण गुप्ता	दा इण्डियन बुक शॉप	15.00	–
0000 A	56	मार्ग की खोज	अनु० श्री देवी मेहता	दा इण्डियन बुक शॉप	15.00	–
0000 A	57	मार्ग प्रकाशिनी	भाष्य सहित – रामचन्द्र शुक्ल	दा इण्डियन बुक शॉप	40.00	–
0000 A	58	मुमुक्ष का मार्ग	डॉ० ए.बी.	दा इण्डियन बुक शॉप	10.00	–
0000 A	59	नित्य पूजा विधान		दा इण्डियन बुक शॉप	10.00	–
0000 A	60	मेरी प्रतिज्ञा	जिनारादस्सा	दा इण्डियन बुक शॉप	20.00	–
0000 A	61	नीरवनाद	एच. पी. बी.	दा इण्डियन बुक शॉप	18.00	–
0000 A	62	नैवेद्य	अनु० रामचन्द्र शुक्ल	दा इण्डियन बुक शॉप	5.00	–
0000 A	63	मानव दृश्य एवं अदृश्य	सी.डब्ल्यू.एल.	दा इण्डियन बुक शॉप	90.00	–
0000 A	64	मानव का पुनरूत्थान	एन.एस.आर.	दा इण्डियन बुक शॉप	10.00	–
0000 A	65	पद चिन्ह		दा इण्डियन बुक शॉप	24.00	–
0000 A	66	मानव कहां से, कैसे और किधर		दा इण्डियन बुक शॉप	30.00	–
0000 A	67	राजयोग	राजाराम सखाराम भागवत	दा इण्डियन बुक शॉप	10.00	–
0000 A	68	संगीत लहरी	श्रीमती श्री देवी मेहता	दा इण्डियन बुक शॉप	5.00	–
0000 A	69	संत सौरभ	श्रीमती श्री देवी मेहता	दा इण्डियन बुक शॉप	5.00	–
0000 A	70	थिऑसोफी के मूल सिद्धांत		दा इण्डियन बुक शॉप	75.00	–
0000 A	71	ब्रह्मविद्या की प्रथम पुस्तक		दा इण्डियन बुक शॉप		–
0000 A	72	सनातन धर्म और युग धर्म	पुत्तन लाल विद्यार्थी	दा इण्डियन बुक शॉप	5.00	–
0000 A	73	सनातन ज्ञान	ए.बी. – एस.सी.	दा इण्डियन बुक शॉप	80.00	–
0000 A	74	सनातन ज्ञान	ए.बी. – एच.सी.	दा इण्डियन बुक शॉप	100.00	–
0000 A	75	थिऑसोफी की कुंजिका		दा इण्डियन बुक शॉप	45.00	–
0000 A	76	अदृश्य सहायक		दा इण्डियन बुक शॉप	25.00	–
0000 A	77	बाहरी प्रांगण		दा इण्डियन बुक शॉप	25.00	–
0000 A	78	मनुष्य के कोष और उनकी शुद्धि		दा इण्डियन बुक शॉप	10.00	–
0000 A	79	मृत्यु और उसके पश्चात्		दा इण्डियन बुक शॉप	10.00	–
0000 A	80	जीवन का विश्व व्यापी नियम		दा इण्डियन बुक शॉप	10.00	–
0000 A	81	शोक संतप्तो के लिए	सी.डब्ल्यू.एल.	दा इण्डियन बुक शॉप	15.00	–
0000 A	82	थिऑसोफी का व्यवहार दर्शन	सी. जे.	दा इण्डियन बुक शॉप	25.00	–
0000 A	83	थिऑसोफी परिचय	अनु० रामचन्द्र शुक्ल	दा इण्डियन बुक शॉप	30.00	–

0000A	84	व्यावहारिक आत्मविद्या		दा इण्डियन बुक शॉप	25.00	–
0000 A	85	योग एक परिचय		दा इण्डियन बुक शॉप	10.00	–
0000 A	86	व्यक्ति, व्यवहार और विकास	डॉ० राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी	दा इण्डियन बुक शॉप	10.00	–
0000 A	87	प्रज्ञा	एनी बेसेन्ट स्मृति अंक	दा इण्डियन बुक शॉप	250.00	–
0000 A	88	Varanasi		दा इण्डियन बुक शॉप	5.00	–
0000 A	89	Eternal Search of Wisdom by S. Dayal		दा इण्डियन बुक शॉप	8.00	–
0000 A	90	Fundamental of Divine Life by Vinay Bihari	Dr. B.R. Mullick	दा इण्डियन बुक शॉप	5.00	–
0000 A	91	Knowledge and Wisdom by N. Sri Ram		दा इण्डियन बुक शॉप	5.00	–
0000 A	92	Mystic Experience by Dr. Bhagwan Das		दा इण्डियन बुक शॉप	40.00	–
0000 A	93	The Science of Religion or Sanatan Vaidik Dharma		दा इण्डियन बुक शॉप		–
0000 A	94	Spiritual Organisation and Exploitation	Rohit Mehta	दा इण्डियन बुक शॉप	5.00	–
0000 A	95	Yoga Vishistha and its Philosophy (Re-Print)	Prof. B.L. Atreya	दा इण्डियन बुक शॉप	40.00	–
0000 A	96	अभय भजन भास्कर	अभयराम शर्मा ''दयानन्दी''	अमर स्वामी प्रकाशन	15.00	–
0000 A	97	कौन कहता है द्रोपदी के पांच पति थे?	अमर स्वामी सरस्वती	अमर स्वामी प्रकाशन	50.00	–
0000 A	98	आर्य सिद्धांत सागर (दोनों भाग)	अमर स्वामी सरस्वती	अमर स्वामी प्रकाशन		–
0000 A	99	कौन कहता है अहिल्या पत्थर की शिला बन गई थी?	अमर स्वामी सरस्वती	अमर स्वामी प्रकाशन	1.00	–
0000 A	100	गीता में ईश्वर का स्वरूप	अमर स्वामी सरस्वती	अमर स्वामी प्रकाशन	10.00	–
0000 A	101	कौन कहता है श्री राम जी की आयु विवाह के समय 15 वर्ष तथा सीता जी की आयु 6 वर्ष थी?	अमर स्वामी सरस्वती	अमर स्वामी प्रकाशन	1.00	–
0000 A	102	ऋग्वेद (मूल तथा उर्दू भाष्य)	पं० आशुराम आर्य	अमर स्वामी प्रकाशन	300.00	–
0000 A	103	यजुर्वेद (मूल तथा उर्दू भाष्य)	पं० आशुराम आर्य	अमर स्वामी प्रकाशन	300.00	–
0000 A	104	शिवलिंग पूजा क्यों?	डॉ० श्रीराम आर्य	अमर स्वामी प्रकाशन	50.00	–
0000 A	105	ब्रह्मकुमारी मत खण्डन	डॉ० श्रीराम आर्य	अमर स्वामी प्रकाशन	25.00	–
0000 A	106	हनुमानजी बंदर नहीं थे	डॉ० श्रीराम आर्य	अमर स्वामी प्रकाशन	5.00	–
0000 A	107	यज्ञोपवीत : धार्मिक एवं वैज्ञानिक महत्व	डॉ० श्रीराम आर्य	अमर स्वामी प्रकाशन	5.00	–
0000 A	108	मूर्तिपूजा पर 31 प्रश्न	डॉ० श्रीराम आर्य	अमर स्वामी प्रकाशन	1.00	–
0000 A	109	चोटी (धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व)	डॉ० श्रीराम आर्य	अमर स्वामी प्रकाशन	3.00	–
0000 A	110	संसार के पौराणिक विद्वानों से 31 प्रश्न	डॉ० श्रीराम आर्य	अमर स्वामी प्रकाशन	3.00	–
0000 A	111	ईश्वर सिद्धि	पं० रामचन्द्र देहलवी	अमर स्वामी प्रकाशन	10.00	–
0000 A	112	राजनीश : भगवान या शैतान?	श्रीमती वीना गुप्ता एम.ए.	अमर स्वामी प्रकाशन	1.00	–
0000A	113	भारतीय शिक्षा का दार्शनिक आधार	डॉ० कीर्ति देवी सेठ	अमर स्वामी प्रकाशन	300.00	–
0000 A	114	सगुण निर्गुण उपासना	डॉ० राजेन्द्र प्रसाद आर्य	अमर स्वामी प्रकाशन	2.00	–
0000 A	115	दीपावली और द्यूत क्रीड़ा	डॉ० राजेन्द्र प्रसाद आर्य	अमर स्वामी प्रकाशन	1.00	–
0000 A	116	भारतीय क्षात्र धर्म और अहिंसा	डॉ० श्रीराम आर्य	अमर स्वामी प्रकाशन	100.00	–
0000 A	117	मूर्ति पूजा की हानियां	अमर स्वामी सरस्वती	अमर स्वामी प्रकाशन	1.00	–
0000 A	118	मृतक श्राद्ध पर 21 प्रश्न	डॉ० श्रीराम आर्य	अमर स्वामी प्रकाशन	1.00	–
0000 A	119	आर्य समाज की मान्यताएं	पं० रामचन्द्र देहलवी	अमर स्वामी प्रकाशन	3.00	–
0000 A	120	अवतारवाद पर 31 प्रश्न	डॉ० श्रीराम आर्य	अमर स्वामी प्रकाशन	1.00	–
0000 A	121	राधास्वामी पाखण्ड खण्डन	डॉ० श्रीराम आर्य	अमर स्वामी प्रकाशन	6.00	–
0000 A	122	शिवजी के चार विलक्षण बेटे	डॉ० श्रीराम आर्य	अमर स्वामी प्रकाशन	5.00	–
0000 A	123	हंसामत का पोलखाता	डॉ० श्रीराम आर्य	अमर स्वामी प्रकाशन	3.00	–

0000 A	124	गीता पर 42 प्रश्न	डॉ० श्रीराम आर्य	अमर स्वामी प्रकाशन	6.00	–
0000 A	125	सारंग गीतांजली	सचिन सारंग	अमर स्वामी प्रकाशन	100.00	–
0000 A	126	हनुमानादि वानर बन्दर थे या मनुष्य?	अमर स्वामी सरस्वती	अमर स्वामी प्रकाशन	200.00	–
0000 A	127	याज्ञिक क्रियाओं का रहस्य	ओमप्रकाश भोला	अमर स्वामी प्रकाशन		–
0000 A	128	द्वन्द्व उद्‌बोधन – 'महाकाव्य'	त्रिपाठी कैलाश आजाद	अमर स्वामी प्रकाशन	700.00	–
0000 A	129	वैदिक त्रैतवाद	पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय	अमर स्वामी प्रकाशन	2.00	–
0000 A	130	शराब और मूर्ति पूजा	अध्यापक–काशीनाथ आर्य प्रचारक	अमर स्वामी प्रकाशन	10.00	–
0000 A	131	क्या भारत का एक विभाजन और होगा?	लाजपत राय अग्रवाल (वैदिक मिशनरी)	अमर स्वामी प्रकाशन		–
0000 A	132	सोज़े वतन अर्थात् देश का दर्द	मुंशी प्रेमचन्द	अमर स्वामी प्रकाशन	40.00	–
0000 A	133	अर्थर्ववेद भाष्यम् (काण्ड–1)	पं० क्षेमकरणदास त्रिवेदी	अमर स्वामी प्रकाशन	200.00	–
0000 A	134	अर्थर्ववेद भाष्यम् (काण्ड–13)	पं० क्षेमकरणदास त्रिवेदी	अमर स्वामी प्रकाशन	200.00	–
0000 A	135	अर्थर्ववेद भाष्यम् (काण्ड–14)	पं० क्षेमकरणदास त्रिवेदी	अमर स्वामी प्रकाशन	200.00	–
0000 A	136	अर्थर्ववेद भाष्यम् (काण्ड–15)	पं० क्षेमकरणदास त्रिवेदी	अमर स्वामी प्रकाशन	200.00	–
0000 A	137	जीवन में वैदिक विचारधारा	पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय	अमर स्वामी प्रकाशन	5.00	–
0000 A	138	वेदोपदेश	पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय	अमर स्वामी प्रकाशन	2.00	–
0000 A	139	ईश्वर और उसकी पूजा	पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय	अमर स्वामी प्रकाशन	2.00	–
0000 A	140	आर्य समाज और हिन्दू धर्म	पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय	अमर स्वामी प्रकाशन	5.00	–
0000 A	141	पुराणों को पढ़िये तो!	अमर स्वामी सरस्वती	अमर स्वामी प्रकाशन	2.00	–
0000A	142	स्वामी दयानन्द की दो भारी भूलें	पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय	अमर स्वामी प्रकाशन	3.00	–
0000 A	143	गाज़ी मियां की पूजा और हिन्दू	पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय	अमर स्वामी प्रकाशन	3.00	–
0000 A	144	मृतक श्राद्ध खण्डन	डॉ० श्रीराम आर्य	अमर स्वामी प्रकाशन	5.00	–
0000 A	145	पुराणों के कृष्ण	डॉ० श्रीराम आर्य	अमर स्वामी प्रकाशन	5.00	–
0000 A	146	विभिन्न मतों में ईश्वर का स्वरूप	डॉ० श्रीराम आर्य	अमर स्वामी प्रकाशन	5.00	–
0000 A	147	स्वर्ग विवेचन	डॉ० श्रीराम आर्य	अमर स्वामी प्रकाशन	5.00	–
0000 A	148	वैदिक यज्ञविज्ञान	डॉ० श्रीराम आर्य	अमर स्वामी प्रकाशन	5.00	–
0000 A	149	वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है	डॉ० श्रीराम आर्य	अमर स्वामी प्रकाशन	40.00	–
0000 A	150	ईश्वर ने दुनिया क्यों बनाई?	पं० रामचन्द्र देहलवी	अमर स्वामी प्रकाशन	15.00	–
0000 A	151	मूर्खों के देश में, धूर्तों के राज में	द्वारका प्रसाद आर्य	अमर स्वामी प्रकाशन		–
0000 A	152	पुराण किसने बनाये?	डॉ० श्रीराम आर्य	अमर स्वामी प्रकाशन	40.00	–
0000 A	153	अवतार	पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय	अमर स्वामी प्रकाशन	2.00	–
0000 A	154	इस्लाम और आर्य समाज	पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय	अमर स्वामी प्रकाशन	70.00	–
0000 A	155	भारत में मुस्लिम आतंकवाद	रिसर्च० राकेश कुमार	अमर स्वामी प्रकाशन	10.00	–
0000 A	156	शिवाजी का पत्र–महाराज जयसिंह के नाम	अमर स्वामी सरस्वती	अमर स्वामी प्रकाशन	10.00	–
0000 A	157	गीत क्रांति	पं० ज्ञानेन्द्र सूफी	अमर स्वामी प्रकाशन	15.00	–
0000 A	158	आर्य शब्द तर्क की कसौटी पर	रामेन्द्र कुमार आर्य	अमर स्वामी प्रकाशन	30.00	–
0000 A	159	मूर्ति पूजा तर्क की कसौटी पर	रामेन्द्र कुमार आर्य	अमर स्वामी प्रकाशन	15.00	–
0000 A	160	नमस्ते तर्क की कसौटी पर	रामेन्द्र कुमार आर्य	अमर स्वामी प्रकाशन	5.00	–
0000 A	161	सत्तर श्लोकी दुर्लभ भगवदगीता	मंगलानन्द पुरी	अमर स्वामी प्रकाशन	80.00	–
0000 A	162	धर्म निरपेक्षता अथवा आग्र (हिन्दू) जाति का सर्वनाश	सं० लाजपतराय अग्रवाल	अमर स्वामी प्रकाशन	10.00	–
0000 A	163	गीता और महर्षि दयानन्द	अमर स्वामी सरस्वती	अमर स्वामी प्रकाशन	15.00	–
0000 A	164	गीता और वेद	अमर स्वामी सरस्वती	अमर स्वामी प्रकाशन	15.00	–
0000 A	165	मन नहीं टिकता–क्या करें?	आचार्य अभय देव विद्यालंकार	अमर स्वामी प्रकाशन	15.00	–
0000 A	166	इस्लाम और वैदिक धर्म	डॉ० श्रीराम आर्य	अमर स्वामी प्रकाशन	20.00	–
0000 A	167	पौराणिक कीर्तन पाखण्ड है	डॉ० श्रीराम आर्य	अमर स्वामी प्रकाशन	15.00	–
0000 A	168	वेद का इस्लाम पर प्रभाव	पं० रामचन्द्र देहलवी	अमर स्वामी प्रकाशन	20.00	–
0000 A	169	सौरभ दोहावली	राम गोपाल सिंह चौहान	अमर स्वामी प्रकाशन		–
0000 A	170	शंका समाधान	पं० रामचन्द्र देहलवी	अमर स्वामी प्रकाशन	15.00	–
0000A	171	जिहाद के नाम पर कत्लेआम	अमर स्वामी सरस्वती	अमर स्वामी प्रकाशन	5.00	–
0000 A	172	भगवान श्रीकृष्ण	पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय	अमर स्वामी प्रकाशन	5.00	–
0000 A	173	आर्योद्देश्यरत्नमाला	महर्षि दयानन्द सरस्वती	अमर स्वामी प्रकाशन	3.00	–
0000 A	174	स्वमन्तव्यमन्तव्याप्रकाश	महर्षि दयानन्द सरस्वती	अमर स्वामी प्रकाशन	3.00	–
0000 A	175	भारतीय पर्व और त्यौहार	आर्य (एडवोकेट)	अमर स्वामी प्रकाशन	250.00	–

0000 A	176	वेद, महर्षि दयानन्द और भारतीय संविधान	आर्य (एडवोकेट)	अमर स्वामी प्रकाशन	175.00	–
0000 A	177	तुलसी और शालिग्राम	डॉ० श्रीराम आर्य	अमर स्वामी प्रकाशन	10.00	–
0000 A	178	ईसाई धर्म की निस्सारता	शास्त्रार्थ महा० पं० शिव शर्मा	अमर स्वामी प्रकाशन	5.00	–
0000 A	179	ब्रह्मकुमारी संस्था की ढोल की पोल	स्वामी आनन्दबोध सरस्वती	अमर स्वामी प्रकाशन	5.00	–
0000 A	180	आर्यावर्त्त पतन की ओर	स्वामी शिवानन्द	अमर स्वामी प्रकाशन	100.00	–
0000 A	181	धर्म की उत्पत्ति (क्यों और कैसे?)	सूबेदार जीतपाल सिंह	अमर स्वामी प्रकाशन	70.00	–
0000 A	182	यक्ष–युधिष्ठिर सम्वाद	सूबेदार जीतपाल सिंह	अमर स्वामी प्रकाशन	80.00	–
0000 A	183	भक्ष्याभक्ष्य विचार	डॉ० संजीव उपाध्याय	अमर स्वामी प्रकाशन	30.00	–
0000 A	184	चतुर्वेद गंगा लहरी	सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार	अमर स्वामी प्रकाशन	170.00	–
0000 A	185	प्रामाणिक इस्लामी हदीस	अस्मतुल्ला तस्नीम	अमर स्वामी प्रकाशन	200.00	–
0000 A	186	गीता विवेचन (पुनर्मुद्रण)	डॉ० श्रीराम आर्य	अमर स्वामी प्रकाशन	500.00	–
0000 A	187	नृसिंह अवतार वध	डॉ० श्रीराम आर्य	अमर स्वामी प्रकाशन	2.00	–
0000 A	188	ग्रह–नक्षत्र और सितारों के गुलाम	पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय	अमर स्वामी प्रकाशन	1.00	–
0000 A	189	यज्ञ चिकित्सा विज्ञान	पं० वीरसैन वेदश्रमी	अमर स्वामी प्रकाशन	2.00	–
0000 A	190	उपासना विधि–विधान एवं योगाभ्यास	ओमप्रकाश गुप्त	अमर स्वामी प्रकाशन	250.00	–
0000 A	191	श्रीमद्‌भागवत समीक्षा	डॉ० श्रीराम आर्य	अमर स्वामी प्रकाशन	300.00	–
0000 A	192	संस्कार महत्व	स्वामी संकल्पानन्द सरस्वती	अमर स्वामी प्रकाशन	10.00	–
0000 A	193	क्या स्त्रियों को वेदाधिकार है?	स्वामी संकल्पानन्द सरस्वती	अमर स्वामी प्रकाशन	10.00	–
0000 A	194	परमेश्वर का मुख्य नाम ओ३म् ही क्यों?	स्वामी संकल्पानन्द सरस्वती	अमर स्वामी प्रकाशन	10.00	–
0000 A	195	गायत्री मन्त्रः महिमा और विशेषताएं	स्वामी संकल्पानन्द सरस्वती	अमर स्वामी प्रकाशन	10.00	–
0000 A	196	रामप्रसाद भजनावली	महाशय रामप्रसाद	अमर स्वामी प्रकाशन	50.00	–
0000 A	197	भूत–प्रेत रहस्य	डॉ० राजेन्द्र प्रसाद आर्य	अमर स्वामी प्रकाशन	30.00	–
0000 A	198	आत्म–दर्शन	श्री चेतराम आर्य	अमर स्वामी प्रकाशन	60.00	–
0000 A	199	यास्ककालीन : पर्यावरण	डॉ० रामाशीष पाण्डेय	अमर स्वामी प्रकाशन	800.00	–
0000A	200	यास्ककालीन भारतवर्ष	डॉ० रामाशीष पाण्डेय	अमर स्वामी प्रकाशन	800.00	–
0000 A	201	व्युत्पत्ति विज्ञान और आचार्य यास्क	डॉ० रामाशीष पाण्डेय	अमर स्वामी प्रकाशन	800.00	–
0000 A	202	विश्व में वैदिक सभ्यता	भलेराम बैनीवाल	अमर स्वामी प्रकाशन	200.00	–
0000 A	203	वैदिक वांग्मय का इतिहास (तीनों भाग)	पं० भगवद्दत रिसर्चस्कॉलर	अमर स्वामी प्रकाशन	1800.00	–
0000 A	204	भाषा का इतिहास	पं० भगवद्दत रिसर्चस्कॉलर	अमर स्वामी प्रकाशन	250.00	–
0000 A	205	भारतीय संस्कृति का इतिहास	पं० भगवद्दत रिसर्चस्कॉलर	अमर स्वामी प्रकाशन	200.00	–
0000 A	206	अथर्ववेदीय पंचपटलिका	पं० भगवद्दत रिसर्चस्कॉलर	अमर स्वामी प्रकाशन	100.00	–
0000 A	207	अथर्ववेदीय माण्डूकीय शिक्षा	पं० भगवद्दत रिसर्चस्कॉलर	अमर स्वामी प्रकाशन	100.00	–
0000 A	208	गीता रहस्य (कर्मयोग शास्त्र)	बाल गंगाधर तिलक	अमर स्वामी प्रकाशन	175.00	–
0000 A	209	कोटलीय अर्थशास्त्र	आचार्य उदयवीर शास्त्री	अमर स्वामी प्रकाशन	1500.00	–
0000 A	210	वेदार्थ कल्पद्रुम (3 भाग)	आचार्य विशुद्धानन्द	अमर स्वामी प्रकाशन	1000.00	–
0000 A	211	चारों वेद (मूल तथा हिन्दी भाष्य)	भाष्यकार : महर्षि दयानन्द, दामोदर सातवलेकर एवं स्वामी ब्रह्ममुनि	अमर स्वामी प्रकाशन	4000.00	–
0000 A	212	निरूक्त भाष्य (निघण्टु सहित)	पं० देवदत्त शर्मा तथा पं० छज्जू राम शास्त्री	अमर स्वामी प्रकाशन	1200.00	–
0000 A	213	वैदिक इतिहास विमर्श	डॉ० रघुवीर वेदालंकार	अमर स्वामी प्रकाशन	550.00	–
0000 A	214	अर्थ वेदः (वेदेषु वायुर्विज्ञानम्)	डॉ० हरवीर सिंह	अमर स्वामी प्रकाशन	1200.00	–
0000 A	215	पौराणिक गप्प दीपिका	डॉ० श्रीराम आर्य	अमर स्वामी प्रकाशन	14.00	–
0000 A	216	हिन्दू श्रेष्ठता	हरविलास शारदा	अमर स्वामी प्रकाशन	600.00	–
0000 A	217	यदि आचार्य चाणक्य प्रधानमंत्री होते?	प्रौ० इन्द्र विद्यावाचस्पति	अमर स्वामी प्रकाशन	10.00	–
0000 A	218	तुलसी और शालिग्राम	डॉ० श्रीराम आर्य	अमर स्वामी प्रकाशन	10.00	–
0000 A	219	यज्ञ विज्ञान	पं० सत्यपाल जिज्ञासु	अमर स्वामी प्रकाशन	100.00	–
0000 A	220	संस्कृत वांग्मय में वैदिक ऋषिकाएं	पं० सत्यपाल जिज्ञासु	अमर स्वामी प्रकाशन	350.00	–
0000 A	221	पातन्जल योग दर्शन	शतीस आर्य	अमर स्वामी प्रकाशन	1200.00	–
0000 A	222	कर्म एवं कर्मफल मिमांसा	शतीस आर्य	अमर स्वामी प्रकाशन	715.00	–
0000 A	223	वैदिक यज्ञ विज्ञान	डॉ० श्रीराम आर्य	अमर स्वामी प्रकाशन	50.00	–
0000 A	224	ब्रह्मचर्य ही जीवन है	स्वामी शिवानन्द	अमर स्वामी प्रकाशन	40.00	–

0000 A	225	कौन कहता है कर्ण कुन्ती का पुत्र था?	यशपाल आर्य	अमर स्वामी प्रकाशन	50.00	–
0000 A	226	चतुर्वेद उद्यान शतक	श्रीमती सुबोध मलिक आर्या	अमर स्वामी प्रकाशन	300.00	–
0000 A	227	याज्ञवल्क्य शिक्षा	स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक	अमर स्वामी प्रकाशन	40.00	–
0000 A	228	वैराग्य पथ	डॉ० मुमुक्षु आर्य	अमर स्वामी प्रकाशन	50.00	–
0000A	229	सत्यार्थ प्रकाश संदेश	डॉ० मुमुक्षु आर्य	अमर स्वामी प्रकाशन	40.00	–
0000 A	230	Wisdom of The Rishis	Pt. Gurudutta Vidyarthi M.A.	अमर स्वामी प्रकाशन	300.00	–
0000 A	231	Caste-System	Pt. Ganga Prasad - Chief Justice	अमर स्वामी प्रकाशन	20.00	–
0000 A	232	वृक्षों में जीव नहीं	आचार्य विश्वबंधु शास्त्री	अमर स्वामी प्रकाशन	50.00	–
0000 A	233	यजुर्वेदीय काण्व संहिता (मूल)	पं० दामोदर सातवलेकर	अमर स्वामी प्रकाशन	600.00	–
0000 A	234	यजुर्वेदीय काठक संहिता (मूल)	पं० दामोदर सातवलेकर	अमर स्वामी प्रकाशन	800.00	–
0000 A	235	यजुर्वेदीय मैत्रायणी संहिता (मूल)	पं० दामोदर सातवलेकर	अमर स्वामी प्रकाशन	800.00	–
0000 A	236	यजुर्वेद संहिता (मूल)	पं० दामोदर सातवलेकर	अमर स्वामी प्रकाशन	300.00	–
0000 A	237	अथर्ववेद संहिता (मूल)	पं० दामोदर सातवलेकर	अमर स्वामी प्रकाशन	800.00	–
0000 A	238	ऋग्वेद संहिता (मूल)	पं० दामोदर सातवलेकर	अमर स्वामी प्रकाशन	1800.00	–
0000 A	239	सामवेद संहिता (मूल)	पं० दामोदर सातवलेकर	अमर स्वामी प्रकाशन	600.00	–
0000 A	240	यजुर्वेद (मूल तथा हिन्दी व्याख्या सहित)	पं० दामोदर सातवलेकर	अमर स्वामी प्रकाशन	1600.00	–
0000 A	241	सामवेद (मूल तथा हिन्दी व्याख्या सहित)	पं० दामोदर सातवलेकर	अमर स्वामी प्रकाशन	1600.00	–
0000 A	242	अथर्ववेद (4 भाग संपूर्ण) मूल तथा हिन्दी व्याख्या सहित	पं० दामोदर सातवलेकर	अमर स्वामी प्रकाशन	4150.00	–
0000 A	243	ऋग्वेद (4 भाग संपूर्ण) मूल तथा हिन्दी व्याख्या सहित	पं० दामोदर सातवलेकर	अमर स्वामी प्रकाशन	4100.00	–
0000 A	244	यजुर्वेद : भाषा भाष्य (2 भागों में पूर्ण)	श्री पण्डित जयदेव शर्मा	अमर स्वामी प्रकाशन	150.00	–
0000 A	245	अथर्ववेद : भाषा भाष्य (4 भागों में पूर्ण)	श्री पण्डित जयदेव शर्मा	अमर स्वामी प्रकाशन	150.00	–
0000 A	246	ऋग्वेद : भाषा भाष्य (7 भागों में पूर्ण)	श्री पण्डित जयदेव शर्मा	अमर स्वामी प्रकाशन	150.00	–
0000 A	247	सामवेद : भाषा भाष्य (फोटो कॉपी)	श्री पण्डित जयदेव शर्मा	अमर स्वामी प्रकाशन	800.00	–
0000 A	248	गायत्री मंत्र तथ बीच में ओ३म्	प्रतीक	अमर स्वामी प्रकाशन	1100.00	–
0000 A	249	सृष्टि का इतिहास	अमर शहीद पं० लेखराम आर्य मुसाफिर	अमर स्वामी प्रकाशन		–
0000 A	250	निर्णय के तट पर (छठा भाग)	अमर स्वामी सरस्वती तथा लाजपत राय अग्रवाल	अमर स्वामी प्रकाशन		–
0000 A	251	वेद में भौतिक विज्ञान (शोध ग्रंथ)	डॉ० ऋचा योगमयी	अमर स्वामी प्रकाशन		–
0000 A	252	वैदिक विवाह पद्धति	आचार्य गंगाधर शास्त्री – पटना	अमर स्वामी प्रकाशन		–
0000 A	253	गीता संदेश	अवधेश शर्मा	अमर स्वामी प्रकाशन		–
0000 A	254	जादू विद्या रहस्य		अमर स्वामी प्रकाशन		–
0000 A	255	अद्वैतवाद मिंमासा	डॉ० श्रीराम आर्य	अमर स्वामी प्रकाशन		–
0000 A	256	सनातन धर्म में नियोग व्यवस्था	डॉ० श्रीराम आर्य	अमर स्वामी प्रकाशन		–
0000 A	257	जेन्दअवेस्ता (पारसी मत का धर्मग्रंथ)	जरदुश्थ	अमर स्वामी प्रकाशन		–
0000A	258	ईश्वर सिद्धि	डॉ० श्रीराम आर्य	अमर स्वामी प्रकाशन		–
0000 A	259	वाल्मीकि रामायण	पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय	अमर स्वामी प्रकाशन		–
0000 A	260	A Handbook of Virasaivism	S.C. Nandimath	अमर स्वामी प्रकाशन	50.00	–
0000 A	261	Myth and Reality	D.D. Kosambi	अमर स्वामी प्रकाशन	28.00	–
0000 A	262	Slavery in Ancient India	Dev Raj Chanana	अमर स्वामी प्रकाशन	25.00	–
0000 A	263	Indian Epigraphy	D.C. Sarcar	अमर स्वामी प्रकाशन	175.00	–
0000 A	264	What is Hinduism?	Mahatama Gandhi	अमर स्वामी प्रकाशन	27.00	–
0000 A	265	Myth and Reality	D.D. Kosambi	अमर स्वामी प्रकाशन	450.00	–
0000 A	266	वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति (द्वि. सं.)	म.म. पं० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	115.00	–
0000 A	267	कथासरित्सागर (संस्कृति मूल–सह हिन्दी–अनुवाद) (प्र.खं., द्वि.सं.)	अनु. पं० केदारनाथ शर्मा सारस्वत	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	350.00	–
0000 A	268	कथासरित्सागर (संस्कृति मूल–सह हिन्दी–अनुवाद) (द्वि.खं., द्वि.सं.)	अनु. पं० केदारनाथ शर्मा सारस्वत	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	250.00	–

0000 A	269	कथासरित्सागर (संस्कृति मूल–सह हिन्दी–अनुवाद) (तृतीय खंड)	अनु. पं० जटाशंकर झा तथा पं० प्रफुल्लचन्द्र ओझ्म 'मुक्त'	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	350.00	–
0000 A	270	दोहाकोश (सिद्ध सरहपादण्त)	म. पं० राहुल सांस्कृत्यायन	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	110.00	–
0000 A	271	हर्षचरित : एक सांस्त्रतिक अध्ययन (द्वि. सं.)	डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	150.00	–
0000 A	272	काव्यमीमांसा	अनु.पं० केदारनाथ शर्मा सारस्वत	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	150.00	–
0000 A	273	हिन्दी को मराठी संतों की देन	आचार्य विनयमोहन शर्मा	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	260.00	–
0000 A	274	रामभक्ति साहित्य में मधुर उपासना (द्वि. सं.)	डॉ० भुवनेश्वर मिश्र 'माधव'	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	50.00	–
0000 A	275	रहीम साहित्य की भूमिका	डॉ० बमबम सिंह 'नीलकमल'	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	40.00	–
0000 A	276	दक्खिनी हिन्दी काव्यधारा	महापण्डित राहुल सांस्कृत्यायन	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	325.00	–
0000 A	277	सन्तकवि दरिया : एक अनुशीलन	डॉ० धमेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	200.00	–
0000 A	278	दरिया ग्रंथावली (द्वितीय ग्रंथ)	डॉ० धमेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	225.00	–
0000 A	279	संतमत का सरभंग संप्रदाय	डॉ० धमेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	200.00	–
0000 A	280	जातककालीन भारतीय संस्कृति	पं० मोहनलाल महतो 'वियोगी'	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	150.00	–
0000 A	281	हिन्दू धार्मिक कथाओं के भौतिक अर्थ (द्वि.सं.)	श्री त्रिवेणी प्रसाद सिंह, आई. सी.एस.	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	70.00	–
0000 A	282	रंगनाथ रामायण (द्वि.सं.)	अनु.ए.सं. कामाक्षिराव	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	70.00	–
0000 A	283	कम्बरामायण	अनु.श्री.न.वि. राजगोपालन	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	200.00	–
0000 A	284	कम्बरामायण	अनु.श्री.न.वि. राजगोपालन	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	260.00	–
0000 A	285	गोस्वामी तुलसीदास	श्री शिवनन्दन सहाय	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	140.00	–
0000 A	286	सदलमिश्र–ग्रंथावली	पं. सदल मिश्र	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	20.00	–
0000A	287	विद्यापति पदावली (प्रथम भाग, तृ.सं.)		बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	250.00	–
0000 A	288	विद्यापति पदावली (द्वितीय भाग, तृ.सं.)		बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	300.00	–
0000 A	289	विद्यापति पदावली (तृतीय भाग, तृ.सं.)		बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	35.00	–
0000 A	290	भारतीय संस्कृति और साधना (प्र.खं., चतुर्थ संस्करण)	म.म. डॉ० गोपीनाथ कविराज	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	275.00	–
0000 A	291	भारतीय संस्कृति और साधना (द्वि.खं., चतुर्थ संस्करण)	म.म. डॉ० गोपीनाथ कविराज	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	150.00	–
0000 A	292	तांत्रिक वाङ्.मय में शाक्तदृष्टि (चतुर्थ संस्करण)	म.म. डॉ० गोपीनाथ कविराज	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	200.00	–
0000 A	293	तांत्रिक साधना और सिद्धांत (तृतीय संस्करण)	म.म. डॉ० गोपीनाथ कविराज अनु.पं० हंसकुमार तिवारी	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	200.00	–
0000 A	294	भारतीय साधना की धारा (द्वितीय संस्करण)	मम. डॉ० गोपीनाथ तिवारी	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	150.00	–
0000 A	295	अखण्ड महायोग का पथ और मृत्यु विज्ञान (द्वि.सं.)	मम. डॉ० गोपीनाथ तिवारी	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	60.00	–
0000 A	296	तंत्र और आगमशास्त्रों का दिग्दर्शन	मूल ले.म.म. डॉ० गोपीनाथ कविराज अनु. पं० हंसकुमार तिवारी	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	50.00	–

0000 A	297	रहस्यवाद	आचार्य परशुराम चतुर्वेदी	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	120.00	–
0000 A	298	भारतीय वाड्.मय में श्रीराधा	पं० बलदेव उपाध्याय	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	240.00	–
0000 A	299	मात्रिक छंदों का विकास	डॉ० शिवनन्दन प्रसाद	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	250.00	–
0000 A	300	हरिचरित (प्रथम खण्ड)	सं० आचार्य नलिनविलोचन शर्मा : श्री रामनारायण शास्त्री	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	150.00	–
0000 A	301	भारतीय नीति का विकास	डॉ० राजबली पाण्डेय	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	15.00	–
0000 A	302	रामजन्म	प्र.सं. डॉ० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	10.00	–
0000 A	303	सद्धर्मपुण्डरीक	अनु. डॉ० राममोहन दास	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	225.00	–
0000 A	304	गोदा गीतावली	अनु. पं० वागीशाचार्य शास्त्री	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	25.00	–
0000 A	305	पुराण परिशीलन	म.म. पं० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	150.00	–
0000 A	306	सुमति ग्रन्थावली	पं० शिवप्रसाद पाण्डेय 'सुमति'	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	40.00	–
0000 A	307	जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत	डॉ० लक्ष्मीनारायण 'सुधांशु'	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	20.00	–
0000 A	308	स्वसंवेदन	म.म. पं० गोपीनाथ कविराज	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	275.00	–
0000 A	309	भारतीय नाट्य–सिद्धांत उद्भव और विकास	डॉ० रामजी पाण्डेय	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	70.00	–
0000 A	310	नाटक और रंगमंच	डॉ० सीताराम झा 'श्याम'	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	175.00	–
0000 A	311	लीलारसतरंगिणी	सं. डॉ० परमानन्द पाण्डेय	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	50.00	–
0000 A	312	बेमन और कबीर की सामाजिक विचारधारा	डॉ० ताटि सुब्बय्या	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	25.00	–
0000 A	313	गोविन्दगीतामृत	नरेन्द्रनाथ दास	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	120.00	–
0000 A	314	धरनीदास रचनावली	डॉ० जयन्त सिंह	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	160.00	–
0000 A	315	अधयात्मः विज्ञान और काव्य	प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	160.00	–
0000A	316	सार्थवाह (द्वि.सं.)	डॉ० मोतीचन्द्र	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	30.00	–
0000 A	317	बौद्धधर्म और बिहार	पं० हवलदार त्रिपाठी 'सह्रदय'	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	120.00	–
0000 A	318	पतंजलि कालीन भारत	डॉ० प्रभुदयाल अग्निहोत्री	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	250.00	–
0000 A	319	प्राचीन भारतीय मूर्ति विज्ञान	डॉ० नीलकण्ठ पुरूषोत्तम जोशी	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	250.00	–
0000 A	320	काशी की सारस्वत साधना	म.म. डॉ० गोपीनाथ कविराज	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	35.00	–
0000 A	321	निहारिकाएं	डॉ० गोरख प्रसाद	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	225.00	–
0000 A	322	ग्रह–नक्षत्र	श्री त्रिवेणी प्रसाद सिंह, आई. सी.एस.	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	10.00	–
0000 A	323	षड्दर्शन रहस्य (द्वि.सं.)	पं० रंगनाथ पाठक	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	50.00	–
0000 A	324	स्फोट दर्शन	पं० रंगनाथ पाठक	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	170.00	–

0000 A	325	भारतीय प्रतीक–विद्या	डॉ० जनार्दन मिश्र	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	114.00	–
0000 A	326	शैवमत (द्वि.सं.)	डॉ० यदुवंशी	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	50.00	–
0000 A	327	विश्वधर्म दर्शन (द्वि.सं.)	श्री सांवलिया विहारीलाल वर्मा	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	200.00	–
0000 A	328	वाराणसी वैभव	पं० कुबेरनाथ सुकुन	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	325.00	–
0000 A	329	परमार्थ दर्शन (संक्षिप्त परिचय) भाष्कार	भाष्कर : म.म. पं० रामावतार शर्मा, प्रो० हरिमोहन झा	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	15.00	–
0000 A	330	पाञ्चरात्रागम	डॉ० राधव प्रसाद चौधरी	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	50.00	–
0000 A	331	रामचरितमानस भाषा रहस्य	डॉ० अम्बाप्रसाद 'सुमन'	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	40.00	–
0000 A	332	गोरक्ष विजय	डॉ० हरिमोहन मिश्र	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	10.50	–
0000 A	333	बुधस्वामीकृत–वृहत्कथाश्लोकसंग्रह	अनु. डॉ० रामप्रकाश पोद्दार, सं. डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	120.00	–
0000 A	334	प्राचीन भारत की सांग्रामिकता	पं० रामदीन पाण्डेय	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	325.00	–
0000 A	335	अध्यात्मयोग और चित्त विकलन	श्री वेंकटेश्वर शर्मा	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	25.00	–
0000 A	336	नेपाल : देश और संस्कृति	श्री हरिनन्दन ठाकुर आई.ए.एस.	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	210.00	–
0000 A	337	कबीर–काव्य में लोक–तत्व	डॉ० कुमार वरूण	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद	250.00	–
0000 A	338	श्री बगलामुखी रहस्यम्		श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद् दतिया	100.00	–
0000 A	339	पुरश्चरण पद्धति		श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद् दतिया	10.00	–
0000 A	340	अथर्ववेदीय ज्योतिषम्		श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद् दतिया	15.00	–
0000 A	341	नारदीय शिक्षा		श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद् दतिया	10.00	–
0000 A	342	शरभ तन्त्रम्		श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद् दतिया	70.00	–
0000 A	343	स्वरोदय विज्ञान		श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद् दतिया	15.00	–
0000 A	344	श्री मातृकाचक्र विवेकः		श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद् दतिया	45.00	–
0000A	345	कामकला विलास		श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद् दतिया	20.00	–
0000 A	346	महाविद्या चतुष्टयम्		श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद् दतिया	25.00	–
0000 A	347	तांत्रिक पंचांग		श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद् दतिया	15.00	–
0000 A	348	करूणाभरण नाटक (लच्छीराम)	संपा० डॉ० योगेन्द्रप्रताप सिंह	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	4.00	–
0000 A	349	गोरखबानी (गोरखनाथ)	संपा० डॉ० पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	150.00	–
0000 A	350	नवरसरंग (लोकमणि मिश्र)	संपा० श्री हरिमोहन मालवीय	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	4.00	–
0000 A	351	बिहारी सतसई : अनवर चन्द्रिका टीका	संपा० श्री हरिमोहन मालवीय	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	75.00	–
0000 A	352	कबीर और कबीरपंथ	संपा० डॉ० केदारनाथ द्विवेदी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	100.00	–
0000 A	353	लोमश संहिता	संपा० डॉ० गिरिजाशंकर शास्त्री	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	130.00	–

0000 A	354	तुलसी सुषमा	संपा० डॉ० रामप्रकाश अग्रवाल	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग		–
0000 A	355	नवीन तुलसी संग्रह	संपा० डॉ० माताप्रसाद गुप्त	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग		–
0000 A	356	बिहारी वैभव	संपा० डॉ० विजयपाल सिंह	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	15.00	–
0000 A	357	बिहारी संग्रह	संपा० श्री वियोगी हरि	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग		–
0000 A	358	ब्रजमाधुरीसार	संपा० श्री वियोगी हरि	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	100.00	–
0000 A	359	मीराबाई की पदावली	संपा० आचार्य परशुराम चतुर्वेदी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	80.00	–
0000 A	360	विद्यापतिका (पदसंग्रह)	संपा० डॉ० राममूर्ति त्रिपाठी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	80.00	–
0000 A	361	सूफी काव्य–संग्रह	संपा० आचार्य परशुराम चतुर्वेदी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	100.00	–
0000 A	362	सूर–पद–पंचशती	संपा० आचार्य सीताराम चतुर्वेदी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	30.00	–
0000 A	363	सूर पदावली	संपा० श्री गिरिजादत्त शुक्ल	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग		–
0000 A	364	सूर–सुषमा	संपा० डॉ० मुंशीराम शर्मा 'सोम'	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	20.00	–
0000 A	365	विद्यापति पद्यसंग्रह	श्री सतीशचन्द्र राय	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग		–
0000 A	366	दक्खिनी हिन्दी काव्य चयनिका	डॉ० रहमत उल्लाह	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	40.00	–
0000 A	367	कबीर संग्रह	संपा० आचार्य सीताराम चतुर्वेदी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	40.00	–
0000 A	368	आचार्य सायण और माधव	श्री बलदेव उपाध्याय	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	60.00	–
0000 A	369	महाकवि सूरदास और उनकी प्रतिभा	आचार्य सीताराम चतुर्वेदी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	10.00	–
0000 A	370	प्रेमघन–सर्वस्व प्रथम भाग (काव्य)	चौधरी बदरीनारायण उपाध्याय 'प्रेमघन', संपा० श्री प्रभाकेश्वरप्रसाद उपाध्याय, श्री दिनशेनारायण उपाध्याय	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	50.00	–
0000 A	371	प्रेमघन–सर्वस्व द्वितीय भाग (गद्य)	चौधरी बदरीनारायण उपाध्याय 'प्रेमघन', संपा० श्री प्रभाकेश्वरप्रसाद उपाध्याय, श्री दिनशेनारायण उपाध्याय	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	350.00	–
0000 A	372	महापुरूष शंकरदेव ब्रजबुलि ग्रन्थावली	डॉ० लक्ष्मीशंकर गुप्त	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	35.00	–
0000 A	373	स्नेही रचनावली	संपा० डॉ० प्रेमनारायण शुक्ल	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	40.00	–
0000 A	374	कवि कालिदास	श्री गणेशप्रसाद द्विवेदी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	2.00	–
0000 A	375	दमयन्ती स्वयंवर	पं० बालकृष्ण भट्ट	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग		–
0000A	376	आचार्य विष्णुगुप्त	आचार्य सीताराम चतुर्वेदी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	60.00	–
0000 A	377	नागानन्द	महाकवि हर्ष अनु० श्री गंगाधर इन्दूरकर	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग		–
0000 A	378	प्रतिज्ञा यौगंधरायण	महाकवि भास अनु० श्री हरदयालु सिंह	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	2.00	–
0000 A	379	भास के तीन नाटक (कर्णभार, दूतवाक्य एवं मध्यम व्यायोग)	महाकवि भास अनु० श्री हरदयालु सिंह	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग		–

0000 A	380	रत्नावली	महाकवि हर्ष अनु० श्री गंगाधर इन्दूरकर	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग		–
0000 A	381	शकुन्तला नाटक (मूल–अभिज्ञान शाकुन्तल)	महाकवि कालिदास अनु० राजा लक्ष्मण सिंह	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग		–
0000 A	382	स्वप्नवासवदत्ता	महाकवि भास अनु० श्री हरदयालु सिंह	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग		–
0000 A	383	अष्टदाप और वल्लभ–संप्रदाय भाग–1	डॉ० दीनदयाल गुप्त	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	150.00	–
0000 A	384	अष्टदाप और वल्लभ–संप्रदाय भाग–2	डॉ० दीनदयाल गुप्त	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	150.00	–
0000 A	385	कृष्णकाव्य में सौन्दर्यबोध एवं रसानुभूति	डॉ० मीरा श्रीवास्तव	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	50.00	–
0000 A	386	क्रांतदर्शी कवि तुलसी	श्री श्रीनारायण सिंह	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	60.00	–
0000 A	387	क्रांतिकारी तुलसी	श्री श्रीनारायण सिंह	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	40.00	–
0000 A	388	तुलसी दर्शन	डॉ० बलदेवप्रसाद मिश्र	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	150.00	–
0000 A	389	पुराणगत वेद विषयक सामग्री का समीक्षात्मक अध्ययन	डॉ० रामशंकर भट्टाचार्य	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	60.00	–
0000 A	390	मानस चिन्तन	संपा० आचार्य जानकीवल्लभ शास्त्री	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	150.00	–
0000 A	391	मानस में रीतितत्व	स्व० श्री वैद्यनाथ सिंह	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग		–
0000 A	392	मीरां और आण्डाल का तुलनात्मक अध्ययन	डॉ० ना० सुन्दरम्	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	60.00	–
0000 A	393	मीराबाई	डॉ० श्रीकृष्णलाल	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग		–
0000 A	394	रूपककार वत्सराज	डॉ० लक्ष्मणनारायण शुक्ल	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	80.00	–
0000 A	395	विचार–विमर्श	श्री चन्द्रबली पाण्डेय	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	110.00	–
0000 A	396	संस्कृत साहित्य में अन्योक्ति	डॉ० राजेन्द्र मिश्र	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	100.00	–
0000 A	397	सूर साहित्य में लोकसंस्कृति	श्री आद्याप्रसाद त्रिपाठी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	20.00	–
0000 A	398	सूर–साहित्य–संदर्भ	संपा० श्री लक्ष्मीकांत वर्मा	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	20.00	–
0000 A	399	सृजनशीलता और सौन्दर्यबोध	डॉ० निशा अग्रवाल	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	60.00	–
0000 A	400	स्वामी रामचरण : जीवनी एवं कृतियों का अध्ययन	डॉ० माधवप्रसाद पाण्डेय	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	250.00	–
0000 A	401	शाहपुरा की रामस्नेही संत काव्य परंपरा	डॉ० माधवप्रसाद पाण्डेय	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	400.00	–
0000 A	402	कालिदास की जन्मभूमि वर्तमान गढ़वाल	डॉ० शिवानन्द नौटियाल	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	450.00	–
0000 A	403	भारतेन्दुकाल का अल्पज्ञात हिन्दी गद्य साहित्य	डॉ० रामनिरंजन परिमलेन्दु	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	450.00	–
0000 A	404	कैलास मानसरोवर	स्वामी प्रणवानन्द संपा० श्री विभूति मिश्र	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	100.00	–
0000A	405	तपोभूमि	पं० रामगोपाल मिश्र संपा० श्री विभूति मिश्र	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	111.00	–
0000 A	406	दक्खिनी हिन्दी का उद्भव और विकास	डॉ० श्रीराम शर्मा	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग		–
0000 A	407	नागरी अंक और अक्षर	महामहोपाध्याय गौरीशंकर हीराचंद ओझा, पं० केशव मिश्र	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	5.00	–

0000 A	408	हिन्दी विधि शब्दावली	डॉ० मोतीबाबू	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	70.00	–
0000 A	409	अग्निपुराणम्	अनु० श्री तारिणीश झा, डॉ० घनश्याम त्रिपाठी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	600.00	–
0000 A	410	ब्रह्मपुराणम् (पूर्वभागः)	अनु० श्री तारिणीश झा	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	550.00	–
0000 A	411	ब्रह्मपुराणम् (उत्तरभागः)	अनु० श्री तारिणीश झा	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	500.00	–
0000 A	412	ब्रह्मवैवर्तपुराणम् (पूर्वभागः)	अनु० श्री तारिणीश झा	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	275.00	–
0000 A	413	ब्रह्मवैवर्तपुराणम् (उत्तरभागः)	अनु० श्री तारिणीश झा	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग		–
0000 A	414	बृहन्नारदीयपुराणम् (उत्तरभागः)	श्री तारिणीश झा	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	125.00	–
0000 A	415	मत्स्यपुराणम् (पूर्वभागः)	अनु० श्री रामप्रताप त्रिपाठी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग		–
0000 A	416	मत्स्यपुराणम् (उत्तरभागः)	अनु० श्री रामप्रताप त्रिपाठी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग		–
0000 A	417	मार्कण्डेय महापुराणम्	स्व० पं० कन्हैयालाल मिश्र	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	275.00	–
0000 A	418	वायुपुराणम्	अनु० श्री रामप्रताप त्रिपाठी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	450.00	–
0000 A	419	कूर्मपुराणम्	अनु० श्री तारिणीश झा, डॉ० तमिस्त्रा चटर्जी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	250.00	–
0000 A	420	स्कन्दपुराणम् (केदारखण्ड)	अनु० डॉ० शिवानन्द नौटियाल	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	450.00	–
0000 A	421	भविष्यमहापुराणम् (प्रथम खण्ड)	अनु० श्री बाबूराम उपाध्याय	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	500.00	–
0000 A	422	भविष्यमहापुराणम् (द्वितीय खण्ड)	अनु० श्री बाबूराम उपाध्याय	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	325.00	–
0000 A	423	भविष्यमहापुराणम् (तृतीय खण्ड)	अनु० श्री बाबूराम उपाध्याय	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	350.00	–
0000 A	424	वामनपुराण का सांस्कृतिक अध्ययन	डॉ० (श्रीमती) मालती त्रिपाठी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	100.00	–
0000 A	425	मूल रामायणम्	संपा० डॉ० प्रभात मिश्र शास्त्री	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	5.00	–
0000 A	426	पुराणों में गंगा	श्री रामप्रताप त्रिपाठी शास्त्री	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	50.00	–
0000 A	427	जातक अटठकथा (भाग–1)	अनु० श्री भदन्त आनन्द कौसल्यायन	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	325.00	–
0000 A	428	जातक अटठकथा (भाग–2)	डॉ० शिवशंकर त्रिपाठी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	325.00	–
0000 A	429	जातक अटठकथा (भाग–3)	डॉ० शिवशंकर त्रिपाठी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	325.00	–
0000 A	430	जातक अटठकथा (भाग–4)	डॉ० शिवशंकर त्रिपाठी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	325.00	–
0000 A	431	जातक अटठकथा (भाग–5)	डॉ० शिवशंकर त्रिपाठी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	325.00	–
0000 A	432	जातक अटठकथा (भाग–6)	डॉ० शिवशंकर त्रिपाठी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	325.00	–
0000 A	433	जातक अटठकथा (भाग–7)	डॉ० शिवशंकर त्रिपाठी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग		–
0000A	434	गीतिगिरीशम् (कवि नृपतिराम भट्ट कृत)	अन० डॉ० प्रभात मिश्र 'शास्त्री'	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	25.00	–
0000 A	435	शिशुपाल वध (महाकाव्य)	अनु० श्री रामप्रताप त्रिपाठी 'शास्त्री'	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	80.00	–
0000 A	436	संगीत माधवम्	गोस्वामी प्रबोधानन्द सरस्वती	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	40.00	–

0000 A	437	गीतशंकर	संपा० डॉ० प्रभात मिश्र 'शास्त्री'	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	110.00	–
0000 A	438	जानकीगीतम्	संपा० डॉ० प्रभात मिश्र 'शास्त्री'	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	50.00	–
0000 A	439	सती कण्णगी (तमिल महाकाव्य शिलप्पधिकारम् की कथा का अनुवाद)	अनु० डॉ० गोपालराम	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	1.00	–
0000 A	440	सच्च संगहो	श्री भदन्त आनन्द कौसल्यायन	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	75.00	–
0000 A	441	कौटिल्य की शासन–पद्धति	श्री भगवानदास केला	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग		–
0000 A	442	बुद्धकालीन भारतीय भूगोल	डॉ० भरतसिंह उपाध्याय	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	300.00	–
0000 A	443	श्री शंकराचार्य का आचार दर्शन	डॉ० रामानन्द तिवारी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	60.00	–
0000 A	444	हमारा धर्म और उसकी वैज्ञानिक रूपरेखा	श्री श्रीनारायण सिंह	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग		–
0000 A	445	आयुर्वेद का इतिहास	श्री अत्रिदेव विद्यालंकार	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग		–
0000 A	446	शतश्लोकी	ले० त्रिमल्लदेव	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	10.00	–
0000 A	447	मानक अंग्रेजी–हिन्दी कोश	संपा० डॉ० सत्यप्रकाश, पं० बलभद्रप्रसाद मिश्र	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	575.00	–
0000 A	448	मानक हिन्दी कोश (पांच खण्डों में)	संपा० श्री रामचन्द्र वर्मा	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	1750.00	–
0000 A	449	संक्षिप्त मानक अंग्रेजी–हिन्दी कोश	संपा० श्री राजेन्द्रसिंह गौड़	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	250.00	–
0000 A	450	रूपकों की भाषा	श्री रामगोपाल मिश्र	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	6.00	–
0000 A	451	भारतीय इतिहास, संस्कृति और समाज	संपा० डॉ० गंगासागर तिवारी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग		–
0000 A	452	भारतीय दर्शन के जीवन्त प्रश्न	संपा० प्रो० संगमलाल पाण्डेय	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	25.00	–
0000 A	453	साहित्य–संस्कृति–भाषा विशेषांक		हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	200.00	–
0000 A	454	आचार्य रामचन्द्र शुक्ल जन्मशती विशेषांक		हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	200.00	–
0000 A	455	आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी विशेषांक		हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	60.00	–
0000 A	456	प्रेमसागर (लल्लूलाल जी कृत)	सं. श्री ब्रजरत्नदास	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी		–
0000 A	457	तुलसी की जीवन भूमि	आचार्य चंद्रबली पांडेय	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	60.00	–
0000 A	458	भक्त नामावली (ध्रुवदास)	सं. बाबू राधाकृष्ण दास	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	20.00	–
0000 A	459	भीष्म पितामह	पं० द्वारका प्रसाद चतुर्वेदी	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	25.00	–
0000 A	460	जानकी मंगल नाटक	पं० शीतल प्रसाद त्रिपाठी	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	50.00	–
0000 A	461	नहुष नाटक (गिरधरदास कृत)	सं. बाबू ब्रजरत्नदास	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	35.00	–
0000 A	462	भट्ट नाटकावली	सं. श्री धनंजय भट्ट	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	20.00	–
0000A	463	सत्य हरिश्चंद्र नाटक	संपा० शिव प्रसाद मिश्र 'रूद्र'	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	40.00	–
0000 A	464	कोशोत्सव स्मरक संग्रह	सं. महामहोपाध्याय रायबहादुर	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	91.00	–
0000 A	465	चिंतामणि भाग–1	आचार्य रामचन्द्र शुक्ल	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	30.00	–

0000 A	466	चिंतामणि भाग–2	आचार्य रामचन्द्र शुक्ल	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	70.00	–
0000 A	467	त्रिवेणी (आचार्य रामचंद्र शुक्ल के तीन)	संपा० कृष्णानंद	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	30.00	–
0000 A	468	अपभ्रंश काव्य परंपरा और विद्यापति	पं० अंबादत्त पंत	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	250.00	–
0000 A	469	अर्थतत्व की भूमिका	डॉ० शिवनाथ	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	50.00	–
0000 A	470	कबीर : जीवन और दर्शन	डॉ० रामनिवास चांडक	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	125.00	–
0000 A	471	कृपाराम और उनका साहित्य	पं० सुधाकर पांडेय	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	60.00	–
0000 A	472	गंगा : हिमालय से सागर तक	अखिलेश कुमार सिंह	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	100.00	–
0000 A	473	गोस्वामी तुलसीदास	आचार्य रामचन्द्र शुक्ल	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	75.00	–
0000 A	474	गोस्वामी तुलसीदास की समन्वय साधना	श्री व्योहार राजेन्द्र सिंह	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	150.00	–
0000 A	475	घनानंद और स्वच्छंद काव्यधारा	डॉ० मनोहर लाल गौड़	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी		–
0000 A	476	घनानंद का काव्यशिल्प	डॉ० लखनपाल सिंह	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	50.00	–
0000 A	477	तुलसीदास : परिवेश, प्रेरणा, प्रतिफलन	डॉ० हरिकृष्ण अवस्थी	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	100.00	–
0000 A	478	निर्गुण साहित्य : सांस्कृतिक पृष्ठभूमि	डॉ० मोती सिंह	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	100.00	–
0000 A	479	पुरानी राजस्थानी	मू. ले. तस्सी तोरी, अनु० नामवर सिंह	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	50.00	–
0000 A	480	पुरानी हिन्दी	पं० चंद्रधर शर्मा गुलेरी	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	50.00	–
0000 A	481	मलिक मुहम्मद जायसी	आचार्य रामचन्द्र शुक्ल	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	100.00	–
0000 A	482	महात्मा बनादास का निर्गुण भक्ति काव्य	डॉ० हिमांशु शेखर सिंह	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	200.00	–
0000 A	483	मानस अनुशीलन	मू.ले. मानसमराल पं० शंभू नारायण चौबे, सं पं० सुधाकर पाण्डेय	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	250.00	–
0000 A	484	रस मीमांसा	आचार्य रामचन्द्र शुक्ल	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	75.00	–
0000 A	485	संस्कृत साहित्य का इतिहास	सेठ कन्हैया लाल पोद्दार	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	75.00	–
0000 A	486	सूत्र शैली और अपभ्रंश व्याकरण	डॉ० परममित्रशास्त्री	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	75.00	–
0000 A	487	सूरदास	आचार्य रामचन्द्र शुक्ल	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	30.00	–
0000 A	488	आर्ष प्राकृत व्याकरण	बाबू जगन्मोहन शर्मा	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	10.00	–
0000 A	489	केशव कोश भाग–1	सं. डॉ० विजयपाल सिंह	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	200.00	–
0000 A	490	केशव कोश भाग–1	सं. डॉ० विजयपाल सिंह	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	200.00	–
0000 A	491	कबीर ग्रंथावली	सं. बाबू श्याम सुंदर दास	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	120.00	–
0000A	492	कृपाराम ग्रंथावली	सं. पं० सुधाकर पांडेय	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	100.00	–
0000 A	493	गुलेरी ग्रंथावली भाग–1 (गुलेरी गरिमा ग्रंथ) (जीवनी एवं साहित्य)	सं. पं० झाबरमल शर्मा	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	150.00	–

0000 A	494	गुलेरी ग्रंथावली भाग–2 (गुलेरी ग्रंथ, पुरानी हिन्दी एवं कहानियां)		नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	150.00	–
0000 A	495	गुलेरी ग्रंथावली भाग–3 (भारतीय भाषाओं की कहानियां)	सं पं० सुधाकर पांडेय	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	150.00	–
0000 A	496	जसवंत सिंह ग्रंथावली	सं. पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	150.00	–
0000 A	497	जायसी ग्रंथावली	सं. आचार्य रामचंद्र शुक्ल	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	250.00	–
0000 A	498	गंग कवित्त	संपा. बटेकृष्ण	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	60.00	–
0000 A	499	बिहारी सतसई	संपा पं० सुधाकर पांडेय	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	600.00	–
0000 A	500	मतिराम	संपा. पं० कृष्ण बिहारी मिश्र, डॉ० ब्रजकिशोर	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	250.00	–
0000 A	501	सूरसागर (दो भागों में) भाग–1	संपा. आचार्य नंददुलारे वाजपेयी	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	400.00	–
0000 A	502	सूरसागर भाग–2		नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	400.00	–
0000 A	503	तुलसी ग्रंथावली (रामचरित मानस) भाग–1	मूल सं. आचार्य रामचंद्र शुक्ल	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	60.00	–
0000 A	504	तुलसी ग्रंथावली भाग–2	आचार्य रामचन्द्र शुक्ल	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी		–
0000 A	505	तुलसी ग्रंथावली भाग–3	लाला भगवानदीन	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी		–
0000 A	506	तुलसी ग्रंथावली भाग–4	लाला भगवानदीन	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	150.00	–
0000 A	507	दादू दयाल ग्रंथावली	सं. पं० परशुराम चतुर्वेदी	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	200.00	–
0000 A	508	नंददास ग्रंथावली	सं. बाबू ब्रजरत्नदास	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	vizkI;	–
0000 A	509	नरोत्तमदास ग्रंथावली	सं. पं. विश्वनाथ प्रसाद मिश्र	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	50.00	–
0000 A	510	नागरीदास ग्रंथावली (दो भागों में)	सं. डॉ० किशोरीलाल गुप्त	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	izfr[k.M 200-00	–
0000 A	511	प्रतापनारायण मिश्र ग्रंथावली	सं. डॉ० विजयशंकर मल्ल	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	80.00	–
0000 A	512	पृथ्वीराज रासो (दो भागों में)	सं. मोहनलाल विष्णु लाल पंड्या एवं बाबू श्यामसुंदर दास बी.ए.	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	izfr Hkkx 350-00	–
0000 A	513	बोधा ग्रंथावली	सं. पं. विश्वनाथ प्रसाद मिश्र	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	150.00	–
0000 A	514	भूषण ग्रंथावली	यामविहारी मिश्र शकदेव विहारी मिश्र	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	75.00	–
0000 A	515	रसलीन ग्रंथावली	सं. पं. सुधाकर पांडेय	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	200.00	–
0000 A	516	श्रीनिवास ग्रंथावली	सं. पं. श्रीकृष्णलाल	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	100.00	–
0000 A	517	सोमनाथ ग्रंथावली (तीन भागों में)	सं. पं. सुधाकर पांडेय	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	200.00	–
0000 A	518	अयोध्या कांड (गोस्वामी तुलसीदास)	सं. बाबू श्याम सुंदर दास	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	50.00	–
0000 A	519	कबीर वचनावली	सं. पं. अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध'	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	40.00	–
0000 A	520	कामायनी (जयशंकर प्रसाद कृत)	संयोजक, संपादन – पं० सुधाकर पाण्डेय	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	330.00	–
0000A	521	कामायनी (मूल तथा नेपाली रूपांतरण)	रूपांतरकार – ढुण्डिराज भंडारी	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	250.00	–

0000 A	522	कीर्तिलता (विद्यापति कृत)	सं. डॉ० बाबूराम सक्सेना	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	30.00	–
0000 A	523	खालिकबारी	सं. श्रीराम शर्मा	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	40.00	–
0000 A	524	खुसरो की हिन्दी कविता	सं. बाबू श्याम सुंदर दास	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	35.00	–
0000 A	525	गंगालहरी (पद्माकर कृत)	सं. पं. सुधाकर पांडेय	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	25.00	–
0000 A	526	नाथ सिद्धों की बानियां	सं. आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	50.00	–
0000 A	527	पद्यपारिजात	सं. पं. केशव प्रसाद मिश्र, डॉ० पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	20.00	–
0000 A	528	बुद्धचरित	आचार्य रामचन्द्र शुक्ल	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	40.00	–
0000 A	529	मधुमालती वार्ता (चतुर्भुजदास कृत	सं. डॉ० माता प्रसाद गुप्त	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	60.00	–
0000 A	530	रसरतन	सं० डॉ० शिवप्रसाद सिंह	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	200.00	–
0000 A	531	रामानंद की हिन्दी रचनाएं	डॉ० पीताम्बर दत्त बरथवाल	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	50.00	–
0000 A	532	लंका दहन	श्री लक्ष्मीनारायण सिंह 'ईश'	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	30.00	–
0000 A	533	लक्षदास : कृष्ण रससागर	सं. डॉ० कमलासंघवी	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	100.00	–
0000 A	534	श्री शारदा दर्शन	बलराम दुबे	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	200.00	–
0000 A	535	शिखर वंशोत्पत्ति	सं. पं. हरिनारायण शर्मा	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	50.00	–
0000 A	536	संक्षिप्त रामस्वयंबर	सं. ब्रजरत्नदास	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	40.00	–
0000 A	537	सूरसुषमा	सं. आचार्य नंददुलारे वाजपेयी	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	40.00	–
0000 A	538	हमीररासो	सं. बाबू श्याम सुंदर दास	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	40.00	–
0000 A	539	हित चौरासी व उनकी प्रेमदास कृत ब्रजभाषा टीका	सं. डॉ. विजयपाल सिंह, डॉ० चंद्रभान रावत	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	100.00	–
0000 A	540	कर्मवाद और जन्मांतर	अनु. पं. लल्ली प्रसाद पांडेय	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	50.00	–
0000 A	541	ज्ञानयोग भाग–1	स्वामी विवेकानंद	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	50.00	–
0000 A	542	पाश्चात्य दर्शनों का इतिहास	गुलाब राय	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	50.00	–
0000 A	543	प्रभुदेव वचनामृत (कन्नड़ से अनूदित)	महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	100.00	–
0000 A	544	मनोविज्ञान और शिक्षा	डॉ० पद्मा अग्रवाल	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	50.00	–
0000 A	545	वेदांत दर्शन	ले. दीवानचंद	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	50.00	–
0000 A	546	प्रतीकवाद	डॉ० पद्मा अग्रवाल	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	50.00	–
0000 A	547	भारतीय समाजवाद	डॉ० संपूर्णानंद	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	150.00	–
0000 A	548	प्राचीन भारतवर्ष की सभ्यता का इतिहास	सं. बाबू श्याम सुंदर दास, अनु. श्री गोपालदास	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	80.00	–
0000 A	549	प्राचीन मुद्रा	ले. राखालदास वंद्योपाध्याय, सं. गौरीचंद हीराचंद ओझा, अनु. रामचंद्र वर्मा	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	100.00	–

0000A	550	यात्रा विवरण (चीनी यात्री फाह्यान)	अनुवादक श्री जगन्मोहन वर्मा	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	50.00	–
0000 A	551	सुंगयुन और फारसी यात्री सुलेमान (सौदागर के यात्रा विवरण), राज्य प्रबंध शिक्षा	श्री रामचंद्र शुक्ल	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	30.00	–
0000 A	552	सिख पंथ	सरदार बलवंत सिंह स्याल सं. पद्मभूषण श्रीनारायण चतुर्वेदी	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	200.00	–
0000 A	553	हिन्दू राजतंत्र (दो भागों में)	मू.ले. काशी प्रसाद जायसवाल, अनु. श्री रामचंद्र वर्मा	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	izfr Hkkx 50-00	–
0000 A	554	अनुभूतियां	स्व० स्वामी सत्यदेव परिव्राजक	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	25.00	–
0000 A	555	आदर्श जीवन	आचार्य रामचन्द्र शुक्ल	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	40.00	–
0000 A	556	आत्मोद्धार	श्री रामचंद्र वर्मा	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	25.00	–
0000 A	557	ध्वनि संप्रदाय और उसके सिद्धांत	डॉ० भोलाशंकर व्यास	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	350.00	–
0000 A	558	परिचर्या प्रणाली	डॉ० अचल बिहारी सेठ	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	10.00	–
0000 A	559	भारतीय मूर्तिकला	श्री रायकृष्ण दास	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	50.00	–
0000 A	560	भारतीय शिष्टाचार	पं० रामनारायण मिश्र	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	15.00	–
0000 A	561	मानसरोवर और कैलाश	ले. सुशीलचंद्र भट्टाचार्य, अनु. श्री रामचंद्र वर्मा	नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी	25.00	–
0000 A	562	केशवस्मृति अंक		नागरीप्रचारिणी पत्रिका	100.00	–
0000 A	563	संपूर्णानंद स्मृति अंक		नागरीप्रचारिणी पत्रिका	100.00	–
0000 A	564	Kavyaprakasha	Sh. Nagoji Bhatta	Oriential Institute, Baroda	No. St.	–
0000 A	565	Kavyaprakasha	Sh. Manikya Chandra	Oriential Institute, Baroda	No. St.	–
0000 A	566	Ishavasyopnishad	Sh. Brahmanand	Aanand Ashram Sanstha	60.00	–
0000 A	567	Kenopnishad	Sh. Shankaranand, Narayan	Aanand Ashram Sanstha	50.00	–
0000 A	568	Kathkopnishad	Sh. Gopaliyatindra	Aanand Ashram Sanstha	70.00	–
0000 A	569	Prashnopnishad	Sh. Shankarbhashya	Aanand Ashram Sanstha, Pune	50.00	–
0000 A	570	Mundkopnishad	Sh. Shankaranand	Aanand Ashram Sanstha, Pune	30.00	–
0000 A	571	Mandukyopnishad	Sh. Shankaranand	Aanand Ashram Sanstha, Pune	120.00	–
0000 A	572	Aittareyopnishad	Sh. Shankarbhashya, Vidyaranya	Aanand Ashram Sanstha, Pune	70.00	–
0000 A	573	Taittiriyopnishad	Sh. Shankaranand	Aanand Ashram Sanstha, Pune	60.00	–
0000 A	574	Taittiriyopnishad - Bh. Tika	Sh. Sureshwaracharya	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	575	Chhandogyopnishad	Sh. Shankarbhashya/Bhagvadan	Aanand Ashram Sanstha, Pune	270.00	–
0000 A	576	Bruhadaranyakopnishad	Sh. Shankarbhashya/Bhagvadan	Aanand Ashram Sanstha, Pune	430.00	–
0000 A	577	Bruhadaranyakopnishad-1	Sureshwaracharya/Anandgir	Aanand Ashram Sanstha, Pune	180.00	–
0000 A	578	Bruhadaranyakopnishad-2	Sureshwaracharya/Anandgir	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–

0000A	579	Bruhadaranyakopnishad-3	Sureshwaracharya/Anandgir	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	580	Shvetashvataropnishad	Dip. Sh. Shankaranand Narayan	Aanand Ashram Sanstha, Pune	130.00	–
0000 A	581	Upnishadsamuchchaya	Sh. Shankaranand Narayan	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	582	Nrusinhpurvottartapniyopnishad	Sh. Vidyaranya	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	583	Bruhadaranyakopnishad-mitaks	Sh. Nityanandamuni	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	584	Ish-Ken-Kath-Prashna-Mund-Mandukya-Bhrugupnishad	Sh. Narayan tika-prakashika	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	585	Chhandogyopnishad	Sh. Rangaramanuja	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	586	Bruhadaranyakopnishad	Sh. Rangaramanuja	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	587	Ish-Ken-Kathopnishad	Sh. Digambaranuchar	Aanand Ashram Sanstha, Pune	80.00	–
0000 A	588	Chhandogyopnishad - Mitakshar	Sh. Nityanand	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	589	Dashopnishad		Aanand Ashram Sanstha, Pune	90.00	–
0000 A	590	Shataktrayam	Sh. Bhartruhary	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	591	Sanskrit-Prakrit Poets	Sh. Diskalkar	Aanand Ashram Sanstha, Pune	180.00	–
0000 A	592	Naishadhiycharita-sarg 2	Sh. Harsh	Aanand Ashram Sanstha, Pune	60.00	–
0000 A	593	Jyotirnibandha	Sh. Shivraj	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	594	Karan Kaustubha	Sh. Krushnadvaipayan	Aanand Ashram Sanstha, Pune	30.00	–
0000 A	595	Kalmadhavkarika	Sh. Madhavacharya	Aanand Ashram Sanstha, Pune	50.00	–
0000 A	596	Tithichintamani	Sh. Ganesh Daivajnya	Aanand Ashram Sanstha, Pune	30.00	–
0000 A	597	Goladhyaya-1	Sh. Bhaskaracharya-vasanabhasl	Aanand Ashram Sanstha, Pune	170.00	–
0000 A	598	Goladhyaya-2	Sh. Bhaskaracharya-vasanabhasl	Aanand Ashram Sanstha, Pune	220.00	–
0000 A	599	Bhaskariya-Bijganitam	Sh. Krushnadvaipayan	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	600	Lilavati-1	Sh. Bhaskaracharya	Aanand Ashram Sanstha, Pune	100.00	–
0000 A	601	Lilavati-2	Sh. Bhaskaracharya	Aanand Ashram Sanstha, Pune	120.00	–
0000 A	602	Grahaganitadhyaya-1	Sh. Bhaskaracharya Tikaprakash	Aanand Ashram Sanstha, Pune	170.00	–
0000 A	603	Grahaganitadhyaya-2	Sh. Bhaskaracharya Tikaprakash	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	604	Laghumanasam	Sh. Munjalacharya	Aanand Ashram Sanstha, Pune	30.00	–
0000 A	605	Kuttakarshiromani	Sh. Devraj	Aanand Ashram Sanstha, Pune	30.00	–
0000 A	606	Mahabhaskariyam	Sh. Bhaskaracharya	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	607	Laghubhaskariyam	Sh. Bhaskaracharya	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000A	608	Sanskar-Ratnamala-1	Sh. Gopinath Bhatta	Aanand Ashram Sanstha, Pune	650.00	–
0000 A	609	Sanskar-Ratnamala-2	Sh. Gopinath Bhatta	Aanand Ashram Sanstha, Pune	350.00	–
0000 A	610	Sandhyabhashya-Samuchchaya	Sh. Madhwacharya	Aanand Ashram Sanstha, Pune	130.00	–
0000 A	611	Purusharthchintamani	Sh. Vishnu Athavale	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	612	Acharbhushanam	Sh. Tryambak Oak	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–

0000 A	613	Acharendu	Sh. Tryambak Mate	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	614	Shraddhamanjari	Sh. Bapu Kelkar	Aanand Ashram Sanstha, Pune	200.00	–
0000 A	615	Yatidharm-Sangrah	Sh. Vishweshwar Sarswati	Aanand Ashram Sanstha, Pune	90.00	–
0000 A	616	Gautampranit-Dharmsutrani	Sh. Haradatta	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	617	Drahyayangruhyasutravrutti	Sh. Rudraskanda	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	618	Sanskarpaddhati	Sh. Bhaskar Abhyankar	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	619	Dharmatatvanirnay	Sh. Vasudev Abhyankar	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	620	Dharmatatvanirnay-parishishta	Sh. Vasudev Abhyankar	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	621	Prayashchittendushekhara	Sh. Nagojibhatta	Aanand Ashram Sanstha, Pune	90.00	–
0000 A	622	Ashwalayangruhyasutravrutti	Sh. Narayan	Aanand Ashram Sanstha, Pune	170.00	–
0000 A	623	Kayaparishuddhi	Sh. Vasudev Abhyankar	Aanand Ashram Sanstha, Pune	100.00	–
0000 A	624	Dattakmimamsa	Sh. Shankar Marulkar	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	625	Dattak-Chandrika	Sh. Kuber Bhatta	Aanand Ashram Sanstha, Pune	60.00	–
0000 A	626	Vyavharmala	Sh. Venkataram Sharma	Aanand Ashram Sanstha, Pune	60.00	–
0000 A	627	Dharmik-Vimarsha-Samuchchay	Sh. Marulkar Narahari	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	628	Yadnyavalkyasmruti-1	Sh. Aparaditya	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	629	Yadnyavalkyasmruti-2	Sh. Aparaditya	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	630	Smrutinam-Samuchchaya		Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	631	Smrutyarthasara	Sh. Shreedhar	Aanand Ashram Sanstha, Pune	140.00	–
0000 A	632	Kamandakiyanitisara-1	Sh. Jayamangal Upadhyaya	Aanand Ashram Sanstha, Pune	120.00	–
0000 A	633	Kamandakiyanitisara-2	Sh. Jayamangal Upadhyaya	Aanand Ashram Sanstha, Pune	140.00	–
0000 A	634	Kamandakiyanitisara-3	Sh. Jayamangal Upadhyaya	Aanand Ashram Sanstha, Pune	80.00	–
0000 A	635	Vaiyyasak-Nyayamala	Sh. Bharteetirtha	Aanand Ashram Sanstha, Pune	100.00	–
0000 A	636	Jaiminiya-Nyayamala	Sh. Madhavacharya	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000A	637	Gautampranit-Nyayasutrani	Sh. Bhashya-Vatsyayana	Aanand Ashram Sanstha, Pune	220.00	–
0000 A	638	Bhagavadgita-1	Sh. Shankaracharya	Aanand Ashram Sanstha, Pune	140.00	–
0000 A	639	Bhagavadgita-2	Sh. Shankaracharya	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	640	Bhagavadgita-Paishachbhashya	Sh. Hanuman	Aanand Ashram Sanstha, Pune	100.00	–
0000 A	641	Bhagavadgita	Sh. Vyas	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	642	Ganeshgita	Sh. Neelkantha	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	643	Bhagavadgita	Sh. Ramanujacharya	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	644	Bhagavadgita	Sh. Vasudev Abhyankar	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	645	Bhagavadgita	Sh. Ramsarvatobhadra	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	646	Gitarthadarshan (Sankshipt)	Sh. K.S. Arjunwadkar	Aanand Ashram Sanstha, Pune	80.00	–

0000 A	647	Gitarthadarshan (Vistruta)	Sh. K.S. Arjunwadkar	Aanand Ashram Sanstha, Pune	130.00	–
0000 A	648	Saurpuranam	Sh. Kashinath Lele	Aanand Ashram Sanstha, Pune	150.00	–
0000 A	649	Sutsamhita-1	Sh. Madhwacharya	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	650	Sutsamhita-2	Sh. Madhwacharya	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	651	Sutsamhita-3	Sh. Madhwacharya	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	652	Brahmpuranam	Sh. Vyas	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	653	Agnipuranam	Sh. Dvaipayan	Aanand Ashram Sanstha, Pune	320.00	–
0000 A	654	Vayupuranam	Sh. Vyas	Aanand Ashram Sanstha, Pune	230.00	–
0000 A	655	Matsyapuranam	Sh. Dvaipayan	Aanand Ashram Sanstha, Pune	300.00	–
0000 A	656	Bruhat-Brahmasamhita	Sh. Naradpancharatrantargat	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	657	Tristhalisetu	Sh. Narayan Bhatta	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	658	Brahmavaivartpuranam-1	Sh. Dvaipayan	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	659	Brahmavaivartpuranam-2	Sh. Dvaipayan	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	660	Padmapuranam-1	Sh. Vyas	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	661	Padmapuranam-2	Sh. Vyas	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	662	Padmapuranam-3	Sh. Vyas	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	663	Padmapuranam-4	Sh. Vyas	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	664	Nityashodshikarnava	Sh. Setubandhan Tika	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	665	Dnyanarnavatantram	Sh. Ishwar	Aanand Ashram Sanstha, Pune	70.00	–
0000A	666	Madhvatantramukhamardanam	Sh. Appaya Dikshit	Aanand Ashram Sanstha, Pune	130.00	–
0000 A	667	Mimamsadarshanam-1	Sh. Shabarbhashya	Aanand Ashram Sanstha, Pune	80.00	–
0000 A	668	Mimamsadarshanam-2	Sh. Shabarbhashya	Aanand Ashram Sanstha, Pune	250.00	–
0000 A	669	Mimamsadarshanam-3	Sh. Shabarbhashya	Aanand Ashram Sanstha, Pune	130.00	–
0000 A	670	Mimamsadarshanam-4	Sh. Shabarbhashya	Aanand Ashram Sanstha, Pune	320.00	–
0000 A	671	Mimamsadarshanam-5	Sh. Shabarbhashya	Aanand Ashram Sanstha, Pune	240.00	–
0000 A	672	Mimamsadarshanam-6	Sh. Shabarbhashya	Aanand Ashram Sanstha, Pune	300.00	–
0000 A	673	Mimamsadarshanam-7	Sh. Shabarbhashya	Aanand Ashram Sanstha, Pune	120.00	–
0000 A	674	Pashvalambhamimamsa	Sh. Vamanshastri Kinjavadekar	Aanand Ashram Sanstha, Pune	60.00	–
0000 A	675	Angatvaniruktih	Sh. Murari Mishra	Aanand Ashram Sanstha, Pune	80.00	–
0000 A	676	Vidhanmala	Sh. Nrusinha Bhatta	Aanand Ashram Sanstha, Pune	300.00	–
0000 A	677	Patanjal-Yogsutrani	Sh. Vachaspati Mishra	Aanand Ashram Sanstha, Pune	200.00	–
0000 A	678	Shivyogdipika	Sh. Sadashiv Yogeshwar	Aanand Ashram Sanstha, Pune	20.00	–
0000 A	679	Ganeshatharvshirsha-Satik	Sh. Vamanshastri Islampurkar	Aanand Ashram Sanstha, Pune	20.00	–
0000 A	680	Rudradhyaya	Sh. Sayanacharya	Aanand Ashram Sanstha, Pune	140.00	–

0000 A	681	Purushsuktam	Sh. Sayanacharya	Aanand Ashram Sanstha, Pune	10.00	–
0000 A	682	Aitareyabrahmanam-1	Sh. Sayanacharya	Aanand Ashram Sanstha, Pune	270.00	–
0000 A	683	Aitareyabrahmanam-2	Sh. Sayanacharya	Aanand Ashram Sanstha, Pune	250.00	–
0000 A	684	Taittiriyaranyakam-1	Sh. Sayanacharya	Aanand Ashram Sanstha, Pune	280.00	–
0000 A	685	Taittiriyaranyakam-2	Sh. Sayanacharya	Aanand Ashram Sanstha, Pune	280.00	–
0000 A	686	Taittiriyabrahmanam-1	Sh. Sayanacharya	Aanand Ashram Sanstha, Pune	370.00	–
0000 A	687	Taittiriyabrahmanam-2	Sh. Sayanacharya	Aanand Ashram Sanstha, Pune	320.00	–
0000 A	688	Taittiriyabrahmanam-3	Sh. Sayanacharya	Aanand Ashram Sanstha, Pune	180.00	–
0000 A	689	Aitareyaranyakam	Sh. Sayanacharya	Aanand Ashram Sanstha, Pune	150.00	–
0000 A	690	Taittiriyasamhita-1	Sh. Sayanacharya	Aanand Ashram Sanstha, Pune	200.00	–
0000 A	691	Taittiriyasamhita-2	Sh. Sayanacharya	Aanand Ashram Sanstha, Pune	190.00	–
0000 A	692	Taittiriyasamhita-3	Sh. Sayanacharya	Aanand Ashram Sanstha, Pune	100.00	–
0000 A	693	Taittiriyasamhita-4	Sh. Sayanacharya	Aanand Ashram Sanstha, Pune	300.00	–
0000 A	694	Taittiriyasamhita-5	Sh. Sayanacharya	Aanand Ashram Sanstha, Pune	190.00	–
0000A	695	Taittiriyasamhita-6	Sh. Sayanacharya	Aanand Ashram Sanstha, Pune	370.00	–
0000 A	696	Taittiriyasamhita-7	Sh. Sayanacharya	Aanand Ashram Sanstha, Pune	190.00	–
0000 A	697	Taittiriyasamhita-8	Sh. Sayanacharya	Aanand Ashram Sanstha, Pune	190.00	–
0000 A	698	Taittiriyasamhita-9	Sh. Sayanacharya	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	699	Shankhayanbrahmanam	Sh. Sayanacharya	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	700	Gayatripurashcharanpaddhati	Sh. Sayanacharya	Aanand Ashram Sanstha, Pune	90.00	–
0000 A	701	Shankhayanaranyakam	Sh. Sayanacharya	Aanand Ashram Sanstha, Pune	30.00	–
0000 A	702	Rudradhyaya	Sh. Vishnusuri	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	703	Niruktam-1	Sh. Yaska-Tika-Durgacharya	Aanand Ashram Sanstha, Pune	330.00	–
0000 A	704	Niruktam-2	Sh. Yaska-Tika-Durgacharya	Aanand Ashram Sanstha, Pune	240.00	–
0000 A	705	Jivanmuktivivek	Sh. Vidyaranya-Achyut Modak	Aanand Ashram Sanstha, Pune	90.00	–
0000 A	706	Brahmasutravrutti-1	Sh. Dvaipayan/Sh. Bh. Anandgiri	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	707	Brahmasutravrutti-2	Sh. Dvaipayan/Sh. Bh. Anandgiri	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	708	Shankar-Digvijay	Sh. Vidyaranya/Advaitarajlakshn	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	709	Yatindramatdipika	Sh. Shreenivas	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000A	710	Sarvadarshansangraha	Sh. Madhwacharya	Aanand Ashram Sanstha, Pune	130.00	–
0000 A	711	Brahmasutrani (Dipika-samet)	Sh. Shankaranand	Aanand Ashram Sanstha, Pune	320.00	–
0000 A	712	Brahmasutra-Bhashyarth-Ratna	Sh. Subrahmanyam	Aanand Ashram Sanstha, Pune	350.00	–
0000 A	713	Vedantsutramuktavali	Sh. Brahmanand Saraswati	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	714	Vakyavrutti	Sh. Shankaracharya	Aanand Ashram Sanstha, Pune	30.00	–

0000 A	715	Brahmasutravrutti	Sh. Hary Dikshit	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	716	Sankshepasharirakam-1	Sh. Purushottam Mishra/Subodh	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	717	Sankshepasharirakam-2	Sh. Purushottam Mishra/Subodh	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	718	Advaitamod	Sh. Vasudev Abhyankar	Aanand Ashram Sanstha, Pune	140.00	–
0000 A	719	Shankarpadbhushanam-1	Sh. Raghunath Parvate	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	720	Shankarpadbhushanam-2	Sh. Raghunath Parvate	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	721	Shrutisarsamuddharnam	Sh. Sachchidananda Yogindra	Aanand Ashram Sanstha, Pune	50.00	–
0000 A	722	Trishanchchhalokivivrutti	Sh. Raghunath Bhatta	Aanand Ashram Sanstha, Pune	150.00	–
0000 A	723	Brahmasutrasiddhantmuktavali	Sh. Vanamali	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	724	Bodhaikyasiddhi	Sh. Achyut Modak	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	725	Siddhantdarshanam	Sh. Vyas Niranjan	Aanand Ashram Sanstha, Pune	60.00	–
0000 A	726	Yoga-Ratnakar	Sh. Anna Kunte	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	727	Rasaratnasamuchchaya-Tika	Sh. Vagbhatacharya	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	728	Hastyayurveda	Sh. Palkapya	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	729	Vrundmadhavparnamsiddhayog	Sh. Vrund Shreekantha	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	730	Dhanvantariya-Rajnighantu	Sh. Trimal Bhatta	Aanand Ashram Sanstha, Pune	300.00	–
0000 A	731	Bruhodyogtarangini-1	Sh. Trimal Bhatta	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	732	Bruhodyogtarangini-2	Sh. Trimal Bhatta	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	733	Rasaratnasamuchchaya	Sh. Chintamanshastri	Aanand Ashram Sanstha, Pune	150.00	–
0000 A	734	Vaiyyakaran-siddhant-karika	Sh. Bhattoji Dikshit	Aanand Ashram Sanstha, Pune	40.00	–
0000 A	735	Paribhashendushekhara	Sh. Vaidyanath Gad	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	736	Vyakaran-Mahabhashyaudyot-1	Sh. Patanjali	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	737	Vyakaran-Mahabhashyaudyot-2	Sh. Patanjali	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	738	Vaiyyakaranbhushansara	Sh. Kaunda Bhatta	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000A	739	Suktiratnakar	Sh. Sheshanarayan	Aanand Ashram Sanstha, Pune	140.00	–
0000 A	740	Kashyapshilpam	Sh. Kashyap	Aanand Ashram Sanstha, Pune	210.00	–
0000 A	741	Satyashadhavirchit-shroutsutra-1	Sh. Mahadev	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	742	Satyashadhavirchit-shroutsutra-2	Sh. Mahadev	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	743	Satyashadhavirchit-shroutsutra-3	Sh. Mahadev	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	744	Satyashadhavirchit-shroutsutra-4	Sh. Mahadev	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	745	Satyashadhavirchit-shroutsutra-5	Sh. Mahadev	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	746	Satyashadhavirchit-shroutsutra-6	Sh. Mahadev	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	747	Satyashadhavirchit-shroutsutra-7	Sh. Mahadev	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	748	Satyashadhavirchit-shroutsutra-8	Sh. Mahadev	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–

0000 A	749	Satyashadhavirchit-shroutsutra-9	Sh. Mahadev	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	750	Satyashadhavirchit-shroutsutra-10	Sh. Mahadev	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	751	Ashwalayan-Shroutsutram	Sh. Narayan Vrutti	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	752	Agnihotra-Chandrika	Sh. Vamanshastri Kinjavadekar	Aanand Ashram Sanstha, Pune	250.00	–
0000 A	753	Darshapurnamasprakash	Sh. Vamanshastri Kinjavadekar	Aanand Ashram Sanstha, Pune	No. St.	–
0000 A	754	Adhanapaddhati	Sh. Vamanshastri Kinjavadekar	Aanand Ashram Sanstha, Pune	80.00	–
0000 A	755	Sangitratnakar-1	Sh. Sharangdev-C.Kallinath	Aanand Ashram Sanstha, Pune	250.00	–
0000 A	756	Sangitratnakar-2	Sh. Sharangdev-C.Kallinath	Aanand Ashram Sanstha, Pune	260.00	–
0000 A	757	Svarprakriya	Sh. Ramchandra Pandit	Aanand Ashram Sanstha, Pune	140.00	–
0000 A	758	Shivbharatam	Sh. Kavi Paramanand	Aanand Ashram Sanstha, Pune	100.00	–
0000 A	759	Kayamimasa		Oriential Institute, Baroda	25.00	–
0000 A	760	Rupashatakam		Oriential Institute, Baroda	35.00	–
0000 A	761	Prachin Gurjar Kavya Sangrah		Oriential Institute, Baroda	20.00	–
0000 A	762	Kumarpalpratibodha		Oriential Institute, Baroda	225.00	–
0000 A	763	Nityotasav		Oriential Institute, Baroda	170.00	–
0000 A	764	Sadhanmala-1		Oriential Institute, Baroda	300.00	–
0000 A	765	Tattvasangrah - sk - 2		Oriential Institute, Baroda	142.00	–
0000 A	766	Dictionary of Sanskrit Grammar - re. print		Oriential Institute, Baroda	380.00	–
0000 A	767	Natyashastra-1		Oriential Institute, Baroda	345.00	–
0000A	768	Apabrshkavyatri		Oriential Institute, Baroda	35.00	–
0000 A	769	Sadhanmala-2		Oriential Institute, Baroda	325.00	–
0000 A	770	Natyadarpan		Oriential Institute, Baroda	195.00	–
0000 A	771	Natyashastra-2		Oriential Institute, Baroda	450.00	–
0000 A	772	Sukutimukatavali		Oriential Institute, Baroda	207.00	–
0000 A	773	Tattavasangrah		Oriential Institute, Baroda	240.00	–
0000 A	774	Manasulhas-2		Oriential Institute, Baroda	330.00	–
0000 A	775	Madavanilkakakalaprabhanda		Oriential Institute, Baroda	45.00	–
0000 A	776	Alphabetical list of Manuscripts in Oriental Institute-1		Oriential Institute, Baroda	420.00	–
0000 A	777	Alphabetical list of Manuscripts in Oriental Institute-2		Oriential Institute, Baroda	500.00	–
0000 A	778	Aparajitpuchha		Oriential Institute, Baroda	510.00	–
0000 A	779	Gurjarrasavali		Oriential Institute, Baroda	33.00	–
0000 A	780	Rahim of Ibana Batuta		Oriential Institute, Baroda	100.00	–
0000 A	781	Natyashastra-3		Oriential Institute, Baroda	400.00	–
0000 A	782	Vishnudhomottar Puran-1		Oriential Institute, Baroda	212.00	–

0000 A	783	Vishnudhomottar Puran-2		Oriential Institute, Baroda	226.00	–
0000 A	784	Natyashastra-4		Oriential Institute, Baroda	640.00	–
0000 A	785	Kiranavali		Oriential Institute, Baroda	106.00	–
0000 A	786	Chakkamvaso		Oriential Institute, Baroda	50.00	–
0000 A	787	Gangadass pratibha natakam		Oriential Institute, Baroda	25.00	–
0000 A	788	Zafar-ul-ali-2		Oriential Institute, Baroda	100.00	–
0000 A	789	Agamapramanya		Oriential Institute, Baroda		–
0000 A	790	Smuratichatamani		Oriential Institute, Baroda	50.00	–
0000 A	791	Krityakalpatari-IX-pratishakanda		Oriential Institute, Baroda	75.00	–
0000 A	792	Nayalankar		Oriential Institute, Baroda	143.00	–
0000 A	793	Truchabhasakar		Oriential Institute, Baroda	100.00	–
0000 A	794	Pada Index of Ramayan-1		Oriential Institute, Baroda	303.00	–
0000 A	795	Gandhasara-gandhavada		Oriential Institute, Baroda	128.00	–
0000 A	796	Nayakandali		Oriential Institute, Baroda	275.00	–
0000A	797	Futh-ul-alamgiri		Oriential Institute, Baroda	287.00	–
0000 A	798	Vishvamitrimathayam		Oriential Institute, Baroda	280.00	–
0000 A	799	Pada Index of Ramayan-2		Oriential Institute, Baroda	455.00	–
0000 A	800	Alphabetical list of Manuscripts in Oriental Institute-3		Oriential Institute, Baroda	670.00	–
0000 A	801	Anumankhanda		Oriential Institute, Baroda	155.00	–
0000 A	802	Gujarat under matrikas		Oriential Institute, Baroda	110.00	–
0000 A	803	Pada Index of Ramayan-3		Oriential Institute, Baroda	310.00	–
0000 A	804	Suryaprakash of suryadeva		Oriential Institute, Baroda	265.00	–
0000 A	805	Kalandiprakash		Oriential Institute, Baroda	255.00	–
0000 A	806	Priyavadacharatiam		Oriential Institute, Baroda	140.00	–
0000 A	807	Krityakapataru-new		Oriential Institute, Baroda	265.00	–
0000 A	808	Alphabetical list of Manuscripts in Oriental Institute-4		Oriential Institute, Baroda	515.00	–
0000 A	809	Meghdutavyakhya		Oriential Institute, Baroda	170.00	–
0000 A	810	Vishnudhomottar Puran-1		Oriential Institute, Baroda	212.00	–
0000 A	811	Vishnudhomottar Puran-2		Oriential Institute, Baroda	226.00	–
0000 A	812	Cr. Ed. Of Vishnupuran-1		Oriential Institute, Baroda	270.00	–
0000 A	813	Cr. Ed. Of Vishnupuran-2		Oriential Institute, Baroda	345.00	–
0000 A	814	Markandyapuran-1		Oriential Institute, Baroda	450.00	–
0000 A	815	Markandyapuran-2		Oriential Institute, Baroda	195.00	–
0000 A	816	Cr. Ed. Of Ramayan-1 - Balkanda		Oriential Institute, Baroda	335.00	–

0000 A	817	Cr. Ed. Of Ramayan-2 - Ayodhakanda		Oriential Institute, Baroda	600.00	–
0000 A	818	Cr. Ed. Of Ramayan-3		Oriential Institute, Baroda	410.00	–
0000 A	819	Cr. Ed. Of Ramayan-4		Oriential Institute, Baroda		–
0000 A	820	Cr. Ed. Of Ramayan-5		Oriential Institute, Baroda		–
0000 A	821	Cr. Ed. Of Ramayan-6		Oriential Institute, Baroda	400.00	–
0000 A	822	Cr. Ed. Of Ramayan-7		Oriential Institute, Baroda	250.00	–
0000 A	823	Ramayan one vol set		Oriential Institute, Baroda	435.00	–
0000 A	824	Pada Index of Ramayan-1		Oriential Institute, Baroda	303.00	–
0000 A	825	Pada Index of Ramayan-2		Oriential Institute, Baroda	455.00	–
0000A	826	Pada Index of Ramayan-3		Oriential Institute, Baroda	310.00	–
0000 A	827	Two Lectures on Ramayan		Oriential Institute, Baroda	35.00	–
0000 A	828	International Seminar on Ramayan (Jour. Spl. Issue)		Oriential Institute, Baroda	60.00	–
0000 A	829	Alphabetical list of Manuscripts in Oriental Institute - 1		Oriential Institute, Baroda	420.00	–
0000 A	830	Alphabetical list of Manuscripts in Oriental Institute - 2		Oriential Institute, Baroda	500.00	–
0000 A	831	Alphabetical list of Manuscripts in Oriental Institute - 3		Oriential Institute, Baroda	670.00	–
0000 A	832	Alphabetical list of Manuscripts in Oriental Institute - 4		Oriential Institute, Baroda	515.00	–
0000 A	833	Thakar - Manuscriptology		Oriential Institute, Baroda	240.00	–
0000 A	834	Natyashastra-1		Oriential Institute, Baroda	345.00	–
0000 A	835	Natyashastra-2		Oriential Institute, Baroda	450.00	–
0000 A	836	Natyashastra-3		Oriential Institute, Baroda	400.00	–
0000 A	837	Natyashastra-4		Oriential Institute, Baroda	640.00	–
0000 A	838	Natyadarpan		Oriential Institute, Baroda	195.00	–
0000 A	839	Sitardarpan - Hindi		Oriential Institute, Baroda	73.00	–
0000 A	840	Agara Gharana - Hindi		Oriential Institute, Baroda	120.00	–
0000 A	841	Wadekar - Gopinathji		Oriential Institute, Baroda	55.00	–
0000 A	842	Pathak - Vedic Entities and Indentities		Oriential Institute, Baroda	265.00	–
0000 A	843	Godbole - Mahabharat yudha kanda		Oriential Institute, Baroda	140.00	–
0000 A	844	Nanvati - Essays on Sanskrit Poetics		Oriential Institute, Baroda	90.00	–
0000 A	845	Two Lectures on Ramayan		Oriential Institute, Baroda	35.00	–
0000 A	846	Wadekar - Sanskrit Astronomical Institutement		Oriential Institute, Baroda	42.00	–
0000 A	847	Wadekar - Sataprasnottari of Aydhyaprasada		Oriential Institute, Baroda	55.00	–
0000 A	848	Wadekar - Devi mahatmyam		Oriential Institute, Baroda	43.00	–
0000 A	849	Deshpande - Our eternal heritage		Oriential Institute, Baroda	248.00	–
0000 A	850	Wadekar - Anandakavyam		Oriential Institute, Baroda	25.00	–

0000 A	851	Vyas - Mahavakyadarsa		Oriential Institute, Baroda	19.00	–
0000 A	852	Gankarika		Oriential Institute, Baroda	320.00	–
0000 A	853	Krityakalpataru - 1		Oriential Institute, Baroda		–
0000 A	854	Krityakalpataru - 2		Oriential Institute, Baroda	2350.00	–
0000A	855	Krityakalpataru - 3		Oriential Institute, Baroda	1750.00	–
0000 A	856	Krityakalpataru - 4		Oriential Institute, Baroda	1550.00	–
0000 A	857	Krityakalpataru - 9		Oriential Institute, Baroda		–
0000 A	858	Krityakalpataru - 5		Oriential Institute, Baroda	1400.00	–
0000 A	859	Krityakalpataru - 6		Oriential Institute, Baroda	1600.00	–
0000 A	860	Krityakalpataru - 8		Oriential Institute, Baroda	1400.00	–
0000 A	861	Krityakalpataru - 10 - sudhi-kanda		Oriential Institute, Baroda	1200.00	–
0000 A	862	Krityakalpataru - 11 - raj-dharma-kanda		Oriential Institute, Baroda	1400.00	–
0000 A	863	Krityakalpataru - 12 - vyahar-kanda		Oriential Institute, Baroda	2450.00	–
0000 A	864	Krityakalpataru - 14 - moksha-kanda		Oriential Institute, Baroda	1600.00	–
0000 A	865	Agamapramanya of Yamunacarya		Oriential Institute, Baroda	800.00	–
0000 A	866	Apastambasrautasutra-II		Oriential Institute, Baroda	700.00	–
0000 A	867	Dandavivek		Oriential Institute, Baroda	1300.00	–
0000 A	868	Ganakarika		Oriential Institute, Baroda	300.00	–
0000 A	869	Ganit Tilakam		Oriential Institute, Baroda	500.00	–
0000 A	870	Linganusana		Oriential Institute, Baroda	150.00	–
0000 A	871	Manasollasa-I		Oriential Institute, Baroda	800.00	–
0000 A	872	Manasollasa-III		Oriential Institute, Baroda	800.00	–
0000 A	873	Mirat - I - Ahmadi - English supplement		Oriential Institute, Baroda		–
0000 A	874	Mirat - I - Ahmadi - English supplement		Oriential Institute, Baroda		–
0000 A	875	Mirat - I - Ahmadi - English Trans.		Oriential Institute, Baroda	3300.00	–
0000 A	876	Mirat - I - Ahmadi - I Persian text		Oriential Institute, Baroda	1600.00	–
0000 A	877	Mirat - I - Ahmadi - II Persian text		Oriential Institute, Baroda	2400.00	–
0000 A	878	Mohaparajaya		Oriential Institute, Baroda		–
0000 A	879	Naranarayananda		Oriential Institute, Baroda	350.00	–
0000 A	880	Nayakandali		Oriential Institute, Baroda		–
0000 A	881	Nispannayogavali		Oriential Institute, Baroda	800.00	–
0000 A	882	Parthaparakrama-Vyayoga		Oriential Institute, Baroda	250.00	–
0000 A	883	Parushrmkalpasutra		Oriential Institute, Baroda	2500.00	–
0000A	884	Rastraudhavamsa		Oriential Institute, Baroda	400.00	–

0000 A	885	Samarangansutra		Oriential Institute, Baroda	2500.00	–
0000 A	886	Sangitopanisat-Saroddhara		Oriential Institute, Baroda		–
0000 A	887	Shakatisangamtantra-I Kali-kanda (1)*		Oriential Institute, Baroda	800.00	–
0000 A	888	Shakatisangamtantra-II Tara-kanda (2)*		Oriential Institute, Baroda	800.00	–
0000 A	889	Shakatisangamtantra-III Sundari-kanda (3)*		Oriential Institute, Baroda	800.00	–
0000 A	890	Shakatisangamtantra-IV Chinnamasta-kanda (4)*		Oriential Institute, Baroda	800.00	–
0000 A	891	संपूर्ण रामायण : रामचरितमानस (आठों खण्ड) अर्थ सहित		रणधीर प्रकाशन	750.00	–
0000 A	892	संपूर्ण रामायण : रामचरितमानस (सुपर डीलक्स संस्करण) (आठों खण्ड) अर्थ सहित		रणधीर प्रकाशन	1000.00	–
0000 A	893	राधेश्याम रामायण (नया)		रणधीर प्रकाशन	500.00	–
0000 A	894	योगवाशिष्ठ : महारामायण (मोटे अक्षर, बड़ा आकार) हिन्दी		रणधीर प्रकाशन	600.00	–
0000 A	895	संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण : सुखसागर (बड़ा आकार) हिन्दी		रणधीर प्रकाशन	500.00	–
0000 A	896	संपूर्ण श्री शिव महापुराण (बड़ा आकार) उपासना खण्ड सहित हिन्दी		रणधीर प्रकाशन	500.00	–
0000 A	897	संपूर्ण श्रीमद् देवी भागवत महापुराण (बड़ा आकार) हिन्दी		रणधीर प्रकाशन	400.00	–
0000 A	898	संपूर्ण वाल्मीकि रामायण (सरल हिन्दी में, बड़ा आकार)		रणधीर प्रकाशन	450.00	–
0000 A	899	संपूर्ण महाभारत (बड़ा आकार, 40 रंगीन चित्रों सहित) हिन्दी		रणधीर प्रकाशन	350.00	–
0000 A	900	हनुमद् पुराण (बड़ा आकार) हिन्दी		रणधीर प्रकाशन	500.00	–
0000 A	901	गरुड़ पुराण (हिन्दी, मोटे अक्षर, बड़ा आकार)		रणधीर प्रकाशन	250.00	–
0000 A	902	प्रेम सागर – भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं (बड़ा आकार)		रणधीर प्रकाशन	350.00	–
0000 A	903	श्री हरिवंश पुराण (बड़ा आकार) हिन्दी		रणधीर प्रकाशन	400.00	–
0000 A	904	श्री विष्णु पुराण (बड़ा आकार) हिन्दी		रणधीर प्रकाशन	500.00	–
0000 A	905	कालिका पुराण (बड़ा आकार) हिन्दी		रणधीर प्रकाशन	400.00	–
0000 A	906	अग्नि पुराण नया संस्करण, (बड़ा आकार) हिन्दी		रणधीर प्रकाशन	350.00	–
0000 A	907	भविष्य पुराण (नया संस्करण, बड़ा आकार) हिन्दी		रणधीर प्रकाशन	400.00	–
0000 A	908	सूर्य पुराण (बड़ा आकार) हिन्दी		रणधीर प्रकाशन	300.00	–
0000 A	909	श्री नर्मदा पुराण (बड़ा आकार) हिन्दी (नया)		रणधीर प्रकाशन	400.00	–
0000 A	910	श्रीमद् भागवत महापुराण (सप्ताह पाठ)		रणधीर प्रकाशन	400.00	–
0000 A	911	श्रीमद् भागवत पुराण (सुखसागर) (सजिल्द)		रणधीर प्रकाशन	300.00	–
0000 A	912	श्रीमद् भागवत पुराण (सुखसागर) (कार्ड कवर) हिन्दी		रणधीर प्रकाशन	250.00	–
0000A	913	संपूर्ण शिव पुराण (कार्ड कवर) हिन्दी		रणधीर प्रकाशन	200.00	–
0000 A	914	श्री गरुड़ पुराण (हिन्दी)		रणधीर प्रकाशन	100.00	–
0000 A	915	श्री गरुड़ पुराण भाषा टीका (मोटे अक्षर)		रणधीर प्रकाशन	200.00	–
0000 A	916	श्री विष्णु पुराण (कार्ड कवर) हिन्दी		रणधीर प्रकाशन	150.00	–
0000 A	917	मार्कण्डेय पुराण (कार्ड कवर) हिन्दी		रणधीर प्रकाशन	100.00	–
0000 A	918	श्री हरिवंश पुराण (कार्ड कवर) हिन्दी		रणधीर प्रकाशन	200.00	–

0000 A	919	देवी भागवत पुराण (कार्ड कवर) हिन्दी		रणधीर प्रकाशन	200.00	–
0000 A	920	लिंग पुराण (कार्ड कवर) हिन्दी		रणधीर प्रकाशन	200.00	–
0000 A	921	श्री सूर्य पुराण (कार्ड कवर) हिन्दी		रणधीर प्रकाशन	200.00	–
0000 A	922	अग्नि पुराण (कार्ड कवर) हिन्दी		रणधीर प्रकाशन	200.00	–
0000 A	923	संपूर्ण रामायण (सरल हिन्दी) कार्ड कवर		रणधीर प्रकाशन	150.00	–
0000 A	924	संपूर्ण महाभारत (सरल हिन्दी) कार्ड कवर		रणधीर प्रकाशन	200.00	–
0000 A	925	सुंदरकाण्ड (वृहदाकार, बहुत मोटे लाल अक्षरों में)		रणधीर प्रकाशन	80.00	–
0000 A	926	सुंदरकाण्ड (वृहदाकार, बहुत मोटे लाल अक्षरों में) सजिल्द		रणधीर प्रकाशन	100.00	–
0000 A	927	सुंदरकाण्ड (भाषा टीका सहित, लाल अक्षर)		रणधीर प्रकाशन	80.00	–
0000 A	928	सुंदरकाण्ड (सम्पुट पाठ, पूजा विधि, पाठ विधि सहित)		रणधीर प्रकाशन	60.00	–
0000 A	929	सुंदरकाण्ड कथासार (सरल हिन्दी में सुंदर काण्ड पाठ) (नया)		रणधीर प्रकाशन	40.00	–
0000 A	930	सुंदरकाण्ड (96 पृष्ठ लाल अक्षर) सिल्वर संस्करण		रणधीर प्रकाशन	40.00	–
0000 A	931	सुंदरकाण्ड (96 पृष्ठ लाल अक्षर) लाल कवर		रणधीर प्रकाशन	40.00	–
0000 A	932	सुंदरकाण्ड (80 पृष्ठ लाल अक्षर)		रणधीर प्रकाशन	30.00	–
0000 A	933	सुंदरकाण्ड (80 पृष्ठ काले अक्षर)		रणधीर प्रकाशन	25.00	–
0000 A	934	सुंदरकाण्ड (डिमाई, लाल अक्षर) तांत्रिक मंत्रों सहित		रणधीर प्रकाशन	30.00	–
0000 A	935	सुंदरकाण्ड (लाल अक्षर) मध्यम		रणधीर प्रकाशन	30.00	–
0000 A	936	सुंदरकाण्ड (लाल अक्षर) गुटका		रणधीर प्रकाशन	15.00	–
0000 A	937	सुंदरकाण्ड (सुविधाजनक एवं प्रभावशाली पाठ) सजिल्द		रणधीर प्रकाशन	60.00	–
0000 A	938	लवकुश काण्ड (भाषा–टीका) डिमाई		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	939	हनुमान बाहुक भाषा–टीका (मोटे अक्षर, डिमाई) (नया)		रणधीर प्रकाशन	60.00	–
0000 A	940	रामायण के 108 मनके और रामनाम माला (बड़ा आकार) 7 X 10 इंच		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	941	रामायण के 108 मनके और रामनाम माला (गुटका, काला अक्षर)		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000A	942	रामायण के 108 मनके और रामनाम माला (गुटका, लाल अक्षर)		रणधीर प्रकाशन	30.00	–
0000 A	943	रामायण आवाहन विसर्जन (नया)		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	944	रामायण महानाटक (रामलीला नाटक) (नया)		रणधीर प्रकाशन	250.00	–
0000 A	945	श्री दुर्गा सप्तशती भाषा–टीका (चण्डी पाठ) वृहदाकार साइज 7.5 X 11 इंच		रणधीर प्रकाशन	300.00	–
0000 A	946	श्री दुर्गा सप्तशती भाषा–टीका (चण्डी पाठ) मोटे अक्षर साइज 5.5 X 7 इंच		रणधीर प्रकाशन	200.00	–
0000 A	947	श्री दुर्गा सप्तशती भाषा–टीका (डिमाई, सजिल्द)		रणधीर प्रकाशन	150.00	–
0000 A	948	श्री दुर्गा सप्तशती भाषा–टीका (चण्डी पाठ) (सजिल्द गुटका 4.5 X 5.5 इंच)		रणधीर प्रकाशन	70.00	–
0000 A	949	श्री दुर्गा सप्तशती (चण्डी पाठ) भाषा–टीका (रंगीन जिल्द) 5 X 7 इंच		रणधीर प्रकाशन	130.00	–
0000 A	950	वृहद् दुर्गा सप्तशती – बहुत मोटे अक्षर (सरल हिन्दी, साइज 7.5 X 11 इंच)		रणधीर प्रकाशन	350.00	–

0000 A	951	श्री दुर्गा सप्तशती भाषा (तांत्रिक प्रभाव वाली, हरी जिल्द)		रणधीर प्रकाशन	130.00	–
0000 A	952	श्री दुर्गा सप्तशती भाषा (हरे अक्षरों में छपी)		रणधीर प्रकाशन	150.00	–
0000 A	953	श्री दुर्गा सप्तशती भाषा (ग्लेज, रंगीन जिल्द)		रणधीर प्रकाशन	80.00	–
0000 A	954	श्री दुर्गा सप्तशती भाषा (ग्लेज, कार्ड कवर)		रणधीर प्रकाशन	60.00	–
0000 A	955	श्री दुर्गा सप्तशती भाषा (चित्रों वाली, लाल अक्षरों में छपी, सजिल्द)		रणधीर प्रकाशन	100.00	–
0000 A	956	दुर्गा पाठ हिन्दी (लाल अक्षरों में तांत्रिक प्रभाव वाला) नया 7 X 5 इंच		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	957	नवदुर्गा पाठ (हरे अक्षरों में छपी)		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	958	श्री मद्भगवद् गीता भाषा–टीका (वृहदाकार, साइज 7.5 X 11 इंच)		रणधीर प्रकाशन	200.00	–
0000 A	959	श्री मद्भगवद् गीता भाषा–टीका (डिमाई, सजिल्द)		रणधीर प्रकाशन	120.00	–
0000 A	960	वृहद् श्री मद्भगवद् गीता (सरल हिन्दी, साइज 7.5 X 11 इंच)		रणधीर प्रकाशन	350.00	–
0000 A	961	वृहद् श्री मद्भगवद् गीता (मोटा कोगज, स्पेशल एडीशन, सिल्वर जिल्द)		रणधीर प्रकाशन	180.00	–
0000 A	962	वृहद् श्री मद्भगवद् गीता (साइज 5.5 X 7 इंच, सिल्वर जिल्द)		रणधीर प्रकाशन	150.00	–
0000 A	963	श्रीमद् भगवद् गीता भाषा (सुपर डीलक्स, साइज 6 X 9 इंच)		रणधीर प्रकाशन	160.00	–
0000 A	964	श्रीमद् भगवद् गीता भाषा (डीलक्स, साइज 5 X 7 इंच)		रणधीर प्रकाशन	120.00	–
0000 A	965	श्रीमद् भगवद् गीता भाषा (लाल अक्षर)		रणधीर प्रकाशन	120.00	–
0000 A	966	श्रीमद् भगवद् गीता (224 पृष्ठ, ग्लेज, नई रंगीन जिल्द)		रणधीर प्रकाशन	100.00	–
0000 A	967	श्रीमद् भगवद गीता (भाषा–टीका) गुटका		रणधीर प्रकाशन	30.00	–
0000 A	968	श्रीमद् भगवद् गीता हिन्दी (गुटका)		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	969	श्रीमद् भगवद् गीता हिन्दी (लघु आकार)		रणधीर प्रकाशन	10.00	–
0000 A	970	श्रीमद् भगवद् गीता हिन्दी (ताबीज)		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000A	971	श्राद्ध क्यों और कैसे करें (पं० शशिमोहन बहल)		रणधीर प्रकाशन	80.00	–
0000 A	972	श्री सद्गुरु महिमा (पं० शशिमोहन बहल)		रणधीर प्रकाशन	60.00	–
0000 A	973	पितृ दोष–मातृ दोष : कारण और निवारण (पं० शशिमोहन बहल)		रणधीर प्रकाशन	70.00	–
0000 A	974	क्यों : वैदिक मान्यताओं का शाश्वत आधार (पं० शशिमोहन बहल)		रणधीर प्रकाशन	150.00	–
0000 A	975	गोरख वाणी और गोरख योग (यतीन्द्रनाथ जी महाराज)		रणधीर प्रकाशन	200.00	–
0000 A	976	रोगनाशक धार्मिक अनुष्ठान (डॉ० अनिल मोदी) (नया)		रणधीर प्रकाशन	200.00	–
0000 A	977	धन प्राप्ति के धार्मिक अनुष्ठान : (डॉ० अनिल मोदी) (नया)		रणधीर प्रकाशन	150.00	–
0000 A	978	कुण्डलिनी संकेत विद्या : ललिता सहस्रनाम (भाषा–टीका)		रणधीर प्रकाशन	200.00	–
0000 A	979	सर्वधर्म दर्शन : विश्व के प्रमुख धर्म और उनके उपदेश		रणधीर प्रकाशन	100.00	–
0000 A	980	योगवाशिष्ठ सार (अर्थात् गागर में सागर)		रणधीर प्रकाशन	200.00	–

0000 A	981	ज्ञान प्रकाश (आध्यात्मिक ज्ञान का दुर्लभ ग्रंथ)		रणधीर प्रकाशन	200.00	–
0000 A	982	चमत्कारी ओ३म महिमा एवं साधना (प्रकाशनाथ शास्त्री)		रणधीर प्रकाशन	110.00	–
0000 A	983	मन को वश में कैसे करें (डॉ० उमेशपुरी ज्ञानेश्वर)		रणधीर प्रकाशन	150.00	–
0000 A	984	श्री गुरुग्रंथ साहिब की प्रमुख वाणियां (सजिल्द)		रणधीर प्रकाशन	400.00	–
0000 A	985	स्वामी विद्यारण्यमुनि रचित – पंचदशी (अनुवादक नन्दलाल दशोरा)		रणधीर प्रकाशन	500.00	–
0000 A	986	सर्ववेदान्त सिद्धांत सार संग्रह – शंकराचार्य विरचित (नन्दलाल दशोरा)		रणधीर प्रकाशन	300.00	–
0000 A	987	श्री शंकर दिग्विजय (नन्दलाल दशोरा)		रणधीर प्रकाशन	250.00	–
0000 A	988	अपरोक्षानुभूति – शंकराचार्य विरचित (अनुवाद एवं व्याख्या : नन्दलाल दशोरा)		रणधीर प्रकाशन	200.00	–
0000 A	989	विवेक चूड़ामणि – शंकराचार्य विरचित (हिन्दी अर्थ व व्याख्या : नन्दलाल दशोरा)		रणधीर प्रकाशन	350.00	–
0000 A	990	तत्व बोध और आत्म बोध – शंकाराचार्य विरचित (नन्दलाल दशोरा)		रणधीर प्रकाशन	150.00	–
0000 A	991	गीता दर्शन : श्रीमद्भगवद गीता की संपूर्ण व्याख्या (नन्दलाल दशोरा)		रणधीर प्रकाशन	500.00	–
0000 A	992	श्री शिव गीता : शिव राघव सम्वाद (नन्दलाल दशोरा)		रणधीर प्रकाशन	400.00	–
0000 A	993	अवधूत गीता (मूल अनुवाद, व्याख्या) (नन्दलाल दशोरा)		रणधीर प्रकाशन	250.00	–
0000 A	994	श्री गुरु गीता : मूल, अनुवाद, व्याख्या (नन्दलाल दशोरा)		रणधीर प्रकाशन	220.00	–
0000 A	995	ज्ञानेश्वरी : गीतासार (नन्दलाल दशोरा) सजिल्द		रणधीर प्रकाशन	350.00	–
0000 A	996	अथ पंचीकरण : (हिन्दी व्याख्या सहित) (नन्दलाल दशोरा)		रणधीर प्रकाशन	200.00	–
0000 A	997	अध्यात्म विद्या का अमृत कलश (नन्दलाल दशोरा)		रणधीर प्रकाशन	120.00	–
0000 A	998	ज्ञान सागर : ज्ञान चिन्तकों के मर्मस्पर्शी वाक्य (नन्दलाल दशोरा)		रणधीर प्रकाशन	120.00	–
0000 A	999	आध्यात्मिक तत्व ज्ञान : जिज्ञासुओं के प्रश्न–उत्तर (नन्दलाल दशोरा)		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000A	1000	आध्यात्मिक साधना की मुख्य बातें (नन्दलाल दशोरा)		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1001	आध्यात्मिक ज्ञान के 1100 स्वर्ण सूत्र (नन्दलाल दशोरा)		रणधीर प्रकाशन	150.00	–
0000 A	1002	गीता में संपूर्ण योग : ईश्वर प्राप्ति की श्रेष्ठ साधना (नन्दलाल दशोरा)		रणधीर प्रकाशन	150.00	–
0000 A	1003	क्यों करते हैं सोलह संस्कार (नन्दलाल दशोरा)		रणधीर प्रकाशन	60.00	–
0000 A	1004	ध्यान साधना (नन्दलाल दशोरा)		रणधीर प्रकाशन	150.00	–
0000 A	1005	मन की अद्भुत शक्तियां (नन्दलाल दशोरा)		रणधीर प्रकाशन	200.00	–
0000 A	1006	ध्यान योग चिकित्सा (नन्दलाल दशोरा) (सजिल्द)		रणधीर प्रकाशन	150.00	–
0000 A	1007	ब्रह्मसूत्र : वेदान्त दर्शन (अनुवाद एवम् व्याख्या : नंदलाल दशोरा)		रणधीर प्रकाशन	300.00	–
0000 A	1008	योगवाशिष्ठ : महारामायण (नंदलाल दशोरा)		रणधीर प्रकाशन	250.00	–

0000 A	1009	योगवाशिष्ठ : महारामायण (नंदलाल दशोरा) (सजिल्द)		रणधीर प्रकाशन	300.00	–
0000 A	1010	योगवाशिष्ठ : महारामायण (मोटे अक्षर, बड़ा आकार)		रणधीर प्रकाशन	600.00	–
0000 A	1011	योगवाशिष्ठ के सिद्धांत (नंदलाल दशोरा) (सजिल्द)		रणधीर प्रकाशन	150.00	–
0000 A	1012	अष्टावक्र गीता : राजा जनक और अष्टावक्र संवाद (नंदलाल दशोरा)		रणधीर प्रकाशन	250.00	–
0000 A	1013	अष्टावक्र गीता : राजा जनक और अष्टावक्र संवाद (सजिल्द)		रणधीर प्रकाशन	300.00	–
0000 A	1014	अष्टावक्र गीता : मूल, अनुवाद, व्याख्या एवं काव्यानुवाद (नंदलाल दशोरा) (बड़ा आकार, मोटे अक्षर, डीलक्स एडीशन, सजिल्द)		रणधीर प्रकाशन	400.00	–
0000 A	1015	मानसिक शांति और आत्मिक आनन्द (नंदलाल दशोरा) (नया)		रणधीर प्रकाशन	150.00	–
0000 A	1016	विज्ञान भैरव (रुद्रयामल तंत्र का गूढ़ रहस्य) (नंदलाल दशोरा) (नया)		रणधीर प्रकाशन	200.00	–
0000 A	1017	जीवन और ज्योतिष (नंदलाल दशोरा) (नया)		रणधीर प्रकाशन	200.00	–
0000 A	1018	आत्मा : स्वरूप, जीवन यात्रा, मोक्ष प्राप्ति (नया) (नंदलाल दशोरा और दया कृष्ण शर्मा)		रणधीर प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1019	आत्मज्ञान की विधियां : योग से व तंत्र से ज्ञान प्राप्ति (नंदलाल दशोरा)		रणधीर प्रकाशन	150.00	–
0000 A	1020	जीवन में सुख की खोज (नंदलाल दशोरा)		रणधीर प्रकाशन	70.00	–
0000 A	1021	योग साधना–प्राणायाम विधि और ध्यान से लाभ (नंदलाल दशोरा)		रणधीर प्रकाशन	60.00	–
0000 A	1022	अध्यात्म : विज्ञान और धर्म (नंदलाल दशोरा)		रणधीर प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1023	कर्मफल और पुनर्जन्म (नंदलाल दशोरा)		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1024	आत्मज्ञान की साधना (नंदलाल दशोरा)		रणधीर प्रकाशन	60.00	–
0000 A	1025	मृत्यु और परलोक यात्रा (नंदलाल दशोरा)		रणधीर प्रकाशन	60.00	–
0000 A	1026	पातंजल योग सूत्र : योग दर्शन (हिन्दी व्याख्या सहित) (नंदलाल दशोरा)		रणधीर प्रकाशन	250.00	–
0000 A	1027	योग रहस्य : योगी का जीवन (नंदलाल दशोरा) (नया)		रणधीर प्रकाशन	150.00	–
0000 A	1028	आत्म दर्शन : क्या, क्यों, कैसे? (नंदलाल दशोरा)		रणधीर प्रकाशन	100.00	–
0000A	1029	पंचदशी (हिन्दी अनुवाद सहित) (नंदलाल दशोरा)		रणधीर प्रकाशन	500.00	–
0000 A	1030	महापुरूषों के अनमोल वचन (नंदलाल दशोरा)		रणधीर प्रकाशन	80.00	–
0000 A	1031	भारत के संत और भक्त : भगत माला (उमेशपुरी 'ज्ञानेश्वर')		रणधीर प्रकाशन	350.00	–
0000 A	1032	अष्टावक्रगीता और चर्पट पञ्जरिका : संस्कृत श्लोक एवं काव्यानुवाद (हरिहरदास त्यागी)		रणधीर प्रकाशन	60.00	–
0000 A	1033	श्री राम गीता (हिन्दी अनुवाद सहित) हरिहरदास त्यागी		रणधीर प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1034	मंत्र जाप के रहस्य और सरल प्रयोग (गोपाल राजू) (नया)		रणधीर प्रकाशन	150.00	–
0000 A	1035	कबीर अमृत वाणी (कार्ड कवर)		रणधीर प्रकाशन	150.00	–

0000 A	1036	कबीर वाणी (अनुवाद सहित) सजिल्द		रणधीर प्रकाशन	200.00	–
0000 A	1037	श्रीमद्भागवतपुराण का सार (स्वामी सर्वानन्द जी सरस्वती) (नया)		रणधीर प्रकाशन	80.00	–
0000 A	1038	सचित्र हनुमान जीवन चरित्र (16 रंगीन चित्रों सहित)		रणधीर प्रकाशन	60.00	–
0000 A	1039	प्रेमसागर (हिन्दी) सचित्र		रणधीर प्रकाशन	60.00	–
0000 A	1040	भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं और उपदेश		रणधीर प्रकाशन	60.00	–
0000 A	1041	शिव कथामृत (लेखक : सुदर्शन सिंह चक्र)		रणधीर प्रकाशन	80.00	–
0000 A	1042	शिवलिंग रहस्य और शिवतत्व (चक्र)		रणधीर प्रकाशन	60.00	–
0000 A	1043	शिवशक्ति रहस्य (योगीराज यशपाल जी)		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000A	1044	श्रद्धा का महासागर : श्री अमरनाथ (100 से अधिक रंगीन चित्रों सहित) सजिल्द		रणधीर प्रकाशन	120.00	–
0000 A	1045	श्रद्धा का महासागर : श्री अमरनाथ (साधारण संस्करण)		रणधीर प्रकाशन	60.00	–
0000 A	1046	श्री गुरु रविदास जीवन चरित्र और वचनामृत (धर्मनाथ भिक्षुक) (नया)		रणधीर प्रकाशन	120.00	–
0000 A	1047	अमरनाथ की अमर कहानी (तोते वाली) डिमाई साइज		रणधीर प्रकाशन	40.00	–
0000 A	1048	भगवान शंकर के 21 अवतार 12 शिवलिंगों की कथा		रणधीर प्रकाशन	60.00	–
0000 A	1049	शंकर विवाह और डमरू वाले बाबा की लीला		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1050	अमर कथा (शिव पार्वती विवाह)		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1051	गंगाजी की महिमा (कथाएं इतिहास स्तुति आदि)		रणधीर प्रकाशन	60.00	–
0000 A	1052	शुद्ध रामपटल (वैष्णव आचार संहिता, तुलसी माला, तिलक महात्म)		रणधीर प्रकाशन	40.00	–
0000 A	1053	ज्ञान माला (श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दी गई 121 शिक्षाएं)		रणधीर प्रकाशन	40.00	–
0000 A	1054	कबीर दोहावली (अनुवाद सहित)		रणधीर प्रकाशन	40.00	–
0000 A	1055	तुलसी दोहावली (अनुवाद सहित)		रणधीर प्रकाशन	25.00	–
0000 A	1056	सर्ववेदान्त सिद्धांत सार संग्रह – (अनुवाद नन्दलाल दशोरा)		रणधीर प्रकाशन	300.00	–
0000 A	1057	विवेक चूड़ामणि (अनुवाद नन्दलाल दशोरा)		रणधीर प्रकाशन	350.00	–
0000 A	1058	अथ पंचीकरण (अनुवाद नन्दलाल दशोरा) (नया)		रणधीर प्रकाशन	200.00	–
0000 A	1059	अपरोक्षानुभूति (अनुवाद नन्दलाल दशोरा) (नया)		रणधीर प्रकाशन	200.00	–
0000 A	1060	तत्व बोध और आत्म बोध (अनुवाद नन्दलाल दशोरा)		रणधीर प्रकाशन	150.00	–
0000 A	1061	शंकर दिग्विजय : आदिगुरू शंकराचार्य जी का जीवन (नन्दलाल दशोरा)		रणधीर प्रकाशन	250.00	–
0000 A	1062	अष्टावक्र गीता और चर्पट पंजरिका (अनुवाद हरिहरदास त्यागी)		रणधीर प्रकाशन	60.00	–
0000 A	1063	भज गोविन्दम् (चर्पट पंजरिका स्तोत्र) (हिन्दी अनुवाद सहित, गुटका)		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1064	श्री गुरु रविदास जीवन चरित्र और रविदास वचनामृत (नया)		रणधीर प्रकाशन	120.00	–
0000 A	1065	सिक्खों के दस गुरु : जीवन चरित्र और उपदेश (नया)		रणधीर प्रकाशन	150.00	–
0000 A	1066	गुरु नानक देव : जीवन और उपदेश		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1067	भगतमाला : भारत के सन्त और भक्त ('ज्ञानेश्वर') पुरस्कृत		रणधीर प्रकाशन	350.00	–

0000 A	1068	स्वामी विवेकानन्द चरित्र और उपदेश (नया)		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1069	विश्व का सर्वोच्च ज्ञान – चारों वेद (प्रमुख मंत्र और हिन्दी भावार्थ)		रणधीर प्रकाशन	500.00	–
0000 A	1070	11 ग्यारह उपनिषद् संग्रह (हिन्दी अनुवाद सहित) सजिल्द		रणधीर प्रकाशन	450.00	–
0000 A	1071	चारों वेद (वेदसार की संयुक्त सजिल्द पुस्तक) (डॉ. उमेश पुरी 'ज्ञानेश्वर')		रणधीर प्रकाशन	250.00	–
0000 A	1072	हिन्दू धर्म के छः शास्त्र – षट्दर्शनम् (नन्दलाल दशोरा)		रणधीर प्रकाशन	450.00	–
0000A	1073	गायत्री साधना और गायत्री मंत्र का गूढ़ रहस्य (एस. एम. बहल)		रणधीर प्रकाशन	120.00	–
0000 A	1074	गायत्री चालीसा (गुटका, मोटे अक्षर, रंगीन टाईटिल)		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1075	गायत्री स्तवन, गायत्री हवन और चालीसा		रणधीर प्रकाशन	15.00	–
0000 A	1076	गायत्री महामंत्र (24 गायत्री सहित, लघु पुस्तिका)		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1077	गायत्री सहस्रनाम (हिन्दी अनुवाद सहित)		रणधीर प्रकाशन	40.00	–
0000 A	1078	फेंग शुई (रंगीन चित्रों सहित) (नया)		रणधीर प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1079	वास्तुकला और भवन निर्माण (डॉ. उमेश पुरी ज्ञानेश्वर)		रणधीर प्रकाशन	200.00	–
0000 A	1080	भारतीय वास्तु शास्त्र (डॉ. उमेश पुरी ज्ञानेश्वर)		रणधीर प्रकाशन	120.00	–
0000 A	1081	वास्तुज्ञान और फेंग शुई तथा पिरामिड शक्ति		रणधीर प्रकाशन	80.00	–
0000 A	1082	सचित्र विश्वकर्मा प्रकाश (संस्कृत श्लोक और व्याख्या सहित)		रणधीर प्रकाशन	120.00	–
0000 A	1083	वास्तुशास्त्र का संपूर्ण ज्ञान : यथार्थ वास्तु (नया)		रणधीर प्रकाशन	160.00	–
0000 A	1084	दृष्टांत महासागर (सजिल्द) (चक्र व चैतन्य)		रणधीर प्रकाशन	450.00	–
0000 A	1085	दृष्टांत प्रवाह (डॉ० भरत लाल शर्मा) (नया)		रणधीर प्रकाशन	350.00	–
0000 A	1086	दृष्टान्त दिवाकर और मुक्तिमार्ग (दीनदयाल दिवाकर, भरतलाल शर्मा)		रणधीर प्रकाशन	120.00	–
0000 A	1087	दृष्टान्त दर्पण (सजिल्द, सम्पूर्ण तीनों भाग)		रणधीर प्रकाशन	220.00	–
0000 A	1088	दृष्टान्त दीपक (पुष्पावती खेतान)		रणधीर प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1089	दृष्टांत प्रकाश (चक्र और दुबे)		रणधीर प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1090	दृष्टांत दोनों भाग (सजिल्द)		रणधीर प्रकाशन	300.00	–
0000 A	1091	महानता के दृष्टांत (पुष्पावती खेतान)		रणधीर प्रकाशन	40.00	–
0000 A	1092	भगवान से प्रेम (डॉ० भरत लाल शर्मा)		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1093	ईश्वर प्राप्ति और ज्ञानवर्धक कथाएं (पुष्पावती खेतान)		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1094	मनुस्मृति (हिन्दी अनुवाद सहित)		रणधीर प्रकाशन	300.00	–
0000 A	1095	मनुस्मृति (केवल हिन्दी)		रणधीर प्रकाशन	120.00	–
0000 A	1096	सचित्र भर्तृहरि शतक (24 चित्रों सहित, बड़ा संस्करण)		रणधीर प्रकाशन	150.00	–
0000 A	1097	शुक्रनीति (हिन्दी अनुवाद सहित)		रणधीर प्रकाशन	130.00	–
0000 A	1098	चाणक्य नीति (बढ़िया कागज) नया कवर		रणधीर प्रकाशन	60.00	–
0000 A	1099	चाणक्य नीति और जीवन चरित्र (चित्रों सहित)		रणधीर प्रकाशन	150.00	–

0000 A	1100	विदुर नीति और जीवन चरित्र (चित्रों सहित)		रणधीर प्रकाशन	120.00	–
0000 A	1101	1100 स्वर्ण सूत्र (आध्यात्मिक सूक्तियां)		रणधीर प्रकाशन	150.00	–
0000A	1102	ज्ञान गंगा (वेदवाणी, शास्त्रवाणी, संतों की वाणी)		रणधीर प्रकाशन	70.00	–
0000 A	1103	सुख और शांति का सच्चा साथी		रणधीर प्रकाशन	80.00	–
0000 A	1104	बिखरे मोती – सूक्ति संग्रह (हरिहर दास त्यागी)		रणधीर प्रकाशन	70.00	–
0000 A	1105	श्रीमद्भागवत पुराण की ज्ञान वर्षा (हरिहर दास त्यागी)		रणधीर प्रकाशन	60.00	–
0000 A	1106	महापुरूषों के अनमोल वचन (नंदलाल दशोरा)		रणधीर प्रकाशन	80.00	–
0000 A	1107	तंत्र के नए प्रयोगों द्वारा – नब्बे करोड़ की बरसात (दिवेश कुमार भट्ट)		रणधीर प्रकाशन	150.00	–
0000 A	1108	असीमित नोटों की धनवर्षा (दिवेश कुमार भट्ट)		रणधीर प्रकाशन	400.00	–
0000 A	1109	दान और उपवास से रोग निवारण (आचार्य शशिमोहन बहल)		रणधीर प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1110	रहस्यमयी प्राचीन तंत्र विद्याएं (संत कमलादास)		रणधीर प्रकाशन	120.00	–
0000 A	1111	मनचाही सन्तान पुत्र या पुत्री (डॉ० अनिल मोदी)		रणधीर प्रकाशन	200.00	–
0000 A	1112	रोगनाशक धार्मिक अनुष्ठान (डॉ० अनिल मोदी)		रणधीर प्रकाशन	200.00	–
0000 A	1113	धन प्राप्ति के धार्मिक अनुष्ठान : (डॉ० अनिल मोदी)		रणधीर प्रकाशन	150.00	–
0000 A	1114	पराविद्या और इच्छाशक्ति के चमत्कार (डॉ० अनिल मोदी)		रणधीर प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1115	चमत्कार को नमस्कार : गढ़वाली मंत्र तंत्र (पं० वी.डी. पालीवाल)		रणधीर प्रकाशन	80.00	–
0000 A	1116	श्री नृसिंह तंत्र और गढ़वाली शाबर (पं० वी.डी. पालीवाल)		रणधीर प्रकाशन	120.00	–
0000 A	1117	गढ़वाल का प्राचीन तंत्रसार (पं० वी.डी. पालीवाल)		रणधीर प्रकाशन	80.00	–
0000 A	1118	नृसिंह उपासना और नृसिंह रहस्य (पं० वी.डी. पालीवाल)		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1119	मंत्र प्रकाश संहिता एवं मुद्राएं और रोगनाश (सुरेन्द्र दास 'निर्वाण')		रणधीर प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1120	मंत्र साधना में सफलता कैसे पाएं (पं० महावीर प्रसाद मिश्र)		रणधीर प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1121	पेड़ पौधों के तांत्रिक प्रयोग और चमत्कारी प्रभाव (वैद्य महावीर सिंह)		रणधीर प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1122	सर्वसिद्धि मां बगलामुखी : तांत्रिक और वैज्ञानिक विवेचन रंगीन चित्रों सहित (पं० दुर्गा प्रसाद शर्मा) (नया)		रणधीर प्रकाशन	150.00	–
0000 A	1123	कामाख्या सिद्धि और कामाख्या तंत्र (स्वामी आशुतोष गिरिजी)		रणधीर प्रकाशन	250.00	–
0000 A	1124	मां कामाख्या तांत्रिक साधना (तांत्रिक बहल)		रणधीर प्रकाशन	80.00	–
0000 A	1125	अद्भुत मंत्र सागर – तंत्र के हजारों प्रयोग और अचूक टोटके (सजिल्द)		रणधीर प्रकाशन	450.00	–
0000 A	1126	तंत्र की रहस्यमयी काली किताब (बाबा औढरनाथ तपस्वी) सजिल्द		रणधीर प्रकाशन	650.00	–
0000 A	1127	चमत्कारी 55 पूजा यंत्र (पं० कुलपति मिश्र) सजिल्द		रणधीर प्रकाशन	400.00	–
0000 A	1128	मंत्र रहस्य (सजिल्द संस्करण, मोटे कागज पर) (यशपाल जी)		रणधीर प्रकाशन	600.00	–

0000 A	1129	तांत्रिक चमत्कार : मंत्र तंत्र यंत्र महाशास्त्र (यशपाल जी)		रणधीर प्रकाशन	900.00	–
0000 A	1130	वृहद् शाबर मंत्र, शाबर तंत्र और मंत्र (योगीराज यशपाल जी)		रणधीर प्रकाशन	350.00	–
0000A	1131	दश महाविद्या तंत्र सार (योगीराज यशपाल जी)		रणधीर प्रकाशन	160.00	–
0000 A	1132	बगलामुखी महासाधना (योगीराज यशपाल जी)		रणधीर प्रकाशन	120.00	–
0000 A	1133	यंत्र विधान (योगीराज यशपाल जी) सजिल्द		रणधीर प्रकाशन	280.00	–
0000 A	1134	संकटमोचिनी कालिका सिद्धि (योगीराज यशपाल जी)		रणधीर प्रकाशन	250.00	–
0000 A	1135	206 यंत्र माला (रंगीन, सजिल्द) (योगीराज यशपाल जी) (नया)		रणधीर प्रकाशन	250.00	–
0000 A	1136	संजीवनी विद्या : महामृत्युंजय प्रयोग (योगीराज यशपालजी)		रणधीर प्रकाशन	150.00	–
0000 A	1137	श्री दुर्गा रहस्य (प्राण प्रतिष्ठा सहित) (योगीराज यशपाल जी)		रणधीर प्रकाशन	80.00	–
0000 A	1138	सिद्ध शाबर मंत्र : अष्टकर्म युक्त (योगीराज यशपाल जी)		रणधीर प्रकाशन	150.00	–
0000 A	1139	तंत्र प्रयोग – सुलभ सामग्री से सफल प्रयोग (योगीराज यशपाल जी)		रणधीर प्रकाशन	130.00	–
0000 A	1140	आदित्य ह्रदय स्त्रोत – सूर्योपासना सहित (योगीराज यशपाल जी)		रणधीर प्रकाशन	60.00	–
0000 A	1141	सृष्टि का रहस्य : दश महाविद्या, रंगीन चित्रों सहित (योगीराज यशपाल जी)		रणधीर प्रकाशन	40.00	–
0000 A	1142	हनुमान सिद्धि 16 रंगीन चित्रों सहित (योगीराज यशपाल जी)		रणधीर प्रकाशन	70.00	–
0000 A	1143	उड्डीश तंत्र (संपादन : योगीराज यशपाल जी)		रणधीर प्रकाशन	80.00	–
0000 A	1144	दत्तात्रेय तंत्र (सम्पादन : योगीराज यशपाल जी)		रणधीर प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1145	मंत्र रामायण : रामचरित मानस के सिद्ध मंत्र (योगीराज यशपाल जी)		रणधीर प्रकाशन	80.00	–
0000 A	1146	तंत्र महायोग : मेरी भक्ति गुरु की शक्ति (यो. अवतार सिंह अटवाल)		रणधीर प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1147	महाविद्या तंत्र मंत्र (योगीराज अवतार सिंह अटवाल)		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1148	सचित्र तांत्रिक जड़ी बूटी दर्शन (योगीराज अवतार सिंह अटवाल)		रणधीर प्रकाशन	120.00	–
0000 A	1149	गुरु नानक मंत्र शक्ति (योगीराज अवतार सिंह अटवाल)		रणधीर प्रकाशन	60.00	–
0000 A	1150	मंत्र पोथी (योगीराज अवतार सिंह अटवाल)		रणधीर प्रकाशन	80.00	–
0000 A	1151	बावन जंजीरा (यशपाल जी व अटवाल जी)		रणधीर प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1152	वीर हनुमान शाबर मंत्र (योगीराज अवतार सिंह अटवाल)		रणधीर प्रकाशन	200.00	–
0000 A	1153	काली विलास शाबर मंत्र (योगीराज अवतार सिंह अटवाल)		रणधीर प्रकाशन	150.00	–
0000 A	1154	मंत्र तंत्र और रत्न रहस्य (तांत्रिक बहल और पं० कपिल मोहन)		रणधीर प्रकाशन	200.00	–
0000 A	1155	तांत्रिक आक्रमणों से बचाव कैसे करें (तांत्रिक बहल)		रणधीर प्रकाशन	120.00	–
0000 A	1156	तंत्र के अचूक प्रयोग (तांत्रिक बहल)		रणधीर प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1157	पृथ्वी में गढ़ा धन कैसे पाएं (अहिबलचक्र सहित) (तांत्रिक बहल)		रणधीर प्रकाशन	120.00	–

0000 A	1158	जमीन में दबा हुआ धन पाने के सरल उपाय : भूगर्भ विद्या (तांत्रिक बहल)		रणधीर प्रकाशन	120.00	–
0000 A	1159	नाग और नागमणि (तांत्रिक बहल)		रणधीर प्रकाशन	120.00	–
0000A	1160	तंत्र मंत्र द्वारा रोग निवारण (तांत्रिक बहल)		रणधीर प्रकाशन	80.00	–
0000 A	1161	गोरख तंत्र (तांत्रिक बहल)		रणधीर प्रकाशन	90.00	–
0000 A	1162	मुस्लिम तंत्र (तांत्रिक बहल)		रणधीर प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1163	मृत आत्माओं से सम्पर्क और अलौकिक साधनाएं (तांत्रिक बहल)		रणधीर प्रकाशन	80.00	–
0000 A	1164	वनस्पति तंत्र (तांत्रिक बहल)		रणधीर प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1165	चमत्कारी मंत्र साधना (तांत्रिक बहल)		रणधीर प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1166	सुखी जीवन के लिए टोटके और मंत्र (तांत्रिक बहल)		रणधीर प्रकाशन	120.00	–
0000 A	1167	वशीकरण मंत्र : सुगम तांत्रिक क्रियाएं (तांत्रिक बहल)		रणधीर प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1168	तंत्र मंत्र यंत्र (चाणक्य विरचित) प्रस्तुति (तांत्रिक बहल)		रणधीर प्रकाशन	120.00	–
0000 A	1169	पराविज्ञान की साधना और सिद्धियां (तांत्रिक बहल)		रणधीर प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1170	मंत्र और तंत्र साधना के सरल प्रयोग (तांत्रिक बहल)		रणधीर प्रकाशन	150.00	–
0000 A	1171	मंत्र साधना कैसे करें (तांत्रिक बहल)		रणधीर प्रकाशन	80.00	–
0000 A	1172	तंत्र साधना कैसे करें (तांत्रिक बहल)		रणधीर प्रकाशन	80.00	–
0000 A	1173	अलौकिक तांत्रिक तरंग (के.एल. निषाद भैरमगढ़ी)		रणधीर प्रकाशन	200.00	–
0000 A	1174	उल्लू तंत्र, कौवा तंत्र और पशु–पक्षी तंत्र (के.एल. निषाद)		रणधीर प्रकाशन	150.00	–
0000 A	1175	तंत्र द्वारा मनोकामना सिद्धि (पं० भृगुनाथ मिश्र)		रणधीर प्रकाशन	120.00	–
0000 A	1176	यक्षिणी भूतिनी साधना और देवी सिद्धियां (कनकवती शोभना)		रणधीर प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1177	त्रिसूक्तम् : यंत्र और अनुवाद सहित (पं० हरिओम कौशिक)		रणधीर प्रकाशन	90.00	–
0000 A	1178	सर्वसुलभ वस्तुओं से तंत्र के सरल उपाय – सचित्र (गोपाल राजू)		रणधीर प्रकाशन	150.00	–
0000 A	1179	दुर्भाग्यनाशक टोटके और उपाय : दूर करें दुर्भाग्य (गोपाल राजू)		रणधीर प्रकाशन	120.00	–
0000 A	1180	सौभाग्य जगाने और धनवान बनने के सरल प्रयोग (गोपाल राजू)		रणधीर प्रकाशन	120.00	–
0000 A	1181	मंत्र जाप के रहस्य एवं सरल प्रयोग (गोपाल राजू)		रणधीर प्रकाशन	150.00	–
0000 A	1182	धनदायक तांत्रिक प्रयोग (गोपाल राजू) रंगीन चित्रों सहित		रणधीर प्रकाशन	60.00	–
0000 A	1183	यंत्र विद्या के 121 प्रयोग (बाबा औढरनाथ तपस्वी)		रणधीर प्रकाशन	150.00	–
0000 A	1184	मंत्र प्रयोग (बाबा औढरनाथ तपस्वी)		रणधीर प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1185	मंत्र तंत्र और टोटके (डॉ० रामकृष्ण उपाध्याय)		रणधीर प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1186	सौन्दर्य लहरी (यंत्र और व्याख्या सहित) प्रस्तुति पं० कुलपति मिश्र		रणधीर प्रकाशन	120.00	–
0000 A	1187	श्री यन्त्रम् और पूजा विधान (रंगीन पोस्टर 18 x 23 इंच सहित)		रणधीर प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1188	श्री यन्त्रम् (रंगीन, मोटा कार्ड, प्ला. लेमी., 7 x 10 इंच)		रणधीर प्रकाशन	10.00	–
0000A	1189	श्री यन्त्रम् (रंगीन, मोटा कार्ड, प्ला. लेमी., 5 x 7 इंच)		रणधीर प्रकाशन	5.00	–
0000 A	1190	विश्वकल्याण : महान् इन्द्रजाल (संपूर्ण 15 खण्ड) (नया)		रणधीर प्रकाशन	2000.00	–

0000 A	1191	सबसे बड़ा प्राचीन दुर्लभ चमत्कारी – इन्द्रजाल (7 खण्ड) (नया)		रणधीर प्रकाशन	600.00	–
0000 A	1192	असली प्राचीन इन्द्रजाल (नवखण्ड) महा इन्द्रजाल (नया)		रणधीर प्रकाशन	1100.00	–
0000 A	1193	तंत्र की रहस्यमयी काली किताब (सजिल्द)		रणधीर प्रकाशन	650.00	–
0000 A	1194	मायावी बृहद् इन्द्रजाल (चार खण्ड वाला) (सजिल्द)		रणधीर प्रकाशन	300.00	–
0000 A	1195	करामाती स्पेशल काला इन्द्रजाल (सजिल्द)		रणधीर प्रकाशन	250.00	–
0000 A	1196	पुराना बड़ा इन्द्रजाल		रणधीर प्रकाशन	160.00	–
0000 A	1197	तांत्रिक सिद्धियों का असली इन्द्रजाल		रणधीर प्रकाशन	80.00	–
0000 A	1198	मंत्र–तंत्र–यंत्र का मायाजाल		रणधीर प्रकाशन	80.00	–
0000 A	1199	गुप्त मंत्र शास्त्र और सिद्ध टोटके		रणधीर प्रकाशन	80.00	–
0000 A	1200	क्यों : वैदिक मान्यताओं का शाश्वत आधार (पं० शशिमोहन बहल)		रणधीर प्रकाशन	150.00	–
0000 A	1201	हमारे सोलह संस्कार : औचित्य एवं महत्व (नन्दलाल दशोरा)		रणधीर प्रकाशन	60.00	–
0000 A	1202	चमत्कारी ओ३म महिमा एवं साधना (प्रकाशनाथ शास्त्री)		रणधीर प्रकाशन	110.00	–
0000 A	1203	ध्यान योग चिकित्सा (नन्दलाल दशोरा) (सजिल्द)		रणधीर प्रकाशन	150.00	–
0000 A	1204	गायत्री साधना और गायत्री मंत्र का गूढ़ रहस्य (एस.एम. बहल)		रणधीर प्रकाशन	120.00	–
0000 A	1205	चमत्कारी हिप्नाटिज्म : रोगोपचार और त्राटक साधना (एस.एम. बहल)		रणधीर प्रकाशन	250.00	–
0000 A	1206	स्वरोदय विज्ञान (नासिका छिद्रों से श्वास प्रक्रिया पर आधारित)		रणधीर प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1207	शिव स्वरोदय भाषा – टीका (बाबा अनुराग दास)		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1208	स्वर शास्त्र (स्वामी हरिहरदास त्यागी)		रणधीर प्रकाशन	180.00	–
0000 A	1209	स्वरोदय के चार रत्न (बाबा अनुराग दास)		रणधीर प्रकाशन	150.00	–
0000 A	1210	स्वयं चुनिए अपना भाग्यशाली रत्न (गोपाल राजू) (नया)		रणधीर प्रकाशन	150.00	–
0000 A	1211	मंत्र–तंत्र और रत्न रहस्य (तांत्रिक बहल और प० कपिल मोहन)		रणधीर प्रकाशन	200.00	–
0000 A	1212	संपूर्ण रत्न–उपरत्न : नग नगीना ज्ञान (पं० कपिल मोहन जी)		रणधीर प्रकाशन	150.00	–
0000 A	1213	चमत्कारी रूद्राक्ष की महिमा और प्रयोग (सचित्र) (बाबा एवं उपाध्याय)		रणधीर प्रकाशन	150.00	–
0000 A	1214	रूद्राक्ष महात्म्य और धारण विधि (बाबा औढरनाथ)		रणधीर प्रकाशन	30.00	–
0000 A	1215	रत्न और रूद्राक्ष (तांत्रिक बहल)		रणधीर प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1216	रत्न परिचय और चिकित्सा विज्ञान (डॉ० उपाध्याय)		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1217	रत्नों की पहचान : परख और प्रयोग (नया)		रणधीर प्रकाशन	120.00	–
0000A	1218	रूद्राक्ष और राशि के रत्न : Rudraksh & Starstones (रत्नों के रंगीन चित्रों सहित)		रणधीर प्रकाशन	40.00	–
0000 A	1219	जन्मपत्रिका एवं पुत्र या पुत्री योग (डॉ० अनिल मोदी)		रणधीर प्रकाशन	60.00	–
0000 A	1220	मनचाही सन्तान पुत्र या पुत्री (डॉ० अनिल मोदी)		रणधीर प्रकाशन	200.00	–
0000 A	1221	ब्रह्माण्ड और ज्योतिष रहस्य : खगोल विज्ञान (नंदलाल दशोरा)		रणधीर प्रकाशन	100.00	–

0000 A	1222	सरल ज्योतिष बोध (जे. बलराजन् और पं० दीनदयाल दिवाकर)		रणधीर प्रकाशन	150.00	–
0000 A	1223	क्या आपके ग्रह खराब हैं : ज्योतिष के अचूक उपाय और स्त्रोत पाठ		रणधीर प्रकाशन	120.00	–
0000 A	1224	कालसर्प योग : निवारण के उपाय और टोटके (पं. शशि मोहन बहल)		रणधीर प्रकाशन	200.00	–
0000 A	1225	रावण संहिता और ज्योतिष के सुनहरी सिद्धांत (पं० कपिल मोहनजी)		रणधीर प्रकाशन	350.00	–
0000 A	1226	मानसागरी : भारतीय ज्योतिष का फलित महाग्रन्थ (डॉ. ज्ञानेश्वर)		रणधीर प्रकाशन	500.00	–
0000 A	1227	संपूर्ण लाल किताब और हस्तरेखा ज्ञान (सजिल्द) (डॉ. ज्ञानेश्वर)		रणधीर प्रकाशन	450.00	–
0000 A	1228	असली लाल किताब : सरल अध्ययन (डॉ. ज्ञानेश्वर)		रणधीर प्रकाशन	320.00	–
0000 A	1229	लाल किताब के अद्‌भुत टोटके एवं उपाय (डॉ. ज्ञानेश्वर)		रणधीर प्रकाशन	200.00	–
0000 A	1230	बृहज्जातक भाषा–टीका : भारतीय फलित शास्त्र (डॉ. ज्ञानेश्वर) (नया)		रणधीर प्रकाशन	300.00	–
0000 A	1231	वर्षफल विचार (डॉ. उमेश पुरी 'ज्ञानेश्वर')		रणधीर प्रकाशन	150.00	–
0000 A	1232	नवग्रह उपासना और ग्रहदोष के उपाय (डॉ. उमेशपुरी ज्ञानेश्वर)		रणधीर प्रकाशन	160.00	–
0000 A	1233	30 दिन में ज्योतिष सीखें (लेखक डॉ. ज्ञानेश्वर जी)		रणधीर प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1234	ज्योतिष गुप्त प्रश्नोत्तरी (डॉ० उमेशपुरी)		रणधीर प्रकाशन	30.00	–
0000 A	1235	ग्रह परिचय (डॉ. उमेशपुरी ज्ञानेश्वर)		रणधीर प्रकाशन	30.00	–
0000 A	1236	नक्षत्र ज्ञान (डॉ. उमेशपुरी ज्ञानेश्वर) बड़ा संस्करण (नया)		रणधीर प्रकाशन	200.00	–
0000 A	1237	लघु पाराशरी (संपादन : डॉ. उमेशपुरी ज्ञानेश्वर)		रणधीर प्रकाशन	60.00	–
0000 A	1238	लघु पाराशरी (बृहद् परिवर्द्धित संस्करण) (डॉ. उमेशपुरी ज्ञानेश्वर)		रणधीर प्रकाशन	150.00	–
0000 A	1239	जिज्ञासु के मूक प्रश्न और ज्योतिष का समाधान (संपादन : डॉ. उमेशपुरी)		रणधीर प्रकाशन	120.00	–
0000 A	1240	आपकी राशि क्या कहती है (डॉ. उमेशपुरी ज्ञानेश्वर)		रणधीर प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1241	अंक बोलते हैं (डॉ. उमेशपुर ज्ञानेश्वर)		रणधीर प्रकाशन	80.00	–
0000 A	1242	गोचर ज्योतिष (डॉ. उमेशपुर ज्ञानेश्वर) (नया बड़ा संस्करण)		रणधीर प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1243	वृहदवकहडाचक्रम् अर्थात् होड़ाचक्र (डॉ. उमेशपुर ज्ञानेश्वर)		रणधीर प्रकाशन	120.00	–
0000 A	1244	शीघ्र बोध (डॉ. उमेशपुर ज्ञानेश्वर)		रणधीर प्रकाशन	90.00	–
0000 A	1245	मुहूर्त निकालिए (डॉ. उमेशपुर ज्ञानेश्वर) (नया)		रणधीर प्रकाशन	150.00	–
0000 A	1246	भृगु सूत्रम् भाषा – टीका (डॉ. उमेशपुर ज्ञानेश्वर) (नया)		रणधीर प्रकाशन	150.00	–
0000A	1247	बृहद् पाराशर होरा शास्त्र (फलित महाग्रंथ) दो खण्डों में संपूर्ण हिन्दी अनुवाद एवं व्याख्या (डॉ. उमेशपुर ज्ञानेश्वर)		रणधीर प्रकाशन	2000.00	–
0000 A	1248	बच्चों के भाग्यशाली नाम (3500 सार्थक नामों के शब्दकोश सहित)		रणधीर प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1249	हस्तरेखा महाशास्त्र का संपूर्ण ज्ञान (सजिल्द ग्रंथ)		रणधीर प्रकाशन	600.00	–

0000 A	1250	सामुद्रिक ज्ञान : (हाथ, पैर व मस्तक रेखा, सर्वांग लक्षण, शरीर लक्षण, तिल, मस्सा और अन्य चिह्न) पंचागुली साधना (बहल) (चित्रों सहित)		रणधीर प्रकाशन	120.00	–
0000 A	1251	हस्त रेखाएं देखना कैसे सीखें (बहल) सचित्र		रणधीर प्रकाशन	90.00	–
0000 A	1252	हस्त रेखाओं के गूढ़ रहस्य (बहल) सचित्र		रणधीर प्रकाशन	60.00	–
0000 A	1253	मेडीकल पामिस्ट्री : हस्तरेखाओं से रोग की पहचान (गोपाल राजू) सचित्र		रणधीर प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1254	सचित्र शरीर लक्षण विज्ञान (बॉडी लेंग्वेज एण्ड फेस रीडिंग) बहल		रणधीर प्रकाशन	150.00	–
0000 A	1255	सरल ज्योतिष – प्रवेश (भृगुनाथ मिश्र)		रणधीर प्रकाशन	60.00	–
0000 A	1256	सरल ज्योतिष फल दीपिका (भृगुनाथ मिश्र एवं कपिल मोहनजी)		रणधीर प्रकाशन	150.00	–
0000 A	1257	कन्या की शादी शीघ्र कैसे करें (भृगुनाथ मिश्र)		रणधीर प्रकाशन	90.00	–
0000 A	1258	स्वप्न सिद्धांत (योगीराज यशपाल जी)		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1259	स्वप्न रहस्य (स्वप्न सिद्धिप्रद मंत्रों सहित) (म.प्र. मिश्र)		रणधीर प्रकाशन	60.00	–
0000 A	1260	स्वप्न फल विचार (श्रीनाथ जी)		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1261	हनुमान ज्योतिष (भविष्यज्ञान प्रश्नावली सहित)		रणधीर प्रकाशन	80.00	–
0000 A	1262	संपूर्ण राशि विचार (डॉ. उमेशपुरी 'ज्ञानेश्वर')		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1263	अंक ज्योतिष (योगीराज यशपाल जी)		रणधीर प्रकाशन	80.00	–
0000 A	1264	शकुन अपशकुन विचार (योगीराज यशपाल जी)		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1265	सात दिन में ज्योतिष ज्ञान (गोपाल राजू) (नया)		रणधीर प्रकाशन	80.00	–
0000 A	1266	ज्योतिष सर्व संग्रह (भाषा–टीका) (प्राचीन पद्धति)		रणधीर प्रकाशन	80.00	–
0000 A	1267	जन्म कुण्डली में ग्रहबाधा और निदान (पं० रामकृष्ण शर्मा 'राजर्षि')		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1268	कल्याणकारी शनिदेवता (पं० रामकृष्ण शर्मा 'राजर्षि')		रणधीर प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1269	शनिदोष निवारण (पं० कपिल मोहन और रामकृष्ण शर्मा)		रणधीर प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1270	नवग्रह पूजन विधान और अनिष्ट ग्रह निवारण (पं० कपिल मोहनजी)		रणधीर प्रकाशन	80.00	–
0000 A	1271	शुभ विवाह लग्न पत्रिका अर्थात् विवाह को चिट्ठी (रंगीन)		रणधीर प्रकाशन	30.00	–
0000 A	1272	शुभ विवाह लग्न पत्रिका अर्थात् विवाह को चिट्ठी (सस्ता)		रणधीर प्रकाशन	10.00	–
0000 A	1273	अथ जन्माक्षर (16 पृष्ठ, साइज 4.5 x 5.5 इंच)		रणधीर प्रकाशन	7.00	–
0000 A	1274	जन्म पत्रिका (16 पृष्ठ, साइज 7 x 5 इंच)		रणधीर प्रकाशन	10.00	–
0000 A	1275	जन्म पत्रिका (षड्वर्गीय) (32 पृष्ठ, साइज 8.5 x 5.5 इंच)		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000A	1276	संपूर्ण षडवर्गीय जन्म पत्रिका (बड़ा साइज, 28 पृष्ठ 9.5 x 6 इंच)		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1277	सप्तवर्गीय जन्म पत्रिका (बड़ा साइज, 40 पृष्ठ 10 x 7 इंच)		रणधीर प्रकाशन	40.00	–

0000 A	1278	सरल जन्मांग पत्रिका (बड़ा साइज, 12 पृष्ठ, 9.5 x 6 इंच)		रणधीर प्रकाशन	15.00	–
0000 A	1279	बृहद् जन्म पत्रिका (दशवर्गीय, षोडशवर्गीय, सप्तवर्गीय, 48 पृष्ठ)		रणधीर प्रकाशन	30.00	–
0000 A	1280	लग्न पत्रम् : जन्मांग टेवा (लाल टाईटिल वाला, फोल्डिंग)		रणधीर प्रकाशन	10.00	–
0000 A	1281	जन्म कुण्डली टेवा फार्म (पूरा छपा हुआ – 1)		रणधीर प्रकाशन	2.00	–
0000 A	1282	जन्म कुण्डली टेवा फार्म (पूरा छपा हुआ – 2)		रणधीर प्रकाशन	2.00	–
0000 A	1283	जन्म कुण्डली टेवा फार्म (केवल गणेश छपा)		रणधीर प्रकाशन	2.00	–
0000 A	1284	मंत्र और मंत्र जाप की मुख्य बातें (गुरु श्री पूर्णानन्द जी)		रणधीर प्रकाशन	30.00	–
0000 A	1285	आध्यात्मिक तत्व ज्ञान : जिज्ञासुओं के प्रश्न–उत्तर (नन्दलाल दशोरा)		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1286	आध्यात्मिक साधना की मुख्य बातें (नन्दलाल दशोरा)		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1287	सचित्र पंचतंत्र (नया संस्करण) संपूर्ण पाँचों भाग		रणधीर प्रकाशन	120.00	–
0000 A	1288	सचित्र हितोपदेश (नया संस्करण) संपूर्ण चारों खण्ड		रणधीर प्रकाशन	80.00	–
0000 A	1289	जीवन में सुख की खोज (नंदलाल दशोरा)		रणधीर प्रकाशन	70.00	–
0000 A	1290	बच्चों के भाग्यशाली नाम (गोपाल राजू)		रणधीर प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1291	मन को वश में कैसे करें (डॉ० उमेशपुरी ज्ञानेश्वर)		रणधीर प्रकाशन	150.00	–
0000 A	1292	क्यों (वैदिक मान्यताओं का शाश्वत आधार) पं० शशिमोहन बहल		रणधीर प्रकाशन	150.00	–
0000 A	1293	वैदिक चिन्तन में सरल सुखी जीवन (श्री भद्रसेन) (नया)		रणधीर प्रकाशन	80.00	–
0000 A	1294	विशाल कर्मकाण्ड भास्कर (तीनों भाग) (पशुपतिनाथ शर्मा) (नया)		रणधीर प्रकाशन	600.00	–
0000 A	1295	कल्याणकारी पूजन प्रयोग (पं० पशुपति शर्मा)		रणधीर प्रकाशन	200.00	–
0000 A	1296	संस्कार समुच्चय (पं. पशुपति शर्मा)		रणधीर प्रकाशन	200.00	–
0000 A	1297	प्रभावशाली मंत्रपाठ एवं स्तोत्र (पं० पशुपति नाथ शर्मा)		रणधीर प्रकाशन	120.00	–
0000 A	1298	पूजन रहस्य : पंचांगदेवता पूजन चन्द्रिका (पं० पशुपतिनाथ शर्मा)		रणधीर प्रकाशन	80.00	–
0000 A	1299	दैनिक देवकर्म के मंत्र : हवन, पूजन, आरती (साधक डायरी)		रणधीर प्रकाशन	60.00	–
0000 A	1300	संपूर्ण वार्षिक पूजा पद्धति (पं० नारायणदत्त जोशी) (नया)		रणधीर प्रकाशन	300.00	–
0000 A	1301	विश्वकर्मा पूजा पद्धति (भाषा–टीका) (नया)		रणधीर प्रकाशन	40.00	–
0000 A	1302	गायत्री साधना (संपूर्ण दोनों भाग) (लेखक : एस.एम. बहल)		रणधीर प्रकाशन	120.00	–
0000 A	1303	शुद्ध राम पटल (वैष्णव आचार संहिता)		रणधीर प्रकाशन	40.00	–
0000 A	1304	विवाह पद्धति (संपूर्ण विधि विधान और शाखोच्चार सहित)		रणधीर प्रकाशन	100.00	–
0000A	1305	सम्पूर्ण हवन पद्धति (पं. प्रेमनाथ मिश्र)		रणधीर प्रकाशन	80.00	–
0000 A	1306	सरल हवन विधि (गुटका)		रणधीर प्रकाशन	30.00	–
0000 A	1307	नासिकेतोपाख्यान (भाषा–टीका) (पं० ज्वाला प्रसाद चतुर्वेदी)		रणधीर प्रकाशन	80.00	–
0000 A	1308	प्रेतमंजरी (भाषा–टीका) (पं० ज्वाला प्रसाद चतुर्वेदी)		रणधीर प्रकाशन	100.00	–

0000 A	1309	श्राद्ध पद्धति (भाषा–टीका) (पं. ज्वाला प्रसाद चतुर्वेदी)		रणधीर प्रकाशन	80.00	–
0000 A	1310	षोडश संस्कार विधि (16 संस्कारों के सनातन पद्धति के विधिवत् मंत्र)		रणधीर प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1311	अन्त्येष्टि संस्कार : मृतक कर्म (दाहकर्म) तर्पण और श्राद्धकर्म		रणधीर प्रकाशन	40.00	–
0000 A	1312	रोगनाशक धार्मिक अनुष्ठान (डॉ० अनिल मोदी) (नया)		रणधीर प्रकाशन	200.00	–
0000 A	1313	धन प्राप्ति के धार्मिक अनुष्ठान (सचित्र) डॉ० अनिल मोदी		रणधीर प्रकाशन	150.00	–
0000 A	1314	पितृदोष–मातृदोष (कारण और निवारण) (पं० शशिमोहन बहल)		रणधीर प्रकाशन	70.00	–
0000 A	1315	101 स्तोत्र रत्नावली (सजिल्द)		रणधीर प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1316	दिव्य स्तोत्रम् (दुर्लभ और शुद्ध स्तोत्रों का संग्रह) सजिल्द		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1317	वृहद स्तोत्र रत्नाकर (464 स्तोत्र) सजिल्द (नया)		रणधीर प्रकाशन	350.00	–
0000 A	1318	कर्मकाण्ड भारती भाषा–टीका (सजिल्द)		रणधीर प्रकाशन	200.00	–
0000 A	1319	वृहद् पूजा भास्कर (संपूर्ण तीनों भाग, सजिल्द)		रणधीर प्रकाशन	150.00	–
0000 A	1320	रूद्राष्टाध्यायी (भाषा–टीका) डॉ० अनिल मोदी (नया)		रणधीर प्रकाशन	120.00	–
0000 A	1321	रूद्री पाठ (रूद्राष्टाध्यायी) मूलपाठ		रणधीर प्रकाशन	70.00	–
0000 A	1322	रूद्री पाठ (रूद्राष्टाध्यायी) गुटका, मूलपाठ		रणधीर प्रकाशन	40.00	–
0000 A	1323	आदित्य ह्रदय स्त्रोत : सूर्य नमस्कार सहित (योगीराज यशपाल जी)		रणधीर प्रकाशन	60.00	–
0000 A	1324	त्रिसूक्तम् (लक्ष्मी सूक्तम्, पुरुष सूक्तम्, सरस्वती सूक्तम्)		रणधीर प्रकाशन	90.00	–
0000 A	1325	हनुमान बालाजी उपासना और भजन संग्रह (सचित्र)		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1326	नवनाथ उपासना (गुरु गोरखनाथ परिचय सहित)		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1327	श्री दुर्गा रहस्य : दुर्गा उपासना पद्धति (योगीराज यशपाल जी)		रणधीर प्रकाशन	80.00	–
0000 A	1328	शतचण्डी विधान (नवरात्र में विधिवत् देवी उपासना) सजिल्द		रणधीर प्रकाशन	200.00	–
0000 A	1329	नवग्रह उपासना व ग्रहदोष के उपाय (डॉ० उमेशपुरी)		रणधीर प्रकाशन	160.00	–
0000 A	1330	नवग्रह पूजन विधान और अनिष्ट ग्रह निवारण (पं० कपिल मोहनजी)		रणधीर प्रकाशन	80.00	–
0000 A	1331	श्री नृसिंह उपासना अर्थात् नृसिंह रहस्य (वी.डी. पालीवाल) (नया)		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1332	सूर्य उपासना (सूर्य पुराण और सूर्य चालीसा सहित)		रणधीर प्रकाशन	80.00	–
0000 A	1333	सरस्वती उपासना (पं. कपिल मोहन जी)		रणधीर प्रकाशन	60.00	–
0000A	1334	लक्ष्मी उपासना (श्री सूक्तम् पाठ एवम् पूजा सहित)		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1335	बगलामुखी उपासना (पं. कुलपति मिश्र)		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1336	शनि उपासना (शनिदोष निवारक कथा सहित)		रणधीर प्रकाशन	75.00	–
0000 A	1337	महाकाली उपासना (नया संस्करण)		रणधीर प्रकाशन	75.00	–
0000 A	1338	भैरव उपासना (नया संस्करण)		रणधीर प्रकाशन	70.00	–
0000 A	1339	शिव उपासना (बड़ा, नया संस्करण)		रणधीर प्रकाशन	75.00	–

0000 A	1340	हनुमान उपासना – पूजा विधि सहित (नया)		रणधीर प्रकाशन	70.00	–
0000 A	1341	हनुमान सिद्धि 16 रंगीन चित्रों सहित (योगीराज यशपाल जी)		रणधीर प्रकाशन	70.00	–
0000 A	1342	हनुमान स्तुति : महाबली महिमा (लाल अक्षर) नया कवर		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1343	दैनिक प्रार्थना : स्तोत्र एवं कवच		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1344	पंचदेवता पूजा पद्धति (डॉ. रामकुमार तिवारी) (नया)		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1345	सर्वदेव पूजा पद्धति (भाषा–टीका) डीलक्स (पं. ज्वाला प्रसाद चतुर्वेदी)		रणधीर प्रकाशन	60.00	–
0000 A	1346	भारतीय नित्यकर्म पद्धति और पूजा विधान (पं. ज्वाला प्रसाद चतुर्वेदी)		रणधीर प्रकाशन	200.00	–
0000 A	1347	महामाया के सिद्धस्तोत्र : दुर्गा कवच (भाषा–टीका)		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1348	शिवमहिम्न और शिवताण्डव स्तोत्र (भाषा–टीका)		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1349	संध्या और पितृतर्पण प्रयोग (बलिवैश्वदेव विधि सहित)		रणधीर प्रकाशन	40.00	–
0000 A	1350	महामृत्युंजय मंत्र, स्तोत्र एवं कवच (पं० कल्पति मिश्र)		रणधीर प्रकाशन	40.00	–
0000 A	1351	महामृत्युंजय जप विधि (पं. ज्वाला प्रसाद चतुर्वेदी)		रणधीर प्रकाशन	30.00	–
0000 A	1352	सन्तान गोपाल स्तोत्र (हिन्दी अनुवाद सहित)		रणधीर प्रकाशन	80.00	–
0000 A	1353	सन्तान गोपाल स्तोत्र (संतानोत्पत्ति विधान, षष्ठी स्तोत्र सहित)		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1354	नवग्रह स्तोत्र, नवग्रह चालीसा सहित (भाषा–टीका) 7 " x 5"		रणधीर प्रकाशन	30.00	–
0000 A	1355	महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्र (भाषा–टीका) 7 " x 5"		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1356	श्री गंगालहरी (भाषा–टीका) गंगा चालीसा सहित		रणधीर प्रकाशन	40.00	–
0000 A	1357	श्री रामायण : आवाहन विसर्जन (नया)		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1358	श्री हनुमान बाहुक (भाषा–टीका, मोटे अक्षर, डिमाई)		रणधीर प्रकाशन	60.00	–
0000 A	1359	दैनिक यज्ञ प्रकाश (वैदिक) (नया)		रणधीर प्रकाशन	15.00	–
0000 A	1360	साधक संजीवनी हवन विधि (स्वामी प्रेमानन्द) (वैदिक) (नया)		रणधीर प्रकाशन	25.00	–
0000 A	1361	देवी देवताओं की 101 आरतियां (डिमाई साइज) (नया)		रणधीर प्रकाशन	150.00	–
0000 A	1362	देवी देवताओं की 55 आरतियां (ग्लेज, 64 पृष्ठ)		रणधीर प्रकाशन	30.00	–
0000A	1363	आरती संग्रह : (48 पृष्ठ)		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1364	आरती संग्रह : (32 पृष्ठ)		रणधीर प्रकाशन	15.00	–
0000 A	1365	प्रभु दर्शन : आरती संग्रह 23 फोटो एलबम (नया चमकदार कागज)		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1366	Prabhu Darshan Aarti Sangrah (Roman English)		रणधीर प्रकाशन	40.00	–
0000 A	1367	ईश्वर दर्शन : आरती संग्रह (गुटका) 15 रंगीन फोटो एलबम		रणधीर प्रकाशन	15.00	–
0000 A	1368	देव दर्शन : आरती संग्रह (लघु) 31 रंगीन फोटो एलबम		रणधीर प्रकाशन	15.00	–
0000 A	1369	आरती माला (डीलक्स, दोरंगी, नई) (नया)		रणधीर प्रकाशन	40.00	–
0000 A	1370	आरती माला : 41 आरतियां (गुटका)		रणधीर प्रकाशन	30.00	–

0000 A	1371	हनुमान जी से साक्षात सम्वाद (सचित्र हनुमान चालीसा) (43 रंगीन चित्र, हिन्दी और इंग्लिश दोनों एक साथ)		रणधीर प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1372	हनुमान चालीसा : 43 रंगीन चित्र (सस्ता संस्करण) (नया)		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1373	हनुमान चालीसा : 43 रंगीन चित्र (लघु आकार) (नया)		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1374	Dialogue With Lord Hanuman Ji (43 Pictures) (Hanuman Chalisa Roman with Translation)		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1375	सबसे बड़ा कीर्तन सागर (भजन रसामृत सिंधु) (नया)		रणधीर प्रकाशन	200.00	–
0000 A	1376	ब्रह्मज्ञान भजन सागर (500 भजनों का ग्रंथ)		रणधीर प्रकाशन	250.00	–
0000 A	1377	भक्तिरस का मनोहारी भजन संग्रह (नया) (डिमाई साइज)		रणधीर प्रकाशन	80.00	–
0000A	1378	गोविन्द के गुण गाओ (सबरस भजन) (नया) (डिमाई साइज)		रणधीर प्रकाशन	80.00	–
0000 A	1379	नवीन भजन सागर (भरतमुनि उदासीन) (नया) (डिमाई साइज)		रणधीर प्रकाशन	80.00	–
0000 A	1380	भजन सरोवर (डिमाई साइज) (नया)		रणधीर प्रकाशन	80.00	–
0000 A	1381	हरिबोल भजन कीर्तन (डिमाई साइज)		रणधीर प्रकाशन	80.00	–
0000 A	1382	भजन गंगा : ढोलक संग भजन कीर्तन (डिमाई साइज)		रणधीर प्रकाशन	80.00	–
0000 A	1383	सुमिरन कर ले प्राणी (सत्संगी भजन, गुटका)		रणधीर प्रकाशन	60.00	–
0000 A	1384	भजन कर मन मेरे (ब्रह्मज्ञान भजन, गुटका)		रणधीर प्रकाशन	60.00	–
0000 A	1385	सतगुरु प्रसाद : भजन संग्रह		रणधीर प्रकाशन	80.00	–
0000 A	1386	सुमिरन : सत्संगी भजन		रणधीर प्रकाशन	60.00	–
0000 A	1387	भजन सरिता (जगद्गुरु बालस्वामी) गुटका		रणधीर प्रकाशन	25.00	–
0000 A	1388	दाता एक राम (जगद्गुरु बालस्वामी) गुटका		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1389	कबीर भजनमाला		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1390	भजनामृत (विद्यावती त्यागी)		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1391	भगवान तुम्हारे चरणों में (सुरेश चन्द्र अग्रवाल)		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1392	रोम रोम में बसने वाले राम (सुरेश चन्द्र अग्रवाल)		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1393	अनमोल भजन (सुरेश चन्द्र अग्रवाल)		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1394	चुने हुए फिल्मी धार्मिक गीत और प्रचलित भजन		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1395	भजन प्रभाती (डॉ. अनूप लता) (नया)		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1396	भजन रसधारा (श्रीमती शिवकुमारी बंसल) (नया)		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1397	भजन माधुरी (जगद्गुरु बालस्वामी द्वारा प्रस्तुत)		रणधीर प्रकाशन	40.00	–
0000 A	1398	मधुर गीत (स्त्रियों एवं बच्चों के लिए सरस भजन)		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1399	गंगा के भजन (शिव भजन व मधुर गीत)		रणधीर प्रकाशन	30.00	–
0000 A	1400	भजन आराधना (अनूप जलोटा, हरिओम् शरण)		रणधीर प्रकाशन	40.00	–
0000 A	1401	हरे राम हरे कृष्ण (अनूप जलोटा, हरिओम् शरण)		रणधीर प्रकाशन	50.00	–

0000 A	1402	प्रभु सुमिरन (अनूप जलोटा, हरिओम् शरण)		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1403	अनूप जलोटा के गाये भक्ति गीत (संग्रह)		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1404	भजन गोविन्द (कैलाश दासी और सविता शर्मा)		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1405	शंकर विवाह और डमरू वाले बाबा की लीला		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1406	अमर कथा (शिव पार्वती विवाह)		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000A	1407	शंकर भजन माला		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1408	श्री हरि कीर्तन (जनमानस में रचे बसे भजन कीर्तन)		रणधीर प्रकाशन	40.00	–
0000 A	1409	मीरा के भजन		रणधीर प्रकाशन	40.00	–
0000 A	1410	मैया का यशगान (माता की भेंटे हिन्दी में)		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1411	अब टेर सुनो! दुर्गे महाकाली : जै जै माता पहाड़ों वाली		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1412	श्री दुर्गा सहस्रनाम स्तोत्र भाषा–टीका (सहस्रनामावली सहित)		रणधीर प्रकाशन	60.00	–
0000 A	1413	श्री गणेश सहस्रनाम स्तोत्र भाषा–टीका (सहस्रनामावली सहित)		रणधीर प्रकाशन	60.00	–
0000 A	1414	श्री हनुमान सहस्रनाम स्तोत्र भाषा–टीका (सहस्रनामावली सहित)		रणधीर प्रकाशन	60.00	–
0000 A	1415	श्री लक्ष्मी सहस्रनाम भाषा–टीका (सहस्रनामावली सहित)		रणधीर प्रकाशन	60.00	–
0000 A	1416	महामृत्युंजय स्तोत्र भाषा–टीका (नामावली सहित)		रणधीर प्रकाशन	30.00	–
0000 A	1417	पंचरत्न गोपाल सहस्रनाम भाषा–टीका (डिमाई साइज)		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1418	श्री गोपाल सहस्रनाम भाषा–टीका (सहस्रनामावली सहित) 7" x 5"		रणधीर प्रकाशन	60.00	–
0000 A	1419	गोपाल सहस्रनाम भाषा–टीका (गुटका)		रणधीर प्रकाशन	40.00	–
0000 A	1420	गोपाल सहस्रनाम मूल पाठ (नया कवर)		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1421	पंचरत्न विष्णु सहस्रनाम भाषा–टीका (डिमाई साइज)		रणधीर प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1422	विष्णु सहस्रनाम भाषा–टीका (सहस्रनामावली सहित) 7" x 5"		रणधीर प्रकाशन	60.00	–
0000 A	1423	विष्णु सहस्रनाम भाषा–टीका (गुटका)		रणधीर प्रकाशन	40.00	–
0000 A	1424	विष्णु सहस्रनाम मूल पाठ (नया कवर)		रणधीर प्रकाशन	30.00	–
0000 A	1425	शिव सहस्रनाम भाषा–टीका (सहस्रनामावली सहित)		रणधीर प्रकाशन	60.00	–
0000 A	1426	गायत्री सहस्रनाम भाषा–टीका (चालीसा इत्यादि सहित)		रणधीर प्रकाशन	40.00	–
0000 A	1427	गंगा सहस्रनाम भाषा–टीका (सहस्रनामावली सहित)		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1428	ललिता सहस्रनाम स्तोत्र भाषा–टीका (कुण्डलिनी संकेत विद्या)		रणधीर प्रकाशन	200.00	–
0000 A	1429	ललिता सहस्रनाम मूल पाठ (सहस्रनामावली सहित)		रणधीर प्रकाशन	60.00	–
0000 A	1430	विष्णु सहस्रनामावली (1000 नाम, लघु आकार)		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1431	श्री शिव सहस्रनामावली (1000 नाम, लघु आकार)		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1432	श्री दुर्गा सहस्रनामावली (1000 नाम, लघु आकार)		रणधीर प्रकाशन	20.00	–

0000 A	1433	श्री हनुमान सहस्रनामावली (1000 नाम, लघु आकार)		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1434	श्री गणेश सहस्रनामावली (1000 नाम, लघु आकार)		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1435	श्री लक्ष्मी सहस्रनामावली (1000 नाम, लघु आकार)		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000A	1436	गोपाल सहस्रनामावली (1000 नाम, लघु आकार)		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1437	गुरुनानक वाणी – सुंदर गुटका (सजिल्द)		रणधीर प्रकाशन	150.00	–
0000 A	1438	नित्तनेम (सजिल्द)		रणधीर प्रकाशन	60.00	–
0000 A	1439	जपुजी, रहिरास, सोहिला (मूल पाठ)		रणधीर प्रकाशन	30.00	–
0000 A	1440	सुखमनी साहिब : अनुवाद सहित (सजिल्द)		रणधीर प्रकाशन	120.00	–
0000 A	1441	सुखमनी साहिब : मूल पाठ (सजिल्द)		रणधीर प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1442	सुखमनी साहिब : मूल पाठ		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1443	जपुजी साहिब : अनुवाद सहित		रणधीर प्रकाशन	30.00	–
0000 A	1444	दुखभंजनी साहिब : अनुवाद सहित		रणधीर प्रकाशन	30.00	–
0000 A	1445	जपुजी साहिब (लघु) मूल पाठ		रणधीर प्रकाशन	15.00	–
0000 A	1446	सुखमनी साहिब (लघु) मूल पाठ		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1447	भारतीय व्रत पर्व त्योहार और महिला संगीत (डिमाई)		रणधीर प्रकाशन	150.00	–
0000 A	1448	हिन्दुओं के व्रत और त्योहर (रंगीन चित्रों सहित) (नया)		रणधीर प्रकाशन	80.00	–
0000 A	1449	कार्तिक मास की व्रत कथाएं (तुलसी विवाह और भीषम पंचक कथा सहित)		रणधीर प्रकाशन	30.00	–
0000 A	1450	सत्यनारायण कथा भाषा–टीका (डिमाई)		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1451	सप्तवार व्रत कथा (डिमाई, लाल कवर)		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1452	माता वैष्णो देवी की कथान (संपूर्ण पाँचों अध्याय)		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1453	मंगलवार व्रत कथा (डिमाई)		रणधीर प्रकाशन	30.00	–
0000 A	1454	शनिवार व्रत कथा (डिमाई)		रणधीर प्रकाशन	30.00	–
0000 A	1455	रविवार व्रत कथा (डिमाई)		रणधीर प्रकाशन	30.00	–
0000 A	1456	दीपावली पूजन और महालक्ष्मी व्रत कथा (धनतेरस, अन्नकूट, गोवर्धन पूजा, भाई दूज व्रत कथा, महालक्ष्मी स्तोत्र सहित) (डिमाई)		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1457	करवा चौथ, अहाई आठें, दीपावली और गोवर्धन पूजा (डिमाई)		रणधीर प्रकाशन	40.00	–
0000 A	1458	दीपावली पूजन : महालक्ष्मी व्रत कथा (पुस्तक आकार)		रणधीर प्रकाशन	40.00	–
0000 A	1459	पंच महोत्सव पर्व : दीपावली पूजन (नया) 7" x 5"		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1460	श्री राम नवमी व्रत कथा (डिमाई) (नया)		रणधीर प्रकाशन	25.00	–
0000 A	1461	हरतालिका तीज और ऋषि पंचमी व्रत कथाएं (डिमाई)		रणधीर प्रकाशन	40.00	–
0000 A	1462	महाशिवरात्रि व्रत कथा (डिमाई)		रणधीर प्रकाशन	30.00	–
0000 A	1463	बगलामुखी (वैरी विनाशिनी) व्रत कथा (नया)		रणधीर प्रकाशन	40.00	–
0000 A	1464	श्री कृष्ण जन्मअष्टमी व्रत कथा (डिमाई)		रणधीर प्रकाशन	40.00	–
0000A	1465	तारा रानी की कथा (डिमाई, सचित्र)		रणधीर प्रकाशन	40.00	–
0000 A	1466	वट सावित्री पूजन और व्रत कथा (महत्व और पूजा विधि सहित)		रणधीर प्रकाशन	30.00	–
0000 A	1467	सोमवती अमावस व मौनी अमावस की कथा (डिमाई)		रणधीर प्रकाशन	30.00	–

0000 A	1468	करवाचौथ गणेश चौथ व्रत कथा (करवाचौथ पूजन पोस्टर सहित)		रणधीर प्रकाशन	40.00	–
0000 A	1469	पूर्णमासी व्रत कथा (डिमाई)		रणधीर प्रकाशन	30.00	–
0000 A	1470	अन्नपूर्णा व्रत कथा और स्तोत्र (डिमाई)		रणधीर प्रकाशन	30.00	–
0000 A	1471	सकट चौथ व्रत कथा और संकटा माता कथा		रणधीर प्रकाशन	30.00	–
0000 A	1472	नवरात्र : नौ दिन का पाठ (डिमाई, कथा, पूजन, आरती सहित)		रणधीर प्रकाशन	75.00	–
0000 A	1473	नवरात्र देवी पूजा, हवन सहित (डिमाई) नया कवर		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1474	दुर्गानवरात्र और दुर्गा अष्टमी व्रत कथा (डिमाई)		रणधीर प्रकाशन	30.00	–
0000 A	1475	प्रदोष व्रत कथा त्रयोदशी व्रत की कथा (डिमाई)		रणधीर प्रकाशन	40.00	–
0000 A	1476	प्रदोष व्रत कथा (सातों दिन की अलग–2 कथाओं सहित) (डिमाई)		रणधीर प्रकाशन	40.00	–
0000 A	1477	अनन्त चतुर्दशी व्रत कथा (डिमाई)		रणधीर प्रकाशन	40.00	–
0000 A	1478	धर्मराज की कथा और चित्रगुप्त की कथा (डिमाई)		रणधीर प्रकाशन	30.00	–
0000 A	1479	मंगला गौरी व्रत कथा (डिमाई)		रणधीर प्रकाशन	40.00	–
0000 A	1480	चन्दन छठ सूरज छठ और जीवत्पुत्रिका व्रत कथा (डिमाई)		रणधीर प्रकाशन	30.00	–
0000 A	1481	चातुमसि व्रत कथाएं (डिमाई)		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1482	व्यतीपात व्रत कथा (वंश वृद्धि एवं पुत्र प्राप्ति के लिए) (नया)		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1483	श्री शिव चतुर्दशी व्रत कथाएं (डिमाई)		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1484	वर्षभर की गणेश चतुर्थी व्रत कथाएं (डिमाई)		रणधीर प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1485	वैभव लक्ष्मी व्रत कथा (लाल अक्षरों में)		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1486	श्री सांई बाबा व्रत कथा (लाल अक्षरों में)		रणधीर प्रकाशन	15.00	–
0000 A	1487	सत्यनारायण व्रत कथा (हिन्दी) (मोटे अक्षर, लेमी. कवर)		रणधीर प्रकाशन	30.00	–
0000 A	1488	संतोषी माता (शुक्रवार) व्रत कथा (मोटे अक्षर, लेमी. कवर)		रणधीर प्रकाशन	30.00	–
0000 A	1489	सोमवार और सोलह सोमवार व्रत कथा (मोटे अक्षर, लेमी. कवर)		रणधीर प्रकाशन	30.00	–
0000 A	1490	बृहस्पतिवार व्रत कथा (मोटे अक्षर, लेमी. कवर)		रणधीर प्रकाशन	30.00	–
0000 A	1491	रामायण के 108 मनके और रामनाम माला 7 x 10 इंच (लाल अक्षरों में)		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1492	श्री राम अमृतवाणी और श्री राम चालीसा 7 x 10 इंच		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1493	श्री हनुमान चालीसा, हनुमानाष्टक, बजरंगबाण (अनुवाद सहित)		रणधीर प्रकाशन	60.00	–
0000A	1494	भजन, वन्दना, आरतियां इत्यादि 7 x 10 इंच (नया)		रणधीर प्रकाशन	120.00	–
0000 A	1495	वर्षभर की संपूर्ण एकादशी व्रत कथाएं (डिमाई)		रणधीर प्रकाशन	60.00	–
0000 A	1496	एकादशी महात्म् भाषा मध्यम (नया कवर)		रणधीर प्रकाशन	30.00	–
0000 A	1497	एकादशी महात्म् (छोटा) नया कवर		रणधीर प्रकाशन	120.00	–
0000 A	1498	संपूर्ण कार्तिक मास माहात्म्य और कार्तिक व्रत कथाएं (क्षेमंकरी, डिमाई)		रणधीर प्रकाशन	30.00	–
0000 A	1499	कार्तिक मास की व्रत कथाएं (डिमाई)		रणधीर प्रकाशन	100.00	–

0000 A	1500	कार्तिक महात्म्य : प्रभातफेरी के भजन व विनतियां सहित (डिमाई) (नया)		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1501	कार्तिक मास महात्म्य भाषा (35 अध्याय)		रणधीर प्रकाशन	40.00	–
0000 A	1502	वैशाख मास महात्म्य		रणधीर प्रकाशन	40.00	–
0000 A	1503	माघ मास महात्म्य		रणधीर प्रकाशन	60.00	–
0000 A	1504	श्रावण मास महात्म्य		रणधीर प्रकाशन	60.00	–
0000 A	1505	पुरूषोत्तम (लौंद) मास महात्म्य (पुरूषोत्तम नामावली सहित)		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1506	हनुमान चालीसा (बढ़िया, कागज, मोटे लाल अक्षर)		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1507	दुर्गा चालीसा (बढ़िया, कागज, मोटे हरे अक्षर)		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1508	शिव चालीसा (बढ़िया, कागज, मोटे नीले अक्षर)		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1509	श्री रामायण : आवाहन विसर्जन (नया)		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1510	41 स्तोत्र पाठ (महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र सहित) गुटका (नया)		रणधीर प्रकाशन	40.00	–
0000 A	1511	जानकी मंगल हिन्दी अनुवाद सहित (नया)		रणधीर प्रकाशन	40.00	–
0000 A	1512	पार्वती मंगल (हिन्दी अनुवाद सहित) (नया)		रणधीर प्रकाशन	40.00	–
0000 A	1513	मंत्र और मंत्र जाप की मुख्य बातें		रणधीर प्रकाशन	30.00	–
0000 A	1514	कवच पंचामृत (भाषा–टीका) (नया) (नृसिंह, नारायण, सुदर्शन, महामृत्युंजय, मृत संजीवनी कवच)		रणधीर प्रकाशन	40.00	–
0000 A	1515	दैनिक प्रार्थना : स्तोत्र एवं कवच		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1516	कवच संग्रह (13 कवच भाषा–टीका)		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1517	स्तोत्र संग्रह (15 स्तोत्रों का पाठ)		रणधीर प्रकाशन	30.00	–
0000 A	1518	महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्र (भाषा–टीका) (गुटका)		रणधीर प्रकाशन	25.00	–
0000 A	1519	भक्ति सागर (गुटका)		रणधीर प्रकाशन	15.00	–
0000 A	1520	सरल हवन विधि (संक्षिप्त हवन प्रयोग)		रणधीर प्रकाशन	30.00	–
0000 A	1521	सरल देव पूजा और नित्यकर्म विधि		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1522	भगवान के 108 नाम की माला और भगवान की प्रतिज्ञा		रणधीर प्रकाशन	30.00	–
0000A	1523	प्रमुख देवी देवताओं की पूजा–प्रार्थना		रणधीर प्रकाशन	30.00	–
0000 A	1524	श्री शिव स्तोत्र रत्नावली भाषा–टीका (गुटका)		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1525	गुरू दत्तात्रेय वज्रकवच और स्तोत्र भाषा–टीका		रणधीर प्रकाशन	40.00	–
0000 A	1526	भज गोविन्दम् : चर्पट पंजरिका स्तोत्र (भाषा–टीका)		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1527	आदित्य हृदय स्तोत्र (सूर्य पाठ)		रणधीर प्रकाशन	40.00	–
0000 A	1528	नवग्रह स्तोत्र और नवग्रह कवच व नवग्रहों के व्रत		रणधीर प्रकाशन	40.00	–
0000 A	1529	त्रिदेव चालीसा (ब्रह्मा–विष्णु–महेश चालीसा)		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1530	शिवमहिम्न स्तोत्र भाषा–टीका (गुटका)		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1531	कनकधारा स्तोत्र, ऋणमोचन मंगल स्तोत्र और लक्ष्मी स्तोत्र		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1532	अन्नपूर्णा स्तोत्र भाषा–टीका		रणधीर प्रकाशन	15.00	–
0000 A	1533	शिवाष्टक और रुद्राष्टक भाषा–टीका		रणधीर प्रकाशन	20.00	–

0000 A	1534	नर्मदाष्टक, नर्मदा स्तोत्र व शिवाष्टक और रुद्राष्टक		रणधीर प्रकाशन	15.00	–
0000 A	1535	प्रत्यंगिरा स्तोत्र–विपरीत प्रत्यंगिरा स्तोत्र		रणधीर प्रकाशन	30.00	–
0000 A	1536	श्री शनि स्तोत्र (शनि स्तुति, मंत्र, यंत्र एवं आरती)		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1537	महाविद्या स्तोत्र, कवच और मंत्र		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1538	महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र व वैष्णो देवी चालीसा		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1539	अपराजिता स्तोत्र–इन्द्राक्षी स्तोत्र–धनदा स्तोत्र		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1540	श्री विष्णु चालीसा		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1541	श्री राम चालीसा		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1542	श्री कृष्ण चालीसा और राधा चालीसा		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1543	श्री चिन्तपुरनी चालीसा		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1544	श्री गंगा चालीसा, गंगा स्तोत्र, गंगाष्टक		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1545	भैरव चालीसा और बटुक भैरव चालीसा		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1546	श्री काली चालीसा और महाकाली चालीसा		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1547	श्री सूर्य चालीसा (ध्यान और बारह नमस्कार सहित)		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1548	श्री गुरु गोरखनाथ चालीसा और जाहरवीर चालीसा		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1549	श्री शनि चालीसा		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1550	लक्ष्मी चालीसा और महालक्ष्मी चालीसा		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1551	सरस्वती चालीसा अर्थात् शारदा चालीसा		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000A	1552	पार्वती (गौरी) चालीसा और अन्नपूर्णा चालीसा		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1553	श्री गायत्री चालीसा (गायत्री मंत्र व आरती)		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1554	गायत्री स्तवन, गायत्री हवन और चालीसा		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1555	गणेश चालीसा, गणेश स्तोत्र, गणेश कवच		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1556	साईं चालीसा (साईं बावनी, भजन, आरती)		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1557	ललिता चालीसा और कुण्डलिनी चालीसा		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1558	बगलामुखी चालीसा और पीताम्बरा चालीसा		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1559	श्री वेंकटेश्वर चालीसा (वेंकटेशस्तोत्र, सुप्रभातस्तोत्र)		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1560	गणपति अथर्वशीर्ष भाषा–टीका		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1561	बजरंग बाण और राम बाण (रामावतार सहित)		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1562	श्रीसूक्तम (पुरुष सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, सरस्वती सूक्त सहित)		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1563	श्री रामरक्षा स्तोत्र (विधि–विधान और सरल हिन्दी अनुवाद सहित)		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1564	श्री नारायण कवच (विधि–विधान और सरल हिन्दी अनुवाद सहित)		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1565	श्री चण्डी कवच, चण्डी स्तोत्र एवं मंत्र		रणधीर प्रकाशन	20.00	–

0000 A	1566	श्री काली कवच, काली स्तोत्र एवं मंत्र		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1567	श्री हनुमान कवच : एकमुखी और पंचमुखी (भाषा–टीका)		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1568	श्री दुर्गा कवच भाषा–टीका (मोटे अक्षर)		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1569	अमोघ शिव कवच भाषा–टीका (मोटे अक्षर)		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1570	काकभुशुण्डि रामायण (अर्थ सहित)		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1571	गजेन्द्र मोक्ष (भाषा–टीका)		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1572	श्री नारायण संकीर्तन और भगवद् अवतार चौबीसी (नया)		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1573	हनुमान बाहुक भाषा–टीका (गुटका) साठिका व बजरंग बाण सहित		रणधीर प्रकाशन	40.00	–
0000 A	1574	हनुमान बाहुक मोटे अक्षर वाला (हनुमान साठिका–हनुमान चालीसा–हनुमानाष्टक–बजरंग बाण, भाषा–टीका) डिमाई साइज		रणधीर प्रकाशन	60.00	–
0000 A	1575	सरल गीता पाठ (अठारह अध्यायों का काव्य पाठ) (नया)		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1576	गीता सार (मनका एक सौ आठ) (नया)		रणधीर प्रकाशन	30.00	–
0000 A	1577	गर्भ गीता (कृष्ण अर्जुन संवाद) मोटे अक्षर		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1578	कमलनेत्र स्तोत्र और नागलीला		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1579	शिवपुराण सार (मनका एक सौ आठ) (नया)		रणधीर प्रकाशन	15.00	–
0000 A	1580	श्री शिव अमृत वाणी		रणधीर प्रकाशन	25.00	–
0000A	1581	श्री दुर्गा अमृत वाणी		रणधीर प्रकाशन	15.00	–
0000 A	1582	श्रीराम अमृत वाणी और रामनाम माला (मोटे अक्षर) गुटका		रणधीर प्रकाशन	25.00	–
0000 A	1583	श्रीराम अमृत वाणी (छोटा साइज)		रणधीर प्रकाशन	5.00	–
0000 A	1584	गीता का अठारहवां अध्याय (गुटका)		रणधीर प्रकाशन	10.00	–
0000 A	1585	नित्यकर्म गीता (बलीनाथ कृत)		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1586	कृष्ण गीता (लाल चन्द कृत)		रणधीर प्रकाशन	30.00	–
0000 A	1587	श्री गुरु गीता (चक्रधारी बेजर कृत)		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1588	श्री हनुमान पाठ (लाल अक्षरों में)		रणधीर प्रकाशन	25.00	–
0000 A	1589	रामायण के 108 मनके और रामनाम माला (काला अक्षर)		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1590	रामायण के 108 मनके और रामनाम माला (लाल अक्षर)		रणधीर प्रकाशन	30.00	–
0000 A	1591	हनुमान चालीसा : सम्पुट पाठ वाला (सिल्वर) (नया)		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1592	हनुमान चालीसा : सम्पुट पाठ वाला लघु (सिल्वर) (नया)		रणधीर प्रकाशन	11.00	–
0000 A	1593	हनुमान चालीसा भाषा–टीका (तांत्रिक, लाल अक्षर)		रणधीर प्रकाशन	40.00	–
0000 A	1594	तांत्रिक प्रभाव वाला हनुमान चालीसा (लाल अक्षरों में)		रणधीर प्रकाशन	10.00	–
0000 A	1595	तांत्रिक प्रभाव वाला दुर्गा चालीसा (हरे अक्षरों में)		रणधीर प्रकाशन	10.00	–
0000 A	1596	तांत्रिक प्रभाव वाला शिव चालीसा (नीले अक्षरों में)		रणधीर प्रकाशन	10.00	–
0000 A	1597	21 चालीसा संग्रह आरतियों सहित (लघु)		रणधीर प्रकाशन	30.00	–
0000 A	1598	55 चालीसा संग्रह, 55 आरतियों सहित		रणधीर प्रकाशन	150.00	–

0000 A	1599	55 चालीसा संग्रह, 55 आरतियों सहित (सजिल्द)		रणधीर प्रकाशन	200.00	–
0000 A	1600	35 चालीसा संग्रह आरतियों सहित		रणधीर प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1601	35 चालीसा संग्रह आरतियों सहित (सजिल्द)		रणधीर प्रकाशन	120.00	–
0000 A	1602	ग्यारह (11) चालीसा संग्रह (मध्यम) मोटे अक्षर		रणधीर प्रकाशन	30.00	–
0000 A	1603	बत्तीस चालीसा संग्रह (आरतियों सहित, मोटे अक्षर) 7 x 5 इंच		रणधीर प्रकाशन	80.00	–
0000 A	1604	32 चालीसा संग्रह आरतियों सहित (सजिल्द, गुटका)		रणधीर प्रकाशन	60.00	–
0000 A	1605	51 चालीसा संग्रह आरतियों सहित (गुटका)		रणधीर प्रकाशन	80.00	–
0000 A	1606	51 चालीसा संग्रह आरतियों सहित (सजिल्द, गुटका)		रणधीर प्रकाशन	120.00	–
0000 A	1607	शिवाष्टक और रुद्राष्टक (सस्ता संस्करण)		रणधीर प्रकाशन	5.00	–
0000 A	1608	हनुमान चालीसा (लघु) मोटा टाईटल (नया)		रणधीर प्रकाशन	10.00	–
0000 A	1609	शिव चालीसा लघु		रणधीर प्रकाशन	3.00	–
0000A	1610	दुर्गा चालीसा अति लघु		रणधीर प्रकाशन	2.00	–
0000 A	1611	शिव चालीसा अति लघु		रणधीर प्रकाशन	2.00	–
0000 A	1612	शतचण्डी विधान (नवरात्र में विधिवत् देवी उपासना) सजिल्द		रणधीर प्रकाशन	200.00	–
0000 A	1613	आप बुलावे माता वैष्णो देवी : चित्रमय : सजिल्द		रणधीर प्रकाशन	240.00	–
0000 A	1614	Call of Nine Goddesses		रणधीर प्रकाशन	90.00	–
0000 A	1615	वैष्णो देवी और नौ शक्तियां (सचित्र, सजिल्द)		रणधीर प्रकाशन	90.00	–
0000 A	1616	नौ देवियों की अमर कहानी (नवरंग संस्करण) डिमाई		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1617	नौ देवियों की अमर कहानी (16 रंगीन चित्रों सहित)		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1618	नौ देवियों की अमर कहानी (अभिनव संस्करण, सजिल्द)		रणधीर प्रकाशन	80.00	–
0000 A	1619	माता वैष्णो देवी की कथा (पांच अध्याय वाली)		रणधीर प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1620	मां चिन्तपुरनी (कथा, इतिहास, महात्म)		रणधीर प्रकाशन	15.00	–
0000 A	1621	चिन्तपुरनी दर्शन एवं छिन्नमस्तिका की कथा		रणधीर प्रकाशन	40.00	–
0000 A	1622	माता वैष्णव देवी की संपूर्ण कहानी (प्राचीकाल से आज की प्रतिष्ठा तक)		रणधीर प्रकाशन	60.00	–
0000 A	1623	पावन तीर्थ ज्वालामुखी (सचित्र)		रणधीर प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1624	ज्वालामुखी दर्शन और धूमावती की कथा		रणधीर प्रकाशन	40.00	–
0000 A	1625	शाकम्भरी देवी का संपूर्ण इतिहास		रणधीर प्रकाशन	30.00	–
0000 A	1626	मनसा देवी की कथा महात्म्य व इतिहास		रणधीर प्रकाशन	30.00	–
0000 A	1627	Varieties of the Vishnu Image, Pandit B.B. Bidyabinod (1920, reprint 1998)		Archaeological Survey of India	65.00	–
0000 A	1628	Talamana or Iconometry, T.A. Gopinatha Rao (1920, reprint 1998)		Archaeological Survey of India	115.00	–
0000 A	1629	The Archaeological Remains and Excavations at Nagari, D.R. Bhandarkar (1920, reprint 1998)		Archaeological Survey of India	100.00	–
0000 A	1630	Archaeology and Vaishanava Tradition, Ramaprasad Chanda (1920, reprint 1998)		Archaeological Survey of India	70.00	–

0000 A	1631	The Temples at Palampet, Ghulam Yazdani (1922, reprint 1998)		Archaeological Survey of India	80.00	–
0000 A	1632	Excavations at Taxila, The Stupas and Monasteries at Jaulian, Sir John Marshall (1921, reprint 1998)		Archaeological Survey of India	175.00	–
0000 A	1633	Six Sculptures from Mahoba, K.N. Dikshit (1921, reprint 1998)		Archaeological Survey of India	55.00	–
0000 A	1634	Mosque of Shaikh Abdu-n Nabi, Maulvi Zafar Hasan (1921, reprint 1998)		Archaeological Survey of India	60.00	–
0000 A	1635	A Guide to Nizamu-d-Din, Maulvi Zafar Hasan (1992, reprint 1998)		Archaeological Survey of India	105.00	–
0000 A	1636	Antiquities of Bhimbar and Rajauri, Ram Chandra Kak (1923, reprint 1998)		Archaeological Survey of India	95.00	–
0000 A	1637	The Temple of Siva at Bhumara, R.D. Banerji, (1924, reprint 1998)		Archaeological Survey of India	105.00	–
0000 A	1638	Hindu Astronomy, G.R. Kaye (1924, reprint 1998)		Archaeological Survey of India	140.00	–
0000A	1639	The Jama Masjid at Badaun and other Buildings in the United Provinces, J.F. Blakiston (1926, reprint 1998)		Archaeological Survey of India	125.00	–
0000 A	1640	The origin and Cult of Tara, Hirananda Shastri (1925, reprint 1998)		Archaeological Survey of India	80.00	–
0000 A	1641	The Baghela Dynasty of Rewah, Hirananda Shastri (1925, reprint 1998)		Archaeological Survey of India	65.00	–
0000 A	1642	The Haihayas of Tripuri and their monuments, R.D. Banerji (1931, reprint 1998)		Archaeological Survey of India	295.00	–
0000 A	1643	Rock-Paintings and other Antiquities of Pre-Historic and later Times, Rai Sahib Manoranjan Ghosh (1932, reprint 1998)		Archaeological Survey of India	160.00	–
0000 A	1644	Basreliefs of Badami, R.D. Banerji (1928, reprint 1998)		Archaeological Survey of India	180.00	–
0000 A	1645	Two Statues of Pallava Kings and Five Pallava Inscriptions in a Rock Temple at Mahabalipuram, Rao Bahadur H. Krishna Sastri (1926, reprint 1998)		Archaeological Survey of India	70.00	–
0000 A	1646	Pageant of King Mindon leaving his palace on a visit to the Kyauktawgyi Buddha Image at Mandalay (1865) Chas Duroiselle (1925, reprint 1990)		Archaeological Survey of India	110.00	–
0000 A	1647	Bhasa and the Authorship of the Thirteen Trivandurm Plays, Hiranand Sastri (1926, reprint 1998)		Archaeological Survey of India	75.00	–
0000 A	1648	The Indus Valley in the Vedic Period, Ramaprasad Chanda (1926, reprint 1998)		Archaeological Survey of India	60.00	–
0000 A	1649	Fragment of a Prajnaparamita Manuscript from Central Asia, Pandit B.B. Bidyabinod (1927, reprint 1998)		Archaeological Survey of India	70.00	–
0000 A	1650	Pallava Architecture (Part II) Intermediate or Mamalla Period by A.H. Longhurst (1928, reprint 1998)		Archaeological Survey of India	175.00	–
0000 A	1651	A new Inscription of Darius from Hamadan, Prof. E. Herzfeld, (1928, reprint 1998)		Archaeological Survey of India	55.00	–

0000 A	1652	Excavations in Baluchistan 1925, Sampur Mound, Mastung and Sohr Damb Nal by H. Hargreaves (1929, reprint 1998)		Archaeological Survey of India	175.00	–
0000 A	1653	An Archaeological Tour in Waziristan and Northern Baluchistan by Sir Aurel Stein (1929, reprint 1998)		Archaeological Survey of India	210.00	–
0000 A	1654	Lha-Lun Temple, Spyi-Ti, H-Lee Shuttleworth, (1929, reprint 1998)		Archaeological Survey of India	65.00	–
0000 A	1655	Pallava Architecture, Part III (the later of Rajasimha Period) A.H. Longhurst (1930, reprint 1998)		Archaeological Survey of India	95.00	–
0000 A	1656	Survival of the Prehistoric civilisation of the indus Valley, Ramaprasad Chanda (1929, reprint		Archaeological Survey of India	80.00	–
0000 A	1657	An Archaeological Tour in Supper Swat and adjacent hill tracts by Sir Aurel Stein (1930, reprint 1998)		Archaeological Survey of India	280.00	–
0000 A	1658	An Archaeological Tour in Gedrosia by Sir Aurel Stein (1931, reprint 1999)		Archaeological Survey of India	350.00	–
0000 A	1659	Exploration in Orissa, Ramaprasad Chanda (1930 reprint 1998)		Archaeological Survey of India	87.00	–
0000 A	1660	Bibliography of Indo-Moslem History excluding provincial Monarchies, Khan Bahadur Maulvi Zafar Hasan (1932, reprint 1998)		Archaeological Survey of India	80.00	–
0000 A	1661	On the Iconography of the Buddha's nativity by A. Foucher (1934, reprint 1999)		Archaeological Survey of India	90.00	–
0000 A	1662	Record of all the Quranic and Non-Historical Epigraphs on the protected Monuments in the Delhi Procince, Maulvi Muhammad Ashraf Husain (1936, reprint 1999)		Archaeological Survey of India	150.00	–
0000 A	1663	Explorations in Sind, N.C. Mujumdar. (1934, reprint 1999)		Archaeological Survey of India	320.00	–
0000 A	1664	Bijapur Inscriptions by M. Nazim (1936, reprint 1999)		Archaeological Survey of India	150.00	–
0000 A	1665	Sravasti in Indian Literature, B.C. Law (1935, reprint 1999)		Archaeological Survey of India	75.00	–
0000 A	1666	Animal remain from Harappa, B. Prashad, (1936, reprint 1999)		Archaeological Survey of India	115.00	–
0000 A	1667	Biruni's picture of the world, A. Zeki Validi, Togan (1934, reprint 1999) (Arabic & Persian)		Archaeological Survey of India	150.00	–
0000A	1668	The Buddhist Antiquities of Nagarjunakonda, Madras Presidency, A.H. Longhurst (1938, reprint 1999)		Archaeological Survey of India	195.00	–
0000 A	1669	Excavations at Paharpur, Bengal, Rao Bahadur, K.N. Dikshit (1938, reprint 1999)		Archaeological Survey of India	330.00	–
0000 A	1670	The Ananda temple at Pagan, Chas. Duroiselle (1937, reprint 1999)		Archaeological Survey of India	95.00	–
0000 A	1671	The "Numeral-Sings" of the Mohenjo-Daro Script, Alan S.C. Ross (1938, reprint 1999)		Archaeological Survey of India	95.00	–
0000 A	1672	Rajagriha in Ancient Literature, Dr. Bimala Churn Law, (1968, reprint 1999)		Archaeological Survey of India	90.00	–
0000 A	1673	Punch-marked Coins from Taxila, F.H.C. Walsh, (1939, reprint 1999)		Archaeological Survey of India	280.00	–
0000 A	1674	Kausambi in Ancient Literature, Bimala Churn Law, (1939, reprint 1999)		Archaeological Survey of India	80.00	–

0000 A	1675	Excavations at Agroha, Punjab, H.L. Srivastava (1952, reprint 1999)		Archaeological Survey of India	100.00	–
0000 A	1676	The Historical Sculptures of the Vaikunthapermal Temple, Kanchi, C. Minakshi, (1941, reprint 1999)		Archaeological Survey of India	150.00	–
0000 A	1677	Excavationsz Swat and Explorations in the Oxus Territories of Afghanistan, Evert Barger and Philip wright (1941, reprint 1999)		Archaeological Survey of India	130.00	–
0000 A	1678	The Beads from Taxila, Horace C. Beck (1941, reprint 1999)		Archaeological Survey of India	130.00	–
0000 A	1679	Nalanda and its epigraphic material, Hirananda Sastri, (1942, reprint 1999)		Archaeological Survey of India	175.00	–
0000 A	1680	Panchalas and their Capital Ahichchhatra, B.C. Law, (1942 reprint 1999)		Archaeological Survey of India	70.00	–
0000 A	1681	The Manley Collection of Stone Age Tools with topographical and other notes, A. Aiyappan and Frank P. Manley, (1942, reprint 1999)		Archaeological Survey of India	135.00	–
0000 A	1682	Central Asian Fragments of the Ashtadasasahasrika Prajnaparamita and of an unidentified text, Sten konow, (1942, reprint 1999)		Archaeological Survey of India	75.00	–
0000 A	1683	Nagarjunakonda 1938, T.N. Ramachandran, (1953, reprint 1999)		Archaeological Survey of India	180.00	–
0000 A	1684	Antiquities of Chamba State Part II Medieval and later Inscriptions with 33 plates, B.Ch. Chhabra, (1957, reprint 1999)		Archaeological Survey of India	270.00	–
0000 A	1685	Sanskrit Literature and Art Mirrors of Indian Culture, C. Sivaramamurty, (1955, reprint 1999)		Archaeological Survey of India	210.00	–
0000 A	1686	Excavations at Kausambi (1949-50) G.R. Sharma (1969) (Out of Stock)		Archaeological Survey of India		–
0000 A	1687	Nagarjunakonda (1954-60) Vol. I, R. Subrahmanyam (1975) Vol. II, K.V. Soundrarajan (Ed.) (2006)		Archaeological Survey of India	60.00 1000.00	–
0000 A	1688	Telkupi, D. Mitra (1969, reprint 2007)		Archaeological Survey of India	400.00	–
0000 A	1689	The Indus Script, Texts, Concordance and Tables, I. Mahadevan (1977) (Out of Stock)		Archaeological Survey of India		–
0000 A	1690	Lothal-A Harappan Port Town (1955-62), S.R. Rao Vol. I (1979) Vol. II (1985)		Archaeological Survey of India	115.00 160.00	–
0000 A	1691	Karandai Tamil Sangam Plates of Rajendrachola I, K.G. Krishnan (1984)		Archaeological Survey of India	120.00	–
0000 A	1692	Ratnagiri (1958-61) Debala Mitra Vol. I (1981) Vol. II (1983)		Archaeological Survey of India	250.00 210.00	–
0000 A	1693	Images of Nepal, Krishna Deva (1984)		Archaeological Survey of India	150.00	–
0000 A	1694	Excavations at Satanikota (1977-80) N.C. Ghosh (1986)		Archaeological Survey of India	150.00	–
0000 A	1695	Daimabad (1976-79), S.A. Sali (1986)		Archaeological Survey of India	400.00	–
0000 A	1696	The Caves of Panhale-Kaji (Ancient Pranalaka), M.N. Deshpande (1986)		Archaeological Survey of India	150.00	–

0000A	1697	Nagda (1955-57), N.R. Banerjee (1986)		Archaeological Survey of India	170.00	–
0000 A	1698	Excavations at Surkotada and Exploration in Kutch, J.P. Joshi (1990)		Archaeological Survey of India	325.00	–
0000 A	1699	Excavations at Sringaverapura (1977-86), Vol. I, B.B. Lal (1993)		Archaeological Survey of India	600.00	–
0000 A	1700	Excavations at Bhagwanpura (1975-76), J.P. Joshi (1993)		Archaeological Survey of India	560.00	–
0000 A	1701	Kaveripattinam Excavations (1963-73), K.V. Soundara Rajan (1994)		Archaeological Survey of India	300.00	–
0000 A	1702	Angkorvat-India's Contributions in Conservation (1986-93), B. Narsimhaiah (1994)		Archaeological Survey of India	500.00	–
0000 A	1703	Excavations at Malvan, F.R. Allchin and J.P. Joshi (1995)		Archaeological Survey of India	250.00	–
0000 A	1704	Excavations at Sannathi (1986-89), James Howell (1995)		Archaeological Survey of India	325.00	–
0000 A	1705	Excavations at Piprahwa and Ganwaria, K.M. Srivastava (1996)		Archaeological Survey of India	660.00	–
0000 A	1706	Excavations at Tuljapur Garhi (1984-85) B.P. Bopardikar (1996)		Archaeological Survey of India	180.00	–
0000 A	1707	Further Excavations at Pauni (1994) Amarendra Nath (1998)		Archaeological Survey of India	275.00	–
0000 A	1708	Excavations at Kalibangan - The Early Harappans (1961-69) B.B. Lal et. al., (2003)		Archaeological Survey of India	1000.00	–
0000 A	1709	Excavations at Tarkhanewala-Dera & Chak 86 (2003-2004) Pramod Kumar Trivedi (2009)		Archaeological Survey of India	725.00	–
0000 A	1710	Excavations at Udayagiri-2 (1997-2000) Dr. B. Bandyopadhyay (2007)		Archaeological Survey of India	600.00	–
0000 A	1711	Bekal Excavation (1997-2001) M. Nambirajan, (2009)		Archaeological Survey of India	350.00	–
0000A	1712	Antichak Excavations-2 (1971-1981) B.S. Verma (2011)		Archaeological Survey of India	600.00	–
0000 A	1713	Excavations at Bharadvaja Asrama (1978-79 & 1982-83) (with a note on the Exploration at Chitrakuta) B.B. Lal (2011)		Archaeological Survey of India	480.00	–
0000 A	1714	Further Excavations at Udayagiri-2, Odisha (2001-03) P.K. Trivedi (2011)		Archaeological Survey of India	630.00	–
0000 A	1715	Excavations at Siruthavur (2008) Sathyabhama Badhreenath (2011)		Archaeological Survey of India	250.00	–
0000 A	1716	Excavations at Kanaganahalli, K.P. Poonacha (2011)		Archaeological Survey of India	1250.00	–
0000 A	1717	Saluvankuppam Excavations (2005-2007) Sathyabhama Badhreenath (2015)		Archaeological Survey of India	350.00	–
0000 A	1718	Catalogue of Terracotta Figurines From Rajghat Excavations (1940) B.R. Mani & Arundhati Banerji (2012)		Archaeological Survey of India	350.00	–
0000 A	1719	Excavations at Adam 1988-1992 A City of Asika Janapada, Amrendra Nath (2013) (In Press)		Archaeological Survey of India		–
0000 A	1720	Excavations at Kalibangan - The Harappans (1960-1969) B.B. Lal, Jagat Pati Josh, A.K. Sharma, Madhu Bala, K.S. Ramachandran Part I (2015), Part II (In Press)		Archaeological Survey of India	1900.00	–
0000 A	1721	Excavation Report on 'Chalcolithic Culture of Orissa - A case study of Golabai Sasan' (In Press)		Archaeological Survey of India		–

0000 A	1722	Cave Temples of the Pallavas, K.R. Srinivasan (1964, reprint 1993) (Out of Stock)		Archaeological Survey of India		–
0000 A	1723	An Architectural Survey of Temples of Kerala, H. Sarkar (1978)		Archaeological Survey of India	85.00	–
0000 A	1724	Cave Temples of the Deccan, K.V. Soundara Rajan (1981)		Archaeological Survey of India	140.00	–
0000 A	1725	Temples of the Pratihara Period in Central India, R.D. Trivedi (1990)		Archaeological Survey of India	225.00	–
0000 A	1726	Temples of Khajuraho (in two volumes), K. Deva (1990)		Archaeological Survey of India	400.00	–
0000 A	1727	Temples of the Gangas of Karnataka, I.K. Sharma (1992)		Archaeological Survey of India	300.00	–
0000 A	1728	Cave-temples in the regions of the Pandya, Muttaraiya, Atiyaman and Aydynasties in Tamil Nadu and Kerala (Part I, II & III), D. Dayalan (2014)		Archaeological Survey of India	2150.00 (Set of 3 Parts)	–
0000 A	1729	Ancient India (New Series) Vol. I (2011)		Archaeological Survey of India	1000.00	–
0000 A	1730	Report on Buddhist Cave Temples and their Inscriptions, Jas. Burgess (1883, reprint 1994)		Archaeological Survey of India	350.00	–
0000 A	1731	Muhammadan Architecture of Bharoch, Cambay Dholka, Champanir and Mahmudabad in Gujarat, Jas. Burgess (1896, reprint 1994)		Archaeological Survey of India	300.00	–
0000 A	1732	The Jain Stupa and other Antiquities of Mathura, Vincent A. Smith (1901, reprint 1994)		Archaeological Survey of India	400.00	–
0000 A	1733	Antiquities of Indian Tibet, A.H. Francke Part I (1914, reprint 1994)		Archaeological Survey of India	300.00	–
0000 A	1734	Antiquities of Indian Tibet, A.H. Francke Part II (1926, reprint 1994)		Archaeological Survey of India	300.00	–
0000 A	1735	Antiquities of Chamba State, J.Ph. Vogel, Part I (1911, reprint 1994)		Archaeological Survey of India	400.00	–
0000 A	1736	Antiquities of Chamba State, B.Ch. Chhabra Part II (1957, reprint 1994)		Archaeological Survey of India	300.00	–
0000 A	1737	Akbar's Tomb, Sikandarah near Agra, Edmund W. Smith (1909, reprint 1994)		Archaeological Survey of India	425.00	–
0000 A	1738	Report on the Elura Cave Temples and the Brahmanical and Jaina Cave in Western Indian, Jas Burgess (1883, reprint 1994)		Archaeological Survey of India	320.00	–
0000 A	1739	The Sharqi Architecture of Jaunpur, with notes on Zafarabad, Sahet-Mahet and other Places in the North-Western Provinces and Oudh, A. Fuhrer (1889, reprint 1994)		Archaeological Survey of India	430.00	–
0000 A	1740	The Chalukyan Architecture, including examples form the Bellari District, Madras Presidency, Alexander Rea (1896, reprint 1995)		Archaeological Survey of India	380.00	–
0000A	1741	The Chalukyan Architecture of the Kanarese Districts, Henry Cousens (1926, reprint 1996)		Archaeological Survey of India	580.00	–
0000 A	1742	Bijapur and its Architectural Remains with an Historical outline of the Adil Shahi Dynasty, Henry Cousens (1916, reprint 1996)		Archaeological Survey of India	450.00	–

0000 A	1743	The Buddhist Stupas of Amaravati and Jaggayyapeta in the Krishna District, Madras Presidency, Surveyed in 1882, J. Burgess with translations of the Asokan Inscriptions at Jaugada and Dhauli, G. Buhler (1886, reprint 1996)		Archaeological Survey of India	340.00	–
0000 A	1744	The Muhammadan Architecture of Ahmadabad, Jas. Burgess, Part I (1990, reprint 1997)		Archaeological Survey of India	400.00	–
0000 A	1745	The Muhammadan Architecture of Ahmadabad, Jas. Burgess, Part II (1905, reprint 1997)		Archaeological Survey of India	354.00	–
0000 A	1746	South Indian Buddhist Antiquities; including the Stupas of Bhattiprolu, Gudivada and Ghantasala and other Ancient Sites in the Krishna District, Madras Presidency, Alexander Rea (1894, reprint 1997)		Archaeological Survey of India	200.00	–
0000 A	1747	The Antiquities of Sind with Historical Outline, Henry cousins (1929 reprint 1998)		Archaeological Survey of India	460.00	–
0000 A	1748	Somanatha and other Mediaeval Temples in Kathiawad, Henry Cousens (1931 reprint 1998)		Archaeological Survey of India	415.00	–
0000 A	1749	भक्ति रसामृतसिन्धु का समालोचनात्मक अध्ययन	डॉ० सीमा शकुनि	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	500.00	–
0000 A	1750	वेद–पर्यावरण–नवनीतम्	डॉ० भाष्कर शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	600.00	–
0000 A	1751	अभिराजयशोभूषणम्: ससमीक्षमधीतिः	श्री प्रवीण पण्ड्या	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	150.00	–
0000 A	1752	भारतीयदर्शनेषु कैवल्यावधारणा	डॉ० राघवाचार्य वेदान्ती	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	700.00	–
0000 A	1753	नैषधकालीन भारत	डॉ० गायत्री द्विवेदी	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	700.00	–
0000 A	1754	भारतीय दर्शन	डॉ० पवित्र कुमार शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	600.00	–
0000 A	1755	कठोपनिषद्	डॉ० देवेन्द्र नाथ पाण्डेय	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	400.00	–
0000 A	1756	महाभारत और पौराणिक वाड्मय में अर्जुन समीक्षात्मक अनुशीलन	डॉ० विजय कुमार शुक्ल	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	500.00	–
0000 A	1757	चतुः सम्प्रदाय दिग्दर्शन (चतुः सम्प्रदाय के 52 द्वारों एवं अखाडों का इतिहास)	श्री महन्त हरिशंकर वेदान्ती	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	1500.00	–
0000 A	1758	चाणक्यराजनितिशास्त्र	डॉ० रूपनारायण त्रिपाठी	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	500.00	–
0000 A	1759	साहित्यशास्त्रस्य दार्शनिक स्वरूप	डॉ० सुभाष शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	500.00	–
0000 A	1760	संस्कृत अर्थ एवं प्रबंध चिन्तन	डॉ० नीरज शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	350.00	–
0000 A	1761	उत्तरकालामृतम	श्री पं० गणपतिलाल शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	800.00	–
0000 A	1762	अद्भुतधातुरूपावली	श्री पं० बोध कुमार झा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	600.00	–
0000 A	1763	पद्य पंचतन्त्रम्	श्री पदमशास्त्री	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	450.00	–
0000 A	1764	पाणिनीयव्याकरण (एक वैज्ञानिकमनुसन्धानम)	डॉ० रमेश झा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	600.00	–
0000 A	1765	ईशादिनो उपनिषदा को राजस्थानी संस्करण	डॉ० दयालसिंह शेखावत	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	150.00	–

0000 A	1766	रामायणकालीन पर्यावरण चेतना की वैज्ञानिकता	डॉ० सुधीर कुमार शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	500.00	–
0000 A	1767	धर्मशास्त्रीय परम्परा में दण्ड विधान	डॉ० सुधीर कुमार शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	300.00	–
0000 A	1768	संस्कृत वाड.मय में नारी चित्रण	श्री गंगासहाय शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	750.00	–
0000 A	1769	पंचतंत्र	डॉ० भीमराज शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	995.00	–
0000A	1770	मृच्छकटिकम्	डॉ० शिवबालक द्विवेदी	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	1500.00	–
0000 A	1771	वैदिक सूक्त मुक्तावली	डॉ० लम्बोदर मिश्र	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	500.00	–
0000 A	1772	संस्कृत साहित्य का इतिहास	डॉ० राकेश कुमार जैन	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	500.00	–
0000 A	1773	उणादिनिष्पन्नशब्दानां व्युत्पत्ति विज्ञानम्	डॉ० रमेश झा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	200.00	–
0000 A	1774	पाणिनी परिशीलनम्	डॉ० शिवदत्त शर्मा चतुर्वेदी	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	500.00	–
0000 A	1775	पञ्चामृतम्	डॉ० प्रभाकर शास्त्री	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	800.00	–
0000 A	1776	नागेशभट्ट का व्याकरण – दर्शन–चिन्तन (परमलघुमंजुषा के संदर्भ में)	डॉ० प्रकाशचन्द्र	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	900.00	–
0000 A	1777	अमृतेश्वरी (श्रीमभ्दगवदीता) तीन खण्डों में	श्री रमेश चतुर्वेदी	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	1500.00	–
0000 A	1778	वैदिकसंस्कृतिपरिप्रेक्ष्य जम्भवाण्या विवेचनात्मकध्ययनम्	डॉ० गोरधनराम विश्नोई	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	500.00	–
0000 A	1779	भारतीय दर्शनों की शास्त्रार्थ पद्धति	डॉ० रानी दाधीच	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	600.00	–
0000 A	1780	वाल्मीकि रामायण में राजनीति	डॉ० शिवदत्त शर्मा चतुर्वेदी	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	300.00	–
0000 A	1781	राजलक्ष्मी स्वयंवर का समीक्षात्मक अध्ययन	डॉ० घनश्याम बैरवा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	600.00	–
0000 A	1782	श्रीमभ्दगवदीता	श्री भाष्कारः दयानन्द भार्गव	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	1500.00	–
0000 A	1783	प्रपन्नञ्जनी (श्री गुणरत्न कोश)	पं० लीलापुरूषोत्तम शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	200.00	–
0000 A	1784	धृतराष्ट्र का जीवन दर्शन	डॉ० प्रज्ञा अथइया	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	175.00	–
0000 A	1785	गीता और बाइबिल (तुलनात्मक अध्ययन)	डॉ० गिरिजा व्यास	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	200.00	–
0000 A	1786	हितोपदेश	डॉ० भीमराज शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	500.00	–
0000 A	1787	स्वप्रवासवदत्तम	डॉ० रूपनारायण त्रिपाठी	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	150.00	–
0000 A	1788	वशिष्ठरामायण में निरूपित जीवन मूल्यों की मीमांसा	डॉ० कुञ्जबिहारी पाण्डेय	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	400.00	–
0000 A	1789	वैदिकसाहित्ये सृष्टिप्रक्रिया	डॉ० धनेश्वर झा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	300.00	–
0000 A	1790	अयाध्यातीर्थप्रशंसा	डॉ० उमाकान्त चतुर्वेदी	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	200.00	–
0000 A	1791	वैदिक भूगोल सप्तसैन्धव प्रदेश	डॉ० कैलाशनाथ द्विवेदी	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	700.00	–
0000 A	1792	महाकवि कालिदास और वनलक्ष्मी का पुष्प हास	श्री रतनलाल मिश्र	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	250.00	–
0000 A	1793	हिन्दु संस्कारों का धर्मशास्त्रीय विवेचन	डॉ० अरविन्द शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	350.00	–

0000 A	1794	धर्म की कोटियां	श्री शुकदेव शास्त्री	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	400.00	–
0000 A	1795	व्यास एवं दक्ष स्मृति में नारी धर्म	डॉ० आरती झा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	300.00	–
0000 A	1796	संस्कृत वाड्.मय में पर्यावरण	डॉ० शंकरलाल शास्त्री	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	800.00	–
0000 A	1797	कालिदास और उसकी काव्यकला	श्री वागीश्वर विद्यालंकार	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	350.00	–
0000 A	1798	भरत और भारतीय नाट्यकला	श्री सुरेन्द्रनाथ दीक्षित	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	900.00	–
0000A	1799	नैषधीयचरितम् – प्रथम सर्ग	डॉ० शिवबालक द्विवेदी	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	350.00	–
0000 A	1800	जैनदर्शनसार	डॉ० नरेन्द्र कुमार शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	500.00	–
0000 A	1801	मुद्राराक्षस	डॉ० निरंजन मिश्र	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	900.00	–
0000 A	1802	सांख्यकारिका	डॉ० रविकांत मणि	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	350.00	–
0000 A	1803	स्मृतियों की जीर्ण श्रावस्ती नगरी मे (डॉ० हर्षदेव माधव की प्रतिनिधि कविताएं)	श्री प्रवीण पण्ड्या	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	150.00	–
0000 A	1804	आख्यातार्थ का आलोचनात्मक अध्ययन	डॉ० कमलनयन शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	400.00	–
0000 A	1805	भाषावत्तेः समीक्षात्मकध्ययन्	डॉ० भोला झा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	700.00	–
0000 A	1806	उदाहरणचन्द्रिकायाः समीक्षात्मक अध्ययनम्	डॉ० रविकान्त मणि	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	450.00	–
0000 A	1807	ऋड्.मन्त्रार्थ समालोचनम्	श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्र	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	500.00	–
0000 A	1808	उत्तररामचरितम्	डॉ० शिवबालक द्विवेदी	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	700.00	–
0000 A	1809	नृसिंहचम्पू	श्री माणिक्यलाल शास्त्री	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	150.00	–
0000 A	1810	कादम्बरी कथामुखम	डॉ० शिवबालक द्विवेदी	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	300.00	–
0000 A	1811	निरूक्त प्रथम अध्याय	डॉ० देवेन्द्र नाथ पाण्डेय	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	300.00	–
0000 A	1812	सूर्यसिद्धांतः	पं० गणपतिलाल शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	800.00	–
0000 A	1813	उद्बाहुवामनता	श्री प्रवीण पण्ड्या	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1814	सोमसंस्थापद्धतेः प्रतिपाद्यविषयविवेचनम्	डॉ० लम्बोदर मिश्र	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	400.00	–
0000 A	1815	ब्रह्मरसायनम्	अनु० श्रीराम दवे	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	200.00	–
0000 A	1816	कालिदास के रूपकों में त्रासदीय तत्व	डॉ० नाथुलाल सुमन	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	500.00	–
0000 A	1817	वैष्णव दर्शन में अर्थ पञ्चक	डॉ० शालिनी सक्सेना	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	175.00	–
0000 A	1818	कर्णावतसम्	श्रीमती वसन्ती हर्ष	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	300.00	–
0000 A	1819	सप्तऋर्षि स्मृति समुच्चय (2 खण्ड)	डॉ० प्रभाकर शास्त्री	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	750.00	–
0000 A	1820	संस्कृत कथा शतकम् (2 खण्ड)	श्री पदमशास्त्री	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	640.00	–
0000 A	1821	वैशेषिक दर्शनम्	श्री गड.गधर भट्ट सुतमहादेवशर्मन	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	700.00	–

0000 A	1822	प्राचीन एवं अर्वाचीन शिक्षा प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में वेदाड.ग शिक्षा का महत्व	डॉ० आलोक शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	600.00	–
0000 A	1823	उत्तररामचरितम् और आधुनिक हिन्दी काव्य परंपरा	डॉ० कृष्ण गोपाल मिश्र	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	500.00	–
0000 A	1824	शूद्रक का मृच्छकटिकः एक आलोचनात्मक अध्ययन	डॉ० विश्वनाथ शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	400.00	–
0000 A	1825	नलविलासमहाकाव्यम्	डॉ० रूपनारायण त्रिपाठी	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	500.00	–
0000 A	1826	शब्द–विद्या सौरभम्	डॉ० गंगाधर भट्ट	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	125.00	–
0000 A	1827	वरदराजाचार्य की तार्किक रक्षा का समालोचनात्मक अध्ययन	डॉ० सरोज कौशल	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	175.00	–
0000A	1828	संस्कृत साहित्य के श्रेष्ठ साहित्यकार	डॉ० भीमराज शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1829	संस्कृत सूक्ति वैभवम	डॉ० शंकरलाल शास्त्री	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	75.00	–
0000 A	1830	वैदिक साहित्य का इतिहास	आचार्य भेषराज शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	150.00	–
0000 A	1831	प्राचीनभारतस्य साहित्यिकः सांस्कृतिकश्चेतिहासः	डॉ० रामकुमार दाधीच	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	150.00	–
0000 A	1832	भारतीय संस्कृति	डॉ० वाई. एस. रमेश	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	70.00	–
0000 A	1833	व्युत्पतिवाद (प्रथमाकारकान्तो)	डॉ० वैद्यनाथ झा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	200.00	–
0000 A	1834	लघुसिद्धांत कौमुदी (संपूर्ण)	डॉ० जगदीश शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	400.00	–
0000 A	1835	लघुसिद्धांत कौमुदी (भ्वादीप्रकरण से ण्यन्त प्रकरण)	डॉ० जगदीश शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	200.00	–
0000 A	1836	लघुसिद्धांत कौमुदी (संज्ञाप्रकरण से विसर्ग संधि)	डॉ० जगदीश शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1837	लघुसिद्धांत कौमुदी (अजन्तपुल्लिंगप्रकरण से अजन्तनपुसलिड.ग प्रकरण एवं कारक तथा अव्ययप्रकरण)	डॉ० जगदीश शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	60.00	–
0000 A	1838	लघुसिद्धांत कौमुदी (कृदन्ते कृत्य प्रकरण से स्वार्थिक प्रकरण)	डॉ० जगदीश शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	90.00	–
0000 A	1839	लघुसिद्धांत कौमुदी (हलन्त पुल्लिंगप्रकरण से हलन्त नपुंसकलिंग प्रकरण)	डॉ० जगदीश शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	60.00	–
0000 A	1840	लघुसिद्धांत कौमुदी (प्रक्रिया भाग)	डॉ० जगदीश शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1841	मध्यसिद्धांत कौमुदी (समास प्रकरण)	श्री हरस्वरूप वाशिष्ठ	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	125.00	–
0000 A	1842	मध्यसिद्धांत कौमुदी (सकृत्यं पूर्वोत्तरकृदन्तप्रकरणम्)	डॉ० राजधर मिश्र	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	125.00	–
0000 A	1843	मध्यसिद्धांत कौमुदी (शैषिक प्रकरण)	श्री गेय कुमार झा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1844	सिद्धांत कौमुदी – कारक प्रकरण	डॉ० बजरंगलाल शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	60.00	–
0000 A	1845	सिद्धांत कौमुदी – कारक प्रकरण	श्री हरस्वरूप वाशिष्ठ	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	80.00	–
0000 A	1846	लिंगानुशासनम्	श्री हरस्वरूप वाशिष्ठ	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	80.00	–
0000 A	1847	पाणिनीय शिक्षा	डॉ० द्विजेन्द्रनाथ मिश्र	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	30.00	–
0000 A	1848	संस्कृत रचनानुवाद कौमुदी	डॉ० शिवबालक द्विवेदी	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	125.00	–

0000 A	1849	वृहद रचनानुवाद कौमुदी (1 से 20 अध्याय पर्यन्त)	डॉ० जय प्रकाश मिश्र	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	80.00	–
0000 A	1850	वृहद रचनानुवाद कौमुदी (21 से 40 अध्याय पर्यन्त)	डॉ० जय प्रकाश मिश्र	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1851	वृहद रचनानुवाद कौमुदी (41 से 60 अध्याय पर्यन्त)	डॉ० जय प्रकाश मिश्र	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1852	पाणिनीयसूत्रार्थतत्त्वालोकः	डॉ० शिवकांत झा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	80.00	–
0000 A	1853	पाणिनीयकृत्यप्रत्ययार्थानुसन्धानम्	श्री अशोक कुमार तिवाड़ी	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1854	प्रौढ–निबंध सौरभम्	श्री विश्वनाथ मिश्र	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	150.00	–
0000 A	1855	संस्कृत–निबंध पीयुषम्	डॉ० कृष्णगोपाल जांगिड	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	200.00	–
0000 A	1856	संस्कृत निबन्ध रत्नाकर	डॉ० शिवबालक द्विवेदी	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	250.00	–
0000A	1857	विद्याधरनीतिरत्नम्	डॉ० विक्रम सिंह	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1858	हितोपदेश	डॉ० भीमराज शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	400.00	–
0000 A	1859	हितोपदेश मित्रलाभ	डॉ० विश्वनाथ शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	60.00	–
0000 A	1860	पन्चतन्त्रम्	डॉ० भीमराज शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	300.00	–
0000 A	1861	नीतिशतकम्	डॉ० गोपाल शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	80.00	–
0000 A	1862	समरक्षेत्रम् (आधुनिक संस्कृतकाव्य संग्रह)	श्री कौशल तिवारी	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1863	विश्रुतचरितम्	डॉ० विश्वनाथ शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1864	विदुलोपाख्यान	डॉ० प्रकाशचन्द्र वेदालंकार	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	40.00	–
0000 A	1865	ऋतुसंहार	श्री रविकांतमणि	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1866	नृसिंहचम्पू	श्री माणिक्यलाल शास्त्री	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	75.00	–
0000 A	1867	नलचम्पू (प्रथम उच्छवास)	डॉ० निरंजन मिश्र	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	75.00	–
0000 A	1868	मेघदूतम्–संपूर्ण	डॉ० आर.बी. शास्त्री	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	125.00	–
0000 A	1869	रघुवंशम्–प्रथम सर्ग	श्री रविकांतमणि	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	70.00	–
0000 A	1870	रघुवंशम्–द्वितीय सर्ग	श्री रविकांतमणि	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	60.00	–
0000 A	1871	रघुवंशम्–तृतीय सर्ग	श्री रविकांतमणि	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1872	रघुवंशम्–चतुर्थ सर्ग	श्री शिवचरण त्रिपाठी	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	25.00	–
0000 A	1873	रघुवंशम्–पंचम सर्ग	श्री आचार्य प्रेमराज	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1874	रघुवंशम्–षष्ठ सर्ग	श्रीमती सुकेशी रानी गुप्ता	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	70.00	–
0000 A	1875	रघुवंशम्–सप्तम से नवम सर्ग	श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1876	रघुवंशम् त्रयोदशः सर्ग	श्री रविकांतमणि	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	70.00	–
0000 A	1877	रघुवंशम् चर्तुदशः सर्ग	श्री रविकांतमणि	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	50.00	–

0000 A	1878	किरातार्जुनीयम्–प्रथम सर्ग	डॉ० महिमा बासल	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1879	किरातार्जुनीयम्–द्वितीय सर्ग	डॉ० रूपनारायण त्रिपाठी	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1880	किरातार्जुनीयम्–तृतीय सर्ग	डॉ० रूपनारायण त्रिपाठी	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	60.00	–
0000 A	1881	बुद्धचरितम्–तृतीय सर्ग	डॉ० रूपनारायण त्रिपाठी	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	40.00	–
0000 A	1882	हर्षचरित (प्रथम उच्छवास)	श्री माणिक्यलाल शास्त्री	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	60.00	–
0000 A	1883	नैषधीयचरितम् – प्रथम सर्ग	डॉ० शिवबालक द्विवेदी	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1884	नैषधीयचरितम् – तृतीय सर्ग	श्री रूपनारायण त्रिपाठी	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1885	शिशुपालवधम्–प्रथम सर्ग	श्री कैलाशचन्द्र त्रिवेदी	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	50.00	–
0000A	1886	शिशुपालवधम्–द्वितीय सर्ग	डॉ० रामदेव साहू	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	70.00	–
0000 A	1887	व्युत्पत्तिप्रदर्शनम्	डॉ० विश्वम्भर दयाल जोशी	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1888	कुमारसम्भव–1 सर्ग	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	65.00	–
0000 A	1889	कुमारसम्भव–1–2 सर्ग	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	75.00	–
0000 A	1890	कुमारसम्भव–3–4 सर्ग	श्री रविकांतमणि	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	70.00	–
0000 A	1891	कुमारसंभव–पंचम सर्ग	डॉ० विनोद बिहारी शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	60.00	–
0000 A	1892	शिवराजविजयम्–प्रथम दो निश्वास	डॉ० रूपनारायण त्रिपाठी	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1893	शिवराजविजयम्–पंचम निश्वासः	श्री जयप्रकाश मिश्र	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1894	वृक्षरक्षणम् (लघुनाटक)	प्रो० ताराशंकर शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1895	हंसरक्षणम् (लघुनाटक)	प्रो० ताराशंकर शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	35.00	–
0000 A	1896	मुद्राराक्षस	डॉ० निरंजन मिश्र	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	250.00	–
0000 A	1897	अभिज्ञानशाकुन्तलम्	डॉ० शिवबालक द्विवेदी	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	250.00	–
0000 A	1898	अभिज्ञानशाकुन्तलम्–चतुर्थ सर्ग	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1899	उत्तररामचरितम्	डॉ० शिवबालक द्विवेदी	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	250.00	–
0000 A	1900	मृच्छकटिकम्	डॉ० शिवबालक द्विवेदी	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	300.00	–
0000 A	1901	रत्नावली नाटिका	डॉ० शिवबालक द्विवेदी	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1902	कर्णभारम्	डॉ० राकेश कुमार जैन	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1903	मध्यमव्यायोगरूपकम्	डॉ० पुष्करदत्त शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1904	संस्कृत नाट्य वल्लरी	श्री कलानाथ शास्त्री	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	30.00	–
0000 A	1905	प्रतिमानाटकम्	डॉ० रूपनारायण त्रिपाठी	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	70.00	–
0000 A	1906	स्वप्नवासवदत्तम्	डॉ० रूपनारायण त्रिपाठी	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	75.00	–

0000 A	1907	स्वप्रवासवदत्तम	डॉ० सपना राठौड़	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1908	नाट्यशास्त्र (प्रथम द्वितीय अध्याय)	श्री रूपनारायण त्रिपाठी	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1909	नाट्यशास्त्र (षष्ठः अध्याय)	डॉ० यशवंत कुमार जोशी	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	60.00	–
0000 A	1910	पुरूषसूक्तः एक विवेचन	डॉ० समी शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1911	बृहदारण्यकोपनिषद् (तृतीय अध्याय)	डॉ० यशवंत कुमार जोशी	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1912	ऋकसूक्त संग्रह	डॉ० यशवंत कुमार जोशी	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1913	अर्थर्ववेदीय मातृभूमि सूक्तम् (अर्थर्ववेद संहिता–द्वादश काण्ड)	डॉ० लम्बोदर मिश्र	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	60.00	–
0000 A	1914	अर्थवर्णरूद्र	डॉ० नीरज शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	50.00	–
0000A	1915	अथर्ववेदीय माण्डूक्योपनिषद	आचार्य भेषराज शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	40.00	–
0000 A	1916	ईशावास्योपनिषद्	श्री हरस्वरूप वाशिष्ठ	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1917	कठोपनिषद्	डॉ० देवेन्द्र नाथ पाण्डेय	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	150.00	–
0000 A	1918	वैदिक सूक्त मुक्तावली	डॉ० सुधीर कुमार गुप्त	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1919	वैदिक सूक्त मुक्तावली	डॉ० लम्बोदर मिश्र	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1920	पारस्कर गृह सूत्रम्	श्री रामकृष्ण शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	200.00	–
0000 A	1921	उपनिषद परिशीलन	डॉ० शिवदत्त शर्मा चतुर्वेदी	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1922	ध्वन्यालोक (प्रथम उद्योत)	श्री कृष्णचन्द्र चतुर्वेदी	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	90.00	–
0000 A	1923	वक्रोक्तिजीवितम् (प्रथमोन्मेष)	डॉ० यशवंत कुमार जोशी	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1924	वेदान्तसार	डॉ० लम्बोदर मिश्र	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	175.00	–
0000 A	1925	वेदान्तसार	श्री रविकांतमणि	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1926	गौतमधर्म सूत्राणि (संपूर्ण)	डॉ० प्रभाकर शास्त्री	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	300.00	–
0000 A	1927	याज्ञवलक्यस्मृति (व्यावहाराध्यायदायभाग)	डॉ० वाई. एस. रमेश	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1928	निरूक्त प्रथम अध्याय	डॉ० देवेन्द्र नाथ पाण्डेय	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1929	कोटिल्य अर्थशास्त्र (प्रथम अधिकरण)	डॉ० रूपनारायण त्रिपाठी	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	90.00	–
0000 A	1930	तर्कभाषा (हिन्छी संस्कृत भाषानुवाद व्याख्या सहित)	डॉ० शिवबालक द्विवेदी	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	200.00	–
0000 A	1931	सांख्यकारिका	श्री रविकांतमणि	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1932	तर्कसंग्रह	डॉ० नरेन्द्र कुमार शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	110.00	–
0000 A	1933	तर्कसंग्रह	डॉ० अर्कनाथ चौधरी	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1934	श्रीमदवाल्मीकीयरामायण (सुन्दरकाण्ड–पञ्चदश सर्ग)	श्रीमती हिमा गुप्ता	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	30.00	–
0000 A	1935	श्रीमदवाल्मीकीयरामायण (बालकाण्ड प्रथम सर्ग) मूल रामायण	आचार्य भेषराज शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	50.00	–

0000 A	1936	श्रीमद्भगवद्गीता (चतुर्दशोध्याय)	आ० भवानी शंकर शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1937	श्रीमद्भगवद्गीता (2–3–4 अध्याय)	डॉ० हीरेन्द्र कुमार शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	70.00	–
0000 A	1938	श्रीमद्भगवद् गीता (पद्युनावाद)	श्री कैलाशचन्द्र त्रिवेदी	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	175.00	–
0000 A	1939	परिखायुद्धम्	अनुवादक पं० श्री राम दवे	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	40.00	–
0000 A	1940	जैन दर्शन सार	डॉ० नरेन्द्र कुमार शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	150.00	–
0000 A	1941	चार्वाक दर्शन	श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	25.00	–
0000 A	1942	भारतीय दर्शन	डॉ० पवित्र कुमार शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	250.00	–
0000 A	1943	पाश्चात्य दर्शन	डॉ० पवित्र कुमार शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	300.00	–
0000A	1944	मीमांसा दर्शन	डॉ० पवित्र कुमार शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	250.00	–
0000 A	1945	नीतिशास्त्र	डॉ० पवित्र कुमार शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	80.00	–
0000 A	1946	वैशेषिक दर्शन	डॉ० पवित्र कुमार शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1947	वेदान्त दर्शन	डॉ० पवित्र कुमार शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	250.00	–
0000 A	1948	तर्कशास्त्र	डॉ० पवित्र कुमार शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	80.00	–
0000 A	1949	न्याय दर्शन	डॉ० पवित्र कुमार शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	80.00	–
0000 A	1950	योग दर्शन	डॉ० पवित्र कुमार शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	80.00	–
0000 A	1951	सांख्य दर्शन	डॉ० पवित्र कुमार शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	80.00	–
0000 A	1952	संस्कार अनुशीलन	डॉ० पवित्र कुमार शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	80.00	–
0000 A	1953	शिलान्यास पूजन पद्धति एवं वास्तु विमर्श	डॉ० रवि शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	125.00	–
0000 A	1954	अंगुष्ठः व्यक्तित्व का दर्पण	श्री त्रिलोक सैनी	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	70.00	–
0000 A	1955	संपूर्ण रत्न ज्योतिष	डॉ० निशांत पारीक	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	125.00	–
0000 A	1956	दैनिक जीवन में स्वप्र का फल	श्री महेशनन्द शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	150.00	–
0000 A	1957	दैनिक जीवन में उपयोगी शकुन	श्री महेशनन्द शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	125.00	–
0000 A	1958	फलित ज्योतिष	डॉ० रामकिशोर शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1959	भारतीय वास्तु रहस्य	श्री राजेश अनुपम	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1960	सुलभ सामग्री दुर्लभ प्रयोग	श्री राजेश वर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	140.00	–
0000 A	1961	श्रीसूक्त श्रीयंत्र और श्रीविद्या	डॉ० हर्षदेव माधव	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	150.00	–
0000 A	1962	ग्रहों की शांति के विविध उपाय	एल.एन. व्यास	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	40.00	–
0000 A	1963	ग्रह–नक्षत्र–योग	पं० चांद नारायण पारीक	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	80.00	–
0000 A	1964	पंञ्चांग–विज्ञानम्	डॉ० भास्कर क्षोत्रिय	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	35.00	–

0000 A	1965	पञ्चांग–का सामान्य परिचय	डॉ० विकास शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1966	तिथि कौतुकम (निर्णय कौतुकम) तिथि निर्णायक लघुरचना	डॉ० विकास शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	70.00	–
0000 A	1967	तिथि निर्णय के प्रमुख सिद्धांत एवं विशिष्ट तिथि पर्व निर्णय	डॉ० विकास शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	60.00	–
0000 A	1968	भुवनदीपकः	डॉ० वासुदेव शर्मा, डॉ० रवि शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1969	लघुजातकम	डॉ० शुभस्मिता मिश्र	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1970	षट्पंचाशिका	डॉ० शुभस्मिता मिश्र	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	80.00	–
0000 A	1971	जैमिनीसूत्रम	पं० गणपतिलाल शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1972	ज्याः सिद्धांत	पं० शिवचरण शास्त्री	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	100.00	–
0000A	1973	भारतीय वैद्य परम्परायाः क्रमिक विकास	डॉ० वासुदेव शर्मा, डॉ० रवि शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	150.00	–
0000 A	1974	वेधशालावैभवम्	डॉ० विनोद कुमार शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	200.00	–
0000 A	1975	प्रस्तर वेधशाला	डॉ० भाष्कर क्षोत्रिय	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	200.00	–
0000 A	1976	यंत्र परिचय	डॉ० विनोद कुमार शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1977	भारतीय ज्योतिष यंत्रालय वेध पथ प्रदर्शक	पं० गोकुलचन्द्र भवन	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1978	उत्तरकालामृतम	पं० गणपतिलाल शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	200.00	–
0000 A	1979	आधुनिक पंचाग दर्शन	डॉ० भाष्कर शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	350.00	–
0000 A	1980	आवाहनप्रदीपः	श्री रवि शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1981	ज्योतिष सामान्य ज्ञान	श्री सुराज शास्त्री	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1982	शाक्ततंत्र में श्री विद्या के रहस्य	डॉ० हर्षदेव माधव	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	80.00	–
0000 A	1983	विवाह संस्कार	श्री रवि शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1984	समर सार	श्री गणपति लाल शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	60.00	–
0000 A	1985	सूर्यसिद्धांतः	श्री गणपति लाल शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	250.00	–
0000 A	1986	ग्रहत्रयचार	डॉ० प्रद्युम्र कुमार शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	20.00	–
0000 A	1987	शिवजातकम्	डॉ० प्रद्युम्र कुमार शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	30.00	–
0000 A	1988	संत्वसरफलम्	डॉ० प्रद्युम्र कुमार शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	125.00	–
0000 A	1989	जन्म पत्र दीपकः	श्री गणपति लाल शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	75.00	–
0000 A	1990	लघु पाराशरी	श्री गणपति लाल शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	60.00	–
0000 A	1991	मुहूर्ततत्व	डॉ० भाष्कर शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	100.00	–
0000 A	1992	सौन्दर्यलहरी	डॉ० प्रभाकर शास्त्री	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	75.00	–
0000 A	1993	वैजयन्ती पंचांग गणितम्	डॉ० भाष्कर शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	25.00	–

0000 A	1994	पाद–रेखा विज्ञान	डॉ० भाष्कर शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	60.00	–
0000 A	1995	लघु चिन्तामणि	डॉ० भाष्कर शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	125.00	–
0000 A	1996	त्रिविधताप–प्रक्रोपशान्त्यै ज्योतिर्विज्ञानस्य प्रासडि.कता	डॉ० दिलीप कुमार झा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	72.00	–
0000 A	1997	ज्योतिर्विज्ञानामृतम्	डॉ० विनोद कुमार शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	250.00	–
0000 A	1998	ज्योतिष अवकहडाचक्रम्	सतीशचन्द्र शास्त्री	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	50.00	–
0000 A	1999	केतकीग्रहगणितम् (2 खण्ड)	डॉ० भाष्कर क्षोत्रिय	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	350.00	–
0000 A	2000	गोलीय रेखागणितम्	डॉ० भाष्कर क्षोत्रिय	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	50.00	–
0000 A	2001	जातकालंकार	श्री स्वराज शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	40.00	–
0000A	2002	शिवमहिम्रस्तोत्रम्	डॉ० रूपनारायण त्रिपाठी	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	50.00	–
0000 A	2003	चतुर्वेदोत्ता ग्रहशांति पद्धतिः	पं० मोहनलाल शर्मा पाण्डेय	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	300.00	–
0000 A	2004	विशिष्टव्रतोद्यापनविधिः	पं० मोहनलाल शर्मा पाण्डेय	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	400.00	–
0000 A	2005	हवनात्मक दुर्गासप्तशती	डॉ० रवि शर्मा	हंसा प्रकाशन / रचना प्रकाशन	350.00	–
0000 A	2006	त्रिपुराभारतीलघुस्तव सटीक	श्री मुनि जिनविजय	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	40.00	–
0000 A	2007	कर्णामृतप्रपा	श्री मुनि जिनविजय	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	10.00	–
0000 A	2008	बालशिक्षा–व्याकरण	श्री मुनि जिनविजय	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	40.00	–
0000 A	2009	प्रमाणमंजरी सटीक	श्री पट्टाभिराम शास्त्री	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	Not Available	–
0000 A	2010	यंत्रराजरचना	श्री केदारनाथ ज्योतिर्विद्	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	30.00	–
0000 A	2011	महर्षिकुलवैभव	श्री गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	77.00	–
0000 A	2012	वृत्तिदीपिका	श्री पुरूषोत्तम शर्मा चतुर्वेदी	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	10.00	–
0000 A	2013	राजविनोद महाकाव्य	श्री गोपाल नारायण बहुरा	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	42.00	–
0000 A	2014	तर्कसंग्रह फक्किका	डॉ० जितेन्द्र जेटली	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	46.00	–
0000 A	2015	प्राकृतानन्द	श्री मुनि जिनविजय	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	20.00	–
0000 A	2016	कान्हड़देप्रबंध	प्रो० के.बी. व्यास	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	111.00	–
0000 A	2017	उक्तिरत्नाकर	श्री मुनि जिनविजय	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	Not Available	–
0000 A	2018	क्यामखां रासा सानुवाद	डॉ० दशरथ शर्मा, अगरचन्द भंवरलाल नाहटा, अनु० डॉ० रतनलाल मिश्र	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	Not Available	–
0000 A	2019	कूर्मवंशयशप्रकाश (लावारासा)	श्री महताबचन्द खारेड़	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	56.00	–
0000 A	2020	श्रृंगारहारावली	डॉ० प्रियबाला शाह	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	Not Available	–
0000 A	2021	कृष्णगीति	डॉ० प्रियबाला शाह	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	10.00	–

0000 A	2022	नृत्तसंग्रह	डॉ० प्रियबाला शाह	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	10.00	–
0000 A	2023	कारकसम्बन्धोद्योत	श्री एच.पी. शास्त्री	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	Not Available	–
0000 A	2024	शब्दरत्नप्रदीप	श्री एच.पी. शास्त्री	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	Not Available	–
0000 A	2025	चक्रपाणिविजयमहाकाव्य	प्रो० के.के. शास्त्री	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	25.00	–
0000 A	2026	बांकीदास री ख्यात	प्रो० नरोत्तमदास स्वामी	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	Not Available	–
0000 A	2027	दुर्गापुष्पांजलि	श्री गड्.गाधर द्विवेदी	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	40.00	–
0000 A	2028	दशकण्ठवध	श्री गड्.गाधर द्विवेदी	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	Not Available	–
0000 A	2029	नृत्यरत्नकोश (भाग–1)	प्रो० आर.सी. पारीख एवं डॉ० प्रियबाला शाह	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	50.00	–
0000 A	2030	नृत्यरत्नकोश (भाग–2)	डॉ० प्रियबाला शाह	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	45.00	–
0000A	2031	कर्णकुतूहल	श्री गोपाल नारायण बहुरा	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	10.00	–
0000 A	2032	राजस्थानी साहित्य संग्रह (भाग–1)	प्रो० नरोत्तमदास स्वामी	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	43.00	–
0000 A	2033	वासवदत्ता कथा	डॉ० जे.एम. शुक्ल	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	30.00	–
0000 A	2034	ईश्वरविलासमहाकाव्य	श्री भट्ट मथुरानाथ शास्त्री	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	Not Available	–
0000 A	2035	पद्यमुक्तावली सटीक	श्री भट्ट मथुरानाथ शास्त्री	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	35.00	–
0000 A	2036	राजस्थान में संस्कृत साहित्य की खोज	अनु. बी.डी. त्रिवेदी	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	15.00	–
0000 A	2037	जुगलविलास	रानी लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	20.00	–
0000 A	2038	वीरवाण	रानी लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	72.00	–
0000 A	2039	कवीन्द्रकल्पलता	श्री मुनि जिनविजय	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	15.00	–
0000 A	2040	गोरा–बादल पद्मिनी चउपई	डॉ० उदयसिंह भटनागर	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	56.00	–
0000 A	2041	बसन्तविलास–फागु	प्रो० एम.सी. मोदी	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	35.00	–
0000 A	2042	स्वयंभूच्छन्द	प्रो० हरि दामोदर वेल्हणकर	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	15.00	–
0000 A	2043	पदार्थरत्नमंजूषा	श्री मुनि जिनविजय	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	Not Available	–
0000 A	2044	चान्द्रव्याकरण	पं० बेचरदास जीवराज डोसी	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	50.00	–
0000 A	2045	गोरा–बादल–चरित्र	श्री मुनि जिनविजय	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	75.00	–
0000A	2046	रसदीर्घिका	श्री गोपाल नारायण बहुरा	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	20.00	–
0000 A	2047	हस्तलिखित ग्रन्थ–सूची भाग–1		राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	30.00	–
0000 A	2048	भगतमाल (ब्रह्मदास कृत)	श्री उदयराज उज्ज्वल	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	39.00	–
0000 A	2049	राजस्थानी हस्तलिखित ग्रन्थ सूची, भाग–1		राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	37.50	–
0000 A	2050	वस्तुरत्नकोश	डॉ० प्रियबाला शाह	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	20.00	–

0000 A	2051	काव्यप्रकाश (प्रथम भाग)	प्रो० रसिकलाल सी. पारीख	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	70.00	–
0000 A	2052	काव्यप्रकाश (द्वितीय भाग)	प्रो० रसिकलाल सी. पारीख	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	40.00	–
0000 A	2053	मुहंता नैणसी री ख्यात, भाग–1	श्री बद्रीप्रसाद साकरिया	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	145.00	–
0000 A	2054	मुहंता नैणसी री ख्यात, भाग–2	श्री बद्रीप्रसाद साकरिया	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	210.00	–
0000 A	2055	रघुवरजसप्रकाश	श्री सीताराम लालस	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	75.00	–
0000 A	2056	हस्तलिखित ग्रन्थ–सूची भाग–2	श्री गोपाल नारायण बहुरा	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	12.00	–
0000 A	2057	राजस्थानी साहित्य संग्रह (भाग–2)	डॉ० पी.एल. मेनारिया	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	Not Available	–
0000 A	2058	राजस्थानी साहित्य संग्रह (भाग–3)	श्री लक्ष्मीनारायण गोस्वामी	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	65.00	–
0000 A	2059	श्री भुवनेश्वरीमहास्तोत्र	श्री गोपाल नारायण बहुरा	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	47.00	–
0000 A	2060	विद्याभूषणग्रन्थ सूची	श्री गोपाल नारायण बहुरा एवं श्री लक्ष्मीनारायण गोस्वामी	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	10.00	–
0000 A	2061	सूरजप्रकाश, भाग–1	श्री सीताराम लालस	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	75.00	–
0000 A	2062	सूरजप्रकाश, भाग–1	श्री सीताराम लालस	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	90.00	–
0000 A	2063	राजस्थानी हस्तलिखित ग्रन्थ सूची, भाग–2	श्री पुरूषोत्तम लाल मेनारिया	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	15.00	–
0000 A	2064	महर्षिकुलवैभव (मूल)	श्री प्रद्युम्न शर्मा	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	30.00	–
0000 A	2065	रत्नपरीक्षादि सप्तग्रन्थ–संग्रह	श्री अगरचन्द नाहटा एवं भंवरलाल नाहटा	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	67.00	–
0000 A	2066	वृत्तजाति समुच्चय	श्री हरि दामोदर वेल्हणकर	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	35.00	–
0000 A	2067	कविदर्पण	श्री हरि दामोदर वेल्हणकर	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	40.00	–
0000 A	2068	नेहतरंग	डॉ० रामप्रसाद दाधीच	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	30.00	–
0000 A	2069	एकाक्षरनामकोश–संग्रह	श्री मुनि रमणीकविजय	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	60.00	–
0000 A	2070	हमीरमहाकाव्य	श्री मुनि जिनविजय	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	Not Available	–
0000 A	2071	मत्स्यप्रदेश की हिन्दी साहित्य को देन	डॉ० मोतीलाल गुप्त	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	60.00	–
0000 A	2072	सूरजप्रकाश, भाग–3	श्री सीताराम लालस	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	95.00	–
0000 A	2073	समदर्शी आचार्य हरिभद्र	अनु. शांतिलाल जैन	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	25.00	–
0000 A	2074	वृत्तमुक्तावली	श्री भट्ट मथुरानाथ शास्त्री	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	20.00	–
0000A	2075	इन्द्रप्रस्थप्रबंध	डॉ० दशरथ शर्मा	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	35.00	–
0000 A	2076	ए. केटलॉग ऑफ संस्कृत एण्ड प्राकृत मेन्युस्क्रिप्ट्स पार्ट–1	श्री मुनि जिनविजय	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	Not Available	–
0000 A	2077	मुहंता नैणसी री ख्यात, भाग–3	श्री बद्रीप्रसाद साकरिया	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	Not Available	–
0000 A	2078	बुद्धिविलास	डॉ० पद्मधर पाठक	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	Not Available	–

0000 A	2079	रूक्मिणी–हरण	डॉ० पी.एल. मेनारिया	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	35.00	–
0000 A	2080	प्रतापरासो	डॉ० मोतीलाल गुप्त	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	60.00	–
0000 A	2081	सन्त कवि रज्जब	डॉ० ब्रजलाल वर्मा	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	Not Available	–
0000 A	2082	ए केटलॉग ऑफ संस्कृत एण्ड प्राकृत मेन्युस्क्रिप्ट्स पार्ट 2 ए	श्री मुनि जिनविजय	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	34.50	–
0000 A	2083	भक्तमाल (राघोदास कृत)	श्री अगरचन्द नाहटा	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	70.00	–
0000 A	2084	वृत्तमौक्तिक सटीक	म. विनयसागर	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	125.00	–
0000 A	2085	पश्चिमी भारत की यात्रा (हिन्दी–अनुवाद)	श्री गोपाल नारायण बहुरा	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	182.00	–
0000 A	2086	ए केटलॉग ऑफ संस्कृत एण्ड प्राकृत मेन्युस्क्रिप्ट्स पार्ट 2 बी	श्री मुनि जिनविजय	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	36.50	–
0000 A	2087	ए केटलॉग ऑफ संस्कृत एण्ड प्राकृत मेन्युस्क्रिप्ट्स पार्ट 2 सी	श्री मुनि जिनविजय	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	Not Available	–
0000 A	2088	बिन्हैरासौ	श्री सौभाग्यसिंह शेखावत	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	65.00	–
0000 A	2089	सोढायण	श्री शक्तिदान कविया	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	65.00	–
0000 A	2090	ए केटलॉग ऑफ संस्कृत एण्ड प्राकृत मेन्युस्क्रिप्ट्स पार्ट 3 ए	श्री मुनि जिनविजय	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	38.50	–
0000 A	2091	मुहंता नैणसी री ख्यात, भाग–4	श्री बद्रीप्रसाद साकरिया	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	140.00	–
0000 A	2092	मधुमालती कथा सचित्र	डॉ० फतेहसिंह	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	55.00	–
0000 A	2093	आगमरहस्य (पूर्वार्द्ध)	श्री गंगाधर द्विवेदी	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	Not Available	–
0000 A	2094	शकुनप्रदीप	श्री मुनि जिनविजय	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	20.00	–
0000 A	2095	पाठ्यरत्नकोश	श्री गोपाल नारायण बहुरा	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	20.00	–
0000 A	2096	ए केटलॉग ऑफ संस्कृत एण्ड प्राकृत मेन्युस्क्रिप्ट्स पार्ट 3 बी	श्री मुनि जिनविजय	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	48.75	–
0000 A	2097	नन्दोपाख्यान	श्री मुनि जिनविजय	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	10.00	–
0000 A	2098	राठौड़ वंश री विगत एवं वंशावली	श्री मुनि जिनविजय	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	Not Available	–
0000 A	2099	चण्डीशतक	श्री गोपाल नारायण बहुरा	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	40.00	–
0000 A	2100	कविकौस्तुभ	श्री मुनि जिनविजय	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	10.00	–
0000 A	2101	मीरां बृहत्पदावली, भाग–1	श्री हरिनारायण पुरोहित	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	140.00	–
0000 A	2102	स्थूलिभद्रकाकादि	डॉ० आत्माराम जाजोदिया	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	15.00	–
0000 A	2103	राजस्थानी वीर गीत–संग्रह, भाग–1	श्री सौभाग्यसिंह शेखावत	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	55.00	–
0000A	2104	गजगुणरूपकबन्ध	श्री सीताराम लालस	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	80.00	–
0000 A	2105	राजस्थानी वीर गीत–संग्रह, भाग–2	श्री सौभाग्यसिंह शेखावत	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	50.00	–
0000 A	2106	मारवाड़ रा परगना री विगत, भाग–1	डॉ० नारायणसिंह भाटी	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	Not Available	–
0000 A	2107	बेताल पच्चीसी	डॉ० पी.एल. मेनारिया	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	Not Available	–

0000 A	2108	देवीचरित, भाग–1	श्री हुक्मचन्द चतुर्वेदी	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	90.00	–
0000 A	2109	राजनीति रा कवित्त	डॉ० नारायणदत्त श्रीमाली	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	40.00	–
0000 A	2110	सिंधुघाटी की लिपि में ब्राह्मणों और उपनिषदों के प्रतीक	डॉ० फतेहसिंह	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	55.00	–
0000 A	2111	शंकरीसंगीत	श्री लक्ष्मीनारायण गोस्वामी	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	10.00	–
0000 A	2112	संघपति रूपजी वंशप्रशस्ति	म. विनयसागर	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	10.00	–
0000 A	2113	सनत्कुमारचक्रिचरित–महाकाव्य	म. विनयसागर	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	75.00	–
0000 A	2114	पथ्यास्वस्ति	श्री सुरजनदास स्वामी	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	67.00	–
0000 A	2115	आगमरहस्य (उत्तरार्द्ध)	श्री गंगाधर द्विवेदी	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	Not Available	–
0000 A	2116	मारवाड़ रा परगना री विगत, भाग–2	डॉ० नारायणसिंह भाटी	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	Not Available	–
0000 A	2117	मंत्रभागवत	डॉ० श्रद्धा चौहान	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	15.00	–
0000 A	2118	देवीचरित, भाग–2	श्री हुक्मचन्द चतुर्वेदी	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	140.00	–
0000 A	2119	सांख्यायनतन्त्र	श्री हुक्मचन्द चतुर्वेदी	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	Not Available	–
0000 A	2120	सिंहसिद्धान्तसिन्धु, भाग–1	श्री लक्ष्मीनारायण गोस्वामी	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	100.00	–
0000 A	2121	राजस्थानी वीर गीत–संग्रह भाग–3	श्री सौभाग्यसिंह शेखावत	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	95.00	–
0000 A	2122	बालतंत्र	कविराज विष्णुदत्त पुरोहित	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	25.00	–
0000 A	2123	नरसीजी रो माहेरो	प्रो० जेठालाल नारायण त्रिवेदी	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	45.00	–
0000 A	2124	संगीत रघुनन्दन (व्यंग्यार्थचन्द्रिका टीका सहित)	डॉ० दशरथ शर्मा	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	30.00	–
0000 A	2125	मीरां बृहत्पदावली, भाग–2	डॉ० कल्याणसिंह शेखावत	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	Not Available	–
0000 A	2126	मारवाड़ रा परगना री विगत, भाग–3	डॉ० नारायणसिंह भाटी	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	Not Available	–
0000 A	2127	राजस्थानी हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ सूची, भाग–3	श्री ओंकारलाल मेनारिया	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	14.50	–
0000 A	2128	सिंहसिद्धान्तसिन्धु, भाग–2	श्री लक्ष्मीनारायण गोस्वामी	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	140.00	–
0000 A	2129	खण्डप्रशस्ति	म. विनयसागर	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	50.00	–
0000 A	2130	ए. केटलॉग ऑफ संस्कृत एण्ड प्राकृत मेन्युस्क्रिप्ट्स पार्ट–4	श्री मुनि जिनविजय	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	32.00	–
0000 A	2131	ए. केटलॉग ऑफ संस्कृत एण्ड प्राकृत मेन्युस्क्रिप्ट्स पार्ट–5	श्री ओमप्रकाश शर्मा	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	17.00	–
0000 A	2132	ए. केटलॉग ऑफ संस्कृत एण्ड प्राकृत मेन्युस्क्रिप्ट्स पार्ट–6	श्री रमानन्द सारस्वत	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	14.75	–
0000A	2133	राजस्थानी हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ सूची, भाग–4	श्री ओंकारलाल मेनारिया	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	34.50	–
0000 A	2134	राजस्थानी वीर गीत संग्रह, भाग–4	श्री सौभाग्यसिंह शेखावत	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	70.00	–
0000 A	2135	ए. केटलॉग ऑफ संस्कृत एण्ड प्राकृत मेन्युस्क्रिप्ट्स पार्ट–7	डॉ० डी. बी. क्षीरसागर	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	17.00	–
0000 A	2136	ए. केटलॉग ऑफ संस्कृत एण्ड प्राकृत मेन्युस्क्रिप्ट्स पार्ट–8	श्री द्वारकानाथ शर्मा एवं श्री ठाकुरदत्त जोशी	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	16.00	–

0000 A	2137	ए. केटलॉग ऑफ संस्कृत एण्ड प्राकृत मेन्युस्क्रिप्ट्स पार्ट–9	म. विनयसागर एवं डॉ० डी. बी. क्षीरसागर	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	20.75	–
0000 A	2138	महाराजा मानसिंह री ख्यात	डॉ० नारायणसिंह भाटी	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	102.00	–
0000 A	2139	रतनरासो–भूमिका, भाग	डॉ० रघुवीरसिंह एवं काशीराम शर्मा	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	55.00	–
0000 A	2140	हमीररासो	श्री अगरचन्द नाहटा	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	Not Available	–
0000 A	2141	ए. केटलॉग ऑफ संस्कृत एण्ड प्राकृत मेन्युस्क्रिप्ट्स पार्ट–10	डॉ० डी. बी. क्षीरसागर एवं श्री स्वरूप नारायण शर्मा	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	42.00	–
0000 A	2142	ए. केटलॉग ऑफ संस्कृत एण्ड प्राकृत मेन्युस्क्रिप्ट्स पार्ट–11	म. विनयसागर व श्री जमुनालाल बल्दवा	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	86.50	–
0000 A	2143	ए. केटलॉग ऑफ संस्कृत एण्ड प्राकृत मेन्युस्क्रिप्ट्स पार्ट–12	डॉ० ब्रजमोहन जावलिया	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	62.00	–
0000 A	2144	ए. केटलॉग ऑफ संस्कृत एण्ड प्राकृत मेन्युस्क्रिप्ट्स पार्ट–13	श्री भूरामल यति	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	Not Available	–
0000 A	2145	ए. केटलॉग ऑफ संस्कृत एण्ड प्राकृत मेन्युस्क्रिप्ट्स पार्ट–14	श्री द्वारकानाथ शर्मा एवं डॉ० मोतीलाल गुप्त	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	36.00	–
0000 A	2146	गोविन्दानन्दघन	डॉ० मोतीलाल गुप्त	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	88.00	–
0000 A	2147	राजस्थानी हिन्दी हस्तलिखित ग्रंथ सूची, भाग–5	श्री ओंकारलाल मेनारिया व म. विनयसागर	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	62.00	–
0000 A	2148	राजस्थानी हिन्दी हस्तलिखित ग्रंथ सूची, भाग–6	श्री ओंकारलाल मेनारिया व म. विनयसागर	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	79.00	–
0000 A	2149	राजस्थानी हिन्दी हस्तलिखित ग्रंथ सूची, भाग–8	डॉ० डी. बी. क्षीरसागर व ब्रजेश कुमार सिंह	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	58.00	–
0000 A	2150	ए. केटलॉग ऑफ संस्कृत एण्ड प्राकृत मेन्युस्क्रिप्ट्स पार्ट–15	श्री द्वारकानाथ शर्मा	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	42.00	–
0000 A	2151	ए. केटलॉग ऑफ संस्कृत एण्ड प्राकृत मेन्युस्क्रिप्ट्स पार्ट–17	श्री द्वारकानाथ शर्मा	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	60.00	–
0000 A	2152	ए. केटलॉग ऑफ संस्कृत एण्ड प्राकृत मेन्युस्क्रिप्ट्स पार्ट–19	डॉ० डी. बी. क्षीरसागर	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	37.50	–
0000 A	2153	ए. केटलॉग ऑफ संस्कृत एण्ड प्राकृत मेन्युस्क्रिप्ट्स पार्ट–16	श्री ओमप्रकाश शर्मा व ब्रजेश कुमार सिंह	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	Not Available	–
0000 A	2154	ए. केटलॉग ऑफ संस्कृत एण्ड प्राकृत मेन्युस्क्रिप्ट्स पार्ट–20	श्री भूरामल यति	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	46.00	–
0000 A	2155	ए. केटलॉग ऑफ संस्कृत एण्ड प्राकृत मेन्युस्क्रिप्ट्स पार्ट–18	म. विनयसागर व श्री जमुनालाल बल्दवा	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	Not Available	–
0000 A	2156	ए. केटलॉग ऑफ संस्कृत एण्ड प्राकृत मेन्युस्क्रिप्ट्स पार्ट–21	श्री ओंकारलाल मेनारिया, म. विनयसागर व वेणीमाधव शर्मा	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	Not Available	–
0000 A	2157	ए. केटलॉग ऑफ संस्कृत एण्ड प्राकृत मेन्युस्क्रिप्ट्स पार्ट–22	डॉ० ब्रजमोहन जावलिया	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	Not Available	–
0000 A	2158	राजस्थानी हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ सूची, भाग–11	डॉ० शशि शर्मा	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	51.00	–
0000 A	2159	कामाभिनन्दन–महाकाव्य	डॉ० डी. बी. क्षीरसागर एवं ओ. पी. शर्मा	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	17.00	–
0000 A	2160	अजीत विलास	डॉ० शिवदत्तदान बारहठ	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	33.00	–
0000 A	2161	राजस्थानी हिन्दी संक्षिप्त शब्दकोश भाग–1	डॉ० सीताराम लालस	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	460.00	–
0000A	2162	राजस्थानी हिन्दी संक्षिप्त शब्दकोश भाग–2	डॉ० सीताराम लालस	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	665.00	–
0000 A	2163	राजस्थानी हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ सूची, भाग–10 (देराश्री संग्रह)	डॉ० ब्रजमोहन जावलिया व डॉ० डी. बी. क्षीरसागर	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	35.00	–
0000 A	2164	राजस्थानी हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ सचूी, भाग–9	डॉ० रामकिशन जाटव	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	38.00	–

0000 A	2165	सिंहसिद्धान्तसिन्धु, भाग–3	श्री लक्ष्मीनारायण गोस्वामी	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	82.00	–
0000 A	2166	स्वजीवनी (राय मेहता पन्नालाल)	श्री ओंकारलाल मेनारिया	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	65.00	–
0000 A	2167	नन्दबत्रीसी	श्री एच. सी. भायाणी	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	40.00	–
0000 A	2168	राजस्थानी हिन्दी हस्तलिखित ग्रंथ सूची, भाग–7	श्री ओ. पी. शर्मा व एम. एल. आचार्य	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	82.00	–
0000 A	2169	सुरतरंग	डॉ० डी. बी. क्षीरसागर एवं डॉ० एम. एम. एस. माथुर	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	21.00	–
0000 A	2170	रसमकरंद	डॉ० डी. बी. क्षीरसागर	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	31.00	–
0000 A	2171	सूरसिंहवंशप्रशस्ति	ओ. पी. शर्मा	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	10.00	–
0000 A	2172	ए. केटलॉग ऑफ संस्कृत एण्ड प्राकृत मेन्युस्क्रिप्ट्स पार्ट–23	श्री रतनलाल कामड़ एवं भूरामल यति	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	46.00	–
0000 A	2173	ए. केटलॉग ऑफ संस्कृत एण्ड प्राकृत मेन्युस्क्रिप्ट्स पार्ट–24	श्री द्वारकानाथ शर्मा	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	56.00	–
0000 A	2174	ए. केटलॉग ऑफ संस्कृत एण्ड प्राकृत मेन्युस्क्रिप्ट्स पार्ट–25	श्री नाथूलाल त्रिवेदी व ओ. पी. शर्मा	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	99.00	–
0000 A	2175	ए. केटलॉग ऑफ संस्कृत एण्ड प्राकृत मेन्युस्क्रिप्ट्स पार्ट–26	श्री भूरामल यति एवं कृष्णलाल विश्नोई	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	48.00	–
0000 A	2176	राजस्थानी हिन्दी हस्तलिखित ग्रंथ सूची, भाग–12	डॉ० राजेन्द्रनाथ पुरोहित	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	74.00	–
0000 A	2177	राजस्थानी हिन्दी हस्तलिखित ग्रंथ सूची, भाग–13	डॉ० ब्रजमोहन जावलिया एवं डॉ० डी. बी. क्षीरसागर	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	78.00	–
0000 A	2178	अचलदास खीची री वचनिका	डॉ० शम्भूसिंह मनोहर	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	76.00	–
0000 A	2179	मानप्रकाश सानुवाद	श्री के. एल. दुबे	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	37.00	–
0000 A	2180	देराश्री संग्रह के दस्तावेजों की सूची	डॉ० पद्मधर पाठक	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	86.00	–
0000 A	2181	महाराजा तख्तसिंह री ख्यात	डॉ० नारायणसिंह भाटी	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	122.00	–
0000 A	2182	पुण्डरीक ग्रन्थावली	वैद्य बुद्धिप्रकाश आचार्य	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	160.00	–
0000 A	2183	सायणीयनिरूक्तिकोश	डॉ० डी. बी. क्षीरसागर	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	68.00	–
0000 A	2184	संगीतमाधव	डॉ० गोविन्दराम चरौरा	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	29.00	–
0000 A	2185	राजस्थानी हिन्दी हस्तलिखित ग्रंथ सूची भाग–14	डॉ० रामकिशन, डॉ० विनोद कुमार एवं डॉ० देवकुमार	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	57.00	–
0000 A	2186	शत्रुशल्यचरितमहाकाव्य, भाग–1 (संस्कृत टीका व आंग्ल अनुवाद सहित)	डॉ० भोलाशंकर व्यास	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	156.00	–
0000 A	2187	शत्रुशल्यचरितमहाकाव्य, भाग–2	डॉ० भोलाशंकर व्यास	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	105.00	–
0000 A	2188	तखतविलास चम्पू	श्री ओ. पी. शर्मा एवं डॉ० गोविन्दराम चरौरा	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	22.00	–
0000 A	2189	नन्दीसूत्र प्रभाव्याख्या सहित	म. विनयसागर	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	113.00	–
0000 A	2190	महाराजा विजयसिंह री ख्यात	श्री ब्रजेश कुमार सिंह	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	60.00	–
0000A	2191	ए. केटलॉग ऑफ संस्कृत एण्ड प्राकृत मेन्युस्क्रिप्ट्स पार्ट–27	डॉ० उषा गोस्वामी	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	70.00	–
0000 A	2192	आनन्दमाला	वैद्य बुद्धिप्रकाश आचार्य	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	140.00	–

0000 A	2193	नैषधमहाकाव्य (पूर्व भाग) सटीक	डॉ० जयदेव जानी	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	237.00	–
0000 A	2194	हमीरमहाकाव्य (हिन्दी अनुवाद)	पं० नाथूलाल त्रिवेदी	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	102.00	–
0000 A	2195	राजस्थान के साथ सम्प्रदाय और साहित्य	डॉ० डी. बी. क्षीरसागर एवं डॉ० नवलकृष्ण	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	Not Available	–
0000 A	2196	पं० मधुसूदन ओझा की सारस्वत साधना भाग–1	डॉ० फतेहसिंह एवं डॉ० गोविन्दराम चरौरा	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	130.00	–
0000 A	2197	जोगप्रदीपका	डॉ० एम. एल. घरोटे	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	70.00	–
0000 A	2198	पं० मधुसूदन ओझा की सारस्वत साधना भाग–2	डॉ० फतेहसिंह एवं डॉ० गोविन्दराम चरौरा	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	110.00	–
0000 A	2199	राजस्थान के ऐतिहासिक भाषा काव्य	सं. ओ. पी. शर्मा डॉ० वसुमती शर्मा, डॉ० गोविन्द चरौरा	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	120.00	–
0000 A	2200	राठौड़ा री ख्यात (हिन्दी अनुवाद)	श्री कैलाशदान उज्ज्वल एवं पुष्पेन्द्रसिंह	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	55.00	–
0000 A	2201	राजस्थान का ऐतिहासिक संस्कृत साहित्य	श्री ओ. पी. शर्मा एवं श्री ब्रजेश कुमार सिंह	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	90.00	–
0000 A	2202	हमीरायण	डॉ० ब्रजमोहन जावलिया	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	205.00	–
0000 A	2203	राजस्थानी हिन्दी ग्रंथ सूची, भाग–15	श्रीमती कलावती माथुर	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	125.00	–
0000 A	2204	राजस्थानी हिन्दी ग्रंथ सूची, भाग–16	डॉ० गोविन्दराम चरौरा	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	70.00	–
0000 A	2205	राजस्थान का ऐतिहासिक गद्य साहित्य	डॉ० डी. बी. क्षीरसागर एवं ओमप्रकाश शर्मा	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	110.00	–
0000 A	2206	राजरत्नाकर भूमिका तथा अनुवाद सहित	डॉ० मूलचन्द पाठक	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	155.00	–
0000 A	2207	राजस्थानी हिन्दी हस्तलिखित ग्रंथ सूची भाग–17	डॉ० कृष्णलाल विश्नोई	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	130.00	–
0000 A	2208	राजस्थानी हिन्दी हस्तलिखित ग्रंथ सूची भाग–18	डॉ० कृष्णलाल विश्नोई	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	145.00	–
0000 A	2209	राजस्थानी हिन्दी हस्तलिखित ग्रंथ सूची भाग–19	डॉ० गोविन्दराम चरौरा	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	105.00	–
0000 A	2210	काव्यरस	डॉ० देवेन्द्र	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	105.00	–
0000 A	2211	राजस्थान का संत साहित्य	डॉ० वसुमती शर्मा एवं डॉ० कमलकिशोर सांखला	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	275.00	–
0000 A	2212	राजस्थानी हिन्दी हस्तलिखित ग्रंथ सूची, भाग–20 (बीकानेर संग्रह)	डॉ० कृष्णलाल विश्नोई	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	180.00	–
0000 A	2213	राजस्थानी हिन्दी हस्तलिखित ग्रंथ सूची, भाग–21 (कोटा संग्रह)	श्री ख्यालीराम मीणा	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	130.00	–
0000 A	2214	राजस्थानी हिन्दी हस्तलिखित ग्रंथ सूची, भाग–22 (जोधपुर संग्रह)	श्री ब्रजेश कुमार सिंह	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	235.00	–
0000 A	2215	जान ग्रन्थावली (प्रेमाख्यानक) भाग–3	अनु. डॉ० देवकुमार सम्पा. मण्डल – ओमप्रकाश शर्मा मोहनलाल आचार्य, ब्रजेशकुमारसिंह कलावती माथुर एवं डॉ० कमलकिशोर सांखला	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	205.00	–
0000 A	2216	जान ग्रन्थावली (प्रेमाख्यानक) भाग–4	सम्पा. मण्डल – ओमप्रकाश शर्मा, रतनलाल कामड़, डॉ० रामकिशन जाटव, डॉ० कृष्णलाल विश्नोई, मोतीलाल बैरवा, डॉ० उषा गोस्वामी एवं ख्यालीराम मीणा	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	235.00	–

0000 A	2217	केटलॉग ऑफ संस्कृत एण्ड प्राकृत मैन्यूस्क्रिप्टस् पार्ट–28		राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	490.00	–
0000 A	2218	राजस्थानी हिन्दी हस्तलिखित ग्रंथ सूची, भाग–23 (जोधपुर संग्रह)	डॉ० वसुमती शर्मा, श्रीमती कलावती माथुर, डॉ० कमलकिशोर सांखला	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	130.00	–
0000 A	2219	राजस्थानी हिन्दी हस्तलिखित ग्रंथ सूची, भाग–24 (बीकानेर संग्रह)	डॉ० कृष्णलाल विश्नोई	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	275.00	–
0000A	2220	राजस्थानी हिन्दी हस्तलिखित ग्रंथ सूची, भाग–25 (बीकानेर संग्रह)	डॉ० कृष्णलाल विश्नोई	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	215.00	–
0000 A	2221	गोरखदर्शन	आचार्य अक्षय कुमार बनर्जी	श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर	150.00	–
0000 A	2222	महन्त दिग्विजय नाथ स्मृति ग्रन्थ	डॉ० भगवती प्रसाद सिंह	श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर	80.00	–
0000 A	2223	नाथ योग	आचार्य अक्षय कुमार बनर्जी	श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर	10.00	–
0000 A	2224	आदर्श योगी	रघुनाथ शुक्ल	श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर	40.00	–
0000 A	2225	महायागी गुरु गोरखनाथ एवं उनकी तपःस्थली	रामलाल श्रीवास्तव	श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर	15.00	–
0000 A	2226	गोरखवाणी	रामलाल श्रीवास्तव	श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर	110.00	–
0000 A	2227	गोरक्षसिद्धान्तसग्रह	रामलाल श्रीवास्तव	श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर	30.00	–
0000 A	2228	श्री गोरक्ष वैदिक पूजा पद्धति	वेदाचार्य रामानुज त्रिपाठी	श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर	8.00	–
0000 A	2229	अमनस्क योग	रामलाल श्रीवास्तव	श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर	15.00	–
0000 A	2230	गोरक्ष पद्धति	रामलाल श्रीवास्तव	श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर	60.00	–
0000 A	2231	विवेक मार्तण्ड	रामलाल श्रीवास्तव	श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर	7.00	–
0000 A	2232	वैराग्य शतक	रामलाल श्रीवास्तव	श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर	6.50	–
0000 A	2233	महार्थ मंजरी	रामलाल श्रीवास्तव	श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर	6.50	–
0000 A	2234	हठयोगप्रदीपिका	रामलाल श्रीवास्तव	श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर	30.00	–
0000 A	2235	सिद्धसिद्धन्तपद्धति	रामलाल श्रीवास्तव	श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर	25.00	–
0000 A	2236	योग रहस्य	आचार्य अक्षय कुमार बनर्जी	श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर	25.00	–
0000 A	2237	योग बीज	रामलाल श्रीवास्तव	श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर	6.00	–
0000 A	2238	शाबर चिन्तामणि	नित्यनाथ सिद्ध मत्स्येन्द्रनाथ	श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर	7.00	–
0000 A	2239	योगी सम्प्रदाय (नित्कर्म संचय)	योगी आदित्यनाथ	श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर	90.00	–
0000 A	2240	गोरखचालीसा		श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर	2.00	–
0000 A	2241	गोरक्षशतक	रामलाल श्रीवास्तव	श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर	4.00	–
0000 A	2242	गोरखचरित	रामलाल श्रीवास्तव	श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर	30.00	–
0000 A	2243	नाथसिद्ध चरितामृत	रामलाल श्रीवास्तव	श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर	70.00	–
0000 A	2244	नाथ सम्प्रदाय और साहित्य	डॉ० वेदप्रकाश जुनेजा	श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर	30.00	–

0000 A	2245	नाथ पंथ गढ़वाल के परिप्रेक्ष्य में	विष्णुदत्त कुकरेत्ती	श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर	30.00	–
0000 A	2246	अमरकाया महायोगी गोरखनाथ	श्रीमती माया देवी	श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर	10.00	–
0000 A	2247	योगासन	रामलाल श्रीवास्तव	श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर	20.00	–
0000 A	2248	युगपुरूष महन्त दिग्विजयनाथ ने कहा	महन्त योगी आदित्यनाथ	श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर	12.00	–
0000A	2249	गोरखनाथ और नाथसिद्ध	डॉ० अनुज प्रताप सिंह	श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर	130.00	–
0000 A	2250	गोरक्षदर्शन	विजय पाल सिंह	श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर	40.00	–
0000 A	2251	तन प्रकाश	श्री श्री 108 बाबा चुन्नीनाथ जी	श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर	20.00	–
0000 A	2252	गोरखनाथ एवं उनका हिन्दी साहित्य	डॉ० कमल सिंह	श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर	100.00	–
0000 A	2253	गोरखनाथ एवं उनकी भाषा अध्ययन		श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर	50.00	–
0000 A	2254	नाथ तीर्थ स्थल (विषेशांक–1990)		श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर	20.00	–
0000 A	2255	गोरख ग्रथावली (विषेशांक–1991)		श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर	20.00	–
0000 A	2256	मत्येन्द्र (विषेशांक–1993)		श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर	20.00	–
0000 A	2257	नाथ सिद्धांत (विषेशांक–1994)		श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर	20.00	–
0000 A	2258	सर्व धर्म समभाग (विषेशांक–1994)		श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर	20.00	–
0000 A	2259	हठयोगस्वरूप एवं साधना	महन्त योगी आदित्यनाथ	श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर	100.00	–
0000 A	2260	यौगिकषत्कर्म	महन्त योगी आदित्यनाथ	श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर	21.00	–
0000 A	2261	नाथ सिद्धो का तत्विक विवेचन	अनुज प्रताप सिंह	श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर	85.00	–
0000 A	2262	गोरखमहिमा	महेन्द्र नाथ गोस्वामी	श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर	30.00	–
0000 A	2263	सुभाषित त्रिशती	रामलाल श्रीवास्तव	श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर	60.00	–
0000 A	2264	राष्ट्रीयता के अनन्य साधक महन्त अवेद्यनाथ (अभिनन्दन ग्रंथ)	संपादक–सदानन्द प्रसाद गुप्त, डॉ० प्रदीप कुमार राव	श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर	1100.00	–
0000 A	2265	राजयोग स्वरूप एवं साधना	महन्त योगी आदित्यनाथ	श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर	100.00	–
0000 A	2266	Philosophy of Goraknath	A.K. Banerjee	श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर	175.00	–
0000 A	2267	Experiences of Truth Seeker	Nath Yogi Shanti Nath	श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर	50.00	–
0000 A	2268	The Nath-Yogi Sampradaya and The Gorakhnath Temple		श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर	3.50	–
0000 A	2269	An Introduction to Nath-Yoga	A.K. Banerjee	श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर	15.00	–
0000 A	2270	गोरखनाथ एवं पतंजलि	डॉ० उमा सिंह	श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर	40.00	–
0000 A	2271	गुरू श्री गोरखनाथ जी	गोरखनाथ मंदिर	श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर	4.00	–
0000 A	2272	श्री गोरखनाथ मंदिर	गोरखनाथ मंदिर	श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर	3.00	–
0000 A	2273	ब्रह्मलीन महन्त दिग्विजयनाथ जी महाराज	गोरखनाथ मंदिर	श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर	3.00	–

0000 A	2274	ब्रह्मलीन महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज	गोरखनाथ मंदिर	श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर	3.00	–
0000 A	2275	महन्त योगी आदित्यनाथ जी महाराज	गोरखनाथ मंदिर	श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर	3.00	–
0000 A	2276	मृगस्थली, गोरक्षनाथ (छोटा)	गोरखनाथ मंदिर	श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर	1.00	–
0000 A	2277	गोरख जीवन गाथा	गोरखनाथ मंदिर	श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर	50.00	–
0000A	2278	शिव गोरक्ष शुभनाम	गोरखनाथ मंदिर	श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर	20.00	–
0000 A	2279	अलख निरंजन	गोरखनाथ मंदिर	श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर	25.00	–
0000 A	2280	गोरखवाणी	गोरखनाथ मंदिर	श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर	25.00	–
0000 A	2281	जाग मच्छेन्द्र गोरख आया	गोरखनाथ मंदिर	श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर	25.00	–
0000 A	2282	महाभारत का महात्मा	डॉ० युगेश्वर	प्रचारक बुक क्लब	80.00	–
0000 A	2283	दक्षिणेश्वर का परमहंस	डॉ० युगेश्वर	प्रचारक बुक क्लब	90.00	–
0000 A	2284	सुमित्रानन्दन	डॉ० युगेश्वर	प्रचारक बुक क्लब	80.00	–
0000 A	2285	संपूर्ण विष्णु पुराण	डॉ० युगेश्वर	प्रचारक बुक क्लब	130.00	–
0000 A	2286	विदेह	डॉ० युगेश्वर	प्रचारक बुक क्लब	80.00	–
0000 A	2287	कामदेव का पत्र शिव के नाम	डॉ० युगेश्वर	प्रचारक बुक क्लब	80.00	–
0000 A	2288	देवव्रत	डॉ० युगेश्वर	प्रचारक बुक क्लब	50.00	–
0000 A	2289	दूसरा इन्द्र	डॉ० युगेश्वर	प्रचारक बुक क्लब	20.00	–
0000 A	2290	राम एक जीवन	डॉ० युगेश्वर	प्रचारक बुक क्लब	20.00	–
0000 A	2291	सीता एक जीवन	डॉ० युगेश्वर	प्रचारक बुक क्लब	20.00	–
0000 A	2292	भरत एक जीवन	डॉ० युगेश्वर	प्रचारक बुक क्लब	20.00	–
0000 A	2293	रावण एक जीवन	डॉ० युगेश्वर	प्रचारक बुक क्लब	20.00	–
0000 A	2294	सन्त साहेब	डॉ० युगेश्वर	प्रचारक बुक क्लब	20.00	–
0000 A	2295	तुलसी का प्रतिपक्ष (निबंध)	डॉ० युगेश्वर	प्रचारक बुक क्लब	20.00	–
0000 A	2296	द्रोण की आत्मकथा	श्री मनु शर्मा	प्रचारक बुक क्लब	25.00	–
0000 A	2297	कर्ण की आत्मकथा	श्री मनु शर्मा	प्रचारक बुक क्लब	40.00	–
0000 A	2298	द्रौपदी की आत्मकथा	श्री मनु शर्मा	प्रचारक बुक क्लब	20.00	–
0000 A	2299	कृष्ण की आत्मकथा 1, 2	श्री मनु शर्मा	प्रचारक बुक क्लब	60.00	–
0000 A	2300	कृष्ण की आत्मकथा 3	श्री मनु शर्मा	प्रचारक बुक क्लब	100.00	–
0000 A	2301	मरीचिका	श्री मनु शर्मा	प्रचारक बुक क्लब	56.00	–
0000 A	2302	एकलिंग का दीवान	श्री मनु शर्मा	प्रचारक बुक क्लब	20.00	–
0000 A	2303	शिवपुत्री नर्मदा के तट पर–1	श्री स्वामी अरूपानन्द	प्रचारक बुक क्लब	96.00	–
0000 A	2304	शिवपुत्री नर्मदा के तट पर–1	श्री स्वामी अरूपानन्द	प्रचारक बुक क्लब	80.00	–
0000 A	2305	तक्षशिला की राजमाता 1, 2	श्री उ.के. ओझा	प्रचारक बुक क्लब	20.00	–
0000 A	2306	सम्भवामि 1	श्री सन्हैयालाल ओझा	प्रचारक बुक क्लब	60.00	–
0000A	2307	सम्भवामि 2	श्री सन्हैयालाल ओझा	प्रचारक बुक क्लब	100.00	–
0000 A	2308	उर्मिला	डॉ० इन्दिरा दीवान	प्रचारक बुक क्लब	40.00	–
0000 A	2309	अर्जुन	श्री सुनील गंगोपाध्याय	प्रचारक बुक क्लब	40.00	–
0000 A	2310	दुर्गावती छत्रसाल	श्री हरिमोहन लाल	प्रचारक बुक क्लब	30.00	–
0000 A	2311	छत्रसाल	श्री हरिमोहन लाल श्रीवास्तव	प्रचारक बुक क्लब	20.00	–
0000 A	2312	दुर्गावती	श्री हरिमोहन लाल श्रीवास्तव	प्रचारक बुक क्लब	15.00	–
0000 A	2313	चित्तौड़ की पद्मिनी	डॉ० हरिप्रसाद थपलियाल	प्रचारक बुक क्लब	20.00	–
0000 A	2314	दुश्चिन्ता मुक्त सफल जीवन	श्री स्वामी परिपूर्णानन्द गिरि	प्रचारक बुक क्लब	10.00	–
0000 A	2315	कैवल्य सिद्धि	महर्षि अद्वैतानन्द	प्रचारक बुक क्लब	10.00	–
0000 A	2316	अभीप्सा और अनुग्रह	एम. पी. पंडित	प्रचारक बुक क्लब	10.00	–
0000 A	2317	अभिषेक	श्री जयशंकर प्रसाद	प्रचारक बुक क्लब	40.00	–
0000 A	2318	राजतरंगिणी (खण्ड 1)	डॉ० रघुनाथ सिंह	प्रचारक बुक क्लब	300.00	–
0000 A	2319	राजतरंगिणी (खण्ड 2)	डॉ० रघुनाथ सिंह	प्रचारक बुक क्लब	300.00	–
0000 A	2320	महाकवि मतिराम	डॉ० त्रिभुवन सिंह	प्रचारक बुक क्लब	100.00	–
0000 A	2321	भक्तिभागवत और मानस के संदर्भ में	डॉ० भारती शर्मा	प्रचारक बुक क्लब	100.00	–

0000 A	2322	कृष्ण भक्ति काव्य की परंपरा और रसखान	डॉ० चन्द्र लेखा सिंह	प्रचारक बुक क्लब	50.00	–
0000 A	2323	प्राचीन भारत में लक्ष्मी प्रतिमा	डॉ० रामगोविन्द चन्द्र	प्रचारक बुक क्लब	50.00	–
0000 A	2324	अग्निमित्र	श्री जयशंकर प्रसाद	प्रचारक बुक क्लब	10.00	–
0000 A	2325	देवरथ	श्री जयशंकर प्रसाद	प्रचारक बुक क्लब	20.00	–
0000 A	2326	कबीर समग्र (खण्ड 1, 2)	सं. डॉ० युगेश्वर	प्रचारक बुक क्लब	175.00/150.00	–
0000 A	2327	देवकीनन्दन खत्री समग्र	सं. डॉ० युगेश्वर	प्रचारक बुक क्लब	100.00	–
0000 A	2328	बंकिम समग्र	सं० निहालचन्द्र वर्मा	प्रचारक बुक क्लब	150.00	–
0000 A	2329	भारतेन्दु समग्र	सं. हेमन्त शर्मा	प्रचारक बुक क्लब	225.00	–
0000 A	2330	शरत समग्र (द्वितीय खण्ड)	सं. विश्वनाथ मुखर्जी	प्रचारक बुक क्लब	100.00	–
0000 A	2331	शरत समग्र (तृतीय, चतुर्थ, पंचम खण्ड)	सं. विश्वनाथ मुखर्जी	प्रचारक बुक क्लब	80.00	–
0000 A	2332	रामेश्वर टांटिया समग्र	सं. विश्वनाथ मुखर्जी	प्रचारक बुक क्लब	50.00	–
0000 A	2333	वृन्दावनलाल वर्मा समग्र (खण्ड 1, 2)	सं. डॉ० विश्वनाथ प्रसाद	प्रचारक बुक क्लब	60.00 Per	–
0000 A	2334	वृन्दावनलाल वर्मा समग्र (खण्ड 3, 4, 5)	सं. डॉ० विश्वनाथ प्रसाद	प्रचारक बुक क्लब	80.00 Per	–
0000 A	2335	वृन्दावनलाल वर्मा समग्र (खण्ड 6, 7)	सं. डॉ० विश्वनाथ प्रसाद	प्रचारक बुक क्लब	100.00/150.00	–
0000A	2336	शेक्सपीयर कथा समग्र	ले. डॉ० गिरीन्द्रनाथ शर्मा	प्रचारक बुक क्लब	100.00	–
0000 A	2337	रैदास समग्र	सं. डॉ० युगेश्वर	प्रचारक बुक क्लब	120.00	–
0000 A	2338	रामेश्वर शुक्ल अंचल समग्र	सं. डॉ० देवी प्रसाद	प्रचारक बुक क्लब	70.00	–
0000 A	2339	दस दिगन्त भाग–1 (श्रेष्ठ कथाकारों के दस उपन्यासों का संग्रह)	सं. श्रीनिवास शर्मा	प्रचारक बुक क्लब	95.00	–
0000 A	2340	दस दिगन्त भाग–2 (श्रेष्ठ कथाकारों के दस उपन्यासों का संग्रह)	सं. डॉ० उमेश प्रसाद सिंह	प्रचारक बुक क्लब	150.00	–
0000 A	2341	बुद्ध कथा	डॉ० रघुनाथ सिंह	प्रचारक बुक क्लब	95.00	–
0000 A	2342	अप्सरा (गणिकाओं का इतिहास)	श्री रमणलाल बसंतलाल देसाई	प्रचारक बुक क्लब	100.00	–
0000 A	2343	सहस्त्र रजनी चरित्र (अलिफ लैला)	ले. सरस्वती सरन कैफ	प्रचारक बुक क्लब	100.00	–
0000 A	2344	एशिया का आधुनिक इतिहास (डिमाई आकार, सजिल्द)	डॉ० सत्यकेतु विद्यालंकार	श्री सरस्वती सदन	725.00	–
0000 A	2345	भारतीय संस्कृति का विकास (डिमाई आकार, सजिल्द)	डॉ० सत्यकेतु विद्यालंकार	श्री सरस्वती सदन	450.00	–
0000 A	2346	सेनानी पुष्यमित्र (ऐतिहासिक उपन्यास)	डॉ० सत्यकेतु विद्यालंकार	श्री सरस्वती सदन	90.00	–
0000 A	2347	आचार्य चाणक्य (ऐतिहासिक उपन्यास) (सजिल्द)	डॉ० सत्यकेतु विद्यालंकार	श्री सरस्वती सदन	160.00	–
0000 A	2348	मौर्य समाज का इतिहास (डिमाई आकार, सजिल्द)	डॉ० सत्यकेतु विद्यालंकार	श्री सरस्वती सदन	600.00	–
0000 A	2349	प्राचीन भारतीय इतिहास का वैदिक युग (डिमाई आकार, सजिल्द)	डॉ० सत्यकेतु विद्यालंकार	श्री सरस्वती सदन	330.00	–
0000 A	2350	प्राचीन भारत का धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन (डिमाई आकार, सजिल्द)	डॉ० सत्यकेतु विद्यालंकार	श्री सरस्वती सदन	360.00	–
0000 A	2351	प्राचीन भारत (प्रारंभ से 1206 ई. तक) (डिमाई आकार, सजिल्द)	डॉ० सत्यकेतु विद्यालंकार	श्री सरस्वती सदन	500.00	–
0000 A	2352	प्राचीन भारत की शासन–पद्धति और राजशास्त्र (डिमाई आकार, सजिल्द)	डॉ० सत्यकेतु विद्यालंकार	श्री सरस्वती सदन	350.00	–
0000 A	2353	दक्षिण–पूर्वी और दक्षिणी एशिया में भारतीय संस्कृति (डिमाई आकार, सजिल्द)	डॉ० सत्यकेतु विद्यालंकार	श्री सरस्वती सदन	300.00	–
0000 A	2354	मध्य एशिया तथा चीन में भारतीय संस्कृति (डिमाई आकार, सजिल्द)	डॉ० सत्यकेतु विद्यालंकार	श्री सरस्वती सदन	240.00	–
0000 A	2355	आर्य समाज का इतिहास	डॉ० सत्यकेतु विद्यालंकार	श्री सरस्वती सदन	Not Available	–
0000 A	2356	महाअरण्य में गिद्ध	श्री राकेश कुमार सिंह	भारतीय ज्ञानपीठ	520.00	–
0000 A	2357	सुल्तान रजिया	श्री मेवाराम	भारतीय ज्ञानपीठ	700.00	–
0000 A	2358	मृत्युंजय (मराठी से)	श्री शिवाजी सावन्त	भारतीय ज्ञानपीठ	500.00	–

0000 A	2359	पूर्णावतार (बांग्ला से)	श्री प्रमथनाथ बिशी	भारतीय ज्ञानपीठ	230.00	–
0000 A	2360	सहस्त्र (तेलुगु से)	श्री विश्वनाथ सत्यनारायण	भारतीय ज्ञानपीठ	400.00	–
0000 A	2361	संस्कृति और समाज	श्री सुभाष शर्मा	भारतीय ज्ञानपीठ	190.00	–
0000 A	2362	इतिहास में स्त्री	श्रीमती सुमन राजे	भारतीय ज्ञानपीठ	200.00	–
0000 A	2363	अपभ्रंश भाषा और साहित्य (समालोचना)	श्री राजमणि शर्मा	भारतीय ज्ञानपीठ	160.00	–
0000 A	2364	आदिग्रन्थ में संगृहीत सन्त कवि (विवेचना)	डॉ० महीप सिंह	भारतीय ज्ञानपीठ	75.00	–
0000A	2365	भवभूति (विवेचन)	डॉ० अमृता भारती	भारतीय ज्ञानपीठ	250.00	–
0000 A	2366	राधा माधव रंग रँगी (जयदेव कृत 'गीतगोविन्द' की व्याख्या)	डॉ० विद्यानिवास मिश्र	भारतीय ज्ञानपीठ	200.00	–
0000 A	2367	रामायण का आचार–दर्शन (वाल्मीकि–कथापात्र)	श्री अम्बाप्रसाद श्रीवास्तव	भारतीय ज्ञानपीठ	300.00	–
0000 A	2368	रामायण के महिला–पात्र	डॉ० पाण्डुरंग राव	भारतीय ज्ञानपीठ	120.00	–
0000 A	2369	रामायण : मानवता का महाकाव्य	श्री गुणवन्त शाह	भारतीय ज्ञानपीठ	650.00	–
0000 A	2370	भक्ति काव्य से साक्षात्कार	श्री कृष्णदत्त पालीवाल	भारतीय ज्ञानपीठ	320.00	–
0000 A	2371	रामायण महाभारत (काल, इतिहास, सिद्धांत)	श्री वासुदेव पोद्धार	भारतीय ज्ञानपीठ	225.00	–
0000 A	2372	प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था (शोध)	डॉ० कमल किशोर मिश्र	भारतीय ज्ञानपीठ	195.00	–
0000 A	2373	दर्शन, धर्म–अध्यात्म और संस्कृति	डॉ० नन्दकिशोर देवराज	भारतीय ज्ञानपीठ	140.00	–
0000 A	2374	रामायण महातीर्थम्	श्री कुबेरनाथ राय	भारतीय ज्ञानपीठ	350.00	–
0000 A	2375	परम्परा और परिवर्तन	श्री श्यामाचरण दुबे	भारतीय ज्ञानपीठ	150.00	–
0000 A	2376	खजुराहो की प्रतिध्वनियां	सं. रमेशचन्द्र, दिनेश मिश्र, पद्माधर त्रिपाठी	भारतीय ज्ञानपीठ	200.00	–
0000 A	2377	शब्द, समय और संस्कृति (उड़िया से)	श्री सीताकान्त महापात्र	भारतीय ज्ञानपीठ	95.00	–
0000 A	2378	हिन्दू दर्शन : एक समकालीन दृष्टि	डॉ० कर्ण सिंह	भारतीय ज्ञानपीठ	160.00	–
0000 A	2379	रामकथा नवनीत	डॉ० पाण्डुरंग राव	भारतीय ज्ञानपीठ	240.00	–
0000A	2380	भारतीय संस्कृति का विकास	डॉ० मंगलदेव शास्त्री	भारतीय ज्ञानपीठ	370.00	–
0000 A	2381	कालिदास का भारत	श्री भगवतशरण उपाध्याय	भारतीय ज्ञानपीठ	480.00	–
0000 A	2382	भारतीय ज्योतिष	डॉ० नेमिचन्द्र ज्योतिषाचार्य	भारतीय ज्ञानपीठ	400.00	–
0000 A	2383	मू.दे. केवलज्ञानप्रश्नचूडामणि	डॉ० नेमिचन्द्र ज्योतिषाचार्य	भारतीय ज्ञानपीठ	120.00	–
0000 A	2384	मू.दे. करलक्खण	अनु. प्रफुल्ल कुमार मोदी	भारतीय ज्ञानपीठ	20.00	–
0000 A	2385	1204 वर्धा हिन्दी शब्दकोश (महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा)		भारतीय ज्ञानपीठ	1000.00	–
0000 A	2386	भारतीय ज्योतिष	श्री नेमिचन्द्र ज्योतिषाचार्य	भारतीय ज्ञानपीठ	300.00	–
0000 A	2387	कबीर ग्रन्थावली	श्री श्यामसुंदर दास	भारतीय ज्ञानपीठ	130.00	–
0000 A	2388	जायसी ग्रन्थावली	श्री श्यामसुंदर दास	भारतीय ज्ञानपीठ	250.00	–
0000 A	2389	त्रिवेणी	आचार्य रामचन्द्र शुक्ल	भारतीय ज्ञानपीठ	40.00	–
0000 A	2390	पद्मावत	आचार्य रामचन्द्र शुक्ल	भारतीय ज्ञानपीठ	250.00	–
0000 A	2391	भ्रमरगीतसार	आचार्य रामचन्द्र शुक्ल	भारतीय ज्ञानपीठ	60.00	–
0000 A	2392	जायसी	आचार्य रामचन्द्र शुक्ल	भारतीय ज्ञानपीठ	120.00	–
0000 A	2393	ऋग्वेद : पहला मण्डल पूवार्द्ध	अनु. प्रो० गोविन्द चन्द्र पाण्डेय	भारतीय ज्ञानपीठ	600.00	–
0000 A	2394	ऋग्वेद : पहला मण्डल उत्तार्द्ध	अनु. प्रो० गोविन्द चन्द्र पाण्डेय	भारतीय ज्ञानपीठ	600.00	–
0000 A	2395	ऋग्वेद : दूसरा मण्डल	अनु. प्रो० गोविन्द चन्द्र पाण्डेय	भारतीय ज्ञानपीठ	300.00	–
0000 A	2396	ऋग्वेद : तीसरा, चौथा, पांचवां मण्डल	अनु. प्रो० गोविन्द चन्द्र पाण्डेय	भारतीय ज्ञानपीठ	800.00	–
0000 A	2397	ऋग्वेद : छठवां, सातवां मण्डल	अनु. प्रो० गोविन्द चन्द्र पाण्डेय	भारतीय ज्ञानपीठ	800.00	–
0000 A	2398	ऋग्वेद : आठवां मण्डल	अनु. प्रो० गोविन्द चन्द्र पाण्डेय	भारतीय ज्ञानपीठ	700.00	–
0000 A	2399	ऋग्वेद : नौवां मण्डल	अनु. प्रो० गोविन्द चन्द्र पाण्डेय	भारतीय ज्ञानपीठ	650.00	–
0000 A	2400	समीचीन जैनधर्म	पं० कैलाशचन्द्र शास्त्री	भारतीय ज्ञानपीठ	40.00	–

0000 A	2401	सम्मइसुत्तं (सन्मति सूत्र) (प्राकृत, हिन्दी) : आचार्य सिद्धसेन	डॉ० देवेन्द्र कुमार शास्त्री	भारतीय ज्ञानपीठ	40.00	–
0000 A	2402	भावणा–सारो (प्रा. काव्य)	श्री मुनि सुनीलसागर	भारतीय ज्ञानपीठ	20.00	–
0000 A	2403	जैनधर्म में वर्षायोग	उपाध्याय प्रज्ञसागर मुनि	भारतीय ज्ञानपीठ	20.00	–
0000 A	2404	जैनधर्म में गुरुपूर्णिमा	उपाध्याय प्रज्ञसागर मुनि	भारतीय ज्ञानपीठ	40.00	–
0000 A	2405	पंचसंग्रह (संस्कृत) : आचार्य अमितगति	पं० वंशीधर, सोलापुर	भारतीय ज्ञानपीठ	400.00	–
0000 A	2406	पंचसंगहो (प्राकृत पंचसंग्रह) : मूलकर्ता – अज्ञात	पं० हीरालाल सिद्धांतशास्त्री	भारतीय ज्ञानपीठ	700.00	–
0000 A	2407	जैन दर्शन में नयवाद	डॉ० सुखनन्दन जैन	भारतीय ज्ञानपीठ	225.00	–
0000 A	2408	पंचत्थिकायसंगहो (पंचास्तिकायसंग्रह) (प्राकृत) : आचार्य कुन्दकुन्द	पं० बलभद्र जैन	भारतीय ज्ञानपीठ	80.00	–
0000A	2409	पंचास्तिकायसंग्रह (प्राकृत, संस्कृत, हिन्दी) : आचार्य कुन्दकुन्द (आचार्य जयसेन कृत तात्पर्यवृत्ति संस्कृत टीका सहित)	पं० मन्नूलाल जैन, एडवोकेट	भारतीय ज्ञानपीठ	175.00	–
0000 A	2410	जैन तत्वविद्या	श्री मुनि प्रमाणसागर	भारतीय ज्ञानपीठ	350.00	–
0000 A	2411	महाबन्ध (सात भाग) (प्राकृत, हिन्दी) : भगवन्त भूतबली (सात भागों में) भाग – 1 व 2	अनु. पं. सुमेरूचन्द दिवाकर एवं पं. फूलचन्द शास्त्री	भारतीय ज्ञानपीठ	220.00	–
0000 A	2412	महाबंध भाग – 3 और 4	अनु. पं. सुमेरूचन्द दिवाकर एवं पं. फूलचन्द शास्त्री	भारतीय ज्ञानपीठ	300.00	–
0000 A	2413	महाबंध भाग – 5	अनु. पं. सुमेरूचन्द दिवाकर एवं पं. फूलचन्द शास्त्री	भारतीय ज्ञानपीठ	350.00	–
0000 A	2414	महाबंध भाग – 6 और 7	अनु. पं. सुमेरूचन्द दिवाकर एवं पं. फूलचन्द शास्त्री	भारतीय ज्ञानपीठ	300.00	–
0000 A	2415	तत्वार्थराजवार्तिक (दो भागों में) (संस्कृत, हिन्दी) : भट्ट अकलंक (भाग एक)	अनु. प्रो० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य	भारतीय ज्ञानपीठ	250.00	–
0000 A	2416	तत्वार्थराजवार्तिक (दो भागों में) (संस्कृत, हिन्दी) : भट्ट अकलंक (भाग दो)	अनु. प्रो० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य	भारतीय ज्ञानपीठ	300.00	–
0000 A	2417	तत्वार्थवृत्ति (संस्कृत, हिन्दी) : श्रुतसागर सूरि	अनु. प्रो० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य	भारतीय ज्ञानपीठ	300.00	–
0000 A	2418	तत्वार्थसार (संस्कृत, हिन्दी) : आचार्य अमृतचन्द्र	हिन्दी टीका : मुनि अमितसागर	भारतीय ज्ञानपीठ	390.00	–
0000 A	2419	योगसारप्राभृत (संस्कृत, हिन्दी) : आचार्य अमितगति	अनु. जुगलकिशोर मुख्तार	भारतीय ज्ञानपीठ	180.00	–
0000 A	2420	नयचक्र (णयचक्को) (प्राकृत, हिन्दी) : माइल्ल धवल	अनु. पं. कैलाशचन्द्र शास्त्री	भारतीय ज्ञानपीठ	150.00	–
0000 A	2421	षट्खण्डागम–परिशीलन	पं. बालचन्द्र सिद्धांतशास्त्री	भारतीय ज्ञानपीठ	300.00	–
0000 A	2422	सर्वार्थसिद्धि (संस्कृत, हिन्दी) : आचार्य पूज्यपाद	अनु. सिद्धांताचार्य पं. फूलचन्द्र शास्त्री	भारतीय ज्ञानपीठ	350.00	–
0000 A	2423	गोम्मटसार, जीवकाण्ड (दो भाग) : आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धांत चक्रवर्ती (कर्णाट वृत्ति, संस्कृत टीका एवं हिन्दी अनुवाद) भाग – 1	अनु. डॉ० आ. ने. उपाध्ये, पं. कैलाशचन्द्र शास्त्री	भारतीय ज्ञानपीठ	300.00	–
0000 A	2424	गोम्मटसार, जीवकाण्ड (दो भाग) : आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धांत चक्रवर्ती (कर्णाट वृत्ति, संस्कृत टीका एवं हिन्दी अनुवाद) भाग – 2	अनु. डॉ० आ. ने. उपाध्ये, पं. कैलाशचन्द्र शास्त्री	भारतीय ज्ञानपीठ	300.00	–
0000 A	2425	गोम्मटसार, कर्मकाण्ड (दो भाग) आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धांत चक्रवर्ती (कर्णाट वृत्ति, संस्कृत टीका एवं हिन्दी अनुवाद) भाग – 1		भारतीय ज्ञानपीठ	350.00	–

0000 A	2426	गोम्मटसार, कर्मकाण्ड (दो भाग) आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धांत चक्रवर्ती (कर्णाट वृत्ति, संस्कृत टीका एवं हिन्दी अनुवाद) भाग – 2		भारतीय ज्ञानपीठ	430.00	–
0000 A	2427	षड्दर्शनसमुच्चय (संस्कृत, हिन्दी) : हरिभद्र सूरि	अनु. प्रो० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य	भारतीय ज्ञानपीठ	250.00	–
0000 A	2428	जैन न्याय	सिद्धांताचार्य पं० कैलाशचन्द्र शास्त्री	भारतीय ज्ञानपीठ	200.00	–
0000 A	2429	जैन सिद्धांत	सिद्धांताचार्य पं० कैलाशचन्द्र शास्त्री	भारतीय ज्ञानपीठ	120.00	–
0000 A	2430	पाहुडदोहा (अपभ्रंश का रहस्यवादी काव्य) : मुनि रामसिंह	अनु. डॉ० देवेन्द्रकुमार शास्त्री	भारतीय ज्ञानपीठ	160.00	–
0000 A	2431	सम्मइसुत्तं (सन्मति सूत्र) (प्राकृत, हिन्दी) : आचार्य सिद्धसेन	अनु. डॉ० देवेन्द्रकुमार शास्त्री	भारतीय ज्ञानपीठ	40.00	–
0000 A	2432	भावणा–सारो (प्रा. काव्य)	श्री मुनि सुनीलसागर पेपरबैक	भारतीय ज्ञानपीठ	20.00	–
0000 A	2433	श्री जिनतारण त्रिवेणी (तीन–बत्तीसी)	श्री तारण स्वामी	भारतीय ज्ञानपीठ	60.00	–
0000 A	2434	धर्मामृत (अनगार) : (पं. आशाधर, ज्ञानदीपिका स्वोपज्ञ टीका सहित)	अनु. सिद्धांताचार्य पं. कैलाशचन्द्र शास्त्री	भारतीय ज्ञानपीठ	400.00	–
0000 A	2435	धर्मामृत (सागार) : (पं. आशाधर, ज्ञानदीपिका स्वोपज्ञ टीका सहित)	अनु. सिद्धांताचार्य पं. कैलाशचन्द्र शास्त्री	भारतीय ज्ञानपीठ	260.00	–
0000 A	2436	सावयपन्नती (श्रावकप्रज्ञप्ति) : मूल : हरिभद्र सूरि	अनु. पं. बालचन्द्र शास्त्री	भारतीय ज्ञानपीठ	120.00	–
0000 A	2437	मूलाचार (प्राकृत, संस्कृत, हिन्दी), (दो भाग) (प्राकृत मूल : आचार्य वट्टकेर, संस्कृत टीका : आचार्य वसुनन्दी) (पूर्वार्ध)	अनु. आर्यिकारत्न ज्ञानमती	भारतीय ज्ञानपीठ	300.00	–
0000A	2438	मूलाचार (प्राकृत, संस्कृत, हिन्दी), (दो भाग) (प्राकृत मूल : आचार्य वट्टकेर, संस्कृत टीका : आचार्य वसुनन्दी) (उत्तरार्ध)	अनु. आर्यिकारत्न ज्ञानमती	भारतीय ज्ञानपीठ	300.00	–
0000 A	2439	जिनवर–अर्चना (हिन्दी पूजा–पाठ संग्रह)	डॉ० देवेन्द्रकुमार शास्त्री	भारतीय ज्ञानपीठ	50.00	–
0000 A	2440	मंगलमंत्र णमोकार : एक अनुचिन्तन	डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री, ज्योतिषाचार्य	भारतीय ज्ञानपीठ	80.00	–
0000 A	2441	तिरुक्कुरळ् (हिन्दी अनुवाद)	पं० गोविन्दराय जैन शास्त्री पेपरबैक	भारतीय ज्ञानपीठ	80.00	–
0000 A	2442	ध्यानस्तव : (संस्कृत अंग्रेजी) : भास्करनन्दी	अनु. सुजुको ओहिरा	भारतीय ज्ञानपीठ	5.00	–
0000 A	2443	अध्यात्म पदावली	डॉ० राजकुमार जैन	भारतीय ज्ञानपीठ	150.00	–
0000 A	2444	जैनेन्द्र सिद्धांत कोश (पांच भागों में) : भाग – 1	श्री जिनेन्द्र वर्णी	भारतीय ज्ञानपीठ	280.00	–
0000 A	2445	जैनेन्द्र सिद्धांत कोश (पांच भागों में) : भाग – 2	श्री जिनेन्द्र वर्णी	भारतीय ज्ञानपीठ	300.00	–
0000 A	2446	जैनेन्द्र सिद्धांत कोश (पांच भागों में) : भाग – 3	श्री जिनेन्द्र वर्णी	भारतीय ज्ञानपीठ	300.00	–
0000 A	2447	जैनेन्द्र सिद्धांत कोश (पांच भागों में) : भाग – 4	श्री जिनेन्द्र वर्णी	भारतीय ज्ञानपीठ	280.00	–
0000 A	2448	जैनेन्द्र सिद्धांत कोश (पांच भागों में) : भाग – 5	श्री जिनेन्द्र वर्णी	भारतीय ज्ञानपीठ	250.00	–
0000 A	2449	जैनेन्द्र महावृत्ति	आचार्य अभयनन्दी	भारतीय ज्ञानपीठ	400.00	–
0000 A	2450	नाममाला सभाष्य	महाकवि धनंजय	भारतीय ज्ञानपीठ	140.00	–
0000 A	2451	प्राकृत अनुवाद कला	स्नेहलता जैन	भारतीय ज्ञानपीठ	160.00	–
0000 A	2452	शृंगारार्णवचन्द्रिका (अलंकार–संग्रह) : विजय वर्णी	डॉ० वी.एम. कुलकर्णी	भारतीय ज्ञानपीठ	10.00	–
0000 A	2453	आदिपुराण (संस्कृत, हिन्दी) : आचार्य जिनसेन भाग – 1	अनु. डॉ० पन्नालाल जैन, साहित्याचार्य	भारतीय ज्ञानपीठ	500.00	–

0000 A	2454	आदिपुराण (संस्कृत, हिन्दी) : आचार्य जिनसेन भाग – 2	अनु. डॉ० पन्नालाल जैन, साहित्याचार्य	भारतीय ज्ञानपीठ	400.00	–
0000 A	2455	उत्तरपुराण (संस्कृत, हिन्दी) : आचार्य गुणभद्र	अनु. डॉ० पन्नालाल जैन, साहित्याचार्य	भारतीय ज्ञानपीठ	450.00	–
0000 A	2456	पद्मपुराण (संस्कृत, हिन्दी) : आचार्य रविषेण भाग – 1	अनु. डॉ० पन्नालाल जैन, साहित्याचार्य	भारतीय ज्ञानपीठ	350.00	–
0000 A	2457	पद्मपुराण (संस्कृत, हिन्दी) : आचार्य रविषेण भाग – 2	अनु. डॉ० पन्नालाल जैन, साहित्याचार्य	भारतीय ज्ञानपीठ	320.00	–
0000 A	2458	पद्मपुराण (संस्कृत, हिन्दी) : आचार्य रविषेण भाग – 3	अनु. डॉ० पन्नालाल जैन, साहित्याचार्य	भारतीय ज्ञानपीठ	320.00	–
0000 A	2459	हरिवंशपुराण (संस्कृत, हिन्दी) : आचार्य जिनसेन	अनु. डॉ० पन्नालाल जैन, साहित्याचार्य	भारतीय ज्ञानपीठ	700.00	–
0000 A	2460	वीरवर्धमानचरित (संस्कृत, हिन्दी) : सकल कीर्ति	अनु. पं० हीरालाल जैन	भारतीय ज्ञानपीठ	250.00	–
0000 A	2461	हरिवंश गाथा (हरिवंशपुराण का हिन्दी सार)	डॉ० अमृता भारती	भारतीय ज्ञानपीठ	170.00	–
0000 A	2462	समराइच्चकहा (प्राकृत गद्य, संस्कृत छाया, हिन्दी अनुवाद) : हरिभद्र सूरी	अनु. डॉ० रमेशचन्द्र जैन, बिजनौर (दो भाग)	भारतीय ज्ञानपीठ	140 per	–
0000 A	2463	महापुराण (अपभ्रंश, हिन्दी) : कवि पुष्पदन्त, भाग – 1 (तीर्थंकर ऋषभदेव, पूर्वार्ध)	डॉ० पी. एल. वैद्य, अनु. डॉ० देवेन्द्रकुमार जैन, इन्दौर	भारतीय ज्ञानपीठ	250.00	–
0000 A	2464	महापुराण (अपभ्रंश, हिन्दी) : कवि पुष्पदन्त, भाग – 2 (तीर्थंकर ऋषभदेव, पूर्वार्ध)	डॉ० पी. एल. वैद्य, अनु. डॉ० देवेन्द्रकुमार जैन, इन्दौर	भारतीय ज्ञानपीठ	250.00	–
0000 A	2465	महापुराण (अपभ्रंश, हिन्दी) : कवि पुष्पदन्त, भाग – 3 (तीर्थंकर ऋषभदेव, पूर्वार्ध)	डॉ० पी. एल. वैद्य, अनु. डॉ० देवेन्द्रकुमार जैन, इन्दौर	भारतीय ज्ञानपीठ	350.00	–
0000 A	2466	महापुराण (अपभ्रंश, हिन्दी) : कवि पुष्पदन्त, भाग – 4 (तीर्थंकर ऋषभदेव, पूर्वार्ध)	डॉ० पी. एल. वैद्य, अनु. डॉ० देवेन्द्रकुमार जैन, इन्दौर	भारतीय ज्ञानपीठ	180.00	–
0000A	2467	महापुराण (अपभ्रंश, हिन्दी) : कवि पुष्पदन्त, भाग – 5 (तीर्थंकर ऋषभदेव, पूर्वार्ध)	डॉ० पी. एल. वैद्य, अनु. डॉ० देवेन्द्रकुमार जैन, इन्दौर	भारतीय ज्ञानपीठ	250.00	–
0000 A	2468	महादव्वसंगहो (हिन्दी) मूलकत्र : आचार्य नेमिचन्द सिद्धान्तिदेव प्राकृत वृत्ति एवं हिन्दी अनुवाद	एलचार्य श्रुतसागर मुनिराज	भारतीय ज्ञानपीठ	160.00	–
0000 A	2469	सिरिवालचरिउ (अपभ्रंश–हिन्दी)	कवि नरसेन	भारतीय ज्ञानपीठ	250.00	–
0000 A	2470	पासणाहचरिउ (अपभ्रंश–हिन्दी) : महाकविबुध श्रीधर कृत	सं. अनु. डॉ० विद्यावती जैन	भारतीय ज्ञानपीठ	300.00	–
0000 A	2471	वड्ढमाणचरिउ (वर्धमानचरित) (अपभ्रंश–हिन्दी) : विबुध श्रीधर	अनु. डॉ० राजाराम जैन	भारतीय ज्ञानपीठ	50.00	–
0000 A	2472	पउमचरिउ (पद्मचरित) (अपभ्रंश–हिन्दी) भाग – 1	अनु. डॉ० देवेन्द्रकुमार जैन, इंदौर	भारतीय ज्ञानपीठ	25.00	–
0000 A	2473	पउमचरिउ (पद्मचरित) (अपभ्रंश–हिन्दी) भाग – 2	अनु. डॉ० देवेन्द्रकुमार जैन, इंदौर	भारतीय ज्ञानपीठ	50.00	–
0000 A	2474	पउमचरिउ (पद्मचरित) (अपभ्रंश–हिन्दी) भाग – 3	अनु. डॉ० देवेन्द्रकुमार जैन, इंदौर	भारतीय ज्ञानपीठ	22.00	–
0000 A	2475	पउमचरिउ (पद्मचरित) (अपभ्रंश–हिन्दी) भाग – 4	अनु. डॉ० देवेन्द्रकुमार जैन, इंदौर	भारतीय ज्ञानपीठ	50.00	–
0000 A	2476	पउमचरिउ (पद्मचरित) (अपभ्रंश–हिन्दी) भाग – 5	अनु. डॉ० देवेन्द्रकुमार जैन, इंदौर	भारतीय ज्ञानपीठ	50.00	–
0000 A	2477	रिटठणेमिचरिउ (यादवकाण्ड) (अपभ्रंश, हिन्दी) : महाकवि स्वयंभू	अनु. डॉ० देवेन्द्रकुमार जैन, इंदौर	भारतीय ज्ञानपीठ	40.00	–
0000 A	2478	सुदर्शनचरित (संस्कृत)	मुनि विद्यानन्दी, सं. डॉ० हीरालाल जैन	भारतीय ज्ञानपीठ	10.00	–
0000 A	2479	श्रीपालचरित	पं. दौलतराम कासलीवाल सं. डॉ० वीरसागर जैन	भारतीय ज्ञानपीठ	40.00	–

0000 A	2480	प्रद्युम्नचरित (संस्कृत, हिन्दी) आचार्य महासेन	सं. अनु. डॉ० रमेश चन्द्र जैन	भारतीय ज्ञानपीठ	200.00	–
0000 A	2481	भारतीय दर्शन में आत्मा एवं परमात्मा	श्री वीरसागर जैन	भारतीय ज्ञानपीठ	160.00	–
0000 A	2482	मूकमाटी–मीमांसा (वृहत् ग्रंथ, तीन खण्डों में) प्रत्येक	सं. प्रभाकर माचवे, आ. राममूर्ति त्रिपाठी	भारतीय ज्ञानपीठ	450.00	–
0000 A	2483	वर्ण, जाति और धर्म	पं. फूलचन्द शास्त्री	भारतीय ज्ञानपीठ	150.00	–
0000 A	2484	अपभ्रंश भाषा साहित्य की शोध प्रवृत्तियां (संवर्धित)	डॉ० देवेन्द्रकुमार शास्त्री	भारतीय ज्ञानपीठ	130.00	–
0000 A	2485	जैन प्रतीक दर्शन	डॉ० जया जैन	भारतीय ज्ञानपीठ	350.00	–
0000 A	2486	द्विसन्धानम्	महाकवि धनंजय	भारतीय ज्ञानपीठ	400.00	–
0000 A	2487	प्राकृत विद्या प्रवेशिका (भाग – 1)	आचार्य प्रज्ञा सागर	भारतीय ज्ञानपीठ	110.00	–
0000 A	2488	प्राकृत विद्या प्रवेशिका (भाग – 2)	आचार्य प्रज्ञा सागर	भारतीय ज्ञानपीठ	120.00	–
0000 A	2489	भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तरप्रदेश जैन समाज का योगदान (शोध)	डॉ० अमित जैन	भारतीय ज्ञानपीठ	300.00	–
0000 A	2490	जैन सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य (उपन्यास)	मुनि प्रणम्यसागर	भारतीय ज्ञानपीठ	160.00	–
0000 A	2491	दिगम्बरत्व और दिगम्बर मुनि (उपन्यास)	बाबू कामताप्रसाद जैन	भारतीय ज्ञानपीठ	180.00	–
0000 A	2492	चन्दना (उपन्यासिका)	नीरज जैन	भारतीय ज्ञानपीठ	25.00	–
0000 A	2493	भारतीय इतिहास : एक दृष्टि (इतिहास)	डॉ० ज्योति प्रसाद जैन	भारतीय ज्ञानपीठ	400.00	–
0000 A	2494	जैनधर्म में विज्ञान	सं. डॉ० नारायण लाल कछारा	भारतीय ज्ञानपीठ	150.00	–
0000 A	2495	हिन्दी के महाकाव्यों में चित्रित भगवान महावीर	डॉ० सुषमा गुणवन्त रोटे	भारतीय ज्ञानपीठ	75.00	–
0000A	2496	दक्षिण भारत में जैन धर्म	पं० कैलाशचन्द्र शास्त्री	भारतीय ज्ञानपीठ	80.00	–
0000 A	2497	जैनधर्म में वर्षायोग	उपाध्याय प्रज्ञसागर मुनि	भारतीय ज्ञानपीठ	20.00	–
0000 A	2498	सत्संग एवं शिक्षाएं	स्वामी सत्यानन्द सरस्वती	स्वर्ण जयन्ती प्रकाशन		–
0000 A	2499	योगदृष्टि सत्संग श्रृंखला	स्वामी निरंजनानन्द सरस्वती	स्वर्ण जयन्ती प्रकाशन		–
0000 A	2500	सत्संग एवं शिक्षण	स्वामी निरंजनानन्द सरस्वती	स्वर्ण जयन्ती प्रकाशन		–
0000 A	2501	योगाभ्यास	स्वामी सत्यानन्द सरस्वती	स्वर्ण जयन्ती प्रकाशन		–
0000 A	2502	योगाभ्यास	स्वामी निरंजनानन्द सरस्वती	स्वर्ण जयन्ती प्रकाशन		–
0000 A	2503	योगाभ्यास – मूलबंध	स्वामी बुद्धानन्द सरस्वती	स्वर्ण जयन्ती प्रकाशन	200.00	–
0000 A	2504	योगाभ्यास – नव योगिनी तंत्र	स्वामी मुक्तानन्द	स्वर्ण जयन्ती प्रकाशन	300.00	–
0000 A	2505	रोग और योग	डॉ० स्वामी कर्मानन्द सरस्वती	स्वर्ण जयन्ती प्रकाशन	300.00	–
0000 A	2506	उच्च रक्तचाप पर योग का प्रभाव	डॉ० स्वामी शंकरदेवानन्द सरस्वती	स्वर्ण जयन्ती प्रकाशन	300.00	–
0000 A	2507	समस्या पेट की समाधान योग का	डॉ० स्वामी शंकरदेवानन्द सरस्वती	स्वर्ण जयन्ती प्रकाशन	300.00	–
0000 A	2508	दमा, मधुमेह और योग	स्वामी सत्यानन्द सरस्वती	स्वर्ण जयन्ती प्रकाशन	300.00	–
0000 A	2509	योग एवं तंत्र	स्वामी निरंजनानन्द सरस्वती	स्वर्ण जयन्ती प्रकाशन		–
0000 A	2510	योग एवं तंत्र	स्वामी सत्यसंगानन्द सरस्वती	स्वर्ण जयन्ती प्रकाशन		–
0000 A	2511	योग सत्संग	स्वामी सत्यसंगानन्द सरस्वती	स्वर्ण जयन्ती प्रकाशन		–
0000 A	2512	मेरे आराध्य	स्वामी धर्मशक्ति सरस्वती	स्वर्ण जयन्ती प्रकाशन	400.00	–

0000 A	2513	मेरे प्राणाधार	स्वामी आत्माभिषेक सरस्वती	स्वर्ण जयन्ती प्रकाशन	200.00	–
0000 A	2514	गीता मानस अपरोक्षानुभूति	स्वामी ओंकारानन्द सरस्वती	स्वर्ण जयन्ती प्रकाशन	150.00	–
0000 A	2515	श्री हनुमान चालीसा	संन्यासी अवलोकितेश्वर	स्वर्ण जयन्ती प्रकाशन	150.00	–
0000 A	2516	संस्कृत प्रबोधिनी–1	स्वामी प्रज्ञातीर्थ सरस्वती	स्वर्ण जयन्ती प्रकाशन	600.00	–
0000 A	2517	संस्कृत प्रबोधिनी–3	स्वामी प्रज्ञातीर्थ सरस्वती	स्वर्ण जयन्ती प्रकाशन	600.00	–
0000 A	2518	संस्कृत प्रबोधिनी–4	स्वामी प्रज्ञातीर्थ सरस्वती	स्वर्ण जयन्ती प्रकाशन	600.00	–
0000 A	2519	Rgveda Samhita	H.H. Wilson and Bhasya of Sayanacarya	Indica Books	1800 Set	–
0000 A	2520	Samaveda Samhita	R.T.H. Griffith	Indica Books	450.00	–
0000 A	2521	Yajurveda Samhita	R.T.H. Griffith	Indica Books	450.00	–
0000 A	2522	Atharvaveda Samhita	W.D. Whitney and Bhasya of Sayanacarya	Indica Books	1350 Set	–
0000 A	2523	A Concise Dictionary of Indian Philosophy	John Grimes	Indica Books	795.00	–
0000 A	2524	The Philosophical Traditions of India An Appraisal	Raffaele Torella	Indica Books	495.00	–
0000A	2525	The Aphorisms of Siva	Mark S.G. Dyczkowski	Indica Books	295.00	–
0000 A	2526	A Journey in the World of the Tantras	Mark S.G. Dyczkowski	Indica Books	325.00	–
0000 A	2527	Abhinavagupta's	Gitartha Samgraha	Indica Books	395.00	–
0000 A	2528	Stavacintamani	Bhatta Narayana and Boris Marjanovic	Indica Books	575.00	–
0000 A	2529	Aspects of Tantara Yoga	Debabrata Sen Sharma	Indica Books	195.00	–
0000 A	2530	An Introduction to the Advaita Saiva Philosophy of Kashmir	Debabrata Sen Sharma	Indica Books	250.00	–
0000 A	2531	Agama-Samvid	Kamlesh Jha	Indica Books	325.00	–
0000 A	2532	The Khecarividya of Adinatha	James Mallinson	Indica Books	725.00	–
0000 A	2533	Shaivism in the Light of Epics, Puranas and Agamas	N.R. Bhatt	Indica Books	875.00	–
0000 A	2534	The Hindu Pantheon in Nepalese Line Drawings	Gudrun Buhnemann	Indica Books	450.00	–
0000 A	2535	Sankara and Heidegger Being, Truth, Freedom	John Grimes	Indica Books	250.00	–
0000 A	2536	Taittiriyaka-Vidya-Prakasah by Vidyaranya	Bithika Mukerji	Indica Books	175.00	–
0000 A	2537	Tarkabhasa	Kesava Misra	Indica Books	125.00	–
0000 A	2538	मीमांसा–पदार्थ–विज्ञानम्	काशीनाथ न्यौपाने	Indica Books	160.00	–
0000 A	2539	लिङ.गोपासना–रहस्य श्री भगवती–तत्व	स्वामी करपतरी	Indica Books	375.00 (P.B.)	–
0000 A	2540	Selected Writings	M.M. Gopinath Kaviraj	Indica Books	250.00	–
0000 A	2541	Ramana Maharshi The Crown Jewel of Advaita	John Grimes	Indica Books	395 (P.B.)	–
0000 A	2542	श्री रमण महर्षि का उपदेश : अपनी सहज अवस्था में रहिए	सं. डेविड गॉडमेन	Indica Books	225.00	–
0000 A	2543	My Days with Sri Ma Anandamayi	Bithika Mukerji	Indica Books	375.00	–
0000 A	2544	Death Must Die - Based on the Diaries of Atmananda	Ram Alexander	Indica Books	450 (P.B.)	–
0000 A	2545	The Book of Aghor Wisdom	Mahaprabhu Aghoreshwar Baba Bhagwan Ram	Indica Books	495.00	–
0000 A	2546	शिव–संबोध और गंगा–प्रतीक	रमाकान्त पाण्डेय	Indica Books	195.00	–
0000 A	2547	A Buddhist Spectrum	Marco Pallis	Indica Books	350.00	–
0000 A	2548	Where the Buddha Walked	Rana P.B. Singh	Indica Books	395 (P.B.)	–
0000 A	2549	A Treasury of Traditional Wisdom	Whitall N. Perry	Indica Books	950.00	–
0000 A	2550	The Wisdom of Ananda Coomaraswamy	S. Durai Raja Singam	Indica Books	135.00	–
0000 A	2551	The Transcendent Unity of Religions	Frithiof Schuon	Indica Books	225.00	–

0000 A	2552	Science and the Myth of Progress	Mehrdad M. Zarandi	Indica Books	450.00	–
0000 A	2553	Manifesto against Progress	Agustin Lopez Tobajas	Indica Books	185.00	–
0000A	2554	Seeing God Everywhere	Barry McDonald	Indica Books	375.00	–
0000 A	2555	Paths to Transcendence According to Shankara, Ibn Arabi and Meister Eckhart	Reza Shah-Kazemi	Indica Books	395.00	–
0000 A	2556	Nature and Man : The Hindu Perspectives	Stefano De Santis	Indica Books	500 Set of 2 Vols.	–
0000 A	2557	Science, Consciousness, Freedom	Manoranjan Basu	Indica Books	795.00	–
0000 A	2558	ताओ ते चिंग – लाओत्सि	अनुराधा बनर्जी	Indica Books	175.00	–
0000 A	2559	Quest for Truth - Time, Space and Man	Banamali Lahiry	Indica Books	45.00	–
0000 A	2560	The Kumbh Mela	Mark Tully	Indica Books	75.00	–
0000 A	2561	Is India Civilized? Essays on Indian Culture	Sir John Woodroffe	Indica Books	275.00	–
0000 A	2562	Goddesses and Women in the Indic Religious Tradition	Arvind Sharma	Indica Books	250.00	–
0000 A	2563	The Goddess and the Slave	Rudrani Fakir	Indica Books	495.00	–
0000 A	2564	Sublime Love Essay and Anthology	Stuart Rose	Indica Books	395.00	–
0000 A	2565	Harikatha Samartha Ramdas' Contribution to the Art of Spiritual Story-Telling	I.P. Meera Grimes	Indica Books	250.00	–
0000 A	2566	Spiritual Education	Purnima Zweers	Indica Books	250.00 (P.B.)	–
0000 A	2567	50 Westerners Search for Themselves in Sacred India	Malcolm Tillis	Indica Books	425.00	–
0000 A	2568	India from Within	Alvaro Enterria	Indica Books	750.00	–
0000 A	2569	Ganga Lahari	Panditaraja Jagannatha	Indica Books	145.00	–
0000 A	2570	Ganga Observed Foreign Accounts of the River	Jagmohan Mahajan	Indica Books	175.00	–
0000 A	2571	The Ganga Trail	Jagmohan Mahajan	Indica Books	750.00	–
0000 A	2572	The Pancakrosi Yatra of Banaras	Rana P.B. Singh	Indica Books	295.00	–
0000 A	2573	Varanasi Vista	Jagmohan Mahajan	Indica Books	1750.00	–
0000 A	2574	Sri Tantralokah	Abhinavagupta and Gautam Chatterjee	Indica Books	225.00 (1) 495.00 (2) 495.00 (3)	–
0000 A	2575	Fundamentals of the Philosophy of Tantras	Manoranjan Basu	Indica Books	495.00	–
0000 A	2576	Yantra Images	Dilip Kumar	Indica Books	395.00	–
0000 A	2577	The Fundamentals of Advaita Vedanta	K. Narain	Indica Books	395.00	–
0000 A	2578	The Philosophy of the Vallabha School of Vedanta	K. Narain	Indica Books	495.00	–
0000 A	2579	The Doctrine of Bhakti in Vallabha Vedanta	K. Narain	Indica Books	495.00	–
0000 A	2580	Anandamayi Her Life and Wisdom	Richard Lannoy	Indica Books	1195.00	–
0000 A	2581	Garland of Advaitic Wisdom	Ajati	Indica Books	350.00	–
0000 A	2582	Indian Aesthetics and Musicology	Prem Lata Sharma	Indica Books	500.00	–
0000A	2583	A Religio-Spiritualistic Dialogue With Scientific World View	L.N. Sharma	Indica Books	250.00	–
0000 A	2584	Studies in Ancient Indian Medicine	Aparna Chattopadhyay	Indica Books	125.00	–
0000 A	2585	Studies in the Caraka Samhita	Aparna Chattopadhyay	Indica Books	200.00	–
0000 A	2586	Studies in the Kathasaritsagara	Aparna Chattopadhyay	Indica Books	350.00	–
0000 A	2587	Apastamba Samanya-Sutra or Yajnaparibhasa Sutra	Samiran Chandra Chakrabarti	The Asiatic Society	250.00	–
0000 A	2588	Arya Dravida Vidya Raja	Bhakti De	The Asiatic Society	240.00	–
0000 A	2589	Astasahasrika Prajna Paramita	Dr. Edward Conze, (Reprint)	The Asiatic Society	30.00	–
0000 A	2590	Asvaghosa	B.C. Law (Reprint)	The Asiatic Society	180.00	–
0000 A	2591	Aswalayana Srauta Sutra	Amar Chattopadhyay (In Bengali)	The Asiatic Society	1200.00	–
0000 A	2592	Ganitavali	Manabendu Banerjee & Pradip Kumar Majumdar	The Asiatic Society	400.00	–
0000 A	2593	Gauda Bangaramya Katha	Suniti Kumar Chatterji (Reprint)	The Asiatic Society	120.00	–

0000 A	2594	Gitagovinda O Bharat-Sanskriti	Gita Govinda & Indian Culture	The Asiatic Society	100.00	–
0000 A	2595	Haricaritam of Caturbhuja	Sivaprasad Bhattacharya	The Asiatic Society	25.00	–
0000 A	2596	Jiva Gosvamin	Asoke Chatterjee Sastri	The Asiatic Society	100.00	–
0000 A	2597	Kiranavali of Udayanacharyya, Fascs. 1-3	Siva Candra Sarvabhauma 1911-12 (Reprint)	The Asiatic Society	60.00	–
0000 A	2598	Kiranavali of Udayanacharyya, Fascs. 4	Narendra Chandra Vedantatirtha (Reprint)	The Asiatic Society	360.00	–
0000 A	2599	Kiratajana Kriti	Suniti Kumar Chatterji (Reprint)	The Asiatic Society	150.00	–
0000 A	2600	Krisi-Parasara	Girija Prasanna Mozumdar & Sures Chandra Banerji (Reprint)	The Asiatic Society	100.00	–
0000 A	2601	Kritya-Tattvarnava Srinatha Acarya Cudamani, Part-1	Rajendra Chandra Hazra	The Asiatic Society	325.00	–
0000 A	2602	Lalitavistara	Bijoya Goswami	The Asiatic Society	480.00	–
0000 A	2603	Mangalavada	Gaurinath Sastri	The Asiatic Society	20.00	–
0000 A	2604	Manutikasamgraha	Julius Jolly (Text) (Reprint)	The Asiatic Society	80.00	–
0000 A	2605	Matsyendra Samhita, Ascribed To Matsyendranatha, Part-1	Debabrata Sen Sharma	The Asiatic Society	150.00	–
0000 A	2606	Mystical Buddhism From A Sibylline Perspective	Satadal Kargupta	The Asiatic Society	1200.00	–
0000 A	2607	Naamaghosha	Subhas Shasmal	The Asiatic Society	500.00	–
0000 A	2608	Navyanyaya : Language & Methodology		The Asiatic Society	120.00	–
0000 A	2609	Nitisara by Kamandaki	Rajendralala Mitra	The Asiatic Society	650.00	–
0000 A	2610	Numismatic Supplement, Volume-1 Supplement 1-16		The Asiatic Society	50.00	–
0000 A	2611	Nyayadarsanesrikanthatippanakam	Anantalal Thakur	The Asiatic Society	35.00	–
0000A	2612	Nyayasutras With Nyayarahasya Of Ramabhadra Sarvabhauma & Anviksiki-Tattvavivarana of Janakinatha Cudamani, Vol-1 Rs. 400.00 & Vol.-2 Rs. 700.00	Prabal Kumar Sen	The Asiatic Society	1100.00	–
0000 A	2613	Panchavima-Brahmana	Dr. W. Caland (Reprint)	The Asiatic Society	225.00	–
0000 A	2614	Parasara-Smriti Parasara Madhava Vol-1 (Reprint)	Madhavacharyya	The Asiatic Society	40.00	–
0000 A	2615	Parasara-Smriti Parasara Madhava Vol-2 (Reprint)	Madhavacharyya	The Asiatic Society	50.00	–
0000 A	2616	Prithvirajavijayamahakavya : Aitihasik O Kavyik Parikrama	Sanjit Bhattacharya	The Asiatic Society	360.00	–
0000 A	2617	Rasagangadhara	Chinmayee Chatterjee	The Asiatic Society	110.00	–
0000 A	2618	Rasarnava	Praphulla Chandra Ray, Harish Chandra Kaviratna	The Asiatic Society	85.00	–
0000 A	2619	Sabdaratnavali of Mathuresha	Mahindra Mohan Choudhary	The Asiatic Society	40.00	–
0000 A	2620	Saddharmapundarika Sutram	Nalinaksha Dutt (Reprint)	The Asiatic Society	140.00	–
0000 A	2621	Samayapradipa	Asoke Chatterjee Sastri	The Asiatic Society	30.00	–
0000 A	2622	Sekasubhodaya	Sukumar Sen (Reprint)	The Asiatic Society	240.00	–
0000 A	2623	Slokavarttika	Ganganatha Jha (Reprint)	The Asiatic Society	125.00	–
0000 A	2624	Sraddhadipa	Pandit Jadavendra Nath Ray	The Asiatic Society	20.00	–
0000 A	2625	Srauta Sutra of Asvalayana	Gargya Narayana Vidyaratna	The Asiatic Society	175.00	–
0000 A	2626	Sri Sri Chaitanyacharitamrita, Kalna Edition	Krishnadas Kaviraja	The Asiatic Society	1400.00	–
0000 A	2627	Subhankari	Santanu Chacraverti	The Asiatic Society	330.00	–
0000 A	2628	Supriya Sarthavahajataka Of Bhadrakalpavadana	Soma Basu (Sikdar)	The Asiatic Society	350.00	–
0000 A	2629	Tantrayana Art - An Album	S.K. Sarawati (Reprint)	The Asiatic Society	900.00	–
0000 A	2630	Taranath Tarkabachaspatir Jibancharit	Sambhu Chandra Vidyaratna	The Asiatic Society	225.00	–
0000 A	2631	Tarkamrita of Jagadish Tarkalamkar	Jiban Krishna Tarkatirtha	The Asiatic Society	20.00	–

0000 A	2632	The Grihya Sutra of Aswalayana	Ramanarayana Vidyaratna & Annadachandra Vedantavagish (Reprint)	The Asiatic Society	110.00	–
0000 A	2633	The Rigveda Samhita, Volume - 1	Basanta Kumar Ganguly	The Asiatic Society	800.00	–
0000 A	2634	The Suryasiddhanta	A.K. Chakravarty	The Asiatic Society	300.00	–
0000 A	2635	The Upper Atmosphere	S.K. Mitra (Reprint)	The Asiatic Society	250.00 (HB) 150.00 (PB)	–
0000 A	2636	Tirtha Chintamani (Text)	Vacaspati Misra	The Asiatic Society	120.00	–
0000 A	2637	Udayanacarya's Atmatattvaviveka	Mahamahopadhyay Vindhyesvariprasada Dvivedin & Pandit Laksmana Sastri Dravida (Text) (Reprint)	The Asiatic Society	225.00	–
0000 A	2638	Uvasagadasao	A.F.R. Hoernle (Reprint)	The Asiatic Society	60.00	–
0000 A	2639	Vahni-Puranam	Anasuya Bhowmik	The Asiatic Society	1200.00	–
0000 A	2640	Vaikhanasasmartasutram (Eng. Tra.)	W. Caland (Reprint)	The Asiatic Society	225.00	–
0000A	2641	Vaikhanasa-Srautasutram	Dr. W. Caland (Reprint)	The Asiatic Society	120.00	–
0000 A	2642	Vaisnava Iconology In Nepal : A Study In Art And Religion	Pratapaditya Pal	The Asiatic Society	100.00	–
0000 A	2643	Vidhiswarupvicar	Pandit Yadavendra Nath Roy	The Asiatic Society	10.00	–
0000 A	2644	Vishnupala's Manasa Mangala	Sukumar Sen (Reprint)	The Asiatic Society	160.00	–
0000 A	2645	Yuga Purana	John E. Mitchiner (Reprint)	The Asiatic Society	400.00	–
0000 A	2646	Collected Works	T.V. Kapali Sastry	Arvind Ashram	Out Of Print	–
0000 A	2647	Volume - 1 The Book of Lights - 1	T.V. Kapali Sastry	Arvind Ashram	Out Of Print	–
0000 A	2648	Volume - 2 The Book of Lights - 2	T.V. Kapali Sastry	Arvind Ashram	Out Of Print	–
0000 A	2649	Volume - 3 The Book of Lights - 3	T.V. Kapali Sastry	Arvind Ashram	Out Of Print	–
0000 A	2650	Volume - 4, 5, 6 & 10	T.V. Kapali Sastry	Arvind Ashram	Out Of Print	–
0000 A	2651	Volume - 7	T.V. Kapali Sastry	Arvind Ashram	Out Of Print	–
0000 A	2652	Volume - 8 & 9	T.V. Kapali Sastry	Arvind Ashram	Out Of Print	–
0000 A	2653	Volume - 11	T.V. Kapali Sastry	Arvind Ashram	Out Of Print	–
0000 A	2654	Volume - 12	T.V. Kapali Sastry	Arvind Ashram	Out Of Print	–
0000 A	2655	Rigveda Samhita : Text, English Translation & Notes	T.V. Kapali Sastry	Arvind Ashram	Out Of Print	–
0000 A	2656	Lights on the Veda	T.V. Kapali Sastry	Arvind Ashram	Out Of Print	–
0000 A	2657	Lights on the Upanishads	T.V. Kapali Sastry	Arvind Ashram	Out Of Print	–
0000 A	2658	Collected Notes & Papers of	T.V. Kapali Sastry	Arvind Ashram	Out Of Print	–
0000 A	2659	Lights on the Upanishads With Sri Aurobindo Darshana	T.V. Kapali Sastry	Arvind Ashram	Out Of Print	–
0000 A	2660	Glory of Vasistha Ganapati : Biography, Life and Works	T.V. Kapali Sastry	Arvind Ashram	Out Of Print	–
0000 A	2661	The Maharshi	T.V. Kapali Sastry	Arvind Ashram	Out Of Print	–
0000 A	2662	Rigveda Samhita : Introduction to Siddhanjana, Commentary on the Rigveda	T.V. Kapali Sastry	Arvind Ashram	Out Of Print	–
0000 A	2663	Sidelights on the Tantra	T.V. Kapali Sastry	Arvind Ashram	Out Of Print	–
0000 A	2664	Lights on the Ancients	T.V. Kapali Sastry	Arvind Ashram	Out Of Print	–
0000 A	2665	Flame of White Light	T.V. Kapali Sastry	Arvind Ashram	Out Of Print	–
0000 A	2666	Men of God	T.V. Kapali Sastry	Arvind Ashram	Out Of Print	–
0000 A	2667	Gospel of the Gita	T.V. Kapali Sastry	Arvind Ashram	Out Of Print	–
0000 A	2668	Further Lights : The Veda and The Tantra	T.V. Kapali Sastry	Arvind Ashram	Out Of Print	–
0000 A	2669	The Way of Light	T.V. Kapali Sastry	Arvind Ashram	Out Of Print	–
0000A	2670	Sri Aurobindo : Lights on the Teachings	T.V. Kapali Sastry	Arvind Ashram	Out Of Print	–
0000 A	2671	Sidelights in Sanskrit Literature	T.V. Kapali Sastry	Arvind Ashram	Out Of Print	–
0000 A	2672	Vasisthavaibhavam : Vasisthaganapatimunescaritram	T.V. Kapali Sastry	Arvind Ashram	Out Of Print	–
0000 A	2673	Sat-Darshana Bashya & Talks with Maharshi	T.V. Kapali Sastry	Arvind Ashram	Out Of Print	–
0000 A	2674	Lights on the Veda	T.V. Kapali Sastry	Arvind Ashram	Out Of Print	–

0000 A	2675	Lights on the Upanishads	T.V. Kapali Sastry	Arvind Ashram	Out Of Print	–
0000 A	2676	Sri Aurobindo : Lights on the Teachings	T.V. Kapali Sastry	Arvind Ashram	Out Of Print	–
0000 A	2677	पंचसंग्रह (संस्कृत) : आचार्य अमितगति	पं० वंशीधर, सोलापुर	भारतीय विध्या प्रकाशन	400.00	–
0000 A	2678	जैन दर्शन में नयवाद	डॉ० सुखनन्दन जैन	भारतीय विध्या प्रकाशन	225.00	–
0000 A	2679	पंचत्थिकायसंगहो (पंचास्तिकायसंग्रह) (प्राकृत) : आचार्य कुन्दकुन्द	पं० बलभद्र जैन	भारतीय विध्या प्रकाशन	80.00	–
0000 A	2680	पंचास्तिकायसंग्रह (प्राकृत, संस्कृत, हिन्दी) : आचार्य कुन्दकुन्द (आचार्य जयसेन कृत तात्पर्यवृत्ति संस्कृत टीका सहित)	पं० मन्नूलाल जैन, एडवोकेट	भारतीय विध्या प्रकाशन	175.00	–
0000 A	2681	जैन तत्वविद्या	श्री मुनि प्रमाणसागर	भारतीय विध्या प्रकाशन	300.00	–
0000 A	2682	महाबन्द (प्राकृत, हिन्दी) : भगवन्त भूतबली (सात भागों में) भाग 1 और 2	अनु. पं. सुमेरूचन्द दिवाकर एवं पं. फूलचन्द शास्त्री	भारतीय विध्या प्रकाशन	220.00	–
0000 A	2683	महाबन्द (प्राकृत, हिन्दी) : भगवन्त भूतबली (सात भागों में) भाग 3 से 7	अनु. पं. सुमेरूचन्द दिवाकर एवं पं. फूलचन्द शास्त्री	भारतीय विध्या प्रकाशन	200.00	–
0000 A	2684	तत्वार्थराजवार्तिक (दो भागों में) भाग–1	अनु. प्रो० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य	भारतीय विध्या प्रकाशन	250.00	–
0000 A	2685	तत्वार्थराजवार्तिक (दो भागों में) भाग–2	अनु. प्रो० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य	भारतीय विध्या प्रकाशन	250.00	–
0000 A	2686	तत्वार्थवृत्ति (संस्कृत, हिन्दी) : श्रुतसागर सूरि	अनु. प्रो० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य	भारतीय विध्या प्रकाशन	300.00	–
0000 A	2687	तत्वार्थसार (संस्कृत, हिन्दी) : आचार्य अमृतचन्द्र	श्री मुनि अमितसागर	भारतीय विध्या प्रकाशन	390.00	–
0000 A	2688	योगसारप्राभृत (संस्कृत, हिन्दी) : आचार्य अमितगति	अनु. जुगलकिशोर मुख्तार	भारतीय विध्या प्रकाशन	180.00	–
0000 A	2689	नयचक्र (णयचक्को) (प्राकृत, हिन्दी) : माइल्ल धवल	अनु. कैलाश चन्द्र शास्त्री	भारतीय विध्या प्रकाशन	150.00	–
0000 A	2690	जैनन्याय–सिद्धांतचार्य	पं. कैलाश चन्द्र शास्त्री	भारतीय विध्या प्रकाशन	200.00	–
0000 A	2691	षट्खण्डागम–परिशीलन	पं. बालचन्द्र सिद्धांतशास्त्री	भारतीय विध्या प्रकाशन	300.00	–
0000 A	2692	सर्वासिद्धि (संस्कृत, हिन्दी) : आचार्य पूज्यपाद	अनु. सिद्धांताचार्य पं. फूलचन्द्र शास्त्री	भारतीय विध्या प्रकाशन	300.00	–
0000 A	2693	गोम्मटसार, जीवकाण्ड (दो भाग) : आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धांतचक्रवर्ती (कर्णाट वृत्ति, संस्कृत टीका एवं हिन्दी अनुवाद)	अनु. डॉ० आ. ने. उपाध्ये, पं. कैलाशचन्द्र शास्त्री	भारतीय विध्या प्रकाशन	300.00	–
0000 A	2694	गोम्मटसार, जीवकाण्ड (दो भाग) : आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धांतचक्रवर्ती (कर्णाट वृत्ति, संस्कृत टीका एवं हिन्दी अनुवाद) प्रथम भाग	अनु. डॉ० आ. ने. उपाध्ये, पं. कैलाशचन्द्र शास्त्री	भारतीय विध्या प्रकाशन	250.00	–
0000 A	2695	गोम्मटसार, जीवकाण्ड (दो भाग) : आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धांतचक्रवर्ती (कर्णाट वृत्ति, संस्कृत टीका एवं हिन्दी अनुवाद) द्वितीय भाग	अनु. डॉ० आ. ने. उपाध्ये, पं. कैलाशचन्द्र शास्त्री	भारतीय विध्या प्रकाशन	300.00	–
0000 A	2696	गोम्मटसार, कर्मकाण्ड (दो भाग) प्रथम भाग	आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धांतचक्रवर्ती	भारतीय विध्या प्रकाशन	300.00	–
0000 A	2697	गोम्मटसार, कर्मकाण्ड (दो भाग) द्वितीय भाग	आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धांतचक्रवर्ती	भारतीय विध्या प्रकाशन	430.00	–
0000 A	2698	षड्दर्शनसमुच्चय (संस्कृत, हिन्दी) : हरिभद्र सूरि	अनु. प्रो० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य	भारतीय विध्या प्रकाशन	250.00	–
0000A	2699	योगसार प्राभृत	अनु. डॉ० एस.सी. जैन	भारतीय विध्या प्रकाशन	150.00	–

0000 A	2700	आप्त–मीमांसा : आचार्य सामंतभद्रा	अनु. सरत चन्द्र घोशल	भारतीय विध्या प्रकाशन	180.00	–
0000 A	2701	पंचास्तिकायसंग्रह	आचार्य कुन्दकुन्द	भारतीय विध्या प्रकाशन	250.00	–
0000 A	2702	अभिद्यान राजेन्द्र कोष हिन्दी अनुवाद सहित (तीन भाग सेट)	डॉ० उदय चन्द्र जैन	भारतीय विध्या प्रकाशन	5000.00	–
0000 A	2703	श्रीजगन्नाथभक्तिसाहित्यं प्रति श्रीजगन्नाथरथोत्सवकार्व्यस्य योगदानम्	डॉ० श्वेतपद्यमा शतपथी	भारतीय विध्या प्रकाशन	500.00	–
0000 A	2704	पञ्चपादिकाविवरणम्	श्रीप्रकाशात्मयतिविर चितम्	भारतीय विध्या प्रकाशन		–
0000 A	2705	मनुस्मृति : मूल हिन्दी भावार्थ सहित संपूर्ण	पं० जगन्नाथ तैलंग	भारतीय विध्या प्रकाशन	In Press	–
0000 A	2706	Samayasara : (The Soul-Essence)	Shri Kunda Kunda Acharya Rai Bahadur J.L. Jain	भारतीय विध्या प्रकाशन	500.00	–
0000 A	2707	A handful of popular maxims current in sanskrit literature	G.A. Jacob	भारतीय विध्या प्रकाशन	500.00	–
0000 A	2708	Modern Indian Mysticism : A Comparative and Critical Study	Dr. Sobharani Basu	भारतीय विध्या प्रकाशन	3000.00 Set	–
0000 A	2709	Some Jaina Canonical Sutras : B.C. Law	Dr. E.J. Thomas	भारतीय विध्या प्रकाशन	500.00	–
0000 A	2710	Holistic health healing The Holy water and magnetic water	Dr. S.K. Sharma	भारतीय विध्या प्रकाशन	350.00	–
0000 A	2711	Saints and Sages of India	G.R. Sholapurka	भारतीय विध्या प्रकाशन	400.00	–
0000 A	2712	Flora in Bhagavata Purana	Dr. P.C. Ojha	भारतीय विध्या प्रकाशन	1500.00	–
0000 A	2713	कालीदास साहित्य में सौन्दर्य एवं सामंजय	डॉ० प्रो० पुष्पेन्द्र कुमार	भारतीय विध्या प्रकाशन	350.00	–
0000A	2714	रघुवंश महाकाव्यम् (संपूर्ण) कालिदास प्रणीतम् सजिल्द	श्री निवास शर्मा	भारतीय विध्या प्रकाशन	500.00	–
0000 A	2715	किरातार्जुनीयम् (संपूर्ण) सजिल्द	आचार्य श्री निवास शर्मा	भारतीय विध्या प्रकाशन	500.00	–
0000 A	2716	तत्वसार : श्री राखादासन्याय रत्नविरचिता	श्री सच्चिदानन्द मिश्र	भारतीय विध्या प्रकाशन	50.00	–
0000 A	2717	कर्मठगुरु (सजिल्द)	श्री दैव ज्ञमुकुन्द वल्लभ	भारतीय विध्या प्रकाशन	600.00	–
0000 A	2718	छनदोमंजरी (सजिल्द)	श्री गंगादास प्रणीता	भारतीय विध्या प्रकाशन	500.00	–
0000 A	2719	कुमार सम्भवम् : (कालिदास प्रणीतम्) – संपूर्ण (सजिल्द)	श्री निवास शर्मा	भारतीय विध्या प्रकाशन	500.00	–
0000 A	2720	जपसूत्रम् (षष्ठ खण्ड) : स्वामी प्रत्यगात्मानन्द शास्त्री सरस्वती (सजिल्द)	अनु. एस.एन. खण्डेलवाल	भारतीय विध्या प्रकाशन	600.00	–
0000 A	2721	सर्ववेदान्त – सिद्धान–सार–संग्रह	पं० राम स्वरूप शर्मा	भारतीय विध्या प्रकाशन	600.00	–
0000 A	2722	श्री जगन्नाथ रथोत्सव काव्यम्	डॉ० श्वेतपद्यमा शतपथी	भारतीय विध्या प्रकाशन	600.00	–
0000 A	2723	प्राच्यपाश्रान्त्य सौन्दर्य शास्त्र परम्परायाम् अरस्तू	डॉ० श्वेतपद्यमा शतपथी	भारतीय विध्या प्रकाशन	350.00	–
0000 A	2724	लघुसिद्धांत कौमुदी – तृतीय भाग	कान्ता भाटिया	भारतीय विध्या प्रकाशन		–
0000 A	2725	शुकनाशापदेश	डॉ० राजेन्द्र कुमार	भारतीय विध्या प्रकाशन	40.00	–
0000 A	2726	ब्रह्मसूत्र शाड.करभाष्य चतु:सुत्रीपर्यनतयायती (सजिल्द)	पं० सरयू प्रसाद उपाध्याय	भारतीय विध्या प्रकाशन	500.00	–

0000 A	2727	Indian Mythology	V. Fausbole	भारतीय विध्या प्रकाशन		–
0000 A	2728	System of Ethics	Fredrich Paulsen	भारतीय विध्या प्रकाशन		–
0000 A	2729	Outlines of General Philosophy	Phanibhushan Chatterji	भारतीय विध्या प्रकाशन		–
0000 A	2730	Kadambarisara	Mahadev Shivaram Apte	भारतीय विध्या प्रकाशन		–
0000 A	2731	The Tarkakaumudi	Laugakshi Bhaskara Wasudev, Laxman Shastri Pansikar	भारतीय विध्या प्रकाशन		–
0000 A	2732	सप्तपदार्थों नाम वैशेषिकप्रकरणम्	विद्वद्वर्य–श्रीशिवादित्यनिरूपितम्	भारतीय विध्या प्रकाशन		–
0000 A	2733	A spects or Easter & Werter Aesthetice	Dr. Surya Mani Rath	भारतीय विध्या प्रकाशन	1500.00	–
0000 A	2734	Rudra-Siva in the Vedas	Pretiva Manjari Rath	भारतीय विध्या प्रकाशन	695.00	–
0000 A	2735	Some Aspects and Dimensions of Sanskrit Literature	Sh. Bharat Bhusan Rath	भारतीय विध्या प्रकाशन	250.00	–
0000 A	2736	The Supernoumal means of knowing	Sh. Bhupendra Chandra Das	भारतीय विध्या प्रकाशन	400.00	–
0000 A	2737	Light on Vedic and Auramic Studies	Prativa Manjari Rath	भारतीय विध्या प्रकाशन	400.00	–
0000 A	2738	गीता में आत्म प्रबंधन	डॉ० राजेन्द्र कुमार	भारतीय विध्या प्रकाशन	60.00	–
0000 A	2739	Panianian Treatment of Sanskrit Indeclinables	Subhas Chandra Tripathy	भारतीय विध्या प्रकाशन	550.00	–
0000 A	2740	कैलाशपति विभूति (अभनन्द ग्रंथ)	सं. एच.के. सतपथि, डॉ० सूर्य मणिरथ	भारतीय विध्या प्रकाशन	2000.00	–
0000 A	2741	महर्षि श्री वेदव्यास प्रणीतं ब्रहमसूत्र	डॉ० पं. गोपीनाथ कविराज, डॉ० रामकरण शर्मा प्राक्कथन	भारतीय विध्या प्रकाशन	2500.00 Set	–
0000 A	2742	अप्रभंश काव्य णेमिणाहचरिउ	डॉ० श्रीमती सरोज जैन	भारतीय विध्या प्रकाशन	1200.00	–
0000A	2743	संस्कृत वाड्.मय परिचय	डॉ० सि. ललिताराणी	भारतीय विध्या प्रकाशन	300.00	–
0000 A	2744	कुमार सम्भवे धर्मत्वानि	डॉ० सि. ललिताराणी	भारतीय विध्या प्रकाशन	75.00	–
0000 A	2745	सर्वमतसंग्रह	महामहोपाध्याय टी. गणपति शास्त्री	भारतीय विध्या प्रकाशन	60.00	–
0000 A	2746	श्रीदयानन्दचरितमहाकाव्यम् आलड.कारिक पर्य्यालोचनम्:	भारत भूषण	भारतीय विध्या प्रकाशन	400.00	–
0000 A	2747	प्रमुख भारतीय दर्शन सम्प्रदायेषुगुणपर्यालोचनम्	सुधांशु कुमार साढ़डगी	भारतीय विध्या प्रकाशन	595.00	–
0000 A	2748	सर्वदर्शनसंग्रह : (चार्वक–बौद्ध जैन दर्शनानि)	माधव जनार्दन रटाटे	भारतीय विध्या प्रकाशन	100.00	–
0000 A	2749	छनदमीमांसा	हरिशंकर पांडेय	भारतीय विध्या प्रकाशन	75.00	–
0000 A	2750	सांख्यसार	रामशंकर भट्टाचार्या	भारतीय विध्या प्रकाशन	50.00	–
0000 A	2751	सांख्यकारिका (अजिल्द)	सुधांशु कुमार साढ़डगी	भारतीय विध्या प्रकाशन	125.00	–
0000 A	2752	श्रीविज्ञानभिक्षु कृत योगसारसंग्रह : हिन्दी व्याख्या सहित (सजिल्द)	सुधांशु कुमार साढ़डगी	भारतीय विध्या प्रकाशन	250.00	–
0000 A	2753	तत्वसार : श्री राखादासन्याय रत्नविरचिता	सच्चिदानन्द मिश्र	भारतीय विध्या प्रकाशन	275.00	–
0000 A	2754	Advatita Vedanta	B.N. Krishnamurty	भारतीय विध्या प्रकाशन	400.00	–

0000 A	2755	Ardha Magadhi Dictionary	A.C. Woolner	भारतीय विध्या प्रकाशन	7500.00	–
0000 A	2756	Arthasangrah	S.S. Sukthankar	भारतीय विध्या प्रकाशन	250.00	–
0000 A	2757	Abhidharma Kosa	Lata Bapat	भारतीय विध्या प्रकाशन	250.00	–
0000 A	2758	Abhidhamma Philosophy	J. Kashyap	भारतीय विध्या प्रकाशन	400.00	–
0000 A	2759	Advaita Vedanta	D. Prithipaul	भारतीय विध्या प्रकाशन	125.00	–
0000 A	2760	Advaitic Concept of Jivanmukti	L.K.L. Srivastava	भारतीय विध्या प्रकाशन	300.00	–
0000 A	2761	Buddhist Logic	Lata Bapat	भारतीय विध्या प्रकाशन	400.00	–
0000 A	2762	Bertrand Russel's Philosophy of Perception	J. Haq.	भारतीय विध्या प्रकाशन	80.00	–
0000 A	2763	The Canonical Nikshepa	Banshidhar Bhatt	भारतीय विध्या प्रकाशन	400.00	–
0000 A	2764	The Collision of Culture	Bhaskar	भारतीय विध्या प्रकाशन	200.00	–
0000 A	2765	Cakkavala-Dipani	Priti Kumari Dubey	भारतीय विध्या प्रकाशन	300.00	–
0000 A	2766	Essentialism	V.N.K. Reddy	भारतीय विध्या प्रकाशन	100.00	–
0000 A	2767	Epochs in Buddhist History	K.J. Saunders	भारतीय विध्या प्रकाशन	300.00	–
0000 A	2768	Eastern & Western Philosophy	N.K. Reddy	भारतीय विध्या प्रकाशन	150.00	–
0000 A	2769	Epic Sequence	Tapodhir Bhattacharya	भारतीय विध्या प्रकाशन	300.00	–
0000 A	2770	Encylopaedia of Indian Wisdom	R.K. Sharma	भारतीय विध्या प्रकाशन	4000.00	–
0000 A	2771	Futurology	V.K. Reddy	भारतीय विध्या प्रकाशन	70.00	–
0000A	2772	Footprints at Shirdi and Puttaparthi	G.R. Sholapurkar	भारतीय विध्या प्रकाशन	75.00	–
0000 A	2773	Facets of Indian Religion Philosophic Identity	Harsh Naranin	भारतीय विध्या प्रकाशन	100.00	–
0000 A	2774	Glimpses of Indian Culture	A.C. Sarangi	भारतीय विध्या प्रकाशन	250.00	–
0000 A	2775	Hitopadesa (Complete)	Peter Peterson	भारतीय विध्या प्रकाशन	200.00	–
0000 A	2776	History of Indian Literature (Buddhism)	M. Winternitz	भारतीय विध्या प्रकाशन	150.00	–
0000 A	2777	Hindu Religion	H.H. Wilson	भारतीय विध्या प्रकाशन	200.00	–
0000 A	2778	The Holy water and magentic water	S.K. Sharma	भारतीय विध्या प्रकाशन	350.00	–
0000 A	2779	Holistic Art of Living	S.K. Sharma	भारतीय विध्या प्रकाशन	350.00	–
0000 A	2780	Institute of Vishnu	J.L. Kamboj	भारतीय विध्या प्रकाशन	300.00	–
0000 A	2781	An Introduction to Samkhya Pravaeh and Bhasya	F.E. Hall	भारतीय विध्या प्रकाशन	60.00	–
0000 A	2782	Introduction to Nyaya Varttika	B.P. Dwivedi	भारतीय विध्या प्रकाशन	200.00	–
0000 A	2783	Indian Theory of Aesthetics	P.S. Shastri	भारतीय विध्या प्रकाशन	400.00	–

0000 A	2784	An Introduction to the Yogasutra	R.S. Bhattacharya	भारतीय विध्या प्रकाशन	300.00	–
0000 A	2785	Isanasivaguruadevapaddhati of Isanasivagurudeva	T. Ganapati Shastri	भारतीय विध्या प्रकाशन	1000.00	–
0000 A	2786	Indian Buddhism	T.W. Rhys Davids	भारतीय विध्या प्रकाशन	395.00	–
0000 A	2787	Indian Philosophy and Modern Culture	P. Brunton	भारतीय विध्या प्रकाशन	70.00	–
0000 A	2788	Indian Philosophy	K.K. Anand	भारतीय विध्या प्रकाशन	125.00	–
0000 A	2789	Indian Idealism	P.S. Shastri	भारतीय विध्या प्रकाशन	400.00	–
0000 A	2790	Idealism East & West	S.P. Dubey	भारतीय विध्या प्रकाशन	200.00	–
0000 A	2791	Introduction to Mahayan Buddhism	W.M. Mgovern	भारतीय विध्या प्रकाशन	175.00	–
0000 A	2792	The Justification of Inference	Raghunath Ghosh	भारतीय विध्या प्रकाशन	200.00	–
0000 A	2793	Jain Philosophy	B.B. Rayanade	भारतीय विध्या प्रकाशन	395.00	–
0000 A	2794	Kautilya Arthashastra	N.P. Unni	भारतीय विध्या प्रकाशन	125.00	–
0000 A	2795	Kabir Mythology	David Scott.	भारतीय विध्या प्रकाशन	200.00	–
0000 A	2796	Kashmir Saivism	L.N. Sharma	भारतीय विध्या प्रकाशन	500.00	–
0000 A	2797	Kathopanisad	R.R. Sharma	भारतीय विध्या प्रकाशन	45.00	–
0000 A	2798	Linguistic Philosophy in Vakyapadiya	Gayatri Rath	भारतीय विध्या प्रकाशन	350.00	–
0000 A	2799	Methodology in Indological Research	M. Srimannarayana Murti	भारतीय विध्या प्रकाशन	150.00	–
0000 A	2800	Man, Religion and God	G.R. Sholapurkar	भारतीय विध्या प्रकाशन	150.00	–
0000A	2801	Mandukyopanisad	Y.P. Tripathi	भारतीय विध्या प्रकाशन	20.00	–
0000 A	2802	New Dimension of Indology	R.N. Mehta	भारतीय विध्या प्रकाशन	1000.00	–
0000 A	2803	Navya Nyaya	G.M. Bhattacharya	भारतीय विध्या प्रकाशन	150.00	–
0000 A	2804	The Navya Nayaya Logic	Abhava-Vibha Gaur	भारतीय विध्या प्रकाशन	150.00	–
0000 A	2805	Outline of Hindu Metaphysics	M.N. Shastri	भारतीय विध्या प्रकाशन	125.00	–
0000 A	2806	Origin and Evaluation of Religion	E.W. Hopkins	भारतीय विध्या प्रकाशन	300.00	–
0000 A	2807	The Philosophy of Mandukya Karika	C. Conio	भारतीय विध्या प्रकाशन	150.00	–
0000 A	2808	The Philosphy of Nyaya Vaisesika and Its Conflict with the Buddhist Dignaga School	D.N. Shastri	भारतीय विध्या प्रकाशन	600.00	–
0000 A	2809	A Primer of Hinduism	J.N. Farquhar	भारतीय विध्या प्रकाशन	In Press	–
0000 A	2810	The Philosophy of Bhartrihari	Gaurinath Shastri	भारतीय विध्या प्रकाशन	200.00	–
0000 A	2811	Panini and Katantra Systems of Sanskrit Grammar	R.K. Satpathy	भारतीय विध्या प्रकाशन	300.00	–
0000 A	2812	Pali Language	E. Muller	भारतीय विध्या प्रकाशन	100.00	–

0000 A	2813	Philosophy of Justice	Nitin J. Vyas, Ranfan K. Panda & Bhaskar Vyas	भारतीय विध्या प्रकाशन	250.00	–
0000 A	2814	Rites and Rituals in Modern Age	Uma Marina Vesci	भारतीय विध्या प्रकाशन	100.00	–
0000 A	2815	Religious Rites and Festivals of India	G.R. Sholapurkar	भारतीय विध्या प्रकाशन	400.00	–
0000 A	2816	Saints and Sages of India	G.R. Sholapurkar	भारतीय विध्या प्रकाशन	500.00	–
0000 A	2817	Self Development by Meditation	Archarya Dr. Shiv Muni	भारतीय विध्या प्रकाशन	350.00	–
0000 A	2818	Spiritual Masters of India	G.R. Sholapurkar	भारतीय विध्या प्रकाशन	200.00	–
0000 A	2819	Sacrifice and Its Subliation Through the Word	Uma Marina Vesci	भारतीय विध्या प्रकाशन	150.00	–
0000 A	2820	Studies in Indian Logic and Metaphysics	R.V. Joshi	भारतीय विध्या प्रकाशन	150.00	–
0000 A	2821	Samkhya Conception of Personality	A.K. Mazumdar	भारतीय विध्या प्रकाशन	200.00	–
0000 A	2822	Studies in Philosophy and Religion	R.S. Mishra	भारतीय विध्या प्रकाशन	150.00	–
0000 A	2823	The Six Systems of Indian Philosophy	N.D. Rajadhyaksha	भारतीय विध्या प्रकाशन	150.00	–
0000 A	2824	Self Treatment Through Acupressure	S.K. Sharma	भारतीय विध्या प्रकाशन	295.00	–
0000 A	2825	Tarka Samgraha	K.P. Parab	भारतीय विध्या प्रकाशन	60.00	–
0000 A	2826	Tantrapaddhati	N.P. Unni	भारतीय विध्या प्रकाशन	150.00	–
0000 A	2827	The Theories of Implication in Indian and Western Philosophy	M.N. Rastogi	भारतीय विध्या प्रकाशन	80.00	–
0000 A	2828	Traditional and Contemporary Ethics Western and Indian	H.M. Joshi	भारतीय विध्या प्रकाशन	450.00	–
0000 A	2829	Twentieth Century Indian Philosophy	N. Sharma	भारतीय विध्या प्रकाशन	150.00	–
0000A	2830	Treatment of Phonology in Dayananda	Dr. Yajan Veer Dahiya	भारतीय विध्या प्रकाशन	250.00	–
0000 A	2831	Tara : The Supreme Goddess	Pushpendra Kumar	भारतीय विध्या प्रकाशन	1000.00	–
0000 A	2832	Uposatha Ceremony	Jayeeta Gangopadhyaya	भारतीय विध्या प्रकाशन	300.00	–
0000 A	2833	The Vedanta Philosophy and Religion	R.V. Khedkar	भारतीय विध्या प्रकाशन	200.00	–
0000 A	2834	Yogasutra of Patanjali	Balantyne & Shastri	भारतीय विध्या प्रकाशन	In Press	–
0000 A	2835	Ardha Magadhi Dictionary	A.C. Woolner	भारतीय विध्या प्रकाशन	7500.00	–
0000 A	2836	The Anga, Pada, Bha and Samhita Rules in the Astadhyayi	Niranjan Pati	भारतीय विध्या प्रकाशन	250.00	–
0000 A	2837	Bhasa's Plays	N.P. Unni	भारतीय विध्या प्रकाशन	150.00	–
0000 A	2838	Bhartrihari as a Monist	Gayatri Rath	भारतीय विध्या प्रकाशन	250.00	–
0000 A	2839	Brahmans of the Vedas	S. Macdonald	भारतीय विध्या प्रकाशन	Shortly	–
0000 A	2840	The Canonical Nikshepa	Bansidhar Bhatt	भारतीय विध्या प्रकाशन	300.00	–
0000 A	2841	Dhvanyaloka and Its Critics	K. Krishnamoorhy	भारतीय विध्या प्रकाशन	200.00	–

0000 A	2842	The Development of Sanskrit from Panini to Patanjali	A.C. Sarangi	भारतीय विध्या प्रकाशन	250.00	–
0000 A	2843	Darshapurnamasa	Urmila Rustagi	भारतीय विध्या प्रकाशन	150.00	–
0000 A	2844	Divine Words and Verses	G.R. Sholapurkar	भारतीय विध्या प्रकाशन	2000.00	–
0000 A	2845	A Dialogue with Faiths and Flora	Nitin J. Vyas	भारतीय विध्या प्रकाशन	250.00	–
0000 A	2846	Encyclopeadia of Indian Wisdom	Ram Karan Sharma	भारतीय विध्या प्रकाशन	4000.00	–
0000 A	2847	Hitopadesa	P. Peterson	भारतीय विध्या प्रकाशन	200.00	–
0000 A	2848	Hindu Religion	H.H. Wilson	भारतीय विध्या प्रकाशन	200.00	–
0000 A	2849	Hospitality in Changing Indian Society	Sarat Chandra Parida	भारतीय विध्या प्रकाशन	400.00	–
0000 A	2850	Institute of Vishnu	J.L. Kamboj	भारतीय विध्या प्रकाशन	300.00	–
0000 A	2851	An Introduction to Samkhya Pravaeh and Bhasya	F.E. Hall	भारतीय विध्या प्रकाशन	60.00	–
0000 A	2852	Introduction to Naya Varttika	B.P. Dwivedi	भारतीय विध्या प्रकाशन	200.00	–
0000 A	2853	An Introduction to the Yogasutra	R.S. Bhattacharya	भारतीय विध्या प्रकाशन	300.00	–
0000 A	2854	Introduction to Prakrit	A.C. Woolner	भारतीय विध्या प्रकाशन	200.00	–
0000 A	2855	Isavasyopanisad	Shashi Tiwari	भारतीय विध्या प्रकाशन	70.00	–
0000 A	2856	Introduction to Pali	A. Barua	भारतीय विध्या प्रकाशन	200.00	–
0000 A	2857	The Justification of Inference	Raghunath Ghosh	भारतीय विध्या प्रकाशन	200.00	–
0000 A	2858	Kautilya Arthashastra	N.P. Unni	भारतीय विध्या प्रकाशन	125.00	–
0000A	2859	Kashmir Saivism	L.N. Sharma	भारतीय विध्या प्रकाशन	500.00	–
0000 A	2860	Kathopanisad	R.R. Sharma	भारतीय विध्या प्रकाशन	45.00	–
0000 A	2861	Kavya Prakasa	M.M. Ganganath Jha	भारतीय विध्या प्रकाशन	800.00	–
0000 A	2862	Methodology of the Analysis of Sanskrit Drama	M.C. Byrski	भारतीय विध्या प्रकाशन	300.00	–
0000 A	2863	Methodology in Indological Research	M.S. Murti	भारतीय विध्या प्रकाशन	150.00	–
0000 A	2864	Meghduta of Kalidasa	G.R. Nandgrikar	भारतीय विध्या प्रकाशन	300.00	–
0000 A	2865	Meghasandesha	N.P. Unni	भारतीय विध्या प्रकाशन	250.00	–
0000 A	2866	Navya Nyaya	G.M. Bhattacharya	भारतीय विध्या प्रकाशन	150.00	–
0000 A	2867	The Navya Nayaya Logic	Dr. Vibha Gaur	भारतीय विध्या प्रकाशन	150.00	–
0000 A	2868	The New Vedic Selection Part - I, B.A.	Telang & B.B. Chaubey	भारतीय विध्या प्रकाशन	50.00	–
0000 A	2869	The New Vedic Selection Part - II, M.A.	Telang & B.B. Chaubey	भारतीय विध्या प्रकाशन	150.00	–
0000 A	2870	On the Aindra School of Sanskrit Grammarian	A.C. Burnell	भारतीय विध्या प्रकाशन	80.00	–

0000 A	2871	The Philosophy of Mundukyarika	C. Conion	भारतीय विध्या प्रकाशन	125.00	–
0000 A	2872	The Philosophy of Nyaya-Vaishesika and its Conflict with the Buddhist Dignaga School	D.N. Shastri	भारतीय विध्या प्रकाशन	600.00	–
0000 A	2873	Philosophy of Justice	Nitin J. Vyas, R. Panda & Bhaskar Vyas	भारतीय विध्या प्रकाशन	250.00	–
0000 A	2874	Paninian and Katantra Systems of Grammar (A Comparative Study)	R.K. Satpathy	भारतीय विध्या प्रकाशन	300.00	–
0000 A	2875	Paninian and as Grammarian	Mahaveer	भारतीय विध्या प्रकाशन	100.00	–
0000 A	2876	Rigvedic Aesthetics	P.S. Shastri	भारतीय विध्या प्रकाशन	300.00	–
0000 A	2877	Religious Rites and Festivals of India	G.R. Sholapurkar	भारतीय विध्या प्रकाशन	400.00	–
0000 A	2878	Sanskrit and Sages of India	G.R. Sholapurkar	भारतीय विध्या प्रकाशन	400.00	–
0000 A	2879	Studies in Champu Literature	C.R. Deshpande	भारतीय विध्या प्रकाशन	400.00	–
0000 A	2880	Svapnavasavadatta	M.R. Kale	भारतीय विध्या प्रकाशन	80.00	–
0000 A	2881	Sanskrit Dictionary	C.J. Bhatt	भारतीय विध्या प्रकाशन	100.00	–
0000 A	2882	A Study of Alandrara in Sanskrit Mahakavya and Khandakavya	B.S. Antonio	भारतीय विध्या प्रकाशन	450.00	–
0000 A	2883	Samkhya Conception of Personality	A.K. Mazumdar	भारतीय विध्या प्रकाशन	200.00	–
0000 A	2884	System of Sanskrit Grammar	S.K. Belvalkar	भारतीय विध्या प्रकाशन	50.00	–
0000 A	2885	Studies in Vedic and Indo-Iranian Religion and Literature	K.C. Chattopadhyaya & Dr. V.N. Mishra	भारतीय विध्या प्रकाशन	400.00	–
0000 A	2886	Sarvamata Sangraha	Mahamahopadhyaya T. Ganpati Shastri	भारतीय विध्या प्रकाशन	60.00	–
0000 A	2887	The Sacrifice in the Rigveda	H. Aguilar	भारतीय विध्या प्रकाशन	200.00	–
0000A	2888	Tarka Samgraha	K.C. Mahendale	भारतीय विध्या प्रकाशन	In Press	–
0000 A	2889	Tantrapaddhatti	N.P. Unni	भारतीय विध्या प्रकाशन	200.00	–
0000 A	2890	Tarka Samgraha	K.P. Parab	भारतीय विध्या प्रकाशन	70.00	–
0000 A	2891	Tara : The Supreme Goddess	Pushpendra Kumar	भारतीय विध्या प्रकाशन	1000.00	–
0000 A	2892	Vaiyakaranasiddhanatakaummudi		भारतीय विध्या प्रकाशन	1500.00	–
0000 A	2893	The Vikramorvashiyam of Kalidasa	M.R. Kale	भारतीय विध्या प्रकाशन	90.00	–
0000 A	2894	Yogasutra of Patanjali	Balantyne & Shastri	भारतीय विध्या प्रकाशन	In Press	–
0000 A	2895	Yogasarasamgraha of Vijnabhikshu	Goswami Prahlad Giri	भारतीय विध्या प्रकाशन	200.00	–
0000 A	2896	Agriculture, Irrigation and Horticulture in Ancient Sri Lanka	D.D. Dixit	भारतीय विध्या प्रकाशन	110.00	–
0000 A	2897	Evolution of Smriti Law	S. Singh	भारतीय विध्या प्रकाशन	150.00	–
0000 A	2898	Epochs in Buddhist History	J. Saunders	भारतीय विध्या प्रकाशन	300.00	–

0000 A	2899	History of Indian Literature (Buddhism)	Dr. B. Jha	भारतीय विध्या प्रकाशन	150.00	–
0000 A	2900	Janapada State in Ancient India	S. Mishra	भारतीय विध्या प्रकाशन	150.00	–
0000 A	2901	Politics and Ethics in Ancient India	M. Jauhari	भारतीय विध्या प्रकाशन	100.00	–
0000 A	2902	Religion and Society in Ancient India	Om Prakash	भारतीय विध्या प्रकाशन	200.00	–
0000 A	2903	Dhaturatnakara	Muni Lavanaya Vijaysuri	भारतीय विध्या प्रकाशन	5000.00	–
0000 A	2904	Dictionary of World Chronology	Dr. R. Singh	भारतीय विध्या प्रकाशन	300.00	–
0000 A	2905	Kosha or Dictionary of the Sanskrit Language	C. Colbrook	भारतीय विध्या प्रकाशन	300.00	–
0000 A	2906	Non-Violence Environment and World Peace	H.H. Acharya, Sushil Kumar Ji Maharaj & Dr. N.P. Jain	भारतीय विध्या प्रकाशन	200.00	–
0000 A	2907	The Student English-Sanskrit Dictionary		भारतीय विध्या प्रकाशन	200.00	–
0000 A	2908	Sanskrit-English Dictionary	Monier William	भारतीय विध्या प्रकाशन	870.00	–
0000 A	2909	अभिधान राजेन्द्रकोष – 7 भागों में संपूर्ण		भारतीय विध्या प्रकाशन	20000.00	–
0000 A	2910	अमरकोष	रामाश्रमी	भारतीय विध्या प्रकाशन	300.00	–
0000 A	2911	उपसर्गार्थचन्द्रिका (5 भागों में)	चारुदेव शास्त्री	भारतीय विध्या प्रकाशन	500.00 Set	–
0000 A	2912	प्राकृतसूक्ति–कोश	मुनिचन्द्रप्रभसागर	भारतीय विध्या प्रकाशन	250.00	–
0000 A	2913	वैदिक कोश		भारतीय विध्या प्रकाशन	500.00	–
0000 A	2914	वाचस्पत्यम्: 6 भागों में संपूर्ण		भारतीय विध्या प्रकाशन	7500.00	–
0000 A	2915	शब्दकल्पद्रुम : 5 भागों में संपूर्ण		भारतीय विध्या प्रकाशन	7500.00	–
0000 A	2916	शब्दार्थचिन्तामणि : 1 से 4 भाग		भारतीय विध्या प्रकाशन	720.00	–
0000A	2917	शब्दकौस्तुभ : 1 से 3 भाग		भारतीय विध्या प्रकाशन	600.00	–
0000 A	2918	संस्कृत हिन्दी कोश	वामन शिवराम आप्टे	भारतीय विध्या प्रकाशन	350.00	–
0000 A	2919	अपभ्रंश का जैन साहित्य और जीवन मूल्य	साध्वी साधना	भारतीय विध्या प्रकाशन	250.00	–
0000 A	2920	अपभ्रंश काव्य णेमिणहिचरिऊ	डॉ० श्रीमती सरोज जैन	भारतीय विध्या प्रकाशन	1200.00	–
0000 A	2921	अष्टाड्.गहृदयम्		भारतीय विध्या प्रकाशन	600.00	–
0000 A	2922	अक्षर अभिज्ञान	डॉ० करुणा लाल	भारतीय विध्या प्रकाशन	600.00	–
0000 A	2923	अनुमान प्रमाण	डॉ० प्रद्युम्न शाह	भारतीय विध्या प्रकाशन	450.00	–
0000 A	2924	अग्निपुराणविषयानुक्रमणी	डॉ० रामशंकर भट्टाचार्य	भारतीय विध्या प्रकाशन	25.00	–
0000 A	2925	आधुनिक यूरोप	किशोरी रमण प्रसाद	भारतीय विध्या प्रकाशन	50.00	–
0000 A	2926	आधुनिक हिन्दी कविता	आत्मनिर्वासन और अकेलेपन का संदर्भ – डॉ० सुवास कुमार	भारतीय विध्या प्रकाशन	200.00	–

0000 A	2927	ईश्वरपर्यालोचनम्	डॉ० सच्चिदानन्द मिश्र	भारतीय विध्या प्रकाशन	400.00	–
0000 A	2928	उपासकदशांग	डॉ० स्मृति	भारतीय विध्या प्रकाशन	550.00	–
0000 A	2929	उपनिषद् योग तत्व दर्शन	डॉ० विनय कुमार शर्मा	भारतीय विध्या प्रकाशन	350.00	–
0000 A	2930	उपसर्गार्थचन्द्रिका (5 भागों में)	पं० चारुदेव शास्त्री	भारतीय विध्या प्रकाशन	500.00	–
0000 A	2931	उपनिषदों का तत्वाज्ञान	डॉ० जयदेव वेदालंकार	भारतीय विध्या प्रकाशन	350.00	–
0000 A	2932	उत्तर वैदिक समाज एवं संस्कृति	डा० विजय बहादुर राव	भारतीय विध्या प्रकाशन	In Press	–
0000 A	2933	श्रीकूर्म–महापुराणम्		भारतीय विध्या प्रकाशन	400.00	–
0000 A	2934	कुन्दकुन्दाचार्य की प्रमुख कृतियों में दार्शनिक दृष्टि	डॉ० सुषमा गांग	भारतीय विध्या प्रकाशन	100.00	–
0000 A	2935	काव्यतत्त्वविवेक	डॉ० रमाशंकर तिवारी	भारतीय विध्या प्रकाशन	250.00	–
0000 A	2936	कातंत्रव्याकरणम् (श्रीशर्ववर्मदेकृतं)	डॉ० आर.एस. सैनी	भारतीय विध्या प्रकाशन	150.00	–
0000 A	2937	करुणाकटाक्षलहरी	डॉ० रसिक बिहारी जोशी	भारतीय विध्या प्रकाशन	50.00	–
0000 A	2938	काव्यसमीक्षा	डॉ० विक्रमादित्य राय	भारतीय विध्या प्रकाशन	40.00	–
0000 A	2939	क्रियात्मक जीवाणु विज्ञान	अत्रिदेव वेदालंकार	भारतीय विध्या प्रकाशन	25.00	–
0000 A	2940	काशीकेदारमाहात्म्यम्	पं० श्री विजयानन्द त्रिपाठी	भारतीय विध्या प्रकाशन	500.00	–
0000 A	2941	श्रीमज्जीवानन्दविद्यासागरभट्टाचार्येण टीकित		भारतीय विध्या प्रकाशन	125.00	–
0000 A	2942	कौटिलीय अर्थशास्त्रम्	म.म.टी. गणपति शास्त्री, डॉ० एन.पी.उन्नी	भारतीय विध्या प्रकाशन	1000.00	–
0000 A	2943	गुरुदक्षिणानाटकम्	डॉ० गौरीनाथ मिश्र भाष्कर	भारतीय विध्या प्रकाशन	60.00	–
0000 A	2944	श्रीगुरुचरित्र		भारतीय विध्या प्रकाशन	100.00	–
0000 A	2945	चरकसंहिता – संस्कृत व्याख्या से		भारतीय विध्या प्रकाशन	2500.00	–
0000A	2946	छान्दोग्योपनिषद् – एक अध्ययन	डॉ० मनुदेव बंधु	भारतीय विध्या प्रकाशन	300.00	–
0000 A	2947	जीवन्मुक्तिविवेक (श्रीमद्विद्यारण्यमुनि विरचितः)	डॉ० सच्चिदानन्द मिश्र	भारतीय विध्या प्रकाशन	1000.00	–
0000 A	2948	जैनदर्शन के परिप्रेक्ष्य में आदिपुराणएक समीक्षात्मक अध्ययन	मंजु बाला	भारतीय विध्या प्रकाशन	550.00	–
0000 A	2949	जैन धर्म की सांस्कृतिक विरासत	प्रो० प्रेम सुमन जैन	भारतीय विध्या प्रकाशन	500.00	–
0000 A	2950	जैन धर्म की श्रमणियों का बृहद् इतिहास – दो भाग में	साध्वी विजयश्री 'आर्या'	भारतीय विध्या प्रकाशन	2000.00	–
0000 A	2951	जैनदर्शन – सम्यक् ज्ञान दर्शन चारित्र के परिप्रेक्ष्य में	डॉ० साध्वी सुभाष	भारतीय विध्या प्रकाशन	500.00	–
0000 A	2952	जैनेन्द्र का जीवनदर्शन	डॉ० शिवचरण विद्यालंकार	भारतीय विध्या प्रकाशन	250.00	–
0000 A	2953	जैनसिद्धांतकौमुदी – अर्धमगधी व्याकरण	रत्नचन्द्र जी महाराज	भारतीय विध्या प्रकाशन	300.00	–
0000 A	2954	तेत्त्वार्थदीपनिबंध – बल्लभाचार्यविरचित	सं० केदारनाथ मिश्र	भारतीय विध्या प्रकाशन	200.00	–
0000 A	2955	तिलकमंजरी – एक समीक्षात्मक अध्ययन	डॉ० हरिनारायण दीक्षित	भारतीय विध्या प्रकाशन	200.00	–

0000 A	2956	सांख्यतत्व कौमुदी	गंगानाथ झा	भारतीय विध्या प्रकाशन	300.00	–
0000 A	2957	तर्कसंग्रह – श्रीमन्दन्नम्भकृतः	के.पी. पर्व	भारतीय विध्या प्रकाशन	50.00	–
0000 A	2958	तत्वसमासूत्रम् (भावगणेशकृतः) तत्वया–र्थार्थ्यदीप्नटीका	डॉ० रामशंकर भट्टाचार्य	भारतीय विध्या प्रकाशन	10.00	–
0000 A	2959	दर्घटवृत्ति (शरणदेवविरचित)	टी. गणपति शास्त्री	भारतीय विध्या प्रकाशन	150.00	–
0000 A	2960	दायभागः पं. श्री कृष्णतकांलड्ार महाचार्यकृता दायभागप्रबोधिनी	श्री श्याम बापट	भारतीय विध्या प्रकाशन	300.00	–
0000 A	2961	धर्मसूत्रों का महत्व – वर्तमान परिप्रेक्ष्य में	नयनतारा बंसल	भारतीय विध्या प्रकाशन	250.00	–
0000 A	2962	धम्मपद पालि	डॉ० ओ.पी. पाठक	भारतीय विध्या प्रकाशन	150.00	–
0000 A	2963	निशीथसूत्रम् – श्री विसहागनी महात्तर – चार भाग में	सं. उपाध्याय कवि श्री अमरमुनि जी महाराज एवं मुनि कन्हैयालाल जी 'कमल'	भारतीय विध्या प्रकाशन	1200.00	–
0000 A	2964	श्री नारदीय महापुराणम्		भारतीय विध्या प्रकाशन	600.00	–
0000 A	2965	न्यायदर्शन में अनुमान	सच्चिदानन्द मिश्र	भारतीय विध्या प्रकाशन	350.00	–
0000 A	2966	न्यायवार्तिकस्य भूमिकायाम	पं. विन्ध्येश्वरी प्रसाद द्विवेदी	भारतीय विध्या प्रकाशन	200.00	–
0000 A	2967	न्यायकुसुमांजली (उदयनाचार्यकृता)	डॉ० श्रीनारायण मिश्र	भारतीय विध्या प्रकाशन	150.00	–
0000 A	2968	न्यायदर्शनम् (भरतमुनिकृतं) (निर्णयसागर संस्करण)		भारतीय विध्या प्रकाशन	150.00	–
0000 A	2969	प्राचीन भारतीय भाषा और धर्म	उमेश चन्द्र	भारतीय विध्या प्रकाशन	40.00	–
0000 A	2970	प्राचीन नेपाल का राजनैतिक एवं सांस्कृतिक	श्रीराम गोयल	भारतीय विध्या प्रकाशन	40.00	–
0000 A	2971	प्राचीन कृष्ण साहित्य में शारीरिक शिक्षादर्शन	डॉ० रामकुमार हीरालाल तिवारी	भारतीय विध्या प्रकाशन	300.00	–
0000 A	2972	प्राकृतसूक्ति–कोश	मुनिचन्द्रप्रभसागर	भारतीय विध्या प्रकाशन	250.00	–
0000 A	2973	प्राचीन भारत में संगीत	धर्मावती श्रीवास्तव	भारतीय विध्या प्रकाशन	400.00	–
0000 A	2974	प्रत्यक्तत्वचिन्तामणि	श्री कृष्ण पन्त शास्त्रिणः	भारतीय विध्या प्रकाशन	1000.00	–
0000A	2975	पंचदशी – श्रीमद्रामकृष्णविरचिता	पं. वासुदेवशर्मणा संशोधिता	भारतीय विध्या प्रकाशन	50.00	–
0000 A	2976	पातंजलयोगदर्शनम् – महर्षिपतंजलिमुनिकृतं	डॉ० श्रीनारायण मिश्र	भारतीय विध्या प्रकाशन	150.00	–
0000 A	2977	पातंजलयोगसूत्रम् – भोजदूवकृतं	डॉ० रामशंकर भट्टाचार्य एवं डॉ० अमलधारी सिंह	भारतीय विध्या प्रकाशन	150.00	–
0000 A	2978	प्रममुख भारतीयदर्शन सम्प्रयायेषु गुणपर्या लोचनम्ः	डॉ० सुधांशु कुमार षढड़ीं	भारतीय विध्या प्रकाशन	595.00	–
0000 A	2979	ब्रह्ममहापुराणम्		भारतीय विध्या प्रकाशन	650.00	–
0000 A	2980	ब्राह्मण और बौद्ध विचारधारा का तुलनात्मक अध्ययन	जगदीशदत्त दीक्षित	भारतीय विध्या प्रकाशन	150.00	–
0000 A	2981	ब्राह्मण तथा श्रमण संस्कृति का दार्शनिक विवेचन	जगदीशदत्त दीक्षित	भारतीय विध्या प्रकाशन	150.00	–
0000 A	2982	बौद्ध सिद्धों के चर्यापद	परशुराम चतुर्वेदी	भारतीय विध्या प्रकाशन	50.00	–
0000 A	2983	बृहत्त्रयी और लघुत्रयी पर वैदिक प्रभाव	डॉ० सुषमा स्नातिका	भारतीय विध्या प्रकाशन	150.00	–

0000 A	2984	बंग्लादेशोदयम्	रामकृष्ण शर्मा	भारतीय विध्या प्रकाशन	30.00	–
0000 A	2985	व्रजयुवविलास महाकाव्य – दो भाग में	पतित पावन बनर्जी	भारतीय विध्या प्रकाशन	750.00	–
0000 A	2986	ब्रह्मसूत्रम् (श्रीवेदव्यासकृतं) शांकरभाष्य, रत्नप्रभाभाषानुवादसहितम् (1–5 भाग)	प्रो. राममूर्ति शर्मा	भारतीय विध्या प्रकाशन	2500.00	–
0000 A	2987	ब्रह्मसूत्रम् चतुःसूत्रीभागः – श्रीवेदव्यासकृतं	सुदर्शनव्यासभट्टकृत	भारतीय विध्या प्रकाशन	150.00	–
0000 A	2988	भर्तृहरि का वाक्यपदीय	कान्ता भाटिया	भारतीय विध्या प्रकाशन	250.00	–
0000 A	2989	भारतीय संत एवं धर्माचार्य	श्री बनारसीदास भोजपुरी	भारतीय विध्या प्रकाशन	100.00	–
0000 A	2990	भारतीय धर्मशास्त्रविहितस्य	डॉ० सदाशिव प्रहराज	भारतीय विध्या प्रकाशन	400.00	–
0000 A	2991	भारतीयदर्शनपरम्परायां जैनदर्शनाभिमत देवतत्त्वम्	डॉ० दामोदर शास्त्री	भारतीय विध्या प्रकाशन	150.00	–
0000 A	2992	भक्तिरसविमर्श	कपिलदेव ब्रह्मचारी	भारतीय विध्या प्रकाशन	200.00	–
0000 A	2993	भारतीय अभिलेख	एस. एस. राणा	भारतीय विध्या प्रकाशन	In Press	–
0000 A	2994	भारतीय दर्शन में प्रमाण – एक समालोचनात्मक अध्ययन	डॉ० जयदेव वेदालंकार	भारतीय विध्या प्रकाशन	250.00	–
0000 A	2995	भारतीयदर्शनेषु जीवस्वरूपम्	प्रो. उमेशचन्द्र पाण्डेय	भारतीय विध्या प्रकाशन	150.00	–
0000 A	2996	भारतीय इतिहास और संस्कृति	विशुद्धानन्द पाठक व डॉ० जयशंकर मिश्र	भारतीय विध्या प्रकाशन	In Press	–
0000 A	2997	भारतीय संस्कृति का विकास – औपनिषद धारा	डॉ० मंगलदेव शास्त्री	भारतीय विध्या प्रकाशन	In Press	–
0000 A	2998	मीमांसादर्शनविमर्श	डॉ० माधव जनार्दन स्टाटे	भारतीय विध्या प्रकाशन	250.00	–
0000 A	2999	मीमांसा दर्शन विमर्श	डॉ० वाचस्पति उपाध्याय	भारतीय विध्या प्रकाशन	200.00	–
0000 A	3000	मीमांसा दर्शन (तर्क अध्ययन)	डॉ० विरेन्द्र कुमार अलंकार	भारतीय विध्या प्रकाशन	500.00	–
0000 A	3001	श्रीमद्देवीभागवत – नीलकंठी संस्कृत टीकोपेत (पत्रात्मक)		भारतीय विध्या प्रकाशन	800.00	–
0000 A	3002	मनुस्मृति – संस्कृत, हिन्दी		भारतीय विध्या प्रकाशन	In Press	–
0000 A	3003	श्री मार्कण्डेय महापुराणम्		भारतीय विध्या प्रकाशन	500.00	–
0000A	3004	मंगल्या	डॉ० अमरनाथ पाण्डेय	भारतीय विध्या प्रकाशन	50.00	–
0000 A	3005	मेघसन्देश (कालिकादासकृत)	डॉ० एन.पी. उन्नी	भारतीय विध्या प्रकाशन	300.00	–
0000 A	3006	योगरहस्य अथवा पातंजलयोगदर्शन	अनु. डॉ० कौशलपति त्रिपाठी	भारतीय विध्या प्रकाशन	50.00	–
0000 A	3007	योगतारावली – शंकराचार्यकृता	अनु. सं. डॉ० रामशंकर भट्टाचार्य	भारतीय विध्या प्रकाशन	20.00	–
0000 A	3008	योगसारसंग्रह – विज्ञानभिक्षु	डॉ० रामशंकर भट्टाचार्य एवं प्रहलाद गिरि	भारतीय विध्या प्रकाशन	200.00	–
0000 A	3009	योगसार संग्रह – श्री विज्ञान मिश्रुकृत (सजिल्द)	डॉ० सुंधाशु कुमार षढडी	भारतीय विध्या प्रकाशन	250.00	–
0000 A	3010	ध्वनिपूर्व अलंकारशास्त्रीय सिद्धांत और ध्वनि	डॉ० विभारानी दुबे	भारतीय विध्या प्रकाशन	350.00	–
0000 A	3011	रामायण के आनुषंगिक संदर्भ	राधिका प्रसाद मिश्र	भारतीय विध्या प्रकाशन	300.00	–

0000 A	3012	राघवयादवीयमहाकाव्यम्	हरेकृष्ण सतपथि	भारतीय विध्या प्रकाशन	250.00	–
0000 A	3013	रघुवंश एवं जानकीहरण का तुलनात्मक अध्ययन	अवधेश कुमार मिश्र	भारतीय विध्या प्रकाशन	300.00	–
0000 A	3014	रामायणकालीन समाज एवं संस्कृति	जगदीशचन्द्र भट्ट	भारतीय विध्या प्रकाशन	In Press	–
0000 A	3015	ऋग्वेदीय आप्रीयसूक्त	शशि तिवारी	भारतीय विध्या प्रकाशन	75.00	–
0000 A	3016	श्री वामन महापुराणम्		भारतीय विध्या प्रकाशन	400.00	–
0000 A	3017	श्री वायु महापुराणम्		भारतीय विध्या प्रकाशन	500.00	–
0000 A	3018	विद्यानपारिजात – से भाग		भारतीय विध्या प्रकाशन	1000.00	–
0000 A	3019	वेद में इन्द्र	जयदेव उप्रेती	भारतीय विध्या प्रकाशन	150.00	–
0000 A	3020	वाल्मीकि रामायण – सुंदरकाण्ड, सर्गात्मक	जियालाल कम्बोज	भारतीय विध्या प्रकाशन	50.00	–
0000 A	3021	वाल्मीकि रामायण में रसविमर्श	महावीर अग्रवाल	भारतीय विध्या प्रकाशन	250.00	–
0000 A	3022	वैदिक देवता – उद्‌भव ओर विकास – दो भाग में	गयाचरण त्रिपाठी	भारतीय विध्या प्रकाशन	200.00	–
0000 A	3023	वेदांतकल्पतरुपरिमल – अप्पयदीक्षितकृत – तीन भाग में	रामशास्त्री तेलंग	भारतीय विध्या प्रकाशन	600.00	–
0000 A	3024	विश्व सभ्यताओं का इतिहास	रायगोविन्द चन्द्र	भारतीय विध्या प्रकाशन	75.00	–
0000 A	3025	वाराणसी – एक परंपरागत नगर	रामवचन सिंह	भारतीय विध्या प्रकाशन	50.00	–
0000 A	3026	विक्रमोर्वशीयम् – कालिदासकृतं	एम. आर. काले	भारतीय विध्या प्रकाशन	90.00	–
0000 A	3027	विवरणप्रमेयसंग्रह – श्रीविद्यारण्यमुनिकृतः	श्रीललिताप्रसाद	भारतीय विध्या प्रकाशन	500.00	–
0000 A	3028	वीर शैव धर्म के मूलतत्व	अनु. शिवराज एच	भारतीय विध्या प्रकाशन	40.00	–
0000 A	3029	वैदिक दर्शन	डॉ० जयदेव वेदालंकार	भारतीय विध्या प्रकाशन	300.00	–
0000 A	3030	वैष्णव शैव तथा अन्य धार्मिक मत	अनु. डॉ० महेश्वरी प्रसाद	भारतीय विध्या प्रकाशन	100.00	–
0000 A	3031	शौरसेनी प्राकृतभाषा और व्याकरण	प्रेम सुमन जैन	भारतीय विध्या प्रकाशन	125.00	–
0000 A	3032	शाब्दिकनये कालस्वरूपपर्यालोचनम्	नर्मदेश्वर तिवारी	भारतीय विध्या प्रकाशन	300.00	–
0000A	3033	शंकराचार्य एवं सांख्य के दर्शन में मानव–नियति	आनन्द मिश्र	भारतीय विध्या प्रकाशन	350.00	–
0000 A	3034	श्रीशंकरात्प्रागद्वैतवाद	डॉ० मुरलीधर पाण्डेय	भारतीय विध्या प्रकाशन	In Press	–
0000 A	3035	शिशुपालवधम् – माघकृतं	सं. रामचन्द्र काक एवं हाराभट्ट शास्त्री	भारतीय विध्या प्रकाशन	300.00	–
0000 A	3036	शतभूषणी	मं. अनन्तकृष्णशास्त्रीकृता	भारतीय विध्या प्रकाशन	600.00	–
0000 A	3037	शतपथब्राह्मणम् – माध्यन्दिनशाखीयं – दो भाग	डॉ० बी.बी. चौबे	भारतीय विध्या प्रकाशन	1000.00	–
0000 A	3038	षड्दर्शन समुच्चय – राजेशखरसूरि विरचित	डॉ० सुषमा सिंघवी एवं डॉ० धर्मचन्द जैन	भारतीय विध्या प्रकाशन	In Press	–
0000 A	3039	सुत्तनिपातपालि	ओ. पी. पाठक	भारतीय विध्या प्रकाशन	300.00	–

0000 A	3040	स्त्रीणां दायाधिकारविषये प्राचीना र्वाचीन व्यवस्थ योस्तुलनात्मकमध्ययनम्	ललित कुमार साहू	भारतीय विध्या प्रकाशन	300.00	–
0000 A	3041	सर्वानुक्रमणी–वेदार्थदीपिकाश्च	अनु. राजेन्द्र नाणावटी	भारतीय विध्या प्रकाशन	400.00	–
0000 A	3042	सुपद्मव्याकरणम् – पद्मनामत्तप्रणीतम्	आर. एस. सैनी	भारतीय विध्या प्रकाशन	400.00	–
0000 A	3043	संक्षिप्तसारव्याकरणम् – पं० कर्मदीश्वरकृतं, तीन भागों में, प्रथम भाग	रणजीत सिंह सैनी	भारतीय विध्या प्रकाशन	500.00	–
0000 A	3044	संक्षिप्तसारव्याकरणम् – पं० कर्मदीश्वरकृतं, तीन भागों में, द्वितीय भाग	रणजीत सिंह सैनी	भारतीय विध्या प्रकाशन	500.00	–
0000 A	3045	संक्षिप्तसारव्याकरणम् – पं० कर्मदीश्वरकृतं, तीन भागों में, तृतीय भाग	रणजीत सिंह सैनी	भारतीय विध्या प्रकाशन	500.00	–
0000 A	3046	सृष्टि का इतिहास	राम दयाल	भारतीय विध्या प्रकाशन	In Press	–
0000 A	3047	सांख्यप्रवचनभाष्यभूमिका – विज्ञानभिक्षु	एफ. ई. हॉल	भारतीय विध्या प्रकाशन	60.00	–
0000A	3048	स्याद्वादरत्नाकर – श्रीमदवादिदेवसूरिकृत – दो भागों में		भारतीय विध्या प्रकाशन	1000.00	–
0000 A	3049	संस्कृत काव्यशास्त्र में भारतीय दर्शन का प्रभाव	अमरजीत कौर	भारतीय विध्या प्रकाशन	100.00	–
0000 A	3050	साहित्य और संस्कृति	आचार्य देवेन्द्रमुनि	भारतीय विध्या प्रकाशन	40.00	–
0000 A	3051	सिद्धांतबिन्दु – एक समालोचनात्मक अध्ययन	बाबूलाल शर्मा	भारतीय विध्या प्रकाशन	225.00	–
0000 A	3052	श्रीसूर्यशार्दूलविक्रीडितकाव्यम्	गौरीनाथ मिश्र	भारतीय विध्या प्रकाशन	50.00	–
0000 A	3053	सत्यार्थ यज्ञ	श्रीमान् कविरत्न मनरंगलालकृत	भारतीय विध्या प्रकाशन	300.00	–
0000 A	3054	समुद्रसंगम – दाराशिकोहविरचित	बाबूलाल शुक्ला	भारतीय विध्या प्रकाशन	125.00	–
0000 A	3055	सौन्दर्यवल्ली	अमरनाथ पाण्डेय	भारतीय विध्या प्रकाशन	60.00	–
0000 A	3056	सूत्रकृतांगसूत्रम्	श्री अमोलक ऋषि जी महाराज	भारतीय विध्या प्रकाशन	300.00	–
0000 A	3057	संवित्प्रकाशवाद	आनन्द मिश्र	भारतीय विध्या प्रकाशन	300.00	–
0000 A	3058	सर्वदर्शनसंग्रह – श्रीमन्माध्वाचार्यप्रणीतः	मधुसूदन सरस्वतीकृतः	भारतीय विध्या प्रकाशन	300.00	–
0000 A	3059	सिद्धांतबिन्दु – मधुसूदन सरस्वतीकृत	सं. सम जी ठाकरे	भारतीय विध्या प्रकाशन	100.00	–
0000 A	3060	सेतुबंधम – श्री प्रवसेनकृत	श्री रामदास भूपतिटीका	भारतीय विध्या प्रकाशन	300.00	–
0000 A	3061	सिद्धांतलेशसंग्रह – श्रीमदप्पचदीक्षितविरतचित	पं० मूलशंकर	भारतीय विध्या प्रकाशन	500.00	–
0000 A	3062	साहित्य दर्पणम्	श्री विश्वनाथकृत	भारतीय विध्या प्रकाशन	125.00	–
0000 A	3063	हिन्दू धर्म	मानसिंह	भारतीय विध्या प्रकाशन	150.00	–
0000 A	3064	हितोपदेश – संपूर्ण	पीटर पिटरसन	भारतीय विध्या प्रकाशन	200.00	–
0000 A	3065	ऐतरेय ब्राह्मणम्	सदगुरु शिष्या	भारतीय विध्या प्रकाशन	600.00	–
0000 A	3066	Aryamanjushrimulakalpam	Ganapati Sastri	भारतीय विध्या प्रकाशन	300.00	–

0000 A	3067	भर्तृहरि शतकत्रयम्	पी. गोपीनाथ	भारतीय विध्या प्रकाशन	250.00	–
0000 A	3068	बालरामभारतम्	श्री संभाशिव शास्त्री	भारतीय विध्या प्रकाशन	250.00	–
0000 A	3069	ईशाद्यष्टोत्तरशतोपनिषद्	लक्ष्मण पानाशिकर	भारतीय विध्या प्रकाशन	200.00	–
0000 A	3070	जैमिनी	जीवानन्द विद्या सागर	भारतीय विध्या प्रकाशन	350.00	–
0000 A	3071	मीमांसा श्लोकवार्तिकम्	के. सांभासिना	भारतीय विध्या प्रकाशन	200.00	–
0000 A	3072	नानार्थर्वण संक्षेप	टी. गणपति शास्त्री	भारतीय विध्या प्रकाशन	200.00	–
0000 A	3073	Notices of Sanskrit Manuscripts	Raja Rajendra Lal Mitra	भारतीय विध्या प्रकाशन	900.00	–
0000 A	3074	Rasakamedhenu	Vaidya Srihudamani Yadav Trivikramaji Acharya	भारतीय विध्या प्रकाशन	300.00	–
0000 A	3075	Rigveda Samhita	Pandit Shankar Dutt Shastri	भारतीय विध्या प्रकाशन	3000.00	–
0000 A	3076	Srimad Alankara Kaustubha	M. Kavikarnapura Goswami Haridas Sastri	भारतीय विध्या प्रकाशन	300.00	–
0000A	3077	Sidhantalesa Sangraha	Krishana Nand Teerth	भारतीय विध्या प्रकाशन	400.00	–
0000 A	3078	Srimadbhagvadgita	Vasudeva	भारतीय विध्या प्रकाशन	300.00	–
0000 A	3079	Satpataha Brahmanam	Sarva Vidyanidhanha Kavindracharya Saraswati	भारतीय विध्या प्रकाशन	2500.00	–
0000 A	3080	Sahthtrimsat-Tattva-Sandoha	Vritti Madhusudan Kaul	भारतीय विध्या प्रकाशन	100.00	–
0000 A	3081	Srimad Valmikiya Ramayana	Govindarajiyam, Ramanuja, Tanishloki & Mahesvara Tirtha	भारतीय विध्या प्रकाशन	3000.00	–
0000 A	3082	Srimad-Valmikiya Ramayanam	Katti Shrinivas Shastri	भारतीय विध्या प्रकाशन	2500.00	–
0000 A	3083	Tandya-Maha Brahmanam	Anandacandra Vedanta Vagisa	भारतीय विध्या प्रकाशन	1000.00	–
0000 A	3084	Tattvacintamani	Sri Gangeshopadhyaya Mathuri Rahasya of Mathuranath	भारतीय विध्या प्रकाशन	4000.00	–
0000 A	3085	Upanisadvakyamahakosa - In Two Parts		भारतीय विध्या प्रकाशन	500.00	–
0000 A	3086	Vivadaratnakara	M.M. Krishna Smritirtha	भारतीय विध्या प्रकाशन	350.00	–
0000 A	3087	Vishnu Samhita	M. Ganapati Sastri	भारतीय विध्या प्रकाशन	250.00	–
0000 A	3088	Vyakarana Mahabhashya	Pt. Guru Prasad Shastri	भारतीय विध्या प्रकाशन	3500.00	–
0000 A	3089	अन्तर्यात्रा		भारतीय विध्या प्रकाशन	125.00	–
0000 A	3090	आत्मनिर्भर		भारतीय विध्या प्रकाशन	125.00	–
0000 A	3091	श्रीकृष्णप्रसंग–तृतीय संस्करण		भारतीय विध्या प्रकाशन	50.00	–
0000 A	3092	गुरुदर्शन से सम्बोधि		भारतीय विध्या प्रकाशन	125.00	–
0000 A	3093	विजिज्ञासा द्वितीय संस्करण		भारतीय विध्या प्रकाशन	30.00	–
0000 A	3094	शांभवी तंत्र	अनु. एस. एन. खण्डेलवाल	भारतीय विध्या प्रकाशन	In Press	–

0000 A	3095	साधुदर्शन तथा सत्प्रंसग–प्रथम भाग		भारतीय विध्या प्रकाशन	25.00	–
0000 A	3096	सिद्धभूमि ज्ञानगंज – सूर्यविज्ञान		भारतीय विध्या प्रकाशन	70.00	–
0000 A	3097	अद्वैतवाद का संक्षिप्त इतिहास	गोपीनाथ कविराज	भारतीय विध्या प्रकाशन	125.00	–
0000 A	3098	आर्यशास्त्र प्रदीप	स्वामी शिवराम किंकर	भारतीय विध्या प्रकाशन	200.00	–
0000 A	3099	सरस्वतीतन्त्रम्	अनु. एस. एन. खण्डेलवाल	भारतीय विध्या प्रकाशन	30.00	–
0000 A	3100	जपसूत्रम् 1 – 6 भागों में (सजिल्द)	अनु. एस. एन. खण्डेलवाल	भारतीय विध्या प्रकाशन	1350.00	–
0000 A	3101	निरुत्ततंत्र		भारतीय विध्या प्रकाशन	50.00	–
0000 A	3102	पवन वियस्वरोदय	एस. एन. खण्डेलवाल	भारतीय विध्या प्रकाशन	40.00	–
0000 A	3103	आथर्वण–ज्यौतिषम् 'देवदत्त प्रभा'	डॉ० प्रयागनारायण मिश्र	भारतीय विध्या प्रकाशन	50.00	–
0000 A	3104	ईशानशिवगुरुदेवपद्धति	डॉ० एन.पी. उन्नी	भारतीय विध्या प्रकाशन	1000.00	–
0000 A	3105	ज्योतिष चन्दिका	कान्ता भाटिया	भारतीय विध्या प्रकाशन	60.00	–
0000A	3106	उड्डामरेश्वरतंत्रम्	उधव प्रसाद उत्तम एवं डॉ० नर्वदेश्वर तिवारी	भारतीय विध्या प्रकाशन	200.00	–
0000 A	3107	केतकीयग्रहगणितम् (श्रीमदवेंकटेशविरचितम्)		भारतीय विध्या प्रकाशन	150.00	–
0000 A	3108	कामख्यातंत्र	डॉ० विश्वनारायण शास्त्री	भारतीय विध्या प्रकाशन	75.00	–
0000 A	3109	कौलावलीनिर्णय	ए० ऐवालान	भारतीय विध्या प्रकाशन	100.00	–
0000 A	3110	कुलपुजनचन्द्रिका	डॉ० बाबूलाल शुक्ला	भारतीय विध्या प्रकाशन	40.00	–
0000 A	3111	ज्योतिष बोध एवं भारतीय कुण्डली विज्ञानम्	पं० श्री कमलाकान्त ठाकुर	भारतीय विध्या प्रकाशन	125.00	–
0000 A	3112	समलड्कृत	श्री गणेशदत्त पाठक	भारतीय विध्या प्रकाशन	30.00	–
0000 A	3113	ताजिकनीलकण्ठी	डॉ० शिवप्रसाद शर्मा, श्री निवास शर्मा	भारतीय विध्या प्रकाशन	200.00	–
0000 A	3114	ताराभक्तिसुधार्णव	सं. श्री पंचानन शास्त्री	भारतीय विध्या प्रकाशन	600.00	–
0000 A	3115	श्री दुर्गा के कीलन का उद्घाटन तथा श्री दुर्गामंत्र के खोलने की कुंजिका	पं. काशीपति त्रिपाठी	भारतीय विध्या प्रकाशन	10.00	–
0000 A	3116	फलितज्योतिषदर्पणम्	टीका–रामरंग शर्मा	भारतीय विध्या प्रकाशन	60.00	–
0000 A	3117	फलितसंग्रह – भाषानुवादसहित	मालती शर्मा	भारतीय विध्या प्रकाशन	40.00	–
0000 A	3118	बृहत्जातकम्	नर्वदेश्वरतिवारी	भारतीय विध्या प्रकाशन	200.00	–
0000 A	3119	बृहत्संहिता – वराहमिहिरविरचिता 'रश्मि' प्रभा	नर्वदेश्वरतिवारी	भारतीय विध्या प्रकाशन	250.00	–
0000 A	3120	बृहद्देवकहडाचक्रम्	पं. मदनगोपाल वाजपेयी	भारतीय विध्या प्रकाशन	25.00	–
0000 A	3121	उपपत्तीन्दुशेखर महामहोपाध्याय	श्री दुर्गाप्रसाद द्विवेदेन सं. श्री गिरिजा प्रसाद द्विवेदी	भारतीय विध्या प्रकाशन	675.00	–
0000 A	3122	बृहत् पराशरहोराशास्त्रम्	पं. गणेशदत्त पाठक	भारतीय विध्या प्रकाशन	250.00	–

0000 A	3123	श्री बृहत्कवचसंग्रह (52 कवच एक साथ)	आचार्य पं० शिवप्रसाद द्विवेदी	भारतीय विध्या प्रकाशन	60.00	–
0000 A	3124	ब्रह्मसंहिता और विष्णुसहस्त्रनाम	आर्थन ऐवालान	भारतीय विध्या प्रकाशन	125.00	–
0000 A	3125	भास्करीयबीजगणितम् – विलासिनामकेन (सजिल्द)	दुर्गाप्रसाद द्विवेदी	भारतीय विध्या प्रकाशन	250.00	–
0000 A	3126	श्रीमद्भागवद्गीता	श्री भोलेबाबा	भारतीय विध्या प्रकाशन	800.00	–
0000 A	3127	श्रीमद्देवीभागवत – नीलकंठी संस्कृत टीकोपेत		भारतीय विध्या प्रकाशन	800.00	–
0000 A	3128	मुहूर्तमुक्तावली	पं. रविदत्त विरचिता	भारतीय विध्या प्रकाशन	20.00	–
0000 A	3129	मानसागरी (सचित्र) 'जयंती'	विजयकांत मिश्र शास्त्री	भारतीय विध्या प्रकाशन	150.00	–
0000 A	3130	मुहूर्तचिन्तामणि	आचार्य श्री नीलकण्ठीसुतश्री गोविन्दकृत	भारतीय विध्या प्रकाशन	175.00	–
0000 A	3131	मेलापक–दीपिका	पं. श्री कमलाकान्त ठाकुर	भारतीय विध्या प्रकाशन	80.00	–
0000 A	3132	मुहूर्तगणपति	पं. रामस्वरूप	भारतीय विध्या प्रकाशन	200.00	–
0000 A	3133	योगिनीतंत्र – संपूर्ण	सं. डॉ० विश्वनाथ शास्त्री	भारतीय विध्या प्रकाशन	175.00	–
0000 A	3134	रमलसारप्रश्नावली	श्रीमती कुसुम दुबे	भारतीय विध्या प्रकाशन	20.00	–
0000A	3135	लघुपाराशरी	पं. मदनमोहन पाठक	भारतीय विध्या प्रकाशन	25.00	–
0000 A	3136	श्री विद्यासपर्यापद्धति	ब्रह्मश्रय शांगरराम शास्त्री	भारतीय विध्या प्रकाशन	75.00	–
0000 A	3137	श्रीशिवकवचम् भाषा	आचार्य रमाशंकर शास्त्री	भारतीय विध्या प्रकाशन	10.00	–
0000 A	3138	शुक्लयजुर्वेद–माध्यन्दिनीयसंहिता–शतरत्न –शतरत्न संग्रह	डॉ० ऐवालान	भारतीय विध्या प्रकाशन	25.00	–
0000 A	3139	सूर्यग्रहणगणितम्	श्री वेंकटेशविरचितं	भारतीय विध्या प्रकाशन	50.00	–
0000 A	3140	सिद्ध सम्प्रदायस्वरूप एवं साधना	डॉ० श्रीमती लक्ष्मी शुक्ला	भारतीय विध्या प्रकाशन	150.00	–
0000 A	3141	श्रीमद्देवीभागवत महापुराण	डॉ० किशोरदास स्वामी	स्वामी रामतीर्थ मिशन प्रकाशन	500.00	–
0000 A	3142	शास्त्रदीपिका	डॉ० किशोरदास स्वामी	स्वामी रामतीर्थ मिशन प्रकाशन	250.00	–
0000 A	3143	पञ्चपादिका	डॉ० किशोरदास स्वामी	स्वामी रामतीर्थ मिशन प्रकाशन	300.00	–
0000 A	3144	कबीर दर्शन	डॉ० किशोरदास स्वामी	स्वामी रामतीर्थ मिशन प्रकाशन	350.00	–
0000 A	3145	पञ्चपादिका विवरणम्	डॉ० किशोरदास स्वामी	स्वामी रामतीर्थ मिशन प्रकाशन	300.00	–
0000 A	3146	गीता में समर्पण	डॉ० किशोरदास स्वामी	स्वामी रामतीर्थ मिशन प्रकाशन	100.00	–
0000 A	3147	ध्यान निर्गुण और सगुण का	डॉ० किशोरदास स्वामी	स्वामी रामतीर्थ मिशन प्रकाशन	30.00	–
0000 A	3148	हरि ओ३म भजनावली	डॉ० किशोरदास स्वामी	स्वामी रामतीर्थ मिशन प्रकाशन	30.00	–
0000 A	3149	प्रातःकालीन प्रार्थना	डॉ० किशोरदास स्वामी	स्वामी रामतीर्थ मिशन प्रकाशन	20.00	–
0000 A	3150	विचार सागर	डॉ० किशोरदास स्वामी	स्वामी रामतीर्थ मिशन प्रकाशन	350.00	–

0000 A	3151	भारतीय दर्शन और मुक्ति मीमांसा	डॉ० किशोरदास स्वामी	स्वामी रामतीर्थ मिशन प्रकाशन	400.00	–
0000 A	3152	गीता में भक्तियोग	डॉ० किशोरदास स्वामी	स्वामी रामतीर्थ मिशन प्रकाशन	100.00	–
0000 A	3153	गीता का सार	डॉ० किशोरदास स्वामी	स्वामी रामतीर्थ मिशन प्रकाशन	100.00	–
0000 A	3154	उदासीन सम्प्रदाय का संविधान	डॉ० किशोरदास स्वामी	स्वामी रामतीर्थ मिशन प्रकाशन	200.00	–
0000 A	3155	जन्म और मृत्यु के पार	डॉ० किशोरदास स्वामी	स्वामी रामतीर्थ मिशन प्रकाशन	150.00	–
0000 A	3156	हसं गीता एवं ब्राह्मी उपनिषद्	डॉ० किशोरदास स्वामी	स्वामी रामतीर्थ मिशन प्रकाशन	100.00	–
0000 A	3157	गीता में स्थिलप्रज्ञ	डॉ० किशोरदास स्वामी	स्वामी रामतीर्थ मिशन प्रकाशन	80.00	–
0000 A	3158	गजेन्द्र मोक्ष	डॉ० किशोरदास स्वामी	स्वामी रामतीर्थ मिशन प्रकाशन	16.00	–
0000 A	3159	नारायण कवच	डॉ० किशोरदास स्वामी	स्वामी रामतीर्थ मिशन प्रकाशन	16.00	–
0000 A	3160	गोपियों के प्रेम गीत	डॉ० किशोरदास स्वामी	स्वामी रामतीर्थ मिशन प्रकाशन	50.00	–
0000 A	3161	श्रीरामकथा सुधा	डॉ० किशोरदास स्वामी	स्वामी रामतीर्थ मिशन प्रकाशन	150.00	–
0000 A	3162	Balanced-Mind in Gita	डॉ० किशोरदास स्वामी	स्वामी रामतीर्थ मिशन प्रकाशन	150.00	–
0000 A	3163	Beyond - Life & Death	डॉ० किशोरदास स्वामी	स्वामी रामतीर्थ मिशन प्रकाशन	150.00	–
0000A	3164	अमरकोष (श्रीकृष्ण संस्कृत–हिन्दी टीका)	डॉ० सत्यदेव मिश्र	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	700.00	–
0000 A	3165	अग्न्याधान एवम् अग्निहोत्र का विवेचन	डॉ० उमेश दास	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	300.00	–
0000 A	3166	अथर्ववेदीय माण्डूकी शिक्षा	डॉ० द्विजेन्द्रनाथ मिश्र	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	100.00	–
0000 A	3167	अभिज्ञानशाकुन्तलम्	विश्वनाथ शर्मा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	350.00	–
0000 A	3168	अभिनववेददीपिका	डॉ० रमाकान्त पाण्डेय	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	150.00	–
0000 A	3169	अभिनवकाव्यालड.कारसूत्रम्	डॉ० रमाकान्त पाण्डेय	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	500.00	–
0000 A	3170	अजन्तलिड.गत्रयस्य तत्त्वबोधिनी लघुशब्देन्दुशेखरयोः तुलनात्मकमध्ययनम्	डॉ० श्रीधर मिश्र	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	250.00	–
0000 A	3171	अनुभूति के स्वर	श्रीमती सरला पाण्डेय	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	300.00	–
0000 A	3172	आथर्वणपश्चोपनिषत्प्रकाशिका	नारायण होसमने	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	250.00	–
0000 A	3173	आचार्य गौडपाद (वेदान्त दर्शन के आदि पर्वतक)	डॉ० ज्योत्स्ना वशिष्ठ	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	350.00	–
0000 A	3174	आचार्य दण्डी की उपमा योजना	डॉ० निलिमा वर्मा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	300.00	–
0000 A	3175	आधुनिकसंस्कृतसाहित्येतिहासः	देवर्षि कलानाथ शास्त्री	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	250.00	–
0000 A	3176	आधुनिकसंस्कृतकाव्यशास्त्रसमीक्षणम्	डॉ० रमाकान्त पाण्डेय	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	350.00	–
0000 A	3177	ईशावास्योपनिषद् भाष्य संग्रह	डॉ० देवेन्द्रनाथ पाण्डेय	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	150.00	–
0000 A	3178	ईश्वरविलासमहाकाव्य	डॉ० रमाकान्त पाण्डेय	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	900.00	–

0000 A	3179	ईश्वरविलास में जयपुर वर्णन	डॉ० रमाकान्त पाण्डेय	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	400.00	–
0000 A	3180	उपनिषदों के संवाद का तत्वानुशीलन	डॉ० रामप्रकाश शर्मा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	350.00	–
0000 A	3181	उपभोक्ताओं के मौलिक अधिकार	कु. दिव्या शर्मा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	300.00	–
0000 A	3182	कालिदास की काव्य चेतना	डॉ० राकेश शास्त्री	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	500.00	–
0000 A	3183	कालिदास की सौन्दर्यान्वेषिणी दृष्टि	डॉ० सन्तोष गढ़वाल	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	200.00	–
0000 A	3184	कात्यायनस्त्रोतसूत्रम्	डॉ० शंभु कुमार झा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	400.00	–
0000 A	3185	कठोपनिषद्	डॉ० राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	200.00	–
0000 A	3186	केरलीयप्रश्नरत्नम्	डॉ० भास्कर शर्मा 'श्रोत्रिय'	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	100.00	–
0000 A	3187	केतकीग्रहगणितम्	पं. सत्यदेव शर्मा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	500.00	–
0000 A	3188	कौटिल्यअर्थशास्त्रम्	डॉ० कमल नयन शर्मा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	300.00	–
0000 A	3189	कौटिल्य का अर्थशास्त्रम्	डॉ० भास्कर शर्मा, कमल किशोर सैनी	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	450.00	–
0000 A	3190	गणपतिस्तुतिकल्पद्रुम	डॉ० राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	400.00	–
0000 A	3191	गणपतिसम्भवम् महाकाव्य का समीक्षात्मक अध्ययन	डॉ० हुकम सिंह	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	300.00	–
0000 A	3192	गांधी : राष्ट्रीय अवधारणा और आयाम	महेन्द्र कुमार मिश्रा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	360.00	–
0000A	3193	धातव्ख्यातार्थमीमांसा (वैयाकरणभूषणसारः)	डॉ० राजधरमिश्रः	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	300.00	–
0000 A	3194	नृसिंहपुराणः एक अध्ययन	डॉ० श्रीमती दीपा माथुर	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	500.00	–
0000 A	3195	पातञ्जलयोगसूत्रम्	डॉ० बीना अग्रवाल	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	350.00	–
0000 A	3196	पातञ्जल योग सूत्र	डॉ० गुंजन गर्ग, डॉ० गोपेश	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	100.00	–
0000 A	3197	पातञ्जलयोगदर्शनम्	आ. भवानी शंकर शर्मा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	70.00	–
0000 A	3198	प्राच्यपाश्चात्य–शिक्षादर्शनम्	डॉ० नगेन्द्र नाथ झा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	125.00	–
0000 A	3199	प्राच्यपाश्चात्त्यशिक्षाशास्त्रिणः	डॉ० देवीप्रसादद्विवेदी	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	250.00	–
0000 A	3200	प्राचीन संस्कृत वाड्.मय में राजधर्म का स्वरूप (भाग – 1)	डॉ० केदार शर्मा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	450.00	–
0000 A	3201	प्राचीन संस्कृत वाड्.मय में राजधर्म का स्वरूप (भाग – 2)	डॉ० केदार शर्मा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	450.00	–
0000 A	3202	पौराणिकप्रयोगाणां पाणिनीयत्वविमर्शः	डॉ० माधवदत्त पाण्डेय	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	;a=LFk	–
0000 A	3203	बृहद् ऋक्–सूक्त–संग्रहः	प्रो. देवेन्द्रनाथ पाण्डेय	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	650.00	–
0000 A	3204	बृहद् भारतीय कुण्डली विज्ञान	पं. सत्यदेव शर्मा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	350.00	–
0000 A	3205	भगवती त्रिपुरा–सुन्दरी साधना एवं स्तोत्र	डॉ० राजेश जोशी	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	500.00	–
0000 A	3206	भ्रष्टाचारसप्तशती	डॉ० शिवसागर त्रिपाठी	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	200.00	–
0000 A	3207	भारतीय धर्मशास्त्र में कौटिल्य	डॉ० इंदिरा गुप्ता	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	499.00	–

0000 A	3208	भारतीय संस्कारों की अनुठी दास्तान	पं. गंगासहाय जोशी	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	450.00	–
0000 A	3209	भारतीय संस्कृति	पं. जगन्नाथ जोशी	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	390.00	–
0000 A	3210	भारतीय संस्कृति के मूल आधार	रमेश चन्द्र घुसींगा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	350.00	–
0000 A	3211	भारतीय संस्कृति सिद्धांत और स्वरूप	देवर्षि कलानाथ शास्त्री	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	450.00	–
0000 A	3212	भारतीय दर्शन परिशीलन	डॉ० गिरधर शर्मा चतुर्वेदी	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	350.00	–
0000 A	3213	भाभ्रमरेखानिरूपणम्	पं. सत्यदेव शर्मा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	125.00	–
0000 A	3214	महाकवि माघ–महिमा	डॉ० भास्कर शर्मा 'श्रोत्रिय'	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	500.00	–
0000 A	3215	मन्दशीघ्रफलसाधनसमीक्षा	डॉ० रामजीवन मिश्र	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	400.00	–
0000 A	3216	मध्यसिद्धांतकौमुदी	डॉ० अर्कनाथ चौधरी	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	650.00	–
0000 A	3217	मध्यसिद्धांतकौमुदी	डॉ० राजधर मिश्र	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	400.00	–
0000 A	3218	मुहुर्त्तचिन्तामणि	डॉ० भास्कर शर्मा 'श्रोत्रिय'	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	300.00	–
0000 A	3219	मेघदूतम्	डॉ० अर्कनाथ चौधरी	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	350.00	–
0000 A	3220	याज्ञवल्क्यस्मृतिः	डॉ० कमल नयन शर्मा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	450.00	–
0000 A	3221	याज्ञवल्क्यस्मृतिः	डॉ० कमल नयन शर्मा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	500.00	–
0000A	3222	लौकिक न्याय कुसुमाञ्जली	डॉ० पद्मशास्त्री	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	200.00	–
0000 A	3223	लघुसिद्धांतकौमुदी भाग – 1	डॉ० अर्कनाथ चौधरी	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	450.00	–
0000 A	3224	लघुसिद्धांतकौमुदी भाग – 2	डॉ० अर्कनाथ चौधरी	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	450.00	–
0000 A	3225	वक्रोक्तिजीवितम्	डॉ० रमाकान्त पाण्डेय	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	300.00	–
0000 A	3226	वाग्धारा	डॉ० कुंजबिहारी पाण्डेय	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	300.00	–
0000 A	3227	वास्तवचन्द्रश्रृड.गोन्नतिसाधनम्	पं. सत्यदेव शर्मा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	150.00	–
0000 A	3228	विद्यालय प्रशासनम्	डॉ० माताप्रसाद शर्मा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	200.00	–
0000 A	3229	विदग्धमाधवम्	डॉ० स्वर्ग कुमार मिश्रा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	400.00	–
0000 A	3230	विश्रुतचरितम्	जगदीश चन्द्र शर्मा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	40.00	–
0000 A	3231	वेदान्तसार	डॉ० शिवसागर त्रिपाठी	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	200.00	–
0000 A	3232	वैयाकरणसिद्धांतकौमुदी	डॉ० श्रीधर मिश्र	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	300.00	–
0000 A	3233	वैयाकरणसिद्धांतकौमुदी	डॉ० अर्कनाथ चौधरी	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	300.00	–
0000 A	3234	वैयाकरणसिद्धांतकौमुदी	डॉ० अर्कनाथ चौधरी	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	600.00	–
0000 A	3235	वैदिक समाज दर्शन	डॉ० रश्मि शर्मा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	300.00	–
0000 A	3236	वैदिक साहित्य का इतिहास	प्रो. देवेन्द्रनाथ पाण्डेय	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	300.00	–

0000 A	3237	वैदिक एवं पालि साहित्य का संक्षिप्त इतिहास	डॉ० करुणा शंकर दुबे	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	150.00	–
0000 A	3238	वैदिक वाड.गय–प्रकाश	डॉ० अर्चना दुबे	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	400.00	–
0000 A	3239	वैदिकवाड्.मस्येतिहासः	डॉ० शंभु कुमार झा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	400.00	–
0000 A	3240	वैदिक सूक्त संग्रह	डॉ० देवेन्द्रनाथ पाण्डेय	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	600.00	–
0000 A	3241	वैदिक सूक्त रत्नावली	डॉ० राजेन्द्र प्रसाद मिश्र	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	150.00	–
0000 A	3242	वैदिक सूक्त संकलन	प्रो. देवेन्द्रनाथ पाण्डेय	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	160.00	–
0000 A	3243	वैयाकरणभूषणसारः	डॉ० राजधर मिश्र	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	300.00	–
0000 A	3244	व्याकरणतत्वविमर्श	डॉ० श्रीधर मिश्र	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	500.00	–
0000 A	3245	व्याकरण निबंधसौरभम्	डॉ० अर्कनाथ चौधरी	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	200.00	–
0000 A	3246	व्याकरणपुराणमीमांसा	डॉ० माधवदत्त पाण्डेय	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	;a=LFk	–
0000 A	3247	शौनकीय रुद्रमन्त्रार्थदीपिका	नारायण होसमने	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	250.00	–
0000 A	3248	संस्कृत भाषा विज्ञान	डॉ० कुंजबिहारी पाण्डेय	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	350.00	–
0000 A	3249	संस्कृत हिन्दी कोष	डॉ० वामनशिवराम आप्टे	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	700.00	–
0000 A	3250	संस्कृत साहित्य में ययाति कथा	डॉ० वत्सला	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	450.00	–
0000A	3251	भारतीय संस्कृति के प्रमुख आयाम एवं वर्तमान उपादेयता	डॉ० धर्मपाल यादव	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	300.00	–
0000 A	3252	सामवेदीयार्षेयब्राह्मणम्	डॉ० उमेश दास	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	400.00	–
0000 A	3253	सिद्धांतशिरोमणि (गोलाध्याय)	डॉ० भास्कर शर्मा 'श्रोत्रिय'	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	350.00	–
0000 A	3254	सिद्धांतशिरोमणिगणिताध्यायस्य सूर्यसिद्धान्तस्य च तुलनात्मकमध्ययनम्	डॉ० रामजीवन मिश्र	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	650.00	–
0000 A	3255	स्वप्नवासवदत्तम्	डॉ० जगन्नारायण पाण्डेय	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	150.00	–
0000 A	3256	स्त्रीज्यौतिषविमर्श (स्त्री के लिए ज्योतिष)	पं. श्री भरत गर्ग	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	400.00	–
0000 A	3257	श्रीप्रत्यडि.गरा पुरश्चरण वैदिक विधि	डॉ० रामप्रिय पाण्डेय	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	400.00	–
0000 A	3258	हितोपदेश–मित्रलाभ	भवानी शंकर शर्मा 'महाजनीय'	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	150.00	–
0000 A	3259	सांख्यकारिका	प्रो. देवेन्द्रनाथ पाण्डेय	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	200.00	–
0000 A	3260	सांख्यकारिका	प्रो. देवेन्द्रनाथ पाण्डेय	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	60.00	–
0000 A	3261	सांख्यकारिका	डॉ० यशवंत कुमार जोशी	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	;a=LFk	–
0000 A	3262	पातञ्जलयोगदर्शनम्	आचार्य भवानीशंकर शर्मा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	70.00	–
0000 A	3263	पातञ्जलयोगसूत्रम्	डॉ० बीना अग्रवाल	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	150.00	–
0000 A	3264	पातञ्जलयोगसूत्र	डॉ० गुंजन गर्ग	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	100.00	–

0000 A	3265	ईशावास्योपनिषद्	प्रो. माणिक्यलाल शास्त्री	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	30.00	–
0000 A	3266	कठोपनिषद्	डॉ० राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	40.00	–
0000 A	3267	कठोपनिषद्	डॉ० राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	100.00	–
0000 A	3268	चार्वाकदर्शनम्	डॉ० कैलाश चन्द्र शर्मा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	20.00	–
0000 A	3269	प्रमाणमञ्जरी का विवेचनात्मक अध्ययन	डॉ० भूपेन्द्र कुमार राठौड	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	500.00	–
0000 A	3270	श्रीमद्भगवद्गीता – 2, 3, 4 अध्याय	डॉ० राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	50.00	–
0000 A	3271	श्रीमद्भगवद्गीता – द्वितीय अध्याय	डॉ० राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	50.00	–
0000 A	3272	भारतीद दर्शन परिशीलन	डॉ० गिरधर शर्मा चतुर्वेदी	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	350.00	–
0000 A	3273	वेदान्तसार	डॉ० शिवसागर त्रिपाठी	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	70.00	–
0000 A	3274	वेदान्तसारः	डॉ० यंशवंत कुमार जोशी	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	;a=LFk	–
0000 A	3275	केतकीग्रहगणितम्	पं. सत्यदेव शर्मा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	250.00	–
0000 A	3276	केरलीयप्रश्नरत्नम्	डॉ० भास्कर शर्मा 'श्रोत्रिय'	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	60.00	–
0000 A	3277	गणपति स्तुति कल्पद्रुम	डॉ० राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	200.00	–
0000 A	3278	गोल परिभाषा	डॉ० कैलाश चन्द्र शर्मा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	20.00	–
0000 A	3279	जातकालड.कार	डॉ० कैलाश चन्द्र शर्मा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	50.00	–
0000A	3280	ज्यातत्वविवेक	पं. सत्यदेव शर्मा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	150.00	–
0000 A	3281	ज्योतिष शिक्षणम्	डॉ० शिवाकान्त मिश्र	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	200.00	–
0000 A	3282	धराभ्रम	डॉ० विनोद शर्मा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	50.00	–
0000 A	3283	पश्चाड.गविज्ञानम्	डॉ० कैलाश चन्द्र शर्मा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	30.00	–
0000 A	3284	पौरोहित्य कर्म मंत्र संग्रहः	पं. बदरी नारायण गुरावा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	60.00	–
0000 A	3285	प्रासाद–मण्डनम्	डॉ० भास्कर शर्मा 'श्रोत्रिय'	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	250.00	–
0000 A	3286	बटुकभैरवार्चन पद्धतिः	पं. बद्री विशाल गुरावा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	125.00	–
0000 A	3287	बृहद् भारतीय कुण्डली विज्ञान	पं. सत्यदेव शर्मा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	350.00	–
0000 A	3288	बृहद्हवडाचक्रम्	डॉ० कैलाश चन्द्र शर्मा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	40.00	–
0000 A	3289	भाभ्रमरेखानिरूपणम्	पं. सत्यदेव शर्मा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	40.00	–
0000 A	3290	मंत्र शक्ति से कार्य सिद्धि	पं. लक्ष्मी नारायण व्यास	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	150.00	–
0000 A	3291	मन्दशीघ्रफलसाधनसमीक्षा	डॉ० रामजीवन मिश्र	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	400.00	–
0000 A	3292	महालक्ष्मी पूजन पद्धति एवं कार्तिक महात्यम्	श्रीमती भारती शर्मा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	60.00	–
0000 A	3293	मुहूर्तचिन्तामणिः	डॉ० भास्कर शर्मा 'श्रोत्रिय'	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	125.00	–

0000 A	3294	लीलावती	गणपतिलाल शर्मा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	;a=LFk	–
0000 A	3295	वास्तवचन्द्रश्रृड.गोन्नतिसाधनम्	पं. सत्यदेव शर्मा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	75.00	–
0000 A	3296	वैजयन्ती पश्चाड.गगणितम्	डॉ० कैलाश चन्द्र शर्मा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	50.00	–
0000 A	3297	शिवमहिम्नस्तोत्रम्	डॉ० कैलाश चन्द्र शर्मा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	20.00	–
0000 A	3298	शिवार्चन पद्धति	पं. बद्री विशाल गुरावा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	125.00	–
0000 A	3299	शुक्लयजुर्वेदी माध्यन्दिनशाखीय रुद्र–पाठ दर्पण	पं. राधेश्याम शर्मा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	45.00	–
0000 A	3300	श्री दुर्गार्चन पद्धति	पं. राधेश्याम शर्मा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	125.00	–
0000 A	3301	सिद्धांतशिरोमणिः	डॉ० भास्कर शर्मा 'श्रोत्रिय'	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	150.00	–
0000 A	3302	सिद्धांतशिरोमणिगणिताध्यायस्य सूर्यसिद्धान्तस्य च तुलनात्मकमध्ययनम्	डॉ० रामजीवन मिश्र	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	650.00	–
0000 A	3303	श्रीप्रत्यडि.गरा पुरश्चरण वैदिक विधि	डॉ० रामप्रिय पाण्डेय	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	200.00	–
0000 A	3304	स्त्रीज्यौतिषविमर्श (स्त्री के लिए ज्योतिष)	पं. श्री भरत गर्ग	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	150.00	–
0000 A	3305	हनुमदर्चन पद्धतिः	पं. बद्री विशाल गुरावा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	125.00	–
0000 A	3306	अभिनववेददीपिका	डॉ० रमाकान्त पाण्डेय	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	90.00	–
0000 A	3307	अर्थवेवदीया माण्डूकी शिक्षा	डॉ० द्विजेन्द्रनाथ मिश्र	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	100.00	–
0000 A	3308	बृहद ऋकसूक्त संग्रहः	डॉ० देवेन्द्रनाथ पाण्डेय	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	200.00	–
0000A	3309	ऋकसूक्त संग्रहः	डॉ० देवेन्द्रनाथ पाण्डेय	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	125.00	–
0000 A	3310	कात्यायनस्त्रोतसूत्रम्	डॉ० शंभु कुमार झा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	200.00	–
0000 A	3311	वैदिक सूक्त संग्रह	डॉ० देवेन्द्रनाथ पाण्डेय	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	300.00	–
0000 A	3312	वैदिक सूक्त संकलन	प्रो. देवेन्द्रनाथ पाण्डेय	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	160.00	–
0000 A	3313	वैदिक सूक्त रत्नावली	प्रो. देवेन्द्रनाथ पाण्डेय	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	60.00	–
0000 A	3314	वैदिक सूक्त रत्नावली	प्रो. राजेन्द्रप्रसाद मिश्र	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	;a=LFk	–
0000 A	3315	वैदिक साहित्य का इतिहास	प्रो. देवेन्द्रनाथ पाण्डेय	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	80.00	–
0000 A	3316	वैदिकवाड्.मस्येतिहासः	डॉ० शंभु कुमार झा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	400.00	–
0000 A	3317	निरुक्तम्	डॉ० यशवंत कुमार जोशी	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	70.00	–
0000 A	3318	निरुक्त – रहस्यम्	लालारामडोगीवाल	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	50.00	–
0000 A	3319	ऋक्सूक्तसंदर्शिका	लालारामडोगीवाल	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	60.00	–
0000 A	3320	ऋक्–सूक्त–संग्रहः	डॉ० यशवंत कुमार जोशी	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	;a=LFk	–
0000 A	3321	बृहदारण्यकोपनिषद्	डॉ० यशवंत कुमार जोशी	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	80.00	–

0000 A	3322	कौटिलीय अर्थशास्त्रम्	डॉ० कमल नयन शर्मा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	80.00	–
0000 A	3323	नीतिशतकम्	डॉ० रामनारायण झा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	50.00	–
0000 A	3324	लौकिक न्याय कुसुमाञ्जली	डॉ० पद्मशास्त्री	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	100.00	–
0000 A	3325	हितोपदेश–मित्रलाभ	आचार्य भवानीशंकर शर्मा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	50.00	–
0000 A	3326	याज्ञवल्क्यस्मृतिः	डॉ० कमल नयन शर्मा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	30.00	–
0000 A	3327	याज्ञवल्क्यस्मृतिः व्यवहाराध्याय	डॉ० कमल नयन शर्मा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	250.00	–
0000 A	3328	याज्ञवल्क्यस्मृतिः	डॉ० कमल नयन शर्मा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	;a=LFk	–
0000 A	3329	मनुस्मृति प्रथम अध्याय	डॉ० कमल नयन शर्मा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	50.00	–
0000 A	3330	मनुस्मृति द्वितीय अध्याय	डॉ० कमल नयन शर्मा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	70.00	–
0000 A	3331	मनुस्मृति	डॉ० कमल नयन शर्मा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	;a=LFk	–
0000 A	3332	दत्तक चन्द्रिका	डॉ० कमल नयन शर्मा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	450.00	–
0000 A	3333	किरातार्जुनीयम्	नवलकिशोर कांड.कर	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	30.00	–
0000 A	3334	किरातार्जुनीयम्	डॉ० जगन्नारायण पाण्डेय	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	30.00	–
0000 A	3335	कुमारसम्भवम् – 1 से 2 सर्ग	डॉ० देवकृष्ण सारस्वत	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	50.00	–
0000 A	3336	कुमारसम्भवम् – पंचम् सर्ग	नवलकिशोर कांड.कर	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	40.00	–
0000 A	3337	चन्द्रापीडकथा	डॉ० मीरा द्विवेदी	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	80.00	–
0000A	3338	पंचतंत्रम् अपरीक्षितकारकम्	डॉ० श्रीराम शर्मा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	70.00	–
0000 A	3339	ध्वन्यालोक – प्रथम अध्याय	डॉ० श्रद्धा सिंह	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	70.00	–
0000 A	3340	ध्वन्यालोक	डॉ० यशवंत कुमार जोशी	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	;a=LFk	–
0000 A	3341	बालकाण्ड – प्रथम सर्ग	डॉ० उषा शर्मा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	40.00	–
0000 A	3342	नाट्यशास्त्रम् – प्रथम–द्वितीय अध्याय	डॉ० यशवंत कुमार जोशी	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	60.00	–
0000 A	3343	नाट्यशास्त्रम् – षष्ठ अध्याय	डॉ० यशवंत कुमार जोशी	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	60.00	–
0000 A	3344	नैषधीयचरितम् – तृतीय सर्ग	डॉ० यशवंत कुमार जोशी	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	60.00	–
0000 A	3345	मेघदूतम्	डॉ० अर्कनाथ चौधरी	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	100.00	–
0000 A	3346	मेघदूतम् (पूर्व मेघ)	डॉ० अर्कनाथ चौधरी	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	45.00	–
0000 A	3347	मेघदूतम् (उत्तर मेघ)	डॉ० अर्कनाथ चौधरी	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	45.00	–
0000 A	3348	मेघदूतम्	डॉ० यशवंत कुमार जोशी	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	;a=LFk	–
0000 A	3349	रघुवंश महाकाव्यम्	डॉ० जगन्नारायण पाण्डेय	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	50.00	–
0000 A	3350	रघुवंश महाकाव्यम्	डॉ० जगन्नारायण पाण्डेय	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	30.00	–

0000 A	3351	रघुवंश महाकाव्यम्	डॉ० जगन्नारायण पाण्डेय	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	30.00	–
0000 A	3352	रघुवंश महाकाव्यम्	डॉ० जगन्नारायण पाण्डेय	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	30.00	–
0000 A	3353	रघुवंश महाकाव्यम्	डॉ० जगन्नारायण पाण्डेय	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	30.00	–
0000 A	3354	रघुवंश महाकाव्यम्	डॉ० जगन्नारायण पाण्डेय	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	40.00	–
0000 A	3355	रघुवंश महाकाव्यम्	डॉ० जगन्नारायण पाण्डेय	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	30.00	–
0000 A	3356	रघुवंश महाकाव्यम्	डॉ० जगन्नारायण पाण्डेय	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	30.00	–
0000 A	3357	रघुवंश महाकाव्यम्	डॉ० जगन्नारायण पाण्डेय	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	30.00	–
0000 A	3358	रघुवंश महाकाव्यम्	डॉ० जगन्नारायण पाण्डेय	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	50.00	–
0000 A	3359	वक्रोक्तिजीवितम्	डॉ० यशवंत कुमार जोशी	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	;a=LFk	–
0000 A	3360	वक्रोक्ति जीवितम्	डॉ० रमाकान्त पाण्डेय	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	120.00	–
0000 A	3361	विक्रमाड.कदेवचरितम् – प्रथम सर्ग	डॉ० रमाकान्त पाण्डेय	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	50.00	–
0000 A	3362	विक्रमाड.कदेवचरितम्	डॉ० यशवंत कुमार जोशी	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	;a=LFk	–
0000 A	3363	विश्रुतचरितम्	जगदीश चन्द्र शर्मा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	40.00	–
0000 A	3364	वृत्तरत्नाकरः	डॉ० जगन्नारायण पाण्डेय	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	20.00	–
0000 A	3365	शिवराजविजय	डॉ० जगन्नारायण पाण्डेय	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	;a=LFk	–
0000 A	3366	शिवराजविजयः	डॉ० यशवंत कुमार जोशी	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	50.00	–
0000A	3367	शिशुपालवधम्	डॉ० श्रद्धा सिंह	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	50.00	–
0000 A	3368	शिशुपालवधम्	डॉ० श्रद्धा सिंह	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	50.00	–
0000 A	3369	शिशुपालवधम्	डॉ० यशवंत कुमार जोशी	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	;a=LFk	–
0000 A	3370	सुंदरकाण्डम्	डॉ० विक्रमजीत	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	50.00	–
0000 A	3371	शुकनासोपदेशः	डॉ० रामनारायण झा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	40.00	–
0000 A	3372	अभिज्ञानशाकुन्तलम्	डॉ० विश्वनाथ शर्मा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	200.00	–
0000 A	3373	अभिज्ञानशाकुन्तलम्	डॉ० जगन्नारायण पाण्डेय	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	30.00	–
0000 A	3374	प्रतिमानाटकम्	डॉ० जगन्नारायण पाण्डेय	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	60.00	–
0000 A	3375	स्वप्नवासवदत्तम्	डॉ० जगन्नारायण पाण्डेय	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	50.00	–
0000 A	3376	मुद्राराक्षसम्	डॉ० यशवंत कुमार जोशी	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	200.00	–
0000 A	3377	उत्तररामचरितम्	डॉ० यशवंत कुमार जोशी	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	400.00	–
0000 A	3378	अत्रिख्याति – पं. मधुसूदन ओझा	डॉ० विनोद शास्त्री	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	100.00	–
0000 A	3379	आद्य–शराचार्य व्यक्तित्व एवं कृतित्व	डॉ० प्रभाकर शास्त्री	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	135.00	–

0000 A	3380	कथा कौतुकम् – डॉ० गड.गाधर भट्ट	डॉ० राजेश्वरी भट्ट	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	25.00	–
0000 A	3381	जैन पुराणों में मानव कल्याण की दृष्टि	डॉ० प्रभाकर शास्त्री	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	125.00	–
0000A	3382	ज्योतिष प्रारंभिकी	डॉ० विनोद शास्त्री	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	100.00	–
0000 A	3383	ज्योतिषविज्ञान निर्झरी	डॉ० विनोद शास्त्री	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	630.00	–
0000 A	3384	दूतमाधवम् – पं. मदन शर्मा सुधाकर	डॉ० प्रभाकर शास्त्री	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	70.00	–
0000 A	3385	देवतानिवित् – पं. मधुसूदन ओझा	डॉ० विनोद शास्त्री	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	50.00	–
0000 A	3386	नवोन्मेषः	डॉ० रामचन्द्र द्विवेदी	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	60.00	–
0000 A	3387	नीतिसुधाकर – पं. नगजीराम शास्त्री	डॉ० विनोद शास्त्री	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	150.00	–
0000 A	3388	पुराणविद्या–महामहोपाध्याय – पं. गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी	डॉ० शिवदत्त चतुर्वेदी	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	100.00	–
0000 A	3389	यज्ञमधुसूदन – पं. मधुसूदन ओझा	डॉ० विनोद शास्त्री	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	50.00	–
0000 A	3390	राजस्थान की सारस्वत साधना – प्रथम गुच्छक	डॉ० प्रभाकर शास्त्री	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	40.00	–
0000 A	3391	राजस्थान के जैन दार्शनिकों एवं कवियों का संस्कृत को योगदान	डॉ० प्रभाकर शास्त्री	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	45.00	–
0000 A	3392	वासुदेव – चरितम् – पं. जगदीशचन्द्र आचार्य	डॉ० प्रभाकर शास्त्री	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	25.00	–
0000 A	3393	विश्वेश्वरस्मृति – विश्वेश्वरनाथ रेऊ	डॉ० प्रभाकर शास्त्री	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	100.00	–
0000 A	3394	श्रमण संस्कृति	डॉ० प्रभाकर शास्त्री	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	80.00	–
0000 A	3395	संस्कृत वाड.मय में हनुमान	डॉ० प्रभाकर शास्त्री	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	125.00	–
0000 A	3396	संस्कृत साहित्य में श्री हनुमान्	डॉ० प्रभाकर शास्त्री	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	190.00	–
0000 A	3397	वैदिक संहितासु ज्योतिर्विज्ञानम्	श्री विनोद शर्मा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	301.00	–
0000 A	3398	भारतीय सभ्यता का सांस्कृतिक फलक	प्रो. वासुदेव पोद्दार	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	235.00	–
0000 A	3399	अश्वशास्त्रम्	डॉ० संदीप जोशी	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	2100.00	–
0000 A	3400	बौद्धार्थबाह्यार्थपर्यालोचनम्	राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	225.00	–
0000 A	3401	सिद्धांतलक्षणतत्त्वलोकप्रकाशः	पं. खड्गनाथ मिश्र	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	800.00	–
0000 A	3402	न्यायलीलावतीः प्रथम भाग	राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	1150.00	–
0000 A	3403	पदार्थतत्त्वनिरूपणम्	विश्वम्भर पाहि	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	125.00	–
0000 A	3404	वैशेषिक पदार्थव्यवस्था का पद्धतिमूलक विमर्श	विश्वम्भर पाहि	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	350.00	–
0000 A	3405	तत्त्वसड.ग्रह–शब्दार्थपरीक्षा	रमेशचन्द्र शर्मा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	200.00	–
0000 A	3406	ऋग्वेद संहिता – मूलमात्र		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	350.00	–
0000 A	3407	ऋग्वेद संहिता – मूलमात्र, बड़ा अक्षर 1800		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	500.00	–
0000 A	3408	ऋग्वेद संहिता – मूलमात्र (अजिल्द)		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	350.00	–

0000 A	3409	ऋग्वेद संहिता – 1 से 9 भाग, संपूर्ण	पं. रामगोविन्द त्रिवेदी	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	4000.00	–
0000 A	3410	ऋग्वेद संहिता	रामगोविन्द त्रिवेदी	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	400.00	–
0000A	3411	ऋग्वेद संहिता – 1 से 5 भाग		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	4300.00	–
0000 A	3412	ऋग्वेद संहिता – 1 से 5 भाग, संपूर्ण		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	5100.00	–
0000 A	3413	ऋग्वेद संहिता – 1 से 4 भाग	पं. ईश्वरचन्द्र	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	1400.00	–
0000 A	3414	ऋग्वेद संहिता	उमाशंकर ऋषि	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	150.00	–
0000 A	3415	ऋग्वेद संहिता		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	400.00	–
0000 A	3416	ऋग्वेद संहिता – 1 से 4 भाग	सातवलेकर प्रणीत	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	4000.00	–
0000 A	3417	ऋग्वेद संहिता – 1 से 4 भाग	श्रीराम शर्मा आचार्य	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	600.00	–
0000 A	3418	Rigveda Samhita	H.H. Wilson Vols. 1-4	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	1800.00	–
0000 A	3419	Hymns of Rgveda	R.T.H. Griffith Vols. 1-2	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	750.00	–
0000 A	3420	अर्थर्ववेद संहिता – मूलमात्र		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	275.00	–
0000 A	3421	अर्थर्ववेद संहिता – मूलमात्र, बड़ा अक्षर		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	800.00	–
0000 A	3422	अर्थर्ववेद संहिता – 1 से 4 भाग	माधवीयवेदार्थप्रकाश	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	4000.00	–
0000 A	3423	अर्थर्ववेद संहिता		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	3500.00	–
0000 A	3424	अर्थर्ववेद संहिता – 1 से 2 भाग	श्रीराम शर्मा आचार्य	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	350.00	–
0000 A	3425	Atharvaveda Samhita Vols. 1-3	W.D. Whitney	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	1350.00	–
0000 A	3426	Atharvaveda	Devi Chand	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	700.00	–
0000 A	3427	Hymns of the Atharvaveda	R.T.H. Griffith Vols. 1-2	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	750.00	–
0000 A	3428	यजुर्वेद संहिता – मूलमात्र		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	100.00	–
0000 A	3429	यजुर्वेद संहिता – मूलमात्र, बड़ा अक्षर		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	150.00	–
0000 A	3430	यजुर्वेद संहिता – मूलमात्र, सजिल्द	सं. दौलतराम गौड	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	280.00	–
0000 A	3431	शुक्लयजुर्वेदसंहिता – मूलमात्र	दौलतराम गौड वेदाचार्य	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	100.00	–
0000 A	3432	यजुर्वेद संहिता	डॉ० ए. वेबर	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	750.00	–
0000 A	3433	यजुर्वेद संहिता – 1 से 2 भाग	सातवलेकर प्रणीत	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	1600.00	–
0000 A	3434	यजुर्वेद संहिता	श्रीराम शर्मा आचार्य	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	175.00	–
0000 A	3435	Yajurveda	Devi Chand	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	425.00	–
0000 A	3436	Yajurveda	T.H. Griffith	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	200.00	–
0000 A	3437	Yajurveda	R.T.H. Griffith	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	450.00	–

0000 A	3438	शुक्लयजुर्वेदमाध्यन्दिनीयसंहिता, सजिल्द		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	250.00	–
0000 A	3439	शुक्लयजुर्वेदसंहिता – गुटका	दौलतराम गौड वेदाचार्य	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	100.00	–
0000A	3440	शुक्लयजुर्वेद संहिता	रामकृष्णशास्त्री कृत	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	750.00	–
0000 A	3441	सामवेद संहिता – मूलमात्र		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	100.00	–
0000 A	3442	सामवेद संहिता – संपूर्ण		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	700.00	–
0000 A	3443	सामवेद संहिता – 1 से 5 भाग		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	3000.00	–
0000 A	3444	सामवेद संहिता	श्रीराम शर्मा आचार्य	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	150.00	–
0000 A	3445	सामवेद–कौथुमाशाखीयः	रा. नारायणस्वामिदीक्षितः	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	500.00	–
0000 A	3446	सामवेद संहिता	सातवलेकर कृत	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	1000.00	–
0000 A	3447	सामवेद संहिता	श्रीराम शर्मा आचार्य	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	175.00	–
0000 A	3448	Samveda	Devi Chand	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	350.00	–
0000 A	3449	Samveda	S.V. Ganapati	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	250.00	–
0000 A	3450	Samaveda Samhita	R.T.H. Griffith	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	150.00	–
0000 A	3451	Samaveda Samhita	R.T.H. Griffith	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	450.00	–
0000 A	3452	अग्निपुराणम् – मूलमात्र		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	800.00	–
0000 A	3453	अग्निपुराणम् – महर्षि वेदव्यास	आचार्य बलदेव उपाध्याय	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	400.00	–
0000 A	3454	अग्निपुराणम्		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	775.00	–
0000 A	3455	Agni Purana		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	2000.00	–
0000 A	3456	Agni Purana	K.L. Joshi	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	1600.00	–
0000 A	3457	Agni Purana	Dr. S.D. Gyani	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	100.00	–
0000 A	3458	कूर्मपुराणम्	तरणीश झा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	250.00	–
0000 A	3459	कूर्मपुराणम्		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	400.00	–
0000 A	3460	कूर्मपुराण	सं. कन्हैयालाल जोशी	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	350.00	–
0000 A	3461	कूर्मापुराण	जी.वी. टैगोर	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	1000.00	–
0000 A	3462	गरुडपुराणम्		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	800.00	–
0000 A	3463	गरुडपुराणम्	श्रीरामतेज पाण्डेय	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	150.00	–
0000 A	3464	गरुडपुराण एक अध्ययन	अवधबिहारीलाल अवस्थी	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	750.00	–
0000 A	3465	गरुडपुराणम्	एम. एन. दत्ता	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	500.00	–
0000 A	3466	गरुडपुराणम्	जे. एल. शास्त्री	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	1950.00	–

0000 A	3467	नारदीयपुराणम्	महापण्डित ह्वषिकेश शास्त्री	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	250.00	–
0000 A	3468	नारदीयपुराणम् भाग – 1 से 2		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	350.00	–
0000A	3469	नारदीयपुराणम्		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	1200.00	–
0000 A	3470	नृसिंहपुराणः एक अध्ययन	डॉ० श्रीमती दीपा माथुर	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	500.00	–
0000 A	3471	नारदपुराणम्	जी.वी. टैगोर	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	2125.00	–
0000 A	3472	पदम पुराणम्	एन. ए. टैगोर	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	5000.00	–
0000 A	3473	ब्रह्मपुराणम्		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	900.00	–
0000 A	3474	ब्रह्मपुराणम्		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	650.00	–
0000 A	3475	ब्रह्मपुराणम्	जे. एल. शास्त्री	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	2000.00	–
0000 A	3476	ब्रह्मवैवर्तपुराणम् भाग – 1 से 2		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	625.00	–
0000 A	3477	ब्रह्मवैवर्तपुराणम् भाग – 1 से 2		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	2500.00	–
0000 A	3478	ब्रह्माण्डपुराणम्		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	795.00	–
0000 A	3479	ब्रह्माण्डपुराणम् भाग – 1 से 2 संपूर्ण	सं. अनु. प्रो. दलवीर सिंह चौहान	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	1600.00	–
0000 A	3480	ब्रह्माण्डपुराणम् भाग – 1 से 5	गणेश वासुदेव टैगोर	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	2500.00	–
0000 A	3481	भविष्यपुराणम् भाग – 1 से 3		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	1175.00	–
0000 A	3482	भविष्यमहापुराणम् भाग – 1 से 3		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	2000.00	–
0000 A	3483	मत्स्यपुराणम्		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	550.00	–
0000 A	3484	मत्स्यपुराणम् भाग – 1 से 2	रामप्रताप त्रिपाठी	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	425.00	–
0000 A	3485	मत्स्यपुराणम्		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	550.00	–
0000 A	3486	मत्स्यमहापुराणम्	एच. एच. विल्सन	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	1600.00	–
0000 A	3487	मत्स्य महापुराणम्	एच. एच. विल्सन	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	1000.00	–
0000 A	3488	मार्कण्डेय महापुराणम्		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	1000.00	–
0000 A	3489	मार्कण्डेय महापुराणम्	के. एल. जोशी	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	800.00	–
0000 A	3490	मार्कण्डेय महापुराणम्	के. एल. जोशी	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	800.00	–
0000 A	3491	मार्कण्डेय महापुराणम्	के. एल. जोशी	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	450.00	–
0000 A	3492	लिङ.गपुराणम्	अनु. सं. पं. द्वारकाप्रसाद मिश्र शास्त्री	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	750.00	–
0000 A	3493	लिङ.गपुराणम्		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	900.00	–
0000 A	3494	लिङ.गपुराणम्	जे. एल. शास्त्री	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	1000.00	–
0000 A	3495	वामनपुराणम्		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	400.00	–

0000 A	3496	वामनपुराणम्		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	600.00	–
0000 A	3497	वामनपुराणम्	ओ.एन. बिनाली	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	750.00	–
0000A	3498	वामनपुराणम्	एस. एम. मुखोपाध्याय	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	750.00	–
0000 A	3499	वामनपुराणम्		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	750.00	–
0000 A	3500	वाराहपुराणम्		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	300.00	–
0000 A	3501	वाराहपुराणम्		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	1200.00	–
0000 A	3502	वाराहपुराणम्	सं. आनन्दस्वरूप गुप्त	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	1000.00	–
0000 A	3503	वाराहपुराणम्	अनु. सं. डॉ० सुकांत झा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	1250.00	–
0000 A	3504	वाराहपुराणम्	अहिभूषणा भट्टाचार्य	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	1000.00	–
0000 A	3505	वाराहपुराणम्	एस. वेनकटा सुब्रामोनिया लायर	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	1000.00	–
0000 A	3506	विष्णुमहापुराणम्	श्रीधरस्वामी	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	700.00	–
0000 A	3507	विष्णुपुराणम्	डॉ० श्रद्धा शुक्ल	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	600.00	–
0000 A	3508	विष्णुधर्मोत्तरपुराणम्		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	1500.00	–
0000 A	3509	विष्णुधर्मोत्तरपुराणम्	दलजीत सिंह	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	4300.00	–
0000 A	3510	विष्णुधर्मोत्तरपुराणम्	आचार्य शिव प्रसाद द्विवेदी	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	5000.00	–
0000 A	3511	विष्णुधर्मोत्तरपुराणम्	डॉ० प्रियाबाला शाह	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	1600.00	–
0000 A	3512	विष्णुपुराणम्	एम. एन. दत्ता	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	250.00	–
0000 A	3513	विष्णुपुराणम्		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	1600.00	–
0000 A	3514	विष्णुपुराणम्	एच. एच. विल्सन	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	750.00	–
0000 A	3515	शिवमहापुराणम्		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	375.00	–
0000 A	3516	शिवमहापुराणम्		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	1800.00	–
0000 A	3517	शिवमहापुराणम्	डॉ० ब्रह्मानन्द त्रिपाठी	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	800.00	–
0000 A	3518	शिवपुराणम्	डॉ० ब्रह्मानन्द त्रिपाठी	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	400.00	–
0000 A	3519	शिवमहापुराणम्	जे. एल. शास्त्री	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	2000.00	–
0000 A	3520	शिवमहापुराणम्	एस. एल. नागर	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	2850.00	–
0000 A	3521	श्रीमद्भागवतम्		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	200.00	–
0000 A	3522	श्रीमद्भागवतम्		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	250.00	–
0000 A	3523	श्रीमद्भागवतम्		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	1000.00	–
0000 A	3524	श्रीमद्भागवतम्	पं. रामतेज पाण्डेय	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	1500.00	–

0000 A	3525	श्रीमद्भागवतम्		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	1000.00	–
0000 A	3526	श्रीमद्भागवतम् भाग – 1 से 2	पं. बंशीधर शर्मा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	7500.00	–
0000A	3527	श्रीमद्भागवतम्	श्री गंगासहाय पाण्डेय	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	1500.00	–
0000 A	3528	श्रीमद्भागवतम्	सं. श्रीरामतेज पाण्डेय	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	800.00	–
0000 A	3529	श्रीमद्भागवतम् भाग – 1 से 2	श्रीराम मूर्ति शास्त्री	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	500.00	–
0000 A	3530	श्रीमद्भागवतम् भाग – 3		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	3500.00	–
0000 A	3531	स्कन्दपुराणम् भाग – 1 से 8		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	4000.00	–
0000 A	3532	स्कन्दपुराणम् (केदारखण्ड)		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	500.00	–
0000 A	3533	स्कन्दपुराणम्	गोपालदत्त पाण्डेय	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	95.00	–
0000 A	3534	स्कन्दपुराणम् भाग – 1 से 20	जी.वी. टैगोर	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	10000.00	–
0000 A	3535	आदिपुराणम्	श्यामसुन्दरलाल त्रिपाठी	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	325.00	–
0000 A	3536	आत्मपुराणम् भाग – 1 से 4		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	1190.00	–
0000 A	3537	आद्यपुराण		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	250.00	–
0000 A	3538	एकाम्रपुराणम्		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	600.00	–
0000 A	3539	कल्किपुराणम्		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	175.00	–
0000 A	3540	कालिकापुराण भाग – 1 से 3	प्रो. बिसवानारायण शास्त्री	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	1500.00	–
0000 A	3541	कालिकापुराणम् भाग – 1 से 2	आ. मृत्युञ्जय त्रिपाठी	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	850.00	–
0000 A	3542	कपिलपुराणम्		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	250.00	–
0000 A	3543	गणेशपुराणम् भाग – 1 से 2		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	1800.00	–
0000 A	3544	गणेशपुराणम्		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	1000.00	–
0000 A	3545	दत्तपुराणम्	वासुदेव	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	500.00	–
0000 A	3546	देवीभागवतम्		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	300.00	–
0000 A	3547	देवीभागवतम्	श्रीरामतेज पाण्डेय	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	800.00	–
0000 A	3548	देवीभागवत भाग – 1 से 2	स्वामी विजनानानंदा	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	2500.00	–
0000 A	3549	नरसिंहपुराणः एक अध्ययन	श्रीमती अल्पना भटनागर	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	500.00	–
0000 A	3550	नरसिंहपुराणम्		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	400.00	–
0000 A	3551	नरसिंहपुराण		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	450.00	–
0000 A	3552	बृहद्धर्मपुराणम्		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	300.00	–
0000 A	3553	बृहन्नारदीयपुराणम्		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	300.00	–

0000 A	3554	बृहन्नारदीयपुराणम्		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	675.00	–
0000 A	3555	महाभागवतपुराणम्		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	400.00	–
0000A	3556	युगपुराणम्		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	30.00	–
0000 A	3557	वायुपुराणम्		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	700.00	–
0000 A	3558	वायुपुराणम्		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	450.00	–
0000 A	3559	वासुकिपुराणम्		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	350.00	–
0000 A	3560	वामनपुराण		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	600.00	–
0000 A	3561	वामनपुराण : एक सांस्कृतिक अध्ययन	डॉ० श्रीमती मालती त्रिपाठी	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	110.00	–
0000 A	3562	साम्बपुराणम्		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	200.00	–
0000 A	3563	सौरपुराणम्		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	200.00	–
0000 A	3564	हरिवंशपुराणम् भाग – 1 से 2		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	2200.00	–
0000 A	3565	अष्टादशपुराणपरिचय	डॉ० कृष्णमणि त्रिपाठी	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	250.00	–
0000 A	3566	अष्टादशपुराणदर्पणः		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	350.00	–
0000 A	3567	अष्टादशस्मृतिः	पं. मिहिरचन्द्र	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	500.00	–
0000 A	3568	पुराणतत्त्वमीमांसा	श्रीकृष्णमणि त्रिपाठी	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	400.00	–
0000 A	3569	पुराणपश्चलक्षणम्		मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	750.00	–
0000 A	3570	पुराणपर्यालोचनम् भाग – 1 से 2	श्रीकृष्णमणि त्रिपाठी	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	1000.00	–
0000 A	3571	पुराणविमर्शः	आचार्य बलदेव उपाध्याय	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	500.00	–
0000 A	3572	पौराणिक रहस्यों का समीक्षात्मक अनुशीलन	डॉ० कृष्णमणि त्रिपाठी	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	300.00	–
0000 A	3573	वायु पुराण	जी.वी. टैगोर	मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक	750.00	–
0000 A	3574	निरुक्त भाष्यटीका – 2 भाग	सं. डॉ० लक्ष्मण स्वरूप	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	2750.00 Per Set	–
0000 A	3575	अथर्वप्रातिशाख्यम्	सं. डॉ० सूर्यकांत	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	1950.00	–
0000 A	3576	कौटलीय अर्थशास्त्र	अनु. उदयवीर शास्त्री	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	595.00	–
0000 A	3577	काठकगृह्यसूत्रम्	सं. डॉ० डब्ल्यू. कालण्ड	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	500.00	–
0000 A	3578	लौगाक्षिगृह्यसूत्राणि।। देवपालकृतभाष्योपेतानि।।	सं. पं० मधुसूदन कौल शास्त्री	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	450.00	–
0000 A	3579	किरातार्जुनीयम्	सं. नारायण राम आचार्य 'काव्यतीर्थ'	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	375.00	–
0000 A	3580	The Founder of Jainism	Risabha Deva	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	325.00	–
0000 A	3581	The Key of Knowledge	Champat Rai Jain	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	1250.00	–
0000 A	3582	The Confluence of Opposites Or Comparative Religion	Champat Rai Jain	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	600.00	–

0000 A	3583	मुण्डकोपनिषद्	सं. डॉ० शशि तिवारी	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	85.00	–
0000 A	3584	निरुक्त पंचाध्यायी (अध्यायाः 1 से 5)	म.म.पं. छजजूराम शास्त्री, देव शर्मा तथा भागीरथ शास्त्री	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	225.00	–
0000A	3585	निरुक्तम्	म.म.पं. छजजूराम शास्त्री, देव शर्मा तथा भागीरथ शास्त्री	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	475.00	–
0000 A	3586	स्वप्रवासवदत्तम्	डॉ० धमेन्द्र कुमार गुप्त	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	95.00	–
0000 A	3587	तर्कसंग्रहः – अन्नम्भट्टकृतः	नृसिंहदेव शास्त्री तथा माधव शास्त्री भण्डारी	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	35.00	–
0000 A	3588	आश्वलायन–गृह्यमंत्रव्याख्या	सं. के. साम्बशिव शास्त्री	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	450.00	–
0000 A	3589	अथर्ववेदीया–माण्डूकीशिक्षा	सं. पं० भगवद्दत्त	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	48.00	–
0000 A	3590	अथर्वप्रातिशाख्यम्	सं. डॉ० सूर्यकांत	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	1950.00	–
0000 A	3591	अथर्ववेदीय–पंचपटलिका	सं. पं० भगवद्दत्त	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	35.00	–
0000 A	3592	भारद्वाजगृह्यसूत्रम्	सं. एच.जे.डब्ल्यू. सालोमोन्स	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	225.00	–
0000 A	3593	बोधायनगृह्यसूत्रम्	सं. आर. शामशास्त्री	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	495.00	–
0000 A	3594	Collection of the Fragments of Lost Brahmanas	Dr. Batakrishna Ghosh	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	In Press	–
0000 A	3595	दुर्गासप्तशती (स्थूलाक्षर)		मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	125.00	–
0000 A	3596	कपिष्ठलकठसंहिता	सं. डॉ० रघुवीर	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	495.00	–
0000 A	3597	काठकगृह्यसूत्रम्	सं. डॉ० डब्ल्यू. कालण्ड	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	500.00	–
0000 A	3598	काठकसंकलनम्	सं. डॉ० सूर्यकांत	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	350.00	–
0000 A	3599	कौषीतकगृह्यसूत्रम्	सं. टी. आर. चिन्तामणि	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	445.00	–
0000 A	3600	सामसप्तलक्षणसहितो लघुऋक्तंत्रसंग्रहः	सं. डॉ० सूर्यकांत	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	175.00	–
0000 A	3601	Manava-Grhyasutra of the Maitrayaniya Sakha		मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	375.00	–
0000 A	3602	मत्स्यमहापुराणम्	सं. डॉ० पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स		–
0000 A	3603	श्रीमृगेन्द्रतंत्रम् (विद्या–योग पादौ)	सं. पं० मधुसूदन कौल शास्त्री	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	295.00	–
0000 A	3604	मुण्डकोपनिषद्	सं. डॉ० शशि तिवारी	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	85.00	–
0000 A	3605	निदानसूत्रम् – आचार्यपतंजलिप्रोक्तम्	सं. डॉ० क.न. भटनागर	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	450.00	–
0000 A	3606	निरुक्तम् – यास्कमुनिप्रणीतं	सं. मुकुन्द झा बख्शी	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	In Press	–
0000 A	3607	निरुक्तम् – यास्कमुनिप्रणीतं	म.म.पं. छजजूराम शास्त्री, देव शर्मा तथा भागीरथ शास्त्री	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	475.00 (PB) 675.00 (HB)	–
0000 A	3608	निरुक्त पंचाध्यायी (अध्यायाः 1 से 5)	म.म.पं. छजजूराम शास्त्री, देव शर्मा तथा भागीरथ शास्त्री	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	225.00	–
0000 A	3609	निरुक्त भाष्यटीका – 2 भाग (स्कन्दस्वामि–महेश्वरविरचिता)	सं. डॉ० लक्ष्मण स्वरूप	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	2750.00 Per Set	–

0000 A	3610	न्यायामृताद्वैतसिद्धी	सं. अनन्तकृष्ण शास्त्री	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स		–
0000 A	3611	ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ऑफ स्वामी दयानन्द सरस्वती	डॉ० परमानन्द	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	575.00	–
0000 A	3612	ऋक्तंत्रम्।। सामप्रातिशाख्यम्।।	सं. डॉ० सूर्यकांत	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	300.00	–
0000 A	3613	श्रीशंकरविजयमकरन्दः	सं. वैद्य शि.वे. राधाकृष्णशास्त्री	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	120.00	–
0000A	3614	शांखायन–श्रौतसूत्रम् – दो भाग	डॉ० आल्फ्रेड हिल्लेब्रांड्ट	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	1650.00	–
0000 A	3615	सत्याषाढश्रौतसूत्रम्	सं. आर. एस. शास्त्री	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	In Press	–
0000 A	3616	तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्	सं. वी. वेंकटराम शर्मा	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	375.00	–
0000 A	3617	तैत्तिरीयोपनिषभ्दाष्यवार्तिक	अनु. राधेश्याम शास्त्री	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	125.00	–
0000 A	3618	तर्कसंग्रहः	नृसिंहदेव शास्त्री दर्शनाचार्य	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	35.00	–
0000 A	3619	वराहमहापुराणम्	सं. डॉ० के.वी. शर्मा	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स		–
0000 A	3620	वाराहगृह्यसूत्रम्	सं. डॉ० रघुवीर	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	145.00	–
0000 A	3621	वैखानसस्मार्तसूत्रम् (वैखानसगृह्यसूत्रम् वैखानसधर्मसूत्रं च)	सं. डॉ० डब्ल्यू. कालण्ड	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	225.00	–
0000 A	3622	Cultural Gleanings from the Brahmana Literature	Dr. Sunanda Keshav Tilak	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	300.00	–
0000 A	3623	Critical Studies on Katyayana's Sukla Yajurveda Pratisakhya	V. Venkatarama Sharma	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	475.00	–
0000 A	3624	Epic Syntax	Dr. K. Meenakshi	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	250.00	–
0000 A	3625	(The) Mahabharata : A criticism	Dr. C.V. Vaidya	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	95.00	–
0000 A	3626	(The) Riddle of the Ramayana	Dr. C.V. Vaidya	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	125.00	–
0000 A	3627	Rigveda Repetitions	Maurice Bloomfield	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	950.00	–
0000 A	3628	Satapatha Brahmana : Eka Sanskrtika Adhyayana	Dr. U.D. Sharma	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	150.00	–
0000 A	3629	सूर्य देवता	डॉ० शशि तिवारी	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	160.00	–
0000 A	3630	(The) Synthetic Philosophy of the Bhagavata	Dr. Ramnarayan Vyas	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	100.00	–
0000 A	3631	Upanisadic Symbolism	Dr. Satya Prakash Singh	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	350.00	–
0000 A	3632	उपनिषदों की बोध–कथाएं	डॉ० शशि तिवारी	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	35.00	–
0000 A	3633	वैदिक–देवशास्त्र	डॉ० सूर्यकांत	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	495.00	–
0000 A	3634	(The) Vasistha-Ramayana : A Study	Dr. T.G. Mainkar	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	350.00	–
0000 A	3635	धमेन्द्र–पारमितम्	आर.एन. एरी और आर. के. शर्मा	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	400.00	–
0000 A	3636	Vihangama Yoga : The Science of Consciousness	M.M. Rai	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	200.00	–
0000 A	3637	Cultural Gleanings from the Brahmana Literature	Dr. Sunanda Keshav Tilak	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	300.00	–
0000 A	3638	Historical Mahakavyas in Sanskrit (11th to 15th century A.D.)	Dr. Chandra Prabha	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	450.00	–

0000 A	3639	प्राचीन भारतीय युद्ध–पद्धति – सचित्र	डॉ० उमा प्रसाद थपलियाल	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	160.00	–
0000 A	3640	समराङ्गण–सूत्रधार–वास्तुशास्त्रम् – भवननिवेशः	सं. डॉ० द्विजेन्द्रनाथ शुक्ल	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	175.00	–
0000 A	3641	(The) Mahabharata : A criticism	Dr. C.V. Vaidya	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	95.00	–
0000 A	3642	(The) Riddle of the Ramayana	Dr. C.V. Vaidya	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	75.00	–
0000A	3643	संस्कृत नाटकों में समाज–चित्रण	डॉ० चित्रा शर्मा	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	150.00	–
0000 A	3644	शतपथ ब्राह्मण : एक सांस्कृतिक अध्ययन	डॉ० उर्मिला देवी शर्मा	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	150.00	–
0000 A	3645	Society and Culture in the time of Dandin	Dr. D.K. Gupta	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	450.00	–
0000 A	3646	Abhijnana-Sakuntalam of Kalidasa	Dr. Shivraj Shastri	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	95.00	–
0000 A	3647	Alamkara-Sarvasva of Ruyyaka	S.S. Janaki	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स		–
0000 A	3648	Avimaraka	Bak Kumbae	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	60.00	–
0000 A	3649	Avimaraka & Balacarita (Bhasa's)	Bak Kumbae	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स		–
0000 A	3650	Balacarita	Bak Kumbae	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	45.00	–
0000 A	3651	भल्लटशतकम् – कश्मीरकविभल्लटकृतं	सं. डॉ० वेद कुमारी घई तथा डॉ० रामप्रताप	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	75.00	–
0000 A	3652	श्रीबोधिसत्त्वचरितम्	डॉ० सत्यव्रत शास्त्री	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	95.00	–
0000 A	3653	Sri Bodhisattvacarita	Dr. Satyavrat Shastri	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	95.00	–
0000 A	3654	Camatkara-Candrika of Visvesvara Kavicandra	Dr. P.S. Mohan	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	300.00	–
0000 A	3655	Dhvanyaloka-Locana of Abhinavagupta	Dr. K. Krishnamoorthy	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	95.00	–
0000 A	3656	Gitagovindakavya of Jayadeva	N.R. Acharya	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	120.00	–
0000 A	3657	Kautaliya Arthasastra	Udaivir Shastri	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	845.00	–
0000 A	3658	Kavyadarsa of Dandin	Dr. D.K. Gupta	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	450.00	–
0000 A	3659	Kavyanusasana of Hemacandra	Mm. Pt. Sivadatta & K.P. Parab	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	175.00	–
0000 A	3660	Kiratarjuniya of Bharavi	N.R. Acharya	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	375.00	–
0000 A	3661	Naisadhiyacarita of Sri Harsa	N.R. Acharya	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स		–
0000 A	3662	Sahitya Darpana of Visvanatha	Durgaprasad Dvivedi	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	575.00	–
0000 A	3663	Sahitya Darpana of Visvanatha	Dr. Dev Dutt Kaushik	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	225.00	–
0000 A	3664	Subhasita-Ratna-Bhandagara or Gems of Sanskrit Poetry	N.R. Acharya	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	395.00	–
0000 A	3665	Sivakathamrtam Mahakavyam	Chhajjuram Shastri	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	95.00	–
0000 A	3666	Sukanasopadesa of Banabhatta	Dr. Prahlad Kumar	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	120.00	–
0000 A	3667	Svapnavasavadatta of Bhasa	Dr. D.K. Gupta	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	95.00	–

0000 A	3668	Vrttaratnakara of Kedarabhatta	Nrisimhadev Shastri	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	45.00	–
0000 A	3669	Critical Study of Dandin and his Works	Dr. Dharmendra Kumar Gupta	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	250.00	–
0000 A	3670	Indian Literary Theories : A reappraisal	Dr. K. Krishnamoorthy	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	250.00	–
0000 A	3671	Kalidasa Citations	N.R. Subbanna	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	250.00	–
0000A	3672	Kalidasa's Vision of Kumarasambhaya	Dr. Suryakanta	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	150.00	–
0000 A	3673	(The) Kavya-portions in the Katha-literature : An analysis - 3 Vols.	Dr. Ludwik Sternbach	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	550.00	–
0000 A	3674	(The) Mahabharata : A literary study	Dr. J.P. Sinha	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	150.00	–
0000 A	3675	Mind and Art of Bhavabhuti	Dr. Vimla Gupta	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	275.00	–
0000 A	3676	Observations on the Life and Works of Bhavabhuti	Dr. R.G. Harshe	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	50.00	–
0000 A	3677	Subandhu and Dandin	Dr. Maan Singh	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	475.00	–
0000 A	3678	(The) Tragicomedies of Shakespeare, Kalidasa and Bhavabhuti	Dr. P.B. Acharya	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	250.00	–
0000 A	3679	Anuvada Tarangini	Pt. Dev Sharma	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	30.00	–
0000 A	3680	तुलसी–रामायण शब्द–सूची	डॉ० सूर्यकांत	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	495.00	–
0000 A	3681	व्याकरण–महाभाष्यम् (पतंजलि–कृतं) प्रथम भाग	वेद प्रकाश	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	35.00	–
0000 A	3682	व्याकरण–महाभाष्यम् (पतंजलि–कृतं) द्वितीय भाग	वेद प्रकाश	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	80.00	–
0000 A	3683	व्याकरण–महाभाष्यम् (पतंजलि–कृतं) – प्रथम आहिनकद्वय	वेद प्रकाश	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	55.00	–
0000 A	3684	Cakradatta of Cakrapani	Pt. Sadanand Shastri	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	445.00	–
0000 A	3685	Rasaratnasamuccaya of Vagbhatacarya	D.A. Kulkarni & D.D. Saubhari	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	325.00	–
0000 A	3686	Sarngadhara-Samhita	Hardayal Vaidya Vachaspati	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स		–
0000 A	3687	Susruta-Samhita	Dr. B.G. Ghanekar	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स		–
0000 A	3688	Madhavanidana of Madhavakara (1 Vol.)	Pt. Dinanath Shastri Vaidyavachaspati	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	150.00	–
0000 A	3689	Madhavanidana of Madhavakara (2 Vol.)	Pt. Dinanath Shastri Vaidyavachaspati	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	150.00	–
0000 A	3690	माधवनिदान – परीक्षा परिशिष्ट भाग	आयुर्वेदाचार्य बंसरीलाल साहनी	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	40.00	–
0000 A	3691	(The) Surgical Instruments of the Hindus	Girindranath Mukhopadhyaya	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	475.00	–
0000 A	3692	अभिनन्दकृत रामचरितम्	डॉ० रामजीत मिश्र	नाग पब्लिशर्स	299.00	–
0000 A	3693	आचार्य दण्डी की साहित्य साधना	डॉ० काशीनाथ तिवारी	नाग पब्लिशर्स	200.00	–
0000 A	3694	अद्वैतवेदान्ते भामतीप्रस्थानस्य तुलनात्मकमध्ययनम्	डॉ० एम. वसन्ता	नाग पब्लिशर्स	600.00	–
0000 A	3695	आधुनिक भारत में संस्कृत की उपादेयता	सं. प्रो. कृष्णलाल	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	3696	आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय दर्शन की	सं. डॉ० शशि प्रभा कुमार	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	3697	Adhyatmaramayana	Dr. K.P.A. Menon	नाग पब्लिशर्स	700.00	–

0000 A	3698	अद्वैत तत्व सुधा	अनन्त कृष्ण शास्त्री	नाग पब्लिशर्स	2000.00	–
0000 A	3699	आद्युप पुराणम्	डॉ० बृजेश कुमार शुक्ल	नाग पब्लिशर्स	250.00	–
0000 A	3700	संस्कृत साहित्य और सौन्दर्य चेतना	सं. प्रो. पुष्पेन्द्र कुमार	नाग पब्लिशर्स	200.00	–
0000A	3701	अग्नि महापुराण	डॉ० आर.एन. शर्मा	नाग पब्लिशर्स	800.00	–
0000 A	3702	ऐतरेय एवं तैत्तिरीय ब्राह्मणों के निर्वचन	डॉ० सरोज दीक्षा वेदालंकार	नाग पब्लिशर्स	200.00	–
0000 A	3703	ऐतरेय ब्राह्मण		नाग पब्लिशर्स	900.00	–
0000 A	3704	अजाशती	डॉ० भास्कराचार्य त्रिपाठी	नाग पब्लिशर्स	44.00	–
0000 A	3705	अक्षरा	डॉ० भास्कराचार्य त्रिपाठी	नाग पब्लिशर्स	109.00	–
0000 A	3706	अमृताहरणम्	सं. डॉ० गयाचरण त्रिपाठी	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	3707	अमूर्त वैदिक देवता	डॉ० लक्ष्मी मिश्रा	नाग पब्लिशर्स	165.00	–
0000 A	3708	Analysis of Puranas	H.H. Wilson	नाग पब्लिशर्स	Out of Print	–
0000 A	3709	Ancient Books of India	E.A. Reed	नाग पब्लिशर्स	Out of Print	–
0000 A	3710	Ancient India According	Dr. R.N. Sharma	नाग पब्लिशर्स	Out of Print	–
0000 A	3711	अनूपविलासः आचाररत्नम्	डॉ० देवदत्त चतुर्वेदी	नाग पब्लिशर्स	100.00	–
0000 A	3712	अपराध और अर्थशास्त्र	डॉ० रेनू शर्मा	नाग पब्लिशर्स	250.00	–
0000 A	3713	अपरोक्षानुभूति–शंकराचार्य के संदर्भ में	जानकी देवी	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	3714	अरिनाशक–दुर्गाशतकम्	डॉ० भास्कराचार्य त्रिपाठी	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	3715	अर्थविज्ञानः संस्कृत व्याकरण एवं काव्यशास्त्र का योगदान	डॉ० कमलाकांत मिश्र	नाग पब्लिशर्स	200.00	–
0000A	3716	आर्यासप्तशती	आचार्य गोवर्धनः अनन्त	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	3717	आर्यासप्तशती	डॉ० उदयनाथ झा	नाग पब्लिशर्स	350.00	–
0000 A	3718	Ascaryachudamani	Dr. K.P.A. Menon	नाग पब्लिशर्स	200.00	–
0000 A	3719	आश्चर्यचूडामणि	डॉ० संतोष	नाग पब्लिशर्स	200.00	–
0000 A	3720	अष्टादश पुराण दर्पण	ज्वाला प्रसाद मिश्र	नाग पब्लिशर्स	300.00	–
0000 A	3721	अष्टादश स्मृति	सं. नागशरण सिंह	नाग पब्लिशर्स	400.00	–
0000 A	3722	आश्वलायन गृह्यसूत्र परिशिष्ट		नाग पब्लिशर्स	In Press	–
0000 A	3723	अश्मेधविवेकः	डॉ० दिवाकर महापात्रा	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	3724	अथर्ववेद संहिता		नाग पब्लिशर्स	300.00	–
0000 A	3725	अथर्ववेद मूल		नाग पब्लिशर्स	Out of Print	–
0000 A	3726	Atharvaveda Samhita	W.D. Whiteny	नाग पब्लिशर्स	1200.00	–
0000 A	3727	अथर्ववेदीय परिशिष्ट ग्रंथों का परिशीलन	सं. प्रो. ओमप्रकाश पाण्डेय	नाग पब्लिशर्स	175.00	–
0000 A	3728	आयुर्वेद ग्रन्थावली	डॉ० आर.एन. शर्मा	नाग पब्लिशर्स	600.00	–
0000 A	3729	बालानाम् सुबोधनम्	प्रो. प्रभाकर नारायण कवठेकर	नाग पब्लिशर्स	45.00	–
0000 A	3730	बालरामायणम्	डॉ० भास्कराचार्य त्रिपाठी	नाग पब्लिशर्स	300.00 (set)	–
0000 A	3731	बौद्धधर्मे तथा पुराणेषु करुणा	सुन्थर्न–धम्मथडा	नाग पब्लिशर्स	275.00	–
0000 A	3732	Belief and Reality	Dr. V.V. Rampal	नाग पब्लिशर्स	350.00	–
0000 A	3733	The Bhagavata Bhakti Cult and Three Advaita Acharyas	Dr. R.N. Vyas	नाग पब्लिशर्स	200.00	–
0000 A	3734	भागवत् महापुराण	डॉ० आर.एन. शर्मा	नाग पब्लिशर्स	3000.00	–
0000 A	3735	भागवतैकादश स्कन्द	सं. डॉ० सी.आर. स्वामीनाथन	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	3736	Bhagawadgita and Contemporary Crisis	Kireet Joshi	नाग पब्लिशर्स	350.00	–
0000 A	3737	भागीरथीदर्शनम् महाकाव्यम्	डॉ० गोस्वामी बलभद्रप्रसाद शास्त्री	नाग पब्लिशर्स	100.00	–
0000 A	3738	भाणपरम्परायां पञ्चायुधप्रपञ्चभाणस्य	डॉ० प्रदीप कुमार पाण्डेय	नाग पब्लिशर्स	250.00	–
0000 A	3739	भार्गवविक्रमम् नाम	श्री मतिनाथ मिश्र	नाग पब्लिशर्स	100.00	–
0000 A	3740	भरतचरितं महाकाव्यम्	डॉ० राम कुमार शर्मा	नाग पब्लिशर्स	80.00	–
0000 A	3741	भारतीय दर्शन शब्द, अर्थ एवं उनके संबंध	डॉ० प्रियम्वदा कुमारी पाण्डेय	नाग पब्लिशर्स	300.00	–
0000 A	3742	भारतीय दर्शनेषु माया स्वरूप विमर्श	डॉ० शशिबाला गौड़	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	3743	भारतीयसंस्कृतितत्वविमर्श	डॉ० अशोकचन्द्र गौड शास्त्री	नाग पब्लिशर्स	600.00	–
0000 A	3744	भर्तृहरिनिर्वेदनाटकम्	सं. मनोजनाथ झा	नाग पब्लिशर्स	100.00	–
0000A	3745	Bhartrihari-Shataktrayam	Gopinath Purohit & N.S. Singh	नाग पब्लिशर्स	250.00	–

0000 A	3746	Bhasa Afresh	N.P. Unni	नाग पब्लिशर्स	350.00	–
0000 A	3747	भास के नाटक	पं. चन्द्रशेखर उपाध्याय तथा श्री अनिल कुमार उपाध्याय	नाग पब्लिशर्स	900.00	–
0000 A	3748	भट्टिकाव्यम्	सं. विनायक नारायण शास्त्री जोशी तथा वासुदेव लक्ष्मण शास्त्री पणसिकर	नाग पब्लिशर्स	In Press	–
0000 A	3749	भट्टोजिदीक्षितेन नागेशभट्टेन च प्रतिपादितानां केषा न वैयाकरण सिद्धान्तानां तुलनात्मकध्ययनम्	डॉ० सुरेन्द्र झा	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	3750	भविष्यमहापुराण	डॉ० आर.एन. शर्मा	नाग पब्लिशर्स	2000.00 (set)	–
0000 A	3751	भूलोक विलोकनम्	पी. एन. कवठेकर	नाग पब्लिशर्स	46.00	–
0000 A	3752	Brahmi Scripts : Its Palaeography	Dr. Ravindra Kumar Vasisthas	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	3753	भृडिगश संहिता	डॉ० अनन्तराम शास्त्री	नाग पब्लिशर्स	180.00	–
0000 A	3754	ब्रह्म महापुराण	डॉ० आर.एन. शर्मा	नाग पब्लिशर्स	1200.00	–
0000 A	3755	श्री कण्ठाचार्य विरचित ब्रह्मसूत्र भाष्य		नाग पब्लिशर्स	Out of Print	–
0000 A	3756	ब्रह्मसूत्रशांकरभाष्यम्	डॉ० योगेश्वर दत्त शर्मा	नाग पब्लिशर्स	5000.00 (set)	–
0000 A	3757	ब्राह्मस्फुटसिद्धांतस्य समीक्षात्मकमध्ययनम्	विद्यावाचस्पति डॉ० शिवाकांत झा	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	3758	ब्रह्मवैवर्त्त महापुराण		नाग पब्लिशर्स	In Press	–
0000 A	3759	Brihaspati in the veds and the puranas	Dr. (Mrs.) Saraswati Bali	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	3760	Buddha and Buddhism	H.H. Wilson	नाग पब्लिशर्स	Out of Print	–
0000 A	3761	Buddhist Praying Wheel	William Simpson	नाग पब्लिशर्स	300.00	–
0000 A	3762	Chaitanya Bhagavata : A Study	Asoke Chatterjee Shastri	नाग पब्लिशर्स	200.00	–
0000 A	3763	Chandogya and Kausitaki Brahmana Upanishads	E.B. Cowell	नाग पब्लिशर्स	Out of Print	–
0000 A	3764	छनद विवेचनत	डॉ० सविता	नाग पब्लिशर्स	300.00	–
0000 A	3765	चाणक्य राजनीति शास्त्र	सं. पं. ईश्वर चन्द्र शास्त्री विद्यासागर	नाग पब्लिशर्स	60.00	–
0000 A	3766	Charaka Samhita : A Sample Survey	Ram Karan Sharma	नाग पब्लिशर्स	100.00	–
0000 A	3767	चार शुल्बसूत्र	अनु. डॉ० र. पु. कुलकर्णी	नाग पब्लिशर्स	320.00	–
0000 A	3768	The Concept of Apavarga in Samkhya Philosophy	Dr. K.P. Kesavan Nampoothiri	नाग पब्लिशर्स	Out of Print	–
0000 A	3769	The Concept of Daiva in The Mahabharata	Dr. S. Bharadwaj	नाग पब्लिशर्स	120.00	–
0000 A	3770	The Concept of purusarthas	Dr. Samiran Chandra Chakrabarti	नाग पब्लिशर्स	185.00	–
0000 A	3771	Concept of Rebirth	Dr. Salila Nayak	नाग पब्लिशर्स	350.00	–
0000 A	3772	Concept of Sentence Analysis in Nyaya Philosophy	Dr. Punita Sharma	नाग पब्लिशर्स	157.00	–
0000 A	3773	The Concept of shakti in the puranas	Dr. (Mrs.) Usha Dev	नाग पब्लिशर्स	Out of Print	–
0000A	3774	The Concept of religion in the mahabharata	Dr. (Mrs.) U.R. Trikha	नाग पब्लिशर्स	Out of Print	–
0000 A	3775	Contribution of mithila to sanskrit kavya and sahitya sastra	Dr. Trilokanatha Jha	नाग पब्लिशर्स	50.00	–
0000 A	3776	Cosmogony in the vedas	Rammurti Sharma	नाग पब्लिशर्स	60.00	–
0000 A	3777	Critical studies of the ritual legends from the brahmana texts	Dr. (Mrs.) Parineeta Deshpande	नाग पब्लिशर्स	In Press	–
0000 A	3778	Culture & Civilization as revealed in the shrauta-sutras	Dr. R.N. Sharma	नाग पब्लिशर्स	Out of Print	–
0000 A	3779	Curse as a motif In the mahabharata	Dr. P.V. Ramankutty	नाग पब्लिशर्स	300.00	–
0000 A	3780	Deva Katha Rasa	Dr. Vijayashree	नाग पब्लिशर्स	120.00	–
0000 A	3781	देवकोश अथवा अमरकोश	देवदत्त तिवारी	नाग पब्लिशर्स	250.00	–
0000 A	3782	देवीभागवत महापुराण	प्रो. पुष्पेन्द्र कुमार	नाग पब्लिशर्स		–
0000 A	3783	धर्मशास्त्र : आधुनिक संदर्भ में	सं. डॉ० श्रीमती एस. नारंग	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	3784	Dictionary (Kosha) of Sanskrit Language	H.T. Colebrooke	नाग पब्लिशर्स	250.00	–
0000 A	3785	Divine Incarnation : A Mystry	M.N. Krishnamani	नाग पब्लिशर्स	100.00	–
0000 A	3786	Doctrine of karma and rebirth in Indian thought	Dr. Shashi Prabha Kumar	नाग पब्लिशर्स	In Press	–

0000 A	3787	Dravyagunasatasloki of Trimallabhatta	C.M. Neelakandhan	नाग पब्लिशर्स	250.00	–
0000 A	3788	एकादशी	डॉ० इच्छाराम द्विवेदी 'प्रणव'	नाग पब्लिशर्स	50.00	–
0000 A	3789	एकाम्र पुराण	प्रो. यू.एन. ढल	नाग पब्लिशर्स	600.00	–
0000 A	3790	Elements of political science in the mahabharata	Anantalal Thakur	नाग पब्लिशर्स	80.00	–
0000 A	3791	An Encyclopaedia of Religions	M.A. Canney	नाग पब्लिशर्स	350.00	–
0000 A	3792	इष्टापूर्त्तकौमुदी	सं. डॉ० बालाजीशतपथी	नाग पब्लिशर्स	300.00	–
0000 A	3793	Etymologies in shatapatha brahmana	Dr. Nargis Verma	नाग पब्लिशर्स	250.00	–
0000 A	3794	Evolution of hindu moral ideals	P.S.S. Aiyar	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	3795	Evolution of Indian polity	R. Shama Shastri	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	3796	Female Deities in vedic and epic literature	Dr. Vidya Dhar Sharma Guleri	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	3797	Fifty stories from yogavasistha	Dr. Vijayshree	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	3798	Gangalahari	Panditaraja Jagannathas	नाग पब्लिशर्स	200.00	–
0000 A	3799	गरुड़ महापुराणम्	डॉ० आर.एन. शर्मा	नाग पब्लिशर्स	900.00	–
0000 A	3800	गायत्री पञ्चदशी	अरुण कुमार उपाध्याय	नाग पब्लिशर्स	180.00	–
0000 A	3801	गौतम ऋषियों का वैदिक वा मय में योगदान	वेदाचार्य डॉ० केशव प्रसाद मिश्र	नाग पब्लिशर्स	120.00	–
0000 A	3802	Geographical Survey of the puranas	Dr. Savitri Sexena	नाग पब्लिशर्स	200.00	–
0000A	3803	The Gita and the Quran : A Comparative Study	Dr. M.K. Durrany	नाग पब्लिशर्स	Out of Print	–
0000 A	3804	गीतमन्दाकिनी	डॉ० इच्छाराम द्विवेदी 'प्रणव'	नाग पब्लिशर्स	60.00	–
0000 A	3805	Gitas in mahabharata & Puranas	Dr. (Mrs.) R. Nilkantan	नाग पब्लिशर्स	200.00	–
0000 A	3806	Glimpses of Indian Philosophy and Sanskrit Literature	Dayanand Bhargava	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	3807	Glory that was virajakshetra	Dr. U.N. Dhal	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	3808	Godly Men and Their Golden Words	M.N. Krishnamani	नाग पब्लिशर्स	500.00	–
0000 A	3809	Governance in Ancient India	Uma Vaidya, Dr. Gauri Mahulikar & Dr. Asawari Bapat	नाग पब्लिशर्स	400.00	–
0000 A	3810	Grammars and Dictionaries of sanskrit language	H.H. Wilson	नाग पब्लिशर्स	80.00	–
0000 A	3811	गृहस्थरत्नाकर	डॉ० नीना डोगरा	नाग पब्लिशर्स	250.00	–
0000 A	3812	गृह्यानुष्ठानों का सांस्कृतिक अन्वेषण	डॉ० रीना अस्थाना	नाग पब्लिशर्स	250.00	–
0000 A	3813	गृह्यसूत्राणि		नाग पब्लिशर्स	In Press	–
0000 A	3814	गुरु–शिष्य संबंध	डॉ० फूलकांत मिश्र	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	3815	गुरु वचन सुधा	डॉ० सी.आर. स्वामीनाथन	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	3816	Hanuman in Valmikis Ramayana	Irma Schotsman	नाग पब्लिशर्स	500.00	–
0000 A	3817	Harappa Civilization and vedas	Pushpendra Kumar	नाग पब्लिशर्स	In Press	–
0000 A	3818	The Harivansa Purana	Dr. K.P.A. Menon	नाग पब्लिशर्स	1000.00	–
0000 A	3819	हरिवंश पुराण	प्रो. चारुदेव शास्त्री	नाग पब्लिशर्स	2500.00	–
0000 A	3820	Hindu Dharma Shastra		नाग पब्लिशर्स	3000.00 (set)	–
0000 A	3821	Hindu Fiction	H.H. Wilson	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	3822	Hindu India from original sources	S.K. Aiyangar	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	3823	Historical and critical studies in atharvaveda	Dr. S.K. Bali	नाग पब्लिशर्स	300.00	–
0000 A	3824	Historical Gleanings	B.C. Law	नाग पब्लिशर्स	70.00	–
0000 A	3825	History of Samkhya Philosophy	A.B. Keith	नाग पब्लिशर्स	70.00	–
0000 A	3826	Impact of sri ramanujacharya on temple worship	Sarojini Jagannathan	नाग पब्लिशर्स	350.00	–
0000 A	3827	संस्कृत अभिलेखों में भारत	सं. प्रो. पुष्पेन्द्र कुमार	नाग पब्लिशर्स	Out of Print	–
0000 A	3828	इन्दिराजीवनम् महाकाव्य	डॉ० गोस्वामी बलभद्रप्रसाद शास्त्री	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	3829	Indo-Aryan Polity	P.C. Basu	नाग पब्लिशर्स	70.00	–
0000 A	3830	Indra and Varuna in Indian Mythology	Dr. (Mrs.) Usha Choudhary	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	3831	Introduction to Puranas	Nag Sharan Singh	नाग पब्लिशर्स	30.00	–
0000A	3832	Introduction to tantras and their philosophy	P. Kumar	नाग पब्लिशर्स	150.00	–

0000 A	3833	Issues in Veda and Astrology	Haribhai Pandya	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	3834	Juridical Studies in Kalidasa	Dr. S.P. Narang	नाग पब्लिशर्स	50.00	–
0000 A	3835	ज्ञापकसमुच्चय	डॉ० अमिता शर्मा	नाग पब्लिशर्स	250.00	–
0000 A	3836	जैमिनीयसामवेदसंहिता	के.ए. रवीन्द्रन	नाग पब्लिशर्स	600.00	–
0000 A	3837	ज्योतिषां ज्योतिः	डॉ० जगन्नाथ वेदालंकार	नाग पब्लिशर्स	250.00	–
0000 A	3838	Jnanabhaisajyamanjari Gumani Kavi's	Ram Karan Sharma	नाग पब्लिशर्स	100.00	–
0000 A	3839	कादम्बरी बाणभट्ट–भूषणभट्ट		नाग पब्लिशर्स	Out of Print	–
0000 A	3840	कादम्बरी का बिम्ब–विधन	डॉ० अवधेश पाण्डेय	नाग पब्लिशर्स	In Press	–
0000 A	3841	Kala-Prakasika	Punita Sharma	नाग पब्लिशर्स	In Press	–
0000 A	3842	Kalidasa : A Fresh	Satapal Narang	नाग पब्लिशर्स	700.00	–
0000 A	3843	कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में बिम्ब–विधान	डॉ० अवधेश पाण्डेय	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	3844	कालिदास की कृतियों में धर्मशास्त्रीय विषय	डॉ० श्रीपति त्रिपाठी	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	3845	कालिदास व्यक्ति तथा अभिव्यक्ति	डॉ० प्रभाकर नारायण	नाग पब्लिशर्स	350.00	–
0000 A	3846	Kalika Purana	Bishwanarain Shastri	नाग पब्लिशर्स	1500.00	–
0000 A	3847	कल्कि पुराण	अनु. बलदेव प्रसाद मिश्र	नाग पब्लिशर्स	200.00	–
0000 A	3848	Karma and Re-Birth	Vachaspati Upadhyaya	नाग पब्लिशर्स	In Press	–
0000 A	3849	कर्म–कौमुदी	डॉ० बृजेश कुमार शुक्ल	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	3850	काशिका का समालोचनात्मक अध्ययन	डॉ० रघुवीर वेदालंकार	नाग पब्लिशर्स	500.00	–
0000 A	3851	कश्मीर शब्दामृतम् – काश्मीरी व्याकरण	डॉ० अनन्तराम शास्त्री	नाग पब्लिशर्स	200.00	–
0000 A	3852	Kathamritanidhi	Dr. Rama Sexena	नाग पब्लिशर्स	250.00	–
0000 A	3853	कात्यायनशुल्बसूत्रम् सोपपत्तिकं पर्यालोचनम्	डॉ० रमेशचन्द्र दास शर्मा	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	3854	Kautilya's Arthashastra : An Appraisal	Pushpendra Kumar	नाग पब्लिशर्स	200.00	–
0000 A	3855	किरातार्जुनियम–विमर्श	डॉ० संजु मिश्रा	नाग पब्लिशर्स	Out of Print	–
0000 A	3856	कीर्तिपताका	डॉ० शशिनाथ झा	नाग पब्लिशर्स	100.00	–
0000 A	3857	कूटकाव्यपरम्परायां सीतारावणसंवादझरी	डॉ० ज्ञानधर पाठक	नाग पब्लिशर्स	89.00	–
0000 A	3858	कोविदानन्दस्य समीक्षणम्	डॉ० भवेन्द्र झा	नाग पब्लिशर्स	133.00	–
0000 A	3859	कोविदानन्दविमर्शः	डॉ० सुरेन्द्र महतो	नाग पब्लिशर्स	74.00	–
0000 A	3860	क्रीडा कौशल्यम्	हरि कृष्ण शर्मा	नाग पब्लिशर्स	120.00	–
0000A	3861	Krishnakarnamritam	Dr. K.P.A. Menon	नाग पब्लिशर्स	Out of Print	–
0000 A	3862	Kubera Purana	Asoke Chatterjee Shastri	नाग पब्लिशर्स	500.00	–
0000 A	3863	कुमार सम्भवम् कालिदास विरचित	मल्लिनाथ कृत संजीवनी	नाग पब्लिशर्स	200.00	–
0000 A	3864	कुमार सम्भवम् कालिदास विरचित		नाग पब्लिशर्स	120.00	–
0000 A	3865	कुमारसम्भव का रीति वैज्ञानिक अध्ययन	डॉ० शिव गोविन्द पाण्डेय	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	3866	कूर्म महापुराण	डॉ० सी.आर. स्वामीनाथन	नाग पब्लिशर्स	400.00	–
0000 A	3867	लघु–रघु	डॉ० भास्कराचार्य त्रिपाठी	नाग पब्लिशर्स	49.00	–
0000 A	3868	लघुरूपकसमुच्चय	डॉ० शशिनाथ झा	नाग पब्लिशर्स	In Press	–
0000 A	3869	लगधज्योतिष लगधाचार्य	डॉ० पुनीता शर्मा	नाग पब्लिशर्स	600.00	–
0000 A	3870	ललितासहस्रनाम	आर. प्रसाद	नाग पब्लिशर्स	Out of Print	–
0000 A	3871	ललितासहस्रनाम	वासुदेव लक्ष्मण पणशीकर	नाग पब्लिशर्स	Out of Print	–
0000 A	3872	Lay out of different sacrifices according to srautasutras	Dr. R.P. Kulkarni	नाग पब्लिशर्स	200.00	–
0000 A	3873	Legends in Puranas	S.G. Kantawala	नाग पब्लिशर्स	50.00	–
0000 A	3874	Life and work of buddhaghosa	B.C. Law & Mrs. C.A.F. Rhys Davids	नाग पब्लिशर्स	Out of Print	–
0000 A	3875	Life of Nagarjuna from chinese and tibetan sources	M. Walleser	नाग पब्लिशर्स	Out of Print	–
0000 A	3876	लिंग महापुराण		नाग पब्लिशर्स	900.00	–
0000 A	3877	Linguistic thought in ancient India	Pushpendra Kumar	नाग पब्लिशर्स	100.00	–
0000 A	3878	मदनपरिजातः	सं. पं० मधुसूदन स्मृतिरत्न	नाग पब्लिशर्स	In Press	–
0000 A	3879	महाभारत में नारी	डॉ० कृष्णानन्द पाण्डेयः	नाग पब्लिशर्स	204.00	–

0000 A	3880	मधुराम्लम् निम्बपत्राणी	डॉ० वीणा पाणि पाटनी	नाग पब्लिशर्स	70.00	–
0000 A	3881	माध्यमिक दर्शन का तात्त्विक स्वरूप	डॉ० मुक्तावली	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	3882	मध्यप्रदेशानां संस्कृत साहित्यम् समीक्षात्मकः साहित्येतिहासः	डॉ० निलिम्पः त्रिपाठी	नाग पब्लिशर्स	100.00	–
0000 A	3883	मधु धारा	डॉ० शशिनाथ झा	नाग पब्लिशर्स	51.00	–
0000 A	3884	महाभाष्य दीपिका–एक अध्ययन	डॉ० सविता पाठक	नाग पब्लिशर्स	250.00	–
0000 A	3885	महामहोपाध्याय बालकृष्णमिश्र विरचितम् ''लक्ष्मीश्वरी चरितम्''	डॉ० लक्ष्मीनाथ झा	नाग पब्लिशर्स	100.00	–
0000 A	3886	महामहोपाध्याय डॉ० सर गंगानाथ झा की सारस्वत साधना का अध्ययन	डॉ० अजय मिश्र	नाग पब्लिशर्स	98.00	–
0000 A	3887	महर्षि विश्वामित्रम्	श्री मतिनाथ मिश्र	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	3888	श्री मन्महाभारतम्		नाग पब्लिशर्स	4500.00	–
0000 A	3889	महाभारत श्लोकानुक्रमणी	नागशरण सिंह	नाग पब्लिशर्स	Out of Print	–
0000A	3890	महाभारत नामानुक्रमणी	नागशरण सिंह	नाग पब्लिशर्स	500.00	–
0000 A	3891	महाशक्तिपीठ विन्ध्याचल	सं. डॉ० गयाचरण त्रिपाठी	नाग पब्लिशर्स	230.00	–
0000 A	3892	मन्त्रभागवतम्	अनु. सं. डॉ० विन्धेश्वरीप्रसाद मिश्र	नाग पब्लिशर्स	350.00	–
0000 A	3893	A manual of buddhist philosophy	William Montegomery Mcgovern	नाग पब्लिशर्स	Out of Print	–
0000 A	3894	मानवसौतसूत्रम्	डॉ० प्रमोद बाला मिश्र	नाग पब्लिशर्स	350.00	–
0000 A	3895	मनु स्मृति	पुष्पेन्द्र कुमार	नाग पब्लिशर्स	600.00	–
0000 A	3896	मानुषत्वाददैविकत्वं प्रति	के.पी.ए. मेनोन	नाग पब्लिशर्स	50.00	–
0000 A	3897	मार्कण्डेय महापुराणम्	डॉ० आर.एन. शर्मा	नाग पब्लिशर्स	In Press	–
0000 A	3898	मार्कण्डेय पुराणम्	डॉ० आर.एन. शर्मा	नाग पब्लिशर्स	1000.00	–
0000 A	3899	श्रीमत्स्य पुराणम्	डॉ० श्रद्धा शुक्ला	नाग पब्लिशर्स	700.00	–
0000 A	3900	मत्स्य महापुराण	एन. एस. सिंह	नाग पब्लिशर्स	1500.00	–
0000 A	3901	Matta Vilasa Prahasana	Dr. N.P. Unni	नाग पब्लिशर्स	100.00	–
0000 A	3902	Medicinal Plants of India with speacial reference to ayurveda	Dr. C.K.N. Nair & Dr. N. Mohanan	नाग पब्लिशर्स	2100.00	–
0000 A	3903	मेघदूत की प्रमुख–टीकाओं का तुलनात्मक अध्ययन	डॉ० श्रीमति कुमकुम जिंदल	नाग पब्लिशर्स	80.00	–
0000 A	3904	Meghaduta Studies	Dr. S.P. Narang	नाग पब्लिशर्स	60.00	–
0000 A	3905	Meghasandesha of Kalidasa	Dr. N.P. Unni	नाग पब्लिशर्स	100.00	–
0000 A	3906	मिथिला में वेद ओर वेदांग	डॉ० उदयनाथ झा	नाग पब्लिशर्स	300.00	–
0000 A	3907	Mimansa Philosophy and kumarila bhatta	Biswanarayan Shastri	नाग पब्लिशर्स	50.00	–
0000 A	3908	Modern Evaluation of the mahabharat	R.K. Sharma	नाग पब्लिशर्स	600.00	–
0000 A	3909	मृच्छकटिकस्य धर्मशास्त्रीयसमीक्षा	डॉ० सनन्दनकुमार त्रिपाठी	नाग पब्लिशर्स	250.00	–
0000 A	3910	मुद्राराक्षस	विशाखादत्त	नाग पब्लिशर्स	100.00	–
0000 A	3911	Musikavamsa Maha Kavyam	Dr. K.P.A. Menon	नाग पब्लिशर्स	300.00	–
0000 A	3912	Mysticism in The Upanishads	Dr. Indulata Das	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	3913	श्री हर्षदेव कृत नागानन्द	सं. एम. एम. टी. गनपति शास्त्री	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	3914	Nagarjuna's Ratishastram	A.C. Ghosh	नाग पब्लिशर्स	Out of Print	–
0000 A	3915	नैषध समीक्षा	प्रो. देव नारायण झा	नाग पब्लिशर्स	137.00	–
0000 A	3916	नालायिर दिव्य प्रबंधम् और सूरसागर में कृष्ण कथा का स्वरूप	डॉ० के.ए. जमुना	नाग पब्लिशर्स	100.00	–
0000 A	3917	नारद महापुराण	प्रो. चारूदेव शास्त्री	नाग पब्लिशर्स	1200.00	–
0000 A	3918	नरसिंह पुराण	प्रो. पुष्पेन्द्र कुमार	नाग पब्लिशर्स	450.00	–
0000A	3919	Narasimha Purana	Dr. Siddheswar Jena	नाग पब्लिशर्स	1000.00	–
0000 A	3920	The Narasimha Purana	Dr. S. Jena	नाग पब्लिशर्स	In Press	–
0000 A	3921	Narayaniyam	Dr. K. P. A. Menon	नाग पब्लिशर्स	350.00	–
0000 A	3922	Natyashastra	N.P. Unni	नाग पब्लिशर्स	In Press	–
0000 A	3923	नाट्य शास्त्र का वैदिक आधर	डॉ० नीहारिका चतुर्वेदी	नाग पब्लिशर्स	175.00	–
0000 A	3924	नाट्यत्रयी	रामकृष्ण शर्मा	नाग पब्लिशर्स	75.00	–
0000 A	3925	नवमालती	डॉ० नोदनाथ मिश्र	नाग पब्लिशर्स	100.00	–
0000 A	3926	Nervous System In Yoga and Tantra	Dr. Ashok Majumdar	नाग पब्लिशर्स	Out of Print	–

0000 A	3927	निलिम्प–काव्यम्	डॉ० भास्कराचार्य त्रिपाठी	नाग पब्लिशर्स	215.00	–
0000 A	3928	निरोष्ठ्य–रामचरित–महाकाव्यम्	डॉ० शशिनाथ झा	नाग पब्लिशर्स	60.00	–
0000 A	3929	निरूक्तम	सत्यव्रत साम श्रमीर	नाग पब्लिशर्स	In Press	–
0000 A	3930	Non-Conventional Sources of Energy in the Vedas	Madhukar Ashtikar	नाग पब्लिशर्स	60.00	–
0000 A	3931	न्याय कुसुमांजली	डॉ० वाचस्पति द्विवेदी	नाग पब्लिशर्स	In Press	–
0000 A	3932	न्यायदृष्टया आत्मवादानुचिन्तम्	डॉ० किशोर नाथ झा	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	3933	न्यायावतार	एम.एम.एस.सी. विद्याभूषण	नाग पब्लिशर्स	50.00	–
0000 A	3934	Pada Index of Classical Sanskrit Poems	Satyapal Narang	नाग पब्लिशर्स	600.00	–
0000 A	3935	पद्म महापुराण	प्रो. चारूदेव शास्त्री	नाग पब्लिशर्स	3000.00	–
0000 A	3936	पद्ममहापुराण का साहित्यिक अनुशीलन	डॉ० संजु मिश्रा	नाग पब्लिशर्स	350.00	–
0000 A	3937	पण्डितराजकृताप्प यदीक्षित समीक्षाविवेचनम्	डॉ० गुंजेश्वर चौधरी	नाग पब्लिशर्स	98.00	–
0000 A	3938	पाली निकायों में प्राचीन भारत की सामाजिक और आर्थिक संस्थाएं	डॉ० पी.सी. मिश्र	नाग पब्लिशर्स	175.00	–
0000 A	3939	पाणिनीय धात्वाधिकार–समीक्षा	डॉ० सुजाता त्रिपाठी	नाग पब्लिशर्स	500.00	–
0000 A	3940	पाणिनीय व्याकरणे निपातनसीक्षा	डॉ० तेजपाल शर्मा	नाग पब्लिशर्स	In Press	–
0000 A	3941	Panorama of Proverbs	Sir Bejai Singh	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	3942	परमलघुमञ्जूषा	सं. डॉ० उदयनाथ झा	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	3943	पराशर स्मृति एवम् देवल स्मृति का तुलनात्मक अध्ययन	डॉ० धनपति देवी कश्यप	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	3944	पतंजलिकृत महाभाष्य के श्लोकवार्तिक	डॉ० कमला भारद्वाज	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	3945	पाथेयशतकम्	डॉ० रामकरण शर्मा	नाग पब्लिशर्स	20.00	–
0000 A	3946	Philosophy of Narayaniyam	Dr. (Mrs.) Dharma	नाग पब्लिशर्स	250.00	–
0000 A	3947	The Philosophy of the Upanishads	S.C. Chakravarti	नाग पब्लिशर्स	Out of Print	–
0000A	3948	प्रबंधमंजरी	प्रो. एन.पी. उन्नी	नाग पब्लिशर्स	225.00	–
0000 A	3949	प्राचीन भारतीय अभिलेखों का सांस्कृतिक अध्ययन	डॉ० मेरू प्रभा मिश्र	नाग पब्लिशर्स	200.00	–
0000 A	3950	प्राचीन भारत की राज्यव्यवस्था	डॉ० उदय शंकर पाण्डेय	नाग पब्लिशर्स	200.00	–
0000 A	3951	प्राचीन भारत की दण्ड व्यवस्था	डॉ० वाचस्पति द्विवेदी	नाग पब्लिशर्स	200.00	–
0000 A	3952	प्रदीपोद्युतनम्	डॉ० सुजाता त्रिपाठी	नाग पब्लिशर्स	2356.00 (set)	–
0000 A	3953	Prahasanas in sanskrit literature and kerala stage	Dr. K.K. Malathi Devi	नाग पब्लिशर्स	200.00	–
0000 A	3954	Madhva's Pramana Chandrika	S.K. Maitra	नाग पब्लिशर्स	80.00	–
0000 A	3955	प्रश्न वैष्णवः वैष्णव प्रश्नामिधः	डॉ० उमाकांत झा	नाग पब्लिशर्स	100.00	–
0000 A	3956	प्रताप विजय	श्रीकांत आचार्य	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	3957	प्रत्यभिज्ञाप्रदीपः	डॉ० रामकुमार शर्मा	नाग पब्लिशर्स	80.00	–
0000 A	3958	Prehistoric Ancient and Hindu India	R.D. Banerjee	नाग पब्लिशर्स	120.00	–
0000 A	3959	The Psychological Attitude of Early buddhist philosophy	Anagarika B. Govinda	नाग पब्लिशर्स	Out of Print	–
0000 A	3960	Puranic Concept of Dana	Dr. Kala Acharya	नाग पब्लिशर्स	200.00	–
0000 A	3961	The Puranas & National Integration	Pushpendra Kumar	नाग पब्लिशर्स	360.00	–
0000 A	3962	पुराणेषु इन्द्रचरितम्	डॉ० गंगाधर पण्डा	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	3963	पुरूषार्थ सुधानिधि–ब्रह्म सूत्रावृत्तिः	डॉ० रमामणी श्री निवासन	नाग पब्लिशर्स	120.00	–
0000 A	3964	पुरूष सूक्त	अरूण कुमार उपाध्याय	नाग पब्लिशर्स	300.00	–
0000 A	3965	राधापरिणय महाकाव्यम्	डॉ० शशिनाथ झा	नाग पब्लिशर्स	120.00	–
0000 A	3966	राजतंरगिणी	डॉ० आलोक क्षेत्रिय	नाग पब्लिशर्स	In Press	–
0000 A	3967	राजरानी गंगादेवी और उनका काव्यशिल्प	डॉ० श्रीमती शारदा मिश्र	नाग पब्लिशर्स	300.00	–
0000 A	3968	रस–मंजरी	डॉ० सविता	नाग पब्लिशर्स	250.00	–
0000 A	3969	रसिकमनोरंजिनी	डॉ० शशिनाथ झा	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	3970	Religion and Philosophy of the Padma Purana	Dr. (Mrs.) Sharda Arya	नाग पब्लिशर्स	250.00	–
0000 A	3971	ऋग्वेदीयम्	विमलानन्द जी	नाग पब्लिशर्स	80.00	–
0000 A	3972	ऋग्वेद में युगल देवता एक अध्ययन	डॉ० कुमकुम पाठक	नाग पब्लिशर्स	500.00	–
0000 A	3973	Rigveda Samhita	H.H. Wilson	नाग पब्लिशर्स	2000.00	–

0000 A	3974	ऋग्वेद परिचय	श्री नाग शरण सिंह	नाग पब्लिशर्स	60.00	–
0000 A	3975	ऋग्वेद संहिता	शिवनाथ आहिताग्नि	नाग पब्लिशर्स	Out of Print	–
0000 A	3976	ऋग्वेद संहिता		नाग पब्लिशर्स	Out of Print	–
0000A	3977	ऋग्वेद संहिता		नाग पब्लिशर्स	460.00	–
0000 A	3978	ऋग्वेद संहिता	पं. राम गोविन्द त्रिवेदी	नाग पब्लिशर्स	In Press	–
0000 A	3979	ऋग्वेदस्य दार्शनिकधरातलम्	डॉ० ओ. कारनाथ तिवारी	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	3980	रूक्मिणिकल्याणं महाकाव्यम्	डॉ० सुरिन्दर कौर	नाग पब्लिशर्स	500.00 (set)	–
0000 A	3981	रूपमालाविमर्शः	डॉ० सुरेशचन्द्र शर्मा	नाग पब्लिशर्स	100.00	–
0000 A	3982	साहित्यदर्पणम्	डॉ० योगेश्वर दत्त शर्मा	नाग पब्लिशर्स	5000.00	–
0000 A	3983	शेषकृत बौधायन आधानप्रयोगः	डॉ० टी.एन. धर्माधिकारी	नाग पब्लिशर्स	In Press	–
0000 A	3984	शंकराद्वैत के प्रमुख सिद्धांतों का पारम्परिक विश्लेषण	तारादत्त	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	3985	साकेतसौरभम्	डॉ० भास्कराचार्य त्रिपाठी	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	3986	सामवेद संहिता		नाग पब्लिशर्स	120.00	–
0000 A	3987	सामवेद संहिता		नाग पब्लिशर्स	Out of Print	–
0000 A	3988	सामवेद संहिता	सुरेन्द्र प्रताप	नाग पब्लिशर्स	700.00	–
0000 A	3989	सामवेदीय साहित्य, संस्कृति, कला और धर्म दर्शन	प्रो. ओमप्रकाश पाण्डेय	नाग पब्लिशर्स	250.00	–
0000 A	3990	संख्या	डॉ० रामकरण शर्मा	नाग पब्लिशर्स	70.00	–
0000 A	3991	सांख्य सिद्धांत – सांख्य दर्शन का वैज्ञानिक आधार	अरूण कुमार उपाध्याय	नाग पब्लिशर्स	95.00	–
0000 A	3992	संस्कृतभाषांच प्रतिष्ठापयत आंग्लभाषाम् उत्सारयत	डॉ० वेदप्रताप वैदिक	नाग पब्लिशर्स	25.00	–
0000 A	3993	संस्कृत हिन्दी कोश	शिवराम आप्टे	नाग पब्लिशर्स	900.00	–
0000 A	3994	संस्कृत के दार्शनिक नाटकों का संविधानिक तत्व	डॉ० चन्द्रकांत शुक्ल	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	3995	संस्कृत की पहचान	डॉ० भास्कराचार्य त्रिपाठी	नाग पब्लिशर्स	200.00	–
0000 A	3996	Sanskrit Maxims & Proverbs	Sir Bejai Singh	नाग पब्लिशर्स	Out of Print	–
0000 A	3997	संस्कृतसाहित्ये जलविज्ञानम्	डॉ० नवलता	नाग पब्लिशर्स	250.00	–
0000 A	3998	संस्कृत वाड्मय कृषिविज्ञानम्	डॉ० नवलता	नाग पब्लिशर्स	250.00	–
0000 A	3999	संस्कृत साहित्ये नल चरितम्	डॉ० इच्छाराम द्विवेदी	नाग पब्लिशर्स	120.00	–
0000 A	4000	Sansrit-Saiva Kavyas From 12th Century to 17th century A.D.	Dr. Kanta Gupta	नाग पब्लिशर्स	600.00	–
0000 A	4001	सप्तशतीसर्वस्वम्	पण्डित श्रीसरयू	नाग पब्लिशर्स	600.00	–
0000 A	4002	सर्ववेदरुद्राध्याय संग्रह	डॉ० प्रज्ञा पाण्डेय	नाग पब्लिशर्स	230.00	–
0000 A	4003	सौन्दर्य–लहरी	सं. ए. कुंप्पुस्वामी	नाग पब्लिशर्स	700.00	–
0000 A	4004	Saundaryalahari of Srishankara Bhagavatapadacharya	A. Kuppuswamy	नाग पब्लिशर्स	350.00	–
0000 A	4005	सौर पुराण		नाग पब्लिशर्स	Out of Print	–
0000A	4006	Science and Technology in the vedas	Krishna Ji	नाग पब्लिशर्स	Out of Print	–
0000 A	4007	Science Text in sanskrit in the manuscripts repositories of kerala and tamilnadu	K.V. Sharma	नाग पब्लिशर्स	200.00	–
0000 A	4008	Scientific Knowledge in the vedas	P.V. Vartak	नाग पब्लिशर्स	Out of Print	–
0000 A	4009	शब्दकल्पद्रुम	राजा राधा कान्तदेव	नाग पब्लिशर्स	15000.00	–
0000 A	4010	शब्दापशब्दविवेकः	प्रो. चारुदेव शास्त्री	नाग पब्लिशर्स	Out of Print	–
0000 A	4011	शब्दलक्षणप्रामाण्य विमर्शः	एन.एस. रामानुजताताचार्यः	नाग पब्लिशर्स	50.00	–
0000 A	4012	Shankara : The Revolutionary	M.N. Krishanamani	नाग पब्लिशर्स	200.00	–
0000 A	4013	Sharikasandesa (Rampadnivad)	Dr. C.M. Neelkandhan	नाग पब्लिशर्स	130.00	–
0000 A	4014	शतपथ ब्राह्मण		नाग पब्लिशर्स	2000.00	–
0000 A	4015	शिव महापुराण	प्रो. पुष्पेन्द्र कुमार	नाग पब्लिशर्स	1800.00	–
0000 A	4016	शिव महापुराण		नाग पब्लिशर्स	Out of Print	–
0000 A	4017	Shiva Purana	Dr. U.N. Dhal	नाग पब्लिशर्स	1000.00	–
0000 A	4018	Shivasahasranamastakam	Ram Karan Sharma	नाग पब्लिशर्स	300.00	–
0000 A	4019	श्रीजोनराजकृता किरातार्जुनीयटीका	सं. धर्मेन्द्रकुमार भट्ट	नाग पब्लिशर्स	250.00	–
0000 A	4020	Siddhanta Darpana (Vol - 1)	Dr. Arun Kumar Upadhyaya	नाग पब्लिशर्स	400.00	–
0000 A	4021	Siddhanta Darpana (Vol - 2)	Dr. Arun Kumar Upadhyaya	नाग पब्लिशर्स	600.00	–

0000 A	4022	शिवशुकीयम	डॉ० रामकरण शर्मा	नाग पब्लिशर्स	80.00	–
0000 A	4023	श्रीमदानन्दबोधकृत शाब्दनिर्णय दीपिकायाः सम्पादनम्	डॉ० प्रभाकर प्रसाद	नाग पब्लिशर्स	157.00	–
0000 A	4024	Shrimadbhagavadgita	S.L. Seru	नाग पब्लिशर्स	200.00	–
0000 A	4025	श्रीमद्भार्गवोपपुराणम्	डॉ० बृजेश कुमार शुक्ल	नाग पब्लिशर्स	200.00	–
0000 A	4026	श्रीमद्यशोविजयमुनिकृतायाः काव्यप्रकाश – टीकायाद्वितीयतृतीयोल्लासमात्रोपलब्धायाः	डॉ० विद्यानन्द झा	नाग पब्लिशर्स	108.00	–
0000 A	4027	श्रीयादवप्रकाशकृतं पिंग्लनागच्छन्दो विचितिभाष्यम्	डॉ० श्रीधर वशिष्ठ	नाग पब्लिशर्स	200.00	–
0000 A	4028	श्री सायणाचार्य एवं पण्डित श्री पाददामोदर सातवलेकर कृत वेदभाष्यों का तुलनात्मक अनुशीलन	डॉ० मीनाक्षी श्रीवास्तव	नाग पब्लिशर्स	290.00	–
0000 A	4029	श्री सिख गुरुचरितामृतम्	श्री पादशास्त्री हसूरकर	नाग पब्लिशर्स	100.00	–
0000 A	4030	शुकः सन्देशः	प्रो. एन. पी. उन्नी	नाग पब्लिशर्स	Out of Print	–
0000 A	4031	सिद्धांतशिरोमणे र्गोलाध्यायस्योपत्तिः	डॉ० प्रेम कुमार शर्मा	नाग पब्लिशर्स	200.00	–
0000 A	4032	स्कन्द महापुराण	डॉ० आर.एन. शर्मा	नाग पब्लिशर्स	7000.00	–
0000 A	4033	स्कन्द महापुराण	नाग शरण सिंह	नाग पब्लिशर्स	1500.00	–
0000 A	4034	स्कन्द महापुराण		नाग पब्लिशर्स	Out of Print	–
0000A	4035	स्मृतिचन्द्रिका – देवणभट्ट विरचित	सं. एल. श्री निवास आचार्य	नाग पब्लिशर्स	1500.00 (set)	–
0000 A	4036	स्मृतिकालीन व्यवहार पद्धति	डॉ० प्यारे लाल चौहान	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	4037	स्मृति संदर्भ		नाग पब्लिशर्स	Out of Print	–
0000 A	4038	स्मृति संदर्भः		नाग पब्लिशर्स	Out of Print	–
0000 A	4039	स्मृति युगीन शासन सुरक्षा	डॉ० प्यारे लाल चौहान	नाग पब्लिशर्स	200.00	–
0000 A	4040	Spiritual Thoughts of Ancient India	Asoke Chatterjee Shastri	नाग पब्लिशर्स	200.00	–
0000 A	4041	श्रौतयाज्ञों में प्रयुक्त महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दों की विवेचना	डॉ० प्रमोद बाला मिश्र	नाग पब्लिशर्स	300.00	–
0000 A	4042	Sri Aurobindo on Vedic Deities	Ramaranjan Mukherji	नाग पब्लिशर्स	50.00	–
0000 A	4043	श्रीकृष्ण कथा	डॉ० वीणा पाणि पाटनी	नाग पब्लिशर्स	70.00	–
0000 A	4044	Srikrishnacaritam	Dr. K.P.A. Menon	नाग पब्लिशर्स	300.00	–
0000 A	4045	Srikrishna Vijyam & Nalodaya	Dr. K.P.A. Menon	नाग पब्लिशर्स	300.00	–
0000 A	4046	Srimadbhagawadgita	S.N. Raina	नाग पब्लिशर्स	300.00	–
0000 A	4047	श्रृंगार प्रकाश	डॉ० आर. एस. सैनी	नाग पब्लिशर्स	600.00	–
0000 A	4048	संस्कृत–हिन्दी कोश	डॉ० वी.एस. आप्टे	नाग पब्लिशर्स	900.00	–
0000 A	4049	Study of Skanda Cult	S.S. Raina	नाग पब्लिशर्स	300.00	–
0000A	4050	सुभद्राधनंजयम्	एन. पी. उन्नी	नाग पब्लिशर्स	200.00	–
0000 A	4051	सूक्ष्म–स्फूट सिद्धांत	श्री गोकुलानन्द राउत राय	नाग पब्लिशर्स	In Press	–
0000 A	4052	शुक्लयजुर्वेदमाध्यन्दिनीयसंहिता		नाग पब्लिशर्स	500.00	–
0000 A	4053	A Survey of Languages	Max. Muller	नाग पब्लिशर्स	200.00	–
0000 A	4054	तैत्तिरीय ब्राह्मण	प्रो. पुष्पेन्द्र कुमार	नाग पब्लिशर्स	1500.00	–
0000 A	4055	तैत्तिरीय–प्रतिशाख्यं	सं. राजेन्द्र लाल मित्र	नाग पब्लिशर्स	In Press	–
0000 A	4056	तंत्रसमुच्चय	एन. पी. उन्नी	नाग पब्लिशर्स	500.00	–
0000 A	4057	तरुकथा	डॉ० रामचन्द्र जी मिश्र	नाग पब्लिशर्स	50.00	–
0000 A	4058	तप्तीसंवरणम्	प्रो. एन. पी. उन्नी	नाग पब्लिशर्स	200.00	–
0000 A	4059	तर्कामृतम्	डॉ० पीयूष कांत दीक्षित	नाग पब्लिशर्स	300.00	–
0000 A	4060	तौर्यत्रिकम् ध्वनि रूपक	डॉ० भास्कराचार्य त्रिपाठी	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	4061	Textual Correction of Narasimha Purana with other Puranas and Sanskrit Texts	Dr. Siddheswar Jena	नाग पब्लिशर्स	200.00	–
0000 A	4062	Theory of Reality	L.D. Dikshit	नाग पब्लिशर्स	60.00	–
0000 A	4063	The Thirteen Principal Upanishads	S.L. Seru	नाग पब्लिशर्स	300.00	–
0000 A	4064	Treatment of Pathos in Sanskrit Drama	Pushpendra Kumar	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	4065	त्रिपथगाकाव्यम्	वेदानन्दः	नाग पब्लिशर्स	59.00	–
0000 A	4066	Tripuradahanam, Saurikathodayah	Dr. K.P.A. Menon	नाग पब्लिशर्स	250.00	–
0000 A	4067	Twenty two laghuyogavasistha selections	Irma Schotsman	नाग पब्लिशर्स	650.00	–
0000 A	4068	Twelve principal upanishads	B.E. Cowell & E. Roer	नाग पब्लिशर्स	Out of Print	–

0000 A	4069	Types of Dramatic	Dr. Kamlesh Birmani	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	4070	Udayana & His Philosophy	Dr. Visweswari Amma	नाग पब्लिशर्स	200.00	–
0000 A	4071	उल्लासिनी	रामकृष्ण शर्मा	नाग पब्लिशर्स	30.00	–
0000 A	4072	उपनिषद्–वाड्मयः विविध आयाम	डॉ० वेदवती वैदिक	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	4073	उपनिषद् युगीन संस्कृति	डॉ० वेदवती वैदिक	नाग पब्लिशर्स	300.00	–
0000 A	4074	उपनिषदों के निर्वचन	डॉ० वेदवती वैदिक	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	4075	उपसर्गार्थ–विवेचनम्	डॉ० अभयनाथ झा	नाग पब्लिशर्स	93.00	–
0000 A	4076	उत्कलेषु संस्कृत गीतिकाव्यस्य विकासधारा	पत्तिपावन वानार्जी	नाग पब्लिशर्स	169.00	–
0000 A	4077	उत्तरनैषधीयचरितम्	राम लक्षण गोस्वामी	नाग पब्लिशर्स	500.00	–
0000 A	4078	वैष्णव आगम के वैदिक आधार	डॉ० श्रीमती चन्द्रा चतुर्वेदी	नाग पब्लिशर्स	200.00	–
0000A	4079	The Vaisnava Philosophy	Dr. (Mrs.) S. Narang	नाग पब्लिशर्स	Out of Print	–
0000 A	4080	व्याकरणमहाभाष्य	डॉ० सुजाता त्रिपाठी	नाग पब्लिशर्स	2356.00	–
0000 A	4081	वैयाकरणप्रबंधमुक्तावली	डॉ० अशोकचन्द्र गौड शास्त्री	नाग पब्लिशर्स	300.00	–
0000 A	4082	वैयाकरणसिद्धांतमंजूषाया विमर्श	डॉ० भवेन्द्र झा	नाग पब्लिशर्स	80.00	–
0000 A	4083	वाक्यार्थ विवेचनम्	डॉ० धनुर्धर झा	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	4084	वाल्मीकि और कालिदास की काव्यकला	डॉ० नोदनाथ मिश्र	नाग पब्लिशर्स	200.00	–
0000 A	4085	वाल्मीकीय रामायण		नाग पब्लिशर्स	4500.00	–
0000 A	4086	वाल्मीकि रामायण	नाग शरण सिंह	नाग पब्लिशर्स	1000.00	–
0000 A	4087	वाल्मीकि रामायण का छनद विश्लेषण : एक गवेश्नात्मक अध्ययन	मंजुला सहदेव	नाग पब्लिशर्स	250.00	–
0000 A	4088	वाल्मीकि रामायण में मूल्य चेतना	डॉ० बृजेश कुमार शुक्ल	नाग पब्लिशर्स	200.00	–
0000 A	4089	वाल्मीकि रामायण तथा उत्तररामचरित का तुलनात्मक विवेचन	डॉ० श्रद्धा शुक्ला	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	4090	वामन चरितम्	डॉ० इच्छाराम द्विवेदी	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	4091	वामन महापुराण	डॉ० जियालाल कम्बोज	नाग पब्लिशर्स	600.00	–
0000 A	4092	वन्यरत्नम्	राजेन्द्र कुमार शर्मा	नाग पब्लिशर्स	60.00	–
0000 A	4093	वराह महापुराण		नाग पब्लिशर्स	1200.00	–
0000 A	4094	वररुचि एवं हेमचन्द्र विरचित प्राकृत व्याकरण का तुलनात्मक अध्ययन	नमिता गर्ग	नाग पब्लिशर्स	400.00	–
0000 A	4095	वाड्.मय–शेमुषी	प्रो. बृजेश कुमार शुक्ल	नाग पब्लिशर्स	300.00	–
0000 A	4096	वासुकि पुराण	डॉ० अनन्तराम शास्त्री	नाग पब्लिशर्स	350.00	–
0000 A	4097	वायु महापुराण	प्रो. बी. एम. चतुर्वेदी	नाग पब्लिशर्स	700.00	–
0000 A	4098	वेदकालीन प्रौद्योगिकी	सं. प्रो. ओमप्रकाश पाण्डेय	नाग पब्लिशर्स	110.00	–
0000 A	4099	वेद मीमांसा (भाग–1 से 3)	हिन्दी अनु. छविनाथ मिश्र	नाग पब्लिशर्स	825.00	–
0000 A	4100	The Vedanta Philosophy	Max. Muller	नाग पब्लिशर्स	100.00	–
0000 A	4101	वेदांत सिद्धांत मुक्तावली	डॉ० लक्ष्मीश्वर झा	नाग पब्लिशर्स	200.00	–
0000 A	4102	Vedas	Raja Rammohan Roy	नाग पब्लिशर्स	Out of Print	–
0000 A	4103	Vedas : The Right Approach	Dharmananda Saraswati	नाग पब्लिशर्स	Out of Print	–
0000 A	4104	Vedas and weather science in ancient India	A.S. Ramanathan	नाग पब्लिशर्स	3000.00 (set)	–
0000 A	4105	Vedas : The source of ultimate science	Shri Ram Verma	नाग पब्लिशर्स	300.00	–
0000 A	4106	वेद व्याख्या और वैदिक विचारधारा	सं. प्रो. कृष्णलाल	नाग पब्लिशर्स	40.00	–
0000 A	4107	वैदिक आख्यान	प्रो. प्रभाकर नारायण कवठेकर	नाग पब्लिशर्स	50.00	–
0000A	4108	वैदिक अनुष्ठानों का मनोवैज्ञानिक अनुशीलन	डॉ० मानसी शुक्ला त्रिवेदी	नाग पब्लिशर्स	140.00	–
0000 A	4109	वैदिक दर्शन	सं. डॉ० रघुवीर वेदालंकार	नाग पब्लिशर्स	100.00	–
0000 A	4110	वैदिक–दर्शनम्	डॉ० जीत सिंह खोखरः	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	4111	Vedic Elements in puranic mantras and rituals	Dr. Gauri Mahulikar	नाग पब्लिशर्स	200.00	–
0000 A	4112	वैदिक इतिहास एवं पुरातत्व की अद्यतन प्रवृत्तियां	सं. प्रो. ओमप्रकाश पाण्डेय	नाग पब्लिशर्स	135.00	–
0000 A	4113	वैदिक खिलसूक्त–मीमांसा	प्रो. ओमप्रकाश पाण्डेय	नाग पब्लिशर्स	225.00	–
0000 A	4114	Vedic knowledge directed towards universal welfare of humanity	Ach. Vishnudeva Pandit	नाग पब्लिशर्स	80.00	–

0000 A	4115	वैदिक कोश	पं. चन्द्रशेखर उपाध्याय तथा श्री अनिल कुमार उपाध्याय	नाग पब्लिशर्स	3000.00	–
0000 A	4116	वैदिक मरुत	सं. डॉ० उर्मिला रुस्तगी	नाग पब्लिशर्स	200.00	–
0000 A	4117	Vedic music and its application in rituals	G.H. Tarlekar	नाग पब्लिशर्स	Out of Print	–
0000 A	4118	Vedic Mythopoeia	Dr. Usha Choudhary	नाग पब्लिशर्स	100.00	–
0000 A	4119	वैदिक साहित्य और संस्कृति का स्वरूप तथा विकास	प्रो. ओमप्रकाश पाण्डेय	नाग पब्लिशर्स	500.00	–
0000 A	4120	वैदिक साहित्य में संवाद–सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक विश्लेषण	डॉ० उषा किरण	नाग पब्लिशर्स	400.00	–
0000 A	4121	वैदिक शिक्षा – आधुनिक परिप्रेक्ष्य में	वचसपति उपाध्याय	नाग पब्लिशर्स	In Press	–
0000 A	4122	वैदिक शिक्षा पद्धति	डॉ० भास्कर मिश्र	नाग पब्लिशर्स	270.00	–
0000 A	4123	वैदिक वाड्.मय में महर्षि कात्यायन का योगदान	डॉ० अनूप मिश्र	नाग पब्लिशर्स	175.00	–
0000 A	4124	वैदिक वाड्.मय में विज्ञान	रामेश्वर दयाल गुप्त	नाग पब्लिशर्स	Out of Print	–
0000 A	4125	वैदिक यज्ञ संस्था और वेद विज्ञान	सं. प्रो. ओमप्रकाश पाण्डेय	नाग पब्लिशर्स	500.00	–
0000 A	4126	वेदों का तुलनात्मक और समीक्षात्मक अध्ययन	सं. डॉ० रघुवीर वेदालंकार	नाग पब्लिशर्स	200.00	–
0000 A	4127	विक्रमाड्कदेवचरित – एक सांस्कृतिक अध्ययन	डॉ० ऋचा शुक्ला	नाग पब्लिशर्स	200.00	–
0000 A	4128	विष्णुधर्मोत्तर पुराण	प्रो. चारुदेव शास्त्री	नाग पब्लिशर्स	1500.00	–
0000 A	4129	श्री विष्णुमहापुराणम्	डॉ० आर. एन. शर्मा	नाग पब्लिशर्स	Out of Print	–
0000 A	4130	विष्णु महापुराण	एच.एच. विल्सन	नाग पब्लिशर्स	1000.00	–
0000 A	4131	विष्णुपुराण	डॉ० श्रद्धा शुक्ला	नाग पब्लिशर्स	700.00	–
0000 A	4132	विष्णु संहिता	एन. पी. उन्नी	नाग पब्लिशर्स	250.00	–
0000 A	4133	श्रीविष्णुसहस्रनाम स्तोत्रम्–किरीटभाष्य संवलितम्	डॉ० कृष्ण दत्त भारद्वाज	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	4134	व्रजनन्दकाव्यम्	डॉ० निलिम्पः त्रिपाठी	नाग पब्लिशर्स	65.00	–
0000 A	4135	वृहद् देवता	राजा राजेन्द्र लाल मित्र	नाग पब्लिशर्स	In Press	–
0000 A	4136	व्याकरणमहाभाष्यम्	डॉ० उदय नाथ झा 'अशोक'	नाग पब्लिशर्स	700.00	–
0000A	4137	व्याकरणशास्त्रे शब्दविमर्शः	डॉ० के.वी. सोमयाजुलु	नाग पब्लिशर्स	156.00	–
0000 A	4138	व्याप्तिसप्तकसारः	डॉ० पीयूष कांत दीक्षित	नाग पब्लिशर्स	200.00	–
0000 A	4139	व्युत्पत्तिवाद	केशव प्रपन्न शर्मा	नाग पब्लिशर्स	In Press	–
0000 A	4140	Wedding of arjuna and subhadra the kutiyattama drama subhadradhananjaya	N.P. Unni	नाग पब्लिशर्स	300.00	–
0000 A	4141	Wisdom that was India : A new	P.N. Kawthekar	नाग पब्लिशर्स	350.00	–
0000 A	4142	यजुर्वेद संहिता		नाग पब्लिशर्स	Out of Print	–
0000 A	4143	याज्ञवल्क्य स्मृति		नाग पब्लिशर्स	300.00	–
0000 A	4144	यतीन्द्रमतदीपिका	कविता सूद	नाग पब्लिशर्स	In Press	–
0000 A	4145	योगदर्शन में ईश्वर प्रणिधान की व्याख्या	अनुपमा सेठ	नाग पब्लिशर्स	66.00	–
0000 A	4146	योगा वशिष्ठ	डॉ० अमरनाथ झा	नाग पब्लिशर्स	50.00	–
0000 A	4147	The Yogamaniprabha of ramananda-saraswati with the gloss svasanketa	Bala Krishnan	नाग पब्लिशर्स	250.00	–
0000 A	4148	योगवशिष्ठः	डॉ० कांता गुप्ता	नाग पब्लिशर्स		–
0000 A	4149	The Yogavasistha of Valmiky		नाग पब्लिशर्स	3000.00 (set)	–
0000 A	4150	युग निर्माताः महर्षि दयानन्द	श्रीकांत आचार्य	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	4151	अद्वैत वेदान्त भामती प्रस्थानस्य तुलनात्मक अध्ययन	डॉ० एम. वसन्ता	नाग पब्लिशर्स	600.00	–
0000 A	4152	ऐतरेय एवं तैत्तिरीय ब्राह्मणों के निर्वचन	डॉ० सरोज दीक्षा वेदालंकार	नाग पब्लिशर्स	200.00	–
0000 A	4153	ऐतरेय ब्राह्मण	सुखप्रदाख्यवृत्ति सहितम	नाग पब्लिशर्स	1500.00	–
0000 A	4154	Ancient India According to Manu	Dr. R.N. Sharma	नाग पब्लिशर्स	250.00	–
0000 A	4155	अपराध और अर्थशास्त्र	डॉ० रेनू शर्मा	नाग पब्लिशर्स	250.00	–
0000 A	4156	अग्निनाशक–दुर्गाशतकम्	डॉ० भास्कराचार्य त्रिपाठी	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	4157	अष्टादश स्मृति	मिहिरचन्द्र, सं. नागशरण सिंह	नाग पब्लिशर्स	400.00	–
0000 A	4158	अथर्ववेद संहिता		नाग पब्लिशर्स	300.00	–

0000 A	4159	Atharvaveda Samhita	W.D. Whisteny	नाग पब्लिशर्स	1200.00	–
0000 A	4160	अथर्ववेदीय परिशिष्ट ग्रंथों का परिशीलन	डॉ० अंजु दुबे	नाग पब्लिशर्स	175.00	–
0000 A	4161	आयुर्वेद ग्रन्थावली	डॉ० आर. एन. शर्मा	नाग पब्लिशर्स	600.00	–
0000 A	4162	बौधयन आधानप्रयोगः	डॉ० टी.एन. धर्माधिकारी	नाग पब्लिशर्स		–
0000 A	4163	ब्राह्मस्फुटसिद्धांतस्य समीक्षात्मकमध्ययनम्	डॉ० शिवकांत झा	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	4164	Brihaspati in the Vedas and the Puranas	Dr. (Mrs.) Saraswati Bali	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	4165	चाणक्य राजनीति शास्त्र	पं. ईश्वर चन्द्र शास्त्री विद्यासागर	नाग पब्लिशर्स	60.00	–
0000A	4166	चाणक्य संहिता	रामकरण शर्मा	नाग पब्लिशर्स	100.00	–
0000 A	4167	चार शुल्बसूत्र	डॉ० र. पु. कुलकर्णी	नाग पब्लिशर्स	320.00	–
0000 A	4168	Commemorative Essays	Macdonell & Keith	नाग पब्लिशर्स	300.00	–
0000 A	4169	The Concept of purusarthas	Dr. Samiran Chandra Chakrabarti	नाग पब्लिशर्स	185.00	–
0000 A	4170	Cosmogony in the vedas	Prof. Rammurti Sharmas	नाग पब्लिशर्स	60.00	–
0000 A	4171	धर्मशास्त्रः आधुनिक संदर्भ में	डॉ० (श्रीमती) एस. नारंग	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	4172	Etymologies in shatapatha brahmana	Dr. Nargis Verma	नाग पब्लिशर्स	250.00	–
0000 A	4173	Evolution of hindu moral ideals	P.S.S. Aiyar	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	4174	Evolution of Indian polity	R. Shama Shastri	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	4175	Female Deities in vedic and epic literature	Dr. Vidya Dhar Sharma Guleri	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	4176	गौतम ऋषियों का वैदिक वाड.मय में योगदान	डॉ० केशव प्रसाद मिश्र	नाग पब्लिशर्स	120.00	–
0000 A	4177	गृह्यानुष्ठानों का सांस्कृतिक अन्वेषण	डॉ० रीना अस्थाना	नाग पब्लिशर्स	250.00	–
0000 A	4178	Hindu Dharma Shastra	Pushpendra Kumar	नाग पब्लिशर्स	3000.00	–
0000 A	4179	Hindu India from original sources	S.K. Aiyangar	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	4180	Historical and critical studies in atharvaveda	Dr. S. K. Bali	नाग पब्लिशर्स	300.00	–
0000 A	4181	Indo-Aryan Polity	P.C. Basu	नाग पब्लिशर्स	70.00	–
0000 A	4182	Indra and Varuna in Indian Mythology	Dr. (Mrs.) Usha Choudhary	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	4183	Introduction to tantras and their philosophy	Pushpendra Kumar	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	4184	Issues in Veda and Astrology	Haribhai Pandya	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	4185	जैमिनीयसामवेदसंहिता	के. ए. रवीन्द्रन	नाग पब्लिशर्स	600.00	–
0000 A	4186	ज्योतिषां ज्योतिः	डॉ० जगन्नाथ वेदालंकार	नाग पब्लिशर्स	250.00	–
0000 A	4187	कात्यायनशुल्बसूत्रम् सोपपत्तिकं पर्यालोचनम्	डॉ० रमेशचन्द्र दास शर्मा	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	4188	Kautilya's Arthashastra : An Appraisal	Pushpendra Kumar	नाग पब्लिशर्स	200.00	–
0000 A	4189	Lay out of different sacrifices according to srautasutras	Dr. R.P. Kulkarni	नाग पब्लिशर्स	200.00	–
0000 A	4190	मानवसौतसूत्रम्	डॉ० प्रमोद बाला मिश्र	नाग पब्लिशर्स	350.00	–
0000 A	4191	Manu Smriti	Pushpendra Kumar	नाग पब्लिशर्स	600.00	–
0000 A	4192	Medicinal Plants of India with speacial reference to ayurveda	Dr. C.K.N. Nair & Dr. N. Mohanan	नाग पब्लिशर्स	2100.00	–
0000 A	4193	मिथिला में वेद ओर वेदांग	डॉ० उदयनाथ झा	नाग पब्लिशर्स	300.00	–
0000 A	4194	Mysticism in The Upanishads	Dr. Indulata Das	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000A	4195	नाट्यशास्त्र का वैदिक आधार	डॉ० नीहारिका चतुर्वेदी	नाग पब्लिशर्स	175.00	–
0000 A	4196	Non-Conventional Sources of Energy in the Vedas	Madhukar Ashtikar	नाग पब्लिशर्स	60.00	–
0000 A	4197	पाली निकायों में प्राचीन भारत की सामाजिक और आर्थिक संस्थाएं	डॉ० पी.सी. मिश्र	नाग पब्लिशर्स	175.00	–
0000 A	4198	ताराशर स्मृति एवम् देवल स्मृति का तुलनात्मक अध्ययन	डॉ० धनपति देवी कश्यप	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	4199	प्राचीन भारत की राज्यव्यवस्था	डॉ० उदय शंकर पाण्डेय	नाग पब्लिशर्स	200.00	–
0000 A	4200	प्राचीन भारत की दण्ड व्यवस्था	डॉ० वाचस्पति त्रिपाठी	नाग पब्लिशर्स	200.00	–
0000 A	4201	Prehistoric Ancient and Hindu India	R.D. Banerjee	नाग पब्लिशर्स	120.00	–

0000 A	4202	ऋग्वेदीयम्	विमलानन्द जी	नाग पब्लिशर्स	80.00	–
0000 A	4203	ऋग्वेद में युगल देवता एक अध्ययन	डॉ० कुमकुम पाठक	नाग पब्लिशर्स	500.00	–
0000 A	4204	Rigveda Samhita	H.H. Wilson	नाग पब्लिशर्स	2000.00	–
0000 A	4205	ऋग्वेद परिचय	श्री नाग शरण सिंह	नाग पब्लिशर्स	60.00	–
0000 A	4206	ऋग्वेद संहिता	शिवनाथ आहिताग्नि	नाग पब्लिशर्स	2700.00	–
0000 A	4207	ऋग्वेद संहिता		नाग पब्लिशर्स	460.00	–
0000 A	4208	ऋग्वेदस्य दार्शनिकधरातलम्	डॉ० ओ. कारनाथ तिवारी	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	4209	सामवेद संहिता		नाग पब्लिशर्स	120.00	–
0000 A	4210	Samaveda Samhita	Ralph T.H. Griffith	नाग पब्लिशर्स	700.00	–
0000 A	4211	सामवेदीय साहित्य, संस्कृति, कला और धर्म दर्शन	प्रो. ओमप्रकाश पाण्डेय	नाग पब्लिशर्स	250.00	–
0000 A	4212	Sanskrit Kathakali Works of Virakeralavarma	C.M. Neelkanthan & K. M. Sreeja	नाग पब्लिशर्स	350.00	–
0000 A	4213	संस्कृत वाड्.मयैतिह्ये वैदिकवा मयम्	डॉ० अशोक चन्द्र गौड शास्त्री	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	4214	सप्तशतीसर्वस्वम्	पं. श्रीसरयू	नाग पब्लिशर्स	600.00	–
0000 A	4215	सर्वमंगला	प्रो. रामकरण शर्मा	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	4216	सर्ववेदरुद्राध्याय संग्रह	डॉ० प्रज्ञा पाण्डेय	नाग पब्लिशर्स	230.00	–
0000 A	4217	Science & Technology in the vedas	Krishna Ji	नाग पब्लिशर्स	80.00	–
0000 A	4218	शतपथ ब्राह्मण	वेदार्थ प्रकाश तथा हरिस्वामी	नाग पब्लिशर्स	2000.00	–
0000 A	4219	श्री सायाणाचार्य एवं पण्डित श्री पाददामोदर सातवलेकर कृत वेदभाष्यों का तुलनात्मक अनुशीलन	डॉ० मीनाक्षी श्रीवास्तव	नाग पब्लिशर्स	290.00	–
0000 A	4220	श्रौतयागों में प्रयुक्त महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दों की विवेचना	डॉ० प्रमोद बाला मिश्र	नाग पब्लिशर्स	300.00	–
0000 A	4221	सिद्धांतशिरोमणे र्गोलाध्यायस्योपत्तिः	डॉ० प्रेम कुमार शर्मा	नाग पब्लिशर्स	200.00	–
0000 A	4222	स्मृतिचन्द्रिका – देवणभट्ट विरचित	सं. एल. श्री निवास आचार्य	नाग पब्लिशर्स	1500.00	–
0000 A	4223	स्मृतिकालीन व्यवहार पद्धति	डॉ० प्यारे लाल चौहान	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000A	4224	स्मृति संदर्भ	याज्ञवल्क्य पाराशर	नाग पब्लिशर्स	10000.00	–
0000 A	4225	स्मृति युगीन शासन सुरक्षा	डॉ० प्यारे लाल चौहान	नाग पब्लिशर्स	200.00	–
0000 A	4226	Spiritual Thoughts of Ancient India	Asoke Chatterjee Shastri	नाग पब्लिशर्स	200.00	–
0000 A	4227	श्रौतयाज्ञों में प्रयुक्त महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दों की विवेचना	डॉ० प्रमोद बाला मिश्र	नाग पब्लिशर्स	300.00	–
0000 A	4228	Sri Aurobindo on Vedic Deities	Ramaranjan Mukherji	नाग पब्लिशर्स	50.00	–
0000 A	4229	तैत्तिरीय ब्राह्मण	प्रो. पुष्पेन्द्र कुमार	नाग पब्लिशर्स	1500.00	–
0000 A	4230	तंत्रसुच्चय	महामहोपाध्यायेन त. गणपति	नाग पब्लिशर्स	500.00	–
0000 A	4231	The Thirteen Principal Upanishads	S.L. Seru	नाग पब्लिशर्स	300.00	–
0000 A	4232	Twenty two laghuyogavasistha selections	Irma Schotsman	नाग पब्लिशर्स	650.00	–
0000 A	4233	उपनिषद् – वाड्.मयः विविध आयाम	डॉ० वेदवती वैदिक	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	4234	उपनिषद् युगीन संस्कृति	डॉ० वेदवती वैदिक	नाग पब्लिशर्स	300.00	–
0000 A	4235	उपनिषदों के निर्वचन	डॉ० वेदवती वैदिक	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	4236	उपसर्गार्थ–विवेचनम्	डॉ० अभयनाथ झा	नाग पब्लिशर्स	93.00	–
0000 A	4237	वैष्णव आगम के वैदिक आधार	डॉ० श्रीमती चन्द्रा चतुर्वेदी	नाग पब्लिशर्स	200.00	–
0000 A	4238	वेदकालीन प्रौद्योगिकी	सं. प्रो. ओमप्रकाश पाण्डेय	नाग पब्लिशर्स	110.00	–
0000 A	4239	वेद मीमांसा (भाग–1 से 3)	छविनाथ मिश्र	नाग पब्लिशर्स	825.00	–
0000 A	4240	The Vedanta Philosophy	Max Muller	नाग पब्लिशर्स	100.00	–
0000 A	4241	वेदांत सिद्धांत मुक्तावली	डॉ० लक्ष्मीश्वर झा	नाग पब्लिशर्स	200.00	–
0000 A	4242	Vedas	Raja Rammohan Roy	नाग पब्लिशर्स	50.00	–
0000 A	4243	Vedas : The Right Approach	Dharmananda Saraswati	नाग पब्लिशर्स	100.00	–
0000 A	4244	Vedas and weather science in ancient India	A.S. Ramanathan	नाग पब्लिशर्स	80.00	–
0000 A	4245	वेदादिशास्त्रों के श्लोकों के प्रमाणों से प्रमाणीभूश्लोकों के अथो सहित	पं. दामोदर शर्मा	नाग पब्लिशर्स	3000.00	–
0000 A	4246	Vedas : The source of ultimate science	Shri Ram Verma	नाग पब्लिशर्स	300.00	–
0000 A	4247	वेद व्याख्या और वैदिक विचारधारा	प्रो. कृष्णलाल	नाग पब्लिशर्स	40.00	–
0000 A	4248	वैदिक आख्यान	प्रो. प्रभाकर नारायण कवठेकर	नाग पब्लिशर्स	50.00	–

0000 A	4249	वैदिक अनुष्ठानों का मनोवैज्ञानिक अनुशीलन	डॉ० मानसी शुक्ला त्रिवेदी	नाग पब्लिशर्स	140.00	–
0000 A	4250	वैदिक दर्शन	सं. डॉ० रघुवीर वेदालंकार	नाग पब्लिशर्स	100.00	–
0000 A	4251	वैदिक–दर्शनम्	डॉ० जीत सिंह खोखरः	नाग पब्लिशर्स	150.00	–
0000 A	4252	Vedic Elements in puranic mantras and rituals	Dr. Gauri Mahulikar	नाग पब्लिशर्स	200.00	–
0000A	4253	निरूक्तभाष्यटीका (दो भाग)	डॉ० लक्ष्मण स्वरूप	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	2750.00 Per Set	–
0000 A	4254	अथर्वप्रातिशाख्यम्	डॉ० सूर्यकांत	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	1950.00	–
0000 A	4255	कौटलीय अर्थशास्त्र	उदयवीर शास्त्री	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	845.00	–
0000 A	4256	काठकगृह्यसूत्रम्	डॉ० डब्ल्यू. कालण्ड	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	500.00	–
0000 A	4257	लौगाक्षिगृह्यसूत्राणि।। देवपालकृतभाष्योपेतानि।।	पं. मधुसूदन कौल शास्त्री	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	450.00	–
0000 A	4258	किरातार्जुनीयम्	नारायण राम आचार्य 'काव्यतीर्थ'	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	375.00	–
0000 A	4259	Risabha Deva : The Founder of Jainism	Champat Rai Jain	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	325.00	–
0000 A	4260	The Key of Knowledge	Champat Rai Jain	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	1250.00	–
0000 A	4261	The Confluence of Opposites Or Comparative Religion	Champat Rai Jain	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	600.00	–
0000 A	4262	मुण्डकोपनिषद्	डॉ० शशि तिवारी	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	85.00	–
0000 A	4263	निरूक्त पंचाध्यायी (अध्याय 1–5)	पं. छजजूराम शास्त्री, देव शर्मा तथा भगीरथ शास्त्री	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	225.00	–
0000 A	4264	निरूक्तम्	पं. छजजूराम शास्त्री, देव शर्मा तथा भगीरथ शास्त्री	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	475.00	–
0000 A	4265	स्पप्रवासवदत्तम्	डॉ० धमेन्द्र कुमार गुप्त	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	95.00	–
0000 A	4266	तर्कसंग्रहः	नृसिंहदेव शास्त्री तथा माधव शास्त्री भण्डारी	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	35.00	–
0000 A	4267	आश्वलायन–गृह्यमंत्रव्याख्या	के. साम्बशिव शास्त्री	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	450.00	–
0000 A	4268	अथर्ववेदीया–माण्डूकीशिक्षा	पं. भगवद्दत्त	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	48.00	–
0000 A	4269	अथर्वप्रातिशाख्यम्	डॉ० सूर्यकांत	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	1950.00	–
0000 A	4270	अथर्ववेदीय–पंचपटलिका	पं. भगवद्दत्त	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	35.00	–
0000 A	4271	भारद्वाजगृह्यसूत्रम्	एच.जे.डब्ल्यू. सालोमोन्स	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	225.00	–
0000 A	4272	बोधायन गृह्यसूत्रम्	आर. शामशास्त्री	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	495.00	–
0000 A	4273	Collection of the Fragments of Lost Brahmanas	Dr. Batakrishna Ghosh	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	In Press	–
0000 A	4274	दुर्गासप्तशती – स्थूलाक्षर		मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	125.00	–
0000 A	4275	कृष्णयजुर्वेदीया कपिष्ठलकठसंहिता	डॉ० रघुवीर वेदालंकार	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	495.00	–
0000 A	4276	काठकगृह्यसूत्रम्	डॉ० डब्ल्यू. कालण्ड	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	500.00	–
0000 A	4277	काठकसंकलनम्	डॉ० सूर्यकांत	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	350.00	–
0000 A	4278	कौषीतकगृह्यसूत्रम्	टी. आर. चिन्तामणि	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	445.00	–

0000 A	4279	सामसप्तलक्षणसहितो लघुऋक्तंत्रसंग्रहः	डॉ० सूर्यकांत	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	175.00	–
0000 A	4280	मैत्रायणीयं मानवगृह्यसूत्रम्	आर. एच. शास्त्री	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	375.00	–
0000 A	4281	मत्स्यमहापुराणम्	डॉ० पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स		–
0000A	4282	श्रीमृगेन्द्रतंत्रम् (विद्या–योग पादौ)	पं. मधुसूदन कौल शास्त्री	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	295.00	–
0000 A	4283	मुण्डकोपनिषद्	डॉ० शशि तिवारी	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	85.00	–
0000 A	4284	निदानसूत्रम्	डॉ० क.न. भटनागर	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	450.00	–
0000 A	4285	निरूक्तम्	मुकुन्द झा बख्शी	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	In Press	–
0000 A	4286	निरूक्तम्	पं. छजजूराम शास्त्री, देव शर्मा तथा भगीरथ शास्त्री	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	475.00	–
0000 A	4287	निरूक्त पंचाध्यायी (अध्याय 1–5)	पं. छजजूराम शास्त्री, देव शर्मा तथा भगीरथ शास्त्री	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	225.00	–
0000 A	4288	निरूक्तभाष्यटीका (दो भाग)	डॉ० लक्ष्मण स्वरूप	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	2750.00 Per Set	–
0000 A	4289	न्यायामृताद्वैतसिद्धी	अनन्तकृष्ण शास्त्री	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स		–
0000 A	4290	Rgvedadibhasyabhumika of Swami Dayananada Saraswati	Dr. Parmanand	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	575.00	–
0000 A	4291	ऋक्तन्त्रम्।। सामप्रातिशाख्यम्।।	डॉ० सूर्यकांत	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	300.00	–
0000 A	4292	श्रीशंकरविजयमकरन्द	वैद्य शि.वे. राधाकृष्णशास्त्री	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	120.00	–
0000 A	4293	शाखायन–श्रौतसूत्रम् (दो भाग)	डॉ० आल्फ्रेड हिल्लेब्रांड्ट	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	1650.00 Per Set	–
0000 A	4294	सत्याषाढश्रौतसूत्रम्	आर. एस. शास्त्री	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	In Press	–
0000 A	4295	तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्	वी. वेंकटराम शर्मा	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	375.00	–
0000 A	4296	तैत्तिरीयोपनिषभ्दाष्यवार्तिक	राधेश्याम शास्त्री	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	125.00	–
0000 A	4297	तर्कसंग्रहः	नृसिंहदेव शास्त्री दर्शनाचार्य	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	35.00	–
0000 A	4298	वराहमहापुराणम्	डॉ० के. वी. शर्मा	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स		–
0000 A	4299	वाराहगृह्यसूत्रम्	डॉ० रघुवीर वेदालंकार	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	145.00	–
0000 A	4300	वैखानसस्मार्तसूत्रम्	डॉ० डब्ल्यू. कालण्ड	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	225.00	–
0000 A	4301	वाराहश्रोतसूत्रम्	डॉ० डब्ल्यू. कालण्ड	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	275.00	–
0000 A	4302	Cultural Gleanings from the Brahmana Literature	Dr. Sunanda Keshav Tilak	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	300.00	–
0000 A	4303	Critical Studies on Katyayana's Sukla Yajurveda Pratisakhya	V. Venkatarama Sarma	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	475.00	–
0000 A	4304	Epic Syntax	Dr. K. Meenakshi	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	250.00	–
0000 A	4305	(The) Mahabharata : A criticism	Dr. C. V. Vaidya	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	175.00	–
0000 A	4306	(The) Riddle of the Ramayana	Dr. C. V. Vaidya	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	125.00	–
0000 A	4307	Rigveda Repetitions	Maurice Bloomfield	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	950.00	–

0000 A	4308	शतपथ ब्राह्मण : एक सांस्कृतिक अध्ययन	डॉ० उर्मिला देवी शर्मा	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	150.00	–
0000 A	4309	सूर्य देवता	डॉ० शशि तिवारी	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	160.00	–
0000 A	4310	(The) Synthetic Philosophy of the Bhagavata	Dr. Ramnarayan Vyas	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	100.00	–
0000A	4311	Upanisadic Symbolism	Dr. Satya Prakash Singh	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	350.00	–
0000 A	4312	उपनिषदों की बोध–कथाएं	डॉ० शशि तिवारी	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	35.00	–
0000 A	4313	वैदिक – देवशास्त्र	डॉ० सूर्यकांत	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	495.00	–
0000 A	4314	(The) Vasistha-Ramayana : A Study	Dr. T.G. Mainkar	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	350.00	–
0000 A	4315	।। धर्मेन्द्र–पारमितम् ।।	Drs. R.N. Airi & R.K. Sharma	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	400.00	–
0000 A	4316	Vihangama Yoga : The Science of Consciousness	M.M. Rai	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	200.00	–
0000 A	4317	Historical Mahakavyas in Sanskrit (11th to 15th century A.D.)	Dr. Chandra Prabha	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	450.00	–
0000 A	4318	Prachina Bharatiya Yuddha - Paddhati	Dr. Uma Pd. Thapliyal	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	160.00	–
0000 A	4319	समराड.गण–सूत्रधार–वास्तुशास्त्रम् – भवननिवेशः	डॉ० द्विजेन्द्रनाथ शुक्ल	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	175.00	–
0000 A	4320	(The) Mahabharata : A criticism	Dr. C.V. Vaidya	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	95.00	–
0000 A	4321	(The) Riddle of the Ramayana	Dr. C.V. Vaidya	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	75.00	–
0000 A	4322	संस्कृत नाटकों में समाज–चित्रण	डॉ० चित्रा शर्मा	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	150.00	–
0000 A	4323	शतपथ ब्राह्मण : एक सांस्कृतिक अध्ययन	डॉ० उर्मिला देवी शर्मा	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	150.00	–
0000 A	4324	Society and Culture in the time of Dandin	Dr. D.K. Gupta	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	450.00	–
0000 A	4325	अभिज्ञानशाकुन्तलम्	डॉ० शिवराज शास्त्री	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	95.00	–
0000 A	4326	अलंकारसर्वस्वम्	स. सु. जानकी	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स		–
0000 A	4327	अविमारकम्	Bak Kunbae	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	60.00	–
0000 A	4328	अविमारकं बालचरितं च	Bak Kunbae	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स		–
0000 A	4329	बालचरितम्	Bak Kunbae	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	45.00	–
0000 A	4330	भल्लटशतकम्	डॉ० वेद कुमारी घई तथा डॉ० रामप्रताप	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	75.00	–
0000 A	4331	Bodhisattvacarita	Dr. Satyavrat Shastri	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	95.00	–
0000 A	4332	चमत्कारचन्द्रिका	डॉ० प. स. मोहन	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	300.00	–
0000 A	4333	ध्वन्यालोक–लोचनम्	डॉ० क. कृष्णमूर्ति	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	95.00	–
0000 A	4334	गीतगोविन्दकाव्यम्	नारायण राम आचार्य 'काव्यतीर्थ'	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	120.00	–
0000 A	4335	कौटलीय अर्थशास्त्र	उदयवीर शास्त्री	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	845.00	–
0000 A	4336	काव्यलक्षणापराभिधः काव्यादर्शः	डॉ० धमेन्द्र कुमार गुप्त	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	450.00	–

0000 A	4337	काव्यानुशासनम्	व.ल. शास्त्री पणशीकर	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	175.00	–
0000 A	4338	किरातार्जुनीयम्	नारायण राम आचार्य 'काव्यतीर्थ'	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	375.00	–
0000 A	4339	नैषधीयचरितम्	नारायण राम आचार्य 'काव्यतीर्थ'	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स		–
0000A	4340	साहित्यदर्पणः	दुर्गाप्रसाद द्विवेदी	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	575.00	–
0000 A	4341	साहित्यदर्पणः	डॉ० देवदत्त कौशिक	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	225.00	–
0000 A	4342	सुभाषितरत्नभाण्डागारम्	नारायण राम आचार्य 'काव्यतीर्थ'	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	395.00	–
0000 A	4343	शिवकथामृतं महाकाव्यम्	छज्जूराम शास्त्री	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स		–
0000 A	4344	शुकनासोपदेशः	डॉ० प्रहलाद कुमार	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	120.00	–
0000 A	4345	स्वप्रवासवदत्तम्	डॉ० धमेन्द्र कुमार गुप्त	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	95.00	–
0000 A	4346	वृत्तरत्नाकरः	नृसिंहदेव शास्त्री	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	45.00	–
0000 A	4347	Critical Study on Dandin and His Works	Dr. Dharmendra Kumar Gupta	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	250.00	–
0000 A	4348	Indian Literary Theories : A reappraisal	Dr. K. Krishnamoorthy	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	250.00	–
0000 A	4349	Kalidasa Citations	N.R. Subbanna	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	250.00	–
0000 A	4350	Kalidasa's Vision of Kumarasambhaya	Dr. Suryakanta	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	150.00	–
0000 A	4351	(The) Kavya-portions in the Katha-literature : An analysis - 3 Vols.	Dr. Ludwik Sternbach	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	550.00 Per Vol.	–
0000 A	4352	(The) Mahabharata : A literary study	Dr. J.P. Sinha	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	150.00	–
0000 A	4353	Mind and Art of bhavabhuti	Dr. Vimla Gera	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	275.00	–
0000 A	4354	Observations on the Life and Works of Bhavabhuti	Dr. R.G. Harshe	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	50.00	–
0000 A	4355	Subandhu and Dandin	Dr. Maan Singh	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	475.00	–
0000 A	4356	(The) Tragicomedies of Shakespeare, Kalidasa and Bhavabhuti	Dr. P.B. Acharya	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	250.00	–
0000 A	4357	अनुवाद तरंगिणी	पं. देव शर्मा शास्त्री	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	30.00	–
0000 A	4358	तुलसी–रामायण शब्द–सूची	डॉ० सूर्यकांत	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	495.00	–
0000 A	4359	व्याकरण–महाभाष्यम्	वेदप्रकाश विद्यावाचस्पति	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	35.00	–
0000 A	4360	व्याकरण–महाभाष्य	वेदप्रकाश विद्यावाचस्पति	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	55.00	–
0000 A	4361	चक्रदत्त	पं. सदानन्द शास्त्री प्राणाचार्य	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	445.00	–
0000 A	4362	रसरत्नसमुच्चयः	दत्तात्रेय अनन्त कुलकर्णी	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	325.00	–
0000 A	4363	शार्ड.गधरसंहिता	हरदयाल वैद्यवाचस्पति	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स		–
0000 A	4364	सुश्रुत–संहिता	आयुर्वेदाचार्य डॉ० भास्कर गोविन्द घाणेकर	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स		–

0000 A	4365	माधवनिदान (दो भाग)	दीनानाथ शास्त्री वैद्यवाचस्पति	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	150.00 Per Vol.	–
0000 A	4366	माधवनिदान	आयुर्वेदाचार्य बंसरीलाल साहनी	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	40.00	–
0000 A	4367	(The) Surgical Instruments of the Hindus	Dr. Girindranath Mukhopadhyaya	मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स	475.00	–
0000 A	4368	वर्णसमीक्षा	सं. डॉ० सत्यप्रकाश दुबे	पं. मधुसूदन ओझा शोधप्रकोष्ठ	120.00	–
0000A	4369	पितृसमीक्षा	सं. डॉ० ए. एस. रामनाथन, डॉ० पद्मधर पाठक	पं. मधुसूदन ओझा शोधप्रकोष्ठ	100.00	–
0000 A	4370	अपरवादः	सं. डॉ० दयानन्द भार्गव	पं. मधुसूदन ओझा शोधप्रकोष्ठ	65.00	–
0000 A	4371	व्योमवादः	सं. डॉ० दयानन्द भार्गव	पं. मधुसूदन ओझा शोधप्रकोष्ठ	100.00	–
0000 A	4372	आवरणवादः	सं. डॉ० दयानन्द भार्गव	पं. मधुसूदन ओझा शोधप्रकोष्ठ	105.00	–
0000 A	4373	इन्द्रविजयः	सं. डॉ० कलानाथ शास्त्री	पं. मधुसूदन ओझा शोधप्रकोष्ठ	390.00	–
0000 A	4374	वेदधर्मव्याख्यानम्	सं. डॉ० दयानन्द भार्गव	पं. मधुसूदन ओझा शोधप्रकोष्ठ	250.00	–
0000 A	4375	स्मार्तकुण्डसमीक्षाध्यायः	सं. डॉ० रामकृष्ण व्यास	पं. मधुसूदन ओझा शोधप्रकोष्ठ	180.00	–
0000 A	4376	अम्मोवादः	सं. डॉ० दयानन्द भार्गव	पं. मधुसूदन ओझा शोधप्रकोष्ठ	170.00	–
0000 A	4377	कादम्बिनी	डॉ० गणेशीलाल सुथार	पं. मधुसूदन ओझा शोधप्रकोष्ठ	340.00	–
0000 A	4378	महर्षिकुलवैभवविमर्शः	डॉ० गणेशीलाल सुथार	पं. मधुसूदन ओझा शोधप्रकोष्ठ	70.00	–
0000 A	4379	श्रीमद्भगवद्गीताविज्ञानभाष्यम्	डॉ० गणेशीलाल सुथार	पं. मधुसूदन ओझा शोधप्रकोष्ठ	200.00	–
0000 A	4380	अत्रिख्यातिः	सं. डॉ० सत्यप्रकाश दुबे	पं. मधुसूदन ओझा शोधप्रकोष्ठ	470.00	–
0000 A	4381	दशवादरहस्यम्	सं. पं. अनन्त शर्मा	पं. मधुसूदन ओझा शोधप्रकोष्ठ	250.00	–
0000 A	4382	वर्णसमीक्षा	डॉ० सत्यप्रकाश दुबे	पं. मधुसूदन ओझा शोधप्रकोष्ठ	120.00	–
0000 A	4383	अपरवादः	डॉ० दयानन्द भार्गव	पं. मधुसूदन ओझा शोधप्रकोष्ठ	65.00	–
0000A	4384	रसकपूर	आनन्द शर्मा	राजस्थानी ग्रंथागार	200.00	–
0000 A	4385	बृहत्तर ब्राह्मण समाज	राघव शर्मा	राजस्थानी ग्रंथागार	225.00	–
0000 A	4386	ब्राह्मणोत्पत्ति–मार्तण्ड	पं. हरि कृष्ण शास्त्री	राजस्थानी ग्रंथागार	300.00	–
0000 A	4387	ब्राह्मणोत्पत्ति दर्पण	डॉ० मक्खनलाल मिश्र	राजस्थानी ग्रंथागार	550.00	–
0000 A	4388	गौड़ ब्राह्मण गोत्र – शासनावली	डॉ० एम. पी. शर्मा	राजस्थानी ग्रंथागार	40.00	–
0000 A	4389	ब्राह्मण गोत्रावली	इन्द्रमणि पाठक	राजस्थानी ग्रंथागार	120.00	–
0000 A	4390	वेणेश्वर धाम ब्रह्मा मंदिर ब्राह्मण उत्पत्ति एवं विकास	डॉ० करूणा जोशी	राजस्थानी ग्रंथागार	600.00	–
0000 A	4391	शूद्रों का प्राचीन इतिहास	रामशरण शर्मा	राजस्थानी ग्रंथागार	350.00	–
0000 A	4392	गंगा भागीरथ और रैगर	रमेश जलुथरिया	राजस्थानी ग्रंथागार	120.00	–
0000 A	4393	आदिवासी संस्कृति एवं प्रथाएं (राजस्थान के संदर्भ में)	डॉ० प्रकाशचन्द मेहता	राजस्थानी ग्रंथागार	700.00	–
0000 A	4394	गोगाजी चौहान की राजस्थानी गाथा	चन्द्रदान चारण	राजस्थानी ग्रंथागार	150.00	–
0000 A	4395	भगवान गोगादेव एक लोक देवता	दिनेश वीवल	राजस्थानी ग्रंथागार	300.00	–
0000 A	4396	मां आशापुरा का मदिर तथा नाडोल का राजवंश	डॉ० विन्ध्य राज चौहान	राजस्थानी ग्रंथागार	60.00	–
0000 A	4397	मां शाकम्भरी का मंदिर तथा चौहान राजवंश	डॉ० विन्ध्य राज चौहान	राजस्थानी ग्रंथागार	150.00	–
0000 A	4398	लोक देवता तेजाजी	डॉ० महिपालसिंह राठौड, डॉ० जयपालसिंह राठौड	राजस्थानी ग्रंथागार	200.00	–

0000 A	4399	जाटों की लोककथाएं	विक्रमसिंह व राजेन्द्र सिंघवी	राजस्थानी ग्रंथागार	200.00	—
0000 A	4400	तीर्थराज कोलायत	डॉ० प्रवीन कड़वासरा	राजस्थानी ग्रंथागार	350.00	—
0000 A	4401	सूर्य नगरी जोधपुर	डॉ० मोहनलाल गुप्ता	राजस्थानी ग्रंथागार	100.00	—
0000 A	4402	कवि आत्माराम विरचित — रामविलास काव्यम्	गोपालनारायण बहुरा	राजस्थानी ग्रंथागार	200.00	—
0000 A	4403	मीरांबाई की प्रामाणिक जीवनी	प्रो. कल्याणसिंह शेखावत	राजस्थानी ग्रंथागार	100.00	—
0000 A	4404	मीरांबाई : प्रामाणिक जीवनी एवं मूल पदावली	ब्रजेन्द्रकुमार सिंहल	राजस्थानी ग्रंथागार	900.00	—
0000 A	4405	मीरां (इतिहास, साहित्य और गीता के आलोक में)	डॉ० हुकमसिंह भाटी	राजस्थानी ग्रंथागार	150.00	—
0000 A	4406	गिरधर अनुरागी मीरां	डॉ० कल्याणसिंह, डॉ० महेन्द्र सिंह	राजस्थानी ग्रंथागार	450.00	—
0000 A	4407	मरु मंदाकिनी मीरा	रतनलाल मिश्र	राजस्थानी ग्रंथागार	200.00	—
0000 A	4408	मीरां बृहत्पदावली भाग—1	सं. हरनारायण पुरोहित	राजस्थानी ग्रंथागार	140.00	—
0000 A	4409	मीरांबाई की पदावली	परशुराम चतुर्वेदी	राजस्थानी ग्रंथागार	30.00	—
0000 A	4410	मीरां बाई और भक्ति की आध्यात्मिक अर्थ नीति	कुमकुम संगारी	राजस्थानी ग्रंथागार	295.00	—
0000 A	4411	संत मीरां बाई और उनकी पदावली	सं. बलदेव वंशी	राजस्थानी ग्रंथागार	160.00	—
0000 A	4412	भक्त मीरां बाई — ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और मीरां का जीवनवृत्त	रामवल्लभ सोमानी	राजस्थानी ग्रंथागार	50.00	—
0000A	4413	पीतांबरा (मीरा के जीवन पर आधारित उपन्यास)	भगवती शरण मिश्र	राजस्थानी ग्रंथागार	300.00	—
0000 A	4414	राज वधू (मीरा के जीवन पर आधारित उपन्यास)	शुभांगी भडभडे	राजस्थानी ग्रंथागार	225.00	—
0000 A	4415	बगड़ावत देवनारायण महागाथा	सं. लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत	राजस्थानी ग्रंथागार	300.00	—
0000 A	4416	बगड़ावत भारत देवनारायण की कथा	रामनारायण	राजस्थानी ग्रंथागार	100.00	—
0000 A	4417	बगड़ावत महाभारत	सं. रमेश बोराणा	राजस्थानी ग्रंथागार	300.00	—
0000 A	4418	श्री देवनारायण पुराण (सचित्र लीला)	हीराराम गुर्जर	राजस्थानी ग्रंथागार	300.00	—
0000 A	4419	श्री देवनारायण कथा (मारवाड़ का पारंपारिक गायन)	आदित्य मलिक	राजस्थानी ग्रंथागार	680.00	—
0000 A	4420	नाथ इतिहास	प्रकाशनाथ चौहान	राजस्थानी ग्रंथागार	150.00	—
0000 A	4421	नाथ चन्द्रिका	डॉ० नारायणसिंह भाटी	राजस्थानी ग्रंथागार	50.00	—
0000 A	4422	नाथ संप्रदाय	हजारीप्रसाद द्विवेदी	राजस्थानी ग्रंथागार	250.00	—
0000 A	4423	नाथ सिद्धों की बाणियां	हजारीप्रसाद द्विवेदी	राजस्थानी ग्रंथागार	200.00	—
0000 A	4424	भारत में नाथां रा आसण	डॉ० हुकमसिंह भाटी	राजस्थानी ग्रंथागार	125.00	—
0000 A	4425	श्री जालन्धरनाथ — पीठ सिरे मंदिर	डॉ० भगवतीलाल शर्मा	राजस्थानी ग्रंथागार	350.00	—
0000 A	4426	नाथ संप्रदाय इतिहास एवं दर्शन	योगी हुकमसिंह तंवर	राजस्थानी ग्रंथागार	300.00	—
0000 A	4427	राजस्थान के नाथ संप्रदाय का सांस्कृतिक इतिहास	डॉ० कमल किशोर सांखला	राजस्थानी ग्रंथागार	300.00	—
0000 A	4428	परम चमत्कारिक गोरखनाथ सिद्धियां	प्रकाशनाथ शास्त्री	राजस्थानी ग्रंथागार	200.00	—
0000 A	4429	गोरखनाथ महिमा एवं उपदेश	प्रकाशनाथ शास्त्री	राजस्थानी ग्रंथागार	150.00	—
0000 A	4430	गोरखनाथ और उनका युग	रांगेय राघव	राजस्थानी ग्रंथागार	300.00	—
0000 A	4431	भगवान दत्तात्रेय कृत गोरख सागर	शिव योगी	राजस्थानी ग्रंथागार	360.00	—
0000 A	4432	गोरखनाथ — नाथ संप्रदाय के परिप्रेक्ष्य में	डॉ० नागेन्द्रनाथ उपाध्याय	राजस्थानी ग्रंथागार	250.00	—
0000 A	4433	गोरखनाथ	डॉ० नागेन्द्रनाथ उपाध्याय	राजस्थानी ग्रंथागार	50.00	—
0000 A	4434	जोगी मत जा	विश्वम्भरनाथ उपाध्याय	राजस्थानी ग्रंथागार	350.00	—
0000 A	4435	जाग मच्छदर गोरख आया	विश्वम्भरनाथ उपाध्याय	राजस्थानी ग्रंथागार	300.00	—
0000 A	4436	संतों के प्रेरक एवं रोचक प्रसंग	डॉ० विक्रमसिंह राठौड़	राजस्थानी ग्रंथागार	200.00	—
0000 A	4437	राजस्थान का संत — साहित्य	डॉ० वसुमती शर्मा	राजस्थानी ग्रंथागार	275.00	—
0000 A	4438	राजस्थान के संत कवियों का दर्शन एवं लोकधर्मिता	डॉ० रामप्रसाद दाधीच	राजस्थानी ग्रंथागार	200.00	—
0000 A	4439	राजर्षि संत पीपाजी	ललित शर्मा	राजस्थानी ग्रंथागार	200.00	—
0000 A	4440	संत पीपाजी एवं भक्ति आंदोलन	डॉ० पूरन सहगल	राजस्थानी ग्रंथागार	600.00	—
0000 A	4441	रैदास की परचई	ब्रजेन्द्रकुमार सिंहल	राजस्थानी ग्रंथागार	300.00	—
0000A	4442	शेखावटी के संत	सागरमल शर्मा	राजस्थानी ग्रंथागार	200.00	—
0000 A	4443	मेवाड़—वागड़ के प्रमुख संत	डॉ० ईश्वरसिंह राणावत	राजस्थानी ग्रंथागार	450.00	—

0000 A	4444	योग सिद्ध ठा. गुमानसिंहजी व्यक्तित्व एवं कृतित्व	डॉ० रामसिंह सारंगदेवोत	राजस्थानी ग्रंथागार	250.00	–
0000 A	4445	गुमान ग्रंथावली भाग 1 व 2	डॉ० देव कोठारी, द्वारकानाथ दवे	राजस्थानी ग्रंथागार	350.00	–
0000 A	4446	संत मावजी	सुंदरलाल शर्मा	राजस्थानी ग्रंथागार	225.00	–
0000 A	4447	श्री महाराज हरिदासजी की वाणी – भाग 1 से 2	मंगलदास स्वामी	राजस्थानी ग्रंथागार	1000.00	–
0000 A	4448	श्री दादूवाणी टीका सहित	संत स्वामी नारायण दास	राजस्थानी ग्रंथागार	350.00	–
0000 A	4449	संत कवि दादू	डॉ० राजेश कौशिक	राजस्थानी ग्रंथागार	750.00	–
0000 A	4450	सुंदरविलास	रतनलाल मिश्र	राजस्थानी ग्रंथागार	300.00	–
0000 A	4451	श्री सेवादास जी महाराज की वाणी व्यक्तित्व एवं कृतित्व	डॉ० भंवर कसाना	राजस्थानी ग्रंथागार	500.00	–
0000 A	4452	रामस्नेही संतकवि दयालदास और उनका काव्य	डॉ० गोपीकिशन चितारा	राजस्थानी ग्रंथागार	400.00	–
0000 A	4453	रामस्नेही संतकाव्य परंपरा और मूल्यांकन	डॉ० सतीश कुमार	राजस्थानी ग्रंथागार	300.00	–
0000 A	4454	रामस्नेही संत स्वामी देवादास	डॉ० शैलेन्द्र स्वामी	राजस्थानी ग्रंथागार	150.00	–
0000 A	4455	दरियाव ग्रंथावली	ब्रजेन्द्रकुमार सिंहल	राजस्थानी ग्रंथागार	400.00	–
0000 A	4456	रज्जब की सरबंगी	ब्रजेन्द्रकुमार सिंहल	राजस्थानी ग्रंथागार	700.00	–
0000 A	4457	संत जांभोजी तथा बिश्नोई दर्शन	डॉ० सहीराम बिश्नोई	राजस्थानी ग्रंथागार	300.00	–
0000 A	4458	जांभाणी साहित्य विविध आयाम	डॉ० कृपालाल	राजस्थानी ग्रंथागार	300.00	–
0000 A	4459	गुरु जम्भेश्वर – विविध आयाम	डॉ० किशनाराम बिश्नोई	राजस्थानी ग्रंथागार	300.00	–
0000 A	4460	जांभोजी की वाणी	सूर्य शंकर पारीक	राजस्थानी ग्रंथागार	400.00	–
0000 A	4461	जांभा पुराण	स्वामी कृष्णानन्द आचार्य	राजस्थानी ग्रंथागार	950.00	–
0000 A	4462	सबद ग्रंथ : समग्र जसनाथी साहित्य	सूर्य शंकर पारीक	राजस्थानी ग्रंथागार	500.00	–
0000 A	4463	शांति दर्शन : महान् योगीराज श्री शांतिविजय जी	कांतिलाल जैन	राजस्थानी ग्रंथागार	400.00	–
0000 A	4464	एक अद्भुत योगी – शांति : जीवन–वृत्त	अनिता मेहता	राजस्थानी ग्रंथागार	1500.00	–
0000 A	4465	योगेश्वर श्री शांति विजयजी	डॉ० एम. एम. कोठारी	राजस्थानी ग्रंथागार	300.00	–
0000 A	4466	राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता	डॉ० दिनेशचन्द्र शुक्ला	राजस्थानी ग्रंथागार	200.00	–
0000 A	4467	लोक देवता तेजाजी	डॉ० महीपालसिंह राठौड़, डॉ० जयपाल सिंह राठौड़	राजस्थानी ग्रंथागार	200.00	–
0000 A	4468	तेजाजी गाथा	मदन मीणा	राजस्थानी ग्रंथागार	750.00	–
0000 A	4469	पाबू–प्रकास मोडजी आशिया कृत	शंकरसिंह आशिया	राजस्थानी ग्रंथागार	600.00	–
0000 A	4470	लोकदेवता पाबूजी	डॉ० महीपाल सिंह राठौड़	राजस्थानी ग्रंथागार	200.00	–
0000A	4471	बाबा रामदेव की प्रामाणिक जीवनी	डॉ० सोनाराम बिश्नोई	राजस्थानी ग्रंथागार	100.00	–
0000 A	4472	बाबा रामदेव इतिहास और साहित्य	डॉ० सोनाराम बिश्नोई	राजस्थानी ग्रंथागार	600.00	–
0000 A	4473	बाबा रामदेव पुराण	स्वामी गोकुलदासजी	राजस्थानी ग्रंथागार	300.00	–
0000 A	4474	लोकनायक बाबा रामदेव – लोकधर्म एवं लोक परंपरा	डॉ० कुमुद शर्मा	राजस्थानी ग्रंथागार	250.00	–
0000 A	4475	भगवान गोगादेव एक लोक देवता	दिनेश बीवाल	राजस्थानी ग्रंथागार	300.00	–
0000 A	4476	गोगाजी चौहान की राजस्थानी गाथा	चन्द्रदान चारण	राजस्थानी ग्रंथागार	150.00	–
0000 A	4477	श्री करणी माता का इतिहास	डॉ० नरेन्द्रसिंह चारण	राजस्थानी ग्रंथागार	200.00	–
0000 A	4478	राजस्थान के प्रमुख शक्तिपीठ	डॉ० राघवेन्द्रसिंह मनोहर	राजस्थानी ग्रंथागार	300.00	–
0000 A	4479	हमारी कुलदेवियां	रघुनाथ प्रसाद तिवाड़ी	राजस्थानी ग्रंथागार	201.00	–
0000 A	4480	राजस्थान की कुलदेवियां	डॉ० विक्रमसिंह भाटी	राजस्थानी ग्रंथागार	400.00	–
0000 A	4481	मारवाड़ की अवतारी देवियां	नन्दकिशोर शर्मा	राजस्थानी ग्रंथागार	300.00	–
0000 A	4482	ओसवाल गोत्र एवं कुलदेवियां	तेजसिंह तरूण	राजस्थानी ग्रंथागार	150.00	–
0000 A	4483	देवीचरित्र भाग 1 व 2	बुधसिंह चारण चतुर्वेदी	राजस्थानी ग्रंथागार	500.00	–
0000 A	4484	हिंगलाज शक्तिपीठ	ओंकार सिंह लखावत	राजस्थानी ग्रंथागार	350.00	–
0000 A	4485	मां आशापुरा का मदिर तथा नाडोल का राजवंश	डॉ० विन्ध्य राज चौहान	राजस्थानी ग्रंथागार	60.00	–
0000 A	4486	जमुवाय माता	डॉ० रघुनाथप्रसाद तिवाड़ी 'उमंग'	राजस्थानी ग्रंथागार	75.00	–

0000 A	4487	मां शाकम्भरी का मंदिर तथा शांकम्भर अजयमेरू का चौहान राजवंश	डॉ० विन्ध्य राज चौहान	राजस्थानी ग्रंथागार	200.00	–
0000 A	4488	श्री नागणेचियां माता	डॉ० भवानीसिंह पातावत	राजस्थानी ग्रंथागार	250.00	–
0000 A	4489	राठौड़ों की कुलदेवी श्री नागणेचियां माता	डॉ० भवानीसिंह पातावत	राजस्थानी ग्रंथागार	50.00	–
0000 A	4490	प्रतिहारों की कुलदेवी श्री नागण माता	नरपतसिंह इन्दा	राजस्थानी ग्रंथागार	100.00	–
0000 A	4491	जैसलमेर की लोकदेवियां	नंदकिशोर शर्मा	राजस्थानी ग्रंथागार	100.00	–
0000 A	4492	राजस्थान में धर्म संप्रदाय व आस्थाएं	डॉ० पेमाराम	राजस्थानी ग्रंथागार	500.00	–
0000 A	4493	राजस्थान की लोक व्रत संस्कृति	कविता मेहता	राजस्थानी ग्रंथागार	350.00	–
0000 A	4494	राजस्थानी व्रत कथावां	अर्जुन सिंह शेखावत	राजस्थानी ग्रंथागार	200.00	–
0000 A	4495	राजस्थानी व्रत कथाएं	मोहनलाल पुरोहित	राजस्थानी ग्रंथागार	100.00	–
0000 A	4496	राजस्थान के व्रत एवं उत्सव	डॉ० महेन्द्रसिंह नगर	राजस्थानी ग्रंथागार	250.00	–
0000 A	4497	महादेव पारवती री वेलि	सं. रावत सरस्वत	राजस्थानी ग्रंथागार	100.00	–
0000 A	4498	क्रिसन–रुकमणी री वेलि – राठौड़ पृथ्वीराज री कही	सं. नरोतमदास स्वामी	राजस्थानी ग्रंथागार	400.00	–
0000 A	4499	वेलि क्रिसन रुकमणी – री राठौड़ राज पृथ्वीराज री कही	अनु. जयपाल सिंह	राजस्थानी ग्रंथागार	600.00	–
0000A	4500	मांगलिक गीत एवं नेगचार	लता मित्तल	राजस्थानी ग्रंथागार	200.00	–
0000 A	4501	भोपा लोकगीत एवं सामाजिक संरचना	डॉ० उमेश भार्गव	राजस्थानी ग्रंथागार	1250.00	–
0000 A	4502	बांकीदास ग्रंथावली	सं. चन्द्रमौलि सिंह	राजस्थानी ग्रंथागार	600.00	–
0000 A	4503	नीति के राजस्थानी दोहे	चन्द्रदान चारण	राजस्थानी ग्रंथागार	400.00	–
0000 A	4504	प्राचीन भारतीय कला में मांगलिक प्रतीक	डॉ० विमलमोहिनी श्रीवास्तव	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	200.00	–
0000 A	4505	महाभारत का कालनिर्णय	डॉ० मोहनलाल गुप्ता	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	300.00	–
0000 A	4506	भारतीय वास्तु–कला	डॉ० परमेश्वरीलाल गुप्त	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	120.00	–
0000 A	4507	अयोध्या का राजवंश	नगीना सिंह	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	40.00	–
0000 A	4508	भोजराज	डॉ० भगवतीलाल राजपुरोहित	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	100.00	–
0000 A	4509	पूर्व मध्यकालीन जैनकला	डॉ० अवधेश यादव	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	250.00	–
0000 A	4510	बौद्ध कापालिक साधना और साहित्य	डॉ० नागेन्द्रनाथ उपाध्याय	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	300.00	–
0000 A	4511	बुद्धकालीन सामाजिक आर्थिक जीवन	डॉ० अखिलेश्वर मिश्र	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	180.00	–
0000 A	4512	बुद्ध और बोधिवृक्ष	डॉ० शीला सिंह	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	150.00	–
0000 A	4513	सनातन हिन्दू धर्म और बौद्ध धर्म	याम सुन्दर उपाध्याय	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	;a=LFk	–
0000 A	4514	आसन एवं योगमुद्राएं	डॉ० रवीन्द्रप्रताप सिंह	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	300.00	–

0000 A	4515	Hinduism and Buddhism	Dr. Asha Kumari	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	200.00	–
0000 A	4516	भारतीय समाज एवं संस्कृति : परिवर्तन की चुनौती	सत्य प्रकाश मित्तल	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	380.00	–
0000 A	4517	भारतीय संस्कृति के तीन सोपान	प्रो. राजाराम शास्त्री, प्रो. सत्यप्रकाश मित्तल	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	220.00	–
0000 A	4518	भारतीय संस्कृति की भूमिका	हृदयनारायण दीक्षित	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	250.00	–
0000 A	4519	उत्तिष्ठ कौन्तेय	डॉ० डेविड फ्राली	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	320.00	–
0000 A	4520	काशी का इतिहास	डॉ० मोतीचन्द्र	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	750.00	–
0000 A	4521	काशी की पाण्डित्य–परंपरा	पं. बलदेव उपाध्याय	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	600.00	–
0000 A	4522	काशी के घाट : कलात्मक एवं सांस्कृतिक अध्ययन	डॉ० हरिशंकर	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	300.00	–
0000 A	4523	शिव काशी	डॉ० प्रतिभा सिंह	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	400.00	–
0000 A	4524	Benaras : The Sacred City	E.B. Havell	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	150.00	–
0000 A	4525	Prinsep's Benares Illustrated	James Prinsep	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	800.00	–
0000 A	4526	भारतीय रहस्यवाद	डॉ० राधेश्याम दुबे	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	200.00	–
0000 A	4527	भारतीय दर्शन : सामान्य परिचय	पं. श्री व्रजवल्लभ द्विवेदी	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	60.00	–
0000 A	4528	भारतीय दर्शन का सुगम परिचय	डॉ० शिवशंकर गुप्त	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	100.00	–
0000A	4529	धर्म, दर्शन और विज्ञान में रहस्यवाद	प्रो. कल्याणमल लोढ़ा	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	250.00	–
0000 A	4530	दिव्य प्रतीक	प्रो. कल्याणमल लोढ़ा	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	100.00	–
0000 A	4531	सोमतत्व	प्रो. कल्याणमल लोढ़ा	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	100.00	–
0000 A	4532	दर्शन, धर्म तथा समाज	राजाराम शास्त्री	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	350.00	–
0000 A	4533	सनातन हिन्दू धर्म और बौद्ध धर्म	यामसुन्दर उपाध्याय	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	75.00	–

0000 A	4534	बौद्ध कापालिक साधना और साहित्य	डॉ० नागेन्द्रनाथ उपाध्याय	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	300.00	–
0000 A	4535	हिन्दू षड्दर्शन	स्वामी प्रत्यगात्मानन्द सरस्वती	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	150.00	–
0000 A	4536	वेद व विज्ञान	स्वामी प्रत्यगात्मानन्द सरस्वती	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	200.00	–
0000 A	4537	वेदांत और आइन्सटीन	अनिल भटनागर	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	100.00	–
0000 A	4538	विज्ञान और वेदांत	मान्धाता सिंह	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	100.00	–
0000 A	4539	अभिनव रस सिद्धांत	डॉ० दशरथ द्विवेदी	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	60.00	–
0000 A	4540	वक्रोक्तिजीवितम्	डॉ० दशरथ द्विवेदी	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	150.00	–
0000 A	4541	रसाभिव्यक्ति	डॉ० दशरथ द्विवेदी	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	150.00	–
0000 A	4542	दशरूपकम्	डॉ० रमाशंकर त्रिपाठी	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	150.00	–
0000 A	4543	ध्वन्यालोकः संपूर्ण	आचार्य चण्डिकाप्रसाद शुक्ल	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	250.00	–
0000 A	4544	ध्वन्यालोकः संपूर्ण प्रथम एवं द्वितीय उद्योत	आचार्य चण्डिकाप्रसाद शुक्ल	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	150.00	–
0000 A	4545	उपरूपकों का उद्‌भव और विकास	डॉ० इन्द्रा चक्रवाल	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	100.00	–
0000 A	4546	संस्कृत नाटकों में शौरसेनी	डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	30.00	–
0000 A	4547	संस्कृत के प्रतीकात्मक नाटक	डॉ० आशारानी त्रिपाठी	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	225.00	–
0000 A	4548	संस्कृत साहित्य की कहानी	उर्मिला मोदी	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	50.00	–
0000 A	4549	वैदिक साहित्य एवं संस्कृति	पदम् श्री डॉ० कपिलदेव द्विवेदी	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	250.00	–
0000 A	4550	वेदचयनम्	विश्वम्भरनाथ त्रिपाठी	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	70.00	–
0000 A	4551	ऋड्.मणिमाला	डॉ० हरिदत्त शास्त्री	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	80.00	–
0000 A	4552	ऋग्वेदभाष्यभूमिका	डॉ० हरिदत्त शास्त्री	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	50.00	–

0000 A	4553	वेद व विज्ञान	स्वामी प्रत्यगात्मानन्द सरस्वती	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	200.00	–
0000 A	4554	वेदांत और आइन्सटीन	अनिल भटनागर	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	100.00	–
0000 A	4555	विज्ञान और वेदांत	मान्धाता सिंह	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	100.00	–
0000 A	4556	भुशुण्डि रामायण	डॉ० भगवतीप्रसाद सिंह	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	500.00	–
0000 A	4557	मुद्राराक्षसम्	डॉ० रमाशंकर त्रिपाठी	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	150.00	–
0000A	4558	उत्तररामचरितम्	डॉ० रामअवध पाण्डेय, डॉ० रविनाथ मिश्र	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	140.00	–
0000 A	4559	अभिज्ञानशाकुन्तलम्	डॉ० शिवशंकर गुप्त	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	100.00	–
0000 A	4560	मेघदूतम्	डॉ० रमाशंकर त्रिपाठी	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	50.00	–
0000 A	4561	कुमारसंभवम्	डॉ० भारतेन्दु द्विवेदी	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	35.00	–
0000 A	4562	नलोपाख्यानम्	गंगासहाय 'प्रेमी'	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	40.00	–
0000 A	4563	कादम्बरी : कथामुखम्	डॉ० विश्म्भरनाथ त्रिपाठी	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	45.00	–
0000 A	4564	कादम्बरी	डॉ० देवर्षि सनाढ्य, श्री विश्म्भरनाथ त्रिपाठी	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	40.00	–
0000 A	4565	भर्तृहरिकृत नीतिशतकम्	श्रीमती शोभा सत्यदेव	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	30.00	–
0000 A	4566	शिशुपालवधम्	डॉ० जनार्दन गंगाधर रटाटे	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	40.00	–
0000 A	4567	महाकवि भारवि विरचितं किरातार्जुनीयम् (प्रथमः सर्गः)		विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	30.00	–
0000 A	4568	महाकवि भारवि विरचितं किरातार्जुनीयम् (द्वितीयः सर्गः)	डॉ० अनुभा वाजपेयी	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	50.00	–
0000 A	4569	रघुवंश–महाकाव्यम् (द्वितीयः सर्गः)	डॉ० देवर्षि सनाढय शास्त्री	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	15.00	–
0000 A	4570	कठोपनिषद्	डॉ० राजमणि पाण्डेय, डॉ० रविनाथ मिश्र	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	30.00	–
0000 A	4571	श्रीमद्भगवद्गीता (अध्याय 2–3 व 9)	डॉ० शिवशंकर गुप्त	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	35.00	–

0000 A	4572	श्रीमद्भगवद्गीता (अध्याय 9)	डॉ० भारतेन्दु द्विवेदी	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	9.00	–
0000 A	4573	सुन्दरकाण्डम् – पंचमः सर्ग	डॉ० शिवशंकर गुप्त	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	10.00	–
0000 A	4574	तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्	डॉ० कमलाप्रसाद पाण्डेय	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	20.00	–
0000 A	4575	भारतीय दर्शन : सामान्य परिचय	पं. श्री व्रजवल्लभ द्विवेदी	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	60.00	–
0000 A	4576	भारतीय संस्कृति के मूलतत्व	पं. श्री व्रजवल्लभ द्विवेदी	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	60.00	–
0000 A	4577	तर्क–संग्रहः	डॉ० शिवशंकर गुप्त	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	40.00	–
0000 A	4578	भारतीय दर्शन का सुगम परिचय	डॉ० शिवशंकर गुप्त	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	100.00	–
0000 A	4579	मनुस्मृति 'तत्व–बाधिनी'	डॉ० शिवशंकर गुप्त	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	40.00	–
0000 A	4580	सतसई–संहार (बिहारी सतसई की आलोचना)	पं. पदम्सिंह शर्मा	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	500.00	–
0000 A	4581	सूफी कवि जायसी का प्रेम – निरूपण	डॉ० निजामुद्दीन अंसारी	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	450.00	–
0000 A	4582	हिन्दी काव्य में हनुमत् चरित्र	डॉ० मीनाकुमारी गुप्त	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	400.00	–
0000 A	4583	तुलसीकृत विनयपत्रिका : काव्यशास्त्रीय अध्ययन	डॉ० रामअवतार पाण्डेय	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	320.00	–
0000 A	4584	तुलसी की काव्यभाषा	डॉ० हरिनिवास पाण्डेय	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	120.00	–
0000 A	4585	वल्लभ संप्रदाय और अष्टदाप	डॉ० युगेश्वर	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	90.00	–
0000 A	4586	संत रज्जब	डॉ० नंदकिशोर पाण्डेय	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	300.00	–
0000A	4587	कथा राम कै गूढ	डॉ० रामचन्द्र तिवारी	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	125.00	–
0000 A	4588	बौद्ध कापालिक साधना और साहित्य	डॉ० नागेन्द्रनाथ उपाध्याय	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	300.00	–
0000 A	4589	गोरखनाथ : नाथ संप्रदाय के परिप्रेक्ष्य में	डॉ० नागेन्द्रनाथ उपाध्याय	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	250.00	–
0000 A	4590	हिन्दी संत काव्य : समाजशास्त्रीय अध्ययन	प्रो. वासुदेव सिंह	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	380.00	–

0000 A	4591	रहिए अपने गावांजी	मनोज कुमार सिंह	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	120.00	–
0000 A	4592	मध्ययुगीन हिन्दी संत साहित्य और रवीन्द्रनाथ	डॉ० रामेश्वर मिश्र	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	150.00	–
0000 A	4593	सिद्धार्थ पर्यायवाची एवं विपर्याय कोश	डॉ० बदरीनाथ कपूर	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	50.00	–
0000 A	4594	कबीर–वाड.गमय		विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी		–
0000 A	4595	कबीर वाणी पीयूष	डॉ० जयदेव सिंह तथा डॉ० वासुदेव सिंह	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	60.00	–
0000 A	4596	कबीर–साखी–सुधा	डॉ० जयदेव सिंह तथा डॉ० वासुदेव सिंह	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	20.00	–
0000 A	4597	कबीर काव्य कोश	डॉ० वासुदेव सिंह	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	450.00	–
0000 A	4598	भये कबीर कबीर	डॉ० शुकदेव सिंह	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	250.00	–
0000 A	4599	कबीर और अखा : तुलनात्मक अध्ययन	डॉ० रामनाथ घूरेलाल शर्मा	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	200.00	–
0000 A	4600	कबीर और भारतीय संत साहित्य	डॉ० रामचन्द्र तिवारी	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	180.00	–
0000 A	4601	संत कबीर और भगताही पंथ	डॉ० शुकदेव सिंह	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	100.00	–
0000 A	4602	संतो राह दुओ हम दीठा (कबीर)	डॉ० भगवानदेव पाण्डेय	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	150.00	–
0000 A	4603	कबीर बीजक का भाषाशास्त्रीय अध्ययन	डॉ० शुकदेव सिंह	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	100.00	–
0000 A	4604	श्रीसद्गुरु कबीर साहेबकृत मूल बीजक	महन्त रामरूप गोस्वामी	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	300.00	–
0000 A	4605	त्रिवेणी	डॉ० रामचन्द्र तिवारी	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	40.00	–
0000 A	4606	चिन्तामणि	डॉ० रामचन्द्र तिवारी	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	45.00	–
0000 A	4607	भ्रमरगीत सार	आचार्य रामचंद्र शुक्ल	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	50.00	–
0000 A	4608	मानस सूक्ति सुधा	डॉ० भगवानदेव पाण्डेय	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	80.00	–
0000 A	4609	दीप का लक्ष्य प्रकाश	सूर्यकुमार शुक्ल	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	150.00	–

0000 A	4610	बृहत श्लोक संग्रह	प्रो. कल्याणमल लोढ़ा	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	200.00	–
0000 A	4611	तथागत (आत्मकथात्मक उपन्यास)	डॉ० बाबूराम त्रिपाठी	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	100.00	–
0000 A	4612	सूर्यवंश का प्रताप	डॉ० राजेन्द्रमोहन भटनागर	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	180.00	–
0000 A	4613	हस्तिनापुर का शूद्र महामात्य	डॉ० युगेश्वर	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	140.00	–
0000 A	4614	पांचाली	डॉ० बच्चन सिंह	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	125.00	–
0000 A	4615	तरुण संन्यासी (विवेकानंद)	राजेन्द्रमोहन भटनागर	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	60.00	–
0000A	4616	मैत्रेयी	परिपूर्णानन्द वर्मा	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	30.00	–
0000 A	4617	महाकवि कालिदास की आत्मकथा	डॉ० जयशंकर द्विवेदी	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	80.00	–
0000 A	4618	एक कैकेयी : पांच मंथरा	उर्वशी शर्मा	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	30.00	–
0000 A	4619	देवयानी : उत्कृष्ट पौराणिक नाटक	डॉ० एन. चन्द्रशेखरन् नायर	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	20.00	–
0000 A	4620	श्रीचन्द्रावली नाटिका	भारतेन्दु हरिश्चन्द्र	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	16.00	–
0000 A	4621	चन्द्रगुप्त	जयशंकर प्रसाद	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	25.00	–
0000 A	4622	स्कन्दगुप्त	जयशंकर प्रसाद	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	25.00	–
0000 A	4623	अजातशत्रु	जयशंकर प्रसाद	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	25.00	–
0000 A	4624	जयशंकरप्रसाद कृत ध्रुवस्वामिनी	डॉ० रामचन्द्र तिवारी	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	30.00	–
0000 A	4625	ध्रुवस्वामिनी	जयशंकर प्रसाद	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	20.00	–
0000 A	4626	महाकवि कालिदास	शिवप्रसाद मिश्र 'रुद्र काशिकेय'	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	25.00	–
0000 A	4627	गंगाद्वार	लक्ष्मीनारायण मिश्र	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी		–
0000 A	4628	परशुराम	श्यामनारायण पाण्डेय	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	100.00	–

0000 A	4629	घनानन्द–कवित्त	आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कृत	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	200.00	–
0000 A	4630	मलिक मुहम्मद जायसी कृत पदुमावती	सं. कन्हैया सिंह	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	500.00	–
0000 A	4631	पद्मावत जायसी	डॉ० सच्चिदानन्द राय व डॉ० मान्धाता राय	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	36.00	–
0000 A	4632	मलिक मुहम्मद जायसी और पद्मावत	डॉ० मोहनलाल तिवारी	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	40.00	–
0000 A	4633	पद्मावती समय (पृथ्वीराज रासो)	डॉ० मोहनलाल तिवारी	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	25.00	–
0000 A	4634	पृथ्वीराज रासो–सार	डॉ० कन्हैया सिंह	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	15.00	–
0000 A	4635	कन्हावत (जायसी कृत)	डॉ० परमेश्वरीलाल गुप्त	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	150.00	–
0000 A	4636	भक्त भावन (ग्वालकवि कृत)	डॉ० प्रेमलता बाफना	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	80.00	–
0000 A	4637	भ्रमरगीत सार	आचार्य रामचंद्र शुक्ल	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	50.00	–
0000 A	4638	केशव–काव्य–कौमुदी	डॉ० विजयपाल सिंह	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	10.00	–
0000 A	4639	संक्षिप्त रामचन्द्रिका	डॉ० रामचन्द्र तिवारी	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	20.00	–
0000 A	4640	रामचरितमानस : अयोध्या काण्ड	डॉ० रामचन्द्र तिवारी	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	40.00	–
0000 A	4641	सूर–संचयन	उर्मिला मोदी	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	30.00	–
0000 A	4642	संत रज्जब	डॉ० नन्दकिशोर पाण्डेय	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	300.00	–
0000 A	4643	कबीर वाणी पीयूष	डॉ० जयदेव सिंह तथा डॉ० वासुदेव सिंह	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	60.00	–
0000 A	4644	कबीर–साखी–सुधा	डॉ० जयदेव सिंह तथा डॉ० वासुदेव सिंह	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	20.00	–
0000A	4645	बुद्ध और उनकी शिक्षा – हेनरी यस. ऑल्कॉट	अनु. छत्रधारी सिंह, डॉ०	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	200.00	–
0000 A	4646	तथागत (आत्मकथात्मक उपन्यास)	डॉ० बाबूराम त्रिपाठी	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	100.00	–
0000 A	4647	करुणामूर्ति बुद्ध	डॉ० गुणवन्त शाह	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	25.00	–

0000 A	4648	महामानव महावीर	डॉ० गुणवन्त शाह	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	30.00	–
0000 A	4649	रावण की सत्यकथा	रामनगीना सिंह	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	80.00	–
0000 A	4650	कथा त्रिदेव की	रामनगीना सिंह	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	50.00	–
0000 A	4651	श्रीकृष्ण : कर्म–दर्शन	शारदाप्रसाद सिंह	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	40.00	–
0000 A	4652	कृष्णायन	रामबदन राय	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	300.00	–
0000 A	4653	कथा राम कै गूढ	डॉ० रामचन्द्र तिवारी	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	125.00	–
0000 A	4654	श्री शंकराचार्य	आचार्य बलदेव उपाध्याय	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	160.00	–
0000 A	4655	तुकाराम गाथा	अनु. ना. वि. सप्रे	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	400.00	–
0000 A	4656	काशी के विद्यारत्न संन्यासी	पं. बलदेव उपाध्याय	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	60.00	–
0000 A	4657	श्री श्री सिद्धिमाता	राजबाला देवी	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	90.00	–
0000 A	4658	योगिराज तैलंग स्वामी	विश्वनाथ मुखर्जी	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	45.00	–
0000 A	4659	ब्रह्मर्षि देवराहा–दर्शन	डॉ० अर्जुन तिवारी	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	60.00	–
0000 A	4660	प्रकाश–पथ का यात्री	योगेश्वर	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	200.00	–
0000 A	4661	अघोर पंथ और संत कीनाराम	डॉ० सुशीला मिश्र	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	150.00	–
0000 A	4662	शिवस्वरूप बाबा हैड़ाखान	सद्गुरुप्रसाद श्रीवास्तव	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	200.00	–
0000 A	4663	नीब करौरी के बाबा	डॉ० बदरीनाथ कपूर व परीक्षित कुमार चोपड़ा	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	25.00	–
0000 A	4664	बाबा नीब करौरी के अलौकिक प्रसंग	बच्चन सिंह	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	300.00	–
0000 A	4665	सोमबारी महाराज	हरिश्चन्द्र मिश्र	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	100.00	–
0000 A	4666	संत रज्जब	डॉ० नन्दकिशोर पाण्डेय	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	300.00	–

0000 A	4667	संत रैदास	श्रीमती पद्मावती झुनझुनवाला	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	70.00	–
0000 A	4668	रैदास परिचई	डॉ० शुकदेव सिंह	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	25.00	–
0000 A	4669	समर्थ रामदास	ना.वि. सप्रे	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	50.00	–
0000 A	4670	मनीषी की लोकयात्रा	डॉ० भगवतीप्रसाद सिंह	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	600.00	–
0000 A	4671	ज्ञानगंज	पं. गोपीनाथ कविराज	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	70.00	–
0000 A	4672	योगिराजाधिराज श्री श्री विशुद्धानन्द परमहंस	अक्षयकुमार दत्त गुप्त कविरत्न	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	400.00	–
0000 A	4673	योगिराज विशुद्धानन्द प्रसंग तथा तत्व कथा	पं. गोपीनाथ कविराज	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	150.00	–
0000A	4674	सूर्य विज्ञान प्रेणता योगिराजाधिराज स्वामी विशुद्धानन्द परमहंसदेव : जीवन और दर्शन	नन्दलाल गुप्त	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	180.00	–
0000 A	4675	Yogirajadhiraj Swami Vishuddhanand Paramhansdeva : Life & Philosophy	Nand Lal Gupta	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	600.00	–
0000 A	4676	पुराण पुरूष योगिराज श्रीश्यामाचरण लाहिड़ी	अशोक कुमार चट्टोपाध्याय	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	200.00	–
0000 A	4677	Purana Purusha Yogiraj Sri Shyama Charan Lahiree	Dr. Ashok Kumar Chatterjee	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	600.00	–
0000 A	4678	कौन हैं ये श्यामाचरण	अशोक कुमार चट्टोपाध्याय	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	180.00	–
0000 A	4679	Who is this Shama Churn?	Dr. Ashok Kumar Chatterjee	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	350.00	–
0000 A	4680	योग एवं गृहस्थ योगी : योगीराज सत्यचरण लाहिड़ी	शिवनारायण लाल	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	150.00	–
0000 A	4681	Yog and a House Holder Yogi : Yogiraj Satya Charan Lahiri	Shiv Narayan Lal	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	300.00	–
0000 A	4682	Satyacharan in the Abode of Truth	Dr. Ashok Kumar Chatterjee	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	70.00	–
0000 A	4683	Autobiography of a Yogi	Paramhansa Yoganand	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	115.00	–
0000 A	4684	भारत के महान योगी	विश्वनाथ मुखर्जी	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	100.00	–
0000 A	4685	भारत की महान साधिकाएं	विश्वनाथ मुखर्जी	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	50.00	–

0000 A	4686	महाराष्ट्र के संत–महात्मा	ना.वि. सप्रे	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	200.00	–
0000 A	4687	महाराष्ट्र के कर्मयोगी	ना.वि. सप्रे	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	80.00	–
0000 A	4688	आधुनिक भारत के युग प्रवर्तक संत	लक्ष्मी सक्सेना	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	250.00	–
0000 A	4689	उत्तराखण्ड की संत परंपरा	डॉ० गिरिराज शाह	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	80.00	–
0000 A	4690	पूर्वांचल के संत महात्मा	परागकुमार मोदी	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	60.00	–
0000 A	4691	भुड़कुड़ा की संत परंपरा	डॉ० इन्द्रदेव सिंह	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	150.00	–
0000 A	4692	गोरखनाथ : नाथ संप्रदाय के परिप्रेक्ष्य में	डॉ० नागेन्द्रनाथ उपाध्याय	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	250.00	–
0000 A	4693	बौद्ध कापालिक साधना और साहित्य	डॉ० नागेन्द्रनाथ उपाध्याय	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	300.00	–
0000 A	4694	आलोकपंज स्वामी स्वतंत्रानंद	डॉ० कन्हैया सिंह	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	50.00	–
0000 A	4695	अनन्त की ओर	पं. गोपीनाथ कविराज	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	500.00	–
0000 A	4696	रहस्यमय सिद्धभूमि तथा सूर्यविज्ञान	पं. गोपीनाथ कविराज	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	250.00	–
0000 A	4697	तत्वजिज्ञासा	पं. गोपीनाथ कविराज	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	200.00	–
0000 A	4698	तत्वानुभूति	पं. गोपीनाथ कविराज	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	200.00	–
0000 A	4699	साधन–पथ	पं. गोपीनाथ कविराज	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	200.00	–
0000 A	4700	परलोक तत्व	भागर्व शिवरामकिंकर योगत्रयानन्द	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	400.00	–
0000 A	4701	मानव–तत्व तथा वर्ण विवेक	भागर्व शिवरामकिंकर योगत्रयानन्द	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	200.00	–
0000 A	4702	सृष्टि–तत्व तथा राजा एवं प्रजा	भागर्व शिवरामकिंकर योगत्रयानन्द	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	60.00	–
0000A	4703	हिन्दू षड्दर्शन	स्वामी श्री प्रत्यगात्मानन्द सरस्वती	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	150.00	–
0000 A	4704	जपसूत्रम् (प्रथम खण्ड)	स्वामी श्री प्रत्यगात्मानन्द सरस्वती	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	150.00	–

0000 A	4705	जपसूत्रम् (द्वितीय खण्ड)	स्वामी श्री प्रत्यगात्मानन्द सरस्वती	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	150.00	–
0000 A	4706	वेद व विज्ञान	स्वामी श्री प्रत्यगात्मानन्द सरस्वती	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	200.00	–
0000 A	4707	वेदांत और आइन्सटीन	अनिल भटनागर	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	100.00	–
0000 A	4708	विज्ञान और वेदांत	मान्धाता सिंह	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	100.00	–
0000 A	4709	भारतीय रहस्यवाद	डॉ० राधेश्याम दुबे	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	200.00	–
0000 A	4710	स्तुति नति प्रणति	नथमल केडिया	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	80.00	–
0000 A	4711	अतीन्द्रिय लोक	गोविन्द प्रसाद श्रीवास्तव	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	60.00	–
0000 A	4712	योग वासिष्ठ की सात कहानियां	भरत झुनझुनवाला	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	60.00	–
0000 A	4713	सौन्दर्यलहरी : तंत्र–दृष्टि और सौन्दर्य–सृष्टि	प्रभुदयाल मिश्र	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	150.00	–
0000 A	4714	कुण्डलिनी शक्तियोग तथा समाधि एवं मोक्ष	डॉ० दिनेशकुमार अग्रवाल	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	80.00	–
0000 A	4715	स्वर से समाधि	स्वामी कृष्णानन्दजी 'महाराज'	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	150.00	–
0000 A	4716	यंत्र–मंत्र रहस्य	स्वामी कृष्णानन्दजी 'महाराज'	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	180.00	–
0000 A	4717	गड.गा : पावन गड.गा	डॉ० शुकदेव सिंह	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	25.00	–
0000A	4718	दिव्य प्रतीक	प्रो. कल्याणमल लोढ़ा	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	100.00	–
0000 A	4719	वाग्दोह	प्रो. कल्याणमल लोढ़ा	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	200.00	–
0000 A	4720	बृहत श्लोक संग्रह	प्रो. कल्याणमल लोढ़ा	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	200.00	–
0000 A	4721	सोमतत्व	प्रो. कल्याणमल लोढ़ा	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	100.00	–
0000 A	4722	गुप्त भारत की खोज	पाल ब्रंटन	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	150.00	–
0000 A	4723	श्रीमद् एकनाथी भागवत	अनु. ना. वि. सप्रे	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	750.00	–

0000 A	4724	हिन्दी ज्ञानेश्वरी	अनु. ना. वि. सप्रे	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	180.00	–
0000 A	4725	कृष्ण का जीवन संगीत (गीता)	डॉ० गुणवन्त शाह	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	300.00	–
0000 A	4726	यथार्थ गीता	स्वामी अड़गड़ानन्द	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	200.00	–
0000 A	4727	गीता दर्शन (दो खण्ड)	रत्नाकर	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	1000.00	–
0000 A	4728	गीता का शब्दकोश	रत्नाकर	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	500.00	–
0000 A	4729	रामचरितमानस (तीन खण्ड)	टीकाकार : विनायक राव	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	2750.00	–
0000 A	4730	शंकरज्योति	स्वा. सोमास्कन्दन्	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	350.00	–
0000 A	4731	श्रीमद्भगवद्गीता	योगाचार्य पण्डित पंचानन भट्टाचार्य	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	230.00	–
0000 A	4732	श्रीमद्भगवद्गीता (3 खण्ड़ों में)	श्री श्यामाचरण लाहिड़ी (प्रति सेट)	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	750.00	–
0000 A	4733	गीता रहस्य	लोकमान्य तिलक	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	600.00	–
0000 A	4734	Spiritual Gita in 3 Vols.	Shyama Charan Lahiri (Per Set)	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	750.00	–
0000 A	4735	विल्वदल (दो खंडों में)	भूपेन्द्रनाथ सान्याल	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	160.00	–
0000 A	4736	आत्मानुसंधान और आत्मानुभूति	भूपेन्द्रनाथ सान्याल	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	30.00	–
0000 A	4737	दिनचर्या	भूपेन्द्रनाथ सान्याल	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	40.00	–
0000 A	4738	आत्म–बोध	भूपेन्द्रनाथ सान्याल	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	50.00	–
0000 A	4739	प्राणमयं जगत	अशोक कुमार चट्टोपाध्याय	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	45.00	–
0000 A	4740	श्यामाचरण क्रियायोग व अद्वैतवाद	अशोक कुमार चट्टोपाध्याय	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	200.00	–
0000 A	4741	अनंत की ओर	अशोक कुमार चट्टोपाध्याय	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	90.00	–
0000 A	4742	गोपीगीत	करपात्रीजी महाराज	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	300.00	–

0000 A	4743	भ्रमर–गीत	करपात्रीजी महाराज	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	90.00	–
0000 A	4744	रामायण–मीमांसा	करपात्रीजी महाराज	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	320.00	–
0000 A	4745	भक्ति–सुधा	करपात्रीजी महाराज	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	220.00	–
0000 A	4746	श्रीभागवत–सुधा	करपात्रीजी महाराज	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	90.00	–
0000A	4747	श्रीराधा–सुधा	करपात्रीजी महाराज	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	90.00	–
0000 A	4748	श्रीविद्या–रत्नाकर	करपात्रीजी महाराज	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	400.00	–
0000 A	4749	श्रीविद्या वरिवस्या	करपात्रीजी महाराज	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	200.00	–
0000 A	4750	श्रीमहागणपति वरिवस्या	श्री दत्तात्रेयानन्दनाथ	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	60.00	–
0000 A	4751	श्री भुवनेश्वरी वरिवस्या	श्री दत्तात्रेयानन्दनाथ	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	50.00	–
0000 A	4752	वक्रेश्वर की भैरवी	अरुणकुमार शर्मा	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	200.00	–
0000 A	4753	तिब्बत की वह रहस्यमयी घाटी	अरुणकुमार शर्मा	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	200.00	–
0000 A	4754	मृतात्माओं से सम्पर्क	अरुणकुमार शर्मा	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	200.00	–
0000 A	4755	वह रहस्यमय कापालिक मठ	अरुणकुमार शर्मा	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	225.00	–
0000 A	4756	परलोक के खुलते रहस्य	अरुणकुमार शर्मा	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	300.00	–
0000 A	4757	योग तांत्रिक साधना प्रसंग	अरुणकुमार शर्मा	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	250.00	–
0000 A	4758	आवाहन	अरुणकुमार शर्मा	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	300.00	–
0000 A	4759	रहस्य	अरुणकुमार शर्मा	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	300.00	–
0000 A	4760	वह रहस्यमय संन्यासी	अरुणकुमार शर्मा	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	250.00	–
0000 A	4761	आकाशचारिणी	अरुणकुमार शर्मा	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	180.00	–

0000 A	4762	तीसरा नेत्र (प्रथम खण्ड)	अरुणकुमार शर्मा	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	250.00	–
0000 A	4763	तीसरा नेत्र (द्वितीय खण्ड)	अरुणकुमार शर्मा	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	300.00	–
0000 A	4764	मरणोत्तर जीवन का रहस्य	अरुणकुमार शर्मा	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	250.00	–
0000 A	4765	परलोक विज्ञान	अरुणकुमार शर्मा	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	300.00	–
0000 A	4766	मारण पात्र	अरुणकुमार शर्मा	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	400.00	–
0000 A	4767	कारण पात्र	अरुणकुमार शर्मा	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	200.00	–
0000 A	4768	कुण्डलिनी शक्ति	अरुणकुमार शर्मा	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	300.00	–
0000 A	4769	अभौतिक सत्ता में प्रवेश	अरुणकुमार शर्मा	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	200.00	–
0000 A	4770	तंत्रम्	अरुणकुमार शर्मा	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	300.00	–
0000 A	4771	योग और आरोग्य (साधना और सिद्धि)	डॉ० कपिलदेव द्विवेदी	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	300.00	–
0000 A	4772	योग साधना : आधुनिक परिप्रेक्ष्य में	खेमचन्द्र चतुर्वेदी	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	100.00	–
0000 A	4773	आसन एवं योगमुद्राएं	डॉ० रवीन्द्रप्रताप सिंह	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	300.00	–
0000 A	4774	योग के विविध आयाम	डॉ० रामचन्द्र तिवारी	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	40.00	–
0000 A	4775	दीर्घायु के रहस्य	डॉ० विनयमोहन शर्मा	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	50.00	–
0000A	4776	मां और शिशु	डॉ० भानुशंकर मेहता	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी	25.00	–
0000 A	4777	ज्योतिषशास्त्र एवं अंतरिक्ष विज्ञान	डॉ० दिनेश कुमार अग्रवाल	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी		–
0000 A	4778	घनआनन्द ग्रंथावली	डॉ० राजकुमार उपाध्याय 'मणि'	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी		–
0000 A	4779	कृष्ण और मानव संबंध	डॉ० भानुशंकर मेहता	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी		–
0000 A	4780	बौद्ध तथा जैन धर्म	डॉ० महेन्द्र नाथ सिंह	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी		–

0000 A	4781	ऋक्सूक्तरत्नानि	गौरीशंकर सिंह	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी		–
0000 A	4782	धर्म की विज्ञान यात्रा	कृष्णा कान्त पाठक	सूर्य प्रकाशन मंदिर	300.00	–
0000 A	4783	कर्तव्यनिष्ठ कौशल्या	निर्मोही व्यास	सूर्य प्रकाशन मंदिर	150.00	–
0000 A	4784	कौन आत्मा किसका पुनर्जन्म	डॉ० सुभग	सूर्य प्रकाशन मंदिर	135.00	–
0000 A	4785	विश्व संस्कृति का बीज	डॉ० कन्हैयालाल शर्मा	सूर्य प्रकाशन मंदिर	150.00	–
0000 A	4786	संस्कृति की आर्थिकी	नन्दकिशोर आचार्य	सूर्य प्रकाशन मंदिर	135.00	–
0000 A	4787	साहित्य का अध्यात्म	नन्दकिशोर आचार्य	सूर्य प्रकाशन मंदिर	175.00	–
0000 A	4788	ब्रज विलास		तेज कुमार बुक डिपो	130.00	–
0000 A	4789	सुखसागर		तेज कुमार बुक डिपो	350.00	–
0000 A	4790	भक्तमाल भाषा अर्थात् भक्तकल्पद्रुम	श्री प्रताप सिंह	तेज कुमार बुक डिपो	150.00	–
0000 A	4791	शिवपुराण – भाषा 11 खण्डों में		तेज कुमार बुक डिपो	200.00	–
0000 A	4792	महाभारत भाषा सजिल्द		तेज कुमार बुक डिपो	180.00	–
0000 A	4793	भक्ति सागर चरण दास		तेज कुमार बुक डिपो	125.00	–
0000 A	4794	योगवशिष्ठ संपूर्ण दो भागों में		तेज कुमार बुक डिपो	560.00	–
0000 A	4795	विश्राम सागर सटीक सचित्र सजिल्द		तेज कुमार बुक डिपो	225.00	–
0000 A	4796	भक्तमाल नाभाजी सटीक बड़ी सजिल्द		तेज कुमार बुक डिपो	260.00	–
0000 A	4797	अष्टावक्र गीता दर्पण सजिल्द		तेज कुमार बुक डिपो	100.00	–
0000 A	4798	चाणक्य नीति दर्पण		तेज कुमार बुक डिपो	20.00	–
0000 A	4799	चित्रकूट महात्म्य		तेज कुमार बुक डिपो	7.00	–
0000 A	4800	प्रेमसागर सजिल्द		तेज कुमार बुक डिपो	120.00	–
0000 A	4801	अनुराग सागर		तेज कुमार बुक डिपो	24.00	–
0000 A	4802	दुर्गा सप्तशती भाषा टीका सजिल्द		तेज कुमार बुक डिपो	120.00	–
0000 A	4803	हनुमान चालीसा		तेज कुमार बुक डिपो	5.00	–
0000 A	4804	नरसिंह पुराण		तेज कुमार बुक डिपो	50.00	–
0000A	4805	गोपाल सहस्त्रनाम		तेज कुमार बुक डिपो	7.00	–
0000 A	4806	सूर्यपुराण भाषा		तेज कुमार बुक डिपो	8.00	–
0000 A	4807	अर्जुन गीता		तेज कुमार बुक डिपो	6.00	–
0000 A	4808	विष्णु सहस्त्रनाम		तेज कुमार बुक डिपो	7.00	–
0000 A	4809	ऋषिपंचमी व्रतकथा		तेज कुमार बुक डिपो	5.00	–
0000 A	4810	रामायण तु. कृ. टीका सचित्र सजिल्द	पं. लक्ष्मणप्रसाद भारद्वाज	तेज कुमार बुक डिपो	300.00	–
0000 A	4811	रामायण	सूर्यदीन शुक्ल	तेज कुमार बुक डिपो	300.00	–
0000 A	4812	नूतन स्त्रीसुबोधिनी		तेज कुमार बुक डिपो	100.00	–
0000 A	4813	सुन्दर विलास		तेज कुमार बुक डिपो	30.00	–
0000 A	4814	हनुमन्त बावनी		तेज कुमार बुक डिपो	2.00	–
0000 A	4815	हरितालिका		तेज कुमार बुक डिपो	5.00	–
0000 A	4816	भगवद्गीता भाषा सजिल्द		तेज कुमार बुक डिपो	40.00	–
0000 A	4817	शतपंच चौपाई		तेज कुमार बुक डिपो	3.00	–
0000 A	4818	सत्यनारायण रेवाखंडी भाषा टीका		तेज कुमार बुक डिपो	15.00	–
0000 A	4819	आल्हखण्ड सजिल्द ललिता प्रसाद कृत		तेज कुमार बुक डिपो	150.00	–
0000 A	4820	नवीन संग्रह		तेज कुमार बुक डिपो	40.00	–
0000 A	4821	सुंदर कांड गुटका		तेज कुमार बुक डिपो	3.00	–
0000 A	4822	शिव चालीसा		तेज कुमार बुक डिपो	1.00	–
0000 A	4823	महाभारत सबल सिंह चौहान दोहा चौपाई		तेज कुमार बुक डिपो	In Press	–
0000 A	4824	हंसराज निदान सटीक		तेज कुमार बुक डिपो	In Press	–
0000 A	4825	अमृत सागर भाषा सजिल्द		तेज कुमार बुक डिपो	150.00	–
0000 A	4826	अमृत फल – आंवला		तेज कुमार बुक डिपो	20.00	–
0000 A	4827	अदरक, सोंठ, हल्दी, पीपल		तेज कुमार बुक डिपो	5.00	–
0000 A	4828	अंगूर, अनार, सेब, संतरा		तेज कुमार बुक डिपो	6.00	–
0000 A	4829	मांस व अंडे के गुण और दोष		तेज कुमार बुक डिपो	5.00	–
0000 A	4830	इलाजुल्गुर्बा नागरी		तेज कुमार बुक डिपो	62.00	–
0000 A	4831	शार्ड.गधर संहिता सटीक सजिल्द		तेज कुमार बुक डिपो	90.00	–
0000 A	4832	माधव निदान भाषा – टीका सजिल्द		तेज कुमार बुक डिपो	100.00	–
0000 A	4833	चाय के गुण दोष		तेज कुमार बुक डिपो	7.00	–

0000A	4834	टमाटर, करेला, बैंगन, परवल		तेज कुमार बुक डिपो	7.00	–
0000 A	4835	डाक्टर तुलसी		तेज कुमार बुक डिपो	20.00	–
0000 A	4836	डाक्टर दूध		तेज कुमार बुक डिपो	7.00	–
0000 A	4837	डाक्टर शहद		तेज कुमार बुक डिपो	7.00	–
0000 A	4838	डाक्टर आम		तेज कुमार बुक डिपो	10.00	–
0000 A	4839	डाक्टर गन्ना		तेज कुमार बुक डिपो	5.00	–
0000 A	4840	डाक्टर जल		तेज कुमार बुक डिपो	20.00	–
0000 A	4841	डाक्टर त्रिफला		तेज कुमार बुक डिपो	10.00	–
0000 A	4842	डाक्टर बेल		तेज कुमार बुक डिपो	5.00	–
0000 A	4843	दाल		तेज कुमार बुक डिपो	5.00	–
0000 A	4844	डाक्टर गेहूं और डाक्टर चना		तेज कुमार बुक डिपो	7.00	–
0000 A	4845	तम्बाकू के गुण और दोष		तेज कुमार बुक डिपो	5.00	–
0000 A	4846	दूध और दूध से बनी चीजें		तेज कुमार बुक डिपो	30.00	–
0000 A	4847	नमक के गुण और दोष		तेज कुमार बुक डिपो	7.00	–
0000 A	4848	नींबू और उसके सौ उपयोग		तेज कुमार बुक डिपो	5.00	–
0000 A	4849	नीम और उसके सौ उपयोग		तेज कुमार बुक डिपो	6.00	–
0000 A	4850	पपीता, केला, अमरूद, शरीफा		तेज कुमार बुक डिपो	7.00	–
0000 A	4851	जामुन और उसके सौ उपयोग		तेज कुमार बुक डिपो	7.00	–
0000 A	4852	हर्र और उसके सौ उपयोग		तेज कुमार बुक डिपो	15.00	–
0000 A	4853	जौ और उसके सौ उपयोग		तेज कुमार बुक डिपो	7.00	–
0000 A	4854	प्याज के उपयोग		तेज कुमार बुक डिपो	5.00	–
0000 A	4855	मिट्टी चिकित्सा		तेज कुमार बुक डिपो	20.00	–
0000 A	4856	मूली, गाजर, शलजम, चुकन्दर		तेज कुमार बुक डिपो	7.00	–
0000 A	4857	सूखे मेवे		तेज कुमार बुक डिपो	7.00	–
0000 A	4858	सोयाबीन		तेज कुमार बुक डिपो	7.00	–
0000 A	4859	लहसुन के उपयोग		तेज कुमार बुक डिपो	7.00	–
0000 A	4860	भावप्रकाश भाषा		तेज कुमार बुक डिपो	150.00	–
0000 A	4861	जातक भरण		तेज कुमार बुक डिपो	55.00	–
0000 A	4862	लग्न जातक		तेज कुमार बुक डिपो	8.00	–
0000A	4863	बृजज्जातक : सार सटीक सजिल्द		तेज कुमार बुक डिपो	90.00	–
0000 A	4864	बृजज्जातक सटीक स्टिफ कवर (ज्योतिष)		तेज कुमार बुक डिपो	35.00	–
0000 A	4865	मुहूर्त चिन्तामणि सटीक		तेज कुमार बुक डिपो	60.00	–
0000 A	4866	लग्न चन्द्रिका		तेज कुमार बुक डिपो	35.00	–
0000 A	4867	प्रश्न प्रकाश		तेज कुमार बुक डिपो	8.00	–
0000 A	4868	फल प्रकाश		तेज कुमार बुक डिपो	6.00	–
0000 A	4869	पार्वण श्राद्ध		तेज कुमार बुक डिपो	9.00	–
0000 A	4870	विवाह पद्धति भाषा टीका		तेज कुमार बुक डिपो	30.00	–
0000 A	4871	सर्वतोभद्र चक्रम		तेज कुमार बुक डिपो	25.00	–
0000 A	4872	चमत्कार चिन्तामणि (ज्योतिष)		तेज कुमार बुक डिपो	12.00	–
0000 A	4873	शीघ्र बोध		तेज कुमार बुक डिपो	50.00	–
0000 A	4874	गरुड़ पुराण भाषा टीका		तेज कुमार बुक डिपो	55.00	–
0000 A	4875	कर्म विपाक संहिता		तेज कुमार बुक डिपो	35.00	–
0000 A	4876	नया पत्रा रामप्रसाद संवत वि. 2070		तेज कुमार बुक डिपो	25.00	–
0000 A	4877	वैदिक उपदेश		श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद्	24.00	–
0000 A	4878	वहबृचोपनिषद्		श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद्	4.00	–
0000 A	4879	श्री विद्या रहस्य (चिद् विलास)		श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद्	24.00	–
0000 A	4880	वैदिक उपदेश		श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद्	24.00	–
0000 A	4881	पंचोपनिषद्		श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद्	20.00	–
0000 A	4882	प्रश्नोपनिषद्		श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद्	4.00	–
0000 A	4883	प्रश्नोपनिषद्		श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद्	4.00	–

0000 A	4884	प्रश्नोपनिषद्		श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद्	4.00	–
0000 A	4885	घेरण्ड–संहिता		श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद्	20.00	–
0000 A	4886	योग–विज्ञान भाग–1		श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद्	60.00	–
0000 A	4887	योग–विज्ञान भाग–2		श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद्	10.00	–
0000 A	4888	योग दर्शन		श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद्	10.00	–
0000 A	4889	योगदर्शनम्		श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद्	10.00	–
0000 A	4890	शिवसूत्रं भक्तिसूत्रंच		श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद्	10.00	–
0000 A	4891	शिव सूत्रं एवं स्पन्दकारिका		श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद्	6.00	–
0000A	4892	वातूलनाथ सूत्र		श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद्		–
0000 A	4893	सिद्धांत रहस्य		श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद्	10.00	–
0000 A	4894	सिद्धांत रहस्य		श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद्	16.00	–
0000 A	4895	सिद्धांत रहस्य		श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद्	14.00	–
0000 A	4896	सिद्धांत रहस्य		श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद्	14.00	–
0000 A	4897	श्री महात्रिपुरसुन्दरी पूजा पद्धति		श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद्	40.00	–
0000 A	4898	त्रिपुरा महिम्न स्तोत्रम्		श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद्	20.00	–
0000 A	4899	लेख–संग्रह		श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद्	60.00	–
0000 A	4900	लेख–संग्रह		श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद्	50.00	–
0000 A	4901	सौन्दर्य लहरी (डिण्डिमभाष्य)		श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद्	30.00	–
0000 A	4902	श्री विद्यारत्न सूत्रम्		श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद्	30.00	–
0000 A	4903	वेदान्त प्रबोध		श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद्	14.00	–
0000 A	4904	ईश्वर गीता		श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद्	20.00	–
0000 A	4905	सप्तविंशति रहस्य		श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद्	24.00	–
0000 A	4906	ताराकर्पूर राजस्तोत्रम्		श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद्		–
0000 A	4907	छिन्नमस्ता नित्यार्चन		श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद्	20.00	–
0000 A	4908	रेणुकातंत्रम्		श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद्	20.00	–
0000 A	4909	परश्चरण		श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद्	4.00	–
0000 A	4910	पंचस्तवी		श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद्	4.00	–
0000 A	4911	माण्डूक्योपनिषद्		श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद्		–
0000 A	4912	केनोपनिषद्		श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद्		–

0000 A	4913	ईशावास्योपनिषद्		श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद्		–
0000 A	4914	कठोपनिषद्		श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद्		–
0000 A	4915	मुण्डकोपनिषद्		श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद्		–
0000 A	4916	ललिता सहस्रनाम स्तोत्रम् (सौभाग्य भास्कर भाष्य)		श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद्		–
0000 A	4917	भैरव विज्ञान		श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद्	30.00	–
0000 A	4918	देवी सहस्रनाम संग्रह भाग–1		श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद्	20.00	–
0000 A	4919	श्री स्वामी स्मृति ग्रंथ (श्रद्धाखण्ड)		श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद्	74.00	–
0000 A	4920	श्री स्वामी कथासार		श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद्	100.00	–
0000A	4921	निगमागम समन्वय		श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद्	20.00	–
0000 A	4922	लघुस्तवराजः		श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद्		–
0000 A	4923	गुरुतत्व एवं गुरुपादुका पंचक		श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद्	24.00	–
0000 A	4924	तीर्थ भारतम्		श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद्	20.00	–
0000 A	4925	शाक्त एवं साधना		श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद्	100.00	–
0000 A	4926	प्रत्यभिज्ञाहृदय		श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद्	6.00	–
0000 A	4927	भैरव सर्वस्व		श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद्	74.00	–
0000 A	4928	गोरक्ष शतक		श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद्	24.00	–
0000 A	4929	भारतीय परंपरा की खोज	भगवान सिंह	सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन	150.00	–
0000 A	4930	प्राचीन भारत के इतिहासकार	भगवान सिंह	सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन	150.00	–
0000 A	4931	आर्य–द्रविड़ भाषाओं का अंतः संबंध	भगवान सिंह	सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन	160.00	–
0000 A	4932	श्री रमण महर्षि	प्रो. लक्ष्मीनारायण	सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन	180.00	–
0000 A	4933	जातक कथाएं	भदंत आनंद कौसल्यायन	सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन	80.00	–
0000 A	4934	कथा सरित्सागर : सोमदेव	सं. विष्णु प्रभाकर	सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन	200.00	–
0000 A	4935	हनुमान आए बचाने : रस्किन बॉण्ड	अनु. सुमन वाजपेयी	सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन	50.00	–
0000 A	4936	गौरप्रिया	डॉ० सुमति क्षेत्रमाडे	सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन	40.00	–
0000 A	4937	अग्निशिखा : गोपाल नीलकंठ दांडकर	अनु. मीरा नांदगांवकर	सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन	25.00	–
0000 A	4938	प्रियदर्शी अशोक	हरिभाऊ उपाध्याय	सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन	90.00	–
0000 A	4939	रामकृष्ण उपनिषद्	चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य	सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन	24.00	–
0000 A	4940	तुकाराम गाथासार	अनु. नारायण प्रसाद जैन	सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन	30.00	–
0000 A	4941	अमृत की बूंदें	आनंद कुमार	सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन	60.00	–

0000 A	4942	हिंद स्वराज	गांधीजी	सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन	50.00	–
0000 A	4943	सूफी संत चरित	भगवान सिंह	सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन	55.00	–
0000 A	4944	आत्म–रहस्य	रतनलाल जैन	सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन	60.00	–
0000 A	4945	आत्म–चिंतन	चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य	सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन	45.00	–
0000 A	4946	भगवान हमारा मित्र	चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य	सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन	20.00	–
0000 A	4947	सुभाषित सप्तशती	मंगलदेव शास्त्री	सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन	35.00	–
0000 A	4948	हमारे संस्कार सूत्र	लक्ष्मीराम शास्त्री	सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन	40.00	–
0000 A	4949	महाभारत के सूक्तिरत्न	डॉ० इंद्रचंद्र शास्त्री	सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन	30.00	–
0000A	4950	वेदमंत्रों के प्रकाश में	संपूर्णानंद	सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन	45.00	–
0000 A	4951	पंचतंत्र की कहानियां	भगवान सिंह	सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन	200.00	–
0000 A	4952	कल्पवृक्ष	वासुदेवशरण अग्रवाल	सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन	30.00	–
0000 A	4953	पृथ्वी पुत्र	वासुदेवशरण अग्रवाल	सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन	80.00	–
0000 A	4954	संस्कृति के भावनायकों की लीलास्थली	वात्स्यायन 'अज्ञेय'	सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन	90.00	–
0000 A	4955	कांवर श्रवण कुमार की	देवेन्द्र दीपक	सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन	80.00	–
0000 A	4956	भारतीय नारी कोश	अमिताभ मिश्र	सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन	90.00	–
0000 A	4957	महाभारत कथा	चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य	सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन	150.00	–
0000 A	4958	दशरथ–नंदन श्रीराम	चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य	सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन	120.00	–
0000 A	4959	भागवत कथा	सूरजमल मोहता	सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन	200.00	–
0000 A	4960	रामकीर्ति	स्वामी सत्यानंद पुरी	सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन	45.00	–
0000 A	4961	रामायण के पात्र : नानाभाई भट्ट	अनु. काशीनाथ त्रिवेदी	सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन	150.00	–
0000 A	4962	हिन्दुओं के व्रत और त्योहार	कुंवर कन्हैया जी	सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन	70.00	–
0000 A	4963	वाल्मीकिकृत रामकथा	सूरजमल मोहता	सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन	120.00	–
0000 A	4964	महाभारतसार	सूरजमल मोहता	सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन	150.00	–
0000 A	4965	कृष्णकथा	सूरजमल मोहता	सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन	100.00	–
0000 A	4966	तुलसीकृत रामकथा	विश्वम्भर सहाय प्रेमी	सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन	120.00	–
0000 A	4967	सर्वधर्म समभाव		सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन	20.00	–
0000 A	4968	पुण्य की जड़ हरी	आदर्श कुमारी	सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन	30.00	–
0000 A	4969	कर भला होगा भला	भगवानचंद्र 'विनोद'	सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन	50.00	–
0000 A	4970	आकाश दानी दे पानी	गोविन्द चातक	सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन	50.00	–

0000 A	4971	सतवंती	चंद्रशेखर दुबे	सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन	50.00	–
0000 A	4972	लखटकिया	लक्ष्मीनिवास बिड़ला	सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन	30.00	–
0000 A	4973	चौबोली रानी	लक्ष्मीनिवास बिड़ला	सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन	25.00	–
0000 A	4974	संस्कार साहित्य माला (दो भाग) प्रति सेट मूल्य		सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन	170.00	–
0000 A	4975	धर्म कथा भारती (12 पुस्तकें) प्रति सेट मूल्य		सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन	230.00	–
0000 A	4976	महाभारत पात्र माला (11 पुस्तकें) प्रति सेट मूल्य	नानाभाई भट्ट	सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन	255.00	–
0000 A	4977	संस्कृत साहित्य सौरभ (4 खंड) प्रति सेट मूल्य		सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन	700.00	–
0000 A	4978	भारत सावित्री	वासुदेवशरण अग्रवाल	सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन	300.00	–
0000A	4979	प्रियदर्शी अशोक	हरिभाऊ उपाध्याय	सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन	200.00	–
0000 A	4980	ओम नमो भगवते वासुदेवाय	घनश्याम दास बिड़ला	सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन	75.00	–
0000 A	4981	पृथ्वी पुत्र	वासुदेवशरण अग्रवाल	सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन	200.00	–
0000 A	4982	गुप्तचर व्यवस्थाओं और कौटिल्य	डॉ० रिंकी कुमारी	जानकी प्रकाशन	700.00	–
0000 A	4983	बौद्ध धर्म : उत्पत्ति, उत्कर्ष और अवसान	डॉ० अनुपमा कुमारी	जानकी प्रकाशन	500.00	–
0000 A	4984	समाज दर्शन एवं राजनीति दर्शन की मूल अवधारणाएं	डॉ० शैल कुमारी सिंह	जानकी प्रकाशन	600.00	–
0000 A	4985	निरीश्वरवाद : चार्वाक तथा बौद्ध दर्शन के परिप्रेक्ष्य में	जीतेन्द्र कुमार सिंह 'आजाद'	जानकी प्रकाशन	400.00	–
0000 A	4986	दार्शनिक विमर्श (प्रो. नित्यानंद मिश्रा स्मृति ग्रंथ)	डॉ० प्रभु नारायण मण्डल	जानकी प्रकाशन	1000.00	–
0000 A	4987	गरुड़ पुराण और सामंतवादी समाज	डॉ० रेखा आर्या	जानकी प्रकाशन	400.00	–
0000 A	4988	प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (कुषाण से गुप्तकाल तक)	पवन शेखर	जानकी प्रकाशन	400.00	–
0000 A	4989	पाटलिपुत्र : पुरातात्विक अवलोकन	राम निवास सिंह	जानकी प्रकाशन	400.00	–
0000 A	4990	अग्निपुराण का ऐतिहासिक अध्ययन	हर्ष कुमार	जानकी प्रकाशन	400.00	–
0000 A	4991	भारतीय बौद्ध केन्द्र	धीरेन्द्र कुमार	जानकी प्रकाशन	400.00	–
0000 A	4992	बुद्धकालीन भारत	पूनम कुमारी	जानकी प्रकाशन	450.00	–
0000 A	4993	बुद्धकालीन समाज में मध्यम वर्ग की संरचना	मीरा कुमारी	जानकी प्रकाशन	350.00	–
0000 A	4994	गरुड़ पुराण और सामंतवादी समाज	डॉ० रेखा आर्या	जानकी प्रकाशन	400.00	–
0000 A	4995	जातकों में शहर और शहरी जीवन	कुसुम कुमारी सिन्हा	जानकी प्रकाशन	225.00	–
0000 A	4996	कौटिल्य की राजनीतिक एवं प्रशासनिक अवधारणाएं	डॉ० स्वाती प्रियदर्शिनी	जानकी प्रकाशन	450.00	–
0000 A	4997	Manu on Crime and Punishment	R.M. Das	जानकी प्रकाशन	200.00	–
0000 A	4998	उपनिषत्कालीन शिक्षा	मिथिलेश कुमार	जानकी प्रकाशन	400.00	–
0000 A	4999	वैदिक संस्कृति : एक अवलोकन	अर्चना कुमारी	जानकी प्रकाशन	500.00	–
0000 A	5000	वैदिक शासन व्यवस्था	अशोक कुमार	जानकी प्रकाशन	300.00	–
0000 A	5001	विश्व सभ्यता का उद्‌भव और प्रसार	डॉ० प्रेमेन्द्र प्रियदर्शी	जानकी प्रकाशन	600.00	–
0000 A	5002	भारतीय दर्शन में माया की अवधारणा	अनिल कुमार वर्मा एवं शुभजित मंडल	जानकी प्रकाशन	250.00	–
0000 A	5003	बौद्ध धर्म (विविध आयाम)	डॉ० आभा रानी	जानकी प्रकाशन	350.00	–
0000 A	5004	ब्रह्म चिन्तन	डॉ० किरण त्रिपाठी	जानकी प्रकाशन	270.00	–
0000 A	5005	भारतीय दर्शन में अनुमान–प्रमाण	डॉ० आशीष कुमार कुण्डु	जानकी प्रकाशन	350.00	–
0000 A	5006	भारतीय तत्वमीमांसा : एक परिचय	डॉ० अनिल कुमार वर्मा एवं डॉ० चम्पावती सोरेन	जानकी प्रकाशन	250.00	–
0000 A	5007	भारतीय दर्शन में भौतिकवाद	डॉ० हरिनारायण गुप्त	जानकी प्रकाशन	350.00	–
0000 A	5008	भारतीय दर्शन की अवधारणाएं	सुनील चन्द्र मिश्र	जानकी प्रकाशन	50.00	–

0000 A	5009	भीष्म पितामह के राजनीतिक विचार	सुमन गुप्ता	जानकी प्रकाशन	350.00	–
0000 A	5010	बुद्धकालीन भारत	पूनम कुमारी	जानकी प्रकाशन	450.00	–
0000 A	5011	Buddhism & Christianity : A Comparative Study	Dhirendra Kumar	जानकी प्रकाशन	400.00	–
0000 A	5012	Charvaka/Lokayata : Analytic & Hermeneutic Study	S.N. Prasad	जानकी प्रकाशन	700.00	–
0000 A	5013	चेतना का स्वरूप : न्याय–वैशेषिक एवं सांख्य के परिप्रेक्ष्य में	विजय कुमार सिन्हा	जानकी प्रकाशन	300.00	–
0000 A	5014	दार्शनिक विमर्श (प्रो. नित्यानंद मिश्रा स्मृति ग्रंथ)	डॉ० प्रभु नारायण मण्डल	जानकी प्रकाशन	1000.00	–
0000 A	5015	Development of Empirical Knowledge	Lallan Jee Mishra	जानकी प्रकाशन	400.00	–
0000 A	5016	धार्मिकता का सम्प्रत्यय : भगवद्गीता और ब्रैथवेट के परिप्रेक्ष्य में	वीणा कुमारी	जानकी प्रकाशन	350.00	–
0000 A	5017	Hinduism : Past and Present	Shail Kumari Singh	जानकी प्रकाशन	300.00	–
0000 A	5018	हिन्दू नैतिक दर्शन में कर्म एवं मोक्ष	ब्रज किशोर प्रसाद	जानकी प्रकाशन	300.00	–
0000 A	5019	ईशोपनिषद्	डॉ० किरण त्रिपाठी	जानकी प्रकाशन	250.00	–
0000 A	5020	जीव–जगत् और माया–ब्रह्म	डॉ० किरण त्रिपाठी	जानकी प्रकाशन	350.00	–
0000 A	5021	कामन्दक के राजनीतिक विचार	मगन मोहन मेहरा	जानकी प्रकाशन	300.00	–
0000 A	5022	एम. एन. राय का दार्शनिक चिन्तन	ललित किशोर गुप्त	जानकी प्रकाशन	150.00	–
0000 A	5023	माया और अविद्या	डॉ० किरण त्रिपाठी	जानकी प्रकाशन	250.00	–
0000 A	5024	परमात्मा का सच्चा स्वरूप एवं मुक्ति मार्ग	चन्द्रिका सिंह	जानकी प्रकाशन	250.00	–
0000 A	5025	परमतत्व या ब्रह्म की अवधारणाएं	डॉ० आरती रानी साहा	जानकी प्रकाशन	400.00	–
0000 A	5026	Realism & Sense Data	Dr. Suchita Kumari	जानकी प्रकाशन	500.00	–
0000 A	5027	Religious and Moral Philosophy of Swami Vivekananda	S.K. Singh	जानकी प्रकाशन	500.00	–
0000 A	5028	Religio-Social Philosophy of Vivekananda and Gandhi	Kumkum Sinha	जानकी प्रकाशन	300.00	–
0000A	5029	निरीश्वरवाद : चार्वाक तथा बौद्ध दर्शन के परिप्रेक्ष्य में	जीतेन्द्र कुमार सिंह 'आजाद'	जानकी प्रकाशन	400.00	–
0000 A	5030	समाज दर्शन एवं राजनीति दर्शन की मूल अवधारणाएं	डॉ० शैल कुमारी सिंह	जानकी प्रकाशन	600.00	–
0000 A	5031	स्कन्ध–मीमांसा	धीरेन्द्र कुमार	जानकी प्रकाशन	250.00	–
0000 A	5032	श्रीमद्भगवतमहापुराणम् (भाग – 1 व 2)	विद्यानन्द प्रसाद शर्मा	जानकी प्रकाशन	1750.00 Per Set	–
0000 A	5033	श्रीमद्भगवद्गीता योगासार	डॉ० वीणा झा	जानकी प्रकाशन	450.00	–
0000 A	5034	The Divine Science	Radha Kant	जानकी प्रकाशन	200.00	–
0000 A	5035	The Gita What other have not probed into	Jyotsna	जानकी प्रकाशन	200.00	–
0000 A	5036	विद्यापति–काव्य में दर्शनिकता	गोपालजी झा 'गोपेश'	जानकी प्रकाशन	250.00	–
0000 A	5037	Vedic concepts in journey of life	Dr. Shivendra Kumar Sinha	जानकी प्रकाशन	400.00	–
0000 A	5038	भारतीय नारी : प्रारंभ से 2000 ई. तक	डॉ० कमला गुप्ता	जानकी प्रकाशन	400.00	–
0000 A	5039	ब्राह्मणवादी परंपरा एवं सामाजिक चेतना	रामानुज तिवारी	जानकी प्रकाशन	500.00	–
0000 A	5040	प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक एवं सामाजिक व्यवस्था	अर्चना सिन्हा एवं सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा	जानकी प्रकाशन	500.00	–
0000 A	5041	प्राचीन भारत में क्षत्रिय	शिव बहादुर सिंह	जानकी प्रकाशन	250.00	–
0000 A	5042	समाज दर्शन एवं राजनीति दर्शन की मूल अवधारणाएं	डॉ० शैल कुमारी सिंह	जानकी प्रकाशन	600.00	–
0000 A	5043	गोस्वामी लक्ष्मीपति का जीवन और दर्शन	डॉ० चन्द्रदीप सिंह	जानकी प्रकाशन	350.00	–
0000 A	5044	हिन्दी उपन्यासों में पौराणिक कथानक (विकास क्रम एवं स्वरूप विश्लेषण)	राजश्री सिन्हा	जानकी प्रकाशन	300.00	–
0000 A	5045	संस्कृति दर्पण	पुरुषोत्तम दास रस्तोगी	जानकी प्रकाशन	400.00	–
0000 A	5046	सूर–साहित्य में लोक तत्व	डॉ० अरूण कुमार	जानकी प्रकाशन	500.00	–
0000 A	5047	सूरसागर का चरित्र विधान	मंजुला सिन्हा	जानकी प्रकाशन	300.00	–

0000 A	5048	विद्यापति–काव्य में दर्शनिकता	गोपालजी झा 'गोपेश'	जानकी प्रकाशन	250.00	–
0000 A	5049	विद्यापति पदावली में भक्ति का सामाजिक संदर्भ	चन्द्र बिन्द सिंह	जानकी प्रकाशन	300.00	–
0000 A	5050	व्युत्पत्ति विज्ञान : सिद्धांत और विनियोग	ब्रजमोहन पाण्डेय 'नलिन'	जानकी प्रकाशन	80.00	–
0000 A	5051	यामिनीगंधा (श्रुतिकीर्ति)	गजेन्द्र लाल 'अधीर'	जानकी प्रकाशन	350.00	–
0000 A	5052	श्रीमद्भगवद्गीता योगासार	डॉ० वीणा झा	जानकी प्रकाशन	450.00	–
0000 A	5053	अश्वघोष की काव्यकृतियों का सांस्कृतिक अध्ययन	नीलम राय	जानकी प्रकाशन	300.00	–
0000 A	5054	हर्षचरितमंजरी	काशीनाथ मिश्र	जानकी प्रकाशन	300.00	–
0000 A	5055	विद्यापतिशतकम्	काशीनाथ मिश्र	जानकी प्रकाशन	95.00	–
0000 A	5056	पूर्व–मध्यकालीन भारतीय समाज एवं संस्कृति	कमल कुमारी	जानकी प्रकाशन	300.00	–
0000 A	5057	हर्ष कीर्तिलता – श्री काशीनाथ मिश्रेण	डॉ० शारदा मिश्र	जानकी प्रकाशन	200.00	–
0000A	5058	मेघदूत	राम भरोसा सिंह	जानकी प्रकाशन	200.00	–
0000 A	5059	श्रीमद्भगवतमहापुराणम् (भागवती कथा – 1)	विद्यानन्द प्रसाद शर्मा	जानकी प्रकाशन	855.00	–
0000 A	5060	श्रीमद्भगवतमहापुराणम् (भागवती कथा – 2)		जानकी प्रकाशन	895.00	–
0000 A	5061	ईशोपनिषद्	डॉ० किरण त्रिपाठी	जानकी प्रकाशन	250.00	–
0000 A	5062	Tantra Darshan	Swami Niranjanananda Sarawati	Yoga Publications	1200.00	–
0000 A	5063	Hatha Yoga Book 1 : An overview		Yoga Publications	300.00	–
0000 A	5064	Hatha Yoga Book 2 : Hatha Yoga and the mind		Yoga Publications	300.00	–
0000 A	5065	Hatha Yoga Book 3 : Shatkarma		Yoga Publications	300.00	–
0000 A	5066	Hatha Yoga Book 4 : Asana		Yoga Publications	400.00	–
0000 A	5067	Hatha Yoga Book 5 : Pranayama		Yoga Publications	400.00	–
0000 A	5068	Hatha Yoga Book 6 : Mudra and Bandha		Yoga Publications	400.00	–
0000 A	5069	Hatha Yoga Book 7 : Hatha Yoga and Health		Yoga Publications	400.00	–
0000 A	5070	Hatha Yoga Book 8 : A Guide to Sadhana in Daily Life		Yoga Publications	200.00	–
0000 A	5071	Karma Yoga Book 1 : Karma		Yoga Publications	200.00	–
0000 A	5072	Karma Yoga Book 2 : Experience of Life		Yoga Publications	300.00	–
0000 A	5073	Karma Yoga Book 3 : Samsara		Yoga Publications	300.00	–
0000 A	5074	Karma Yoga Book 4 : Action with a Purpose		Yoga Publications	200.00	–
0000 A	5075	Karma Yoga Book 5 : Expressions of the mind		Yoga Publications	200.00	–
0000 A	5076	Karma Yoga Book 6 : For a better world		Yoga Publications	300.00	–
0000 A	5077	Karma Yoga Book 7 : A guide to sadhana in daily life		Yoga Publications	200.00	–
0000 A	5078	The Golden Collection 1		Yoga Publications	350.00	–
0000 A	5079	The Golden Collection 2		Yoga Publications	350.00	–
0000 A	5080	The Golden Collection 3		Yoga Publications	350.00	–
0000 A	5081	The Golden Collection 4		Yoga Publications	250.00	–
0000 A	5082	The Golden Collection 5		Yoga Publications	250.00	–
0000 A	5083	The Golden Collection 6		Yoga Publications	250.00	–
0000 A	5084	The Golden Collection 7		Yoga Publications	250.00	–
0000 A	5085	The Golden Collection 8		Yoga Publications	250.00	–
0000 A	5086	Teachings of Swami Satyananda Saraswati : Volume 1	Swami Satyananda Saraswati	Yoga Publications	450.00	–
0000A	5087	Teachings of Swami Satyananda Saraswati : Volume 2	Swami Satyananda Saraswati	Yoga Publications	450.00	–
0000 A	5088	Teachings of Swami Satyananda Saraswati : Volume 3	Swami Satyananda Saraswati	Yoga Publications	350.00	–

0000 A	5089	Teachings of Swami Satyananda Saraswati : Volume 4	Swami Satyananda Saraswati	Yoga Publications	350.00	–
0000 A	5090	Teachings of Swami Satyananda Saraswati : Volume 5	Swami Satyananda Saraswati	Yoga Publications	550.00	–
0000 A	5091	Teachings of Swami Satyananda Saraswati : Volume 6	Swami Satyananda Saraswati	Yoga Publications	450.00	–
0000 A	5092	Early Teachings of Swami Satyananda Saraswati : Volume 1	Swami Satyananda Saraswati	Yoga Publications	550.00	–
0000 A	5093	Early Teachings of Swami Satyananda Saraswati : Volume 2	Swami Satyananda Saraswati	Yoga Publications	550.00	–
0000 A	5094	Yoga from shore to shore	Swami Satyananda Saraswati	Yoga Publications	350.00	–
0000 A	5095	Rikhiapeeth Satsangs 3	Swami Satyananda Saraswati	Yoga Publications	350.00	–
0000 A	5096	Ishavasya Upanishad	Swami Satyananda Saraswati	Yoga Publications	150.00	–
0000 A	5097	Satsangs on Ramacharitamanas	Swami Satyananda Saraswati	Yoga Publications	350.00	–
0000 A	5098	Bihar school of yoga : The vision of a sage	Swami Satyananda Saraswati	Yoga Publications	350.00	–
0000 A	5099	Mudra Vigyan : Philosophy and Practice of yogic gestures	Swami Satyananda Saraswati	Yoga Publications	400.00	–
0000 A	5100	Prana Vidya	Swami Satyananda Saraswati	Yoga Publications	300.00	–
0000 A	5101	Origin of yoga & Pashupata yoga	Swami Niranjanananda Sarawati	Yoga Publications	200.00	–
0000 A	5102	Karma & Karma Yoga	Swami Niranjanananda Sarawati	Yoga Publications	200.00	–
0000 A	5103	Mantra & Yantra	Swami Niranjanananda Sarawati	Yoga Publications	200.00	–
0000 A	5104	Mind, Mind management & Raja Yoga	Swami Niranjanananda Sarawati	Yoga Publications	300.00	–
0000 A	5105	The Paths of Pravritti & Nivritti	Swami Niranjanananda Sarawati	Yoga Publications	200.00	–
0000 A	5106	Dharma of a Disciple	Swami Niranjanananda Sarawati	Yoga Publications	200.00	–
0000 A	5107	Head, Heart & Hands	Swami Niranjanananda Sarawati	Yoga Publications	200.00	–
0000 A	5108	Sanyasa : Cultivating Spiritual Awareness	Swami Niranjanananda Sarawati	Yoga Publications	250.00	–
0000 A	5109	Development of Satyanada Yoga	Swami Niranjanananda Sarawati	Yoga Publications	200.00	–
0000 A	5110	Living a divine life	Swami Niranjanananda Sarawati	Yoga Publications	200.00	–
0000 A	5111	Sadhana	Swami Niranjanananda Sarawati	Yoga Publications	200.00	–
0000 A	5112	Jnana Yoga : Method and Attainment	Swami Niranjanananda Sarawati	Yoga Publications	200.00	–
0000 A	5113	My inheritance of sannyasa	Swami Niranjanananda Sarawati	Yoga Publications	200.00	–
0000 A	5114	Yoga in daily life	Swami Niranjanananda Sarawati	Yoga Publications	200.00	–
0000 A	5115	The yoga of sri krishna	Swami Niranjanananda Sarawati	Yoga Publications	200.00	–
0000A	5116	The yoga of sage vasishtha	Swami Niranjanananda Sarawati	Yoga Publications	200.00	–
0000 A	5117	Ganapati Aradhana	Swami Niranjanananda Sarawati	Yoga Publications	200.00	–
0000 A	5118	Chapters of spirituality	Swami Niranjanananda Sarawati	Yoga Publications	200.00	–
0000 A	5119	Yoga : Philosophy to realization	Swami Niranjanananda Sarawati	Yoga Publications	200.00	–
0000 A	5120	On the wings of the Swan : Volume 1	Swami Niranjanananda Sarawati	Yoga Publications	450.00	–
0000 A	5121	On the wings of the Swan : Volume 2	Swami Niranjanananda Sarawati	Yoga Publications	350.00	–
0000 A	5122	On the wings of the Swan : Volume 3	Swami Niranjanananda Sarawati	Yoga Publications	350.00	–

0000 A	5123	On the wings of the Swan : Volume 4	Swami Niranjanananda Sarawati	Yoga Publications	350.00	–
0000 A	5124	On the wings of the Swan : Volume 5	Swami Niranjanananda Sarawati	Yoga Publications	300.00	–
0000 A	5125	On the wings of the Swan : Volume 6	Swami Niranjanananda Sarawati	Yoga Publications	400.00	–
0000 A	5126	Gita darshan	Swami Niranjanananda Sarawati	Yoga Publications	200.00	–
0000 A	5127	Ishavasya Upanishad	Swami Niranjanananda Sarawati	Yoga Publications	200.00	–
0000 A	5128	Shiva charitra : Narratives of shiva	Swami Niranjanananda Sarawati	Yoga Publications	350.00	–
0000 A	5129	The history of bihar school of yoga	Swami Niranjanananda Sarawati	Yoga Publications	150.00	–
0000 A	5130	Yoga sadhana panorama : volume six	Swami Niranjanananda Sarawati	Yoga Publications	550.00	–
0000 A	5131	Glimpses of the divine : Sri lakshmi-narayan mahayajna	Swami Niranjanananda Sarawati	Yoga Publications	200.00	–
0000 A	5132	Bhakti sadhana	Swami Niranjanananda Sarawati	Yoga Publications	200.00	–
0000 A	5133	The plan of yogic science		Yoga Publications	50.00	–
0000 A	5134	Spiritual Diary		Yoga Publications	50.00	–
0000 A	5135	Manage the mind		Yoga Publications	50.00	–
0000 A	5136	Yoga nidra		Yoga Publications	50.00	–
0000 A	5137	Mind management		Yoga Publications	50.00	–
0000 A	5138	The capsule sadhana		Yoga Publications	50.00	–
0000 A	5139	Review of the day		Yoga Publications	50.00	–
0000 A	5140	The SWAN Principle		Yoga Publications	50.00	–
0000 A	5141	The three mantra sadhana		Yoga Publications	50.00	–
0000 A	5142	Mantra card		Yoga Publications	50.00	–
0000 A	5143	Diggaja : From elephant to super-elephant		Yoga Publications	100.00	–
0000 A	5144	Mystics from Moon : A journey through space		Yoga Publications	100.00	–
0000A	5145	Sadhana		Yoga Publications	50.00	–
0000 A	5146	Likhita Japa		Yoga Publications	50.00	–
0000 A	5147	Manas Putra		Yoga Publications	400.00	–
0000 A	5148	Sankalpa Putri		Yoga Publications	200.00	–
0000 A	5149	मेरे आराध्य के चरणों में – At the feet of my beloved guru		Yoga Publications	300.00	–
0000 A	5150	My spiritual journey with swami satyananda		Yoga Publications	250.00	–
0000 A	5151	Satyananda yoga in Europe, Volumes 1-3		Yoga Publications	300.00	–
0000 A	5152	Satyananda Yoga in Greece, Volumes 1-2		Yoga Publications	1000.00	–
0000 A	5153	Satyananda Yoga in Italy Volumes 1-2		Yoga Publications	700.00	–
0000 A	5154	Shankhaprakshalana : Gastrointestinal Cleansing	Rishi Arundhati	Yoga Publications	150.00	–
0000 A	5155	Swadhisthana Chakra	Rishi Nityabodhananda	Yoga Publications	150.00	–
0000 A	5156	Manipura Chakra	Rishi Nityabodhananda	Yoga Publications	200.00	–
0000 A	5157	SWAN Meditation : Theory & Practice	Swami Satyadharma	Yoga Publications	100.00	–
0000 A	5158	Swami Sivananda's 18 ITIES & the practice of pratyahara	Swami Sivamurti	Yoga Publications	300.00	–
0000 A	5159	Mandate & Accomplishment : Past, Present & Future, Volume 1		Yoga Publications	400.00	–
0000 A	5160	Continuation…… : Past, Present & Future, Volume 2		Yoga Publications	400.00	–
0000 A	5161	Satyananda Yoga - Bihar Yoga		Yoga Publications		–
0000 A	5162	Tirth Yatra I		Yoga Publications	500.00	–
0000 A	5163	Tirth Yatra II		Yoga Publications	300.00	–
0000 A	5164	Sankalpa of a Sannyasi		Yoga Publications	400.00	–
0000 A	5165	High on Waves		Yoga Publications	400.00	–

0000 A	5166	Bhakti Yoga Sagar : Volume 1	Swami Satyananda Saraswati	Yoga Publications	450.00	–
0000 A	5167	Bhakti Yoga Sagar : Volume 2	Swami Satyananda Saraswati	Yoga Publications	450.00	–
0000 A	5168	Bhakti Yoga Sagar : Volume 3	Swami Satyananda Saraswati	Yoga Publications	350.00	–
0000 A	5169	Bhakti Yoga Sagar : Volume 4	Swami Satyananda Saraswati	Yoga Publications	450.00	–
0000 A	5170	Bhakti Yoga Sagar : Volume 5	Swami Satyananda Saraswati	Yoga Publications	350.00	–
0000 A	5171	Bhakti Yoga Sagar : Volume 6	Swami Satyananda Saraswati	Yoga Publications	250.00	–
0000 A	5172	Bhakti Yoga Sagar : Volume 7	Swami Satyananda Saraswati	Yoga Publications	250.00	–
0000 A	5173	Rikhiapeeth Satsangs 1	Swami Satyananda Saraswati	Yoga Publications	150.00	–
0000A	5174	Rikhiapeeth Satsangs 2	Swami Satyananda Saraswati	Yoga Publications	200.00	–
0000 A	5175	Steps to Yoga & Yoga initiation papers	Swami Satyananda Saraswati	Yoga Publications	250.00	–
0000 A	5176	Tantra Shastra : An Introduction	Swami Satyananda Saraswati	Yoga Publications		–
0000 A	5177	Mahasamadhi-Antardhyana : Realizing the Absolute	Swami Satyananda Saraswati	Yoga Publications	450.00	–
0000 A	5178	Rikhia : The Vision of a sage	Swami Satyananda Saraswati	Yoga Publications	350.00	–
0000 A	5179	Sadhana : The path of tranformation	Swami Satyananda Saraswati	Yoga Publications	350.00	–
0000 A	5180	Samarpan : Living the Divine connection	Swami Satyananda Saraswati	Yoga Publications	350.00	–
0000 A	5181	Samatvam : The yoga of equanimity	Swami Satyananda Saraswati	Yoga Publications	250.00	–
0000 A	5182	Upasana : In the presence of the divine	Swami Satyananda Saraswati	Yoga Publications	350.00	–
0000 A	5183	The Bhakti age	Swami Satyananda Saraswati	Yoga Publications		–
0000 A	5184	Bhet : An offering	Swami Satyananda Saraswati	Yoga Publications		–
0000 A	5185	Devi : Honouring Shakti	Swami Satyananda Saraswati	Yoga Publications		–
0000 A	5186	Seva : The path of purification	Swami Satyananda Saraswati	Yoga Publications		–
0000 A	5187	Yajna	Swami Satyananda Saraswati	Yoga Publications		–
0000 A	5188	Yoga sadhana panorama : volume 1	Swami Niranjanananda Sarawati	Yoga Publications	350.00	–
0000 A	5189	Yoga sadhana panorama : volume 2	Swami Niranjanananda Sarawati	Yoga Publications	550.00	–
0000 A	5190	Yoga sadhana panorama : volume 3	Swami Niranjanananda Sarawati	Yoga Publications	350.00	–
0000 A	5191	Yoga sadhana panorama : volume 4	Swami Niranjanananda Sarawati	Yoga Publications	550.00	–
0000 A	5192	Yoga sadhana panorama : volume 5	Swami Niranjanananda Sarawati	Yoga Publications	450.00	–
0000 A	5193	Asana Pranayama Mudra Bandha	Swami Satyananda Saraswati	Yoga Publications	600.00	–
0000 A	5194	A systematic course in the ancient tantric techniques of yoga and kriya	Swami Satyananda Saraswati	Yoga Publications	2000.00	–
0000 A	5195	Dynamics of Yoga : The foundations of bihar yoga	Swami Satyananda Saraswati	Yoga Publications	200.00	–
0000 A	5196	Kundalini Tantra	Swami Satyananda Saraswati	Yoga Publications	550.00	–
0000 A	5197	Meditations from the tantras	Swami Satyananda Saraswati	Yoga Publications	400.00	–
0000 A	5198	Sure ways to self-realization	Swami Satyananda Saraswati	Yoga Publications	500.00	–
0000 A	5199	Surya Namaskara : A technique of solar revitalization	Swami Satyananda Saraswati	Yoga Publications	200.00	–

0000 A	5200	Taming the kundalini	Swami Satyananda Saraswati	Yoga Publications	200.00	–
0000 A	5201	Yoga education for children : volume 1	Swami Satyananda Saraswati	Yoga Publications	400.00	–
0000 A	5202	Yoga Nidra	Swami Satyananda Saraswati	Yoga Publications	300.00	–
0000A	5203	Dharana Darshan : A panoramic view of the yogic, tantric and upanishadic practices of concentration and visualization	Swami Niranjanananda Sarawati	Yoga Publications	500.00	–
0000 A	5204	Gheranda samhita : commentary on the yoga teachings of maharishi gheranda	Swami Niranjanananda Sarawati	Yoga Publications	700.00	–
0000 A	5205	Prana and pranayama	Swami Niranjanananda Sarawati	Yoga Publications	400.00	–
0000 A	5206	Yoga education for children : volume 2	Swami Niranjanananda Sarawati	Yoga Publications	500.00	–
0000 A	5207	Tattwa shuddhi : the tantric practice of inner purification	Swami Satyasangananda Saraswati	Yoga Publications	200.00	–
0000 A	5208	Practical yoga psychology	Dr. Rishi Vicekananda	Yoga Publications	400.00	–
0000 A	5209	Ajna Chakra	Rishi Nityabodhananda	Yoga Publications	200.00	–
0000 A	5210	Moola Bandha : The Master Key	Swami Buddhananda	Yoga Publications	200.00	–
0000 A	5211	Nawa yogini tantra : yogo for women	Swami Muktananda	Yoga Publications	300.00	–
0000 A	5212	Dhyana yantras : Tools for meditation		Yoga Publications		–
0000 A	5213	Yoga and cardiovascular management	Swami Satyananda Saraswati	Yoga Publications	200.00	–
0000 A	5214	Yogic management of common diseases	Dr. Swami Karmananda	Yoga Publications	300.00	–
0000 A	5215	Exploring yoga and cancer	Dr. Swami Yogapratap	Yoga Publications	400.00	–
0000 A	5216	The effects of yoga on hypertension	Dr. Swami Shankaradevananda	Yoga Publications	300.00	–
0000 A	5217	The practices of yoga for the digestive system	Dr. Swami Shankaradevananda	Yoga Publications	300.00	–
0000A	5218	Yogic management of asthma and diabetes	Dr. Swami Shankaradevananda	Yoga Publications	400.00	–
0000 A	5219	Yogic management of cancer	Dr. Swami Nirmalananda	Yoga Publications	400.00	–
0000 A	5220	Four chapters on freedom : Commentary on the yoga sutras of patanjali	Swami Satyananda Saraswati	Yoga Publications	500.00	–
0000 A	5221	Nine principal upanishads	Swami Satyananda Saraswati	Yoga Publications	300.00	–
0000 A	5222	Samkhya Darshan : Yogic perspective on theories of realism	Swami Niranjanananda Sarawati	Yoga Publications	200.00	–
0000 A	5223	Sannyasa Darshan : A Treatise on traditional and contemporary sannyasa	Swami Niranjanananda Sarawati	Yoga Publications	500.00	–
0000 A	5224	Yoga Darshan : Vision of the yoga upanishads	Swami Niranjanananda Sarawati	Yoga Publications	600.00	–
0000 A	5225	Karma Sannyasa	Swami Satyasangananda Saraswati	Yoga Publications	400.00	–
0000 A	5226	Light on the guru and disciple relationship	Swami Satyasangananda Saraswati	Yoga Publications	350.00	–
0000 A	5227	Sri saundarya lahari : The descent	Swami Satyasangananda Saraswati	Yoga Publications	650.00	–
0000 A	5228	Sri Vijnana bhairava tantra : The ascent	Swami Satyasangananda Saraswati	Yoga Publications	600.00	–
0000 A	5229	Satsangs on Yoga	Swami Satyasangananda Saraswati	Yoga Publications		–
0000 A	5230	Mere Aradhya : My beloved guru	Swami Dharmashakti Saraswati	Yoga Publications	550.00	–
0000 A	5231	Hatha Yoga Pradipika	Swami Muktibodhananda	Yoga Publications	700.00	–
0000 A	5232	Swara Yoga	Swami Muktibodhananda	Yoga Publications	300.00	–
0000 A	5233	Yoga chudamani upanishad : Crown Jewel of yoga	Swami Satyadharma	Yoga Publications	400.00	–

0000 A	5234	Yajna : A comprehensive survey	Sannyasi Gyanshruti & Sannyasi Srividyananda	Yoga Publications	400.00	–
0000 A	5235	Sanskrit Glossary of yogic terms		Yoga Publications	300.00	–
0000 A	5236	Shakti Avadhan : Invocation of the divine mother		Yoga Publications	200.00	–
0000 A	5237	Sri Shiva Stotra Mala		Yoga Publications	300.00	–
0000 A	5238	Sri Lakshmi-Narayana Stotra Mala		Yoga Publications	200.00	–
0000 A	5239	Satyam Chalisa		Yoga Publications		–
0000 A	5240	Siddha Stotra Mala : Garland of Sacred Chants		Yoga Publications	300.00	–
0000 A	5241	Siddha Prarthana : Garland of Sacred Songs and Prayers		Yoga Publications	200.00	–
0000 A	5242	हरिश्चन्द्र मैगजीन	सं. भारतेन्दु हरिश्चन्द्र	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	250.00	–
0000 A	5243	करुणाभरण नाटक (लच्छीराम)	सं. डॉ० योगेन्द्रप्रताप सिंह	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	5.00	–
0000 A	5244	गोरखबानी (गोरखनाथ)	सं. डॉ० पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	150.00	–
0000 A	5245	डंगवै कथा तथा चक्रव्यूह कथा (भीम कवि)	सं. डॉ० शिवगोपाल मिश्र	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	12.00	–
0000 A	5246	दूषणोल्लास (गोविन्ददास)	सं. श्री बेनीबहादुर सिंह	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	6.00	–
0000A	5247	देव शब्द रसायन (महाकवि देवदत्त)	सं. श्री जानकीनाथ सिंह 'मनोज'	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	5.00	–
0000 A	5248	नवरसरंग (लोकमणि मिश्र)	सं. श्री हरिमोहन मालवीय	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	4.00	–
0000 A	5249	प्रागन कृत भंवरगीत	सं. श्री हरिमोहन मालवीय	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	2.00	–
0000 A	5250	बालचंद बत्तीसी	सं. श्री हरिमोहन मालवीय	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	2.00	–
0000 A	5251	माधवानल नाटक	सं. डॉ० सत्येन्द्र जी वर्मा	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	6.00	–
0000 A	5252	रतन हजारा	सं. श्री हरिमोहन मालवीय	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	6.00	–
0000 A	5253	विद्वन्मोद तरंगिणी	सं. डॉ० किशोरीलाल	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	100.00	–
0000 A	5254	जोरावर प्रकास	सं. डॉ० योगेन्द्रप्रताप सिंह	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	100.00	–
0000 A	5255	बिहारी सतसई : अनवर चन्द्रिका टीका	सं. श्री हरिमोहन मालवीय	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	75.00	–
0000 A	5256	कबीर और कबीरपंथ	सं. डॉ० केदारनाथ द्विवेदी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	100.00	–
0000 A	5257	अनुराग–बांसुरी	सं. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, श्री चन्द्रबली पाण्डेय	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	30.00	–
0000 A	5258	भारतीय भाषा साहित्य	सं. श्री विभूति मिश्र	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	97.00	–
0000 A	5259	लोमश संहिता	सं. डॉ० गिरिजाशंकर शास्त्री	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	130.00	–
0000 A	5260	कृष्ण चन्द्रिका	सं. डॉ० योगेन्द्रप्रताप सिंह	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	6.00	–
0000 A	5261	काव्य–संग्रह–प्रथम भाग	सं. श्री करुणापति त्रिपाठी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	3.00	–
0000 A	5262	तुलसी सुषमा	सं. डॉ० रामप्रकाश अग्रवाल	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	vizkI;	–
0000 A	5263	नवीन तुलसी संग्रह	सं. डॉ० माताप्रसाद गुप्त	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	vizkI;	–
0000 A	5264	प्रथमा काव्य–संग्रह भाग–1	सं. श्री करुणापति त्रिपाठी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	vizkI;	–

0000 A	5265	बिहारी वैभव	सं. डॉ० विजयपाल सिंह	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	15.00	–
0000 A	5266	बिहारी संग्रह	सं. श्री वियोगी हरि	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	vizkI;	–
0000 A	5267	ब्रजमाधुरीसार	सं. श्री वियोगी हरि	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	100.00	–
0000 A	5268	मीरांबाई की पदावली	सं. आचार्य परशुराम चतुर्वेदी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	80.00	–
0000 A	5269	विद्यापतिका	सं. डॉ० राममूर्ति त्रिपाठी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	80.00	–
0000 A	5270	सूफी काव्य–संग्रह	सं. आचार्य परशुराम चतुर्वेदी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	100.00	–
0000 A	5271	सूर–पद–पंचशती	सं. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	30.00	–
0000 A	5272	सूर पदावली	सं. श्री गिरिजादत्त शुक्ल 'गिरीश'	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	vizkI;	–
0000 A	5273	सूर–सुषमा	सं. डॉ० मुंशीराम शर्मा 'सोम'	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	20.00	–
0000 A	5274	विद्यापति पद्यसंग्रह	श्री सतीशचन्द्र राय	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	vizkI;	–
0000 A	5275	दक्खिनी हिन्दी काव्य चयनिका	डॉ० रहमत उल्लाह	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	40.00	–
0000A	5276	कबीर संग्रह	सं. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	40.00	–
0000 A	5277	आधुनिक कवि भाग – 1	श्रीमती महादेवी वर्मा	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	60.00	–
0000 A	5278	आधुनिक कवि भाग – 2	श्री सुमित्रानन्दन पन्त	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	30.00	–
0000 A	5279	आधुनिक कवि भाग – 3	डॉ० रामकुमार वर्मा	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	30.00	–
0000 A	5280	आधुनिक कवि भाग – 4	श्री ठाकुर गोपालशरण सिंह	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	40.00	–
0000 A	5281	आधुनिक कवि भाग – 5	श्री अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध'	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	40.00	–
0000 A	5282	आधुनिक कवि भाग – 6	श्री माखनलाल चतुर्वेदी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	40.00	–
0000 A	5283	आधुनिक कवि भाग – 7	श्री हरिवंशराय 'बच्चन'	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	40.00	–
0000 A	5284	आधुनिक कवि भाग – 8	श्री रामनरेश त्रिपाठी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	40.00	–
0000 A	5285	आधुनिक कवि भाग – 9	श्री नरेन्द्र शर्मा	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	15.00	–
0000 A	5286	आधुनिक कवि भाग – 10	श्री भगवतीचरण वर्मा	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	vizkI;	–
0000 A	5287	आधुनिक कवि भाग – 11	श्री रामेश्वर शुक्ल 'अंचल'	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	15.00	–
0000 A	5288	आधुनिक कवि भाग – 12	श्री गुरुभक्त सिंह 'भक्त'	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	vizkI;	–
0000 A	5289	आधुनिक कवि भाग – 13	श्री बालकृष्ण राव	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	15.00	–
0000 A	5290	आधुनिक कवि भाग – 14	श्री जानकीवल्लभ शास्त्री	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	15.00	–
0000 A	5291	आधुनिक कवि भाग – 15	श्री लक्ष्मीकांत वर्मा	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	vizkI;	–
0000 A	5292	आधुनिक कवि भाग – 16	श्री केदारनाथ अग्रवाल	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	15.00	–
0000 A	5293	आधुनिक कवि भाग – 17	श्री श्यामनारायण पाण्डेय	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	vizkI;	–

0000 A	5294	आधुनिक कवि भाग – 18	श्री उपेन्द्रनाथ 'अश्क'	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	15.00	–
0000 A	5295	आधुनिक कवि भाग – 19	श्री गुलाब खण्डेलवाल	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	18.00	–
0000 A	5296	आधुनिक कवि भाग – 20	श्री रामगोपाल शर्मा 'दिनेश'	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	18.00	–
0000 A	5297	आधुनिक कवि भाग – 21	श्री नरेश मेहता	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	18.00	–
0000 A	5298	आधुनिक कवि भाग – 22	डॉ० श्रीपालसिंह 'क्षेम'	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	40.00	–
0000 A	5299	आधुनिक कवि भाग – 23	श्री अशोक वाजपेयी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	100.00	–
0000 A	5300	आधुनिक कवि भाग – 24	डॉ० रमेशचन्द शाह	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	200.00	–
0000 A	5301	मधुनीर (दो रंगों में)	डॉ० माधवप्रसाद पाण्डेय	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	20.00	–
0000 A	5302	मधुमास का गायक	डॉ० माधवप्रसाद पाण्डेय	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	20.00	–
0000 A	5303	स्वर्णनीरा	डॉ० माधवप्रसाद पाण्डेय	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	150.00	–
0000 A	5304	काव्यांग कल्पद्रुम	डॉ० प्रभात मिश्र शास्त्री	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	50.00	–
0000A	5305	काव्यालंकार सार संग्रह एवं लघुवृत्ति की व्याख्या	डॉ० राममूर्ति त्रिपाठी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	50.00	–
0000 A	5306	रस और रसास्वादन	डॉ० हरद्वारीलाल शर्मा	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	10.00	–
0000 A	5307	शैवाल	श्री रमाशंकर शुक्ल 'हृदय'	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	30.00	–
0000 A	5308	सप्त स्वर	श्री ओंकारनाथ त्रिपाठी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	8.00	–
0000 A	5309	प्रतापनारायण मिश्र कवितावली	सं. श्री नरेशचन्द्र चतुर्वेदी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	30.00	–
0000 A	5310	अमृत कविताएं	सं. डॉ० सत्यप्रकाश मिश्र	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	50.00	–
0000 A	5311	अमृत भारती	श्री राधाकांत मिश्र	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	200.00	–
0000 A	5312	मोती पलकों के	श्रीमती सुशीला मिश्रा	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	60.00	–
0000 A	5313	आधुनिक कविता–संकलन	सं. डॉ० श्रीप्रसाद	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	70.00	–
0000 A	5314	आधुनिक वीर काव्य	सं. श्री भगवतीप्रसाद वाजपेयी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	vizkI;	–
0000 A	5315	काव्य–संग्रह–द्वितीय भाग	सं. श्री रामेश्वर शुक्ल 'अंचल'	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	4.00	–
0000 A	5316	नवीन पद्य–संग्रह	सं. श्री भगवतीप्रसाद वाजपेयी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	70.00	–
0000 A	5317	प्रथमा काव्य–संग्रह भाग–2	सं. श्री रामेश्वर शुक्ल 'अंचल'	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	4.00	–
0000 A	5318	अभिनव काव्य–संग्रह	सं. डॉ० नरेन्द्र कुमार शर्मा	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	vizkI;	–
0000 A	5319	हार	श्री सुमित्रानन्दन पन्त	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	40.00	–
0000 A	5320	क्या है पाप?	श्री चिवुकुल पुरुषोत्तम	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	40.00	–
0000 A	5321	अभिनव कहानी–संग्रह	सं. डॉ० सत्यनारायण त्रिपाठी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	50.00	–
0000 A	5322	आत्मघात	श्री आनन्दीप्रसाद श्रीवास्तव	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	2.00	–

0000 A	5323	कहानी–कुंज	सं. श्री भगवतीप्रसाद वाजपेयी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	vizkI;	–
0000 A	5324	नूतन कहानी–संग्रह	सं. डॉ० केशवप्रसाद सिंह	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	50.00	–
0000 A	5325	आचार्य सायण और माधव	श्री बलदेव उपाध्याय	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	60.00	–
0000 A	5326	कविरत्न सत्यनारायण जी की जीवनी	श्री बनारसीदास चतुर्वेदी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	10.00	–
0000 A	5327	महाकवि सूरदास और उनकी प्रतिभा	आचार्य सीताराम चतुर्वेदी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	10.00	–
0000 A	5328	राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन	श्री लक्ष्मीनारायण सिंह	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	40.00	–
0000 A	5329	सनयात सेन	श्री भूदेव शर्मा	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	1.00	–
0000 A	5330	राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन : व्यक्ति और संस्था	प्रधान सं. प्रभात शास्त्री	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	400.00	–
0000 A	5331	सोपानदीप	श्री चन्द्रप्रकाश पाण्डेय	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	70.00	–
0000 A	5332	प्रेमघन–सर्वस्व प्रथम भाग (काव्य)	सं. श्री प्रभाकेश्वरप्रसाद उपाध्याय, श्री दिनेशनारायण उपाध्याय	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	50.00	–
0000 A	5333	प्रेमघन–सर्वस्व प्रथम भाग (गद्य)	सं. श्री प्रभाकेश्वरप्रसाद उपाध्याय, श्री दिनेशनारायण उपाध्याय	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	350.00	–
0000A	5334	महापुरुष शंकरदेव ब्रजबुलि ग्रंथावली	डॉ० लक्ष्मीशंकर गुप्त	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	35.00	–
0000 A	5335	सनेही रचनावली	सं. डॉ० प्रेमनारायण शुक्ल	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	40.00	–
0000 A	5336	अभिनव एकांकी–संग्रह	सं. डॉ० विजयपाल सिंह	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	50.00	–
0000 A	5337	आत्मत्याग	श्री आनन्दीप्रसाद श्रीवास्तव	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	2.00	–
0000 A	5338	कवि कालिदास	श्री गणेशप्रसाद द्विवेदी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	2.00	–
0000 A	5339	दमयन्ती स्वयंवर	पं. बालकृष्ण भट्ट	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	vizkI;	–
0000 A	5340	आचार्य विष्णुगुप्त	आचार्य सीताराम चतुर्वेदी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	60.00	–
0000 A	5341	नागानन्द	महाकवि हर्ष अनु. श्री गंगाधर इन्दूरकर	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	vizkI;	–
0000 A	5342	प्रतिज्ञा यौगंधरायण	महाकवि भास अनु. श्री हरदयालु सिंह	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	2.00	–
0000 A	5343	प्रियदर्शिका	महाकवि हर्ष अनु. श्री गंगाधर इन्दूरकर	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	2.00	–
0000 A	5344	भास के तीन नाटक (कर्णभार, दूतवाक्य एवं मध्यम व्यायोग)	महाकवि भास अनु. श्री हरदयालु सिंह	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	vizkI;	–
0000 A	5345	रत्नावली	महाकवि हर्ष अनु. श्री गंगाधर इन्दूरकर	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	vizkI;	–
0000 A	5346	शकुन्तला नाटक	महाकवि कालिदास अनु. राजा लक्ष्मण सिंह	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	vizkI;	–
0000 A	5347	स्वप्नवासवदत्ता	महाकवि भास अनु. श्री हरदयालु सिंह	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	vizkI;	–
0000 A	5348	इतना तो जानो (मूल गुजराती 'आटलु तो जाणजो')	श्री नरहरि द्वारकादास पारीख अनु. पं. रामनरेश त्रिपाठी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	vizkI;	–
0000 A	5349	एकता	आचार्य चन्द्रबली पाण्डेय	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	3.00	–

0000 A	5350	निबन्धालोक	सं. श्री रामप्रताप त्रिपाठी शास्त्री	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	3.00	–
0000 A	5351	भट्ट–निबन्धावली भाग – 1	सं. श्री देवीदत्त शुक्ल श्री धनंजय भट्ट	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	70.00	–
0000 A	5352	संक्षिप्त हिन्दी भाषा सार	सं. लाला भगवानदीन	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	vizkI;	–
0000 A	5353	हिन्दी की दशा और पत्रकारिता	पं. बालकृष्ण भट्ट	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	30.00	–
0000 A	5354	हिन्दी गद्य पारिजात	सं. डॉ० प्रेमनारायण शुक्ल	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	vizkI;	–
0000 A	5355	निबंध निचय	डॉ० शारदारंजन शुक्ल	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	75.00	–
0000 A	5356	आधुनिक निबन्धावली	डॉ० विद्यानिवास मिश्र	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	15.00	–
0000 A	5357	महात्मा टालस्टाय के विचार	अनु. श्री शीतला सहाय	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	vizkI;	–
0000 A	5358	अष्टदाप और वल्लभ–सम्प्रदाय भाग–1	डॉ० दीनदयाल गुप्त	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	150.00	–
0000 A	5359	अष्टदाप और वल्लभ–सम्प्रदाय भाग–2	डॉ० दीनदयाल गुप्त	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	150.00	–
0000 A	5360	आधुनिक हिन्दी कविता में गीतितत्व	डॉ० सच्चिदानन्द तिवारी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	16.00	–
0000 A	5361	कृष्णकाव्य में सौन्दर्यबोध एवं रसानुभूति	डॉ० मीरा श्रीवास्तव	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	50.00	–
0000 A	5362	क्रांतदर्शी कवि तुलसी	श्री श्रीनारायण सिंह	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	60.00	–
0000A	5363	क्रांतिकारी तुलसी	श्री श्रीनारायण सिंह	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	40.00	–
0000 A	5364	ज्योति विहग (महाकवि पन्त के काव्य की आलोचना)	श्री शांतिप्रिय द्विवेदी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	40.00	–
0000 A	5365	तुलसी दर्शन	डॉ० बलदेवप्रसाद मिश्र	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	vizkI;	–
0000 A	5366	निराला–साहित्य–संदर्भ		हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	150.00	–
0000 A	5367	पुराणगत वेद विषयक सामग्री का समीक्षात्मक अध्ययन	डॉ० रामशंकर भट्टाचार्य	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	60.00	–
0000 A	5368	प्रबोध चन्द्रोदय और उसकी हिन्दी परंपरा	डॉ० सरोज अग्रवाल	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	50.00	–
0000 A	5369	मध्ययुगीन सगुण एवं निर्गुण हिन्दी साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन	डॉ० आशा गुप्ता	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	vizkI;	–
0000 A	5370	मानस चिन्तन	सं. आचार्य जानकीवल्लभ शास्त्री	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	150.00	–
0000 A	5371	मानस में रीतितत्व	स्व. श्री वैद्यनाथ सिंह	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	vizkI;	–
0000 A	5372	मीरां और आण्डाल का तुलनात्मक अध्ययन	डॉ० ना० सुन्दरम्	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	60.00	–
0000 A	5373	मीरांबाई	डॉ० श्रीकृष्णलाल	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	vizkI;	–
0000 A	5374	मैथिलीशरण गुप्त के काव्य की अंतर्कथाओं के स्रोत	डॉ० शशि अग्रवाल	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	50.00	–
0000 A	5375	रीतिकालीन हिन्दी–वीरकाव्य	डॉ० भगवानदास तिवारी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	50.00	–
0000 A	5376	रूपककार वत्सराज	डॉ० लक्ष्मणनारायण शुक्ल	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	80.00	–
0000 A	5377	विचार–विमर्श	श्री चन्द्रबली पाण्डेय	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	110.00	–
0000 A	5378	विवेचना	श्री इलाचन्द्र जोशी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	vizkI;	–

0000 A	5379	संस्कृत साहित्य में अन्योक्ति	डॉ० राजेन्द्र मिश्र	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	100.00	–
0000 A	5380	साहित्य और कला	डॉ० हरद्वारीलाल शर्मा	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	5.00	–
0000 A	5381	साहित्य और साहित्यकार का दायित्व	श्री विजयदेवनारायण साही	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	20.00	–
0000 A	5382	सूर साहित्य में लोकसंस्कृति	श्री आद्याप्रसाद त्रिपाठी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	20.00	–
0000 A	5383	सूर–साहित्य–संदर्भ	सं. श्री लक्ष्मीकांत वर्मा	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	20.00	–
0000 A	5384	सृजनशीलता और सौन्दर्यबोध	डॉ० निशा अग्रवाल	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	60.00	–
0000 A	5385	स्व. गिरिजादत्त शुक्ल 'गिरीश' व्यक्तित्व एवं साहित्य	डॉ० विजयकुमार शुक्ल	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	50.00	–
0000 A	5386	स्वामी रामचरण : जीवनी एवं कृतियों का अध्ययन	डॉ० माधवप्रसाद पाण्डेय	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	250.00	–
0000 A	5387	हिन्दी–काव्य में प्रकृति चित्रण	डॉ० किरणकुमारी गुप्ता	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	vizkI;	–
0000 A	5388	हिन्दी की हास्य–व्यंग्य विधा का स्वरूप और विकास	डॉ० इन्द्रनाथ मदान	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	vizkI;	–
0000 A	5389	हिन्दी पर फारसी का प्रभाव	श्री अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	60.00	–
0000 A	5390	–त्रासदी और हिन्दी नाटक	डॉ० माधवप्रसाद पाण्डेय	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	100.00	–
0000 A	5391	राहुल–रचनामृत	सं. डॉ० प्रभात मिश्र शास्त्री	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	250.00	–
0000A	5392	श्लेष अलंकार–सिद्धांत एवं प्रयोग	डॉ० सुरेन्द्रकुमार पाण्डेय	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	100.00	–
0000 A	5393	शाहपुरा की रामस्नेही संत काव्य परंपरा	डॉ० माधवप्रसाद पाण्डेय	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	400.00	–
0000 A	5394	कालिदास की जन्मभूमि–वर्तमान गढ़वाल	डॉ० शिवानन्द नौटियाल	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	450.00	–
0000 A	5395	भारतेन्दुकाल का अल्पज्ञात हिन्दी गद्य साहित्य	डॉ० राम निरंजन परिमलेन्दु	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	450.00	–
0000 A	5396	काव्यशास्त्र एवं पालि–साहित्य	डॉ० शिवशंकर त्रिपाठी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	91.00	–
0000 A	5397	हिन्दी का नव जागरण काल एवं भाषा विवाद	श्रीश जैसवाल	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	300.00	–
0000 A	5398	भारतीय छात्र आंदोलन का इतिहास : स्वाधीनता का दौर भाग – 1	श्री श्यामकृष्ण पाण्डेय	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	425.00	–
0000 A	5399	भारतीय छात्र आंदोलन का इतिहास : स्वाधीनता का दौर भाग – 2	श्री श्यामकृष्ण पाण्डेय	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	775.00	–
0000 A	5400	कैलास मानसरोवर	सं. श्री विभूति मिश्र	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	100.00	–
0000 A	5401	तोपभूमि	सं. श्री विभूति मिश्र	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	111.00	–
0000 A	5402	पंत जी और कालाकांकर	सं. कुंवर सुरेश सिंह	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	60.00	–
0000 A	5403	कुछ दिवंगत साहित्यकारों के पत्र	सं. डॉ० प्रेमनारायण शुक्ल	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	30.00	–
0000 A	5404	भाषा–साहित्य–संस्कृति के सूत्र (पत्र–समुच्चय)	सं. डॉ० शिवशंकर त्रिपाठी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	70.00	–
0000 A	5405	भोजपुरी लोकगीत भाग – 1	सं. डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	90.00	–
0000 A	5406	भोजपुरी लोकगीत भाग – 2	सं. डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	200.00	–
0000 A	5407	भोजपुरी लोक–संस्कृति	सं. डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	200.00	–
0000 A	5408	अवधी लोकरंग	डॉ० कमला सिंह	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	30.00	–

0000 A	5409	गढ़वाल के लोकनृत्य–गीत	डॉ० शिवानन्द नौटियाल	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	425.00	–
0000 A	5410	गढ़वाली लोक–साहित्य का विवेचनात्मक अध्ययन	श्री मोहनलाल बाबुलकर	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	40.00	–
0000 A	5411	भोजपुरी लोकगीत में करुण रस	श्री दुर्गाप्रसाद सिंह	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	vizkI;	–
0000 A	5412	अंग्रेजी साहित्य का इतिहास	डॉ० एस. पी. खत्री	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	eqnz.kk/khu	–
0000 A	5413	पालि साहित्य का इतिहास	डॉ० भरतसिंह उपाध्याय	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	500.00	–
0000 A	5414	प्रथम हिन्दी साहित्य परिचय	श्री रामेश्वर शुक्ल 'अंचल'	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	3.00	–
0000 A	5415	बंगला साहित्य की कथा	श्री सुकुमार सेन अनु. भोलानाथ शर्मा	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	150.00	–
0000 A	5416	राजस्थानी भाषा और साहित्य	डॉ० मोतीलाल मेनारिया	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	65.00	–
0000 A	5417	शिवसिंह सरोज	शिवसिंह सेंगर	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	80.00	–
0000 A	5418	संक्षिप्त हिन्दी–साहित्य	श्री ज्योतिप्रसाद मिश्र 'निर्मल'	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	3.00	–
0000 A	5419	हिन्दी साहित्य–परिचय	श्री रामेश्वर शुक्ल 'अंचल'	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	50.00	–
0000 A	5420	हिन्दी साहित्य सम्मेलन का इतिहास (प्रथम खण्ड)	नरेश मेहता	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	100.00	–
0000A	5421	राजभाषा हिन्दी	सेठ गोविन्ददास	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	6.00	–
0000 A	5422	शासन में नागरी	श्री चन्द्रबली पाण्डेय	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	2.00	–
0000 A	5423	स्वतंत्रता के पूर्व हिन्दी–संघर्ष का इतिहास	श्री रामगोपाल	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	30.00	–
0000 A	5424	हिन्दी–आंदोलन	सं. श्री लक्ष्मीकांत वर्मा	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	35.00	–
0000 A	5425	हिन्दी भाषा – आंदोलन	सं. श्री लक्ष्मीचन्द्र	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	40.00	–
0000 A	5426	बुलन्दशहर एवं खुर्जा तहसीलों की बोलियों का संकालिक अध्ययन	डॉ० महावीरशरण जैन	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	40.00	–
0000 A	5427	दक्खिनी हिन्दी का उद्दीव और विकास	डॉ० श्रीराम शर्मा	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	vizkI;	–
0000 A	5428	नागरी अंक और अक्षर	महामहोपाध्याय गौरीशंकर हीराचन्द्र ओझा	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	5.00	–
0000 A	5429	बुंदेली और उसके क्षेत्रीय रूप	डॉ० कृष्णलाल हंस	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	80.00	–
0000 A	5430	सामान्य भाषाविज्ञान	डॉ० बाबूराम सक्सेना	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	175.00	–
0000 A	5431	हिन्दी पर्यायों का भाषागत अध्ययन	डॉ० बदरीनाथ कपूर	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	35.00	–
0000 A	5432	हिन्दी भाषा का अर्थतात्विक विकास	डॉ० शिवनाथ	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	60.00	–
0000 A	5433	हिन्दी विधि शब्दावली	डॉ० मोतीबाबू	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	70.00	–
0000 A	5434	हिन्दी भाषा और नागरी लिपि	डॉ० देवेन्द्रनाथ शर्मा	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	50.00	–
0000 A	5435	हिन्दी व्याकरण (सैमुएल हेनरी केलाग)	अनु. डॉ० श्रीराम शर्मा	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	400.00	–
0000 A	5436	लेखन–कला	आचार्य सीताराम चतुर्वेदी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	11.00	–
0000 A	5437	लोकभाषा का व्याकरण	आचार्य धर्मनाथ शर्मा	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	20.00	–

0000 A	5438	रचना तथा व्याकरण	ले. चन्द्रमौलि सुकुल	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	70.00	–
0000 A	5439	रश्मिमाला अथवा जीवन संदेश गीतांजलि	डॉ० मंगलदेव शास्त्री	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	4.00	–
0000 A	5440	वाणी विलास–भाग – 1	श्री रामबालक शास्त्री	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	45.00	–
0000 A	5441	वाणी विलास–भाग – 2	श्री रामबालक शास्त्री	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	15.00	–
0000 A	5442	भज भारतीम् भाग – 1	श्री रामबालक शास्त्री	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	1.00	–
0000 A	5443	संस्कृत सुषमा	डॉ० प्रभात मिश्र शास्त्री	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	35.00	–
0000 A	5444	संस्कृत साहित्य परिचय	सं. ईशदत्त पाण्डेय श्रीश	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	13.00	–
0000 A	5445	अग्निपुराणम्	अनु. श्री तारिणीश झा	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	600.00	–
0000 A	5446	ब्रह्मपुराणम् (पूर्वभागः)	अनु. श्री तारिणीश झा	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	550.00	–
0000 A	5447	ब्रह्मपुराणम् (उत्तरभागः)	अनु. श्री तारिणीश झा	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	500.00	–
0000 A	5448	ब्रह्मवैवर्तपुराणम् (पूर्वभागः)	अनु. श्री तारिणीश झा	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	275.00	–
0000 A	5449	ब्रह्मवैवर्तपुराणम् (उत्तरभागः)	अनु. श्री तारिणीश झा	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	350.00	–
0000A	5450	बृहन्नारदीयपुराणम् (पूर्वभागः)	अनु. श्री तारिणीश झा	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	650.00	–
0000 A	5451	बृहन्नारदीयपुराणम् (उत्तरभागः)	अनु. श्री तारिणीश झा	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	125.00	–
0000 A	5452	मत्स्यपुराणम् (पूर्वभागः)	अनु. श्री रामप्रताप त्रिपाठी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	eqnz.kk/khu	–
0000 A	5453	मत्स्यपुराणम् (उत्तरभागः)	अनु. श्री रामप्रताप त्रिपाठी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	eqnz.kk/khu	–
0000 A	5454	मार्कण्डेय महापुराणम्	स्वं. पं. कन्हैयालाल मिश्र	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	275.00	–
0000 A	5455	वायुपुराणम्	अनु. श्री रामप्रताप त्रिपाठी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	450.00	–
0000 A	5456	कूर्मपुराणम्	अनु. श्री तारिणीश झा	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	250.00	–
0000 A	5457	स्कन्दपुराणम् (केदारखण्ड)	अनु. डॉ० शिवानन्द नौटियाल	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	450.00	–
0000 A	5458	भविष्यमहापुराणम् (प्रथम खण्ड)	अनु. श्री बाबूराम उपाध्याय	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	500.00	–
0000 A	5459	भविष्यमहापुराणम् (द्वितीय खण्ड)	अनु. श्री बाबूराम उपाध्याय	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	325.00	–
0000 A	5460	भविष्यमहापुराणम् (तृतीय खण्ड)	अनु. श्री बाबूराम उपाध्याय	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	350.00	–
0000 A	5461	वामनपुराण का सांस्कृतिक	डॉ० (श्रीमती) मालती त्रिपाठी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	100.00	–
0000 A	5462	मूल रामायणम्	सं. डॉ० प्रभात मिश्र शास्त्री	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	5.00	–
0000 A	5463	पुराणों में गंगा	श्री रामप्रताप त्रिपाठी शास्त्री	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	50.00	–
0000 A	5464	जातक अट्ठकथा भाग – 1	अनु. श्री भदन्त आनन्द कौसल्यायन	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	325.00	–
0000 A	5465	जातक अट्ठकथा भाग – 2	डॉ० शिवशंकर त्रिपाठी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	325.00	–
0000 A	5466	जातक अट्ठकथा भाग – 3	डॉ० शिवशंकर त्रिपाठी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	325.00	–

0000 A	5467	जातक अट्ठकथा भाग – 4	डॉ० शिवशंकर त्रिपाठी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	325.00	–
0000 A	5468	जातक अट्ठकथा भाग – 5	डॉ० शिवशंकर त्रिपाठी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	325.00	–
0000 A	5469	जातक अट्ठकथा भाग – 6	डॉ० शिवशंकर त्रिपाठी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	325.00	–
0000 A	5470	जातक अट्ठकथा भाग – 7	डॉ० शिवशंकर त्रिपाठी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	eqnz.kk/khu	–
0000 A	5471	गीतगिरीशम्	अनु. डॉ० प्रभात मिश्र शास्त्री	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	25.00	–
0000 A	5472	शिशुपाल वध	अनु. श्री रामप्रताप त्रिपाठी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	80.00	–
0000 A	5473	संगीत माधवम्	सं. डॉ० प्रभात मिश्र शास्त्री	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	40.00	–
0000 A	5474	गीतशंकर	सं. डॉ० प्रभात मिश्र शास्त्री	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	110.00	–
0000 A	5475	जानकीगीतम्	सं. डॉ० प्रभात मिश्र शास्त्री	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	50.00	–
0000 A	5476	सती कण्णगी	अनु. डॉ० गोपालराम	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	1.00	–
0000 A	5477	सच्च संगहो	श्री भदन्त आनन्द कौसल्यायन	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	75.00	–
0000 A	5478	कला विज्ञान	डॉ० हरद्वारीलाल शर्मा	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	3.00	–
0000A	5479	चित्रकला	डॉ० अवध उपाध्याय	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	vizkI;	–
0000 A	5480	भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता	डॉ० प्रसन्नकुमार आचार्य	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	100.00	–
0000 A	5481	हनुमान् के देवत्व तथा मूर्ति का विकास	राय गोविन्दचन्द्र	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	250.00	–
0000 A	5482	अकबर की राज्य व्यवस्था	श्री शेषमणि त्रिपाठी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	6.00	–
0000 A	5483	आदर्श नगर व्यवस्था	श्री भोलानाथ शर्मा	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	300.00	–
0000 A	5484	कौटिल्य की शासन–पद्धति	श्री भगवानदास केला	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	vizkI;	–
0000 A	5485	चन्देलकालीन बुन्देलखण्ड का इतिहास	डॉ० अयोध्याप्रसाद पाण्डेय	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	50.00	–
0000 A	5486	बीसवीं सदी की राजनीतिक विचारधाराएं	श्री गुर्ती सुब्रह्मण्यम्	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	3.00	–
0000 A	5487	बुद्धकालीन भारतीय भूगोल	डॉ० भरतसिंह उपाध्याय	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	300.00	–
0000 A	5488	हिन्दू राज्यशास्त्र	श्री अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	40.00	–
0000 A	5489	वीरसिंहदेव चरित	डॉ० किशोरीलाल	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	225.00	–
0000 A	5490	गांवों की समस्याएं	श्री शंकरसहाय सक्सेना	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	3.00	–
0000 A	5491	ग्रामों का आर्थिक पुनरुद्धार	श्री व्योहार राजेन्द्र सिंह	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	3.00	–
0000 A	5492	द्रव्यशास्त्र	श्री मुरलीधर जोशी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	2.00	–
0000 A	5493	भारतीय ग्राम्य अर्थशास्त्र	श्री शंकरसहाय सक्सेना	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	30.00	–
0000 A	5494	चिन्ता : एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन	डॉ० हरद्वारीलाल शर्मा	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	11.00	–
0000 A	5495	मनुष्य जीवन के लक्ष्य	श्री रामावतार शास्त्री	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	vizkI;	–

0000 A	5496	मार्क्स और गांधी का साम्यदर्शन	श्री श्रीनारायण सिंह	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	60.00	–
0000 A	5497	श्री शंकराचार्य का आचार दर्शन	डॉ० रामानन्द तिवारी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	60.00	–
0000 A	5498	सापेक्ष्यवाद	डॉ० अवध उपाध्याय	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	2.00	–
0000 A	5499	हमारा धर्म और उसकी वैज्ञानिक रूपरेखा	श्री श्रीनारायण सिंह	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	vizkI;	–
0000 A	5500	आयुर्वेद का इतिहास	श्री अत्रिदेव विद्यालंकार	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	vizkI;	–
0000 A	5501	शतश्लोकी	ले. त्रिमल्लदेव	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	10.00	–
0000 A	5502	गति विज्ञान	डॉ० पी.डी. शुक्ल	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	30.00	–
0000 A	5503	ठोस ज्यामिति	डॉ० ब्रजमोहन	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	vizkI;	–
0000 A	5504	ठोस ज्यामिति की कुंजी	डॉ० ब्रजमोहन	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	2.00	–
0000 A	5505	प्रारंभिक रसायन	श्री अमीचन्द्र विद्यालंकार	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	vizkI;	–
0000 A	5506	बीजगणित	डॉ० झम्मनलाल शर्मा	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	4.00	–
0000 A	5507	हिन्दी दाशमिक वर्गीकरण पद्धति	सं. श्री प्रभात कुमार मुखोपाध्याय	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	3.00	–
0000 A	5508	बाल इतिहास – भाग 1	श्री भगवतशरण उपाध्याय	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	2.00	–
0000 A	5509	बाल इतिहास – भाग 2	श्री भगवतशरण उपाध्याय	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	vizkI;	–
0000 A	5510	बाल कथा प्रथम भाग	श्रीमती कमलाबाई किवे	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	1.00	–
0000 A	5511	बाल कथा द्वितीय भाग	श्रीमती कमलाबाई किवे	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	1.00	–
0000 A	5512	बाल कवितावली (पद्य)	श्री सत्यप्रकाश कुलश्रेष्ठ	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	vizkI;	–
0000 A	5513	बाल नाटक माला	श्री बालगोविन्द श्रीवास्तव	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	vizkI;	–
0000 A	5514	बाल भारती (पद्य)	श्री श्रीनाथसिंह	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	vizkI;	–
0000 A	5515	बाल रामायण	श्री टी.एम. राघवन्	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	vizkI;	–
0000A	5516	बाल विभूति (पद्य)	श्री रसिकेन्द्र	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	vizkI;	–
0000 A	5517	वीर शतमन्यु (पद्य)	श्री सभामोहन अवधिया	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	2.00	–
0000 A	5518	कन्नड़–हिन्दी शब्दकोश	सं. श्री एन. एस. दक्षिणामूर्ति	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	60.00	–
0000 A	5519	मानक अंग्रेजी–हिन्दी कोश	सं. डॉ० सत्यप्रकाश मिश्र	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	575.00	–
0000 A	5520	मानक हिन्दी कोश (पांच खण्डों में)	सं. श्री रामचन्द्र वर्मा	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	1750.00	–
0000 A	5521	संक्षिप्त मानक अंग्रेजी–हिन्दी कोश	सं. श्री राजेन्द्रसिंह गौड़	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	250.00	–
0000 A	5522	भूतत्व विज्ञान कोश	सं. श्री एस. सी. सेनगुप्त	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	4.00	–
0000 A	5523	स्नातकोत्तर विज्ञान शब्दावली भाग – 1		हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	2.00	–
0000 A	5524	रूपकों की भाषा	श्री रामगोपाल मिश्र	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	6.00	–

0000 A	5525	पाण्डुलिपियां	सं. श्री वाचस्पति गैरोला	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	70.00	–
0000 A	5526	ब्रजभाषा रीतिशास्त्र ग्रंथकोश	सं. श्री जवाहरलाल चतुर्वेदी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	15.00	–
0000 A	5527	हस्तलिखित हिन्दी ग्रंथों की विवरणात्मक सूची	सं. डॉ० रामकुमार वर्मा	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	100.00	–
0000 A	5528	संस्कृत एवं प्राकृत ग्रंथों की विवरणात्मक सूची खण्ड – 1	सं. डॉ० चण्डिकाप्रसाद शुक्ल	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	100.00	–
0000 A	5529	संस्कृत एवं प्राकृत ग्रंथों की विवरणात्मक सूची खण्ड – 2	सं. डॉ० चण्डिकाप्रसाद शुक्ल	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	100.00	–
0000 A	5530	हस्तलिखित संस्कृत ग्रंथों की विवरणात्मक सूची	सं. डॉ० चण्डिकाप्रसाद शुक्ल	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	70.00	–
0000 A	5531	हस्तलिखित हिन्दी ग्रंथों की विवरणात्मक सूची	सं. डॉ० पारसनाथ तिवारी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	70.00	–
0000 A	5532	सभापतियों के भाषण भाग – 1	सं. श्री लक्ष्मीशंकर व्यास	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	40.00	–
0000 A	5533	सभापतियों के भाषण भाग – 2	सं. डॉ० विद्यानिवास मिश्र	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	40.00	–
0000 A	5534	सभापतियों के भाषण भाग – 3	सं. डॉ० प्रेमनारायण शुक्ल	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	40.00	–
0000 A	5535	हिन्दी साहित्य की समस्याएं	सं. डॉ० रघुवंश	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	40.00	–
0000 A	5536	राष्ट्रभाषा की समस्याएं	सं. भदन्त आनन्द कौसल्यायन	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	35.00	–
0000 A	5537	हिन्दी में विज्ञान लेखन : कुछ समस्याएं	सं. डॉ० शिवगोपाल मिश्र	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	50.00	–
0000 A	5538	भारतीय इतिहास, संस्कृति और समाज	सं. डॉ० गंगासागर तिवारी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	vizkI;	–
0000 A	5539	भारतीय दर्शन के जीवन्त प्रश्न	सं. प्रो० संगमलाल पाण्डेय	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	25.00	–
0000 A	5540	अमृतमहोत्सव–स्मारिका	सं. डॉ० सत्यप्रकाश मिश्र	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	200.00	–
0000 A	5541	सभापतियों के भाषण भाग – 4	सं. श्री विभूति मिश्र	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	240.00	–
0000 A	5542	हिन्दी साहित्य की समस्याएं भाग – 2	सं. श्री विभूति मिश्र	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	215.00	–
0000 A	5543	राष्ट्रभाषा की समस्याएं भाग – 2	सं. श्री विभूति मिश्र	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	200.00	–
0000 A	5544	भारतीय समाज के ज्वलन्त प्रश्न	सं. श्री विभूति मिश्र	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	175.00	–
0000A	5545	हिन्दी साहित्य सम्मेलन का इतिहास	ले. डॉ० गंगासागर तिवारी	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	400.00	–
0000 A	5546	हिन्दी की विकास यात्रा एवं हिन्दी सेवी संस्थाएं	सं. श्री विभूति मिश्र	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	700.00	–
0000 A	5547	राजर्षि टण्डन वचनामृत	सं. श्री बैकुण्ठनाथ मेहरोत्रा	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	vizkI;	–
0000 A	5548	राजर्षि टण्डन चित्रावली		हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	500.00	–
0000 A	5549	विशेष अधिवेशन स्मारिका	सं. श्री प्रभात मिश्र शास्त्री	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	40.00	–
0000 A	5550	हिन्दी स्मारिका	सं. श्री मौलिचन्द्र शर्मा	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	8.00	–
0000 A	5551	राष्ट्रभाषा संदेश		हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	30.00	–
0000 A	5552	सम्मेलन–पत्रिका		हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	200.00	–
0000 A	5553	कला विशेषांक		हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	70.00	–

0000 A	5554	गांधी–टण्डन स्मृति अंक		हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	200.00	–
0000 A	5555	भारतेन्दु विशेषांक		हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	250.00	–
0000 A	5556	श्रद्धांजलि विशेषांक		हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	150.00	–
0000 A	5557	साहित्य–संस्कृति–भाषा विशेषांक		हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	200.00	–
0000 A	5558	मानस चतुःशती विशेषांक		हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	130.00	–
0000 A	5559	श्यामसुन्दरदास जन्मशती विशेषांक		हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	30.00	–
0000 A	5560	जन्मशती विशेषांक		हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	50.00	–
0000 A	5561	राजर्षि टण्डन जन्मशती विशेषांक		हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	400.00	–
0000 A	5562	पत्र विशेषांक		हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	100.00	–
0000 A	5563	आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी विशेषांक		हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	75.00	–
0000 A	5564	आचार्य रामचन्द्र शुक्ल जन्मशती विशेषांक		हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	200.00	–
0000 A	5565	आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी विशेषांक		हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	60.00	–
0000 A	5566	राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त जन्मशती विशेषांक		हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	150.00	–
0000 A	5567	माखनलाल चतुर्वेदी जन्मशती विशेषांक		हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	60.00	–
0000 A	5568	महापण्डित राहुल सांकृत्यायन जन्मशती विशेषांक		हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	100.00	–
0000 A	5569	उत्तरशती विशेषांक खण्ड – 1		हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	150.00	–
0000 A	5570	उत्तरशती विशेषांक खण्ड – 2		हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	100.00	–
0000 A	5571	निराला जन्मशती विशेषांक		हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	100.00	–
0000 A	5572	निबंध निर्देशिका	डॉ० कमला सिंह	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	60.00	–
0000 A	5573	शुक्लयजुःप्रातिशाख्यम्		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	80.00	–
0000A	5574	ऋग्वेदप्रातिशाख्यम्		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	56.00	–
0000 A	5575	अथर्ववेदे राजनीतिः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	50.00	–
0000 A	5576	अग्निचयन		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	140.00	–
0000 A	5577	प्रतिज्ञापरिशिष्टम्		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	4.50	–
0000 A	5578	ईशकेनोपनिषदौ		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	50.00	–

0000 A	5579	चातुर्ज्ञानम्		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	56.00	–
0000 A	5580	वाजसनेय–प्रातिशाख्य : एक परिशीलन		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	240.00	–
0000 A	5581	वाजसनेयि–संहिता एवं तैत्तिरीय – संहिता का तुलनात्मक अध्ययन भाग –		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय	350.00	–
0000 A	5582	वाजसनेयि–संहिता एवं तैत्तिरीय – संहिता का तुलनात्मक अध्ययन भाग – 2		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	150.00	–
0000 A	5583	रामतापनीयोपनिषद्		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	160.00	–
0000 A	5584	मैत्रयुपनिषद्		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	180.00	–
0000 A	5585	लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ द सेवेन्थ मण्डल ऑफ द ऋग्वेद		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	1000.00	–
0000 A	5586	अश्वमेध महायज्ञ : एक सांस्कृतिक विश्लेषण		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	550.00	–
0000 A	5587	माध्यन्दिन – शतपथब्राह्मणम् भाग – 1		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	800.00	–
0000 A	5588	माध्यन्दिन – शतपथब्राह्मणम् भाग – 2		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	824.00	–
0000 A	5589	कौशिकगृह्यसूत्रस्यालोचनात्मकमनुशीलनम्		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–
0000 A	5590	वैदिकशिक्षास्वरूपविमर्शः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	360.00	–
0000 A	5591	कुण्डरत्नावली		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	220.00	–
0000 A	5592	शुक्लयजुर्वेदकाण्वसंहिता		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–
0000 A	5593	यज्ञतत्वविमर्शः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	390.00	–
0000 A	5594	वाक्यपदीयम् ब्रह्मकाण्ड (द्वितीय संस्करण)		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	280.00	–
0000 A	5595	वाक्यपदीयम् वाक्यकाण्ड (द्वितीय संस्करण)		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–
0000 A	5596	पदकाण्ड भाग – 1		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–
0000 A	5597	पदकाण्ड भाग – 2		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	230.00	–

0000 A	5598	पदकाण्ड भाग – 3		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	200.00	–
0000 A	5599	वाक्यपदीयपाठभेदनिर्णयः भाग – 1		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	26.00	–
0000 A	5600	वाक्यपदीयपाठभेदनिर्णयः भाग – 2		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	86.00	–
0000 A	5601	वाक्यपदीयपाठभेदनिर्णयः भाग – 3		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	190.00	–
0000 A	5602	व्याकरणदर्शनभूमिका		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	28.00	–
0000A	5603	व्याकरणदर्शनपीठिका		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	40.00	–
0000 A	5604	प्रक्रियाकौमुदी भाग – 1		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	250.00	–
0000 A	5605	प्रक्रियाकौमुदी भाग – 2		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	200.00	–
0000 A	5606	प्रक्रियाकौमुदी भाग – 3		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	300.00	–
0000 A	5607	महाभाष्यनिगूढाकूतयः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	26.80	–
0000 A	5608	वैयाकरणानामन्येषाञ्च मतेन शब्दस्वरूपतच्छक्तिविचारः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	26.50	–
0000 A	5609	वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषा		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	36.00	–
0000 A	5610	श्लोकसिद्धांतकौमुदी भाग – 1		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–
0000 A	5611	श्लोकसिद्धांतकौमुदी भाग – 2		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–
0000 A	5612	निपातार्थनिर्णयः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	60.00	–
0000 A	5613	पाणिनीयधातुपाठसमीक्षा भाग – 1		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	85.00	–
0000 A	5614	पाणिनीयधातुपाठसमीक्षा भाग – 2		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	130.00	–
0000 A	5615	वाक्यवादः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	4.50	–
0000 A	5616	परिभाषेन्दुशेखरः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	80.00	–

0000 A	5617	परिभाषेन्दुशेखरः द्वितीय संस्करण		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	100.00	–
0000A	5618	व्याकरणे नागेशभट्टकृतिषु तन्त्रस्य प्रभावः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	52.00	–
0000 A	5619	भूषणसार–परमलघुमञ्जूषयोः सिद्धांतानां समीक्षा		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	35.00	–
0000 A	5620	सम्याभरणम्		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	36.00	–
0000 A	5621	शिक्षासङ्.ग्रहः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	शीघ्र प्रकाश्य	–
0000 A	5622	वैयाकरणसिद्धांतलघुमञ्जूषा भाग – 1		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	शीघ्र प्रकाश्य	–
0000 A	5623	वैयाकरणसिद्धांतलघुमञ्जूषा भाग – 2		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	150.00	–
0000 A	5624	सिद्धांतचिन्तामणिः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	64.00	–
0000 A	5625	ऋग्वेदीय सुबन्त–पदों का व्युत्पत्ति–चिन्तन		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	130.00	–
0000 A	5626	नामरूपोसमासो		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	4.00	–
0000 A	5627	कच्चायनव्याकरणम्		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	80.00	–
0000 A	5628	समासवृत्तिविमर्शः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	90.00	–
0000 A	5629	शब्दार्थमीमांसा		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	100.00	–
0000 A	5630	व्याकरणशास्त्रे लौकिकन्यायानामुपयोगः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	शीघ्र प्रकाश्य	–
0000 A	5631	बृहच्छब्देन्दुशेखरः भाग – 1		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	शीघ्र प्रकाश्य	–
0000 A	5632	बृहच्छब्देन्दुशेखरः भाग – 2		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	380.00	–
0000 A	5633	बृहच्छब्देन्दुशेखरः भाग – 3		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	400.00	–
0000 A	5634	पाणिनीयप्रबोधः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	100.00	–
0000 A	5635	पाणिनीयव्याकरणे प्रमाणसमीक्षा		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	400.00	–

0000 A	5636	दशपाद्युणादिवृत्तिः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	232.00	–
0000 A	5637	कातन्त्रव्याकरणम् भाग – 1		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	शीघ्र प्रकाश्य	–
0000 A	5638	कातन्त्रव्याकरणम् भाग – 2 खण्ड – 1		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	500.00	–
0000 A	5639	कातन्त्रव्याकरणम् भाग – 2 खण्ड – 2		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	600.00	–
0000 A	5640	कातन्त्रव्याकरणम् भाग – 3 खण्ड – 1		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	480.00	–
0000 A	5641	कातन्त्रव्याकरणम् भाग – 3 खण्ड – 2		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	500.00	–
0000 A	5642	कातन्त्रव्याकरणम् भाग – 4		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	800.00	–
0000 A	5643	शब्दशास्त्रीयवृत्तिविमर्शः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	75.00	–
0000 A	5644	कतिपयपाणिनिसूत्राणां विशेषव्याख्यानम्		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	10.00	–
0000 A	5645	लघुशब्देन्दुशेखरः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	400.00	–
0000 A	5646	सद्दबिन्दुः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	10.00	–
0000A	5647	संस्कृतव्याकरण की प्राविधिक शब्दावली का विवेचन		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	750.00	–
0000 A	5648	अष्टाध्यायी–मन्थन		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	250.00	–
0000 A	5649	बालमनोरमागर्भित – तत्वबोधिनीलघुशब्देन्दुशेखरयोस्तुलनात्मक मध्ययनम्		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	300.00	–
0000 A	5650	शब्दविमर्श		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	300.00	–
0000 A	5651	कातन्त्र व्याकरण की विजय यात्रा भाग – 1		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	730.00	–
0000 A	5652	कातन्त्र व्याकरण की विजय यात्रा भाग – 2		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	810.00	–
0000 A	5653	श्रीनारदीयपुराणे व्याकरणशास्त्रवैभवम्		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	180.00	–
0000 A	5654	व्याकरणदर्शनप्रतिमा		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–

0000 A	5655	धात्वर्थविज्ञानम्		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–
0000 A	5656	वैयाकरणभूषणसारः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–
0000 A	5657	ग्रहनक्षत्राणि		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–
0000 A	5658	वास्तवचन्द्रश्रृगोन्नतिः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	30.00	–
0000 A	5659	ज्यौतिषशास्त्रे दिग्देशकालज्ञानम्		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	110.00	–
0000 A	5660	सिद्धांततत्वविवेकः भाग – 1		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–
0000 A	5661	सिद्धांततत्वविवेकः भाग – 2		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	200.00	–
0000 A	5662	सिद्धांततत्वविवेकः भाग – 3		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	140.00	–
0000 A	5663	म.म. सुधाकर द्विवेदी वेधशाला–परिचय		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	16.00	–
0000 A	5664	वास्तुसौख्यम्		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	105.00	–
0000 A	5665	सड्.ग्रहशिरोमणिः भाग – 1		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	250.00	–
0000 A	5666	सड्.ग्रहशिरोमणिः भाग – 2		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	180.00	–
0000 A	5667	प्राच्यभारतीयम् ऋतुविज्ञानम्		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	130.00	–
0000 A	5668	बृहत्संहिता भाग – 1		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	200.00	–
0000 A	5669	बृहत्संहिता भाग – 2		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–
0000 A	5670	सूर्यग्रहणम्		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	150.00	–
0000 A	5671	चलराशिकलनम्		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	150.00	–
0000 A	5672	अर्वाचीनं ज्योतिर्विज्ञानम्		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–
0000 A	5673	राशियां बोलती हैं		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–

0000 A	5674	सूर्यग्रहण–गणित		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	132.00	–
0000 A	5675	सरलत्रिकोणमितिः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	180.00	–
0000A	5676	सर्वानन्दकरणम्		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–
0000 A	5677	बृहत्संहिता भाग – 1		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	500.00	–
0000 A	5678	बृहत्संहिता भाग – 2		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	600.00	–
0000 A	5679	बृहत्संहिता भाग – 3		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	712.00	–
0000 A	5680	जैमिनिसूत्रम्		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	350.00	–
0000 A	5681	लघुपाराशरी एवं मध्यपाराशरी		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	120.00	–
0000 A	5682	वास्तुसारसङ्.ग्रहः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–
0000 A	5683	सिद्धान्तशिरोमणिः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	351.00	–
0000 A	5684	सिद्धान्तसुन्दरम्		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	280.00	–
0000 A	5685	उकरा		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–
0000 A	5686	सूर्यसिद्धांतः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–
0000 A	5687	तत्वचिन्तामणौ विधिवादः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	38.00	–
0000 A	5688	तत्वचिन्तामणिः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	132.00	–
0000 A	5689	व्योमवती भाग – 1		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	27.00	–
0000 A	5690	व्योमवती भाग – 2		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	50.00	–
0000 A	5691	किरणावलीरहस्यम्		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	24.00	–
0000 A	5692	न्यायमंजरी		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–

0000 A	5693	प्रशस्तपादभाष्यम्		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	480.00	–
0000 A	5694	प्रगल्भी		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	15.00	–
0000 A	5695	दीधितिकारोपज्ञविचाराणामालोचनम्		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	50.00	–
0000 A	5696	कालसिद्धान्तदर्शिनी		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	25.00	–
0000 A	5697	न च रत्नमालिका		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	140.00	–
0000 A	5698	दि हिस्ट्री एण्ड बिब्लियोग्राफी ऑफ न्याय – वैशेषिक लिटरेचर	गोपीनाथ कविराज	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	30.00	–
0000 A	5699	वैशेषिकसिद्धान्तानां गणितीयपद्धत्या विमर्शः	डॉ० नारायण गोपाल डोंगरे	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	24.60	–
0000 A	5700	पदवाक्यरत्नाकरः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	280.00	–
0000 A	5701	अनुमितिपरामर्शकार्यकारणभावविचारः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	10.00	–
0000 A	5702	पक्षतावादः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	10.00	–
0000 A	5703	रससारः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	80.00	–
0000 A	5704	नव्यमतीयपरामर्शकारणतावादः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	10.00	–
0000A	5705	तर्कचन्द्रिका		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	10.00	–
0000 A	5706	आकांक्षावादः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	16.00	–
0000 A	5707	ईश्वरवादः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	12.00	–
0000 A	5708	भेदरत्नम्		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	16.00	–
0000 A	5709	सामान्यनिरुक्तिसौगन्ध्यम्	डॉ० राजाराम शुक्ल	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	280.00	–
0000 A	5710	अर्थसङ्.ग्रहः	डॉ० ना.रा. श्रीनिवास ताताचार्य	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	10.00	–
0000 A	5711	सामान्यनिरुक्तिवादार्थः	डॉ० राजाराम शुक्ल	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	32.00	–

0000 A	5712	सामान्यनिरुक्तिविवेचना	डॉ० राजाराम शुक्ल	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	100.00	–
0000 A	5713	न्यायकुसुमांजलिः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–
0000 A	5714	नोट्स ऑन रीलिजन एण्ड फिलासफी	डॉ० गौरीनाथ शास्त्री	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–
0000 A	5715	अद्वैतदीपिका भाग – 1		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	38.00	–
0000 A	5716	अद्वैतदीपिका भाग – 2		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	65.00	–
0000 A	5717	अद्वैतदीपिका भाग – 3		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	20.00	–
0000 A	5718	विराड्विवरणम्		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	3.50	–
0000 A	5719	नयनप्रसादिन्याः समीक्षणम्	आचार्य डॉ० पारसनाथ द्विवेदी	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	44.00	–
0000 A	5720	खण्डनखण्डखाद्यम्		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	120.00	–
0000 A	5721	श्रीमद्भगवदगीता	विश्रुत मनीषी डॉ० राजेदव मिश्र	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	72.00	–
0000 A	5722	श्रीमद्भगवदगीता		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	96.00	–
0000 A	5723	टी ट्रायून पाथ (श्रीमद्भगवदगीता – एक अध्ययन)	डॉ० गौरीनाथ शास्त्री	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	17.00	–
0000 A	5724	श्रीभाष्यपरिष्कारः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	6.00	–
0000 A	5725	तत्वमुक्ताकलापः भाग – 1		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	120.00	–
0000 A	5726	तत्वमुक्ताकलापः भाग – 2		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	200.00	–
0000 A	5727	वेदार्थसङ्.ग्रहः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	64.00	–
0000 A	5728	भक्तिदर्शनविमर्शः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	40.00	–
0000 A	5729	दर्शनबिन्दुसङ्.ग्रहः भाग – 1		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	150.00	–
0000 A	5730	दर्शनबिन्दुसङ्.ग्रहः भाग – 2		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	110.00	–

0000 A	5731	वेदान्तकौस्तुभप्रभा		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	300.00	–
0000 A	5732	तत्वमुक्तावली		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	50.00	–
0000 A	5733	अद्वैतमकरन्दः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	100.00	–
0000A	5734	न्यायसिद्धांजनम्		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	210.00	–
0000 A	5735	शाण्डिल्य – संहिता		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	132.00	–
0000 A	5736	खण्डनखण्डखाद्य–प्रमापक्ष		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	300.00	–
0000 A	5737	शाण्डिल्यभक्तिसूत्रम्		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	100.00	–
0000 A	5738	एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	80.00	–
0000 A	5739	उपेन्द्रविज्ञानसूत्रम्		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	60.00	–
0000 A	5740	वेदान्तपरिभाषा		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–
0000 A	5741	बृहदारण्यकवार्तिकसारः भाग – 1	श्री हरिहरकृपालु द्विवेदी	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	250.00	–
0000 A	5742	बृहदारण्यकवार्तिकसारः भाग – 2	श्री हरिहरकृपालु द्विवेदी	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	250.00	–
0000 A	5743	बृहदारण्यकवार्तिकसारः भाग – 3	श्री हरिहरकृपालु द्विवेदी	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	240.00	–
0000 A	5744	बृहदारण्यकवार्तिकसारः भाग – 4	श्री हरिहरकृपालु द्विवेदी	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	270.00	–
0000 A	5745	विवेकज्योतिः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	280.00	–
0000 A	5746	मध्वमुखालड.कारः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	100.00	–
0000 A	5747	वासिष्ठदर्शनम्		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	150.00	–
0000 A	5748	महाविद्याविडम्बनम्		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	558.00	–
0000 A	5749	उपदेशसाहस्री	प्रो. रामकिशोर त्रिपाठी	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	280.00	–

0000 A	5750	सिद्धांतलेशसङ्.ग्रहः भाग – 1		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	500.00	–
0000 A	5751	सिद्धांतलेशसङ्.ग्रहः भाग – 2		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	500.00	–
0000 A	5752	विवरणप्रमेयसङ्.ग्रहः	प्रो. पारसनाथ द्विवेदी	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	1000.00	–
0000 A	5753	आत्मविद्याविलासः	डॉ० विद्याभूषण द्विवेदी	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	180.00	–
0000 A	5754	श्रीरामगीता	डॉ० हरिश्चन्द्र मणि त्रिपाठी	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	200.00	–
0000 A	5755	अद्वैततत्वतरङि.गणी	प्रो. राजाराम शुक्ल	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	40.00	–
0000 A	5756	वल्लभवेदान्त–शाङ.करवेदान्तदृष्ट्या अद्वैतसिद्धिमण्डनम्	डॉ० सुधाकर मिश्र	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	280.00	–
0000 A	5757	वल्लभवेदान्त–योगतन्त्रशास्त्र–साध्यसाधन विमर्शः	डॉ० परमात्मा दुबे	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	280.00	–
0000 A	5758	शाङ.करवेदान्तकोशः	श्री मुरलीधर पाण्डेय	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–
0000 A	5759	कल्पकलिका	हरिहर कृपालु द्विवेदी	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	50.00	–
0000 A	5760	मीमांसानयमंजरी भाग – 1		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	60.00	–
0000 A	5761	मीमांसानयमंजरी भाग – 2		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	120.00	–
0000 A	5762	मीमांसाकुतूहलम्		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	45.00	–
0000A	5763	इण्डेक्स टु शाबरभाष्य	डॉ० जे.ए. जैकब	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	25.00	–
0000 A	5764	तौतातितमततिलकम्	पं. श्री चिन्नास्वामी तथा पं. श्री पी.एन. पट्टाभिराम शास्त्री	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	450.00	–
0000 A	5765	तत्वबिन्दुः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	120.00	–
0000 A	5766	मीमांसान्यायप्रकाशविमर्शः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	450.00	–
0000 A	5767	न्यायरत्नमाला		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–
0000 A	5768	पालितिपिटकसद्दानुक्कमणिका भाग – 1		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–

0000 A	5769	पालितिपिटकसद्दानुक्कमणिका भाग – 2		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	36.00	–
0000 A	5770	विभंगमूलटीका		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	85.00	–
0000 A	5771	अटठसालिनी		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	156.00	–
0000 A	5772	अभिधम्ममूलटीका		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	70.00	–
0000 A	5773	विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिप्रकरणद्वयम्		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	190.00	–
0000 A	5774	सारत्थदीपनी भाग – 1		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	120.00	–
0000 A	5775	सारत्थदीपनी भाग – 2		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	132.00	–
0000 A	5776	सारत्थदीपनी भाग – 3		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	250.00	–
0000 A	5777	धर्मसमुच्चयः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	250.00	–
0000 A	5778	अभिधम्मत्थसड.गहो भाग – 1		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	140.00	–
0000 A	5779	अभिधम्मत्थसड.गहो भाग – 2		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	190.00	–
0000 A	5780	जातकटठकथा		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	60.00	–
0000 A	5781	विसुद्धिमग्गो भाग – 1		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	400.00	–
0000 A	5782	विसुद्धिमग्गो भाग – 2		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	350.00	–
0000 A	5783	विसुद्धिमग्गो भाग – 3		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	340.00	–
0000 A	5784	धर्मपदव्याख्यानम्	प्रो. नरेन्द्रनाथ पाण्डेय	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	400.00	–
0000 A	5785	बुद्धघोसुप्पत्ति		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	12.00	–
0000 A	5786	सच्चसड.खेपो	आचार्य श्री लक्ष्मी नारायण तिवारी	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	16.00	–
0000 A	5787	भारतीयसंस्कृतौ प्रव्रजितनारीणामवदानम	डॉ० रमेश कुमार द्विवेदी	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	232.00	–

0000 A	5788	विभज्यवाद	प्रो. ब्रह्मदेव नारायण शर्मा	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	320.00	–
0000 A	5789	महाबोधिवंसो	डॉ० कोमलचन्द्र जैन	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	32.00	–
0000 A	5790	जिनालङ.कार	प्रो. प्रद्युम्न दुबे	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	20.00	–
0000 A	5791	सद्दत्थभेदचिन्तापालि	प्रो. व्रजमोहन पाण्डेय 'नलिन'	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	20.00	–
0000A	5792	अनागतवंसो	डॉ० रमेश प्रसाद	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	20.00	–
0000 A	5793	वुत्तमालासन्देशशतकम्	डॉ० रामनक्षत्र प्रसाद	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	20.00	–
0000 A	5794	दसबोधिसत्तुप्पत्तिकथा	डॉ० सुरेन्द्रकुमार पाण्डेय	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	24.00	–
0000 A	5795	पटठानुद्देसदीपनी	डॉ० विमलेन्द्र कुमार	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	24.00	–
0000 A	5796	जिनकालमाली	डॉ० हरप्रसाद दीक्षित	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	300.00	–
0000 A	5797	धातुवंसो	डॉ० विमलेन्द्र कुमार	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	40.00	–
0000 A	5798	बौद्धमनोविज्ञान	प्रो. ब्रह्मदेव नारायण शर्मा	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	450.00	–
0000 A	5799	हेतुबिन्दुप्रकरणम्	डॉ० ब्रजकिशोर त्रिपाठी	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	1000.00	–
0000 A	5800	नृसिंहप्रसादः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–
0000 A	5801	भारतीयकर्मकाण्डस्वरुपाध्ययनम्	स्व. डॉ० विन्ध्येश्वरी प्रसाद त्रिपाठी	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	26.00	–
0000 A	5802	श्राद्धविमर्शः	डॉ० उमाशंकर त्रिपाठी	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	22.00	–
0000 A	5803	श्राद्धकल्पः	डॉ० अशोक चटर्जी	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	120.00	–
0000 A	5804	त्रिस्थलीसेतुः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	100.00	–
0000 A	5805	कालतत्वविवेचनम्	डॉ० हरिवंश कुमार पाण्डेय	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	290.00	–
0000 A	5806	स्मार्तोल्लासः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	250.00	–

0000 A	5807	नवरात्रप्रदीपः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	60.00	–
0000 A	5808	द्वैतनिर्णयसिद्धांतसङ्.ग्रहः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	60.00	–
0000 A	5809	व्रतकोशः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	120.00	–
0000 A	5810	संस्कारदीपकः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	150.00	–
0000 A	5811	दुर्गासप्तशती	डॉ० गिरिजेश कुमार दीक्षित	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	800.00	–
0000 A	5812	आचारेन्दुः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	316.00	–
0000 A	5813	कालिदासकृतग्रन्थेषु पौरोहित्यतत्वविमर्शः	डॉ० जयप्रकाश पाण्डेय	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	200.00	–
0000 A	5814	शिलान्यास एवं वास्तुपूजन–पद्धति	प्रो. युगलकिशोर मिश्र	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	30.00	–
0000 A	5815	गर्भाधान–पुंसवन–सीमन्तोन्नयन–संस्कार	डॉ० कमलाकान्त त्रिपाठी	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	30.00	–
0000 A	5816	जातकर्म–संस्कार	डॉ० जयप्रकाश पाण्डेय	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	24.00	–
0000 A	5817	नामकरण–संस्कार	डॉ० कुंजबिहारी शर्मा	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	30.00	–
0000 A	5818	अन्नप्राशन–संस्कार	डॉ० कुंजबिहारी शर्मा	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	32.00	–
0000 A	5819	चूड़ाकरण–संस्कार	डॉ० महेन्द्र पाण्डेय	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	32.00	–
0000 A	5820	कर्णवेध–संस्कार	डॉ० महेन्द्र पाण्डेय	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	24.00	–
0000A	5821	यज्ञोपवीत–वेदारम्भ–समावर्तन–संस्कार	डॉ० राममूर्ति चतुर्वेदी	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	40.00	–
0000 A	5822	केशांत–संस्कार	डॉ० महेन्द्र पाण्डेय	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	32.00	–
0000 A	5823	विवाह–संस्कार		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	40.00	–
0000 A	5824	भारतीयविचारदर्शनम् भाग – 1		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–
0000 A	5825	भारतीयविचारदर्शनम् भाग – 2		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	105.00	–

0000 A	5826	नीतिविधिविमर्शः भाग – 1		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	85.00	–
0000 A	5827	नीतिविधिविमर्शः भाग – 2		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	250.00	–
0000 A	5828	कौटिलीयमर्थशास्त्रम् भाग – 1		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	140.00	–
0000 A	5829	कौटिलीयमर्थशास्त्रम् भाग – 1		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	116.00	–
0000 A	5830	कौटिलीयमर्थशास्त्रम् भाग – 2		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	160.00	–
0000 A	5831	कौटिलीयमर्थशास्त्रम् भाग – 2		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	90.00	–
0000 A	5832	पाश्चात्यभारतीयराजनीत्योः समालोचनम् भाग – 1	पं. श्री विश्वनाथ शास्त्री दातार जी	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	500.00	–
0000 A	5833	पाश्चात्यभारतीयराजनीत्योः समालोचनम् भाग – 2	पं. श्री विश्वनाथ शास्त्री दातार जी	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	550.00	–
0000 A	5834	मानवनीतिविवेचनम्	प्रो. राधेश्यामधर द्विवेदी	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	280.00	–
0000 A	5835	प्रदीपकलिका	श्री विश्वेश्वर पण्डित	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	180.00	–
0000 A	5836	काशीवैभवसमुच्चयः	श्री रमापद चक्रवर्ती	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	300.00	–
0000 A	5837	पुरुषार्थचिन्तामणिः	डॉ० व्यास मिश्र	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	616.00	–
0000 A	5838	द्वैतपरिशिष्टम्	श्री दुर्गाधर झा	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	8.00	–
0000 A	5839	योगिनीहृदयम्		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	300.00	–
0000 A	5840	शारदातिलकम् भाग – 1		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	150.00	–
0000 A	5841	शारदातिलकम् भाग – 2		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	240.00	–
0000 A	5842	परमानन्दतंत्रम्	श्री शिवानन्द पंत	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	96.00	–
0000 A	5843	अष्टप्रकरणम्	पं. श्री व्रजवल्लभ द्विवेदी	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	80.00	–
0000 A	5844	सात्वतसंहिता		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	380.00	–

0000 A	5845	शाक्तानन्दतरंगिणी	डॉ० राजनाथ त्रिपाठी	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	44.00	–
0000 A	5846	रुद्रयामलम् भाग – 1		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	132.00	–
0000 A	5847	रुद्रयामलम् भाग – 2		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	164.00	–
0000 A	5848	महार्थमंजरी		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	100.00	–
0000 A	5849	श्रीत्रिपुरार्णवतन्त्रम्		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	96.00	–
0000A	5850	तंत्रसङ्.ग्रहः भाग – 1		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	140.00	–
0000 A	5851	तंत्रसङ्.ग्रहः भाग – 2		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	150.00	–
0000 A	5852	तंत्रसङ्.ग्रहः भाग – 3		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–
0000 A	5853	तंत्रसङ्.ग्रहः भाग – 4		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	70.00	–
0000 A	5854	तंत्रसङ्.ग्रहः भाग – 5		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	140.00	–
0000 A	5855	गौतमीयमहातंत्रम्		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	80.00	–
0000 A	5856	नरेश्वरपरीक्षा		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	200.00	–
0000 A	5857	श्रीतंत्रालोकः भाग – 1		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	160.00	–
0000 A	5858	श्रीतंत्रालोकः भाग – 2		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	150.00	–
0000 A	5859	श्रीतंत्रालोकः भाग – 3		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	200.00	–
0000 A	5860	श्रीतंत्रालोकः भाग – 4		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–
0000 A	5861	श्रीतंत्रालोकः भाग – 5		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	180.00	–
0000 A	5862	श्रीतंत्रालोकः भाग – 6		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	180.00	–
0000 A	5863	श्रीतंत्रालोकः भाग – 7		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	230.00	–

0000 A	5864	श्रीतंत्रालोकः भाग – 8		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	160.00	–
0000 A	5865	सुन्दरीमहोदयः	डॉ० रुद्रदेव त्रिपाठी	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	150.00	–
0000 A	5866	कालीकल्पद्रुवल्लरी		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–
0000 A	5867	उत्तरषट्कम्		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	80.00	–
0000 A	5868	लुप्तागमसङ्.ग्रहः भाग – 1		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	130.00	–
0000 A	5869	लुप्तागमसङ्.ग्रहः भाग – 2		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–
0000 A	5870	त्रिकदर्शनम्	आचार्य बदरीनाथ शुक्ल	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	100.00	–
0000 A	5871	स्वच्छन्दतन्त्रम् भाग – 1		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	100.00	–
0000 A	5872	स्वच्छन्दतन्त्रम् भाग – 2		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	50.00	–
0000 A	5873	स्वच्छन्दतन्त्रम् भाग – 3		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	50.00	–
0000 A	5874	स्वच्छन्दतन्त्रम् भाग – 4		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	60.00	–
0000 A	5875	स्वच्छन्दतन्त्रम् भाग – 5		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	50.00	–
0000 A	5876	त्रिपुरारहस्यम्		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	140.00	–
0000 A	5877	ज्ञानदीपविमर्शिनी		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	220.00	–
0000 A	5878	भास्करराय भारती दीक्षित – व्यक्तित्व एवं कृतित्व	पं. श्री बटुकनाथ शास्त्री	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	300.00	–
0000A	5879	युक्तिदीपिका		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–
0000 A	5880	भास्करराय – ग्रंथावली भाग – 1		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	200.00	–
0000 A	5881	भास्करराय – ग्रंथावली भाग – 2		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	400.00	–
0000 A	5882	भास्करराय – ग्रंथावली भाग – 3		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–

0000 A	5883	वैष्णवागमविमर्शः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	100.00	–
0000 A	5884	भास्करी भाग – 1		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	150.00	–
0000 A	5885	भास्करी भाग – 2		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	150.00	–
0000 A	5886	भास्करी भाग – 3		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	180.00	–
0000 A	5887	मालिनीविजयोत्तरतन्त्रम्		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	282.00	–
0000 A	5888	प्राणतोषिणी भाग – 1		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	450.00	–
0000 A	5889	प्राणतोषिणी भाग – 2		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	460.00	–
0000 A	5890	प्राणतोषिणी भाग – 3		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–
0000 A	5891	सौभाग्यरत्नाकरः	श्री विद्यानन्द नाथ जी	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	350.00	–
0000 A	5892	तारिणीपरिजातः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–
0000 A	5893	श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम् भाग – 1		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	400.00	–
0000 A	5894	श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम् भाग – 2		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	400.00	–
0000 A	5895	श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम् भाग – 3		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	450.00	–
0000 A	5896	श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम् भाग – 4		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	480.00	–
0000 A	5897	श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम् भाग – 5		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	350.00	–
0000 A	5898	गोरक्षसंहिता भाग – 1		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	465.00	–
0000 A	5899	गोरक्षसंहिता भाग – 2		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–
0000 A	5900	योगविद्याविमर्श	प्रो. विमला कर्नाटक	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	300.00	–
0000 A	5901	पुरश्चर्यार्णवः भाग – 1		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	390.00	–

0000 A	5902	पुरश्चर्यार्णवः भाग – 2		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	366.00	–
0000 A	5903	पुरश्चर्यार्णवः भाग – 3		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–
0000 A	5904	योगतंत्रागमदृष्टया मुद्रातत्वविमर्शः	डॉ० ए. लक्ष्मणरावशास्त्री	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	532.00	–
0000A	5905	सिद्धसिद्धान्तपद्धतिः	डा० राघवेन्द्र जी दुबे	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	280.00	–
0000 A	5906	नित्याषोडशिकार्णवः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–
0000 A	5907	पुराणेतिहासयोः सांख्ययोगदर्शनविमर्शः	डॉ० श्रीकृष्णमणि त्रिपाठी	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	32.80	–
0000 A	5908	स्वप्नविमर्शः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–
0000 A	5909	अग्निपुराणोक्तं काव्यालड.कारशास्त्रम्		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	53.00	–
0000 A	5910	आयुर्वेदशास्त्रे भूतविद्यायाः संवीक्षणात्मकमध्ययनम्		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	45.00	–
0000 A	5911	स्टडीज इन हिन्दू लॉ		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	64.00	–
0000 A	5912	काशीखण्डः भाग – 1		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	524.00	–
0000 A	5913	काशीखण्डः भाग – 2		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–
0000 A	5914	काशीखण्डः भाग – 3		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	300.00	–
0000 A	5915	काशीखण्डः भाग – 4		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	280.00	–
0000 A	5916	काशीखण्डपरिशिष्टम्	प्रो. गिरिजेश कुमार दीक्षित	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	280.00	–
0000 A	5917	कूर्ममहापुराणविषयानुक्रमकोशः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	132.00	–
0000 A	5918	पाराशरोपपुराणस्य समीक्षात्मकं सम्पादनम्		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	66.00	–
0000 A	5919	महाभारतसर्वस्वम्	पं. श्री कुबेरनाथ शुक्ल	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	400.00	–
0000 A	5920	काशी–माहात्म्य	श्री शिवानन्द सरस्वती	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	100.00	–

0000 A	5921	गर्गसंहिता भाग – 1		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	220.00	–
0000 A	5922	गर्गसंहिता भाग – 2		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	300.00	–
0000 A	5923	वामनमहापुराणविषयानुक्रमकोशः भाग – 1		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	500.00	–
0000 A	5924	ब्रह्मवैवर्त्तमहापुराणविषयानुक्रमकोशः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	300.00	–
0000 A	5925	अष्टादशपुराणेषु नारी	डॉ० लक्ष्मी देवी शर्मा अय्यर	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	200.00	–
0000 A	5926	भगवन्नाममाहात्म्यसङ्.ग्रहः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	250.00	–
0000 A	5927	केदारखण्डः भाग – 1	प्रो. वाचस्पति द्विवेदी	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	450.00	–
0000 A	5928	केदारखण्डः भाग – 2	प्रो. वाचस्पति द्विवेदी	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	500.00	–
0000 A	5929	केदारखण्डः भाग – 3	प्रो. वाचस्पति द्विवेदी	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	550.00	–
0000 A	5930	केदारखण्डः भाग – 4	प्रो. वाचस्पति द्विवेदी	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	610.00	–
0000 A	5931	विष्णुस्मृति का विवेचनात्मक अध्ययन		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	150.00	–
0000 A	5932	कल्किपुराणम्		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	240.00	–
0000 A	5933	श्रीमद्भगवत में सांख्ययोग के तत्व : एक परिशीलन		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	400.00	–
0000A	5934	शिवमहापुराणम्		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–
0000 A	5935	सिन्धुलिपि एवं भारत की अन्य लिपियां		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	220.00	–
0000 A	5936	काशीयात्रा	आचार्य श्री करुणापति त्रिपाठी	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–
0000 A	5937	लोकमाता गंगा	आचार्य शुक्ल जी	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	240.00	–
0000 A	5938	ए स्टडी ऑफ वोमेन इन एन्सिएण्ट इण्डिया एण्ड एन इन्ट्रोडक्सन टु क्राइम्स अगेन्स्ट वोमेन	श्रीनित्या मालवीया	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	216.00	–
0000 A	5939	श्रीगंगासहस्रनामस्तोत्रम्	श्रीरामानन्दाचार्य	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–

0000 A	5940	काव्यप्रकाशः	दीपिका टीका	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	132.00	–
0000 A	5941	साहित्यमीमांसा	डॉ० गौरीनाथ शास्त्री	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	44.00	–
0000 A	5942	रसिकजीवनम्		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	144.00	–
0000 A	5943	नानकचन्द्रोदयमहाकाव्यम्	गुरु नानकदेव	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	74.60	–
0000 A	5944	भावप्रकाशन : एक समालोचनात्मक अध्ययन	डॉ० रामरंग शर्मा	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	45.00	–
0000 A	5945	शिवमहिम्नः स्तोत्रम्	श्री नारायणपति त्रिपाठी	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	100.00	–
0000 A	5946	कृष्णकुतूहलम्	श्री हरिशंकर ओझा	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	60.00	–
0000 A	5947	वाल्मीकिरचनामृत भाग – 1		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	56.00	–
0000 A	5948	वाल्मीकिरचनामृत भाग – 2		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	60.00	–
0000 A	5949	वाल्मीकिरचनामृत भाग – 3		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	90.00	–
0000 A	5950	वाल्मीकिरचनामृत भाग – 4		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	100.00	–
0000 A	5951	आचार्य नन्दिकेश्वर और उनका नाट्य–साहित्य	डॉ० पारसनाथ द्विवेदी	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	70.00	–
0000 A	5952	इण्डेक्स टु वाल्मीकि–रामायण	डॉ० मन्मथनाथ	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	40.00	–
0000 A	5953	नवमशताब्दीतो द्वादशशताब्दीपर्यनतं विशिष्टसंस्कृतकाव्येषु सामाजिकव्यवस्थायाः परिशीलनम्	डॉ० छोटेलाल त्रिपाठी	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	80.00	–
0000 A	5954	वैदिक–संहिताओं में नारी	डॉ० मालती शर्मा	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	96.00	–
0000 A	5955	नाट्यशास्त्रम् भाग – 1		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–
0000 A	5956	नाट्यशास्त्रम् भाग – 2		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	200.00	–
0000 A	5957	नाट्यशास्त्रम् भाग – 3		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	280.00	–
0000 A	5958	नाट्यशास्त्रम् भाग – 4		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	300.00	–

0000 A	5959	पण्डित–परिक्रमा		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	160.00	–
0000 A	5960	खण्डप्रशस्तिः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	80.00	–
0000 A	5961	पण्डित–परिक्रमा		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	160.00	–
0000 A	5962	पण्डित रीविजिटेड	डॉ० विजय नारायण मिश्र	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	190.00	–
0000A	5963	रसमंजरी		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	50.00	–
0000 A	5964	अस्ताचलीयम्	श्री गोविन्दचन्द्र पाण्डेय	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	20.00	–
0000 A	5965	दानकेलिचिन्तामणिः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	46.00	–
0000 A	5966	पारिजातहरणचम्पूः	श्री द्विजेन्द्रनाथ मिश्र	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	32.00	–
0000 A	5967	अलंकारशास्त्र में आचार्य कुन्तक की देन	डॉ० हेमा आत्मनाथन्	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	80.00	–
0000 A	5968	विगत उन्नीसवीं शताब्दी में संस्कृत–शिक्षा की स्थिति		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	100.00	–
0000 A	5969	भरतमुनिः साहित्यशास्त्र के आदि आचार्य	डॉ० रमेश कुमार पाण्डेय	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	90.00	–
0000 A	5970	रामायण ककविन्	डॉ० राजेन्द्र प्रसाद मिश्र	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	300.00	–
0000 A	5971	संस्कृत–शिक्षण–समीक्षण	डॉ० इंदिराचरण पाण्डेय	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	100.00	–
0000 A	5972	विश्वदृष्टि : डॉ० संपूर्णानन्द स्मृति – ग्रंथ		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	350.00	–
0000 A	5973	डॉ० संपूर्णानन्द–जीवन एवं चिन्तन	डॉ० संपूर्णानन्द जी	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	50.00	–
0000 A	5974	सौन्दर्यदर्शनविमर्शः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–
0000 A	5975	को वै रसः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	90.00	–
0000 A	5976	अत्रिनिर्वचनम्		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–
0000 A	5977	रसगगंधारः भाग – 1		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	180.00	–

0000 A	5978	रसगगंधारः भाग – 2		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	480.00	–
0000 A	5979	भवभूति की काव्यभाषा का शैली वैज्ञानिक अध्ययन		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	260.00	–
0000 A	5980	विद्वच्चरितपंचकम्		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	100.00	–
0000 A	5981	अवेस्ता ह ओम यस्त एवं बेहिस्तन शिलालेखीय प्राचीन फारसी		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	100.00	–
0000 A	5982	अध्यात्मरामायणम्	श्री कुबेरनाथ शुक्ल जी	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	450.00	–
0000 A	5983	भारतस्य सांस्कृतिको दिग्विजयः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	280.00	–
0000 A	5984	मनोऽनुरञ्जननाटकम्		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	80.00	–
0000 A	5985	संस्कृतकथाकुंजः	डॉ० शिवदत्त शर्मा चतुर्वेदी	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	130.00	–
0000 A	5986	सिखधर्म की व्यापकता एवं नामधारी दरबार	डॉ० रामरंग शर्मा	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	160.00	–
0000 A	5987	जपुजी साहिब		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	150.00	–
0000 A	5988	काव्यप्रकाशः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	580.00	–
0000 A	5989	जैमिनींय सामगानम्		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	200.00	–
0000 A	5990	इण्डोनेशिया में संस्कृत		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	650.00	–
0000 A	5991	अर्वाचीनं मनोविज्ञानम्		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	432.00	–
0000A	5992	साहित्यशारीरकम्		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	200.00	–
0000 A	5993	त्रिपुरदाहः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	80.00	–
0000 A	5994	वर्णाश्रम शिक्षा–व्यवस्था तथा आधुनिक युग में उसकी उपयोगिता		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	200.00	–
0000 A	5995	शिवलीलार्णवः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	200.00	–
0000 A	5996	देवीस्तोत्रम्	डॉ० काली प्रसाद दुबे	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	12.00	–

0000 A	5997	विशुद्धवैभवं महाकाव्यम्		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	25.00	–
0000 A	5998	पराम्बास्तुतिशतकम्		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	16.00	–
0000 A	5999	स्केच ऑफ द राइज एण्ड प्रोग्रेस ऑफ द बनारस पाठशाला	डॉ० हरिश्चन्द्र मणि त्रिपाठी	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	300.00	–
0000 A	6000	साहित्यविमर्शः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	450.00	–
0000 A	6001	सूक्तिमुक्तावली		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–
0000 A	6002	श्रीमम्मटपण्डितराजसिद्धान्तमीमांसा		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	380.00	–
0000 A	6003	काव्यकल्पलतावृत्तिः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	260.00	–
0000 A	6004	रघुवीरचरितम्	डॉ० मंजू उपाध्याय	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	200.00	–
0000 A	6005	पण्डितराज जगन्नाथ शैमुषी समुन्मीलन	डॉ० मनुलता शर्मा	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	680.00	–
0000 A	6006	वाराणसेयसंस्कृतकवीनां समीक्षात्मकमध्ययनम्	डॉ० राजेन्द्र प्रताप त्रिपाठी	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	230.00	–
0000 A	6007	समीक्षासौरभम्	प्रो. राजेन्द्र मिश्र	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	300.00	–
0000 A	6008	चित्रचम्पूकाव्यस्य ससमीक्षं सम्पादनम्	डॉ० देवी प्रसाद द्विवेदी	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	240.00	–
0000 A	6009	रसचन्द्रिका	डॉ० हरिवंश कुमार पाण्डेय	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	24.00	–
0000 A	6010	सीतारावणसंवादझरी	डॉ० राजाराम शुक्ल	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	24.00	–
0000 A	6011	मृगाड.कदूतम्	प्रो. मिश्र	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	100.00	–
0000 A	6012	मृगाड.कलेखा नाटिका	श्री नारायण शास्त्री	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	80.00	–
0000 A	6013	संस्कृतकाव्यशास्त्रे तृतीयशब्दशक्तिविमर्शः	डॉ० शोभा मिश्रा	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	260.00	–
0000 A	6014	कुमारसम्भवमहाकाव्यम्		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	600.00	–
0000 A	6015	भट्टिकाव्यम् भाग – 1		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	500.00	–

0000A	6016	भट्टिकाव्यम् भाग – 2		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	350.00	–
0000 A	6017	सारस्वती–सुषमा–वैभवसमुन्मीलनम्	डॉ० हरिश्चन्द्र मणि त्रिपाठी	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	50.00	–
0000 A	6018	साहित्यसारम्	डॉ० ददन उपाध्याय	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	750.00	–
0000 A	6019	चर्चरी		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	150.00	–
0000 A	6020	इन्द्रोपाख्यान का उद्भव एवं विकास		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	150.00	–
0000 A	6021	सप्तधारा		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	800.00	–
0000 A	6022	अभिनवशुकसारिका	प्रो. राधावल्लभ त्रिपाठी	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	150.00	–
0000 A	6023	अमरज्योति	प्रो. राजेश्वर उपाध्याय	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	100.00	–
0000 A	6024	अभिनवकाव्यालंकारसूत्रम्	प्रो. राधावल्लभ त्रिपाठी	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	150.00	–
0000 A	6025	भारतीय मनीषा	डॉ० वत्सला	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	216.00	–
0000 A	6026	अन्तर्ध्वनिः	प्रो. प्रभुनाथ द्विवेदी	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	120.00	–
0000 A	6027	श्रीगीतगोविन्दम्		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	320.00	–
0000 A	6028	चाहवानवंशचरितमहाकाव्यम्	डॉ० राजेन्द्र प्रताप त्रिपाठी	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	300.00	–
0000 A	6029	श्रीरामविजयमहाकाव्यम्	श्री नारायण शास्त्री	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	100.00	–
0000 A	6030	प्राचीन भारतीय विधि–शिक्षा का समीक्षात्मक अध्ययन	डॉ० प्रेमनारायण सिंह	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	216.00	–
0000 A	6031	अलंकारसारः	प्रो. ब्रजेश कुमार शुक्ल	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	280.00	–
0000 A	6032	ध्वन्यात्ममीमांसा	प्रो. रमाशंकर मिश्र	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	432.00	–
0000 A	6033	पार्वतीमंगलम्	प्रो. पारसनाथ द्विवेदी	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	20.00	–
0000 A	6034	ए टेक्टुअल स्टडी ऑफ कुमारसंभव	डॉ० सदाशिव कुमार द्विवेदी	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	460.00	–

0000 A	6035	डॉ० संपूर्णानन्द की सांस्कृतिक चेतना का नवोन्मेष	डॉ० सोमनाथ त्रिपाठी	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	260.00	–
0000 A	6036	काव्यशास्त्रीय पारिभाषिक शब्दों की निरुक्ति	डॉ० देवी प्रसाद द्विवेदी	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	400.00	–
0000 A	6037	नाट्यशास्त्रीय अभिनयः सिद्धांत एवं प्रयोग	डॉ० अर्चना अग्रवाल	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	400.00	–
0000 A	6038	छन्दश्शास्त्र का उद्‌भव एवं विस्तार	प्रो. श्रीकिशोर मिश्र	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	550.00	–
0000 A	6039	अक्षर–पुरुषः पण्डित श्री विद्यानिवास मिश्र–स्मृति–ग्रंथ		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	1650.00	–
0000 A	6040	पण्डित श्री क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय स्मृति–ग्रंथ		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	1100.00	–
0000 A	6041	चिन्तनसौवर्णिकम्	प्रो. रमाशंकर मिश्र	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	464.00	–
0000 A	6042	साहित्यरत्नाकरः	प्रो. वेम्पटि कुटुम्ब शास्त्री	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	660.00	–
0000 A	6043	श्रीरामस्तवः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	54.00	–
0000 A	6044	श्रीकृष्णस्तवः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	60.00	–
0000A	6045	श्रीगुरुप्रपत्तिः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	50.00	–
0000 A	6046	सौवर्णिकम्	डॉ० सोमनाथ त्रिपाठी	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	650.00	–
0000 A	6047	गीतकीर्तिः प्रो. राममूर्ति शर्मा – स्मृति – ग्रंथ		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	885.00	–
0000 A	6048	लोकप्रकाशः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	216.00	–
0000 A	6049	रघुवंशमहाकाव्यम्		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	800.00	–
0000 A	6050	अवेस्ता गाथाज : ए कम्प्रेहेन्सिव एण्ड कम्परेटिव स्टडी		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	555.00	–
0000 A	6051	प्रो. वि. वेड.कटाचलम् – स्मृति – ग्रंथ		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	800.00	–
0000 A	6052	कविराजप्रतिभा		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–
0000 A	6053	भारतीय चिन्तन की परंपरा में नवीन संभावनाएं भाग – 1	प्रो. राधेश्यामधर द्विवेदी	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	23.00	–

0000 A	6054	भारतीय चिन्तन की परंपरा में नवीन संभावनाएं भाग – 2	प्रो. राधेश्यामधर द्विवेदी	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	46.00	–
0000 A	6055	जैनविद्या एवं प्राकृत	डॉ० गोकुलचन्द्र जैन	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	50.00	–
0000 A	6056	बौद्ध धर्म दर्शन एवं धर्मनिरपेक्षता	डॉ० रमेश कुमार द्विवेदी	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	160.00	–
0000 A	6057	बौद्धदर्शन और मार्क्सवाद	डॉ० रमेश कुमार द्विवेदी	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	360.00	–
0000 A	6058	पुराणप्रज्ञा	प्रो. गंगाधर पण्डा	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	250.00	–
0000 A	6059	पुनश्चर्या–संवाद	डॉ० सोमनाथ त्रिपाठी	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	230.00	–
0000 A	6060	पुराणप्रज्ञा	प्रो. गंगाधर पण्डा	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	200.00	–
0000 A	6061	द्वैताद्वैतविमर्शः	डॉ० राजाराम शुक्ल	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	180.00	–
0000 A	6062	मिथ्यात्वहेतूपपत्तिः	डॉ० राजाराम शुक्ल	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	124.00	–
0000 A	6063	पण्डितराजराजेश्वरशास्त्रिद्राविडानां दार्शनिकमवदानम्	डॉ० राजाराम शुक्ल	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	255.00	–
0000 A	6064	आधुनिक वैज्ञानिक शोध – प्रविधि		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–
0000 A	6065	भारतीय दर्शन में अनात्मवाद		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–
0000 A	6066	प्रमाणमीमांसा		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–
0000 A	6067	विवरणपंजिका प्रथम खण्ड भाग – 1		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	230.00	–
0000 A	6068	विवरणपंजिका प्रथम खण्ड भाग – 2		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	160.00	–
0000 A	6069	विवरणपंजिका प्रथम खण्ड भाग – 3		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	53.00	–
0000 A	6070	विवरणपंजिका प्रथम खण्ड भाग – 4		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	54.00	–
0000 A	6071	विवरणपंजिका द्वितीय खण्ड भाग – 1		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	200.00	–
0000 A	6072	विवरणपंजिका द्वितीय खण्ड भाग – 2		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	150.00	–

0000 A	6073	विवरणपंजिका द्वितीय खण्ड भाग – 3		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	60.00	–
0000A	6074	विवरणपंजिका द्वितीय खण्ड भाग – 4		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	70.00	–
0000 A	6075	विवरणपंजिका तृतीय खण्ड भाग – 1		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–
0000 A	6076	विवरणपंजिका तृतीय खण्ड भाग – 2		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	60.00	–
0000 A	6077	विवरणपंजिका चतुर्थ खण्ड भाग – 1		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–
0000 A	6078	विवरणपंजिका चतुर्थ खण्ड भाग – 2		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	70.00	–
0000 A	6079	विवरणपंजिका पंचम् खण्ड भाग – 1		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–
0000 A	6080	विवरणपंजिका पंचम् खण्ड भाग – 2		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–
0000 A	6081	विवरणपंजिका पंचम् खण्ड भाग – 3		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	72.00	–
0000 A	6082	विवरणपंजिका पंचम् खण्ड भाग – 4		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	72.00	–
0000 A	6083	विवरणपंजिका षष्ठ खण्ड भाग – 1		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	180.00	–
0000 A	6084	विवरणपंजिका षष्ठ खण्ड भाग – 2		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	50.00	–
0000 A	6085	विवरणपंजिका षष्ठ खण्ड भाग – 3		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	64.00	–
0000 A	6086	विवरणपंजिका सप्तम खण्ड भाग – 1		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–
0000 A	6087	विवरणपंजिका सप्तम खण्ड भाग – 2		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	50.00	–
0000 A	6088	विवरणपंजिका अष्टम खण्ड भाग – 1		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–
0000 A	6089	विवरणपंजिका अष्टम खण्ड भाग – 2		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	224.00	–
0000 A	6090	विवरणपंजिका नवम खण्ड भाग – 1		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–
0000 A	6091	विवरणपंजिका नवम खण्ड भाग – 2		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	66.00	–

0000 A	6092	विवरणपंजिका दशम खण्ड		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–
0000 A	6093	विवरणपंजिका एकादश खण्ड भाग – 1		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–
0000 A	6094	विवरणपंजिका एकादश खण्ड भाग – 2		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	200.00	–
0000 A	6095	विवरणपंजिका द्वादश खण्ड भाग – 1		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–
0000 A	6096	विवरणपंजिका द्वादश खण्ड भाग – 2		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	200.00	–
0000 A	6097	विवरणपंजिका त्रयोदश खण्ड		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	76.00	–
0000 A	6098	दर्शनविशेषांक		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	vizkI;	–
0000 A	6099	व्याकरणदर्शनविशेषांक		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	vizkI;	–
0000 A	6100	बौद्ध जैन दर्शनविशेषांक		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	15.00	–
0000 A	6101	दर्शनविशेषांक		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	vizkI;	–
0000 A	6102	दर्शनविशेषांक		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	vizkI;	–
0000A	6103	तन्त्रशास्त्रविशेषांक		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	100.00	–
0000 A	6104	पुराणविशेषांक		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	vizkI;	–
0000 A	6105	वेदान्तदर्शनविशेषांक		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	30.00	–
0000 A	6106	रजतजयन्तीविषांक		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	30.00	–
0000 A	6107	विश्वसंस्कृतसम्मेलनविशेषांक		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	60.00	–
0000 A	6108	विश्वविद्यालयरजतजयन्तीविशेषांक भाग – 1		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	vizkI;	–
0000 A	6109	विश्वविद्यालयरजतजयन्तीविशेषांक भाग – 2		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	60.00	–
0000 A	6110	म.म. गोपीनाथकविराजविशेषांक		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	60.00	–

0000 A	6111	श्रीशंकराचार्यविशेषांक		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	30.00	–
0000 A	6112	स्वर्णजयन्तीविशेषांक		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	100.00	–
0000 A	6113	पण्डितराजश्रीराजेश्वरशास्त्रिद्रविडस्मृतिविशेषांक		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	100.00	–
0000 A	6114	डॉ० आदित्यनाथ्झझास्मृतिविशेषांक		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–
0000 A	6115	अमृतमहोत्सवविशेषांक		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	100.00	–
0000 A	6116	पण्डितश्रीसुरतिनारायणमणित्रिपाठिस्मृतिविशेषांक		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	100.00	–
0000 A	6117	पदमश्री पण्डितश्रीरघुनाथशर्मस्मृतिविशेषांक		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	100.00	–
0000A	6118	पण्डितश्रीकुबेरनाथशुक्लस्मृतिविशेषांक		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–
0000 A	6119	पण्डितश्रीबदरीनाथशुक्लस्मृतिविशेषांक		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–
0000 A	6120	सड.कापत्रिका भाग – 1		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	32.00	–
0000 A	6121	सड.कापत्रिका भाग – 2		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	45.00	–
0000 A	6122	सड.कापत्रिका भाग – 3		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	280.00	–
0000 A	6123	श्रमणविद्या	प्रो. ब्रह्मदेव नारायण शर्मा	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	264.00	–
0000 A	6124	श्रमणविद्या	प्रो. रमेश कुमार द्विवेदी	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	264.00	–
0000 A	6125	श्रमणविद्या	प्रो. रमेश कुमार द्विवेदी	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–
0000 A	6126	श्रमणविद्या	प्रो. रमेश कुमार द्विवेदी	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	'kh?kz izdk';	–
0000 A	6127	परमागमसारो		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	4.50	–
0000 A	6128	कसायपाहुडसुत्तं		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	8.00	–
0000 A	6129	अवचूरिजुदो दव्वसड.गहो		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	7.00	–

0000 A	6130	प्राकृतप्रकाशः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	250.00	–
0000 A	6131	षड्दर्शनेषु प्रमाणप्रेमयसमुच्चयः		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	10.00	–
0000 A	6132	गाथासप्तशती		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	500.00	–
0000 A	6133	संवेग–चूडामणि	डॉ० अनेकान्त कुमार	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	16.00	–
0000 A	6134	प्रवचन–परीक्षा	प्रो. फूलचन्द्र जैन	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	160.00	–
0000 A	6135	तच्चवियारो	डॉ० गोकुलचन्द्र जैन	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	8.00	–
0000 A	6136	शौरसेनी प्राकृत भाषा एवं साहित्य का इतिहास	डॉ० इन्दु जैन	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	416.00	–
0000 A	6137	जैनागम साहित्य में भारतीय कला	प्रो. हरिशंकर पाण्डेय	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	390.00	–
0000 A	6138	गउडवहो		सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	411.00	–
0000 A	6139	तिरुवाचकम् : तमिल शैव भक्त कवि माणिक्कवाचकर कृत	अनु. डॉ० रवीन्द्रकुमार सेठ	साहित्य शोध संस्थान	650.00	–
0000 A	6140	तमिल शैवभक्त कवि : सुन्दरमूर्ति नायनार्	सं. डॉ० एन. महालिंगम्	साहित्य शोध संस्थान	360.00	–
0000 A	6141	तमिल शैवभक्त कवि : अप्पर	सं. डॉ० एन. महालिंगम्	साहित्य शोध संस्थान	360.00	–
0000 A	6142	तमिलनाडू के मंदिर	सं. डॉ० एन. महालिंगम्	साहित्य शोध संस्थान	150.00	–
0000 A	6143	तमिल शिवभक्त कवि तिरुज्ञानसंबंधर	सं. डॉ० एन. महालिंगम्	साहित्य शोध संस्थान	320.00	–
0000 A	6144	तिरुक्कुरल–तमिल का गौरव ग्रंथ	सं. डॉ० एन. महालिंगम्	साहित्य शोध संस्थान	400.00	–
0000 A	6145	जीवन मोक्ष	सं. डॉ० एन. महालिंगम्	साहित्य शोध संस्थान	120.00	–
0000 A	6146	नीति कुसुमाञ्जलि	अनु. डॉ० रवीन्द्रकुमार सेठ	साहित्य शोध संस्थान	320.00	–
0000A	6147	तमिल आगमशास्त्र : तिरुमूलर कृत तिरुमंतिरम्	सं. डॉ० एन. महालिंगम्	साहित्य शोध संस्थान	450.00	–
0000 A	6148	रामलिंगस्वामी – वल्ललार की ज्योति–साधना	सं. डॉ० एन. महालिंगम्	साहित्य शोध संस्थान	300.00	–
0000 A	6149	सचित्र पेरियपुराणम्	सं. डॉ० एन. महालिंगम्	साहित्य शोध संस्थान	200.00	–
0000 A	6150	तमिल शैवभक्ति साहित्य	अनु. डॉ० रवीन्द्रकुमार सेठ	साहित्य शोध संस्थान	450.00	–
0000 A	6151	तमिल शैव–भक्त कवि : नायनमार्	डॉ० रवीन्द्रकुमार सेठ	साहित्य शोध संस्थान	150.00	–
0000 A	6152	तमिल महाकवि : तिरुवल्लुवर	डॉ० रवीन्द्रकुमार सेठ	साहित्य शोध संस्थान	60.00	–
0000 A	6153	तमिल का प्राचीन साहित्य	डॉ० रवीन्द्रकुमार सेठ	साहित्य शोध संस्थान	100.00	–

0000 A	6154	तमिल वैष्णव–भक्त कवि : आळ्वार	डॉ० रवीन्द्रकुमार सेठ	साहित्य शोध संस्थान	100.00	–
0000 A	6155	सुब्रह्मण्य भारती	डॉ० रवीन्द्रकुमार सेठ	साहित्य शोध संस्थान	100.00	–
0000 A	6156	भक्ति की प्रारंभिक कृति : मुकुन्दमाला	डॉ० रवीन्द्रकुमार सेठ	साहित्य शोध संस्थान	50.00	–
0000 A	6157	तिरुवल्लुवर एवं कबीर का तुलनात्मक अध्ययन	डॉ० रवीन्द्रकुमार सेठ	साहित्य शोध संस्थान		–
0000 A	6158	तुकाराम एवं कबीर का तुलनात्मक अध्ययन	डॉ० (श्रीमती) रमेश सेठ	साहित्य शोध संस्थान	260.00	–
0000 A	6159	महाराष्ट्र की वैष्णव–भक्ति परंपरा और तुकाराम	डॉ० (श्रीमती) रमेश सेठ	साहित्य शोध संस्थान	200.00	–
0000 A	6160	महात्मा गांधी : चिंतन का व्यावहारिक पक्ष	सं. डॉ० एन. महालिंगम्	साहित्य शोध संस्थान	100.00	–
0000 A	6161	Life of Ramakrishna (Nikhilananda) … [PB]	SRI RAMAKRISHNA	Advaita Ashrama, Kalkatta	100.00	–
0000 A	6162	Life of Ramakrishna (Nikhilananda) … [HB]	SRI RAMAKRISHNA	Advaita Ashrama, Kalkatta	110.00	–
0000 A	6163	Life of Ramakrishna (by R.Rolland) … [HB]	SRI RAMAKRISHNA	Advaita Ashrama, Kalkatta	90.00	–
0000 A	6164	Ramakrishna and His Disciples … … [HB]	SRI RAMAKRISHNA	Advaita Ashrama, Kalkatta	100.00	–
0000 A	6165	Ramakrishna: A Biography in Pictures [HB]	SRI RAMAKRISHNA	Advaita Ashrama, Kalkatta	150.00	–
0000 A	6166	Ramakrishna: Life and Sayings (Max Muller)	SRI RAMAKRISHNA	Advaita Ashrama, Kalkatta	50.00	–
0000 A	6167	Ramakrishna and His Unique Message	SRI RAMAKRISHNA	Advaita Ashrama, Kalkatta	30.00	–
0000 A	6168	Short Life of Ramakrishna	SRI RAMAKRISHNA	Advaita Ashrama, Kalkatta	20.00	–
0000 A	6169	My Master	SRI RAMAKRISHNA	Advaita Ashrama, Kalkatta	12.00	–
0000 A	6170	Teachings of Ramakrishna	SRI RAMAKRISHNA	Advaita Ashrama, Kalkatta	45.00	–
0000 A	6171	Ramakrishna: Great Prophet of Harmony [HB]	SRI RAMAKRISHNA	Advaita Ashrama, Kalkatta	175.00	–
0000 A	6172	Ramakrishna and His Message	SRI RAMAKRISHNA	Advaita Ashrama, Kalkatta	20.00	–
0000 A	6173	Ramakrishna as We Saw Him … … … [HB]	SRI RAMAKRISHNA	Advaita Ashrama, Kalkatta	125.00	–
0000 A	6174	How to Live with God … … … [HB]	SRI RAMAKRISHNA	Advaita Ashrama, Kalkatta	170.00	–
0000 A	6175	More About Ramakrishna	SRI RAMAKRISHNA	Advaita Ashrama, Kalkatta	70.00	–
0000A	6176	Ramakrishna & His Gospel, Vol.1 … [HB]	SRI RAMAKRISHNA	Advaita Ashrama, Kalkatta	125.00	–
0000 A	6177	Ramakrishna & His Gospel, Vol.2 …[HB]	SRI RAMAKRISHNA	Advaita Ashrama, Kalkatta	125.00	–
0000 A	6178	Ramakrishna & His Gospel, Vol.3…[HB] New	SRI RAMAKRISHNA	Advaita Ashrama, Kalkatta	200.00	–
0000 A	6179	Sri Ramakrishna: God of All	SRI RAMAKRISHNA	Advaita Ashrama, Kalkatta	35.00	–
0000 A	6180	The World Sri Ramakrishna Knew	SRI RAMAKRISHNA	Advaita Ashrama, Kalkatta	90.00	–
0000 A	6181	Kamarpukur and Jayrambati	SRI RAMAKRISHNA	Advaita Ashrama, Kalkatta	50.00	–
0000 A	6182	Western Admirers of RK & His Disciples	SRI RAMAKRISHNA	Advaita Ashrama, Kalkatta	350.00	–
0000 A	6183	Approaching Ramakrishna	SRI RAMAKRISHNA	Advaita Ashrama, Kalkatta	130.00	–
0000 A	6184	Companions & Followers of Ramakrishna	SRI RAMAKRISHNA	Advaita Ashrama, Kalkatta	220.00	–
0000 A	6185	The Light Of Modern World	SRI RAMAKRISHNA	Advaita Ashrama, Kalkatta	100.00	–
0000 A	6186	Life Story of Sri Ramakrishna New	SRI RAMAKRISHNA	Advaita Ashrama, Kalkatta	75.00	–

0000 A	6187	Sri Ramakrishna on Himself New	SRI RAMAKRISHNA	Advaita Ashrama, Kalkatta	110.00	–
0000 A	6188	Short Life of Holy Mother	SRI SARADA DEVI	Advaita Ashrama, Kalkatta	15.00	–
0000 A	6189	Sri Sarada Devi: A Biography in Pictures[HB]	SRI SARADA DEVI	Advaita Ashrama, Kalkatta	150.00	–
0000 A	6190	Sarada Devi: The Great Wonder … … [HB]	SRI SARADA DEVI	Advaita Ashrama, Kalkatta	120.00	–
0000 A	6191	In the Company of the Holy Mother	SRI SARADA DEVI	Advaita Ashrama, Kalkatta	65.00	–
0000 A	6192	Sri Sarada Devi: The Mother of All	SRI SARADA DEVI	Advaita Ashrama, Kalkatta	20.00	–
0000 A	6193	The Compassionate Mother	SRI SARADA DEVI	Advaita Ashrama, Kalkatta	100.00	–
0000 A	6194	Reminiscences of Sarada Devi [HB]	SRI SARADA DEVI	Advaita Ashrama, Kalkatta	80.00	–
0000 A	6195	Great Women of India … … … … … [HB]	SRI SARADA DEVI	Advaita Ashrama, Kalkatta	250.00	–
0000 A	6196	Vedanta and Holy Mother New	SRI SARADA DEVI	Advaita Ashrama, Kalkatta	80.00	–
0000 A	6197	Life of Sw. Vivekananda by his Eastern & Western Disciples Vol. 1	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	210.00	–
0000 A	6198	Life of Sw. Vivekananda by his Eastern & Western Disciples Vol. 2	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	220.00	–
0000 A	6199	Short Life of Swami Vivekananda	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	18.00	–
0000 A	6200	Life of Vivekananda (by R.Rolland) … [HB]	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	110.00	–
0000 A	6201	Vivekananda: A Biography (Nikhilananda)	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	80.00	–
0000 A	6202	Vivekananda: A Biography in Pictures [HB]	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	155.00	–
0000 A	6203	Swami Vivekananda on Himself	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	125.00	–
0000 A	6204	Complete Works of Vivekananda Set [PB]	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	1100.00	–
0000A	6205	Complete Works of Vivekananda [PB] Vol 1	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	130.00	–
0000 A	6206	Complete Works of Vivekananda [PB] Vol 2	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	130.00	–
0000 A	6207	Complete Works of Vivekananda [PB] Vol 3	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	130.00	–
0000 A	6208	Complete Works of Vivekananda [PB] Vol 4	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	130.00	–
0000 A	6209	Complete Works of Vivekananda [PB] Vol 5	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	130.00	–
0000 A	6210	Complete Works of Vivekananda [PB] Vol 6	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	130.00	–
0000 A	6211	Complete Works of Vivekananda [PB] Vol 7	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	130.00	–
0000 A	6212	Complete Works of Vivekananda [PB] Vol 8	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	130.00	–
0000 A	6213	Complete Works of Vivekananda [PB] Vol 9	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	130.00	–
0000 A	6214	Complete Works of Vivekananda Set [HB]	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	1300.00	–
0000 A	6215	Complete Works of Vivekananda [HB] Vol 1	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	150.00	–
0000 A	6216	Complete Works of Vivekananda [HB] Vol 2	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	150.00	–
0000 A	6217	Complete Works of Vivekananda [HB] Vol 3	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	150.00	–
0000 A	6218	Complete Works of Vivekananda [HB] Vol 4	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	150.00	–
0000 A	6219	Complete Works of Vivekananda [HB] Vol 5	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	150.00	–

0000 A	6220	Complete Works of Vivekananda [HB] Vol 6	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	150.00	–
0000 A	6221	Complete Works of Vivekananda [HB] Vol 7	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	150.00	–
0000 A	6222	Complete Works of Vivekananda [HB] Vol 8	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	150.00	–
0000 A	6223	Complete Works of Vivekananda [HB] Vol 9	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	150.00	–
0000 A	6224	Selections from the Complete Works of Sw. Vivekananda [HB]	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	175.00	–
0000 A	6225	Vivekananda: Man and His Message	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	40.00	–
0000 A	6226	Vivekananda: The Great Spiritual Teacher[HB]	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	150.00	–
0000 A	6227	Vivekananda—A Historical Review … [HB]	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	80.00	–
0000 A	6228	Living at the Source	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	55.00	–
0000 A	6229	Vedanta: Voice of Freedom	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	120.00	–
0000 A	6230	Raja Yoga	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	45.00	–
0000 A	6231	Karma Yoga	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	22.00	–
0000 A	6232	Bhakti Yoga	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	20.00	–
0000 A	6233	Jnana Yoga	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	60.00	–
0000A	6234	Lectures from Colombo to Almora … [HB]	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	110.00	–
0000 A	6235	Letters of Swami Vivekananda … … … [HB]	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	145.00	–
0000 A	6236	What Religion Is	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	70.00	–
0000 A	6237	Teachings of Swami Vivekananda	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	50.00	–
0000 A	6238	Reminiscences of Vivekananda … … [HB]	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	130.00	–
0000 A	6239	Talks with Swami Vivekananda	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	70.00	–
0000 A	6240	Vivekananda in the West: New Discoveries (Set)	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	1200.00	–
0000 A	6241	Vivekananda in the West: New Discoveries Vol 1	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	220.00	–
0000 A	6242	Vivekananda in the West: New Discoveries Vol 2	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	200.00	–
0000 A	6243	Vivekananda in the West: New Discoveries Vol 3	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	150.00	–
0000 A	6244	Vivekananda in the West: New Discoveries Vol 4	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	230.00	–
0000 A	6245	Vivekananda in the West: New Discoveries Vol 5	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	200.00	–
0000 A	6246	Vivekananda in the West: New Discoveries Vol 6	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	200.00	–
0000 A	6247	Swami Vivekananda in Chicago [HB]	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	110.00	–
0000 A	6248	Vivekananda in America: New Findings	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	325.00	–
0000 A	6249	Swamiji and His Message	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	12.00	–
0000 A	6250	Advaita Vedanta	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	11.00	–
0000 A	6251	Practical Vedanta	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	20.00	–
0000 A	6252	Meditation and Its Methods	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	22.00	–
0000 A	6253	Thoughts on the Gita	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	13.00	–

0000 A	6254	In Search of God and Other Poems	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	25.00	–
0000 A	6255	To the Youth of India	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	35.00	–
0000 A	6256	Vivekananda on India and Her Problems	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	22.00	–
0000 A	6257	Caste, Culture and Socialism	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	20.00	–
0000 A	6258	The East and the West	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	25.00	–
0000 A	6259	Memoirs of European Travel	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	30.00	–
0000 A	6260	Four Yogas of Vivekananda (Condensed)	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	75.00	–
0000 A	6261	Philosophical and Religious Lectures of Sw. Vivekananda	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	50.00	–
0000 A	6262	Nationalistic and Religious Lectures of Sw. Vivekananda	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	32.00	–
0000A	6263	State, Society and Socialism	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	25.00	–
0000 A	6264	Six Lessons on Raja Yoga	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	7.00	–
0000 A	6265	Realisation and Its Methods	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	30.00	–
0000 A	6266	Religion of Love	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	24.00	–
0000 A	6267	Buddha and His Message	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	20.00	–
0000 A	6268	A Study of Religion	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	30.00	–
0000 A	6269	Science and Philosophy of Religion	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	35.00	–
0000 A	6270	Thoughts on Vedanta	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	18.00	–
0000 A	6271	Vedanta Philosophy	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	18.00	–
0000 A	6272	India	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	22.00	–
0000 A	6273	Salvation and Service	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	25.00	–
0000 A	6274	Universal Ethics and Moral Conduct	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	25.00	–
0000 A	6275	Monastic Disciples of Vivekananda … [HB]	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	100.00	–
0000 A	6276	My Idea of Education	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	45.00	–
0000 A	6277	Vivekananda a Born Leader	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	85.00	–
0000 A	6278	Vivekananda's Contribution to present age	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	100.00	–
0000 A	6279	Vivekananda's Devotion to His Mother	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	20.00	–
0000 A	6280	Vivekananda Leader of Sacred Nationhood	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	85.00	–
0000 A	6281	Vivekananda in Europe	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	100.00	–
0000 A	6282	Vivekananda as the Turning Point	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	300.00	–
0000 A	6283	Empowering the Youth: Swami Vivekananda Way	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	30.00	–
0000 A	6284	Swami Vivekananda in Pictures	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	35.00	–
0000 A	6285	Vivekananda Tells Stories	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	70.00	–
0000 A	6286	A Study of Mundaka Upanishad	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	22.00	–
0000 A	6287	Gita as viewed by Swami Vivekananda	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	50.00	–

0000 A	6288	Quiz on Vivekananda	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	38.00	–
0000 A	6289	A Bouquet of Swami Vivekananda's writings	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	600.00	–
0000 A	6290	The Way to Women's Freedom	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	30.00	–
0000 A	6291	The Ships of Swami Vivekananda	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	55.00	–
0000A	6292	The Universal Vivekananda	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	115.00	–
0000 A	6293	Approaches to Human Development New	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	100.00	–
0000 A	6294	Vivekananda in England & Continental Europe New	SWAMI VIVEKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	250.00	–
0000 A	6295	The Disciples of Sri Ramakrishna	DISCIPLES OF SRI RAMAKRISHNA	Advaita Ashrama, Kalkatta	150.00	–
0000 A	6296	Memories of a Loving Soul: Sw. Premananda (Teachings & Reminiscences)	DISCIPLES OF SRI RAMAKRISHNA	Advaita Ashrama, Kalkatta	40.00	–
0000 A	6297	Swami Premananda: Love Incarnate	DISCIPLES OF SRI RAMAKRISHNA	Advaita Ashrama, Kalkatta	60.00	–
0000 A	6298	Spiritual Talks : By the First Disciples of Sri Ramakrishna	DISCIPLES OF SRI RAMAKRISHNA	Advaita Ashrama, Kalkatta	60.00	–
0000 A	6299	They Lived with God	DISCIPLES OF SRI RAMAKRISHNA	Advaita Ashrama, Kalkatta	160.00	–
0000 A	6300	God Lived with Them	DISCIPLES OF SRI RAMAKRISHNA	Advaita Ashrama, Kalkatta	200.00	–
0000 A	6301	Swami Akhandananda	DISCIPLES OF SRI RAMAKRISHNA	Advaita Ashrama, Kalkatta	100.00	–
0000 A	6302	Swami Akhandananda as We Saw Him [HB]	DISCIPLES OF SRI RAMAKRISHNA	Advaita Ashrama, Kalkatta	60.00	–
0000 A	6303	Spiritual Treasures: Letters of Swami Turiyananda … … [HB]	DISCIPLES OF SRI RAMAKRISHNA	Advaita Ashrama, Kalkatta	65.00	–
0000 A	6304	Letters for Spiritual Seekers: Letters of Swami Shivananda	DISCIPLES OF SRI RAMAKRISHNA	Advaita Ashrama, Kalkatta	65.00	–
0000 A	6305	Swami Trigunatita: His Life & Work … [HB]	DISCIPLES OF SRI RAMAKRISHNA	Advaita Ashrama, Kalkatta	150.00	–
0000 A	6306	Mahapurush Maharaj as We Saw Him [HB]	DISCIPLES OF SRI RAMAKRISHNA	Advaita Ashrama, Kalkatta	150.00	–
0000 A	6307	How a Shepherd Became a Saint —Life of Sw. Adbhutananda	DISCIPLES OF SRI RAMAKRISHNA	Advaita Ashrama, Kalkatta	65.00	–
0000 A	6308	What the Disciples Said About It —Teachings of Disciples of Ramakrishna	DISCIPLES OF SRI RAMAKRISHNA	Advaita Ashrama, Kalkatta	300.00	–
0000 A	6309	Precepts for Perfection	DISCIPLES OF SRI RAMAKRISHNA	Advaita Ashrama, Kalkatta	65.00	–
0000 A	6310	Girish Chandra Ghosh	DISCIPLES OF SRI RAMAKRISHNA	Advaita Ashrama, Kalkatta	160.00	–
0000 A	6311	Sri Mahendra Nath Gupta	DISCIPLES OF SRI RAMAKRISHNA	Advaita Ashrama, Kalkatta	200.00	–
0000 A	6312	A Guide to Spiritual Life - Teachings of Swami Brahmananda New	DISCIPLES OF SRI RAMAKRISHNA	Advaita Ashrama, Kalkatta	100.00	–
0000 A	6313	Bhagavad Gita (Swarupananda) … … [HB]	SCRIPTURES	Advaita Ashrama, Kalkatta	100.00	–
0000 A	6314	Brahma Sutras: According to Shankara [HB]	SCRIPTURES	Advaita Ashrama, Kalkatta	145.00	–
0000 A	6315	Brahma Sutras: According to Ramanuja [HB]	SCRIPTURES	Advaita Ashrama, Kalkatta	130.00	–
0000 A	6316	Aparokshanubhuti	SCRIPTURES	Advaita Ashrama, Kalkatta	30.00	–
0000 A	6317	Panchikaranam	SCRIPTURES	Advaita Ashrama, Kalkatta	30.00	–
0000 A	6318	Laghu Vakya Vritti	SCRIPTURES	Advaita Ashrama, Kalkatta	20.00	–
0000 A	6319	Avadhuta Gita	SCRIPTURES	Advaita Ashrama, Kalkatta	45.00	–

0000 A	6320	Shruti Gita	SCRIPTURES	Advaita Ashrama, Kalkatta	50.00	–
0000A	6321	Siva Mahimnah Stotram	SCRIPTURES	Advaita Ashrama, Kalkatta	12.00	–
0000 A	6322	Hymns & Prayers to Gods & Goddesses	SCRIPTURES	Advaita Ashrama, Kalkatta	55.00	–
0000 A	6323	Kapilopadesha	SCRIPTURES	Advaita Ashrama, Kalkatta	50.00	–
0000 A	6324	Vedartha Sangraha … … … … … … … [HB]	SCRIPTURES	Advaita Ashrama, Kalkatta	55.00	–
0000 A	6325	Rama Gita	SCRIPTURES	Advaita Ashrama, Kalkatta	18.00	–
0000 A	6326	Ramanuja on the Gita	SCRIPTURES	Advaita Ashrama, Kalkatta	65.00	–
0000 A	6327	Jivan-Mukti-Viveka … … … … … … [HB]	SCRIPTURES	Advaita Ashrama, Kalkatta	105.00	–
0000 A	6328	Narada Bhakti Sutras … … … … … … [HB]	SCRIPTURES	Advaita Ashrama, Kalkatta	50.00	–
0000 A	6329	Sannyasa Upanishad … … … … … … [HB]	SCRIPTURES	Advaita Ashrama, Kalkatta	70.00	–
0000 A	6330	Srimad Bhagavata (Swami Gitananda) … [HB] New	SCRIPTURES	Advaita Ashrama, Kalkatta	300.00	–
0000 A	6331	Bhagavad Gita (Madhusudana Sarasvati) [HB]	SWAMI GAMBHIRANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	300.00	–
0000 A	6332	Bhagavad Gita with Shankara's … …	SWAMI GAMBHIRANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	200.00	–
0000 A	6333	Chandogya Upanishad (Shankara) … [HB]	SWAMI GAMBHIRANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	205.00	–
0000 A	6334	Svetasvatara Upanishad (Shankara)	SWAMI GAMBHIRANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	50.00	–
0000 A	6335	Brahma Sutra Bhashya (Shankara) … [HB]	SWAMI GAMBHIRANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	260.00	–
0000 A	6336	Eight Upanishads (Set of 2 vols.) … … [HB]	SWAMI GAMBHIRANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	230.00	–
0000 A	6337	Eight Upanishads Set [HB] Vol 1	SWAMI GAMBHIRANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	110.00	–
0000 A	6338	Eight Upanishads Set [HB] Vol 2	SWAMI GAMBHIRANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	120.00	–
0000 A	6339	Isha Upanishad	SWAMI GAMBHIRANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	20.00	–
0000 A	6340	Kena Upanishad	SWAMI GAMBHIRANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	15.00	–
0000 A	6341	Katha Upanishad	SWAMI GAMBHIRANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	30.00	–
0000 A	6342	Mundaka Upanishad	SWAMI GAMBHIRANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	18.00	–
0000 A	6343	Mandukya Upanishad	SWAMI GAMBHIRANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	60.00	–
0000 A	6344	Prashna Upanishad	SWAMI GAMBHIRANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	30.00	–
0000 A	6345	Aitareya Upanishad	SWAMI GAMBHIRANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	22.00	–
0000 A	6346	Taittiriya Upanishad	SWAMI GAMBHIRANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	50.00	–
0000 A	6347	Brihadaranyaka Upanishad (Shankara) [HB]	SWAMI MADHAVANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	200.00	–
0000 A	6348	Minor Upanishads	SWAMI MADHAVANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	15.00	–
0000 A	6349	Vivekachudamani	SWAMI MADHAVANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	45.00	–
0000A	6350	Bhasha Pariccheda … … … … … … [HB]	SWAMI MADHAVANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	70.00	–
0000 A	6351	Vedanta Paribhasha	SWAMI MADHAVANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	55.00	–
0000 A	6352	Mimamsa Paribhasha	SWAMI MADHAVANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	30.00	–
0000 A	6353	Uddhava Gita	SWAMI MADHAVANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	95.00	–

0000 A	6354	Vairagya Shatakam	SWAMI MADHAVANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	18.00	–
0000 A	6355	The Bhagavad Gita	SWAMI NIKHILANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	130.00	–
0000 A	6356	The Bhagavad Gita (Pocket Edition)	SWAMI NIKHILANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	50.00	–
0000 A	6357	The Upanishads Vol.1 Katha, Isa, Kena & Mundaka	SWAMI NIKHILANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	100.00	–
0000 A	6358	The Upanishads Vol.2 Svetasvatara, Prasna & Mandukya	SWAMI NIKHILANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	150.00	–
0000 A	6359	The Upanishads Vol.3 Aitareya & Brihadaranyaka	SWAMI NIKHILANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	155.00	–
0000 A	6360	The Upanishads Vol.4 Taittiriya & Chandogya	SWAMI NIKHILANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	160.00	–
0000 A	6361	The Upanishads: Abridged Edition	SWAMI NIKHILANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	110.00	–
0000 A	6362	Mandukya Upanishad with Karika	SWAMI NIKHILANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	80.00	–
0000 A	6363	Vedantasara	SWAMI NIKHILANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	30.00	–
0000 A	6364	Drig Drishya Viveka	SWAMI NIKHILANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	25.00	–
0000 A	6365	Ashtavakra Samhita	SWAMI NIKHILANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	45.00	–
0000 A	6366	Mind and Its Control	SPIRITUAL LIFE	Advaita Ashrama, Kalkatta	20.00	–
0000 A	6367	Personality Development	SPIRITUAL LIFE	Advaita Ashrama, Kalkatta	20.00	–
0000 A	6368	Will-Power and Its Development	SPIRITUAL LIFE	Advaita Ashrama, Kalkatta	8.00	–
0000 A	6369	How to Build Character	SPIRITUAL LIFE	Advaita Ashrama, Kalkatta	10.00	–
0000 A	6370	Common Sense About Yoga	SPIRITUAL LIFE	Advaita Ashrama, Kalkatta	14.00	–
0000 A	6371	Meditation & Other Spiritual Disciplines	SPIRITUAL LIFE	Advaita Ashrama, Kalkatta	35.00	–
0000 A	6372	In the Hours of Meditation	SPIRITUAL LIFE	Advaita Ashrama, Kalkatta	20.00	–
0000 A	6373	Towards the Goal Supreme	SPIRITUAL LIFE	Advaita Ashrama, Kalkatta	60.00	–
0000 A	6374	Modern Man in Search of Religion	SPIRITUAL LIFE	Advaita Ashrama, Kalkatta	12.00	–
0000 A	6375	For Seekers of God	SPIRITUAL LIFE	Advaita Ashrama, Kalkatta	95.00	–
0000 A	6376	Spiritual Ideals for Modern Age	SPIRITUAL LIFE	Advaita Ashrama, Kalkatta	12.00	–
0000 A	6377	Thoughts on Spiritual Life	SPIRITUAL LIFE	Advaita Ashrama, Kalkatta	35.00	–
0000 A	6378	Strive to Attain God … … … … … … [HB]	SPIRITUAL LIFE	Advaita Ashrama, Kalkatta	65.00	–
0000A	6379	Religion and Its Practice	SPIRITUAL LIFE	Advaita Ashrama, Kalkatta	30.00	–
0000 A	6380	Seeing God Everywhere	SPIRITUAL LIFE	Advaita Ashrama, Kalkatta	85.00	–
0000 A	6381	Meditation and Its Preparation	SPIRITUAL LIFE	Advaita Ashrama, Kalkatta	30.00	–
0000 A	6382	Meditation and Its Practices … … … [HB]	SPIRITUAL LIFE	Advaita Ashrama, Kalkatta	190.00	–
0000 A	6383	Meditation and Spiritual Life	SPIRITUAL LIFE	Advaita Ashrama, Kalkatta	200.00	–
0000 A	6384	Meditation according to Yoga Vedanta	SPIRITUAL LIFE	Advaita Ashrama, Kalkatta	45.00	–
0000 A	6385	Relief of Tension, Depression, Anxiety.	SPIRITUAL LIFE	Advaita Ashrama, Kalkatta	70.00	–
0000 A	6386	Meditation as Spiritual Culmination (Set)	SPIRITUAL LIFE	Advaita Ashrama, Kalkatta	840.00	–
0000 A	6387	Effective Life Management	SPIRITUAL LIFE	Advaita Ashrama, Kalkatta	40.00	–

0000 A	6388	Realizing God	SPIRITUAL LIFE	Advaita Ashrama, Kalkatta	140.00	–
0000 A	6389	Healthy Values of Living	SPIRITUAL LIFE	Advaita Ashrama, Kalkatta	45.00	–
0000 A	6390	Self Development	SPIRITUAL LIFE	Advaita Ashrama, Kalkatta	12.00	–
0000 A	6391	Fear Not, Be Strong New	SPIRITUAL LIFE	Advaita Ashrama, Kalkatta	20.00	–
0000 A	6392	Goodbye to Negativity New	SPIRITUAL LIFE	Advaita Ashrama, Kalkatta	65.00	–
0000 A	6393	Cradle Tales of Hinduism	SISTER NIVEDITA	Advaita Ashrama, Kalkatta	60.00	–
0000 A	6394	Kali the Mother	SISTER NIVEDITA	Advaita Ashrama, Kalkatta	18.00	–
0000 A	6395	Footfalls of Indian History	SISTER NIVEDITA	Advaita Ashrama, Kalkatta	60.00	–
0000 A	6396	Complete Works of Sister Nivedita(Set)[HB]	SISTER NIVEDITA	Advaita Ashrama, Kalkatta	785.00	–
0000 A	6397	Complete Works of Sister Nivedita(Set)[HB] Vol 1	SISTER NIVEDITA	Advaita Ashrama, Kalkatta	125.00	–
0000 A	6398	Complete Works of Sister Nivedita(Set)[HB] Vol 2	SISTER NIVEDITA	Advaita Ashrama, Kalkatta	165.00	–
0000 A	6399	Complete Works of Sister Nivedita(Set)[HB] Vol 3	SISTER NIVEDITA	Advaita Ashrama, Kalkatta	200.00	–
0000 A	6400	Complete Works of Sister Nivedita(Set)[HB] Vol 4	SISTER NIVEDITA	Advaita Ashrama, Kalkatta	150.00	–
0000 A	6401	Complete Works of Sister Nivedita(Set)[HB] Vol 5	SISTER NIVEDITA	Advaita Ashrama, Kalkatta	145.00	
0000 A	6402	Religion and Dharma	SISTER NIVEDITA	Advaita Ashrama, Kalkatta	45.00	
0000 A	6403	The Web of Indian Life	SISTER NIVEDITA	Advaita Ashrama, Kalkatta	80.00	
0000A	6404	Myths & Legends of Hindus & Buddhists [HB]	SISTER NIVEDITA	Advaita Ashrama, Kalkatta	160.00	
0000 A	6405	Universal Message of the Bhagavad Gita[HB]	SWAMI RANGANATHANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	450.00	
0000 A	6406	Universal Message of the Bhagavad Gita[HB] Vol 1	SWAMI RANGANATHANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	160.00	
0000 A	6407	Universal Message of the Bhagavad Gita[HB] Vol 2	SWAMI RANGANATHANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	170.00	
0000 A	6408	Universal Message of the Bhagavad Gita[HB] Vol 3	SWAMI RANGANATHANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	120.00	
0000 A	6409	Science and Religion	SWAMI RANGANATHANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	50.00	
0000 A	6410	Vedanta and Future of Mankind	SWAMI RANGANATHANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	15.00	
0000 A	6411	Vivekananda and Human Excellence	SWAMI RANGANATHANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	15.00	
0000 A	6412	Swami Vivekananda: His Humanism	SWAMI RANGANATHANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	16.00	
0000 A	6413	The Essence of Indian Culture	SWAMI RANGANATHANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	16.00	
0000 A	6414	Bhagavan Buddha and Our Heritage	SWAMI RANGANATHANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	12.00	
0000 A	6415	Spiritual Life of Indian People	SWAMI RANGANATHANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	7.00	
0000 A	6416	The Christ We Adore	SWAMI RANGANATHANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	12.00	
0000 A	6417	Indian Vision of God as Mother	SWAMI RANGANATHANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	12.00	
0000 A	6418	Approach to Truth in Vedanta	SWAMI RANGANATHANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	15.00	
0000 A	6419	Practical Vedanta & the Science of Values	SWAMI RANGANATHANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	52.00	
0000 A	6420	Question & Answer Session in Chicago	SWAMI RANGANATHANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	22.00	
0000 A	6421	Philosophy of Service	SWAMI RANGANATHANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	35.00	

0000 A	6422	Enlightened Citizenship & Our Democracy	SWAMI RANGANATHANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	28.00	
0000 A	6423	Philosophy of Democratic Administration	SWAMI RANGANATHANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	18.00	
0000 A	6424	Second USA and Canada Lecture Tour	SWAMI RANGANATHANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	100.00	
0000 A	6425	Spiritual Life of the Householder	SWAMI RANGANATHANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	25.00	
0000 A	6426	Charm and the Power of the Upanishads	SWAMI RANGANATHANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	22.00	
0000 A	6427	Charm and the Power of the Gita	SWAMI RANGANATHANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	35.00	
0000 A	6428	The Central Theme of the Bhagavatam	SWAMI RANGANATHANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	22.00	
0000 A	6429	The Message of Brihadaranyaka Upanishad	SWAMI RANGANATHANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	150.00	
0000 A	6430	Universal Symphony of Vivekananda	SWAMI RANGANATHANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	80.00	
0000 A	6431	The Message of the Vivekachudamani	SWAMI RANGANATHANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	180.00	
0000 A	6432	Vivekananda & the Erasing of the Dividing Line	SWAMI RANGANATHANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	12.00	
0000A	6433	Shankaracharya and an Untouchable	SWAMI RANGANATHANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	20.00	
0000 A	6434	Monk Without Frontiers: Reminiscences of Swami Ranganathananda	SWAMI RANGANATHANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	400.00	
0000 A	6435	Swami Ranganathananda Birth Centenary	SWAMI RANGANATHANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	50.00	
0000 A	6436	Meditation, Ecstasy and Illumination	SWAMI ASHOKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	70.00	
0000 A	6437	Spiritual Practice	SWAMI ASHOKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	25.00	
0000 A	6438	When the Many Become One	SWAMI ASHOKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	20.00	
0000 A	6439	Spiritualising Everyday Life	SWAMI ASHOKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	24.00	
0000 A	6440	The Soul's Journey to Its Destiny	SWAMI ASHOKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	70.00	
0000 A	6441	A Call to the Eternal [HB]	SWAMI ASHOKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	65.00	
0000 A	6442	Ascent to Spiritual Illumination [HB]	SWAMI ASHOKANANDA	Advaita Ashrama, Kalkatta	50.00	
0000 A	6443	How Is a Man Reborn?		Advaita Ashrama, Kalkatta		
0000 A	6444	Can One be Scientific and Yet Spiritual?		Advaita Ashrama, Kalkatta		
0000 A	6445	Methods of Knowledge		Advaita Ashrama, Kalkatta		
0000 A	6446	Ramakrishna Movement		Advaita Ashrama, Kalkatta		
0000 A	6447	My Faithful Goodwin		Advaita Ashrama, Kalkatta		
0000 A	6448	With the Swamis in America and India		Advaita Ashrama, Kalkatta		
0000 A	6449	Arati Songs of Ramakrishna Order		Advaita Ashrama, Kalkatta		
0000 A	6450	Art, Culture and Spirituality … … … [HB]		Advaita Ashrama, Kalkatta		
0000 A	6451	Evolution of Mother Worship in India		Advaita Ashrama, Kalkatta		
0000 A	6452	You will be a Paramahamsa		Advaita Ashrama, Kalkatta		
0000 A	6453	Eminent Indian Women		Advaita Ashrama, Kalkatta		
0000 A	6454	Light from the Orient … … … … … [HB]		Advaita Ashrama, Kalkatta		
0000 A	6455	Journey of Upanishads to the West … [HB]		Advaita Ashrama, Kalkatta		

0000 A	6456	Sri Krishna Yoga		Advaita Ashrama, Kalkatta		
0000 A	6457	Life and Philosophy of Shankaracharya		Advaita Ashrama, Kalkatta		
0000A	6458	Story of Ramakrishna Mission		Advaita Ashrama, Kalkatta		
0000 A	6459	An Introduction to Hindu Culture		Advaita Ashrama, Kalkatta		
0000 A	6460	Ramakrishna's Physician Dr. Sarkar		Advaita Ashrama, Kalkatta		
0000 A	6461	Along: Half a Decade in Enchanting Environs		Advaita Ashrama, Kalkatta		
0000 A	6462	Charm of Mayavati Ashrama		Advaita Ashrama, Kalkatta		
0000 A	6463	Vedanta for the Common Man		Advaita Ashrama, Kalkatta		
0000 A	6464	The World Parliament of Religions 1893		Advaita Ashrama, Kalkatta		
0000 A	6465	Vedanta a Simple Introduction		Advaita Ashrama, Kalkatta		
0000 A	6466	Ancient Sages		Advaita Ashrama, Kalkatta		
0000 A	6467	Vedanta Sadhana & Shakti Puja		Advaita Ashrama, Kalkatta		
0000 A	6468	The Glory of Monastic Life		Advaita Ashrama, Kalkatta		
0000 A	6469	Religious Behaviour & Spiritual Experience New		Advaita Ashrama, Kalkatta		
0000 A	6470	Images of Divinity New		Advaita Ashrama, Kalkatta		
0000 A	6471	Mother of Mayavati New		Advaita Ashrama, Kalkatta		
0000 A	6472	The Quintessence of Vedanta		Advaita Ashrama, Kalkatta		
0000 A	6473	Upanishadic Stories and their Significance		Advaita Ashrama, Kalkatta		
0000 A	6474	Hinduism the Eternal Dharma … … … [HB]		Advaita Ashrama, Kalkatta		
0000 A	6475	Meditation on Vivekananda … … … [HB]		Advaita Ashrama, Kalkatta		
0000 A	6476	Basic Ideas of Hinduism and how it is trans		Advaita Ashrama, Kalkatta		
0000 A	6477	Glimpses of Great Lives		Advaita Ashrama, Kalkatta		
0000 A	6478	Albert Einstein and His Human Side		Advaita Ashrama, Kalkatta		
0000 A	6479	Celebrating Ramakrishna: Essays for 175th Birth Anniversary		Advaita Ashrama, Kalkatta		
0000 A	6480	Celebrating Vivekananda: Essays for 150th Birth Anniversary		Advaita Ashrama, Kalkatta		
0000 A	6481	Sri Ramakrishna and His Divine Play (Indian Print) New		Advaita Ashrama, Kalkatta		
0000 A	6482	Tales from Ramakrishna		Advaita Ashrama, Kalkatta	30.00	
0000 A	6483	Story of Ramakrishna		Advaita Ashrama, Kalkatta	28.00	
0000 A	6484	Story of Sarada Devi		Advaita Ashrama, Kalkatta	22.00	
0000 A	6485	Story of Vivekananda		Advaita Ashrama, Kalkatta	38.00	
0000 A	6486	Tales from Vivekananda		Advaita Ashrama, Kalkatta	20.00	
0000A	6487	Simple Life of Swami Vivekananda		Advaita Ashrama, Kalkatta	25.00	
0000 A	6488	Stories for Children		Advaita Ashrama, Kalkatta	20.00	
0000 A	6489	Vedantic Tales		Advaita Ashrama, Kalkatta	30.00	

0000 A	6490	Pictorial Parables of Ramakrishna		Advaita Ashrama, Kalkatta	35.00	
0000 A	6491	Hari the Lion		Advaita Ashrama, Kalkatta	22.00	
0000 A	6492	Stories from Vedanta		Advaita Ashrama, Kalkatta	25.00	
0000 A	6493	Vivekananda's Childhood		Advaita Ashrama, Kalkatta	25.00	
0000 A	6494	Story of Mira's Love		Advaita Ashrama, Kalkatta	20.00	
0000 A	6495	Ramprasad: Melodious Mystic		Advaita Ashrama, Kalkatta	20.00	
0000 A	6496	Stories from Bhagavatam		Advaita Ashrama, Kalkatta	50.00	
0000 A	6497	Message of Ramakrishna		Advaita Ashrama, Kalkatta	6.00	
0000 A	6498	Message of Holy Mother		Advaita Ashrama, Kalkatta	6.00	
0000 A	6499	Message of Vivekananda		Advaita Ashrama, Kalkatta	6.00	
0000 A	6500	Ramakrishna & Vivekananda (Nehru)		Advaita Ashrama, Kalkatta	7.00	
0000 A	6501	Chicago Addresses		Advaita Ashrama, Kalkatta	12.00	
0000 A	6502	My Life and Mission		Advaita Ashrama, Kalkatta	10.00	
0000 A	6503	Essentials of Hinduism		Advaita Ashrama, Kalkatta	12.00	
0000 A	6504	In Defence of Hinduism		Advaita Ashrama, Kalkatta	10.00	
0000 A	6505	Bhakti or Devotion		Advaita Ashrama, Kalkatta	10.00	
0000 A	6506	Thoughts of Power		Advaita Ashrama, Kalkatta	7.00	
0000 A	6507	Sadhanas or Preparations for Higher Life		Advaita Ashrama, Kalkatta	10.00	
0000 A	6508	Modern India		Advaita Ashrama, Kalkatta	12.00	
0000 A	6509	Work and Its Secret		Advaita Ashrama, Kalkatta	8.00	
0000 A	6510	Powers of the Mind		Advaita Ashrama, Kalkatta	7.00	
0000 A	6511	Is Vedanta the Future Religion?		Advaita Ashrama, Kalkatta	8.00	
0000 A	6512	Life After Death		Advaita Ashrama, Kalkatta	10.00	
0000 A	6513	Our Women		Advaita Ashrama, Kalkatta	12.00	
0000 A	6514	Christ the Messenger		Advaita Ashrama, Kalkatta	12.00	
0000 A	6515	Practice of Religion New		Advaita Ashrama, Kalkatta	8.00	
0000 A	6516	Mayavati Advaita Ashrama Brochure		Advaita Ashrama, Kalkatta	10.00	
0000 A	6517	AITAREYOPANISHAD	SWAMI CHINMAYANANDA	Chinmay Mission	45.00	
0000 A	6518	ATMA BODH	SWAMI CHINMAYANANDA	Chinmay Mission	70.00	
0000 A	6519	ATMA VIKAS KI NIRDESHIKA	SWAMI CHINMAYANANDA	Chinmay Mission	70.00	
0000 A	6520	AVASHYA KAREN	SWAMI CHINMAYANANDA	Chinmay Mission	60.00	
0000 A	6521	ADVAITA MAKARANDA	SWAMI TEJOMAYANANDA	Chinmay Mission	45.00	
0000 A	6522	ATMA CHINTAN KI KALA	SWAMI TEJOMAYANANDA	Chinmay Mission	20.00	
0000 A	6523	APNI KSHAMATA PEHACHANO	SWAMI CHINMAYANANDA	Chinmay Mission	75.00	

0000 A	6524	AMRIT BINDU UPANISHAD	SWAMI SHANKARANANDA	Chinmay Mission	55.00	
0000 A	6525	APARKOSHANUBHUTI	SWAMI CHINMAYANANDA	Chinmay Mission	35.00	
0000 A	6526	ANTARYATRA	SWAMI SHANKARANANDA	Chinmay Mission	60.00	
0000A	6527	BALA GEETA	SWAMI CHINMAYANANDA	Chinmay Mission	52.00	
0000 A	6528	BHAJA GOVINDAM	SWAMI CHINMAYANANDA	Chinmay Mission	65.00	
0000 A	6529	BHAKTI YOGA (GEETA CH.12)		Chinmay Mission	10.00	
0000 A	6530	BHAKTI SUDHA	SWAMI TEJOMAYANANDA	Chinmay Mission	35.00	
0000 A	6531	BHARTIYA SANSKRITI MEIN (IN INDIAN.....)	SWAMINI VIMALANANDA	Chinmay Mission	35.00	
0000 A	6532	BHIKSHU GEETA	SWAMI TEJOMAYANANDA	Chinmay Mission	60.00	
0000 A	6533	CHATUSHLOKI BHAGWAT	SWAMI TEJOMAYANANDA	Chinmay Mission	22.00	
0000 A	6534	CHINMAYA SWAR MALIKA	SWAMINI GITANANDA	Chinmay Mission	35.00	
0000 A	6535	CHINMAYA STOTRANJALI	COMPILATION	Chinmay Mission	20.00	
0000 A	6536	CHANGDEV PASASHTHI	SWAMI PURUSHOTTAMANANDA	Chinmay Mission	60.00	
0000 A	6537	CHINMAYA VIDYALAYA SCHOOL WITH DIFF...	SWAMINI VIMALANANDA	Chinmay Mission	50.00	
0000 A	6538	DHARMA KYA HAI	SWAMI CHINMAYANANDA	Chinmay Mission	40.00	
0000 A	6539	DHYAN AUR JEEVAN	SWAMI CHINMAYANANDA	Chinmay Mission	80.00	
0000 A	6540	DRIG DRISHYA VIVEKA	SWAMI TEJOMAYANANDA	Chinmay Mission	45.00	
0000 A	6541	DHANYASHTAKAM	SWAMI TEJOMAYANANDA	Chinmay Mission	25.00	
0000 A	6542	DHYAN YOGA	SWAMI TEJOMAYANANDA	Chinmay Mission	12.00	
0000 A	6543	DHYANSWAROOPAM	SWAMI TEJOMAYANANDA	Chinmay Mission	30.00	
0000 A	6544	SRI DAKSHINAMOORTHY STOTRAM	SWAMI CHINMAYANANDA	Chinmay Mission	36.00	
0000 A	6545	GOPIKA GEET	SWAMI TEJOMAYANANDA	Chinmay Mission	7.00	
0000 A	6546	GYAN VIGYAN YOGA (GEETA CH.7)	SWAMI CHINMAYANANDA	Chinmay Mission	10.00	
0000 A	6547	GEETA CHAPTER 14/15	SWAMI CHINMAYANANDA	Chinmay Mission	32.00	
0000 A	6548	GEETA CHAPTER 12/13	SWAMI CHINMAYANANDA	Chinmay Mission	35.00	
0000 A	6549	GEETA CHAPTER 16/17	SWAMI CHINMAYANANDA	Chinmay Mission	35.00	
0000 A	6550	GEETA CHAPTER 18	SWAMI CHINMAYANANDA	Chinmay Mission	55.00	
0000 A	6551	GEETA CHAPTER 3/4	SWAMI CHINMAYANANDA	Chinmay Mission	46.00	
0000 A	6552	GEETA CHAPTER 5/6	SWAMI CHINMAYANANDA	Chinmay Mission	32.00	
0000 A	6553	GEETA CHAPTER 7/8	SWAMI CHINMAYANANDA	Chinmay Mission	20.00	
0000 A	6554	GEETA CHAPTER 9/10	SWAMI CHINMAYANANDA	Chinmay Mission	32.00	
0000 A	6555	GEETA CHAPTER 11	SWAMI CHINMAYANANDA	Chinmay Mission	25.00	
0000A	6556	GEETA CHAPTER 1 / 2	SWAMI CHINMAYANANDA	Chinmay Mission	32.00	
0000 A	6557	GEETA PADHO AAGEY BADHO	SWAMI PRASHANTANANDA	Chinmay Mission	80.00	
0000 A	6558	HIMAGIRI VIHAR	SWAMI TAPOVANAM	Chinmay Mission	72.00	
0000 A	6559	HINDU SANSKRITI	SWAMI TEJOMAYANANDA	Chinmay Mission	75.00	

0000 A	6560	SRI HANUMAN CHALISA	SWAMI TEJOMAYANANDA	Chinmay Mission	60.00	
0000 A	6561	HASTAMALAKA STOTRA	SWAMI PURUSHOTTAMANANDA	Chinmay Mission	35.00	
0000 A	6562	HAMSA GEETA	SWAMI TEJOMAYANANDA	Chinmay Mission	60.00	
0000 A	6563	ISAVASYOPANISHAD	SWAMI CHINMAYANANDA	Chinmay Mission	65.00	
0000 A	6564	IK ONKAAR	SWAMI SWAROOPANANDA	Chinmay Mission	80.00	
0000 A	6565	JEEVAN JYOTI	SWAMI CHINMAYANANDA	Chinmay Mission	80.00	
0000 A	6566	JNANASARAH	SWAMI TEJOMAYANANDA	Chinmay Mission	25.00	
0000 A	6567	JARA VIGYAN PRAVESHIKA	SWAMI SHANKARANANDA	Chinmay Mission	50.00	
0000 A	6568	JEEVAN EK KHEL	SWAMI TEJOMAYANANDA	Chinmay Mission	15.00	
0000 A	6569	JARA SWASTHYA VIGYAN	DR. SAJJAN SINGH	Chinmay Mission	65.00	
0000 A	6570	JARAVASTHA MEIN KAISE JIYE	SWAMI SHANKARANANDA	Chinmay Mission	60.00	
0000A	6571	KAIVALYOPANISHAD	SWAMI SHANKARANANDA	Chinmay Mission	50.00	
0000 A	6572	KATHOPANISHAD	SWAMI CHINMAYANANDA	Chinmay Mission	85.00	
0000 A	6573	KARMA YOGA (GEETA CH.3)		Chinmay Mission	10.00	
0000 A	6574	KARMA YOGA SADHANA	SWAMI SHANKARANANDA	Chinmay Mission	22.00	
0000 A	6575	MAA KAH EK KAHANI - 1	COMPILATION	Chinmay Mission	45.00	
0000 A	6576	MANAS GEET SAPTAK	SWAMI SHANKARANANDA	Chinmay Mission	22.00	
0000 A	6577	MANAS KE PRATEEK	SWAMI SHANKARANANDA	Chinmay Mission	20.00	
0000 A	6578	MANAVA NIRMANA KALA	SWAMI CHINMAYANANDA	Chinmay Mission	130.00	
0000 A	6579	MUNDAKOPANISHAD	SWAMI CHINMAYANANDA	Chinmay Mission	50.00	
0000 A	6580	MANI RATNA MALA	SWAMI CHINMAYANANDA	Chinmay Mission	38.00	
0000 A	6581	MAA KAH EK KAHANI - 2	COMPILATION	Chinmay Mission	45.00	
0000 A	6582	MANEESHA PANCHAKAM	SWAMI CHINMAYANANDA	Chinmay Mission	25.00	
0000 A	6583	MANAH SHODHANAM	SWAMI TEJOMAYANANDA	Chinmay Mission	45.00	
0000 A	6584	MANAS BHAKTI SUTRA	SWAMI TEJOMAYANANDA	Chinmay Mission	50.00	
0000 A	6585	MANAS KE MOTI (PART 1)	SWAMI SUBODHANANDA	Chinmay Mission	190.00	
0000 A	6586	MANAS KE MOTI (PART 2)	SWAMI SUBODHANANDA	Chinmay Mission	180.00	
0000 A	6587	MANAS KE MOTI (PART 3)	SWAMI SUBODHANANDA	Chinmay Mission	235.00	
0000 A	6588	MANAS KE MOTI (PART 4)	SWAMI SUBODHANANDA	Chinmay Mission	270.00	
0000 A	6589	MAN KA DAIVIKARAN	SWAMI TEJOMAYANANDA	Chinmay Mission	50.00	
0000 A	6590	NARADA BHAKTI SUTRA	SWAMI CHINMAYANANDA	Chinmay Mission	55.00	
0000 A	6591	NAMAMI BHAKTA VATSALAM	SWAMI SHANKARANANDA	Chinmay Mission	70.00	
0000 A	6592	POORNA PURUSHA		Chinmay Mission	10.00	
0000 A	6593	PRASHNOPANISHAD	SWAMI CHINMAYANANDA	Chinmay Mission	60.00	
0000 A	6594	PRATYAK TATWA VIVEK		Chinmay Mission	8.00	
0000 A	6595	PRIYA LAGAHU MOHI RAM	COMPILATION	Chinmay Mission	35.00	
0000 A	6596	PURUSHSOOKTAM	SWAMI CHINMAYANANDA	Chinmay Mission	30.00	

0000 A	6597	PURUSHOTTAM		Chinmay Mission	10.00	
0000 A	6598	PANCHA MAHABHOOTA VIVEK		Chinmay Mission	12.00	
0000 A	6599	PANCHADASI		Chinmay Mission	35.00	
0000A	6600	PANCHADASI – 1 (VIVEK PRAKARAN)	SWAMI SHANKARANANDA	Chinmay Mission	80.00	
0000 A	6601	PANCHADASI – 2 (DEEP PRAKARAN)	SWAMI SHANKARANANDA	Chinmay Mission	110.00	
0000 A	6602	PANCHADASI – 3 (DEEP PRAKARAN)	SWAMI SHANKARANANDA	Chinmay Mission	70.00	
0000 A	6603	PANCHADASI – 4 (BRAHMANAND PRAKARAN)	SWAMI SHANKARANANDA	Chinmay Mission	90.00	
0000 A	6604	PRANAV BODH	SWAMI SHANKARANANDA	Chinmay Mission	35.00	
0000 A	6605	PARENTING	SWAMI TEJOMAYANANDA	Chinmay Mission	45.00	
0000 A	6606	RACHANA SANGRAHA	SWAMI TEJOMAYANANDA	Chinmay Mission	20.00	
0000 A	6607	RUDRAKSHA BOOKLET	NARAIN BHATIA	Chinmay Mission	15.00	
0000 A	6608	SAT DARSHANAM	SWAMI SHANKARANANDA	Chinmay Mission	36.00	
0000 A	6609	SIVAPARADHAKSHAMAPANA STOTRA	SWAMI CHINMAYANANDA	Chinmay Mission	18.00	
0000 A	6610	BHAGWAT GEETA FULL	SWAMI CHINMAYANANDA	Chinmay Mission	310.00	
0000 A	6611	SRI RAMA GEETA (TULSI RAMAYAN)	SWAMI TEJOMAYANANDA	Chinmay Mission	38.00	
0000 A	6612	SRI SOUMA KASEESHA STOTRAM	SWAMI CHINMAYANANDA	Chinmay Mission	30.00	
0000 A	6613	SRI GANGA STOTRA	SWAMI TAPOVANJI MAHARAJ	Chinmay Mission	10.00	
0000 A	6614	SRI GANGOTRI KSHETRA MAHATMYA	SWAMI TAPOVANJI MAHARAJ	Chinmay Mission	8.00	
0000 A	6615	SRI SULABH VISHNU POOJA	COMPILATON	Chinmay Mission	25.00	
0000 A	6616	SWADHYAY MANDAL	SWAMI SHANKARANANDA	Chinmay Mission	20.00	
0000 A	6617	SRI RAMA GEETA (ADHYATMA RAMAYAN)	SWAMI CHINMAYANANDA	Chinmay Mission	22.00	
0000 A	6618	SANASTSUJATIYA	SWAMI SHANKARANANDA	Chinmay Mission	22.00	
0000 A	6619	SRIMAD BHAGAVAT PRAVACHAN	SWAMI TEJOMAYANANDA	Chinmay Mission	295.00	
0000 A	6620	SRI RAMCHARITMANAS – PART 1 (BALKAND)	SWAMI SHANKARANANDA	Chinmay Mission	270.00	
0000 A	6621	SRI RAMCHARITMANAS – PART 2	SWAMI SHANKARANANDA	Chinmay Mission	225.00	
0000 A	6622	SOCHIYE AUR GUNIYE	SWAMI SAMVIDANANDA	Chinmay Mission	45.00	
0000 A	6623	SRI AVADHUT KE CHOVIS GURU	SWAMI PURUSHOTTAMANANDA	Chinmay Mission	55.00	
0000 A	6624	SANDEEPANY ARADHANA (SMALL) (20%)	COMPILATION	Chinmay Mission	22.00	
0000 A	6625	SRI RAMCHARITMANAS – PART 3	SWAMI SHANKARANANDA	Chinmay Mission	270.00	
0000 A	6626	SANT TUKARAM KE BAARAH ABHANG	SWAMI PURUSHATTAMANANDA	Chinmay Mission	50.00	
0000 A	6627	SADACHAR	SWAMI PURUSHOTTAMANANDA	Chinmay Mission	135.00	
0000 A	6628	TATWA BODH	SWAMI SHANKARANANDA	Chinmay Mission	40.00	
0000A	6629	TAT TWAM ASI (CH.UP)	SWAMI SHANKARANANDA	Chinmay Mission	36.00	
0000 A	6630	TAPOVANANJALI	SWAMI TEJOMAYANANDA	Chinmay Mission	20.00	
0000 A	6631	UPADESA SAR	SWAMI TEJOMAYANANDA	Chinmay Mission	40.00	
0000 A	6632	VIVEKACHOODAMANI PART 1	SWAMI CHINMAYANANDA	Chinmay Mission	180.00	
0000 A	6633	VIVEKACHOODAMANI PART 2	SWAMI CHINMAYANANDA	Chinmay Mission	130.00	

0000 A	6634	VAKYA VRITTI	SWAMI CHINMAYANANDA	Chinmay Mission	12.00	
0000 A	6635	VIBHISHANA GEETA	SWAMI TEJOMAYANANDA	Chinmay Mission	35.00	
0000 A	6636	VAIDIC MANTRA	SWAMI TEJOMAYANANDA	Chinmay Mission	45.00	
0000 A	6637	VEDANTA SAAR	SWAMI SHANKARANANDA	Chinmay Mission	30.00	
0000 A	6638	YOGAVASISTHASARSANGRAHA	SWAMI CHINMAYANANDA	Chinmay Mission	80.00	
0000 A	6639	Advaita Navaneetam		Chinmay Mission	40.00	
0000 A	6640	Anekartha Sangraha		Chinmay Mission	200.00	
0000 A	6641	Bhedaparanyeva Khalu Brahmasutrani		Chinmay Mission	400.00	
0000 A	6642	Dasharupakam		Chinmay Mission	120.00	
0000 A	6643	Kavyalankarasutrani		Chinmay Mission	60.00	
0000 A	6644	Koumudi Mahotsava		Chinmay Mission	60.00	
0000 A	6645	Kuvalayananda		Chinmay Mission	100.00	
0000 A	6646	Mahabharatha Adiparva- Vol-1		Chinmay Mission	500.00	
0000 A	6647	Mimamsa Paribasha		Chinmay Mission	30.00	
0000 A	6648	Nyayamritha Vol-1		Chinmay Mission	300.00	
0000 A	6649	Sasvata Kosha		Chinmay Mission	60.00	
0000 A	6650	Sumadhva Vijaya Moola (Sanskrit)		Chinmay Mission	60.00	
0000 A	6651	Vaisheshika Darshana		Chinmay Mission	200.00	
0000 A	6652	Vicharajyothi		Chinmay Mission	100.00	
0000 A	6653	Vyasapani Bhavanirnaya		Chinmay Mission	100.00	
0000 A	6654	Critical Essay on Purvamimamsa		Chinmay Mission	300.00	
0000 A	6655	Principle of Upanishad Vol-1		Chinmay Mission	200.00	
0000 A	6656	Principle of Upanishad Vol-2		Chinmay Mission	300.00	
0000 A	6657	Vishnutatvanirnaya (English)		Chinmay Mission	100.00	
0000A	6658	Sri Haribhakta Vijaya (Kannada)		Chinmay Mission	100.00	
0000 A	6659	Amarakosha		Chinmay Mission	300.00	
0000 A	6660	Arthasangraha		Chinmay Mission	120.00	
0000 A	6661	Bhagavata Vol. 1-2 & 7-13 set		Chinmay Mission	2500.00	
0000 A	6662	Bhagavata Tatparya Nirnaya Vol. 1-4 set		Chinmay Mission	1300.00	
0000 A	6663	Bhatta Sangraha Vol. 1-3 set		Chinmay Mission	1100.00	
0000 A	6664	Bramhasutrabhashya Vol. 6 & 7		Chinmay Mission	400.00	
0000 A	6665	Chandrika Mandana		Chinmay Mission	400.00	
0000 A	6666	Geeta Tatparya Nirnaya Vol. 1-2 set		Chinmay Mission	600.00	
0000 A	6667	Guruvamshakatha		Chinmay Mission	120.00	
0000 A	6668	Jayatirthavijaya		Chinmay Mission	40.00	
0000 A	6669	Karmanirnaya		Chinmay Mission	160.00	
0000 A	6670	Kathalakshana		Chinmay Mission	50.00	
0000 A	6671	Madhvasiddhantasara		Chinmay Mission	200.00	
0000 A	6672	Mayavadakhandana		Chinmay Mission	60.00	
0000 A	6673	Mithyatvanumanakhandana		Chinmay Mission	80.00	
0000 A	6674	Narayanopanishat		Chinmay Mission	80.00	
0000 A	6675	Nititatvaavirbhava		Chinmay Mission	200.00	
0000 A	6676	Nyayamritha Vol-3		Chinmay Mission	270.00	
0000 A	6677	Nyayasudha Vol. 1-12 set		Chinmay Mission	4800.00	
0000 A	6678	Nyayavadadipika		Chinmay Mission	100.00	
0000 A	6679	Nyayavivarana		Chinmay Mission	100.00	
0000 A	6680	Padartha Sangraha		Chinmay Mission	30.00	
0000 A	6681	Poornaprajna Darshana		Chinmay Mission	15.00	
0000 A	6682	Pramana Paddathi		Chinmay Mission	300.00	
0000 A	6683	Pramana Vachana Sangraha Vol 1-6 Set		Chinmay Mission	540.00	
0000 A	6684	Pramanachandrika		Chinmay Mission	20.00	

0000 A	6685	Pramanalakshanam		Chinmay Mission	160.00	
0000 A	6686	Puraneshu Loukika Vishaya		Chinmay Mission	300.00	
0000A	6687	Rigbhasya Vol 1-2 set		Chinmay Mission	570.00	
0000 A	6688	Sankyakarika		Chinmay Mission	200.00	
0000 A	6689	Sarvamula Grantha Vol-1		Chinmay Mission	70.00	
0000 A	6690	Sarvamula Grantha Vol-2-4		Chinmay Mission	1200.00	
0000 A	6691	Sattatvaratnamala		Chinmay Mission	65.00	
0000 A	6692	Shabdatarangini		Chinmay Mission	200.00	
0000 A	6693	Stotraratnamala		Chinmay Mission	100.00	
0000 A	6694	Sumadvijaya Vol. 1-2 set		Chinmay Mission	540.00	
0000 A	6695	Tarkatandava Vol. 1-3 set		Chinmay Mission	1000.00	
0000 A	6696	Tatparya Chandrika Vol. 1-3 Set		Chinmay Mission	900.00	
0000 A	6697	Tatvadyota Vol 1-2 part & Vol-2-1 set		Chinmay Mission	1000.00	
0000 A	6698	Tatvamanjari		Chinmay Mission	200.00	
0000 A	6699	Tatvasankyana and Tatvaviveka		Chinmay Mission	120.00	
0000 A	6700	Upadhikhandana		Chinmay Mission	80.00	
0000 A	6701	Vadavali		Chinmay Mission	200.00	
0000 A	6702	Vibramaviveka		Chinmay Mission	200.00	
0000 A	6703	Vidhirasayana		Chinmay Mission	200.00	
0000 A	6704	Vidyadheesha Vijaya		Chinmay Mission	200.00	
0000 A	6705	Vyasayogicharitha		Chinmay Mission	200.00	
0000 A	6706	Yukthi Mallika Vol. 1-5 set		Chinmay Mission	1060.00	
0000 A	6707	Post Jagannatha		Chinmay Mission	500.00	
0000 A	6708	Vishnu Faith (Madwa's Philosophy)		Chinmay Mission	75.00	
0000 A	6709	Brihadaranyakopanishad		Chinmay Mission	70.00	
0000 A	6710	Aupanisadam Darsanam		Chinmay Mission	20.00	
0000 A	6711	Commentaries on Bhagavadgita		Chinmay Mission	100.00	
0000 A	6712	Brahma is Vishnu		Chinmay Mission	100.00	
0000 A	6713	Trees and Plants Associated with the Rituals		Chinmay Mission	300.00	
0000 A	6714	Reign of Realism Vol. 1-2 set		Chinmay Mission	600.00	
0000 A	6715	Rig Bhashya		Chinmay Mission	500.00	
0000A	6716	BrahmasutraBhashya (Marathi)		Chinmay Mission	500.00	
0000 A	6717	Slokatatparya Chandrika		Chinmay Mission	40.00	
0000 A	6718	Essential of Upanishats		Chinmay Mission	30.00	
0000 A	6719	Essential of Yukthimallika		Chinmay Mission	150.00	
0000 A	6720	Essential of Brahmasutrabhasya		Chinmay Mission	200.00	
0000 A	6721	Heart of Bhagavata		Chinmay Mission	120.00	
0000 A	6722	Critical Essay on Vedanta & Veda		Chinmay Mission	200.00	
0000 A	6723	Geetha Tatparya Nirnaya		Chinmay Mission	160.00	
0000 A	6724	Madwacharya Jeevana Charitre		Chinmay Mission	80.00	
0000 A	6725	Vicharajyothi		Chinmay Mission	200.00	
0000 A	6726	Jagannatha Dasaru		Chinmay Mission	200.00	
0000 A	6727	Sutrartha Rathnavali Vol.1		Chinmay Mission	240.00	
0000 A	6728	Sumadvijaya Mula (Kannada)		Chinmay Mission	80.00	
0000 A	6729	"Believing Women" in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations Of The Qur'an	Asma Barlas	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	695.00	2004
0000 A	6730	A Carnival Of Parting: The Tales Of King Bharthari And King Gopi Chand As Sung And Told By Madhu Natisar Nath Of Ghatiyali, Rajasthan	Ann Grodzins Gold	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	1993
0000 A	6731	A Classical Dictionary Of Hindu Mythology And Religion, Geography, History, And Literature	John Dowson	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	2000

0000 A	6732	A Classical Dictionary Of India	John Garrett	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	600.00	1986
0000 A	6733	A Comparative Grammar Of The Dravidian Or South Indian Family Of Languages	Robert Caldwell	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	895.00	1974
0000 A	6734	A Comprehensive History Of Jainism, 2 Vols	Asim Kumar Chatterjee	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	950.00	2000
0000 A	6735	A Comprehensive Persian-English Dictionary: Including The Arabic Words And Phrases To Be Met With In Persian Literature	F. Steingass	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1295.00	2008
0000 A	6736	A Critical Study Of Hinduism	Sarasvati Chennakesavan	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	375.00	1998
0000 A	6737	A Critique Of Vedanta	L.V. Rajagopal	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	400.00	1993
0000 A	6738	A Descriptive Grammar Of Dakkhini	Khateeb S. Mustafa	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	750.00	2000
0000 A	6739	A Dictionary Of Hinduism: Its Mythology, Folkfore And Development 1500 Bc-Ad 1500	Margaret And James Stutley	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	750.00	2003
0000 A	6740	A Dictionary Of Indian Mythology	Narendra Nath Bhattacharyya	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	895.00	2001
0000 A	6741	A Dictionary Of Moral Concepts In Gandhi	R.K. Gupta	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	250.00	2000
0000 A	6742	A Dictionary Of The Pali Language	Robert Caesar Childers	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1195.00	2005
0000 A	6743	A Geographical Account Of Countries Round Bay Of Bengal, 1669 To 1679	Thomas Bowrey	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	650.00	1997
0000 A	6744	A Grammar Of The Arabic Language: Translated From The German Of Caspari And Edited With Numerous Additions And Corrections	W. Wright	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	995.00	2004
0000A	6745	A Handbook Of Pali Literature	Oskar Von Hinuber	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	550.00	
0000 A	6746	A History Of Ancient Coinage: 700-300 B.C.	Percy Gardner	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	600.00	1975
0000 A	6747	A History Of Indian Archaeology: From The Beginning To 1947	Dilip K. Chakrabarti	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	600.00	2001
0000 A	6748	A History Of Indian Literature: Introduction, Veda, National Epics Puranas And Tantras, Vol. I	Maurice Winternitz	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	850.00	1991
0000 A	6749	A History Of Indian Literature: Buddhist Literature And Jaina Literature, Vol.II	Maurice Winternitz	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	850.00	1991
0000 A	6750	A History Of Modern Tibet, 1913-1951: The Demise Of The Lamaist State	Melvyn C. Goldstein	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	850.00	2007
0000 A	6751	A History Of Sanskrit Literature	Arthur Anthony Macdonell	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	250.00	1972
0000 A	6752	A History Of Sufism In India, 2 Vols	Saiyid Athar Abbas Rizvi	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1900.00	2009

0000 A	6753	A History Of Sufism In India: Early Sufism And Its History In India To Ad 1600, Vol. I	Saiyid Athar Abbas Rizvi	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	950.00	2012
0000 A	6754	A History Of Sufism In India: From Sixteenth Century To Modern Century, Vol. II	Saiyid Athar Abbas Rizvi	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	950.00	2009
0000 A	6755	A History Of The Arya Samaj: An Account Of Its Origin, Doctrines And Activities With A Biographical Sketch Of The Founder	Lajpat Rai, Rev., Exp., Ed. By Sri Ram Sharma	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	300.00	1992
0000 A	6756	A Journey From Bengal To England: Through The Northern Part Of India, Kashmire, Afghanistan, And Persia, And Into Russia, By The Caspian Sea, 2 Vols	George Forster	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	900.00	1997
0000 A	6757	A Manual Of Buddhism: In Its Modern Development; Translated From Singhalesse MSS	R. Spence Hardy	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	550.00	1995
0000 A	6758	A Manual Of Sanskrit Phonetics: In Comparison With The Indogermanic, Mother-Language, For Students Of Germanic And Classical Philology	Dr. C.C. Uhlenbeck	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	200.00	1977
0000 A	6759	A Personal Narrative Of A Visit To Ghuzni, Kabul And Afghanistan, And Of A Residence At The Court Of Dost Mohamed With Notices Of Runjit	Godfrey T. Vigne	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	550.00	2004
0000 A	6760	A Practical Grammar Of The Sanskrit Language: Arranged With Reference To The Classical Languages Of Europe, For The Use Of English Students	M. Monier-Williams	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	550.00	2009
0000 A	6761	A Record Of The Buddhist Religion: As Practised In India And The Malay Archipelago (Ad 671-695)	I-Tsing, Trs. By J. Takakusu	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	1998
0000 A	6762	A Reference Grammar Of Maithili	Ramawatar Yadav	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	850.00	1997
0000 A	6763	A Sanskrit Reader: Text And Vocabulary And Notes (Hb)	Charles Rockwell Lanman	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	2008
0000 A	6764	A Sanskrit Reader: Text And Vocabulary And Notes (Pb)	Charles Rockwell Lanman	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	375.00	2008
0000 A	6765	A Short History Of Sanskrit Literature (Pb)	Hans Raj Aggarwal	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	200.00	1963
0000 A	6766	A Short Moral Lexicon	R.K. Gupta	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	100.00	1996
0000 A	6767	A Source-Book Of Indian Archaeology, Vol. III: Human Remains, Prehistoric Roots Of Religious Beliefs, First Steps In Historical Archaeology: Sculpture, Architecture, Coins And Inscripts	F. R. Allchin And Dilip K. Chakrabarti	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1100.00	2003
0000 A	6768	A Source-Book Of Indian Archaeology, Vol. II: Settlements, Technology And Trade	F. R. Allchin And Dilip K. Chakrabarti (Eds)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1350.00	1997
0000 A	6769	A Survey Of Indian Sculpture	S. K. Saraswati	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	750.00	1975

0000 A	6770	A Survey Of Painting In The Deccan	Stella Kramrisch	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1000.00	1983
0000 A	6771	Acoustical Perspective On Raga-Rasa Theory	Suvarnalata Rao	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	2000
0000 A	6772	Adventurers, Landowners And Rebels: Bengal C. 1575-C. 1715	Aniruddha Ray	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	550.00	1998
0000 A	6773	Agricultural, Industrial And Urban Dynamism Under The Sultans Of Delhi 1206-1555	Hamida Khatoon Naqvi	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	400.00	1986
0000A	6774	Ahimsa: Buddhism And The Vegetarian Ideal	Bodo Balsys	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	275.00	2004
0000 A	6775	Ajmer Through Inscriptions	S.A.I. Tirmizi	MRML Distribution	500.00	1968
0000 A	6776	Aligarh District: A Historical Survey; (From Ancient Times To 1803 A. D.)	Jamal Muhammad Siddiqi	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	600.00	1981
0000 A	6777	Along The Path Of Music	Prabha Atrre	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	400.00	2005
0000 A	6778	American Attitude Towards The Indian Nationalist Movement	Diwakar Prasad Singh, Foreword By Dr. R. S. Sharma	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	400.00	1974
0000 A	6779	An Analytical Study Of Four Nikayas	Dipak Kumar Barua, With A Foreword By A.C. Banerjee	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	895.00	2010
0000 A	6780	An Encyclopaedia Of Hindu Architecture, Manasara Series: Vol. VII	Prasanna Kumar Acharya	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	900.00	1993
0000 A	6781	An English-Tibetan Dictionary: Containing A Vocabulary Of Approximately Twenty Thousand Words With Their Tibetan Equivalents	Lama Dawasamdup Kazi	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	850.00	2003
0000 A	6782	An Introduction To Buddhism: Teachings, History And Practices	Peter Harvey	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	650.00	1990
0000 A	6783	An Introduction To Mahayana Buddhism: With Especial Reference To Chinese And Japanesse Phases	William Montgomery Mcgovern	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	495.00	2013
0000 A	6784	An Introduction To The Philosophy Of Trika Saivism	Moti Lal Pandit	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	2007
0000 A	6785	An Introduction To The Yoga Philosophy	Rai Bahadur Srisa Chandra Vasu	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	100.00	2004
0000 A	6786	An Outline Of Madhva Philosophy	K. Narain	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	400.00	1986
0000 A	6787	An Outline Of The Cultural History Of India	Syed Abdul Latif	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	1979
0000 A	6788	Anaphoric Relations In Hindi And English	Madhu Gurtu	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	250.00	1992
0000 A	6789	Ancient Indian Asceticism	M. G. Bhagat	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	650.00	1976
0000 A	6790	Ancient Indian Magic And Folklore: An Introduction	Margaret Stutley	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	400.00	2001
0000 A	6791	Ancient Indian Massage: Traditional Massage Techniques Based On The Ayurveda	Harish Johari	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	375.00	2008

0000 A	6792	Ancient Indian Ports: With Special Refrence To Maharashtra	Sharad Hebalkar	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	2001
0000 A	6793	Ancient Malwa And The Vikramaditya Tradition	Dr D.C. Sircar	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	300.00	1969
0000 A	6794	Ancient Races Of The Deccan	S.S. Sarkar	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	1972
0000 A	6795	Ancient Yoga And Modern Science (History of Science, Philosophy and Culture in Indian Civilization, 7)	T.R. Anantharaman	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	170.00	2007
0000 A	6796	Annals And Antiquities Of Rajasthan: Or, The Central And Western Rajpoot States Of India, 2 Vols	James Tod	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1095.00	2001
0000 A	6797	Archaeological Excavations In Durkadi Nala: An Early Palaeolithic Pebble-Tool Workshop In Central India	Jorge Armand, Forword Dr. H. D. Sankalia	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	850.00	1983
0000 A	6798	Archaeological Geography Of The Ganga Plain: The Upper Ganga (Oudh, Rohilkhand, And The Doab)	Dilip K. Chakrabarti	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	900.00	2007
0000 A	6799	Archaeology In India: Individuals, Ideas And Institutions	Gautam Sengupta And Kaushik Gangopadhyay (Eds)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1495.00	2009
0000 A	6800	Archaeology Of Eastern India: Chhotanagpur Plateau And West Bengal	Dilip K. Chakrabarti	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	650.00	1993
0000 A	6801	Architecture Decorated With Architecture: Later Medieval Temples Of Karnataka, 1000-1300 Ad	Gerard Foekema	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1650.00	2003
0000 A	6802	Architecture Of Manasara: Illustrations Of Architectural And Sculptural Objects,With A Synopsis , Manasara Series : Vol. V	Prasanna Kumar Acharya	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	2000.00	1995
0000A	6803	Ariana Antiqua: A Descriptive Account Of The Antiquities And Coins Of Afghanistan With A Memoir On The Buildings Called Topes By C.Masson	H.H. Wilson	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1500.00	1997
0000 A	6804	Aryans Revisited	Ramendra Nath Nandi	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	2001
0000 A	6805	Ashvaghosha: The Awakening Of Faith	Timothy Richard, Trans.	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	225.00	2005
0000 A	6806	Asoka As Depicted In His Edicts	Kanai Lal Hazra	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	650.00	2007
0000 A	6807	Asvina In The Rgveda And Other Indological Essays	G. C. Jhala, Intr. By Dr V. Raghavan	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	600.00	1978
0000 A	6808	At The Bottom Of Indian Society: The Harijan And Other Low Castes	Stephen Fuchs	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	1981
0000 A	6809	At The Heart Of The Empire: Indians And The Colonial Encounter In Late-Victorian Britain	Antoinette Burton	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	550.00	1998
0000 A	6810	Aurangzeb: Attitudes And Inclinations	Rekha Joshi	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	100.00	1979

0000 A	6811	Ayodhya: The Abode Of Rama; And The Dharmaksetra Of Lord Buddha And The Jaina Tirthankaras; A Historical And Cultural Study	Lalta Prasad Pandey	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	2009
0000 A	6812	Bahina Bai And Her Abhangas	Krishna P. Bahadur (Trans.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	250.00	1998
0000 A	6813	Balambhatti: Being A Commentary By Balambhatta Payagunde On The Mitaksara Of Sri Vijnaneswara On The Yajnavalkya-Smrti, 3 Vols	J.R. Gharpure (Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	3000.00	2000
0000 A	6814	Banaras In Transition (1738-1795): A Socio-Economic Study	Kamala Prasad Mishra	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	1975
0000 A	6815	Basic Principles Of Indian Philosophy Of Language, (Jadavpur Studies In Philosophy)	Piyali Palit, With A Foreword By Karuna Sindhu Das	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	2004
0000 A	6816	Bazaar India: Markets, Society, And The Colonial State In Gangetic Bihar	Anand A. Yang	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	650.00	2000
0000 A	6817	Behind Mud Walls 1930-1960: With A Sequel: The Village In 1970 And A New Chapter By Susan S. Wadely: The Village In 1984	William Henricks Wiser And Charlotte Viall Wisers	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	1994
0000 A	6818	Bengal Temples	Bimal Kumar Datta , With A Foreword By Dr. Suniti Kumar Chatterji	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	1975
0000 A	6819	Benoy Kumar Sarkar And Italy: Culture, Politics And Economic Ideology	Giuseppe Flora , Forward By Indira Palit Sarkar	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	200.00	1994
0000 A	6820	Bhaktisutras Of Narada	Nandalal Sinha	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	125.00	1998
0000 A	6821	Bharat Me Mughal Samrajya Ka Prarambhik Itihas: (Akbar Ki Mrityu Tak), (Bhartiya Itihas Aur Sanskriti Granthmala-Granth 19, Madhyakalin Bharat: Rajnitik Itihas)	Shriram Goyal (Ed.), Shivkumar Gupt (Co. Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	1987
0000 A	6822	Bhartrhari's Satakatrayam : With The Oldest Commentary Of Jain Scholar Dhanasaragani With Principal Variants From Many Manuscripts, Etc.	D. D. Kosambi	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	495.00	2002
0000 A	6823	Bhasa: A Study	A.D. Pusalker, Dr. A. Berriedale Keith, (Foreword)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	695.00	1968
0000 A	6824	Bombay And The Marathas: Up To 1774	W. S. Desai	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	300.00	1970
0000 A	6825	Bombay In The Days Of Queen Anne: Being An Account Of The Settlement Written By	John Burnell	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	1997
0000 A	6826	Brahm Vidya: Knowledge Of The Divine; (Originally Narrated By) The Almighty Divine Sarvadna Shri Chakradhar Prabhu	Ujval Sagar Suri	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	400.00	1986
0000 A	6827	Brahmanas In Ancient India: A Study In The Role Of The Brahmana Class From C. 200 Bc To C. Ad 500	Govind Prasad Upadhyay	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	700.00	1979
0000 A	6828	British Imperialism And Afghanistan's Struggle For Independence 1914-21	Abdul Ali Arghandawi	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	1989

0000 A	6829	British Social Policy And Female Infanticide In India	Lalita Panigrahi	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	250.00	1972
0000 A	6830	Buddha And The Gospel Of Buddhism	Ananda K. Coomaraswamy	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	2003
0000 A	6831	Buddhism And Buddhist Literature In Early Indian Epigraphy	Kanai Lal Hazra	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	2002
0000A	6832	Buddhism In India As Described By The Chinese Pilgrims Ad 399-689	Kanai Lal Hazra	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	395.00	2011
0000 A	6833	Buddhism In Perspective	Moti Lal Pandit	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	375.00	2001
0000 A	6834	Buddhism In Practice	Donald S. Lopez, Jr (Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	800.00	1998
0000 A	6835	Buddhism: A Religion Of Salvation	Moti Lal Pandit	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	550.00	2004
0000 A	6836	Buddhism: Its Essence and Development (Pb)	Edward Conze	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	2008
0000 A	6837	Buddhist Divinities	Puspa Niyogi	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	995.00	2001
0000 A	6838	Buddhist India (Pb)	T.W. Rhys Davids	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	250.00	1999
0000 A	6839	Buddhist Literary Heritage In India, Vol. I (Samiksika Series No. 1)	Sudha Gopalakrishnan, Ratna Basu Ed.	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	325.00	2007
0000 A	6840	Buddhist Logic, 2 Vols	F. Th. Stcherbatsky	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	750.00	1996
0000 A	6841	Buddhist Meditation	Edward Conze	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	250.00	2011
0000 A	6842	Buddhist Philosophy In India And Ceylon	A. Berriedale Keith	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	1979
0000 A	6843	Buddhist Texts Through The Ages	Edward Conze	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	2008
0000 A	6844	Calukya Architecture: Medieval Temples Of Northern Karnataka Built During The Rule Of The Calukya Of Kalyana And Thereafter, Ad 1000-1300, 3 Vols	Gerard Foekema	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	9500.00	2003
0000 A	6845	Cambodian Buddhism: History And Practice	Ian Harris	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1095.00	2010
0000 A	6846	Canada: Its Regions And People	Michael D. Behiels And K.S. Mathew (Eds)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	695.00	1998
0000 A	6847	Caste And Capitalism In Colonial India: The Nattukottai Chettiars	David West Rudner	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	650.00	1995
0000 A	6848	Catalogue Of The Coins Of The Andhra Dynasty, The Western Ksatrapas, The Traikutaka Dynasty And The "Bodhi" Dynasty	Edward James Rapson	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	650.00	1975
0000 A	6849	Central Asia: A Textbook History	Ram Rahul	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	275.00	2000

0000 A	6850	Change And Continuity In Indian Religion	J. Gonda	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	650.00	1997
0000 A	6851	Christian And Oriental Philosophy Of Art	Ananda K. Coomaraswamy	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	400.00	2008
0000 A	6852	Classical Samkhya: A Critical Study	Anima Sen Gupta	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	300.00	1982
0000 A	6853	Coins And Currency Systems In South India: C. Ad 225-1300	Brajadulal Chattopadhyaya	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	750.00	1977
0000 A	6854	Comparative Religion	Rama Shanker Srivastava, With Foreword By Dr. N.K. Devaraja	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	300.00	1996
0000 A	6855	Competition And Collaboration: Parsi Merchants And The English East India Company In 18th Century India	David L. White	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	1995
0000 A	6856	Complete Works Of Goswami Tulsidas, 6 Vols	S.P. Bahadur (Tr.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	2600.00	2008
0000 A	6857	Composing A Tradition: Concepts, Techniques And Relationships Proceedings Of The First Dubrovnik International Conference On The Sanskrit Epics And Puranas August 1997	Mary Brockington And Peter Schreiner (Ed.) , Gen. Ed. Radoslav Katicic	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1000.00	1999
0000 A	6858	Concise History Ancient India, Vol. I (Political History)	A.K. Majumdar	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	750.00	1992
0000 A	6859	Concise History Of Ancient India, Vol. II (Political Theory, Administration And Economic Life)	A.K. Majumdar	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	650.00	1980
0000 A	6860	Concise History Of Ancient India, Vol. III (Hinduism: Society, Religion & Philosophy)	A.K. Majumdar	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	900.00	1983
0000A	6861	Confessions And Commitments	S.S. Barlingay	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	80.00	1994
0000 A	6862	Construction Of An Identity Discourse: Oriya Literature And The Jagannath Cult (1866-1936)	Subhakanta Behera	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	550.00	2002
0000 A	6863	Contemporary Indian Philosophy	Rama Shankar Srivastava, Foreward By Prof. Paul Arthur Schilpp	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	300.00	1983
0000 A	6864	Copper And Its Alloys In Ancient India	Dilip K. Chakrabarti And Nayanjot Lahiri	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	750.00	1996
0000 A	6865	Critical Studies In The Phonetic Observations Of Indian Grammarians (James G. Forlong Fund Vol. VII)	Siddheshwar Varma	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	400.00	1961
0000 A	6866	Critical Word-Index To The Bhagavadgita	Rao Bahadur Prahlad C. Divanji	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	600.00	1993
0000 A	6867	Cultural Rhythms In Emotions,Narratives And Dance	Nita Mathur	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	600.00	2002
0000 A	6868	D. H. Lawrence As Critic	Ileana Cura-Sazdanic	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	400.00	1969
0000 A	6869	Dalhousie In India, 1848-56: A Study Of His Social As Governor-General	Suresh Chandra Ghosh	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	250.00	1975
0000 A	6870	Development In The Early Buddhist Concept Of Kamma/Karma	James Paul Mcdermott	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	300.00	2003

0000 A	6871	Development Of Buddhist Iconography In Eastern India: A Study Of Tara, Pranas Of Five Tathagatas And Bhrikuti	Mallar Ghosh	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1000.00	1980
0000 A	6872	Development Of Educational Services, 1879-1896: Selections From Educational Records Of The Government Of India (New Series)	Suresh Chandra Ghosh (Ed.), Forw. Sabyasachi Bhattacharya	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	600.00	1992
0000 A	6873	Development Of Hindu Polity And Political Theories	Narayan Chandra Bandyopadhyaya, Edited With An Intr.By Narendra	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	550.00	1980
0000 A	6874	Development Of Moral Philosophy In India	Surama Dasgupta	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	400.00	1994
0000 A	6875	Diary Of Travels And Adventures In Upper India: From Bareilly, In Rohilcund, To Hurdwar, And Nahun, In The Himmallaya Mountains, With A Tour In Bundelcund, A Sporting Excursion In The Kingdom Of Oude, And A Voyage Down The Ganges, 2 Vols	C. J. C. Davidson	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	950.00	2004
0000 A	6876	Dictionary Of Oriental Philosophy, 2 Vols (Bound In 1)	Ruth Reyna (Ed.) And With A Foreword By Moni Bagchi	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	895.00	1993
0000 A	6877	Dictionary Of Pali Proper Names, 2 Vols	G.P. Malalasekera	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1600.00	2008
0000 A	6878	Directory Of Personal Names In The Indian History: From The Earliest To 1947 (Based On The History And Culture Of The Indian People By Dr R.C. Majumdar And A.D. Pusalker Et Al.)	Krishan Lal Khera	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	995.00	2002
0000 A	6879	Discerning The Buddha: A Study Of Buddhism And Of The Brahmanical Hindu Attitude To It	Lal Mani Joshi	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	600.00	2008
0000 A	6880	Discourse In Early Buddhist Art: Visual Narratives Of India	Vidya Dehejia	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1800.00	2005
0000 A	6881	Dohavali: An Anthology Of Verses On Dharma And Morality, (Complete Works Of Goswami Tulsidas, Vol. IV)	S.P. Bahadur (Trans.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	1997
0000 A	6882	Dynamics Of Urban Life In Pre-Mughal India	H.C. Verma	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	1986
0000 A	6883	Early Buddhist Monachism	Sukumar Dutt	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	300.00	1996
0000 A	6884	Early History And Culture Of Kashmir	Dr. Sunil Chandra Ray, Foreward By Sardar K. M. Panikkar	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	600.00	1970
0000 A	6885	Early Indian Architecture: Cities And City Gates Etc.	Ananda K. Coomaraswamy	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	400.00	2002
0000 A	6886	Early Indian Sculpture, 2 Vols (Bound In One)	Ludwig Bachhofer	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1500.00	1973
0000 A	6887	Economic History Of The Deccan: From The First To The Sixth Century A.D.	Dipakranjan Das	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	1969
0000 A	6888	Economy Of Colonial Orissa 1866-1947	J.K. Samal	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	2000

0000 A	6889	Elements Of Buddhist Iconography	Ananda K. Coomaraswamy	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	595.00	2008
0000A	6890	Eleven-Headed Avalokitesvara: Chenresigns, Kaun-Yin Or Kannon Bodhisattva: Its Origin And Iconography	Tove E. Neville	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1500.00	1999
0000 A	6891	Encounter With Buddhism: A Study Of The Evolution Of Buddhist Thought	Moti Lal Pandit	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	600.00	2005
0000 A	6892	Encountering Sivaism: The Deity, The Milieu, The Entourage	Nilima Chitgopekar	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	1998
0000 A	6893	English Language And Literature Teaching In India: A Bibliography	S. R. Ganguly And L. S. Ramaiah	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	400.00	2000
0000 A	6894	Erotic Sculpture Of India: A Socio-Cultural Study	Devangana Desai	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1000.00	1985
0000 A	6895	Essays In Indian Ethnomusicology	Ashok D. Ranade	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	600.00	1998
0000 A	6896	Essays In National Idealism	Ananda K. Coomaraswamy	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	495.00	2013
0000 A	6897	Essays In Zen Buddhism I (Pb)	D.T. Suzuki	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	695.00	2011
0000 A	6898	Essays On South India	Burton Stein	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	1997
0000 A	6899	Essentials Of Indian Statecraft: Kautilya's Arthasastra For Contemporary Readers	T.N. Ramaswamy	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	250.00	2007
0000 A	6900	Ethics In The Mahabharata: A Philosophical Inquiry For Today	Sitansu S. Chakravarti	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	2006
0000 A	6901	Evolution Of Hindu Sects: Up To The Time Of Samkaracarya	Sudhakar Chattopadhyaya	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	400.00	2000
0000 A	6902	Evolution Of Raga And Tala In Indian Music	M.R. Gautam	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	595.00	2008
0000 A	6903	Excavations At Harappa: Being An Account Of Archaeological Excavations At Harappa Carried Out Between The Years 1920-21 And 1933-34, 2 Vols	Madho Sarup Vats	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	4000.00	1997
0000 A	6904	Experiencing History Through Archives: Restoration Of Memory And Repair Of Records	Syamalendu Sengupta	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	2004
0000A	6905	Expressions Of Politeness And Gratitude: Towards A General Theory	Ibha Kumar	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	375.00	2001
0000 A	6906	Fields Of Victory: Vijayanagara And The Course Of Intensification	Kathleen D. Morrison	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	950.00	2000
0000 A	6907	Foreign Elements In Ancient Indian Society: 2Nd Century Bc To 7Th Century Ad	Dr. Uma Prasad Thapliyal	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	1979
0000 A	6908	From Akbar To Aurangzeb: A Study In Indian Economic History	W.H. Moreland	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	1972
0000 A	6909	From Dualism To Non-Dualism: A Study Of The Evolution Of Saivite Thought	Moti Lal Pandit	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	750.00	2010
0000 A	6910	Fundamentals Of Hinduism: A Rational Analysis	P.L. Bhargava	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	200.00	1982

0000 A	6911	Fundamentals Of Logic	Arindama Singh And Chinmoy Goswami	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	1998
0000 A	6912	Further Excavations At Mohenjo-Daro: Being On Officialaccount Of Archaeological Excavations At Mohenjo-Daro Carried Out By The Government Of India Between The Years 1927 And 1931, 2 Vols	E.J. H. Mackay, With Chapters By A.S. Hemmy, B.S. Guha And P.C. Basu	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	4000.00	1998
0000 A	6913	Gangesa's Theory Of Indeterminate Perception: Nirvikalpakavada, (Part. I) (Icpr Translation Of Indian Philosophical Classics)	Sibajiban Bhattacharyya (Gen. Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	150.00	1996
0000 A	6914	Gautamiyanyayadarsana With Bhasya Of Vatsyayana (Nyayacatungranthika Vol. I)	Anantalal Thakur (Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	460.00	1997
0000 A	6915	Gender And Salvation: Jaina Debates On The Spiritual Liberation Of Women	Padmanabh S. Jaini	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	400.00	1992
0000 A	6916	Geography Of Early Buddhism	Bimala Churn Law	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	300.00	2008
0000 A	6917	Giradhara Ramayana: Composed In Gujarati By Giradhara, The Great Son Of The Soil In The Eighteenth Centuries Ad, (Ramayana In Regional Languages Series, Vol. Iii)	Shanti Lal Nagar And Tripta Nagar (Trans.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	750.00	2003
0000 A	6918	Gitavali: (Complete Works Of Goswami Tulsidas	S.P. Bahadur (Tr.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	400.00	1996
0000 A	6919	Gobhilagrhyasutram: With Bhattanarayana's Commentary	Chintamani Bhattacharya	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1000.00	1982
0000 A	6920	Godmen On The Warpath: A Study Of Messianic Movements In India	Stephen Fuchs	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	1992
0000 A	6921	Greater India	Arun Bhattacharjee	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	250.00	1981
0000 A	6922	Guide To The Ajanta Paintings, Vol. II (Devotional And Ornamental Paintings), (Pb)	Monika Zin	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	650.00	2003
0000 A	6923	Hellenism In Ancient India	Gauranga Nath Banerjee	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	400.00	1981
0000 A	6924	Hemachandra's Dvyasrayakavya: A Literary And Cultural Study	Satya Pal Narang	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	1972
0000 A	6925	Hindi Dhwaniki Aur Dhwanimi (in Hindi)	Ramesh Chandra Mehrotra	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	1970
0000 A	6926	Hindu Architecture In India And Abroad: Manasara Series: Vol. VI	Prasanna Kumar Acharya	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1000.00	
0000 A	6927	Hindu Concept Of Life And Death: As Portrayed In Vedas, Brahmanas, Aranyakas, Upanishads, Smrtis, Puranas, And Epics, (Pb)	Shyam Ghosh	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	300.00	2002
0000 A	6928	Hindu Deities: A Mythological Dictionary With Illustrations	Margaret Stutley	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	600.00	2006
0000 A	6929	Hindu Places Of Pilgrimage In India: A Study In Cultural Geography	Surinder Mohan Bhardwaj	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	2003

0000 A	6930	Hindu Views And Ways Andthe Hindu-Muslim Interface: An Anthropological Assessment	Agehananda Bharati	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	200.00	1981
0000 A	6931	Hindu World: An Encyclopedic Survey Of Hinduism , 2 Vols	Benjamin Walker	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1500.00	1983
0000 A	6932	Hinduism And Buddhism In Perspective	Y.V. Dahiya	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	595.00	2008
0000 A	6933	Hinduism And Buddhism: An Historical Sketch, 3 Vols	Sir Charles Eliot	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	2000.00	2003
0000A	6934	Hinduism And Its Sources: Vedic Literature-Tradition And Social And Religious Laws	Monier Monier-Williams	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	400.00	2003
0000 A	6935	History Of Ancient Indian Science, Vol. I: Botanical Science And Economic Growth: A Study Of Forestry, Horiculture, Gardening And Plant Science	Lalta Prasad Pandey	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	1996
0000 A	6936	History Of Bhopal State: Development Of Constitution, Administration And National Awakening 1901-1949	Kamla Mittal	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	1990
0000 A	6937	History Of Bihar 1740-1772	Shree Govind Mishra	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	250.00	1970
0000 A	6938	History Of Firuz Shah Tughluq	Jamini Mohan Banerjee, Foreward By Dr. Banarsi Prasad Saksena	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	1967
0000 A	6939	History Of Indian Administration, Vol. III (Modern Period)	B. N. Puri	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	1982
0000 A	6940	History Of Indian And Eastern Architecture, 2 Vols	James Fergusson, Ed. James Burgess And R. Phene Spiers	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1200.00	1998
0000 A	6941	History Of Indian Erotic Literature	Narendra Nath Bhattacharyya	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	1975
0000 A	6942	History Of Indian Medicine: Containing Notices, Biographical And Bibliographical, Of The Ayurvedic Physicians And Their Works On Medicine; From The Earliest Ages To The Present Time, 3 Vols	Girindranath Mukhopadhyaya, Bhisagacarya	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1000.00	2007
0000 A	6943	History Of Pancala: To C. Ad 550, Vol. I (A Study)	Krishna Mohan Shrimali, Forword By Dr. R. S. Sharma	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	750.00	1983
0000 A	6944	History Of Pancala: To C. Ad 550, Vol. II (Corpus Of Coins)	Krishna Mohan Shrimali, Foreword By Dr. R. S. Sharma	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	950.00	1985
0000 A	6945	History Of Pilgrimage In Ancient India : Ad 300-1200	Samarendra Narayan Arya	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	600.00	2004
0000 A	6946	History Of Researches On Indian Buddhism	Narendra Nath Bhattacharyya	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	300.00	1981
0000 A	6947	History Of Sanskrit Lexicography	Madhukar M. Patkar	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	1981
0000 A	6948	History Of The Khaljis: A.D. 1290-1320	Kishori Saran Lal	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	1980
0000 A	6949	History Of The Rise Of The Mahomedan Power In India: Till The Year A.D. 1612, 4 Vols	John Briggs, Trans. By Mahomed Kasim Ferishta	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	2000.00	1981

0000 A	6950	History Of The Sikhs, 5 Vols	Hari Ram Gupta	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	5030.00	
0000 A	6951	History Of The Sikhs: Evolution Of Sikh Confederacies, Vol. II	Hari Ram Gupta	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	795.00	2014
0000 A	6952	History Of The Sikhs: Sikh Domination Of The Mughal Empire, Vol. III	Hari Ram Gupta	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	650.00	2009
0000 A	6953	History Of The Sikhs: The Sikh Gurus, 1469-1708, Vol. I	Hari Ram Gupta	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	895.00	2014
0000 A	6954	History Of The Sikhs: The Sikh Lion Of Lahore, (Maharaja Ranjit Singh, 1799-1839),Vol V	Hari Ram Gupta	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1395.00	2014
0000 A	6955	History Of Theravada Buddhism In South-East Asia: With Special Reference To India And Ceylon	Kanai Lal Hazra	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	400.00	2008
0000 A	6956	History, Culture And Truth: Essays Presented To D.P. Chattopadhyaya	Daya Krishna & K. Satchidananda Murty (Eds)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	725.00	1999
0000 A	6957	Horse In Early Indian Art	T.K. Biswas , With A Foreword By Dr.Kalyan K. Ganguly	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	750.00	1987
0000 A	6958	How Zen Became Zen: The Dispute Over Enlightenment And The Formation Of Chan Buddhism In Song -Dynasty China	Morten Schlutter	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	895.00	2009
0000 A	6959	Hymns Of The Atharvaveda: Translated With A Popular Commentary, 2 Vols	Ralph T.H. Griffth, Dr S.R. Sehgal(Introdution), Dr Siddeshwar Varma (Foreword)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1000.00	2002
0000 A	6960	Hymns Of The Samaveda: Translated With A Popular Commentary	Ralph T.H. Griffth	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	650.00	2008
0000 A	6961	Index To History Of Dharmasastra: By Pandurang Vaman Kane Comprehensive Guide To Hindu Rites And Rituals	Krishan Lal Khera	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	1997
0000 A	6962	India And Bhutan: A Study In Interrelations 1772-1910	Manorama Kohli	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	300.00	1982
0000A	6963	India And China: A Thousand Years Of Cultural Relations (Zhong-Yin Qiannian Shi)	Prabodh Chandra Bagchi. Haraprasad Ray(Rev. And Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	650.00	2008
0000 A	6964	India As Reflected In The Divyavadana	Kalpana Upreti	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	1995
0000 A	6965	India At The Death Of Akbar: An Economic Study	W. H. Moreland	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	1983
0000 A	6966	India At The Polls, 1980: A Study Of The Parliamentary Elections	Myron Weiner	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	250.00	1984
0000 A	6967	India In Hungarian Learning And Literature: With A Bibliography Of Translations	Geza Bethlenfalvy	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	250.00	1980
0000 A	6968	India In The Time Of Patanjali	B.N. Puri, Forward By Dr F.W. Thomas	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	1990
0000 A	6969	India's Overland Trade With Central Asia And Persia: During The Thirteenth And Fourteenth Centuries	Joginder K. Chawla	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	425.00	2006
0000 A	6970	India-Studies In The History Of An Idea (Pb)	Irfan Habib (Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	325.00	2005

0000 A	6971	India-USA Diplomatic Relations 1940-2002	Tripta Desai	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	425.00	2006
0000 A	6972	India-What It Can Teach Us?	F. Max Muller, Indian Ed. By K.A. Nilakanta Sastri	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	250.00	1991
0000 A	6973	Indian Alchemy: Soma In The Veda	S. Kalayanaraman	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	650.00	2004
0000 A	6974	Indian Architecture: According To Manasara-Silpasatra, Manasara Series: Vol. II	Prasanna Kumar Acharya	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	1996
0000 A	6975	Indian Costume, Coiffure And Ornament	Sachidanand Sahay, Dr. B.P. Sinha, (Foreword)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	750.00	1975
0000 A	6976	Indian Islam: A Religious History Of Islam In India ,(The Religious Quest Of India)	Murray T. Titus	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	300.00	1979
0000 A	6977	Indian Logic In Its Sources: On Validity Of Interference	Mrinal Kanti Gangopadhyay	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	1984
0000 A	6978	Indian Logic In The Early Schools: A Study Of The Nyayadarsana In Its Relation To The Early Logic Of Other Schools	H. N. Randle	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	600.00	1976
0000 A	6979	Indian Palaeography	Georg Buhler	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	600.00	2004
0000 A	6980	Indian Puberty Rites	Narendra Nath Bhattacharyya	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	250.00	1980
0000 A	6981	Indian Religious Historiography, Vol. I	N.N. Bhattacharyya	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	650.00	1996
0000 A	6982	Indian Rural Sociology: A Sociological Analysis Of Rural Community, Rural Social Change, Rural Social Problems, Community Development Projects And Rural Welfare In India	Rama Nath Sharma	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	1979
0000 A	6983	Indian Shipping: A History Of The Sea-Borne Trade And Maritime Activity Of The Indians From The Earliest Times	Radhakumud Mookerji	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	650.00	1999
0000 A	6984	Indian Society And Social Institutions	Rama Nath Sharma	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	300.00	1981
0000 A	6985	Individuals And Ideas In Traditional India Ten Interpretive Studies	Jagdish P. Sharma (Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	550.00	2005
0000 A	6986	Insights Into Inward Consciousness	G. Srinivasan	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	125.00	1994
0000 A	6987	Interdisciplinary Studies In Science, Technology, Philosophy And Culture, (History Of Science, Philosophy And Culture In Indian Civilization)	D.P. Chattopadhyaya	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	2004
0000 A	6988	Introduction To Bharata's Natyasastra	Adya Rangacharya	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	250.00	2011
0000 A	6989	Introduction To Indian Art	Ananda K. Coomaraswamy, Mrs Ananda K. Coomaraswamy (Edit.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	495.00	2008
0000 A	6990	Introduction To The Study Of Hindu Doctrines (Pb)	Rene Guenon	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	550.00	2000

0000 A	6991	Iran: Royalty, Religion And Revolution	Saiyid Athar Abbas Rizvi	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	750.00	1980
0000A	6992	Islam In India And Pakistan: A Religious History Of Islam In India And Pakistan	Murray T. Titus	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	475.00	2005
0000 A	6993	Islam In India Or The Qanun-I-Islam: The Customs Of The Musalmans Of India; Comprising A Full And Exact Account Of Their Various Rites And Ceremonies From The Moment Of Birth To The Hour Of Death	Ja'far Sharif	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	1972
0000 A	6994	Islam: Beliefs And Institutions	H. Lammens, S.J. , Sir E. Denison Ross (Trans.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	300.00	1979
0000 A	6995	Jahangir And The Jesuits: With An Account Of The Travels Of Benedict Goes And The Mission To Pegu	C.H. Payne, Trs., Relation Of Father Fernao Guerreiro, S.J.	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	1997
0000 A	6996	Jain Philosophy: Historical Outline	N.N. Bhattacharyya	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	425.00	1999
0000 A	6997	Jaina Art	Ananda K. Coomaraswamy	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	1994
0000 A	6998	Jnanagarbha's Commentary On Just The Maitreya Chapter From The Samdhinirmocana-Sutra: Study, Translation And Tibetan Text	John Powers	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	250.00	1998
0000 A	6999	Journal Of A March From Delhi To Peshawur And From Thence To Cabul: With The Mission Of	Lieut. William Barr, Bengal Horse Artillery	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	550.00	2003
0000 A	7000	Journals Of Travels: In Assam, Burma, Bootan, Affghanistan And The Neighbouring Countries	William Griffith	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1395.00	2001
0000 A	7001	Kabir And The Kabir Panth	G.H. Westcott	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	275.00	2007
0000 A	7002	Kalidas Bhattacharyya (The Builders Of Indian Philosophy Series)	Debabrata Sinha, R. Balasubramanian (Gen. Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	2003
0000 A	7003	Kalidasa's Meghaduta: Edited from Manuscripts with the commentary of Vallabhadeva and provided with a complete Sanskrit-English Vocabulary	E. Hultzsch	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	300.00	1998
0000 A	7004	Kapila: Founder Of Samkhya And Avatara Of Visnu: (With A Translation Of Kapilasurisamvada)	Knut A. Jacobsen	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	650.00	2008
0000 A	7005	Karma And The Rebirth Of Consciousness	Bodo Balsys	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	595.00	2006
0000 A	7006	Kashmir Shivadvayavada Ki Mool Avadharanayen	Navjeevan Rastogi	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	2002
0000 A	7007	Kaunda Bhatta's Vaiyakaranabhusanasara: An Analytical Study	Sandhya Rathore	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	300.00	1998
0000 A	7008	Kautiliya Arthasastra Revisited: History Of Science, Philosophy And Culture In Indian Civilization	Surendra Nath Mital	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	225.00	2004
0000 A	7009	Kavitavali: (Complete Works Of Goswami Tulsidas, Vol. V)	S.P. Bahadur (Tr.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	400.00	1997

0000 A	7010	Khurasan And Sistan	Lieut.-Colonel C.E. Yate	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1295.00	2004
0000 A	7011	Knowledge, Truth And Realism: Essays In Philosophical Analysis	Pranab Kumar Sen (Author), Manidipa Sen, Madhucchanda Sen & Nirmalya Narayan Chakraborty (Eds)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	250.00	2007
0000 A	7012	Ladakh And Western Himalayan Politics: 1819-1848; The Dogra Conquest Of Ladakh, Baltistan And West Tibet And Reactions Of Other Powers	C.L. Datta, Prof. Parshotam Mehra (Foreword)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	1973
0000 A	7013	Land System In Northern India: C. Ad 400-C. Ad 700	Saroj Dutta	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	1995
0000 A	7014	Language, Knowledge And Ontology	K. K. Banerjee, Ed. By Kalyan Sen Gupta & Krishna Roy	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	225.00	1995
0000 A	7015	Language, Logic And Science In India Some Conceptual And Historical Perspectives (PHISPC Monograph Series On History Of Philosophy, Science And Culture In India), 4	D.P. Chattopadhyaya & Ravinder Kumar	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	80.00	2010
0000 A	7016	Language, Testimony And Meaning	Sibajiban Bhattacharyya	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	250.00	1998
0000 A	7017	Later Mughals, 2 Vols (Bound In 1)	William Irvine , Ed. By Jadunath Sarkar	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	750.00	1996
0000 A	7018	Lectures Against Sociolinguistics	Rajendra Singh	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	400.00	1998
0000 A	7019	Life And Conditions Of The People Of Hindustan	K.M. Ashraf	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	1988
0000 A	7020	Life And Times Of Malik Ambar	Radhey Shyam	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	1968
0000A	7021	Life In Ancient India As Depicted In Jaina Canon And Commentaries: (6Th Century Bc To 17Th Century Ad)	Jagdishchandra Jain	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	650.00	1984
0000 A	7022	Linguistic Theory, Language Contact, And Modern Hindustani: The Three Sides Of A Linguistic Theory	Rajendra Singh	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	1998
0000 A	7023	Living By Zen (Pb)	Daisetz Teitaro Suzuki , Ed. By Christmas Humphreys	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	225.00	2011
0000 A	7024	Local Self-Government In India	M.P. Sharma, A. Avasthi (Forword)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	150.00	1978
0000 A	7025	M. Hiriyanna (The Builders Of Indian Philosophy Series)	T.P. Ramachandran	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	650.00	2001
0000 A	7026	Madhava Kandali Ramayana: Composed In Assamese By Sage Madhava Kandali, The Great Son Of The Soil In The Fourteenth Century AD (Ramayana In Regional Languages Series, Vol. I), 2 Parts	Shanti Lal Nagar (Trans.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	950.00	2000
0000 A	7027	Manasara On Architecture And Sculpture: Sanskrit Text With Critical Notes, Manasara Series: Vol. III	Prasanna Kumar Acharya	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1000.00	1995

0000 A	7028	Maratha Confederacy: A Study In Its Origin And Development	V.S. Kadam	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	300.00	1993
0000 A	7029	Maritime India: Ports And Shipping	Animesh Ray	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	650.00	1995
0000 A	7030	Marxian Ethics: Some Preliminary Considerations	Bhuvan Chandel	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	250.00	1979
0000 A	7031	Masulipatnam And Cambay: A History Of Two Port-Towns 1500-1800	Sinnappah Arasaratnam And Aniruddha Ray, Forward By Prof. Irfan Habib	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	1994
0000 A	7032	Mathematics, Astronomy And Biology In Indian Tradition Some Conceptual Preliminaries (PHISPC Monograph Series On History Of	D.P. Chattopadhyaya & Ravinder Kumar	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	120.00	2010
0000 A	7033	Mediaeval Researches: From Eastern Asiatic Sources, 2 Vols.	E. Bretschneider	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	2000.00	2001
0000 A	7034	Mediaeval Sinhalese Art: Being A Monograph On Mediaeval Sinhalese Arts And Crafts, Mainly As Surviving In The Eighteenth Century, With An Account Of The Structure Of Society And The Status Of The Craftsmen	Ananda K. Coomaraswamy	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	2200.00	2003
0000 A	7035	Medieval Bhakti Movements In India: Sri Caitanya Quincentenary Commemoration Volume	N.N. Bhattacharyya (Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	1999
0000 A	7036	Medieval Mysticism Of India	Kshitimohan Sen, Foreword By Rabindranath Tagore, Manomohan Ghosh (Tr.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	400.00	1974
0000 A	7037	Mental Health And Hindu Psychology	Swami Akhilananda	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	2005
0000 A	7038	Merchants And Rulers In Gujarat: The Response To The Portuguese In The Sixteenth Century	M. N. Pearson	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	750.00	1976
0000 A	7039	Mining And Metallurgy In Ancient India	Rina Srivastava	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	650.00	2006
0000 A	7040	Minor Works: (Complete Works Of Goswami Tulsidas, Vol. VI)	S.P. Bahadur (Tr.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	1998
0000 A	7041	Mira Bai And Her Padas	Krishna P. Bahadur (Trans.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	250.00	2002
0000 A	7042	Mithuna: The Male- Female Symbol In Indian Art And Thought	Prithvi K. Agrawala, Professor T. R. V. Murti (Foreword)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	995.00	1983
0000 A	7043	Mlecchas In Early India: A Study In Attitudes Towards Outsiders Upto Ad 600	Aloka Parasher	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	1991
0000 A	7044	Modality Reference And Sense: An Essay In The Philosophy Of Language	Sitansu S. Chakravarti	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	300.00	2002
0000 A	7045	Modern Nepal	Ram Rahul	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	150.00	1985
0000 A	7046	Modern Religious Movements In India	J.N. Farquhar	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	1998

0000 A	7047	Modern Tibet	Ram Rahul	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	195.00	1992
0000 A	7048	Mongolia Between China And The USSR	Ram Rahul	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	150.00	1989
0000 A	7049	Mughal Painting: An Interplay Of Indigenous And Foreign Traditions	Ashok Kumar Srivastava	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	2295.00	2000
0000A	7050	Mughal Relations With The Indian Ruling Elite	Iqtidar Husain Siddiqui	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	1983
0000 A	7051	Mughals In India: A Bibliographical Survey (Vol. I-Manuscripts Supplementary Part I)	D.N. Marshall	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	600.00	1996
0000 A	7052	Mukatabat-I-Allami (Insha'i Abu'l Fazl) Daftar I	Mansura Haidar	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	1998
0000 A	7053	Music : Its Form, Function And Value	Prajnanananda	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	400.00	1979
0000 A	7054	Music And Musical Thought In Early India	Lewis Rowell	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	600.00	1998
0000 A	7055	Music Of The Nations: A Comparitive Study	Swami Prajnanananda	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	2002
0000 A	7056	Muslim Communities In Gujarat: Preliminary Studies In Their History And Social Organization	Satish C. Misra	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	1985
0000 A	7057	Muslim Political Thought And Administration	Haroon Khan Sherwani	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	300.00	1981
0000 A	7058	Myth, Cult And Symbols In Sakta Hinduism: A Study Of The Indian Mother Goddess	Wendell Charles Beane	w	650.00	2001
0000 A	7059	Myths Of The North-East Frontier Of India	Verrier Elwin	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	750.00	1999
0000 A	7060	Narada, Brhaspati And Katyayana: A Comparative Study In Judicial Procedure	Madhukar M. Patkar	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	1978
0000 A	7061	Narrative Of Various Journeys In Balochistan, Afghanistan And The Panjab, 3 Vols	Charles Masson	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	2400.00	1997
0000 A	7062	Narrative Of Various Journeys In Balochistan, Afghanistan And The Panjab, 4 Vols	Charles Masson	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	3200.00	1997
0000 A	7063	Narrative Of Various Journeys In Balochistan, Afghanistan And The Punjab 1826 To 1838 (Vol. IV: Kalat)	Charles Masson	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	800.00	2001
0000 A	7064	Nimbarka: A Pre-Samkara Vedantin And His Philosophy	Joseph Satyanand	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	1997
0000 A	7065	Numismatic Art Of India, 2 Vols	B.N. Mukherjee	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	3000.00	2007
0000 A	7066	Nuskha Dar Fanni-Falahat: (The Art Of Agriculture); (Persion Manuscript Compiled In The 17Th Century By The Mughal Prince Dara Shikoh) (Agri-History Bulletin No. 3)	Razia Akbar (Tr.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	2000
0000 A	7067	Nyayabhasyavarttika Of Bharadvaja Uddyotakara (Nyayacaturgranthika: Vol.II)	Anantalal Thakur (Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	625.00	1997

0000 A	7068	Nyayadarsanam: With Vatsyayana's, Uddyotkara's Varttika, Vacaspati Misra's Tatparyatika & Visvanatha's Vrtti	Taranatha Nyaya-Tarkatirtha (Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1000.00	2003
0000 A	7069	Nyayavarttikatatparyaparisuddhi Of Udayanacarya (Nyayacaturgranthika: Vol. IV)	Anantalal Thakur (Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	680.00	1996
0000 A	7070	On Rational Historiography: An Attempt At Logical Construction Of A Historiography Of Sciences In India (History Of Science, Philosophy And Culture In Indian Civilization)	V. Shekhawat	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	290.00	2007
0000 A	7071	Origin And Growth Of Feudalism In Early India: From The Mauryas To Ad 650	Gian Chand Chauhan	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	400.00	2004
0000 A	7072	Origin And Nature Of Ancient Indian Buddhism (Hb)	K.T.S. Sarao	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	895.00	2010
0000 A	7073	Origin And Nature Of Ancient Indian Buddhism (Pb)	K.T.S. Sarao	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	495.00	2010
0000 A	7074	Outlines Of Linguistic Analysis (Pb)	Bernard Bloch And George L. Trager	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	150.00	1972
0000 A	7075	P.T. Raju (Builders Of Indian Philosophy Series)	K. Srinivas	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	2001
0000 A	7076	Paksata: The Nature Of The Inferential Locus; (A Psycho-Epistemological Investigation Of The Inferential Process)	N.S. Dravid	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	2007
0000 A	7077	Pali Literature And Language	Wilhelm Geiger, Eng.Trans. By Batakrishna Ghosh	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	495.00	2012
0000 A	7078	Pali-English Dictionary	T. W. Rhys Davids And William Stede	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1100.00	2008
0000A	7079	Panini: His Description Of Sanskrit: An Analytical Study Of The Astadhyayi	Jag Deva Singh, Foreword By Dr. Sumitra Mangesh Katre	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	1991
0000 A	7080	Passionate Enlightenment: Women In Tantric Buddhism	Miranda Shaw	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	650.00	2008
0000 A	7081	Patanjali's Yoga Sutras: With The Commentary Of Vyasa And The Gloss Of Vachaspati Misra	Rama Prasada, (Trs)., With An Intr. From Rai Bahadur Srisa Chandra Vasu	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	495.00	2014
0000 A	7082	Perso-Arabic Sources Of Information On The Life And Conditions In The Sultanate Of Delhi	Iqtidar Husain Siddiqui	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	1992
0000 A	7083	Personal Narrative Of A Journey From India To England : by Bussorah, Bagdad, the Ruins of Babylon, Curdistan, the Court of Persia, the Western Shore of the Caspian Sea, Astrakhan, Nishney Novogorod, Moscow, and St. Petersburgh, in the Year 1824, 2 Vols	George Keppel, Captain, The Hon.	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1395.00	2004
0000 A	7084	Personal Salvation And Filial Piety: Two Precious Scroll Narratives Of Guanyin And Her Acolytes	Wilt L. Idema, Tr.	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	850.00	2009
0000 A	7085	Perspectives On Consciousness	Amita Chatterjee	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	300.00	2003

0000 A	7086	Philosophical Foundation Of Bengal Vaisnavism: (A Critical Exposition)	Sudhindra Chandra Chakravarti	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	600.00	2004
0000 A	7087	Philosophical Foundations Of Hinduism: The Vedas, The Upanisads And The Bhagavadgita: A Reinterpretation And Critical Appraisal	R.S. Misra	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	950.00	2002
0000 A	7088	Philosophy Of Numbers	Jayant Burde	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	575.00	2007
0000 A	7089	Plant Myths And Traditions In India (Revised And Enlarged Edition)	Shakti M. Gupta, Late Dr. C. Sivaramamurti(Foreword)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	2013
0000 A	7090	Political History And Institutions Of The Early Turkish Empire Of Delhi (1206-1290 Ad)	Muhammad Aziz Ahmad, Muhammad Habib (Foreword By)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	1972
0000 A	7091	Poor And Pregnant In New Delhi, India	Helen Vallianatos	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	695.00	2010
0000 A	7092	Portrait Of A Dalai Lama: The Life And Times Of The Great Thirteenth	Charles Bell	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	550.00	2000
0000 A	7093	Prakrit Narrative Literature: Origin And Growth	Jagdishchandra Jain	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	400.00	1981
0000 A	7094	Prasada Mandana Of Sutradhara Mandana: Sanskrit Text And English Translation With Notes And Glossary	Raghunath Purushottam Kulkarni	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	750.00	2005
0000 A	7095	Prehistoric And Historic Archaeology Of Gujarat	H.D. Sankalia	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	750.00	1987
0000 A	7096	Primal Spirituality Of The Vedas: Its Renewal And Renaissance, (History of Science, Philosophy and Culture in Indian Civilization)	R. Balasubramanian, D. P. Chattopadhyaya (Gen. Edit.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	260.00	2005
0000 A	7097	Principles Of Buddhist Tantra: A Discourse On Cittavisuddhi-Prakarana Of Aryadeva	Mathew Varghese	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	600.00	2008
0000 A	7098	Print And Power: Confucianism, Communism, And Buddhism In The Making Of Modern Vietnam	Shawn Frederick Mchale	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	795.00	2010
0000 A	7099	Prolegomena To A History Of Buddhist Philosophy	Late Benimadhab Barua	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	100.00	1974
0000 A	7100	Prolegomena To Any Future Historiography Of Cultures And Civilizations (History Of Science, Philosophy And Culture In Indian Civilization)	Daya Krishna, General Ed. D. P. Chattopadhyaya	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	
0000 A	7101	Prostitution In Thailand: Myth And Reality	Lipi Ghosh	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	650.00	2002
0000 A	7102	Purvamimamsa From An Interdisciplinary Point Of View (History Of Science, Philosophy And Culture In Indian Civilization Vol. II Part 6)	K.T. Pandurangi (Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1950.00	2012
0000 A	7103	Rabindranath Tagore(The Builders Of Indian Philosophy Series)	Pabitrakumar Roy	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	550.00	2002
0000 A	7104	Ragas & Raginis: A Pictorial & Iconographic Study Of Indian Musical Modes Based On Original Sources (Vol. I: Text (History of Ragas, Iconography, Ragmala Texts and Criticism))	O.C. Gangoly	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	700.00	2004

0000 A	7105	Ramacharitmanasa: (Complete Works Of Goswami Tulsidas, Vol. I)	S.P. Bahadur (Tr.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	550.00	2008
0000 A	7106	Ramavataracarita: Composed In Kashmiri By Sri Prakasa Rama Kuryagrami, The Son Of The Soil In The Nineteenth Century Ad, (Ramayana In Regional Languages Series Vol. Ii)	Shanti Lal Nagar (Trans.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	2001
0000 A	7107	Ramayana Traditions In Eastern India: Assam, Bengal, Orissa	W. L. Smith	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	1995
0000A	7108	Realism: Responses And Reactions (Essays In Honour Of Pranab Kumar Sen)	D.P. Chattopadhyaya, Et Ed.	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	850.00	2000
0000 A	7109	Recent Developments In Analytic Philosophy	R.C. Pradhan	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	650.00	2001
0000 A	7110	Recent Studies In Indian Archaeology, (Indian Council Of Historical Research Monograph Series-6)	K. Paddayya (Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	950.00	2002
0000 A	7111	Religion And Rajput Women: The Ethic Of Protection In Contemporary Narratives	Lindsey Harlan	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	400.00	1994
0000 A	7112	Religions Of Ancient India	Louis Renou	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	250.00	1972
0000 A	7113	Religions Of India In Practice	Donald S. Lopez, Jr. (Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	850.00	1998
0000 A	7114	Religions Of Tibet In Practice	Donald S. Lopez , Jr. (Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	750.00	1998
0000 A	7115	Religious Thought And Life In India: Vedism, Brahmanism And Hinduism: An Account Of The Religions Of The Indian Peoples, Based On A Life's Study Of Their Literature And On Personal Investigations In Their Own Country	Monier Williams	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	1974
0000 A	7116	Researches On Ptolemy's Geography Of Eastern Asia: (Further India And Indo-Malay Archipelago) (Asiatic Society Monographs- No. 1)	G. E. Gerini	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	800.00	1974
0000 A	7117	Rg-Bhasya-Sangraha (A Handbook Of Rgvedic Hymns), (in Sanskrit)	Dr. Dev Raj Chanana (Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	300.00	1996
0000 A	7118	Riven By Lust: Incest And Schism In Indian Buddhist Legend And Historiography	Jonathan A. Silk	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	995.00	2009
0000 A	7119	Saiddhantic Bhasha Vigyan: Hindi Version Of Introduction To Theoretical Linguistics	John Leons, Trans. By Satyakam Varma	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	1972
0000 A	7120	Saiva Philosophy Of Kashmir	S.N. Kaul	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	2008
0000 A	7121	Sakya Or Buddhist Origins	Mrs Rhys Davids	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	1978
0000 A	7122	Samartha Theory Of Panini And Sentence Derivation	Dr. Mahavir	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	250.00	1984
0000 A	7123	Sandilyasutram: With The Commentary Of Svapnesvara	Nandalal Sinha	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	175.00	1998

0000 A	7124	Sangitaratnakara Of Sarngadeva: Text And English Translation With Comments And Notes; Chapter I, (Vol. I: Chapter I)	R.K. Shringy (Trans.) , Dr. Prem Lata Sharma	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	895.00	2013
0000 A	7125	Sanskrit Drama: Its Origin And Decline	Indu Shekhar	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	1977
0000 A	7126	Sanskrit Grammar: Including Both The Classical Language, And The Older Dialects, Of Veda And Brahmana (Hb)	William Dwight Whitney	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	750.00	2013
0000 A	7127	Sanskrit Natikas	Parvati Tandon	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	250.00	1986
0000 A	7128	Science And Philosophy Of Life	M.C. Nath	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	250.00	1981
0000 A	7129	Science, Philosophy And Culture In Historical Perspective (Phispc Monigraph Series On History Of Philosophy, Science And Culture In India: Vol. I)	D.P. Chattopadhyaya & Ravinder Kumar (Eds)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	145.00	2010
0000 A	7130	Seven Doors To Islam: Spirituality And The Religious Life Of Muslims	John Renard	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	550.00	1998
0000 A	7131	Shakti: Power In The Conceptual Structure Of Karimpur Religion	Susan Snow Wadley	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	1985
0000 A	7132	Shankara's Universal Philosophy Of Religion	Y. Masih	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	250.00	1987
0000 A	7133	Si-Yu-Ki: Buddhist Records Of The Western World: Translated From The Chinese Of Hiuen Tsiang, Ad 629	Samuel Beal	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	950.00	
0000 A	7134	Siddha Yoga Diksha (In Hindi)	Gurumai Chidvilasananda	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	250.00	1991
0000 A	7135	Sikh Ethics	Surindar Singh Kohli	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	100.00	1996
0000 A	7136	Sikh Predictions: (Based On All Relevant Texts)	Surindar Singh Kohli	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	200.00	2007
0000A	7137	Sind Revisited: With Notices Of The Anglo-Indian Army; Railroads; Past, Present, And Future, Etc. 2 Vols (Bound In One)	Richard F. Burton	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	750.00	1997
0000 A	7138	Sindh: And The Races That Inhabit The Valley Of The Indus With Notices Of The Topography And History Of The Province	Richard F. Burton	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	695.00	1998
0000 A	7139	Siva Sutras: The Supreme Awakening	Swami Lakshmanjoo	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	2010
0000 A	7140	Slaves Of The Lord: The Path Of The Tamil Saints	Vidya Dehejia	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	750.00	2002
0000 A	7141	Social Change In Contemporary Literature: A New Approach To Criticism In Sociology Of Literature	Raghuvir Sinha	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	200.00	1979
0000 A	7142	Some Aspects Of India's Philosophical And Scientific Heritage (PHISPC Monograph Series On History Of Philosophy, Science And Culture In India), 2	D.P. Chattopadhyaya & Ravinder Kumar	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	100.00	2010

0000 A	7143	Some Aspects Of Literary Criticism In Sanskrit Or The Theories Of Rasa And Dhvani	A. Sankaran	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	300.00	1973
0000 A	7144	Some Problems Of Indian Literature	M. Winternitz	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	200.00	1978
0000 A	7145	Specific Principles Of Kashmir Saivism	B.N. Pandit	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	2008
0000 A	7146	Spiritual Authority And Temporal Power In The Indian Theory Of Government	Ananda K. Coomaraswamy	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	200.00	1978
0000 A	7147	Srauta-Sutra Of Latyayana: With The Commentary Of Agniswami	Ananda Chandra Vedantavagisa (Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	800.00	1982
0000 A	7148	Sri Aurobindo (The Builders Of Indian Philosophy Series)	M.P. Pandit, General Ed. R. Balasubramanian	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	2007
0000 A	7149	Sri Aurobindo: A Descriptive Bibliography	H. K. Kaul, With A Foreword By Dr. C. D. Deshmukh	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	1972
0000 A	7150	Srimad Bhagavadgita: Sanskrit Text, English Translation And A Commentary	Nikunja Vihari Banerjee	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	200.00	1984
0000 A	7151	Srimadbhagavadgita (Sanskrit Text): with the commentaries Srimat-Sankarabhasya with Anandagiri; Nilakanthi; Bhasyotkarsadipika of Dhanapati; Sridhari; Gitarthasamgraha of Abhinavaguptacarya and Gudharthadipika of Madhusudana with Gudharthatattvaloka of Sridharmadattasarma (Bachchasarma), (in Sanskrit)	Wasudev Laxman Sastri Pansikar (Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1000.00	1996
0000 A	7152	Srimadbhagavatam: A Concise Narrative	Gunada Charan Sen, Amalendu Sen (Trans. In English)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	250.00	1986
0000 A	7153	Status Of Women And Population Growth In India	Dr. Mrs. K.P. Singh	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	250.00	1979
0000 A	7154	Studies In Hinduism	Rene Guenon, Ian Kesarcodi Watson(Trans.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	275.00	2002
0000 A	7155	Studies In Kautilya	M.V. Krishna Rao	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	1979
0000 A	7156	Studies In The Dharmasastra Of Manu	Nikunja Vihari Banerjee	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	200.00	1980
0000 A	7157	Studies In The Lankavatara Sutra: One of the most important texts of Mahayana Buddhism, in which almost all its pricipal tenets are presented, including the teaching of Zen	Daisetz Teitaro Suzuki	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	550.00	2007
0000 A	7158	Subramania Bharati: Personality And Poetry	S. Vijaya Bharati	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	1975
0000 A	7159	Sufis & Saints' Bodies: Mysticism, Corporeality, & Sacred Power In Islam	Scott Kugle	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	950.00	2009
0000 A	7160	Sultanate Architecture Of Pre-Mughal India	Elizabeth Schotten Merklinger	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1500.00	2005

0000 A	7161	T.M.P. Mahadevan: (The Builders of Indian Philosophy Series)	R. Balasubramanian	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	1998
0000 A	7162	T.R.V. Murti: (The Builders Of Indian Philosophy Series)	Harold Coward, General Ed. R. Balasubramanian	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	375.00	2003
0000 A	7163	T.V. Kapali Sastri: (The Builders of Indian Philosophy Series)	Prema Nandakumar, Gnrl. Ed. R. Balasubramaniam	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	1998
0000 A	7164	Tamil Siddhas: A Study From Historical, Socio-Cultural And Religio-Philosophical Perspectives	S.A. Sarma	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	600.00	2007
0000 A	7165	Tantra Yoga	Nik Douglas	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	1971
0000A	7166	Tantras: Their Philosophy And Occult Secrets	D.N. Bose (Ed.), Rev. Harilal Haldar	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	250.00	2004
0000 A	7167	Tattvabodha : Essays From The Lecture Series Of The National Mission For Munuscripts, Vol. II	Kalyan Kumar Chakravarty (Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	2008
0000 A	7168	Tattvabodha: Essays From The Lecture Series Of The National Mission For Manuscripts, Vol. I	Sudha Gopalakrishnan (Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	325.00	2006
0000 A	7169	Temple Gateways In South India: The Architecture And Iconography Of The Cidambaram Gopuras	James C. Harle	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	950.00	1995
0000 A	7170	Temples Of Telingana: The Architecture, Iconography Adn Sculpture Of The Calukya And Kakatiya Temples	M. Radhakrishna Sarma, Foreword By Prof Niharranjan Ray	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1000.00	1972
0000 A	7171	The Adhyatma Ramayana	Rai Bahadur Lala Baij Nath (Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	250.00	1979
0000 A	7172	The Adi Granth: Or The Holy Scriptures Of The Sikhs;Translated From The Original Gurumukhi	Ernest Trumpp	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1000.00	2010
0000 A	7173	The Administration Of The Sultanate Of Dehli	Ishtiaq Husain Qureshi	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	300.00	1971
0000 A	7174	The Alphabet: A Key To The History Of Mankind	David Diringer, Foreword By Sir Ellis Minns	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	895.00	2005
0000 A	7175	The Antiquities Of Kangra	Dilip K. Chakrabarti And S.J. Hasan	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	1984
0000 A	7176	The Archaeology Of The Deccan Routes: The Ancient Routes From The Ganga Plain To The Deccan	Dilip K. Chakrabarti	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	750.00	2005
0000 A	7177	The Art Of Kathakali	Avinash C. Pandeya, With A Foreword By Guru Gopi Nath	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	550.00	1999
0000 A	7178	The Art Of Sanskrit Poetry: An Introduction To Language And Poetics	Niels Hammer	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1500.00	2003
0000 A	7179	The Aryans: Myth And Archaeology	M.K. Dhavalikar	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	600.00	2007
0000 A	7180	The Asrama System: The History And Hermeneneutics Of A Religious Institution	Patrick Olivelle	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	650.00	2004

0000 A	7181	The Astadhyayi Of Panini Vol. II : English Translation Of Adhyaya One With Sanskrit Text, Translation, Word Boundary,Anuvrtti, Vrtti, Explanatory Notes, Derivational History Of Examples And Indices	Rama Nath Sharma	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	950.00	2000
0000 A	7182	The Astadhyayi Of Panini Vol. III : English Translation Of Adhyayas Two And Three With Sanskrit Text, Translation, Word Boundary,Anuvrtti, Vrtti, Explanatory Notes, Derivational History Of Examples And Indices.	Rama Nath Sharma	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1900.00	2002
0000 A	7183	The Astadhyayi Of Panini, 6 Vols	Rama Nath Sharma	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	9200.00	2002
0000 A	7184	The Astadhyayi Of Panini, Vol.VI : English Translation Of Adhyayas Seven And Eight With Sanskrit Text, Translation, Word Boundary,Anuvrtti, Vrtti, Explanatory Notes, Derivational History Of Examples And Indices	Rama Nath Sharma	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1800.00	2003
0000 A	7185	The Astadhyayi Of Panini, Vol. IV : English Translation Of Adhyayas Four And Five With Sanskrit Text, Translation, Word Boundary,Anuvrtti, Vrtti, Explanatory Notes, Derivational History Of Examples And Indices.	Rama Nath Sharma	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1950.00	2008
0000 A	7186	The Astadhyayi Of Panini, Vol. V : English Translation Of Adhyaya Six With Sanskrit Text, Translation, Word Boundary,Anuvrtti, Vrtti, Explanatory Notes, Derivational History Of Examples And Indices	Rama Nath Sharma	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1850.00	2001
0000 A	7187	The Astadhyayi Of Panini. Vol. I (Introduction To The Astadhyayi As A Grammatical Device)	Rama Nath Sharma	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	750.00	2002
0000 A	7188	The Atharvaveda: Sanskrit Text With English Translation	Devi Chand, Introductory M.C. Joshi	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1200.00	2014
0000 A	7189	The Avatars Of Modernity: Vasco Da Gama's Discovery And Indian Indentities In Perspective	Heinz Werner Wessler, Lars Kjaerholm & Niels Brimnes	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	650.00	2003
0000 A	7190	The Bhilsa Topes Or Buddhist Monuments Of Central India: Comprising A Brief Historicalsketch Of The Rise, Progress And Decline Of Buddhism; With An Account Of The Opening And Examination Of The Various Groups Of Topes Around Bhilsa	Alexander Cunningham	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1295.00	1997
0000 A	7191	The Bhumij Revolt (1832-33): (Ganga Narain's Hangama Or Turmoil)	Jagdish Chandra Jha, Forward By Dr. Ram Sharan Sharma	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	250.00	1967
0000 A	7192	The Book Of Ser Marco Polo: The Venetian, Concerning the Kingdoms and Marvels of the East, 2 Vols	Henry Yule & Henri Cordier	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	2000.00	1998
0000 A	7193	The Brahmasutras And Their Principal Commentaries: A Critical Exposition, (Sastranidhi, Dvaitavedantarasajna, Madhvamunipriya), 3 Vols	B. N. K. Sharma	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	2400.00	2008

0000 A	7194	The British In Bengal: A Study Of The British Society And Life In The Late Eighteenth Century	Suresh Chandra Ghosh	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	400.00	1998
0000A	7195	The Buddha And His Religion	J. Barthelemy Saint-Hilaire	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	1997
0000 A	7196	The Buddha's Ancient Path	Piyadassi Thera	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	2005
0000 A	7197	The Buddhist Annals And Chronicles Of South-East Asia	Kanai Lal Hazra	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	250.00	2002
0000 A	7198	The Buddhist View Of Knowledge And Reality	Moti Lal Pandit	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	650.00	2008
0000 A	7199	The Central Philosophy Of Buddhism: A Study Of Madhyamika System (Pb)	T.R.V. Murti	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	750.00	2013
0000 A	7200	The Champubharatam Of Srimad Anantkavi (in Sanskrit)	Narayan Ram Acharya Kavyatirtha (Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	400.00	1983
0000 A	7201	The City In South Asia: Pre-Modern And Modern	Kenneth Ballhatchet And John Harrison	MRML Distribution	3682.00	1980
0000 A	7202	The Civilizations Of The East India	Rene Grousset	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	950.00	1969
0000 A	7203	The Classical Law Of India	Robert Lingat	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	400.00	1993
0000 A	7204	The Concept Of Indian Literature	Vinayak Krishna Gokak	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	400.00	1979
0000 A	7205	The Concept Of Man In Sikhism	Lajwanti Lahori	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	275.00	2001
0000 A	7206	The Concept Of Theft In Classical Hindu Law: An Analysis And The Idea Of Punishment	Chanchal A. Bhattacharya	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	1990
0000 A	7207	The Cult Of Nothingness: The Philosophers And The Buddha	Roger-Pol Droit	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	750.00	2009
0000 A	7208	The Culture And Art Of India	Radhakamal Mukerjee	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	950.00	1984
0000 A	7209	The Daily Practice Of The Hindus: Containing The Morning And Midday Duties	Srisa Chandra Vasu	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	250.00	2000
0000 A	7210	The Dance Of Shiva: Fourteen Indian Essays With An Introductory Preface By Romain Rolland (Pb)	Ananda K. Coomaraswamy	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	395.00	2012
0000 A	7211	The Dasam Granth: The Second Scripture Of The Sikhs Written By Sri Guru Gobind Singh	Surindar Singh Kohli(Trans.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1200.00	2005
0000 A	7212	The Dhammapada: A Translator's Guide with Pali text, Romanised version	K.T.S. Sarao	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	995.00	2009
0000 A	7213	The Dhvanyaloka Of Anandavardhanacharya (in Sanskrit)	Durgaprasad And Kasinath Pandurang Parab (Ed.) Wasudev Laxman Sastri Pansikar (Rev.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	1998
0000 A	7214	The Din-I-Ilahi Or The Religion Of Akbar	Makhan Lal Roy Choudhury	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	1997
0000 A	7215	The Divine Songs Of Sage Poet Ramprasad	Shyamal Banerjee	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	2004

0000 A	7216	The Doctrine Of Liberation In Indian Religion: With Special Reference To Jainism	Muni Shivkumar, Foreword By L.M. Joshi	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	2000
0000 A	7217	The Dutch Factories In India 1617-1623: A Collection Of Dutch East India Company Documents Pertaining To India	Om Prakash	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	400.00	1984
0000 A	7218	The Early History Of Gold In India	Rajni Nanda	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	1992
0000 A	7219	The Early Upanisads: Annotated Text And Translation	Patrick Olivelle	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1500.00	1998
0000 A	7220	The Eight Nayikas	Ananda K. Coomaraswamy	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	400.00	2000
0000 A	7221	The End Of Empires: African Americans And India	Gerald Horne	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	795.00	2010
0000 A	7222	The Epigrams Attributed To Bhartrhari: Including The Three Centuries For The First Time Collected And Critically Edited, With Principal Variants And An Introduction	D. D. Kosambi With A Foreword By Acharya Jinavijaya Muni	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	750.00	2000
0000 A	7223	The Epistemology Of Visistadvaita: A Study Based On The Nyayaparisuddhi Of Vedanta Desika	Vedavalli Narayanan	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	395.00	2008
0000A	7224	The Essentials Of Buddhist Philosophy	Junjiro Takakusu, Ed. By Wing-Tsit Chan And Charles A. Moore	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	300.00	2001
0000 A	7225	The Ethnology Of India: Antecedents And Ethnic Affinities Of Peoples Of India	Aloke K. Kalla ,Prof. V. Bhalla(Foreword)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	1994
0000 A	7226	The First Englishmen In India: Letters And Narratives Of Sundry Elizabethans Written By Themselves And Edited With An Introduction And Notes By	J. Courtenay Locke	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	1997
0000 A	7227	The Folk-Element In Hindu Culture: A Contribution To Socio-Religious Studies In Hindu Folk-Institutions	Benoy Kumar Sarkar	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	1972
0000 A	7228	The Formation Of The Maithili Language	Subhadra Jha	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	750.00	1985
0000 A	7229	The French East India Company And The Trade Of The Indian Ocean: A Collection Of Essays By Indrani Ray	Lakshmi Subramanian (Ed. With An Intro.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	650.00	1999
0000 A	7230	The Future Of Religion	Nikunja Vihari Banerjee	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	200.00	1981
0000 A	7231	The Geographical Dictionary Of Ancient And Mediaeval India	Nundo Lal Dey	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	600.00	1984
0000 A	7232	The Geographical Dictionary: Ancient And Early Medieval India	N.N. Bhattacharyya	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	850.00	1999
0000 A	7233	The Gheranda Samhita	Rai Bahadur Srisa Chandra Vasu, Trans.	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	150.00	2014
0000 A	7234	The Golden Germ: An Introduction To Indian Symbolism	F.D.K. Bosch	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	850.00	1994
0000 A	7235	The Great Men & Women Of Puranas	Kolar Krishna Iyer And Chikkerur Dheerendra Acharya	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	275.00	2003

0000 A	7236	The Great Mirror: An Essay On Wittgenstein's Tractatus	R.C. Pradhan	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	565.00	2007
0000 A	7237	The Greeks In Bactria And India	W. W. Tarn	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	800.00	1980
0000 A	7238	The Greeks In India: A Survey In Philosophical Understanding	Demetrious Th. Vassiliades	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	750.00	2000
0000A	7239	The Heritage Of Sankara	S.S. Roy	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	300.00	1982
0000 A	7240	The Hidden Way: A Study In Modern Religious Esoterism	Johannes Aagaard And Moti Lal Pandit	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	250.00	2002
0000 A	7241	The Hindu Jajmani System: A Socio-Economic System Interrelating Members Of A Hindu Village Community In Services	William Henricks Wiser	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	200.00	1988
0000 A	7242	The Hindu Philosophy Of Conduct: Lectures On The Bhagavadgita, Vol. II	M. Rangacharya	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	1989
0000 A	7243	The Hindu Philosophy Of Conduct: Lectures On The Bhagavadgita, Vol. III	M. Rangacharya	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	2003
0000 A	7244	The Hindu Quest For The Perfection Of Man	Troy Wilson Organ	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	1994
0000 A	7245	The History And Literature Of Buddhism (Pb)	T.W. Rhys Davids	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	175.00	1999
0000 A	7246	The History Of Buddhist Thought	Edward J. Thomas	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	2004
0000 A	7247	The History Of Education In Ancient India: C. 3000 Bc To Ad 1192	Suresh Chandra Ghosh	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	425.00	2001
0000 A	7248	The History Of Humayun: (Humayun-Nama) Translated with Introdution, Notes, Illustrations and Biographical Appendix and reproduced in the Persian from the only known MS. of the British Museum	Gul-Badan Begam (Princess Rose-Body), Tr. With Intr. Annette S. Beveridge	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	2001
0000 A	7249	The History Of Suicide In India: An Introdution	Upendra Thakur	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	400.00	1963
0000 A	7250	The Iconography Of Tibetan Lamaism	Antoinette K. Gordon	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1000.00	1998
0000 A	7251	The Illustrated Dictionary Of Hindu Iconography	Margaret Stutley	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	600.00	2003
0000 A	7252	The Imperial Guptas And Their Times: (Cir. Ad 300-550)	Sachindra Kumar Maity	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	1975
0000 A	7253	The Indian Craftsman	Ananda K. Coomaraswamy, Alvin C. Moore Jr. (Foreword)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	2004
0000 A	7254	The Indian Muslims	M. Mujeeb	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	600.00	2003
0000 A	7255	The Indian Stage, 4 Vols (Bound In Two), (Vols. I & II), (Vol. III & IV)	Hemendra Nath Das Gupta	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1600.00	2002
0000 A	7256	The Indian Theatre	Chandra Bhan Gupta, With A Foreword By Dr. Ludo Rocher	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	1991

0000 A	7257	The Italian Expedition To The Himalaya, Karakoram And Eastern Turkestan (1913-14)	Filippo De Filippi	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1800.00	2005
0000 A	7258	The Jaina Sources Of The History Of Ancient India (100 Bc-Ad 900)	Jyoti Prasad Jain	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	425.00	2005
0000 A	7259	The Joint Hindu Family: Its Evolution As A Legal Institution	Gunther-Dietz Sontheimer	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	600.00	1977
0000 A	7260	The Joys Of Death: How To Conquer The Fear Of Death (Hb)	Dr. Lake Singh	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	375.00	2005
0000 A	7261	The Joys Of Death: How To Conquer The Fear Of Death (Pb)	Dr. Lake Singh	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	250.00	2005
0000 A	7262	The Jummoo And Kashmir Territories: A Geographical Account	Frederic Drew	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1295.00	2002
0000 A	7263	The Kadambari Of Bana: Translated with Occasional Omissions; and Accompanted by a Full Abstract of the Continuation of the Romance by the Author's son Bhushan Abhatta	C.M. Ridding	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	1974
0000 A	7264	The Kafirs Of The Hindu-Kush	Goerge Scott Robertson	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	750.00	1998
0000 A	7265	The Kathakoca: Or Treasury Of Stories; Translated From Sanskrit Manuskripts	C. H. Tawney	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	400.00	1975
0000 A	7266	The Ksatriyas In Ancient India	Madhumita Chatterji	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	700.00	2007
0000 A	7267	The Lankavatara Sutra: A Mahayana Text	Daisetz Teitaro Suzuki, Moti Lal Pandit (Foreword)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	550.00	2013
0000A	7268	The Legend Of The Topes (Thupavamsa)	Bimala Churn Law (Trans.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	200.00	1986
0000 A	7269	The Life And Ideals Of Guru Gobind Singh: (Based On Original Sources)	Dr. Surindar Singh Kohli	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	200.00	1986
0000 A	7270	The Life Of Buddha: As Legend And History	Edward J. Thomas	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	2003
0000 A	7271	The Living Religions Of The Indian People: (Wilde Lectures, Oxford, 1932-34)	Nicol Macnicol	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	300.00	1979
0000 A	7272	The Living Thoughts Of Gotama Buddha	Ananda K. Coomaraswamy	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	400.00	1999
0000 A	7273	The Lotus And The Lion: Buddhism And The British Empire	J. Jeffrey Franklin	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	795.00	2009
0000 A	7274	The Mahabharata Of Krishna-Dwaipayana Vyasa: Translated into English Prose from the Original Sanskrit Text, 4 Vols (Pb)	Kisari Mohan Ganguli	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	4500.00	2012
0000 A	7275	The Mahabharata: What Is Not Here Is Nohere Else (Yannehasti Na Tadkvacit)	T.S. Rukmani	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	600.00	2005
0000 A	7276	The Matsya Puranam	Taluqdar Of Oudh (Trans.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	750.00	1980
0000 A	7277	The Merchant And The State: The French In India, 1666-1739, 2 Vols	Aniruddha Ray	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	2000.00	2004

0000 A	7278	The Metaphysics Of The Spirit: (Facets Of Recent Indian Philosophy), Vol. I	R. Balasubramanian, Ed. S.P. Dubey	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	150.00	1994
0000 A	7279	The Mind In Early Buddhism	Bh. Thich Minh Thanh	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	425.00	2008
0000 A	7280	The Mirror Of Gesture: Being The Abhinaya Darpana Of Nandikesvara	Ananda Coomaraswamy And Gopala Kristnayya Duggirala (Trans.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	225.00	2010
0000 A	7281	The Music Of Hindostan	A. H. Fox Strangways	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	550.00	1994
0000 A	7282	The Music Of India	Atiya Begum Fyzee-Rahamin	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	300.00	1979
0000 A	7283	The Music Of India: A Scientific Study	B. Chaitanya Deva	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	795.00	2011
0000 A	7284	The Nagabanshis And Cheros	Balmukund Virottam	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	1972
0000 A	7285	The New Tibetan-English Dictionary Of Modern Tibetan	Melvyn C. Goldstein (Ed), T. N. Shelling And J. T. Surkhang(Asst Ed)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1750.00	2004
0000 A	7286	The Occult Mind: Magic In Theory And Practice	Christopher I. Lehrich	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	395.00	2009
0000 A	7287	The Origin Of Man And His Culture	Stephen Fuchs	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	400.00	1983
0000 A	7288	The Original Yoga: As Expounded In Sivasamhita, Gherandasamhita, And Patanjala Yogasutra (Hb)	Shyam Ghosh	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	2009
0000 A	7289	The Paradox Of Being Human	Ramakant Sinari	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	2007
0000 A	7290	The Paramaras (C.800-1305 A.D.)	Pratipal Bhatia	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	700.00	1970
0000 A	7291	The Parijataharanachampu Of Sesha Srikrishna	Pt. Durgaprasad & Kasinath Pandurang Parab (Ed.) , Rev. By Wasudev Laxman Sastri Pansikar	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	150.00	1983
0000 A	7292	The Partition Of The Punjab (1849-1947)	Prem Vati Ghai	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	1986
0000 A	7293	The Pauranic Lore Of Holy Water-Places (With Special Reference To Skanda Purana)	Savitri V. Kumar	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	650.00	1983
0000 A	7294	The People Of India	Herbert Risley, William Crooke (Edit.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	800.00	1991
0000 A	7295	The People Of Tibet	Charles Bell	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	2000
0000 A	7296	The Periplus Of The Erythraean Sea: Travel And Trade In The Indian Ocean By A Merchant Of The First Century	Wilfred H. Schoff, Trs.	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	795.00	2011
0000A	7297	The Philosophy And Religion Of Sri Caitanya (The Philosophical Background Of The Hare Krishna Movement)	O.B.L. Kapoor	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	2008
0000 A	7298	The Philosophy Of G.R. Malkani	Sharad Deshpande (Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	375.00	1997

0000 A	7299	The Philosophy Of Life: (Facets Of Recent Indian Philosophy), Vol. IV	S.P. Dubey (Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	400.00	1998
0000 A	7300	The Philosophy Of The Bhagavadgita: A Study Based On The Evaluation Of The Commentaries Of Samkara, Ramanuja And Madhva	S.M. Srinivasa Chari, With A Foreward By Mm. V. Srivatsankacharya	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	875.00	2014
0000 A	7301	The Philosophy Of The Upanishads: (The Religion and Philosophy of India)	Paul Deussen	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	1979
0000 A	7302	The Philosophy Of The Vedantasutra: A Study Based On The Evaluation Of The Commentaries Of Samkara, Ramanuja And Madhva	S.M. Srinivasa Chari, Mm. N.S. Ramanuja Tatacharya (Foreword)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	400.00	2010
0000 A	7303	The Pisaca Languages Of North-Western India	George Abraham Grierson	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	400.00	1969
0000 A	7304	The Prajnaparamita Literature	Edward Conze	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	2008
0000 A	7305	The Raga-s Of Northern Indian Music	Alain Danielou	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	895.00	2014
0000 A	7306	The Ramayana Of Valmiki: Translated From The Original Sanskrit	Makhan Lal Sen	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	795.00	2008
0000 A	7307	The Ramayana: A Linguistic Study	Satya Vrat, With Foreword By Dr. Suniti Kumar Chatterji	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	550.00	1964
0000 A	7308	The Religion Of Tibet	Charles Bell	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	400.00	1997
0000 A	7309	The Rgvedic Deities And Their Iconic Forms	Jyotsna Chawla	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1000.00	1990
0000 A	7310	The Rise And Decline Of Buddhism In India	Kanai Lal Hazra	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	750.00	2009
0000 A	7311	The Saktas: An Introductory And Comparative Study	Ernest A. Payne	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	200.00	1997
0000 A	7312	The Samaveda: Sanskrit Text With English Translation	Devi Chand, With Intr. Remarks By M.C. Joshi	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	650.00	2010
0000 A	7313	The Sankhya Aphorisms Of Kapila: With Extracts From Vijnanabhiksu's Commentary	James R. Ballantyne .(Trans. And Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	2003
0000 A	7314	The Sansis Of Punjab: (A Gypsy And De-Notified Tribe Of Rajput Origin)	Sher Singh "Sher"	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	750.00	1965
0000 A	7315	The Script Of Harappa And Mohenjodaro And Its Connection With Other Scripts	G. R. Hunter, Intr. By Prof S. Langdon	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	850.00	2003
0000 A	7316	The Shi'a Of India	John Norman Hollister	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	600.00	1979
0000 A	7317	The Sikh Gurus And The Sikh Religion	Anil Chandra Banerjee	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	400.00	1983
0000 A	7318	The Siva Samhita	Rai Bahadur Srisa Chandra Vasu	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	150.00	2008
0000 A	7319	The Splendour Of Buddhism	Ankul Chandra Banerjee	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	200.00	1991

0000 A	7320	The Srimad-Bhagavatam Of Krishnadwaipayana Vyasa: (Translated into English prose from the original Sanskrit text with exhaustive index of proper names and words), 2 Vols	J M Sanyal	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1200.00	2000
0000 A	7321	The Sukraniti	Benoy Kumar Sarkar	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	400.00	1975
0000 A	7322	The Temples Of Bikkavolu	S. Nageswara Rao	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	950.00	2005
0000 A	7323	The Texts Of The White Yajurveda: Translated With A Popular Commentary	Ralph T.H. Griffith	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	600.00	1987
0000 A	7324	The Theatres Of Bharata And Some Aspects Of Sanskrit Play-Production	Goverdhan Panchal, With A Foreword By Dr. Kapila Vatsyayana	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	1996
0000 A	7325	The Tibetan Book Of The Great Liberation: or the Method of Realizing nirvana through knowing the Mind preceded by an Epitome of Padma-Sambhava's Biography (Pb)	W. Y. Evans-Wentz	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	325.00	2000
0000A	7326	The Tradition Of Advaita: Essays In Honour Of Bhasyabhavajna V.R. Kalyanasundara Sastri	R. Balasubramanian (Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	1994
0000 A	7327	The Tribal Village In Bihar: A Study In Unity And Extension	Sachchidananda	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	1968
0000 A	7328	The Tuzuk-I-Jahangiri: Or Memoirs Of Jahangir	Alexander Rogers And Henry Beveridge	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1000.00	
0000 A	7329	The Universe Of Acharya Sushil Muni: The Philosophy Of The World Religion	Acarya Dr, Sadhvi Sadhana, Foreword By Shri Shivraj V. Patil	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	600.00	2005
0000 A	7330	The Vedantasutras Of Badarayana: With The Commentary Of Baladeva	Srisa Chandra Vasu (Trans.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	900.00	2002
0000 A	7331	The Voyage Of John Huyghen Van Linschoten To The East Indies: From The Old English Translation Of 1598; The First Book Containing His Description Of The East In Two Volumes, 2 Vols	Arthur Coke Burnell And P.A. Tiele	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	950.00	1997
0000 A	7332	The Voyage Of Nicholas Downton To The East Indies 1614-15: As Recorded In Contemporary Narratives And Letter	Sir William Foster	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	1997
0000 A	7333	The Voyage Of Thomas Best To The East Indies 1612-14	William Foster, Edited	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	550.00	1997
0000 A	7334	The Voyages Of Sir James Lancaster, Kt. To The East Indies: With Abstracts Of Journals Of Voyages To The East Indies, During The 17Th Century, Preserved In The India Office And The Voyage Of Captain John Knight (1606), To Seek The North-West Passage	Clements R. Markham	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	595.00	1998
0000 A	7335	The War That Wasn't: The Sufi And The Sultan	Fatima Hussain	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	695.00	2009
0000 A	7336	The Way Of Love: The Bhagavata Doctrine Of Bhakti	Subhash Anand	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	400.00	1996

0000 A	7337	The Ways Of Understanding The Human Past: Mythic, Epic, Scientific And Historic, (History of Science, Philosophy and Culture in Indian Civilization)	D.P. Chattopadhyaya	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	295.00	2010
0000 A	7338	The Wrestler's Body: Identity And Ideology In North India	Joseph S. Alter	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	750.00	1997
0000 A	7339	The Yajurveda: Sanskrit Text With English Translation	Devi Chand, With Intr. Remarks By M.C Joshi	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	750.00	2009
0000 A	7340	Theism In Medieval India	J. Estlin Carpenter	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	750.00	1977
0000 A	7341	Theoretical Issues In Indian Archaeology	Dilip K. Chakrabarti	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	300.00	1988
0000 A	7342	Thirty Years Of Buddhist Studies	Edward Conze	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	2008
0000 A	7343	Tibet's Great Yogi Milarepa: A Biography From The Tibetan being the Jetsun-Kahbum; Or Biographical History of Jetsun-Milarepa, According to the Late Lama Kazi Dawa-Samdup's English Rendering(Pb)	W. Y. Evans-Wentz	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	325.00	2000
0000 A	7344	Tibetan And Buddhist Studies: Commemorating The 200th Anniversary Of The Birth Of Alexander Csomo De Koros, 2 Vols	Louis Ligeti, (Ed).	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	2000.00	2000
0000 A	7345	Tibetan Religious Art	Antoinette K. Gordon	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	750.00	1997
0000 A	7346	Trade, Politics And Plunder: The Marathas At Cambay; C. Ad 1725-1825	Aniruddha Ray	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	495.00	2006
0000 A	7347	Trade And Traders In Western India (Ad 1000-1300)	V.K. Jain	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	550.00	1990
0000 A	7348	Tradition And Modernity: India And Japan Towards The Twenty-First Century	Hiroichi Yamaguchi And Haruka Yanagisawa (Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	550.00	1997
0000 A	7349	Traditions Of Science: Cross-Cultural Perspectives, (Essays in Honour of B.V. Subbarayappa)	Purushottama Bilimoria & Melukote K. Sridhar	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1000.00	2007
0000 A	7350	Transcendence And Negation: A Study Of Budhist Compassion And Christian Love	Moti Lal Pandit	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	425.00	1999
0000 A	7351	Translations Of Hindi Works Into English: A Bibliography	Dipali Ghosh, Preface By Graham Shaw	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	400.00	1995
0000 A	7352	Travels And Adventures In The Province Of Assam, During A Residence Of Fourteen Years	Major John Butler	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	550.00	2004
0000 A	7353	Travels From India To England: Comprehending A Visit To The Burman Empire And A Journey Through Persia, Asia Minor, European Turkey, &C. In The Years 1825-26	James Edward Alexander	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	850.00	2000
0000 A	7354	Travels In India By Jean-Baptiste Tavernier, 2 Vols	V. Ball, Edited By William Crooke	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	950.00	2001
0000A	7355	Travels In India: During The Years 1780, 1781, 1782, And 1783	William Hodges	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	800.00	1999

0000 A	7356	Travels In The Himalayan Provinces Of Hindustan And The Panjab; in Ladakh and Kashmir; in Peshawar, Kabul, Kunduz, and Bokhara; From 1819-1825: 2 Vols (Bound In One)	William Moorcroft And George Trebeck	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	995.00	2005
0000 A	7357	Travels In The Mogul Empire Ad 1656-1668	Francois Bernier	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	695.00	1983
0000 A	7358	Trees And Woodlands Of South India: Archaelogical Perspectives	Eleni Asouti And Dorian Q. Fuller	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	2295.00	2010
0000 A	7359	Truth And Tradition In Chinese Buddhism: A Study Of Chinese Mahayana Buddhism	Karl Ludvig Reichelt	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	600.00	2001
0000 A	7360	Turkistan: Notes Of A Journey In Russian Turkistan, Khokand, Bukhara, And Kuldja, 2 Vols	Eugene Schuyler	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1600.00	2004
0000 A	7361	Twilight Of The Mughuls: Studies In Late Mughuls Delhi	Percival Spear	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	300.00	1991
0000 A	7362	Twilight Of The Sultanate: A Political, Social And Cultural History Of The Sultanate Of Delhi From The Invasion Of Timur To The Conquest Of Babur 1398-1526	Kishori Saran Lal	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	400.00	1980
0000 A	7363	Two Lamaistic Pantheons, 2 Vols	Walter Eugene Clark	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1750.00	1999
0000 A	7364	Upanisads Retold: Isavasyopanisad, Kenopanisad, Kathopanisad, Mundakopanisad, Prasnopanisad, and Brhadaranyakopanisad, Vol. I (Hb)	V.H. Date	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	400.00	1999
0000 A	7365	Upanisads Retold: Isavasyopanisad, Kenopanisad, Kathopanisad, Mundakopanisad, Prasnopanisad, and Brhadaranyakopanisad, Vol. I (Pb)	V.H. Date	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	300.00	1999
0000 A	7366	Upanisads Retold: Chandogyopanisad, Mandukyopanisad, Aitareyopanisad, Taittiriyopanisad, Svetasvataropanisad, Kausitakyopanisad, Maitri Upanisad, and Jabalopanisad, Vol. II (Hb)	V.H. Date	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	400.00	1999
0000 A	7367	Upanisads Retold: Chandogyopanisad, Mandukyopanisad, Aitareyopanisad, Taittiriyopanisad, Svetasvataropanisad, Kausitakyopanisad, Maitri Upanisad, and Jabalopanisad, Vol. II (Pb)	V.H. Date	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	300.00	1999
0000 A	7368	Urban Centres And Urbanisation: As Reflected In The Pali Vinaya And Sutta Pitakas, (Hb)	K.T.S. Sarao	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	795.00	2010
0000 A	7369	Urban Centres And Urbanisation: As Reflected In The Pali Vinaya And Sutta Pitakas, (Pb)	K.T.S. Sarao	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	395.00	2010
0000 A	7370	Urban Crafts And Craftsmen In Medieval India: (Thirteenth-Eighteenth Centuries)	Eugenia Vanina	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	2004

0000 A	7371	Urban Culture In Northern India During The Eighteenth Century	Muhammad Umar	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	750.00	2001
0000 A	7372	Vaisnavism Through The Ages	Rabindra Kumar Siddhantashastree	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	1985
0000 A	7373	Varanasi Rediscovered	B. Bhattacharya	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	575.00	1999
0000 A	7374	Vastu-Sastra (Vol. I), Hindu Science Of Architecture: (Engineering, Town Planning, Civil Architecture, Palace Architecture, Temple Architecture, And An Anthology Of Vastu-Laksanas)	D.N. Shukla	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1200.00	2008
0000 A	7375	Vastu-Sastra (Vol. II), Hindu Canons Of Iconography And Painting: (With An Anthology Of Pratima-Laksana And Citra-Laksana As Well As An Outline History Of Indian Painting, Archaeological And Literary)	D.N. Shukla	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1200.00	2003
0000 A	7376	Vedanta-Parijata-Saurabha Of Nimbarka And Vedanta-Kaustubha Of Srinivasa (Commentaries On The	Roma Bose (Trans), And Annotated	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	2000.00	2004
0000 A	7377	Vedic Grammar	A.A. Macdonell	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	750.00	2007
0000 A	7378	Vedic Mythology	A.A. Macdonell	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	395.00	2000
0000 A	7379	Verb-Morphology In Middle Indo-Aryan	Ravi Prakash	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	1975
0000 A	7380	Vicharsagar: The Metaphysics Of The Upanishads	Lala Sreeram, Trs. With Copious Notes	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	525.00	1994
0000 A	7381	Vinaya Patrika: (Complete Works Of Goswami Tulsidas, Vol. II)	S.P. Bahadur (Tr.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	1995
0000 A	7382	Visvakarma: Examples Of Indian Architecture, Sculpture, Painting, Handicraft	Ananda K. Coomaraswamy, Intr. By Eric Gill	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	750.00	1978
0000 A	7383	Wanderings Of A Pilgrim: in search of the picturesque, During four-and-twenty years in the east; with revelations of life in the zenana, 2 Vols	Fanny Parks	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	2750.00	1999
0000A	7384	War On Sacred Grounds	Ron E. Hassner	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	695.00	2010
0000 A	7385	Water Conduits In The Kathmandu Valley, 2 Vols	Raimund O.A. Becker-Ritterspach	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	5000.00	1995
0000 A	7386	Western Himalaya And Tibet: A Narrative Of A Journey Through The Mountains Of Northern India, During The Years 1847-8	Thomas Thomson	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	795.00	2000
0000 A	7387	Why Be Moral?	Archie J. Bahm	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	300.00	1980
0000 A	7388	Windows On The House Of Islam: Muslim Sources On Spirituality And Religious Life	John Renard (Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	750.00	1999
0000 A	7389	Women In India: A Brief Historical Survey	Tripta Desai	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	1997

0000 A	7390	Xuanzang And The Silk Route	Lokesh Chandra And Radha Banerjee (Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1000.00	2008
0000 A	7391	Yaksas: Two Parts (Bound in One)	Ananda K. Coomaraswamy	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	950.00	2001
0000 A	7392	Yogasutrabhasyavivarana Of Sankara: Vivarana text with English translation, and critical notes alongwith text and English translation of Patanjali's Yogasutras and Vyasabhasya, 2 Vols	T.S. Rukmani	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1600.00	2010
0000 A	7393	Yogavarttika Of Vijnanabhiksu: Text with English translation and critical notes along with the text and English translation of the Patanjala Yogasutra and Vyasabhasya, Vol. II (Sadhanapada)	T.S. Rukmani	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	
0000 A	7394	Yogavarttika Of Vijnanabhiksu: Text with English translation and critical notes along with the text and English translation of the Patanjala Yogasutras and Vyasabhasya, Vol. III (Vibhutipada)	T.S. Rukmani	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	2010
0000 A	7395	Yogavarttika Of Vijnanabhiksu: Text with English translation and critical notes along with the text and English translation of the Patanjana Yogasutras and Vyasabhasya, Vol. IV (Kaivalyapada)	T.S. Rukmani	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	2010
0000 A	7396	Yogavarttika Of Vijnanabhiksu: Text with English translation and critical notes along with the text and English translation of the Patanjala Yogasutras and Vyasabhasya, Vol. I (Samadhipada)	T.S. Rukmani	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	550.00	2007
0000 A	7397	A Textbook On Ancient History Of Indian Agriculture (Pb)	R.C. Saxena et al.	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	250.00	2009
0000 A	7398	Glimpses Of The Agricultural Heritage Of India	Y.L. Nene (Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1200.00	2007
0000 A	7399	Kashyapiyakrishisukti: (A Treatise On Agriculture By Kashyapa), (Agri History Bulletin No .4)	S.M. Ayachit (Tr.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	2002
0000 A	7400	Krishi Gita: (Agricultural Verses); [A Treatise On Indigenous Farming Practices Of The Malayalam Desam(Kerala] (Pb), (Agri-History Bulletin No.7)	B. Mohan Kumar (Trans.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	2008
0000 A	7401	Krishi-Parashara (Agriculture By Parashara): (A Text On Ancient Indian Agriculture In Sanskrit), (Agri-History Bulletin No. 2)	Nalini Sadhale (Trans.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	1999
0000 A	7402	Lokopakara: (For The Benefit Of People), (Agri-History Bulletin No.6) (Pb)	Valmiki Sreenivasa Ayangarya (Trans.), Commentaries By Y.L. Nene et al.	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	2006
0000 A	7403	Mriga-Pakshi-Shastra (The Science Of Animals And Birds), (c. 13th century AD)	Hamsadeva	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1200.00	2008

0000 A	7404	Surapala's Vrikshayurueda: (The Science Of Plant Life By Surapala), (Agri-History Bulletin No. 1)	Nalini Sadhale (Tr.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	300.00	1996
0000 A	7405	Vishvavallabha (Dear To The World: The Science Of Plant Life), (Agri-History Bulletin No. 5)	Nalini Sadhale (Tr.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	2004
0000 A	7406	A Golden Chain Of Civilizations: Indic, Iranic, Semitic And Hellenic Up To C. 600 Bc (History Of Science, Philosophy And Culture In Indian Civilization: Vol. I, Part 4)	G.C. Pande (Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	2125.00	2007
0000 A	7407	Advaita Vedanta (History Of Science, Philosophy And Culture In Indian Civilization, Vol. II, Part 2)	R. Balasubramanian (Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1200.00	2010
0000 A	7408	Aesthetic Theories And Forms In Indian Tradition : (History Of Science, Philosophy And Culture In Indian Civilization, Vol. VI, Part 1)	Kapila Vatsyayan And D. P. Chattopadhyaya (Ed.), Sharad Deshpande And A. K. Anand (Associ. Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	3000.00	2008
0000 A	7409	Chemistry And Chemical Techniques In India (History Of Science, Philosophy And Culture In Indian Civilization: Vol. IV, Part 1)	B.V. Subbarayappa (Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1200.00	2004
0000 A	7410	Consciousness, Indian Psychology And Yoga (History Of Science, Philosophy And Culture In Indian Civilization: Vol. XI, Part 3)	Kireet Joshi & Matthijs Cornelissen (Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1460.00	2012
0000 A	7411	Development Of Islamic Religion And Philosophy In India: (History Of Science, Philosophy And Culture In Indian Civilization, Vol. VII, Part 5)	Mohammad Rafique Edit.	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1500.00	2009
0000 A	7412	Development Of Nyaya Philosophy And Its Social Context: (History Of Science, Philosophy And Culture In Indian Civilization, Vol. III, Part 3)	Sibajiban Bhattacharyya	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1650.00	2010
0000A	7413	Developments In Indian Philosophy From Eighteenth Century Onwards: Classical And Western (History Of Science, Philosophy And Culture In Indian Civilization: Vol. X, Part 1)	Daya Krishna (Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1200.00	2011
0000 A	7414	History Of Yoga: (History Of Science, Philosophy And Culture In Indian Civilization, Vol. XVI, Part 2)	Satya Prakash Singh (Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1500.00	2010
0000 A	7415	India's Interaction With Southeast Asia (History Of Science, Philosophy And Culture In Indian Civilization: Vol. I, Part 3)	G.C. Pande (Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	2010.00	2006
0000 A	7416	Indian Art: Forms, Concerns And Development In Historical Perspective (History Of Science, Philosophy And Culture In Indian Civilization: Vol. VI, Part 3)	B.N. Goswamy (Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	2600.00	2000
0000 A	7417	Indian Christianity (History Of Science, Philosophy And Culture In Indian Civilization: Vol.VII, Part 6)	A.V. Afonso (Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1500.00	2009

0000 A	7418	Indian Perspectives On The Physical World: (History Of Science, Philosophy And Culture In Indian Civilization, Vol. IV, Part 3)	B.V. Subbarayappa	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1350.00	2004
0000 A	7419	Interpreting The Indain Diaspora: Lessons From History And Contemporary Politics; (History Of Science, Philosophy And Culture In Indian Civilization, Vol. X, Part 8)	Jayanta Kumar Ray (Edit.), Assiciation With Binoda Kumar Mishra	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	850.00	2009
0000 A	7420	Language, Grammar And Linguistics In Indian Tradition (History Of Science, Philosophy And Culture In Indian Civilization, Vol. VI, Part 4)	V.N. Jha (Ed.) And D.P. Chattopadhyaya (Gen. Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1200.00	2010
0000 A	7421	Life And Organicism (History Of Science, Philosophy And Culture In Indian Civilization: Vol. XII, Part 6)	N.S. Rangaswamy (Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1300.00	2009
0000 A	7422	Life, Thought And Culture In India (History Of Science, Philosophy And Culture In Indian Civilization: Vol. I, Part 2)	G.C. Pande (Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	3600.00	2009
0000 A	7423	Materialism And Immateralism In India And The West : Varying Vistas (History Of Science, Philosophy And Culture In Indian Civilization Vol. XII, Part 5)	Partha Ghose (Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1550.00	2010
0000 A	7424	Medicine And Life Sciences In India (History Of Science, Philosophy And Culture In Indian Civilization: Vol. IV, Part 2)	B.V. Subbarayappa (Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1650.00	2009
0000 A	7425	Perspectives On Orissa Cultural-Intellectual Contributions (History Of Science, Philosophy And Culture In Indian Civilization: Vol. VI, Part 7)	Prafulla Kumar Mohapatra And Ramesh Chandra Pradhan (Eds)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1800.00	2009
0000 A	7426	Science Philosophy And Culture: Multi-Disciplinary Explorations: (History Of Science, Philosophy And Culture In Indian Civilization, Part 2)	D. P. Chattopadhyaya, Ravinder Kumar (Edit.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1000.00	2009
0000 A	7427	Science, Literature And Aesthetics (History Of Science, Philosophy And Culture In Indian Civilization: Vol. XV Part 3)	Amiya Dev (Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1800.00	2009
0000 A	7428	Science, Philosophy And Culture: Multi-Disciplinary Explorations (History Of Science, Philosophy And Culture In Indian Civilization, Part 1)	Dr. D. P. Chattopadhyaya & Ravinder Kumar	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1300.00	2004
0000 A	7429	The Dawn Of Indian Civilization Up To 600 Bc: (History Of Science, Philosophy And Culture In Indian Civilization, Vol. I, Part 1)	G.C. Pande (Edit.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1600.00	2010
0000 A	7430	The Life-World Of The Tamils: Past And Present - II, (History Of Science, Philosophy And Culture In Indian Civilization, Vol. VI, Part 6)	R. Balasubramanian (Edit.), Associate Edit. S. Panneerselvam, Prema Nandakumar And V.K.S.N. Raghavan	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	2700.00	2009
0000 A	7431	The Tradition Of Astronomy In India : Jyotihsastra, (History Of Science, Philosophy And Culture In Indian Civilization, Vol. IV, Part 4)	B.V. Subbarayappa	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1800.00	2008

0000 A	7432	Vedic Vision Of Consciousness And Reality (History Of Science, Philosophy And Culture In Indian Civilization: Vol. XII, Part 3)	Satya Prakash Singh	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1400.00	2012
0000 A	7433	Women In Ancient And Medieval India (History Of Science, Philosophy And Culture In Indian Civilization): Vol. IX, Part 2)	Bhuvan Chandel Edi., Shubhada Joshi (Asso. Edi.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1750.00	2009
0000 A	7434	Ancient Khotan, 2 Vols (Bound in 1): Detailed Report of Archaeological Explorations in Chinese Turkestan, Carried Out and Described Under the Orders of H.M. Indian Government	M. Aurel Stein	MRML Distribution	11072.00	2001
0000 A	7435	The Hadda Excavations, Vol. I(Stupa and Sites) &Vol. III(Figures & Figurines Photographic Album), (bound in one),(Memoirs of the	Jules Barthoux	MRML Distribution	6920.00	2001
0000 A	7436	Realms of Heroism: Indian Paintings at the Brooklyn Museum	Amy G. Poster et al.	MRML Distribution	5190.00	1994
0000 A	7437	Le Temple D'Angkor Vat, 3 Vols, (Vol. I: Architecture), (Vol. II: Sculpture), (Vol. III: bas-relief galleries), (Memoires Archeologiques: Publies Par L'ecole francaise D'Extreme-Orient)	Louis Finot	MRML Distribution	24220.00	1995
0000 A	7438	Wall Paintings from Ancient Shrines in Central Asia, 2 Vols, (Vol. I: Text) (Vol. II: Illustrations)	F.H. Andrews	MRML Distribution	12110.00	1998
0000 A	7439	Journal of the Centre for Buddhist Studies, Sri Lanka, Vol. V, 2007	Centre for Buddhist Studies, Sri Lanka	MRML Distribution	1038.00	2007
0000 A	7440	The Divine Kura Tribe: Kuravanci and other Prabandhams	M. Muilwijk	MRML Distribution	3941.00	1996
0000 A	7441	Vagbhata's Astangahrdayasamhita: The Romanised text accompanied by line and word indexes	Rahul Peter Das and Ronald Eric Emmerick	MRML Distribution	12128.00	1998
0000A	7442	Giriraj Kisor's Yatraem: A Hindu novel analysed	Th. Damsteegt	MRML Distribution	4170.00	1997
0000 A	7443	The Rasa Mana Ke Pada of Kevalarama: A Medieval Hindi text of the Eight Gaddi of the Vallabha	Alan W. Entwistle	MRML Distribution	3790.00	1993
0000 A	7444	Ritual and Mythological Sources of the Early Tamil Poetry	A.M. Dubianski	MRML Distribution	3941.00	2000
0000 A	7445	Kattaikuttu: The Flexibility of a South Indian Theatre Tradition	H.M. de Bruin	MRML Distribution	5002.00	1978
0000 A	7446	The Analytical Method of Navya-Nyaya: (Gonda Indological Studies Volume XIV)	Toshihiro Wada	MRML Distribution	6443.00	2007
0000 A	7447	In Praise of Holy Men: Hagiographic Poems by and about Hariram Vyas	Heidi R.M. Pauwels	MRML Distribution	5002.00	2002
0000 A	7448	Hoysala Sculptures in the National Museum, Copenhagen	S. Settar	MRML Distribution	3335.00	1995
0000 A	7449	The Iconography of Hindu Tantric Deities, 2 Vols (Vol. I The Pantheon of the Mantramahodadhi), (Vol. II The Pantheons of the Prapancasara and the Saradatilaka)	Gudrun Buhnemann	MRML Distribution	13644.00	2001
0000 A	7450	South Asian Archaeology 1999: Proceedings of the Fifteenth International Conferemce of the European Association of South	Ellen M. Raven (ed.)	MRML Distribution	12507.00	2008

0000 A	7451	The Vakataka Heritage: Indian Culture at the Crossroads	Hans T. Bakker	MRML Distribution	6746.00	2004
0000 A	7452	Braj, Centre of Krishna Pilgrimage	A.W. Entwistle	MRML Distribution	5306.00	1987
0000 A	7453	The Devotional Poetry of Swami Haridas: A Study of Early Brajbhasa Verse Ludmila	L. Rosenstein	MRML Distribution	4623.00	1997
0000 A	7454	Kriyasamgrahapanjika of Kuladatta: A Critical Edition and Annotated Translations of Selected Sections	Ryugen Tanemura	MRML Distribution	6215.00	2004
0000 A	7455	The Kubjika Upanisad	T. Goudriaan & J.A. Schoterman	MRML Distribution	3183.00	1994
0000 A	7456	The Paippaladasamhita of the Atharvaveda Kandas 6 and 7: A New Edition with Translation and Commentary	Arlo Griffiths	MRML Distribution	9475.00	2009
0000 A	7457	The Skandapurana: Adhyayas 1-25, Critically ed. with Prolegomena and English Synopsis, Vol. I	R. Adriaensen, H. Isaacson & H.T. Bakker	MRML Distribution	7655.00	1998
0000 A	7458	The Vedas: Texts, Language and Ritual: Proceeding of the 3rd International Vedic Workshop	J.E.M. Houben & A. Griffiths	MRML Distribution	11294.00	2004
0000 A	7459	Some Contemporary Meta-ethical Theories	Ved Prakash Varma	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	250.00	1978
0000 A	7460	Into the World of Kutiyattam: with the legendary Ammannur Madhava Chakyar, Memoirs by G. Venu (Documentation of Kutiyattam Series no. 3)	G. Venu	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	2002
0000 A	7461	Who is Prabhupada?: The First Comprehensive Delineation on Guru Tattva	Radharaman Sadhu	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	1999
0000 A	7462	India (Archaeologia Mvndi)	Maurizio Taddei	MRML Distribution	895.00	1970
0000 A	7463	India-Nepal Nagal's Encyclopaedia Guide	Nagel	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	650.00	1974
0000 A	7464	Reminiscences: The French in India	INTACH	MRML Distribution	1200.00	1977
0000 A	7465	Sri Nagabhinandanam: (Dr M.S. Nagaraja Rao Festschift); Essays on art, culture, history, archaeology, epigraphy and conservation of cultural property of India and neighbouring countries	L.K. Srinivasan & S. Nagaraju	MRML Distribution	4800.00	1995
0000 A	7466	Glimpses of the Agricultural Heritage of India	Y L Nene	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1200.00	2007
0000 A	7467	Politics and Prejudice: Notes on Aristotle's Political Theory	O.P. Bakshi	MRML Distribution	250.00	1975
0000 A	7468	Safarnama and Zafarnama: Being an Account of the Travels of Guru Gobind Singh and the Epistle of Moral Victory Written by him to Emperor Aurangzeb	Giani Ishar Singh Nara & Joginder Singh	MRML Distribution	300.00	1985
0000 A	7469	Bharat Rang Mahotsav IV-VIII: An Overview	R.K. Sood	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	5000.00	2002
0000 A	7470	A Comparative Study of Brechtian And Classical Indian Theatre	Anjala Maharishi	MRML Distribution	400.00	2000
0000A	7471	Modern Indian Plays, 3 Vols	J.N. Kaushal & Chandrasekhar Kambar	MRML Distribution	2790.00	2008

0000 A	7472	Rang Yatra: Twenty-five Years of the National School of Drama Repertory Company, Part I and II	National School of Drama Repertory Company	MRML Distribution	800.00	1992
0000 A	7473	The Dated Kushana Inscriptions	Satya Shrava	MRML Distribution	2100.00	1993
0000 A	7474	The Kushana Numismatics	Satya Shrava	MRML Distribution	2000.00	
0000 A	7475	Naturalistic Ethical Theory	Vijay K. Bharadwaja	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	1978
0000 A	7476	Siddhayoga Diksha Pravachanasankalan	Guru Mai Chidvilasanand	MRML Distribution	250.00	1991
0000 A	7477	Society and State in Islam: An Introduction	Hasan Askari	MRML Distribution	250.00	1978
0000 A	7478	Anthropology on the March: Recent Studies of Indian Beliefs, Attitudes	Bala Ratnam	MRML Distribution	850.00	1963
0000 A	7479	British Diplomacy and Administration in India 1807-13	S.R. Bakshi	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	250.00	1971
0000 A	7480	Ganesa: L' Enchanteur Des Trois Mondes, (in French)	Paul Martin-Dubost	MRML Distribution	2800.00	1997
0000 A	7481	South Asian Archaeology 1985: Papers from the Eighth International Conference of South Asian Archaeologists in Western Europe, held at Moesgaard Museum, Denmark	Karen Frifelt & Per Sorensen	MRML Distribution	10890.00	1985
0000 A	7482	The Bejewelled Buddha: From India to Burma: New Considerations (Sixth Kumar Sarat Kumar Roy Memorial Lecture)	Claudine Bautze-Picron	Sanctum Books	1595.00	2010
0000 A	7483	Science and the Public (History of Science, Philosophy and Culture in Indian Civilization) Vol. XV, Part 2	Ashok Jain (ed.) & D.P. Chattopadhyaya (Gen.ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1100.00	2010
0000 A	7484	Gangesa's Theory Of Indeterminate Perception: Nirvikalpakavada, (Part.II) (Icpr Translation Of Indian Philosophical Classics)	Sibajiban Bhattacharyya (Gen.ed..)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	80.00	1993
0000 A	7485	The Nature Of Philosophy	Daya Krishna, with a new intro. by Mrinal Miri	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	2009
0000 A	7486	Political Missions to Bootan: Comprising the Reports of the Hon'ble Ashley Eden, 1864; Capt. R.B. Pemberton 1837, 1838 with Dr W Griffith's Journal and the Account	Ashley Eden	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	795.00	2000
0000 A	7487	The Empire of the Great Mogol	J.S. Hoyland	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	400.00	1974
0000 A	7488	Archaeology from the Earth	Sir Mortimer Wheeler	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	2004
0000 A	7489	Indian Art: Forms, Concerns and Development in Historical Perspective (History of Science, Philosophy and Culture in Indian Civilization: Vol. VI Part 3)	B.N. Goswamy (Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	2600.00	2005
0000 A	7490	The Architectural Heritage of Himachal Pradesh: Origin and Development of Temple Styles	Laxman S. Thakur	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1000.00	1996
0000 A	7491	Early Settlements in the Central Tapi Basin	Vasant Shinde	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	750.00	1998

0000 A	7492	Gupta Sculpture: Indian Sculpture of the fourth to the sixth centuries AD	James C. Harle	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1000.00	1996
0000 A	7493	Iconology of Composite Images	Dipak Chandra Bhattacharya	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	1980
0000 A	7494	The Issues in East Indian Archaeology	Dilip K. Chakrabarti	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	550.00	1998
0000 A	7495	A Dictionary of Hindu Architecture: Treating of Hindu architectural terms with illustrative quotations from silpasastras, general literature and archaeological records, (Manasara Series: Vol. I)	Prasanna Kumar Acharya	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1000.00	1995
0000 A	7496	Motifs in Indian Mythology: Their Greek and other parallels	Udai Prakash Arora	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	650.00	1981
0000 A	7497	North Indian Temple Sculpture	Urmila Agarwal	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1000.00	1995
0000 A	7498	Phantasmic Anatomy of the Statues of Mathura	Sandrine Gill	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	600.00	2000
0000 A	7499	The Prehistoric Background of Indian Culture	D.H. Gordon	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	750.00	1997
0000A	7500	Research on Early Man in Burma Hellmut De Terra and Hallam L. Movius, Jr. with Supplementary Reports upon the Pleistocene Vertebrates and Mollusks of the Region Edwin H. Colbert and J. Bequart and Pleistocene Geology and Early Man in Java	Hellmut de Terra	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1950.00	2005
0000 A	7501	The Transformation of Nature in Art	Ananda K. Coomaraswamy	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	2014
0000 A	7502	The Autobiography of an Indian Monk	W.B. Yeats & Purohit Swami	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	300.00	2004
0000 A	7503	Friends of India-Biographical Profiles	O.P. Jaggi	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	250.00	1973
0000 A	7504	The Modern English-Hindi Dictionary	I.N. Anand	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	2004
0000 A	7505	Author and Subject Index of the Journal of the Indian Council of Philosophical Research: Vols. XI-XV,	Daya Krishna & R.S. Bhatnagar	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	50.00	2000
0000 A	7506	Bharatakosa: A Dictionary of technical terms with definations collected from the works on music and dramaturgy by Bharata and others (in Sanskrit)	M. Ramakrishna Kavi	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1750.00	1983
0000 A	7507	Handbook for Indian Writers, 1975	H.K. Kaul	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	1975
0000 A	7508	A Multi-Dimensional Glossary of Official Language English-Hindi: (For the use of Banking, Insurance and Railways)	Shriram Mehrotra	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	400.00	1998
0000 A	7509	Things Indian: Being discursive notes on various subjects connected with India	William Crooke	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	1972

0000 A	7510	Agrarian Structure in Central India and the Northern Deccan: (c. AD 300-500) A Study of Vakataka Inscriptions	Krishna Mohan Shrimali	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	1987
0000 A	7511	Economic Organisation in Ancient India (200 BC-200 AD)	Shyam Sunder Nigam	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	1975
0000 A	7512	Initiative, Enterprise & Economic Choices in India: A Study of the Patterns of Entrepreneurship	Vinod K. Agrawal	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	400.00	1975
0000 A	7513	Oriental Commerce: Containing a Geographical Description of the Principal Places in the East Indies, China and Japan, 2 Vols	William Milburn	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	4000.00	1999
0000 A	7514	Journal of a Route Across India, through Egypt to England: In the latter end of the year 1817, and the beginning of 1818	George Augustus Frederick Fitzclarence	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1250.00	1999
0000 A	7515	The Global Significance of Concrete Humanity: Essays on the Confucian Discourse in Cultural China	Tu Weiming	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	650.00	2010
0000 A	7516	The Sakas in India	Satya Shrava	MRML Distribution	1500.00	1981
0000 A	7517	The Central Structure of the Moghul Empire: and Its Practical Working up to the Year 1657	Ibn Hasan	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	1980
0000 A	7518	Charles Metcalfe in India: Ideas and Administration 1806-35	D.N. Panigrahi	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	1968
0000 A	7519	The Civilization in Ancient India	Louis Renou	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	300.00	1997
0000 A	7520	Economic Organisation in Ancient India: (200 BC-200 AD)	Shyam Sunder Nigam	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	1975
0000 A	7521	Economy and Society in Early India: Issues and Paradigms	D.N. Jha	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	400.00	1993
0000 A	7522	The French in India: 1763-1816	S.P. Sen	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	850.00	1971
0000 A	7523	The Government of the Sultanate	Upendra Nath Day	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	300.00	1993
0000 A	7524	Historical Research in India	John Correia-Afonso	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	175.00	1979
0000 A	7525	India as Reflected in the Inscriptions of Gupta Period	Haripada Chakraborti	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	1978
0000 A	7526	The Indian Civil Judiciary in Making 1800-33	Chittaranjan Sinha	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	250.00	1971
0000 A	7527	Indian Entertainment	R.N. Saletore	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	1985
0000 A	7528	Indian Historical Vistas	S.A.I. Tirmizi	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	150.00	1980
0000A	7529	Indian Warfare: An Appraisal of Strategy and Tactics of War in Early Medieval Period	Surinder Kumar Bhakari	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	1981
0000 A	7530	In Search of an Entente: India and Italy: from the XIX to the XX Century, A Survey	Mario Prayer	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	150.00	1994
0000 A	7531	India-Studies in the History of an Idea	Irfan Habib	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	2005

0000 A	7532	Kings, Brahmanas and Temples in Orissa: An Epigraphic Study AD 300-1147	Upinder Singh	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	1994
0000 A	7533	Land Revenue Administration Under the Mughals (1700-1750)	Noman Ahmad Siddiqi	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	300.00	1989
0000 A	7534	Landmarks of South Asian Civilizations: From Prehistory to the Independence of the Subcontinent	Saiyid Athar Abbas Rizvi	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	950.00	1983
0000 A	7535	Last Days of Ahom Monarchy: A History of Assam from 1769 to 1826	S.L. Baruah	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	1993
0000 A	7536	The Later Ghaznavids: Splendour and Decay; The Dynasty in Afghanistan and Northern India	Clifford Edmund Bosworth	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	1992
0000 A	7537	The Later Mauryas 232 BC to 180 BC	Hector Alahakoon	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	1980
0000 A	7538	Magadh Samrajya ka Udaya	Shriram Goyal (Ed.), Shivkumar Gupt (Co. Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	1981
0000 A	7539	Nationalism in India and other Historical Essays	D.P. Singhal	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	1967
0000 A	7540	Noblemen and Kinsmen: History of a Sikh Family	Preminder Singh Sandhawalia	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	250.00	1999
0000 A	7541	On History and Historians of Medieval India	K.A. Nizami	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	400.00	1983
0000 A	7542	Orissa Under the East India Company	K.M. Patra (Author) & M.N. Das (Frwd)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	1971
0000 A	7543	A Panoramic History of the Indian People	D.B. Vohra	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	300.00	1992
0000 A	7544	The Political Biography of a Mughal Noble: Munim Khan-I-Khanan 1497-1575	Iqtidar Alam Khan	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	1991
0000 A	7545	The Political History of the Hunas in India	Atreyi Biswas	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	1973
0000 A	7546	Political Relations Between India and Nepal 1877-1923	Kanchanmoy Mojumdar	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	1973
0000 A	7547	Pracheen Bharat Ka Itihas, (in Hindi)	Purushottam Lal Bhargava	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	1992
0000 A	7548	Pre-Ahom Assam: Studies in the Inscriptions of Assam Between the Fifth and the Thirteenth Centuries AD	Nayanjot Lahiri	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	1991
0000 A	7549	Press and Politics in India 1885-1905	Prem Narain	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	600.00	1970
0000 A	7550	The Rajas of the Punjab: Being the History of the Principal States in the Punjab and their Political Relations	Lepel H. Griffin	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	950.00	1998
0000 A	7551	The Rajput States and the East India Company: from the close of 18th century to 1820	Sukumar Bhattacharyya	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	1972
0000 A	7552	The Religious Policy of the Mughal Emperors	Sri Ram Sharma	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	1988
0000 A	7553	Religious and Quasi-Religious Departments of the Mughal Period (1556-1707)	Rafat M. Bilgrami	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	600.00	1984
0000 A	7554	The Rise of Muslim Power in Gujarat: A History of Gujarat from 1298 to 1442	Satish C. Misra	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	1982

0000 A	7555	Rise of Nepal and Bhutan	Ram Rahul	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	150.00	1984
0000 A	7556	Royalty in Medieval India	K.A. Nizami	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	1997
0000 A	7557	Scinde or the Unhappy Valley, 2 vols (bd. In 1)	Richard F. Burton	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	695.00	1999
0000A	7558	Shah 'Abd Al-'Aziz Puritanism, Sectarian, Polemics and Jihad	Saiyid Athar Abbas Rizvi	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	950.00	1982
0000 A	7559	Simon Commission and Indian Nationalism	S.R. Bakshi	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	1977
0000 A	7560	Social History of Kerala: The Pre-Dravidians, Vol.I	L.A. Krishna Iyer	MRML Distribution	750.00	1968
0000 A	7561	Social History of Kerala: The Dravidians, Vol.II	L.A. Krishna Iyer	MRML Distribution	750.00	1970
0000 A	7562	Society and Ideology in India: Essays in Honour of Prof. R.S. Sharma	D.N. Jha	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	850.00	1996
0000 A	7563	Socio-Religious, Economic and Literary Condition of Bihar (from c. 319 AD to 1000 AD)	B.S. Verma	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	1962
0000 A	7564	The Soul of India	Satyavrat R. Patel	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	300.00	1974
0000 A	7565	Storia Do Mogor or Mogul India 1633-1708, 4 Vols	Niccolao Manucci	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	2000.00	1981
0000 A	7566	Sur Vansh ka Itihas, Part I: Sher Shah Sur (1540 to 45) (Sher Shah Sur ke Itihas se Sambandhit Mool Farsi ke Uplabdh Granthon ka Hindi Anuvad)	S.B.P. Nigam	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	700.00	1973
0000 A	7567	Survey of India's Social Life and Economic Condition in the Eighteenth Century 1707-1813	Kalikinkar Datta	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	1978
0000 A	7568	Urban Decay in India (c. 300-c. 1000)	R.S. Sharma	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	750.00	1987
0000 A	7569	Western Sailors Eastern Seas: German Response to Indian Culture	Sisir Kumar Das	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	150.00	1971
0000 A	7570	Text and Variations of the Mahabharata: Contextual, Regional and Performative Traditions,(Samiksika Series, no. 2)	Kalyan Kumar Chakravarty	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	2009
0000 A	7571	Dalhana and His Comments on Drugs	P.V. Sharma	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	1982
0000 A	7572	Paths to Asian Medical Knowledge	Charles Leslie & Allan Young	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	400.00	1993
0000A	7573	The Heroic Age of India: A Comparative Study	N.K. Sidhanta	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	300.00	1975
0000 A	7574	The Hindi Sentence Structure in the Works of Tulsidas	Vladimir Miltner	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	150.00	1967
0000 A	7575	A History of Hindi Literature	K.B. Jindal	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	1993
0000 A	7576	India's National Writing	Saraswati Saran	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	250.00	1969

0000 A	7577	Lectures on the Science of Language: Delivered at the Royal Institution of Great Britain in April, May & June 1861	F. Max Muller	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	2009
0000 A	7578	The Phonology and Morphology of Panjabi	Amar Nath Malik	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	750.00	1995
0000 A	7579	Sanskrit Grammar: Including both the Classical Language, and the older Dialects, of Veda and Brahmana	William Dwight Whitney	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	400.00	2013
0000 A	7580	Shakespeare's Impact on Hindi Literature	J.P. Misra	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	1970
0000 A	7581	Vyakarana ki Darshanik Bhumika: (The Philosophy of Grammar according to Bhartrhari)	Satyakam Varma	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	1971
0000 A	7582	Metatheater and Sanskrit Drama	Michael Lockwood & A. Vishnu Bhat	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	1995
0000 A	7583	The Musical Heritage of India	M.R. Gautam	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	525.00	2001
0000 A	7584	Catalogue of the Coins of the Gupta Dynasties and of Sasanka, King of Gauda	John Allan	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	1975
0000 A	7585	Glimpses of Indian Wisdom	N.V. Banerjee	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	200.00	1972
0000 A	7586	History of Indian Philosophy: The Creative Period	S.K. Belvalkar & R.D. Ranade	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	1997
0000 A	7587	Identity in Conflict: Classical Christian Faith and Religio Occults Essays in Hounour of Prof. Johannes Aagaard	Helle Meldgaard, Moti Lal Pandit & Mike Gardez	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	750.00	1998
0000 A	7588	The Religions of India	E. Washburn Hopkins	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	600.00	1977
0000 A	7589	Sri Aurobindo and Integral Yoga	Kireet joshi	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	200.00	1998
0000 A	7590	Development of Buddhist Ethics	G.S.P. Misra	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	300.00	1995
0000 A	7591	The Heart of Buddhist Philosophy-Dinnaga and Dharmakirti	Amar Singh, with a frwd by A.K. Warder	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	300.00	2004
0000 A	7592	Madhyanta-Vibhaga: Discourse on discrimination between middle and extreme ascribed to Bodhisattva Maitreya and commented by Vasubandhu and Sthirarmat	Th. Stcherbatsky	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	1978
0000 A	7593	Spiritual Guide to the Jewel Island: Disciple and Spiritual Son of Jamyang Zhapa, A Scholar of the Epoch of the Seventh Dalia Lama (1708-57)	Blanche C. Olschak & Thupen Wangyal	MRML Distribution	1100.00	1973
0000 A	7594	A Tibetan Eye-View of Indian Philosophy: being translation of Grubmtha Shel Gyi Me Long of Thu' U-bkwan Blo-bzang-Kyi-Jyi-Ma	Kewal Krishan Mittal	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	400.00	1984
0000 A	7595	The Chaitanya Movement: A Study of Vaishnavism in Bengal	Melville T. Kennedy	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	250.00	1993

0000 A	7596	The Disclosure of Being: A Study of Yogic and Tantric Methods of Enstasy	Moti Lal Pandit	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	650.00	2006
0000 A	7597	Durga Rahasya: A Key to the Eternal Feminine	Som Ranchan	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	250.00	2001
0000 A	7598	The Karma-Mimamsa (The Heritage of India Series)	A. Berriedale Keith	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	150.00	1978
0000 A	7599	The Many Faces of Murukan: The History and Meaning of South Indian God	Fred W. Clothey	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	650.00	2005
0000 A	7600	The Mirror of Self-Supremacy or Svatantrya-Darpana	B.N. Pandit	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	200.00	1993
0000 A	7601	Racial Synthesis in Hindu Culture	S.V. Vishwanatha	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	1978
0000A	7602	The System of Vedantic Thought and Culture	Mahendranath Sircar	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	1975
0000 A	7603	The Yoga of the Saints: Analysis of Spiritual Life	V.H. Date	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	250.00	1974
0000 A	7604	Religion, Practice and Science of Non-Violence	O.P. Jaggi	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	150.00	1974
0000 A	7605	Some Aspects of Jainism in Eastern India	Pranabhananda Jash	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	250.00	1989
0000 A	7606	The Sikh Gurus and the Sikh Religion	Anil Chandra Banerjee	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	400.00	1983
0000 A	7607	Avadhoota Gita: With English Translation by Shree Purohit Swami	Shankar Mokashi-Punekar (Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	250.00	1988
0000 A	7608	Concepts of Riti and Guna in Sanskrit Poetics in the Historical Development	P.C. Lahiri	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	400.00	1974
0000 A	7609	Essays on Sanskrit Literature: (Bearing on Ancient Sanskrit Literature and Indian Culture)	Sadhu Ram	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	200.00	1965
0000 A	7610	Exposition of Vedic Thought	Satyavrata Siddhantalankar	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	1980
0000 A	7611	Mimamsamanjari in Sanskrit	R. Thangaswami Sarma	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	375.00	1996
0000 A	7612	Panchadasigita: The Gita texts rearranged into fifteen chapters according to the principles of	Jatindra Mohan Chatterjee	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	1998
0000 A	7613	The Philosophy of a Sentence and its Parts	Veluri Subba Rao	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	1969
0000 A	7614	Samaveda Samhita with the commentary of Sayana Acharya, 5 Vols, (in Sanskrit)	Satyavrata Samasrami Bhattacharyya (ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	3500.00	1983
0000 A	7615	The Sankhayana Aranyaka: with an appendix on the Mahavrata	Arthur Berriedale Keith	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	200.00	1975
0000 A	7616	Vedic Variants: A Study of the Variant Readings in the Repeated Mantras of the Veda, 3 Vols	Maurice Bloomfield & Franklin Edgerton	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	2500.00	1979
0000 A	7617	Racial Affinites of Early North Indian Tribes	Sudhakar Chattopadhyaya	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	250.00	1973

0000 A	7618	Sociological Aspects of Asian Development	V. Eswara Reddy	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	150.00	1974
0000 A	7619	Brahma-Yoga of the Gita	V.H. Date	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	650.00	1971
0000 A	7620	Streams of Yogic and Mystic Experience (History of Science, Philosophy and Culture in Indian Civilization: Vol. XVI, Part 3)	Manoj Das (ed.), D.P. Chattopadhyaya (Gen. ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1550.00	2010
0000 A	7621	India and China: Twenty Centuries of Civilizational Interaction and Vibrations (History of Science, Philosophy and Culture in Indian Civilization, Vol. III, Part 6)	Tan Chung, Geng Yinzeng (Authors) & D.P. Chattopadhyaya (Gen Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	2150.00	2010
0000 A	7622	Nature and Culture (History of Science, Philosophy and Culture in Indian Civilization, Vol. XIV, Part 1)	Roddam Narasimha (Ed.) & D.P. Chattopadhyaya (Gen. Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1250.00	2011
0000 A	7623	Catalogue of the Coins in the Prince of Wales Museum of Western India, Bombay: The Sultans of Gujarat	C.R. Singhal (Compiled) & G.V. Acharya (Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	1988
0000 A	7624	Man and his Becoming: According to the Vedanta (Pb)	Rene Guenon (Author) & Richard C. Nicholson (Trns.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	300.00	2011
0000 A	7625	Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary, 2 Vols	Franklin Edgerton	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1600.00	2011
0000 A	7626	Man and his Becoming: according to the Vedanta	Rene Guenon (Author) & Richard C. Nicholson (Trns.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	2011
0000 A	7627	Figures of Speech or Figures of Thought: Collected Essays on the Traditional or "Normal" View of Art (Second Series)	Ananda K. Coomaraswamy	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	650.00	2011
0000 A	7628	Vijnana Bhairava: The Manual for Self-Realization	Swami Lakshmanjoo (Revealed) and John Hughes (Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	600.00	2011
0000 A	7629	A History of Zen Buddhism (Pb)	Heinrich Dumoulin, S.J.	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	595.00	2011
0000 A	7630	Kampil: Archaeological Study of a Site in the Ancient Kingdom of Panchala	Annamaria Dallaporta & Lucio Marcato	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	795.00	2011
0000A	7631	Indian Philosophical Systems: A Critical Review Based on Vedanta Desika's Paramata-bhanga	S.M.S. Chari	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	750.00	2011
0000 A	7632	Manual of Zen Buddhism (Pb)	Daisetz Teitaro Suzuki	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	295.00	2011
0000 A	7633	Economic History of India from Eighteenth to Twentieth Century (History of Science, Philosophy and Culture in Indian Civilization, Vol. VIII, Part 3)	Binay Bhushan Chaudhuri (Ed.) & D.P. Chattopadhyaya (Gen.Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	2650.00	2011
0000 A	7634	Markets and Morals: Ethical Issues in Economics (History of Science, Philosophy and Culture in Indian Civilization, Vol. XIV, Part 3)	Ashok S. Guha (Ed.) & D.P. Chattopadhyaya (Gen.Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	700.00	2011
0000 A	7635	The Vision of the Vedic Poets	J. Gonda	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	1984
0000 A	7636	Pratna Samiksha: A Journal of Archaeology (New Series, Volume 1, 2010)	Centre of Archaeological Studies & Training, Kolkata	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1000.00	2010

0000 A	7637	Puranas and Acculturation: A Historico-Anthropological Perspective	Vijay Nath	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	650.00	2001
0000 A	7638	Synthesis of Yoga (History of Science, Philosophy and Culture in Indian Civilization: Vol. XVI, Part 4)	Kireet Joshi (Ed.) & D.P. Chattopadhyaya (Gen. Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	3000.00	2011
0000 A	7639	The Palaeography of India (Bharatiya Prachin Lipimala), (in Hindi)	Rai Bahadur Pandit Gaurishankar Hirachand Ojha	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1295.00	2011
0000 A	7640	Sufis of Bijapur 1300-1700: Social Roles of Sufis in Medieval India	Richard Maxwell Eaton	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	995.00	2011
0000 A	7641	Historians of Medieval India: Studies in Indo-Muslim Historical Writing	Peter Hardy	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	2011
0000 A	7642	The Sufi Saints of the Indian Subcontinent	Zahurul Hassan Sharib	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	995.00	2011
0000 A	7643	The Secretary of State for India and his Council 1858-1919	S.N. Singh	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	300.00	1962
0000 A	7644	How Buddhism Began: The Conditioned Genesis of the Early Teachings	Richard F. Gombrich	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	595.00	2014
0000 A	7645	The Bhakti Sect of Vallabhacarya	Richard Barz	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	1992
0000 A	7646	The Labyrinth of Solitude: A Comparative Exposition of Dharma as Ontology according to the Mahabharata, 2 Parts (Part I: Chaps. 1-25) & (Part II: Chaps. 26-49)	K.D. Prithipaul	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	3000.00	2012
0000 A	7647	The Decline of Buddhism in India: A Fresh Perspective	K.T.S. Sarao	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	895.00	2012
0000 A	7648	Ancient Indian Influence on Japanese Culture: A Comparative Study of Civilizations	Yoshihiro Kaburagi	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1195.00	2012
0000 A	7649	Tribal Religions (History of Science, Philosophy and Culture in Indian Civilization, Vol. VII, Part 7)	S. Shyamkishore Singh (Ed.) & D.P. Chattopadhyaya (Gen. Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1500.00	2012
0000 A	7650	Islam in the World Today: A Handbook of Politics, Religion, Culture, and Society	Werner Ende & Udo Steinbach (Eds)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1795.00	2012
0000 A	7651	The Coins of the Sikhs	Hans Herrli	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1200.00	2012
0000 A	7652	The Laghukatha: A Historical and Literary Analysis of a Modern Hindi Prose Genre	Ira Valeria Sarma	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	895.00	2012
0000 A	7653	Mahabodhi or the Great Buddhist Temple Under the Bodhi Tree at Buddha-Gaya	Alexander Cunningham	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1000.00	2012
0000 A	7654	The Buddha Image: Its Origin and Development	Y. Krishan & Kalpana K. Tadikonda	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1800.00	2012
0000 A	7655	Modernism and the Art of Muslim South Asia	Iftikhar Dadi	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	895.00	2012
0000 A	7656	Sakti's Revolution: Origins and Historiography of Indic Fierce Goddesses	Donna Jordan	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1595.00	2012
0000 A	7657	Pali: A Grammar of the Language of the Theravada Tipitaka	Thomas Oberlies	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	950.00	2012

0000 A	7658	The Present Tense in Modern Hindi Fiction	Theo Damsteegt	MRML Distribution	4170.00	2004
0000 A	7659	The Beautiful in Indian Arts	Shyamala Gupta (Auhtor) & N.V. Joshi (Frwd)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	300.00	1979
0000A	7660	A Golden Chain of Civilizations: Indic, Iranic, Semitic and Hellenic (from c. 600 B.C. to c. A.D. 600), (Section 1: Cultural Contacts and Movements), (History of Science, Philosophy and Culture in Indian Civilization: Volume 1, Part 5 (Section 1: Cultural Contacts and Movements)	G.C. Pande (Ed.) & D.P. Chattopadhyaya (Gen. Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1750.00	2012
0000 A	7661	Outlines of Sikh Thought	Surindar Singh Kohli	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	200.00	2003
0000 A	7662	Exploring the Structure of Emptiness - Philosophical Hermeneutics of the text Catusstava of Nagarjuna: A Translation and Interpretation	Mathew Varghese	Sanctum Books	995.00	2012
0000 A	7663	The Vedantasutras with the Sribhasya of Ramanujacarya, Vol. I	M. Rangacharya & M.B. Varadaraja Aiyangar (Trs)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	400.00	2002
0000 A	7664	The Vedantasutras with the Sribhasya of Ramanujacarya, Vol. II	M. Rangacharya & M.B. Varadaraja Aiyangar (Trs)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	2002
0000 A	7665	Coins And Currency Systems of Post-Gupta Bengal (c. AD 550-700)	B.N. Mukherjee	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	400.00	1993
0000 A	7666	A Golden Chain of Civilizations: Indic, Iranic, Semitic and Hellenic (from c. 600 B.C. to c. A.D. 600) (Section 2: Science, Philosophy and Culture), (History of Science, Philosophy and Culture in Indian Civilization), Volume 1, Part 5 (Section 2: Science, Philosophy and Culture)	G.C. Pande (Ed.) & D.P. Chattopadhyaya (Gen. Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	2300.00	2012
0000 A	7667	The Grammar of Carnatic Music	K.G. Vijayakrishnan	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	950.00	2012
0000 A	7668	On Yuan Chwang's Travels in India: AD 629-645, Vols. I and II (bound in one)	Thomas Watters (Author), T.W. Rhys Davids & S.W. Bushell (Eds)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1495.00	2012
0000 A	7669	Kundalini: Divine Energy, Divine Life	Cyndi Dale	Sanctum Books	395.00	2012
0000 A	7670	Fire of Freedom: The Way of the Knowledge	Swamini Nityananda	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	2012
0000 A	7671	Kundalini: Divine Energy, Divine Life	Cyndi Dale	Sanctum Books	695.00	2012
0000 A	7672	Compositional Forms of Hindustani Music: A Journey	Vijaya Chandorkar	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	895.00	2012
0000 A	7673	The Philosophical and Practical Aspects of Kasmira Saivism: A Study of Trika Thought and Practice	Moti Lal Pandit	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	750.00	2012
0000 A	7674	Studies in Logic: A Dialogue between the East and the West (Homage to Bimal Krishna Matilal)	Madhabendra Nath Mitra, Mihir Kumar Chakraborty & Sundar Sarukkai (Eds)	Sanctum Books	500.00	2012
0000 A	7675	A Union Catalogue of Philosophical Periodicals (ICPR Documentation Series, 4)	Subhas C. Biswas (Ed.) & B.K. Bhattacharya	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	55.00	1989

0000 A	7676	City in South Asia: Pre-Modern and Modern (Collected Papers on South Asia, no. 3)	Kenneth Ballhatchet & John Harrison (Ed.)	MRML Distribution	3811.00	1980
0000 A	7677	Buddhist Thought in India: Three Phases of Buddhist Philosophy	Edward Conze	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	2012
0000 A	7678	Buddhist Legends: Translated from the original Pali text of the Dhammapada Commentary (Books 1 to 26), 3 Parts	Eugene Watson Burlingame	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	2000.00	2012
0000 A	7679	The Religion of India: The Sociology of Hinduism and Buddhism	Max Weber (Author), Hans H. Gerth & Don Martindale (Trns & Eds)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	550.00	2012
0000 A	7680	Pali Literature and Language	Wilhelm Geiger (Author) & Batakrishna Ghosh (Tr.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	495.00	2012
0000 A	7681	Companion to North Indian Classical Music	Satyendra K. Sen Chib (Author) & Late Ustad Ali Akbar Khan (Frwd)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1500.00	2013
0000 A	7682	The Art of War in Medieval India	Jagadish Narayan Sarkar	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	600.00	1984
0000 A	7683	Indian Medicine	Julius Jolly (author), C.G. Kashikar (tr.) & J. Filliozat (frwd)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	650.00	2012
0000 A	7684	Dara Shikuh: Life and Works	Bikrama Jit Hasrat	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	895.00	2013
0000 A	7685	Revealing the Art of Natyasastra	Narayanan Chittoor Namboodiripad	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	695.00	2012
0000 A	7686	Zoroastrianism: From Antiquity to the Modern Period (History of Science, Philosophy and Culture in Indian Civilization, Volume VII, Part 8)	Murzban Jal (Ed.) & D.P. Chattopadhyaya (Gen. Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1700.00	2012
0000 A	7687	The Alchemical Body: Siddha Traditions in Medieval India	David Gordon White	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	995.00	2004
0000 A	7688	New History of the Marathas, Volume I	Govind Sakharam Sardesai	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	750.00	1986
0000A	7689	New History of the Marathas, Volume II	Govind Sakharam Sardesai	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	900.00	1986
0000 A	7690	The Philosophy of Vallabhacarya	Mrudula I. Marfatia	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	550.00	1967
0000 A	7691	Kriya-yoga: The Science of Life-force	Swami Nityananda Giri	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	995.00	2013
0000 A	7692	An Encyclopaedia of Indian Archaeology, 2 Vols (Vol. I: Subjects) & (Vol. II: A Gazetteer of Explored and Excavated Sites in India)	A. Ghosh (Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	5000.00	2013
0000 A	7693	The Vedantasutras with the Sribhasya of Ramanujacarya, Vol. III	M. Rangacharya & M.B. Varadaraja Aiyangar (Trs)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	800.00	2013
0000 A	7694	The Samkhya Philosophy: Containing Samkhya-pravachanasutram, with the Vritti of Aniruddha, and the Bhasya of Vijnanabhiksu and Extracts from the Vrittisara of Mahadeva Vedantin; Tatvasamasa; Samkhyakarika; Panchasikhasutram	Nandalal Sinha (Tr.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1000.00	2013

0000 A	7695	Indian Epigraphy: A Guide to the Study of Inscriptions in Sanskrit, Prakrit and other Indo-Aryan Languages	Richard Saloman	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1350.00	1998
0000 A	7696	The Ravenous Hyenas and the Wounded Sun: Myth and Ritual in Ancient India	Stephanie W. Jamison	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	895.00	2013
0000 A	7697	Hinduism-I (History of Science, Philosophy and Culture in Indian Civilization, Vol. VII, Part 3)	N.S.S. Raman (Ed.) & D.P. Chattopadhyaya (Gen. Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	2000.00	2013
0000 A	7698	Buddhism (History of Science, Philosophy and Culture in Indian Civilization, Vol. VII, Part 9)	G.C. Pande (Ed.) & D.P. Chattopadhyaya (Gen. Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	2800.00	2013
0000 A	7699	Hinduism-II (History of Science, Philosophy and Culture in Indian Civilization, Vol. VII, Part 4)	N.S.S. Raman (Ed.) & D.P. Chattopadhyaya (Gen. Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	2400.00	2013
0000 A	7700	Sangitaratnakara of Sarngadeva: Sanskrit text and English Translation with Comments and Notes (Vol. II: Chapters II-IV)	R.K. Shringy & Prem Lata Sharma (Trs)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	895.00	2013
0000 A	7701	The Heart of Jainism	Sinclair Stevenson	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	795.00	2013
0000 A	7702	Hindustani Raga-s Index: Bibliographical References on Descriptions, Compositions and Vistara-s of Hindustani Raga-s based on Selected Major Contemporary Works in Devanagari	Patrick Moutal	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	795.00	2013
0000 A	7703	A Record of Buddhistic Kingdoms: Being an Account by the Chinese Monk Fa-Hien of Travels in India and Ceylon (AD 399-414) in Search of the Buddhist Books of Discipline	James Legge (Tr.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	2013
0000 A	7704	Essentials of Modern Literary Tibetan: A Reading Course and Reference Grammar	Melvyn C. Goldstein, Gelek Rimpoche & Lobsang Phuntshog	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	895.00	2013
0000 A	7705	Perspectives on Maharashtra: Cultural-Intellectual Contributions (History of Science, Philosophy and Culture in Indian Civilization, Vol. VI, Part 8)	Shubhada A. Joshi (ed.) & D.P. Chattopadhyaya (Gen. ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	2300.00	2013
0000 A	7706	A Dictionary of Urdu Classical Hindi and English	John T. Platts	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1250.00	2013
0000 A	7707	Culinary Fictions: Food in South Asian Diasporic Culture	Anita Mannur	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	795.00	2013
0000 A	7708	The Srimad Devi Bhagavatam (Part I & II)	Swami Vijnanananda (Tr.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1200.00	2013
0000 A	7709	Art and Swadeshi	Ananda K. Coomaraswamy	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	400.00	2013
0000 A	7710	Isma'ili Modern: Globalization and Identity in a Muslim Community	Jonah Steinberg	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	695.00	2013
0000 A	7711	The Origins of Capitalism and the "Rise of the West"	Eric H. Mielants	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	795.00	2013
0000 A	7712	Gender, Sainthood, & Everyday Practice in South Asian Shi'ism	Karen G. Ruffle	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	795.00	2013
0000 A	7713	Sufi Narratives of Intimacy: Ibn 'Arabi, Gender, and Sexuality	Sa'diyya Shaikh	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	895.00	2013

0000 A	7714	The Origins of Capitalism and the "Rise of the West"	Eric H. Mielants	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	495.00	2013
0000 A	7715	Ritual Bronzes of Maharashtra and Karnataka: Including the Bhuta Region	Leo S. Figiel, M.D.	MRML Distribution	4152.00	2007
0000 A	7716	Jihadi Terrorism: On the Trail of its Epistemology and Genealogy	T.S. Girishkumar	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	795.00	2013
0000 A	7717	Abhinava: Perspectives on Abhinavagupta (Studies in Memory of K.C. Pandey on His Centenary)	Navjivan Rastogi (Ed.) & Meera Rastogi (Joint ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	2000.00	2013
0000A	7718	The External Trade of the Indus Civilization	Dilip K. Chakrabarti	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	795.00	1990
0000 A	7719	The Rise and Expansion of the British Dominion in India	Alfred Lyall (Author) & B.L. Grover (Intro.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	750.00	1973
0000 A	7720	Eloquent Earth: Early Terracottas in The State Archaeological Museum, West Bengal	Gautam Sengupta & Sima Roy Chowdhury,Sharmi Chakraborty	MRML Distribution	4500.00	2007
0000 A	7721	Pratna Samiksha: A Journal of Archaeology (New Series: Volume 2, 2011)	Centre for Archaeological Studies & Training, Eastern India, Kolkata	MRML Distribution	1000.00	2011
0000 A	7722	Success Motivating Vedic Lores: Selected Hymns from Rgveda	Devendra Kumar Kapoor	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	150.00	1978
0000 A	7723	Pratna Samiksha: A Journal of Archaeology (New Series, Volume 3, 2012), (Special Issue), (Gaur: The Medieval City of Bengal c. 1450-1565)	Centre for Archaeological Studies & Training, Eastern India, Kolkata	MRML Distribution	1000.00	2012
0000 A	7724	History of the Gujarat Kingdom 1458-1537	J. Chaube (Author) & H.L. Singh (Frwd)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	400.00	1975
0000 A	7725	The Philosophy of Tulsidas	Ramdat Bharadwaj	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	550.00	1979
0000 A	7726	Indian Logic and Atomism: An Exposition of the Nyaya and Vaicesika Systems	Arthur Berriedale Keith	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	600.00	1977
0000 A	7727	Concept of Sarasvati: (In Vedic, Epic and Pauranic Literature, Part 1)	Dr Raghunath Airi	MRML Distribution	200.00	1977
0000 A	7728	Mill's Self-Regarding Acts: An Analysis	Atanu Sarbadhikari	MRML Distribution	50.00	1991
0000 A	7729	History of the Mediaeval School of Indian Logic	Satish C. Vidyabhusana	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	1977
0000 A	7730	Limitations Of Freud's Psychobiology	Santokh Singh	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	150.00	1985
0000 A	7731	Towards a Theory of Structural and Transcendental Illusions	Daya Kishna	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	2012
0000 A	7732	Pitch Analysis in South Indian Music: with a Critical Examination of the Theory of 22 Sruti-s	Madhu Mohan Komaragiri	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	895.00	2013
0000 A	7733	The Vakatakas: An Essay in Hindu Iconology	Hans T. Bakker	MRML Distribution	6291.00	1997
0000 A	7734	The Raghuvamsa Kalidasa with its earliest commentary: the Raghupancika of Vallabhadeva	Dominic Goodall	MRML Distribution	9626.00	2003
0000 A	7735	Gupta Gold Coins with a Garuda-Banner: (Samudragupta to Skandagupta), 2 Vols	E.M. Raven	MRML Distribution	7655.00	1994

0000 A	7736	The Sambandha-Samuddesa (Chapter on Relation) and Bhartrhari's Philosophy of Language	J.E.M. Houben	MRML Distribution	4927.00	1995
0000 A	7737	Function and Meaning in Buddhist Art	K.R. van Kooij	MRML Distribution	4700.00	1996
0000 A	7738	Metarules of Paninian Grammar: Vyjadi's Paribhasavrtti, 2 Vols (Critically edited with English translation and commentary)	Dominik Wujastyk	MRML Distribution	5002.00	1993
0000 A	7739	The System of Five Cakras in Kubjikamatatantra 14-16	D. Heilijgers-Seelen	MRML Distribution	3562.00	1994
0000 A	7740	Early Saivism and the Skandapurana Sects and Centres	Peter C. Bisschop	MRML Distribution	9475.00	2006
0000 A	7741	The Bakhshali Manuscript: An Ancient Indian Mathematical Treatise	Takao Hayashi	MRML Distribution	8792.00	1995
0000 A	7742	Abhinavagupta's Philosophy of Revelation	Jurgen Hanneder	MRML Distribution	4320.00	1998
0000 A	7743	A History of Indian Medical Literature, 3 Vols	G.J. Meulenbeld	MRML Distribution	47754.00	
0000 A	7744	Kausitaki Upanisad	Henk Bodowitz	MRML Distribution	2956.00	2002
0000 A	7745	Rudraksh Dharan aur Japayoga (Sarvasiddhidayak tatha Sarvaphala Sadhak), (in Hindi)	Nishantketu	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	2013
0000 A	7746	Psychology & Psychoanalysis (History of Science, Philosophy and Culture in Indian Civilization, Vol. XIII, Part 3)	Girishwar Misra (Ed.) & D.P. Chattopadhyaya (Gen. Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	3000.00	2013
0000A	7747	The Surangama Sutra (Leng Yen Ching): Chinese Rendering by Master Paramiti of Central North India at Chih Chih Monastery, Canton, China, AD 705; Commentary (abridged) by Ch'an Master Han Shan (1546-1623)	Charles Luk (Tr.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	695.00	2013
0000 A	7748	The Philosophy of the Upanisads: A Study based on the Evaluation of the Comments of Samkara, Ramanuja and Madhva	S.M. Srinivasa Chari (Author) & (Mm. K.T. Pandurangi (Frwd)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	795.00	2013
0000 A	7749	The Life of Hiuen-Tsiang (Shaman Hwui Li)	Samuel Beal (Author) & L. Cranmer-Byng (Preface)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	695.00	2013
0000 A	7750	Jainism (History of Science, Philosophy and Culture in Indian Civilization, Vol. VII, Part 10)	G.C. Pande (Ed.), Mukul Raj Mehta (Asso. Ed.) & D.P. Chattopadhyaya (Gen. Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	2300.00	2013
0000 A	7751	Kinship Organization in India	Irawati Karve	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	1990
0000 A	7752	The Natyasastra: English Translation with Critical Notes	Adya Rangacharya	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	895.00	2014
0000 A	7753	Outlines of Mahayana Buddhism	Daisetz Teitaro Suzuki (Author) & Alan Watts (Prf.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	795.00	2014
0000 A	7754	Muslim Revivalist Movements in Northern India: In the Sixteenth and Seventeenth Centuries	Saiyid Athar Abbas Rizvi (Author) & Prof. Muhammad Habib (Frwd.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1200.00	2014
0000 A	7755	From Arikamedu to the Foundation of Modern Pondicherry	J.B.P. More	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	2014
0000 A	7756	The Theory and Practice of Mantra	Moo-Saeng Ghim (Gyeong Jung)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1295.00	2014

0000 A	7757	Lectures on Kant's Critique of Pure Reason	J.N. Mohanty (Author), Tara Chatterjea, Sandhya Basu & Amita Chatterjee (Eds)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	495.00	2014
0000 A	7758	A Comparative Grammar of the Modern Aryan Languages of India: with Hindi, Punjabi, Sindhi, Gujarati, Marathi, Oriya and Bengali, 3 Parts (Bound in One)	John Beames	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	2495.00	2014
0000 A	7759	Om: The Sound Symbol	Swamini Atmaprajnananda Saraswati	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	2014
0000 A	7760	A New Approach to the Vedas: An Essay in Translation and Exegesis	Ananda K. Coomaraswamy	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	400.00	2014
0000 A	7761	Pratna Samiksha: A Journal of Archaeology (New Series: Volume 4, 2013)	Centre for Archaeological Studies & Training, Eastern India, Kolkata	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1000.00	2013
0000 A	7762	Schopenhauer's Encounter with Indian Thought: Representation and Will and Their Indian Parallels	Stephen Cross	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1195.00	2014
0000 A	7763	Yoga in Practice	David Gordon White (Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1295.00	2014
0000 A	7764	The Early Modern Monarchism in Mughal India: With A Bibliographical Survey	Osamu Kondo	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	995.00	2014
0000 A	7765	Time and Eternity	Ananda K. Coomaraswamy	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	450.00	2014
0000 A	7766	Guide to Godhood: The Roadmap to Moksha (based on Shramansutram)	Amit Jain	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	795.00	2014
0000 A	7767	The Hatha Yoga Pradipika	Pancham Sinh (Tr.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	150.00	2014
0000 A	7768	The Moravian Brethren and Himalayan Cultures: Evangelisation, Society, Industry	Rafal Beszterda	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1995.00	2013
0000 A	7769	The Shadow of the Cross: Christianity and Hinduism in a Colonial Situation	Sisir Kumar Das	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	1974
0000 A	7770	A Practical Guide to North Indian Classical Vocal Music: The Ten Basic ra.gs with Compositions and Improvisations	Indurama Srivastava	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	750.00	2008
0000 A	7771	The World of Tantra	B. Bhattacharya	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	795.00	2014
0000 A	7772	Musical Instruments of India: Their History and Development	B. Chaitanya Deva	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	795.00	2014
0000 A	7773	A Historical Study of Indian Music	Swami Prajnanananda	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1295.00	2014
0000 A	7774	Yoga in Practice	David Gordon White (Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	895.00	2014
0000 A	7775	A History of Agriculture in India (from c. AD 1200 to 1947), (History of Science, Philosophy and Culture in Indian Civilization, Volume V, Part 2, Section I)	Lallanji Gopal, V.C. Srivastava (Eds) & D.P. Chattopadhyaya (Gen. Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	2800.00	2014
0000A	7776	From Rome to Moscow: The Memoirs of an Olympic Trap Shooter	Karni Singh of Bikaner	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	850.00	1982

0000 A	7777	The Sikh Gurus and the Sikh Society: A Study in Social Analysis	Niharranjan Ray	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	250.00	1975
0000 A	7778	Ancient Rome and India: Commercial and cultural contacts between the Roman world and India	Rosa Maria Cimino (Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	2000.00	1994
0000 A	7779	Passage From India: The Life and Times of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada; A Summary Study of Satsvarupa Dasa Goswami's Srila Prabhupada Lilamrta	Steven Rosen	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	250.00	1992
0000 A	7780	Puranas, History and Itihasas (History of Science, Philosophy and Culture in Indian Civilization, Vol. I, Part 6)	Vidya Nivas Mishra, N.S.S. Raman (Eds) & D.P. Chattopadhyaya (Gen. Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	2900.00	2014
0000 A	7781	The Queen's Stepwell at Patan	Kirit Mankodi	MRML Distribution	2800.00	1991
0000 A	7782	Essays in Zen Buddhism (Second Series)	Daisetz Teitaro Suzuki (Author) & Christmas Humphreys (Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	695.00	2014
0000 A	7783	Essays in Zen Buddhism (Third Series)	Daisetz Teitaro Suzuki (Author) & Christmas Humphreys (Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	695.00	2014
0000 A	7784	A History of Agriculture in India (From c. AD 1947 to the Present), (History of Science, Philosophy and Culture in Indian Civilization, Volume V, Part 2, Section II)	Lallanji Gopal, V.C. Srivastava (Eds) & D.P. Chattopadhyaya (Gen. Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	2400.00	2014
0000 A	7785	The Life of the Buddha: According to the Ancient Texts and Monuments of India	A. Foucher	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	750.00	2003
0000 A	7786	Introduction to the Study of Musical Scales	Alain Danielou	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	950.00	2014
0000 A	7787	Hindu Diaspora: Global Perspectives	T.S. Rukmani (Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	995.00	2014
0000 A	7788	Origin and Foundation of Madras	J.B.P. More	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	300.00	2014
0000 A	7789	Corpus of Eastern Kharosti and Kharosti-Brahmi Inscriptions	B.N. Mukherjee	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1070.00	2014
0000 A	7790	A Comprehensive History of Assam	S.L. Baruah	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	750.00	2013
0000 A	7791	History of the Sikhs (Vol. IV: The Sikh Commonwealth or Rise and Fall of Sikh Misls)	Hari Ram Gupta	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1295.00	2014
0000 A	7792	Science of Consciousness: A Synthesis of Vedanta and Buddhism	V.N. Misra	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1295.00	2014
0000 A	7793	Kusanas in India and Central Asia	B.N. Puri	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1595.00	2014
0000 A	7794	Kathopanishad, What After Death	Aparna Trust	MRML Distribution	250.00	1995
0000 A	7795	Rgveda for the Layman: Satasuktaparidarsanam; A Critical Survey of One Hundred Hymns of the Rgveda, with Samhita-patha, Pada-patha and Word-meaning and English translation	Shyam Ghosh	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1595.00	2014
0000 A	7796	Akbar: The Greatest Mogul	S.M. Burke	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	1989

0000 A	7797	Offerings to the Muslim Warriors of Malabar: Foundation Document of Colonialism and Clash of Civilisations (Tr. From the Indo-Arabic work 'Tohfut ul mujahideen')	J.B.P. More (Ed.& Frwd)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	350.00	2015
0000 A	7798	The Jataka or Stories of the Buddha's Former Births, 6 Vols (Bound in 3)	E.B. Cowell (Gen. Ed.) & Robert Chalmers (Tr.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	4000.00	2015
0000 A	7799	Vishnu: A step toward the infinite...	S. Deepak Raj	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	995.00	2015
0000 A	7800	Rasatarangini of Bhanudatta	Gopal Dutt Joshi (Tr.) & Devdutt Kaushik (Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	250.00	1974
0000 A	7801	Constitutional History of India: Indian Polity, Governance and The Constitution (History of Science, Philosophy and Culture in Indian Civilization, Vol. XIV, Part 5A)	Subhash C. Kashyap (Ed.) & D.P. Chattopadhyaya (Gen. Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1800.00	2015
0000 A	7802	Constitutional History of India: Federalism, Elections, Government and Rule of Law (History of Science, Philosophy and Culture in Indian Civilization, Vol. XIV, Part 5B)	Subhash C. Kashyap (Ed.) & D.P. Chattopadhyaya (Gen. Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	2700.00	2015
0000 A	7803	Ritualizing on the Boundaries: Continuity and Innovation in the Tamil Diaspora	Fred W. Clothey	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	895.00	2015
0000 A	7804	Women Mystics and Sufi Shrines in India	Kelly Pemberton	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	895.00	2015
0000A	7805	Sufi Heirs of the Prophet: The Indian Naqshbandiyya and the Rise of the Mediating Sufi Shaykh	Arthur F. Buehler (Author) & Annemarie Schimmel (Frwd)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1195.00	2015
0000 A	7806	Networks of Rebellion: Explaining Insurgent Cohesion and Collapse	Paul Staniland	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	995.00	2015
0000 A	7807	The Serpent Power: Being the Sat-cakra-nirupana and Paduka-pancaka (Two Works on Laya-yoga, translated from the Sanskrit, with Introduction and Commentary)	Sir John Woodroffe	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	500.00	2015
0000 A	7808	The Serpent Power: Being the Sat-cakra-nirupana and Paduka-pancaka (Two Works on Laya-yoga, translated from the Sanskrit, with Introduction and Commentary)	Sir John Woodroffe	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	995.00	2015
0000 A	7809	Hinduism: What It Really Is Sanatana Dharma (Vastu Sastra, Vedic Astrology and Gemology)	Jada Bharata Dasa & John Howley	MRML Distribution	690.00	2001
0000 A	7810	Dance Drama in Theory and Practice, Vol. I	S. Ramaratnam	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	3000.00	2015
0000 A	7811	Bhakti and the Bhakti Movement: A New Perspective (A Study in the History of Ideas)	Krishna Sharma	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	695.00	2015
0000 A	7812	The Social Dimensions of Early Buddhism	Uma Chakravarti	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	595.00	2015

0000 A	7813	The Classical Music of North India: The Music of the Baba Allauddin Gharana as taught by Ali Akbar Khan at the Ali Akbar College of Music (Volume One: The First Year's Study)	George Ruckert (Author) & Ali Akbar Khan (Gen. Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1195.00	2015
0000 A	7814	Tandava Laksanam or The Fundamentals of Ancient Hindu Dancing	Bijayeti Venkata Narayanaswami Naidu,Pasupuleti Srinivasulu Naidu,Venkata Rangayya Pantulu	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1495.00	2015
0000 A	7815	Classical Dances and Costumes of India	Kay Ambrose (Author), Ram Gopal (Intro.) & Arnold Haskell (Frwd)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	1295.00	2015
0000 A	7816	The Baudhayana Srauta Sutra: Belonging to the Taittiriya Samhita, 3 Vols (bound in two)	Dr W. Caland (Ed.)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	2000.00	1982
0000 A	7817	The Position of Hindus under the Delhi Sultanate 1206-1526	Kanhaiya Lall Srivastava (Author) & Dr H.L. Singh (Frwd)	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	595.00	1980
0000 A	7818	The Mahabharata of Krishna-Dwaipayana Vyasa, 12 Vols	Kisari Mohan Ganguli	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	7000.00	
0000 A	7819	Early Indian Feudal Society and its Culture	Gian Chand Chauhan	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	750.00	2015
0000 A	7820	The Transcendental Non-Dualism of Trika Saivism	Moti Lal Pandit	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	795.00	2015
0000 A	7821	Becoming Hindus and Muslims: Reading the Cultural Encounter in Bengal 1342-1905	Saumya Dey	Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd	895.00	2015
0000 A	7822	A Sanskrit Grammar For Student	A.A. Macdonell	Shivalik Prakashan	200.00	2000
0000 A	7823	Unadhi-Sutras in the Sanskrit Grammatical Tradition	Kanshi Ram	Shivalik Prakashan	395.00	2001
0000 A	7824	Bharatiya Kala Aur Sanskriti	Dr. Bhagwatilal Rajpurohit	Shivalik Prakashan	795.00	2006
0000 A	7825	The Brhad Devata	A.A. Macdonell	Shivalik Prakashan	995.00	2006
0000 A	7826	Prapanchahridaya	T. Ganapati sastri	Shivalik Prakashan	250.00	2002
0000 A	7827	Paniniyam Vyakaranam	Pt. Harisankara Pandeya	Shivalik Prakashan	895.00	2006
0000 A	7828	Raja Bhojkrit stuti avm Abhilekh	Dr. Bhagwatilal Rajpurohit	Shivalik Prakashan	495.00	2005
0000 A	7829	Sanskrit Bhasha aur Sahitya	Dr. Bhagwatilal Rajpurohit	Shivalik Prakashan	795.00	2011
0000 A	7830	Suktiratnahara	K. Sambhasiva sastri	Shivalik Prakashan	550.00	2006
0000 A	7831	Raghuvansfal aur kalidasa	Dr. Bhagwatilal Rajpurohit	Shivalik Prakashan	125.00	2000
0000 A	7832	Sanskrit Natak aur Rangmanch	Dr. Bhagwatilal Rajpurohit	Shivalik Prakashan	450.00	2003
0000 A	7833	Vrttisamuddesa of Bhartrhari.s Vakyapadiya	mithilesh Chaturvedi	Shivalik Prakashan	450.00	2001
0000A	7834	The Mahabharata A criticism	C.V. Vaidya	Shivalik Prakashan	395.00	2006
0000 A	7835	Glimpses of Sanskrit Literature	A.N. Haksar	Shivalik Prakashan	475.00	2002
0000 A	7836	Bhatrahasyamarmaprakasha	Satyapal Singh	Shivalik Prakashan	495.00	2003
0000 A	7837	SHRIKARBHASYA	vrajesh Kumar Pandey	Shivalik Prakashan	550.00	2008
0000 A	7838	Shaktivishisthadwait darshan me jeev swarup	vrajesh Kumar Pandey	Shivalik Prakashan	250.00	2008
0000 A	7839	Laghusidhant kaumudi (3vols)	Satyapal Singh	Shivalik Prakashan	2400.00	2009
0000 A	7840	Lokbhasha aur sahitya	B.L. Rajpurohit	Shivalik Prakashan	550.00	2009
0000 A	7841	Jain Kavyashastra ke siddhant	Shankar nath Tiwari	Shivalik Prakashan	600.00	2009
0000 A	7842	Sanskrit Rupko me Purvarangvidhan	Ram Pramol Kumar	Shivalik Prakashan	895.00	2010
0000 A	7843	The Archtic Home in the Vedas	Lokmanya Bal Gangadhar Tilak	Shivalik Prakashan	995.00	2010
0000 A	7844	Jharkhand ke Abhilekho ka Sanskritik Addhyayan	Devendra Nath Ojha	Shivalik Prakashan	1500.00	2011

0000 A	7845	Meghdut Bhasya aur Mahakavi Kalidas	B.L. Rajpurohit	Shivalik Prakashan	750.00	2011
0000 A	7846	Sanskrit Sahitya ka Itihas	Sachitanand Tiwari	Shivalik Prakashan	1095.00	2011
0000 A	7847	Ek Pathbhrast Brahman ki Katha	K S gaur	Shivalik Prakashan	795.00	2012
0000 A	7848	Kamandak avam shukra ka tulnatmak rajdarshan	Dinkar Tripathy	Shivalik Prakashan	480.00	2008
0000 A	7849	Manusmriti me rajsatta ke pramujh aadhar	kaushal kumar mishra	Shivalik Prakashan	500.00	2012
0000 A	7850	Yuktideepika	Vednidhi	Shivalik Prakashan	595.00	2012
0000 A	7851	Mahakavi kalidas aur unka mahakavya shilp	Rampyare mishra	Shivalik Prakashan	899.00	2012
0000 A	7852	Kavyaprakash vimarsh	aneesh mishra	Shivalik Prakashan	795.00	2013
0000 A	7853	Madhvikam	prakash shastri	Shivalik Prakashan	1095.00	2014
0000 A	7854	Rigvediya surya sukto ka manav jeewan per prabhav	Manju roy	Shivalik Prakashan	650.00	2014
0000 A	7855	Udyan katha ek anushilan	virendra nath tiwari	Shivalik Prakashan	400.00	2013
0000 A	7856	Bhakti Yoga	Swami Vivekananda	Shivalik Prakashan	300.00	2013
0000 A	7857	Bharatiya puralekh	sandeep kumar	Shivalik Prakashan	700.00	2014
0000 A	7858	Athrvavediya pariwar ka sukshmavaigyanik chitran	veena vishnoi	Shivalik Prakashan	795.00	2014
0000 A	7859	mudrarakshse rajnitiksiddhant chintnam	veena vishnoi sharma	Shivalik Prakashan	395.00	2014
0000 A	7860	Ramayan Kaleen Bharat	jitendra pratap singh	Shivalik Prakashan	2100.00	2014
0000 A	7861	Manav ka trigunatmak vyaktitva : Manovaigyanik Mulyankan	Pragati Kumari	Shivalik Prakashan	400.00	2014
0000 A	7862	vaidik manjusha	sudhir kumar	Shivalik Prakashan	375.00	2014
0000 A	7863	shriram ek vivechan	sunita devi malhan	Shivalik Prakashan	295.00	2014
0000 A	7864	ishwar mimansha	sudhir kumar	shivalik Prakashan	650.00	2014
0000 A	7865	ORION or Antiquity of the Vedas	Bal Gangadhar Tilak	Shivalik Prakashan	695.00	2014
0000 A	7866	Vishnu ke awtaro me murti ki mahatta	Rupesh kumar	Shivalik Prakashan	500.00	2014
0000 A	7867	namdhatukriyarup bhashashastriya adhyayan	neelam gaur	Shivalik Prakashan	400.00	2014
0000 A	7868	abhyasidhtva (coposting)	prabhat	Shivalik Prakashan	576.00	2015
0000 A	7869	Vyakaransidhhant kaumudi (sangya paribhashaprakaranmatram)	Dr. Satyapal Singh	Shivalik Prakashan	450.00	2015
0000 A	7870	vivekanand mahacharit : ek adhyayan	anish mishra	Shivalik Prakashan	395.00	2015
0000 A	7871	Dhwanyaloka : awdhan tika	pradeept kumar punda	Shivalik Prakashan	995.00	2015
0000 A	7872	smritiyo me upasthapit karma sidhhant	sushma devi	Shivalik Prakashan	495.00	2015
0000 A	7873	An Indian Analysis of Aesthetics: The dance, Dancer and the Spectator	Madhavi Puramnam		900.00	–
0000 A	7874	Phool Walon Ki Sair	Usha Dayal Kumar		2500.00	–
0000 A	7875	The Great Ones Vol. V	V. K. Subramanian		350.00	–
0000 A	7876	Heavenly Living Here & Now :A Complete guide to total Mang.	V K Subramanian		350.00	–
0000 A	7877	Wondrous Whispers of Wisdom from Ancient India vol. III	V. K. Subramanian		400.00	–
0000 A	7878	Timeless Sari	Nishi Sinha		1900.00	–
0000 A	7879	Story of a Bollywood Song: Evolution of Hindi Film Music	Vijay Ranchan		550.00	–
0000 A	7880	Lessons A Dog Can Teach your Child Better than you	Dr. Akhila Prasad		150.00	–
0000 A	7881	Patriotic Songs of Tagore	Utpal K Banerjee		250.00	–
0000 A	7882	Romantic Songs of Tagore	Utpal K Banerjee		250.00	–
0000 A	7883	Mythology of Shiva & Shakti	M L Varadpande		750.00	–
0000A	7884	For Pa: In Gratitude & Guilt	Som P Ranchan		200.00	–
0000 A	7885	Dance in Indian Painting	Kapila Vatsyan		2100.00	–
0000 A	7886	Mythical Animals in Indian Art	K Krishnamoorthy		150.00	–
0000 A	7887	Scientific Approach to VASTU SHASTRA	Anand Bhardwaj		450.00	–

0000 A	7888	Shaheed Bhagat Singh and the forgotten Indian Martyrs	Reginald Masey		390.00	–
0000 A	7889	Folk Theatre PANDWANI	Niranjan Mahawar		1200.00	–
0000 A	7890	Sitar Playing; A Practical Gude	Clem Alford		210.00	–
0000 A	7891	Hanuman: A Talkathon Scroll	Som Ranchan & R K Shandill		210.00	–
0000 A	7892	Wisdom of Chanakya (1001 Sparks)	V K Subramanian		300.00	–
0000 A	7893	Mystic Songs of Tagore	Utpal K Banerjee		250.00	–
0000 A	7894	Making Sencse of Bihar : An Autobiography	Shree Shankar Sharan		**500.00**	–
0000 A	7895	Das Mahavidyas: A Contemporary discourse	Som Ranchan		390.00	–
0000 A	7896	Self Knowledge: Key to Happiness and Health	Bhoja Rao		310.00	–
0000 A	7897	Love Dialogue: Selections from Heer Waris	S Balwant		295.00	–
0000 A	7898	Tagore - Nama	Utpal Banerjee		660.00	–
0000 A	7899	The Dance Orissi	Ashish Khokar		3360.00	–
0000 A	7900	Bastar Bronzes	Niranjan Mahawar		2100.00	–
0000 A	7901	Not Made in Heaven	Ranjana Sinha		390.00	–
0000 A	7902	Mirza Ghalib: Famous Gazals	Tr. Sarvat Rahman		390.00	–
0000 A	7903	The Darbhanga Gita-Govinda	Kapila Vatsyayan		1200.00	–
0000 A	7904	50 Poems in 3 languages Faiz Ahmad Faiz	Sarvat Rahman		**390.00**	–
0000 A	7905	A Dictionary of Silk In India	Nesa Arumugam		840.00	–
0000 A	7906	Silk Sarees of Tamilnadu	Nesa Arumugam		1400.00	–
0000 A	7907	The Great Ones Vol. IV	V. K. Subramanian		350.00	–
0000 A	7908	Gems of Hiden Wisdom	Narinder Nath		149.00	–
0000 A	7909	The Jatakas: Tiems and Lives of Bodhisattva	Alexandra R Kapur Fic		930.00	–
0000 A	7910	Kamashastra	Jai Singh Neeraj		2550.00	–
0000 A	7911	South Asia: Definitions & Clarifications	Reginald Massey		**390.00**	–
0000 A	7912	Indian Sculpture	Carnel Berkson		750.00	–
0000A	7913	Sri Ganesha	M. L. Varadpande		390.00	–
0000 A	7914	Sri Krishna	M. L. Varadpande		390.00	–
0000 A	7915	Raja Yoga The Royal Road To Revelation	V. K. Subramanian		350.00	–
0000 A	7916	Aspects of Mughal Painting Vol. 1	S P Verma		2100.00	–
0000 A	7917	Studies in Anglo-Indian	M. K. Naik		295.00	–
0000 A	7918	Hymns of Tulsidas	V. K. Subramanian		350.00	–
0000 A	7919	Hindustani Vocal Music	Jayashree Thatte Bhat		750.00	–
0000 A	7920	Mantra Manual	Som Ranchan		190.00	–
0000 A	7921	The Great Ones vol. III	V. K. Subramanian		350.00	–
0000 A	7922	Concise dictionary of Indian theatre	M. L. Varadpande		950.00	–
0000 A	7923	A Feeling for Feminism	V. K. Subramanian		400.00	–
0000 A	7924	Sacred Songs of India Vol. X	V. K. Subramanian		400.00	–
0000 A	7925	Yoga for Peace	K. V. Raghupathi		295.00	–
0000 A	7926	Sivanandalahari of Sankaracarya	V. K. Subramanian		350.00	–
0000 A	7927	101 Mystics of India	V. K. Subramanian		350.00	–
0000 A	7928	Sacred Songs of India Vol. IX	V. K. Subramanian		350.00	–
0000 A	7929	A Companion to Tantra	S.C. Banerji		500.00	–
0000 A	7930	Peacock in Indian Art, Thought and Literature	Krishna Lal		1500.00	–
0000 A	7931	Women in Indian Sculpture	M. L. Varadpande		800.00	–
0000 A	7932	Exhalations (Poems)	Romen Basu		200.00	–
0000 A	7933	Latest Vastu Shastra (Some Secrets)	Jagdish Gautam		350.00	–
0000 A	7934	Indian Puppets	Utpal K. Banerjee		4000.00	–
0000 A	7935	Dhammapada	M. K. Sharan		350.00	–

0000 A	7936	A Study of Deities of Rig Veda	S. S. Gupta		400.00	–
0000 A	7937	Tirukkalukkunram and Its Temple	K. V. Gopalakrishanan		600.00	–
0000 A	7938	Mystic Songs of Meera	V. K. Subramanian		250.00	–
0000 A	7939	History of Mughal Architecture Vol. IV Part -I	R. Nath		4000.00	–
0000 A	7940	South Indian Hindu Festivals and Traditions	Mailhilu Jagnalhn		550.00	–
0000 A	7941	Sacred Songs of India vol. VII	V.K. Subramanian		350.00	–
0000A	7942	Sacred Songs of India vol. III	V.K. Subramanian		350.00	–
0000 A	7943	A Siren (A Novel)	Romen Basu		350.00	–
0000 A	7944	Massage Therapy: Marma Treatment	S. V. Govindan		300.00	–
0000 A	7945	Azaadi!	Reginald Massey		200.00	–
0000 A	7946	History of Indian Theatre Vol. III	M. L. Varadpande		2100.00	–
0000 A	7947	Anatomy of Jakarta	Victor M. Fic.		1000.00	–
0000 A	7948	Early and Buddhist Stone Sculpture of Japan	A. K. Bhattacharya		1100.00	–
0000 A	7949	Asian Embroidery	Jaslean Dhamija		3000.00	–
0000 A	7950	Sacred Songs of India Vol. VIII	V.K. Subramanian		350.00	–
0000 A	7951	The Great Ones Vol. 2	V. K. Subramanian		350.00	–
0000 A	7952	Earth in Space	Keshav Malik		150.00	–
0000 A	7953	Big Little World	R. Basu		150.00	–
0000 A	7954	India’s Dances	Reginald Massey		600.00	–
0000 A	7955	Shrinagar Indian Classical View	Ved Bhatnagar		1500.00	–
0000 A	7956	Coin Splendour	Prasanna Rao Bandela		1200.00	–
0000 A	7957	Images of Indian Goddesses	Madhu Wangoo		1800.00	–
0000 A	7958	Art Shrines of Ancient India	V. K. Subramanian		1000.00	–
0000 A	7959	Whistle in the Wind	Romen Basu		120.00	–
0000 A	7960	The Tantra	Victor M. Fic		1100.00	–
0000 A	7961	From Majapahit and Sukuh to Megawati Sukarnoputri	Victor M. Fic		1800.00	–
0000 A	7962	The Great Ones Vol. I	V. K. Subramanian		350.00	–
0000 A	7963	Sacred Songs of India Vol. V	V. K. Subramanian		350.00	–
0000 A	7964	The Royal Temple of Rajarja	Geeta Vasudevan		700.00	–
0000 A	7965	Temple of Krishna in South India	T. Padmaja		900.00	–
0000 A	7966	Art & Culture Vol. II	S.P. Verma		1800.00	–
0000 A	7967	Fundamental Maxims of Ayurveda	S.V. Govindan		300.00	–
0000 A	7968	Chrysanthemum Culture	S C Dey		300.00	–
0000 A	7969	Wondrous Whispers of Wisdom from Ancient India vol. I	V. K. Subramanian		350.00	–
0000 A	7970	Wondrous Whispers of Wisdom from Ancient India vol. II	V. K. Subramanian		350.00	–
0000A	7971	The Upanishads and the Bible	V. K. Subramanian		200.00	–
0000 A	7972	Breach of Faith	Romen Basu		300.00	–
0000 A	7973	100 Poems by Faiz Ahmed Faiz	Sarvat Rahman		400.00	–
0000 A	7974	Sacred Songs of India Vol. IV	V. K. Subramanian		350.00	–
0000 A	7975	Introspection for India A Paradigm for Progress	V.K. Subramanian		200.00	–
0000 A	7976	Romance of the Raga	Vijaya Moorthy		1200.00	–
0000 A	7977	Predictive Planets and Presaging Palms	V.K. Subramanian		450.00	–
0000 A	7978	Maharaja Ranjit Singh the Last to Lay Arms	K. S. Duggal		200.00	–
0000 A	7979	Jahangir : A Connoisseur of Mughal Art	S. P. Srivastava		1800.00	–
0000 A	7980	Handsome Man	P. C. K. Prem		400.00	–
0000 A	7981	Iconography of the Buddhist Sculpture of Orissa (2vols.)	Donaldson		4000.00	–
0000 A	7982	Kuchipudi : Indian Classical Dance Art	Sunil Kothari/Avinash Pasricha		2500.00	–
0000 A	7983	Jain –Temples of Rajasthan	Sehdev Kumar		2500.00	–

0000 A	7984	Banjara Lambanis: Their Art and Literature	D.B. Naik		1200.00	–
0000 A	7985	The Biography of Bharat Kesri Dr. Syama Prasad Mookerjee with Modern Implications	S. C. Das		400.00	–
0000 A	7986	Tirukkural: The American English and Modern Tamil Translations of an Ethical Masterpiece	Satguru Sivaya Subramuniyaswami		850.00	–
0000 A	7987	A South Indian Treatise on the Kamasastra	Swami Sivapriyananda		300.00	–
0000 A	7988	The Life of Form in Indian Sculpture	Carmel Berkson		900.00	–
0000 A	7989	Sacred songs of India Vol. III	V.K. Subramanian		350.00	–
0000 A	7990	A Brief History of Dharmasastra	S.C. Banerji		500.00	–
0000 A	7991	This Land is Ours	Romen Basu		300.00	–
0000 A	7992	Some Aspects of Indo-Islamic Architecture	Subhash Parihar		1300.00	–
0000 A	7993	Nainital : The Land of Trumpet and Song	Giri Raj Shah		1200.00	–
0000 A	7994	Chittorgadh Kirtti – Stambha	R. Nath		1200.00	–
0000 A	7995	India's Kathak Dance: Past , Present & Future	Reginald Massey		500.00	–
0000 A	7996	Om Namashivaya (Thiruvasagham)	Swamiji Iraianban		400.00	–
0000 A	7997	Maxims of Kabir	G.N.Das		250.00	–
0000 A	7998	Bundi School of Painting	Jiwan Sodhi		1800.00	–
0000 A	7999	Mughal Painter of Flora and Fauna Ustad Mansur	S.P. Verma		1500.00	–
0000A	8000	Studies in Hindu and Buddhist art	P.K.Mishra		800.00	–
0000 A	8001	The Poems of Suradasa	K. P. Bahadur		400.00	–
0000 A	8002	Sacred Songs of India Vol. II	V.K. Subramaniyan		350.00	–
0000 A	8003	One World One Family	G. N. Das		150.00	–
0000 A	8004	Pahari Styles of Indian Murals	S.D.S. Charak		1500.00	–
0000 A	8005	Jummu Ragmala Paintings	Sukhdev singh Charak		900.00	–
0000 A	8006	Lessons From the Mahabharata	G.N. Das		150.00	–
0000 A	8007	Poverty and Participation in Civil Society	Yogesh Atal – Else Oven		150.00	–
0000 A	8008	The Prescribed Sikh Prayers (Nitnem)	K.S. Duggal		200.00	–
0000 A	8009	Quest for Harmony in Romen Basu's Novels	G.R. Malliga		150.00	–
0000 A	8010	Shri Rama: The man and his mission	G.N.Das		150.00	–
0000 A	8011	Thailand : Buddhism, Society and Women	Alexandra R. Kapur-Fic		900.00	–
0000 A	8012	The Square and the Circle of the Indian Arts	Kapila Vatsyayan		900.00	–
0000 A	8013	Perspective on Educating the Poor	Yogesh Atal		150.00	–
0000 A	8014	Preaching Vedanta	Swamiji Iraianban		350.00	–
0000 A	8015	Coublets From Thulasee Das	G.N. Das		250.00	–
0000 A	8016	Splendours of Himanchal Heritage	Mulk Raj Anand		900.00	–
0000 A	8017	Ambrosia of Thirukkural	Swamiji Iraianban		150.00	–
0000 A	8018	Maxims of Vidur	G. N. Das		250.00	–
0000 A	8019	A.L. Basham Problems and Perspectives of Ancient Indian	S.K. Maity		450.00	–
0000 A	8020	The Language of Harappans	Malti J Shendge		700.00	–
0000 A	8021	The Concept of Nature and Art in the last plays of Shakespeare	Iffart Ara		150.00	–
0000 A	8022	Political Hitory of carnatic under the Nawabs	N S Ramaswami		300.00	–
0000 A	8023	Sai Baba: A Ray from the Supreme	K.N. Sinha		120.00	–

0000 A	8024	Reading from Thirukkural	G. N. Das		250.00	–
0000 A	8025	Gliding on Silent Waters	Romen Basu		100.00	–
0000 A	8026	Ozone Layer: Selected Poems	Keshav Malik		100.00	–
0000 A	8027	The Yoga Tradition of the Mysore Palace	N. E . Sojman		350.00	–
0000 A	8028	A Complete Guide to Hoysala Temples	Gerad Foekema		450.00	–
0000A	8029	Ayurvedic Massage for Health and Healing	S.V. Govindan		**700.00**	–
0000 A	8030	Makers of Modern Orissa	J.K. Samal and P.K.Nayak		300.00	–
0000 A	8031	Secret Power of Tantrick Breathing – 2nd Edition	Swami Sivapriyananda		300.00	–
0000 A	8032	Fragrant Flower	S.C. Dey		250.00	–
0000 A	8033	The Holistic way to Health , Happiness and Harmony	V.K. Subramanian		180.00	–
0000 A	8034	Mystic Songs of Kabir	G.N. Das		250.00	–
0000 A	8035	Reading from Bhagabata	G.N. Das		150.00	–
0000 A	8036	Sain Bulleh Shah: the Mystic Muse	K. S. Duggal		350.00	–
0000 A	8037	The Aryas Facets Without Fancy and Fiction	Malati J.Shendge		180.00	–
0000 A	8038	Power Unlimited: Relation of Man with God	D.N. Saraf		350.00	–
0000 A	8039	The Music of India	Reginald & Jamila Massey		250.00	–
0000 A	8040	Vaisnava Art: Iconography of Kashmir	Bansal Lal Malla		400.00	–
0000 A	8041	Kailash Mansarovar	Pradeep Chamariya		900.00	–
0000 A	8042	Foreign Impact on Indian Life and culture	S. N. Naskar		450.00	–
0000 A	8043	Budda and Buddhist Synods in India and Abroad	Amarnath Thakur		400.00	–
0000 A	8044	Sacred Hindu Symbols	Gautam Chatterjee & Sanjay Chatterjee		350.00	–
0000 A	8045	Art and Culture	Ed. S.P. Verma & Ahsan Jan Qaisar		1500.00	–
0000 A	8046	Mysore Royal Dasara	Swami Sivapriyananda		1800.00	–
0000 A	8047	A Pargent of Indian Culture Vol. I & II	A.K. Bhattacharyya		2900.00	–
0000 A	8048	Studies in Jaina Art and Iconography and Allied Subject Edited	Dr. R.T. Vyas		1800.00	–
0000 A	8049	The Temple of Muktesvara Caudadanapura	Vasundhara Filliozat		700.00	–
0000 A	8050	Ethics in Persian Poetry	Ghulam Abbas Dalal		400.00	–
0000 A	8051	Dictionary of Indo-Persian Literature	Nabi Hadi		750.00	–
0000 A	8052	Art and Artist of Rajasthan	R. K. Vashistha		1100.00	–
0000 A	8053	Art in Art	Om Prakash Sharma		130.00	–
0000 A	8054	Costumes of the Rulers of Mewar	Pushpa Rani Mathur		900.00	–
0000 A	8055	History of Indian Painting : Modern Period	Kirshna Chatanya		1700.00	–
0000 A	8056	Dunhuang Art	Tan Chung		1500.00	–
0000 A	8057	Bharhut Sculpture	R.C. Sharma		450.00	–
0000A	8058	Ramayanam: As told by Valmiki and Kamban	K. S. Srinivasn		350.00	–
0000 A	8059	Party Politics and Centre State Relations in India	S. K. Jain		250.00	–
0000 A	8060	Ancient India: History and Archaeology	D.K. Ganguly		220.00	–
0000 A	8061	History of Mughal Architecture Vol. III	R. Nath		1900.00	–
0000 A	8062	Those Distance Horizones	P.C.K. Prem		100.00	–

0000 A	8063	The History and Culture of the Palas of Bengal and Bihar	Jhunu Bagohi		300.00	–
0000 A	8064	Modern Indian English Fiction	O.P. Mathur		220.00	–
0000 A	8065	Agricultural Development	Raja Ram		350.00	–
0000 A	8066	Social Though of Rabindranath Tagore	Tapati Das Gupta.		250.00	–
0000 A	8067	Building for South Asia	Benjamin Polk		700.00	–
0000 A	8068	Image Makers	Giri Raj Shah		350.00	–
0000 A	8069	India Towards Anarchy (1967-1992)	N.S. Saksena		210.00	–
0000 A	8070	Ellora: Concepts and Style	Carmel Berkson		1500.00	–
0000 A	8071	The Cosmic Zoo	Alexandra R. Kapur-Fic		250.00	–
0000 A	8072	Search for Belief in the Poetry of Robert Frost	Rajendra Nath Mishra		200.00	–
0000A	8073	India and Japan	Upendra Thakur		200.00	–
0000 A	8074	Krishna : The Living God of Braj	D. Anand		1300.00	–
0000 A	8075	Buddhist Monastic architecture in Sri Lanka	Anuradha Seneviratna & Benjamin Polk		1000.00	–
0000 A	8076	The Plunder of Art	H. Bhisham Pal		800.00	–
0000 A	8077	Rhythm Incarnate: Tribute to Shanti Bardhan	Gul Bardhan		660.00	–
0000 A	8078	Magic Bones	Abhijit Sen		230.00	–
0000 A	8079	Islands of Mind	Keshav Malik		100.00	–
0000 A	8080	Love Songs of Kabir	G.N. Das		250.00	–
0000 A	8081	History of Indian Theatre: Panorama of Indian Folk	M.L. Varadpande		1300.00	–
0000 A	8082	Plam-Leaf Miniatures by Plam-Leaf Miniatures	J.P. Das		450.00	–
0000 A	8083	The Thousand Armed Avalokitesvara	Lokesh Chandra		500.00	–
0000 A	8084	Birth of a Songs	K.S. Duggal		290.00	–
0000 A	8085	Symbolism in Anita Desai's Novel	Ms. Kajali Sharma		200.00	–
0000 A	8086	Foundation of Indian Musicology	Pradip Kumar Sengupta		300.00	–
0000 A	8087	Astrology and religion in Indian Art	Swami Sivapriyananda		500.00	–
0000 A	8088	Indological Studies	S K Maity & Upendra Thakaur		500.00	–
0000 A	8089	The Measure of Form	John F. Mosteller		1000.00	–
0000 A	8090	The Shaal Forest	Gunomoy Munna		200.00	–
0000 A	8091	Hunger (A Novel)	Amritlal Nagar		200.00	–
0000 A	8092	State Enterprises in a Developing Country	R.C. Dutt		250.00	–
0000 A	8093	Toward a Non-Static Theory of Profit Maximization	Amitabha Mukherjee		250.00	–
0000 A	8094	Calcutta on the Eva of Her Tercentenary	Asok Mitra		150.00	–
0000 A	8095	The Medieval Revival and its Influence on the Romantic Movement	R. R. Agrawal		275.00	–
0000 A	8096	The Odyssey of Science , culture and Consciousness	Kishore Gandhi		250.00	–
0000 A	8097	Human Fertility Cults and rituals of Bengal	P.K. Maity		250.00	–
0000 A	8098	Ranjit Singh : A Secular Sikh Sovereign	K.S. Duggal		300.00	–
0000 A	8099	Rama Legends and Rama Relief in Indonesia	Willem Stutterheim		600.00	–
0000 A	8100	Modern Civilization : A Crisis of Fragmentation	S. C. Malik		150.00	–
0000 A	8101	The Growth of the Novel in India	P.K. Rajan		150.00	–
0000A	8102	The Cut –Off Points & Poems	Keshav Malik		100.00	–
0000 A	8103	Plam-Leaf Etchings of Orissa	D. P. Patnaik		325.00	–
0000 A	8104	Tulsidas: Hebbar's Narration in Lines	K.K. Hebbar		300.00	–

0000 A	8105	Pakistan Zia and After	Vidyarthi		100.00	–
0000 A	8106	The Enduring Friendship	Hemen Ray		120.00	–
0000 A	8107	Beyond Perestorika –Challenges and Choices	M.L. Sondhi		120.00	–
0000 A	8108	Citizenship development and Fundamental duties	D.N. Saxena,		100.00	–
0000 A	8109	Secularism in Indian Art	K.V. Soundra Rajan		300.00	–
0000 A	8110	Perspectives on Arthur Miller	Atma Ram		80.00	–
0000 A	8111	Ecology, Culture and Philosophy	Madhuri Sondhi and Mary M. Walker		150.00	–
0000 A	8112	Folk Ritual of Eastern India	P.K. Maity		150.00	–
0000 A	8113	Governance of Universities: Autonomy of University community	J. N. Kaul		150.00	–
0000 A	8114	Religion and Ritual in Rural India	Tribhuwan Kapur		150.00	–
0000 A	8115	Epic Sciences in Indian Plastic Art	Jayntika Kala		300.00	–
0000 A	8116	The Aging in India	A B Bose		100.00	–
0000 A	8117	Wing at a Distance	Romen Basu		100.00	–
0000 A	8118	Foreign Policy and Legislatures: An Analysis of Seven Parliaments	M. L. Sondhi		150.00	–
0000 A	8119	The English Curriculum: An Ethnographic Study	D. Grace Jacob		150.00	–
0000 A	8120	Japji Khusgwant Singh:	Mulk Raj Anand		50.00	–
0000 A	8121	Glimpses of Art , Architecture and Buddhist Literature in Ancient India	K. Krishanamurthy		300.00	–
0000 A	8122	World Monetry and Financial System	N A Sharma, V K Bhalla		120.00	–
0000 A	8123	The Imperial Guptas and their times	D. K. Ganguly		200.00	–
0000 A	8124	Arts of India	Krishana Chaitanya		750.00	–
0000 A	8125	Jaina –Rupa –Madana (Jain Iconography)	U.P. Shah		1000.00	–
0000 A	8126	The Bhagavata Purana	P. K. Mishra		200.00	–
0000 A	8127	Retreat of Socialism in India	R. c. Dutta		120.00	–
0000 A	8128	Peasantry in India	G. Krishana Kutty		120.00	–
0000 A	8129	Quest for Peace and Progress	Balkrishna Singhania		120.00	–
0000 A	8130	International Environment and India's Economics Development	N A Sarma		120.00	–
0000A	8131	The Great Encounter: A Study of Indo-American Literary and cultural Relations	R. K. Gupta		200.00	–
0000 A	8132	Some Aspects of Asian History and Culture	Upendra Thakur		300.00	–
0000 A	8133	Sino-Soviet Conflict Over India	Heman		100.00	–
0000 A	8134	Between Nobodies and Stars	Kheshav Malik		100.00	–
0000 A	8135	The Bhagavadgita and Jivana Yoga	R. N. Vyas		100.00	–
0000 A	8136	Terrorism History and Facets in the world and in India	N. S. Saksena		150.00	–
0000 A	8137	The Prescribed Sikh Scriptures	K. S Duggal		200.00	–
0000 A	8138	Sculptures of Ganga-Yamuna Valley	Mihir Mohan Mukhopadhyay		250.00	–
0000 A	8139	Preparing the Ground	Ajneya		120.00	–
0000 A	8140	Folk Icons and Rituals in Tribal Life	Pramod Kumar		300.00	–
0000 A	8141	Goddesses in Ancient India	P. K. Agrawala		500.00	–
0000 A	8142	English Law in India	A .C. Banerjee		150.00	–
0000 A	8143	Children: Voyage into Problem Space	Meenakshi Saxena		150.00	–
0000 A	8144	Inscriptions of Ancient Nepal	D.R. Regmi		1500.00	–
0000 A	8145	Indian Ballet Dancing	Projesh Banerjee		700.00	–
0000 A	8146	Punjab Painting	R. P. Srivastava		700.00	–

0000 A	8147	Socio-Economic and Legal Implications of Urban Land ceiling and Regulation	Gopal Bhargava		200.00	–
0000 A	8148	Chalukyan Temples of Andhradesa	B. Rajendra Prasad		500.00	–
0000 A	8149	Cultural Heritage of Ancient India	S. K. Maity		100.00	–
0000 A	8150	Teaching of Social Studies in India	P.K. Khasnavis		100.00	–
0000 A	8151	Life in Sanchi Sculpture	A. L. Srivastava		350.00	–
0000 A	8152	Religion and Theatre	M. L.Varadpande		100.00	–
0000 A	8153	Public Administration and Management : Problems of Adaptation	UNESCO		150.00	–
0000 A	8154	Art of Osian temples	Asha Kalia		500.00	–
0000 A	8155	Centres of Pahari Painting	Chandramani Singh		500.00	–
0000 A	8156	Krishna Theatre in India	M. L. Varadpande		325.00	–
0000 A	8157	Cultural Contours of India	Vijay Shankar Srivastava		1000.00	–
0000 A	8158	Ancient Indian and Indo-Greek Theatre	M. L. Vardpande		300.00	–
0000 A	8159	Tradition in Modern Novel-theory E. M. Forster Somerset Mugham and Joyce cary	K.K.Sharma		100.00	–
0000A	8160	Basohli Paintings of the Rasamanjari	M. S. Randhawa & S. D. Bhambri		500.00	–
0000 A	8161	Between Underdevelopment & Revolution : a Latin American	Rodolfo Stavenhagen		100.00	–
0000 A	8162	Split in a Predominant Party, the Indian National	Coungress Prasad Singh		100.00	–
0000 A	8163	Cultural Relations in the Global Community: Problems and Prospects	Verner C Bickley		100.00	–
0000 A	8164	The Coinage of Northern Indian	P C Roy		300.00	–
0000 A	8165	Religious Thought in India	T N Sharma		150.00	–
0000 A	8166	Rural Youth : Education , Occupation, and Social Outlook	Prakesh M Shingi		120.00	–
0000 A	8167	Social Life in Medieval Karnataka	Jyotsna K Kamat		300.00	–
0000 A	8168	An Invitation to Think	M V Naidu		100.00	–
0000 A	8169	Mao's China: A Nation in Transition	Ram K. Vepa		150.00	–
0000 A	8170	Fine Arts in Ancient India	Anil Baran Ganguly		150.00	–
0000 A	8171	Maxims of Chanakya (Sanskirt to English)	V K Subramanian		250.00	–
0000 A	8172	Impact of Agricultural Development on Demographic Behaviour	D N Basu, Raghu Roy		140.00	–
0000 A	8173	Indian Monuments	N S Ramaswami		200.00	–
0000 A	8174	Thai Art with Indian Influences	Promsak Jermsawatdi		500.00	–
0000 A	8175	Social Integration of Scheduled Castes	Suneila Malik		150.00	–
0000 A	8176	Health Programme Management Through Pert	T J Ramaiah		150.00	–
0000 A	8177	Democracy Means Bread and Freedom	Pillo Mody		200.00	–
0000 A	8178	Some Epigraohical Records of the Mediaeval Period from Eastern India	D C Sircar		300.00	–
0000 A	8179	Centre-State Financial Relations in India	Birla Institute of Scientific Research Economic Research Div		150.00	–
0000 A	8180	Management in Small Poultry Farms	D P Mathur and V K Gupta		150.00	–
0000 A	8181	Indo-Greek Jewellery	Rai Govind Chandra		200.00	–
0000 A	8182	Alternative to Communism and Capitalism : the Responsible Society Stephen	Romen & Eugen Loebl		150.00	–

0000 A	8183	The Painter in Ancient India	C Sivaramamurti		500.00	–
0000 A	8184	Politics of Peace U. N. General Assembly	P M Sharma		200.00	–
0000 A	8185	Perspectives on Adult Crime and correction	Nirmala H. Adwani		150.00	–
0000 A	8186	Yasovarman of Kanauj	S M Mishra		250.00	–
0000 A	8187	Create Beauty Bread –A Fascinating New Hobby	S. Dovedy		50.00	–
0000 A	8188	Social Sciences and National Development –the Southeast Asian Experience Edited	S.S. Hsueh		150.00	–
0000A	8189	Subverting the Constitution	G.G. Mirchandani		150.00	–
0000 A	8190	The Lyric Spring : The Poetic Achievement of Sarojini Naidu	Dr. P. V. Rajyalakshmi		150.00	–
0000 A	8191	History of the Corps of Engineers India Army	Ashok Mitra		500.00	–
0000 A	8192	State Legislature in India	Dayadhar Jah		100.00	–
0000 A	8193	Yakshagana	Martha Bush Ashton & Bruce Christie		400.00	–
0000 A	8194	India A Study In Futurism	Ed. Shyam Ratna Gupta		100.00	–
0000 A	8195	Iconography of Sadasiva	Sharma, Brijendra Nath		300.00	–
0000 A	8196	An Integral View of Poetry: An India Perspective	Vinayak Krishna Gokak		150.00	–
0000 A	8197	Iconography of Revanta	Brijendra Nath Sharma		200.00	–
0000 A	8198	The Dharmaraja Ratha and Its Sculptures Mahabalipuram	K. R. Srinivasan		300.00	–
0000 A	8199	Coleridge's Aesthetics	Vinayak Krishna Gokak		100.00	–
0000 A	8200	Citizenship development and Fundamental duties	K. B. Lall & D. N. Saxena		100.00	–
0000 A	8201	Sankara Philosophy and The Role of Religion in Indian Society by Dharmaraj Adat			600.00	–
0000 A	8202	Sanskrit Poetics in The Post Modern Scenario by Dharmraj Adat			2000.00	–
0000 A	8203	Samkhya Darshan (Text with commentary in English) in 2 vol. by Kiran Singh			2500.00	–
0000 A	8204	Bhrathari Shataktrai (Text with Hindi and English Translation & Critical Notes)			600.00	–
0000 A	8205	Poetics Art and Craft by P. K. Mishra Edited by A. R. Mishra			800.00	–
0000 A	8206	Simplified Grammer to Pali Language by Alka Barua			650.00	–
0000 A	8207	Indian Freedom Movement & Reflected in Sanskrit Literature by Sreejish			400.00	–
0000 A	8208	Animals and Birds in Sanskrit Literature by Gauri Mahulikar			600.00	–
0000 A	8209	कछवाहा राजवंश की अमूल्य विरासत आम्बेर–सवाई जयपुर	सियाशरण नाटाणी		1350.00	–
0000 A	8210	भारत के देसी राज्य	सुखसम्पत्तिराय भण्डारी		1595.00	–
0000 A	8211	शब्द कोश कला इतिहास व पुरात्तव	रतन लाल मिश्र		495.00	–
0000 A	8212	सुयेनच्यांग की भारत यात्रा	जगमोहन वर्मा		450.00	–
0000 A	8213	उत्तरी पांचाल का पुरातत्त्व कला एवं संस्कृति	राजीव पाण्डेय		2200.00	–
0000 A	8214	इतिहास के विभिन्न आयाम	ज्योत्स्ना श्रीवास्तव		795.00	–
0000 A	8215	मत्स्य जनपद क्षेत्र की कला व पुरातत्व	कोमल कान्त शर्मा		3000.00	–
0000 A	8216	तुगलक कालीन भारत	मदन गोपाल		495.00	–
0000 A	8217	फाहियान की भारत यात्रा	जगमोहन वर्मा		300.00	–
0000A	8218	ओझा निबन्ध संग्रह (2 भागों में)	सं. भगवती लाल राजपुरोहित		1500.00	–

0000 A	8219	खलजीकालीन भारत	अतहर अब्बास रिजवी		500.00	–
0000 A	8220	हुएनसांग की भारत यात्रा	ठाकर प्रसाद शर्मा		750.00	–
0000 A	8221	मेगास्थनीज की भारत यात्रा	रामचन्द्र शक्ल		350.00	–
0000 A	8222	अलबेरूनी वर्णित भारत (2 भागों में)	सन्तराम बी ए		1500.00	–
0000 A	8223	भारत के प्राचीन राजवंश तीन भागों में	विश्वेश्वरनाथ रेउ		2000.00	–
0000 A	8224	अलेक्जैण्डर किनलॉक फॉर्ब्स कृत रासमाला (गुजरात का इतिहास) 4 भागों में	सं. गोपाल नारायण बहुरा		1800.00	–
0000 A	8225	सल्तनकाल में हिन्दु प्रतिराध	अशोक कुमार सिंह		950.00	–
0000 A	8226	तबकाते अकबरी	ख्वाजा निजामुदीन अहमद		800.00	–
0000 A	8227	आइन ए अकबरी	रामलाल पाण्डेय		650.00	–
0000 A	8228	तारीखे दाउदी	अब्दुल्लाह		375.00	–
0000 A	8229	विंध्याचल के बघेल राज्य	सुशील कुमार दुबे		500.00	–
0000 A	8230	सोलंकियों का प्राचीन इतिहास	गौरीशंकर हीराचन्द्र ओझा		300.00	–
0000 A	8231	डॉ बर्नीयर की भारत यात्रा	गंगा प्रसाद गुप्त व रामचन्द्र वर्मा		300.00	–
0000 A	8232	जहॉगीरकालीन भारत	सं. बी एल भादानी		150.00	–
0000 A	8233	मुगलकालीन इतिहास लेखन व इतिहास लेखन	आर के सक्सेना		225.00	–
0000 A	8234	Forts and Palaces of Himachal Pradesh	Usha Bande and Him Chatterjee		3600.00	–
0000 A	8235	Gleaning of Indian Archaeology History and Culture	K.D.Vajpai , Jamindar		4500.00	–
0000 A	8236	Heritage of the Rulers of Amber	Ranbir Sinh		1500.00	–
0000 A	8237	History of Shekhawats	Ranbir Sinh		750.00	–
0000 A	8238	History of the Indian Administration of Lord Ellenborough	Lord Colchester		1995.00	–
0000 A	8239	History of the Rashtrakutas (Rathodas)	B.N.Reu		350.00	–
0000 A	8240	Islamic Heritage in the South Asian Subcontinent (2 vols set)	Nazir Ahmed, I.H.Siddiqui		1000.00	–
0000 A	8241	Karkhanas of the Mughal Zamindars	R.K.Saxena		350.00	–
0000 A	8242	Mausoleum and Tomb of Rajasthan	Ratan lal Mishra		1500.00	–
0000 A	8243	Mohan Singh's Waqai-Holkar	Tr. Sir Jadunath Sarkar		400.00	–
0000 A	8244	Mughal Documents : Taqsim	S.P.Gupta & S.H.Khan		995.00	–
0000 A	8245	Papers Respecting the Succession by Adoption of Sovereign Princes in India	Sir Edward Colebrooke		1500.00	–
0000 A	8246	Peshwa Maratha Relations and Malhar Rao Holkar	N.N.Nagarale		495.00	–
0000A	8247	Princely Historian *(Maharaj kumar Dr. Raghbir Sinh commemoration Volume)*	Ed. Manohar Sinh Ranawat		4000.00	–
0000 A	8248	Ranthambhor *the impregnable fort*	Ranbir Sinh		2400.00	–
0000 A	8249	Researches in Indo-Portuguese History (2 vols set)	P.P.Shirodkar		2000.00	–
0000 A	8250	Revolt of 1857 in India	Sunita Sharma		495.00	–
0000 A	8251	Scarcity and Famine in Central Province	D.P.Awasthi		495.00	–
0000 A	8252	Sher Shah Sur and His Dynasty			350.00	–
0000 A	8253	Sketches of the Relations between British Government in India and the Different native States	J.Sutherland		495.00	–
0000 A	8254	Studies in Mughal Economy	M.P.Singh		350.00	–
0000 A	8255	Summary of Affairs of the Mahratta States	J.Talboys Wheeler		995.00	–

0000 A	8256	The Chishti Shrine of Ajmer *(pir,pilgrims, practices)*	S.Liyaqat H.Moini		800.00	–
0000 A	8257	The City of Sawai Jaipur	G.N.Bahura		1950.00	–
0000 A	8258	The Critical Triangle *: India Britian and Turkey*	R.K.Trivedi		995.00	–
0000 A	8259	Travels in Western India	Raghubir sinh		350.00	–
0000 A	8260	Wajid Ali Shah *the tragic king*	Ranbir sinh		1650.00	–
0000 A	8261	War Strategy of Maharana Pratap	L.P.Mathur		350.00	–
0000 A	8262	Kachchhavahas Amber the city of mother goddess	G.N.Bahura and Chandramani Singh		1350.00	–
0000 A	8263	Ancient Indian Town Planning	A.Kaushik		2100.00	–
0000 A	8264	Annotated Biobliography on Himalaya	Y.Verma,		4800.00	–
0000 A	8265	Bhosle of Nagupr and East India Company	Prabhakar Gadre		995.00	–
0000 A	8266	Fortified Cities of Ancient India	Ratan lal Mishra		795.00	–
0000 A	8267	Trade and Commerce in Western Rajputana	H.S.Sharma		995.00	–
0000 A	8268	Visionary, Vision and Wisdom (*Select Speeches from Palace Archives, Jaipur*)	Ed. Chandramani Singh		795.00	–
0000 A	8269	Published in Association with M.S.Mansingh II Musuem Trust, City Palace, Jaipur			350.00	–
0000 A	8270	Chronological Summary and Genealogical Tables of History of Great Britian	Manik Lal Gupta		400.00	–
0000 A	8271	Economy and Polity of Rajasthan	M.Sato & B.L.Bhadani		1500.00	–
0000 A	8272	Facets of a Marwar Historian	Ed B.L.Bhadani		1500.00	–
0000 A	8273	Symphony in Stone : *Festivities of Early Buddhism*	Garima Kaushik		1500.00	–
0000 A	8274	Ganesa in Indian Art and Literature	Nirmala Yadava		4000.00	–
0000 A	8275	Gunadoot Kavyam of Nilakantha Kavi	Shipra Pareek		150.00	–
0000A	8276	The Seeds of Mind	Rati Saxena		360.00	–
0000 A	8277	Jaipur Observetories	H.L.Showers		150.00	–
0000 A	8278	Ancient Indian Town Planning	Akshat Kaushik		2100.00	–
0000 A	8279	Bhagavad Gita as it was	P.L.Bhargava		300.00	–
0000 A	8280	Dramatis Personae of Valmiki Ramayana			495.00	–
0000 A	8281	Works of Panditraj Jagganath's Poetry	Kalanath Sastry		150.00	–
0000 A	8282	Upvan Vinod	G.N.Bahura		150.00	–
0000 A	8283	Panchatantra *(English rendering of panchatantra stories)*	K.Easwern Kutty		495.00	–
0000 A	8284	Panorama of Sanskrit Poetics	Satyavrat		500.00	–
0000 A	8285	Pathways to Literature Art and Archaeology *(Felicitation Volume in Honour of Pandit Gopal Narayan Bahura)*	Chandramani Singh and Neelima Vashishtha		5500.00	–
0000 A	8286	Splendour of Sanskrit Poetics	G.D.Bhatt		1600.00	–
0000 A	8287	Sculptural Art of Abaneri : A Paradigm	Rajendra Yadav		2200.00	–
0000 A	8288	Jijnasa A Journal of the History of Ideas and Culture (Prof. G.C.Pande, Commermoration Volume, 2 vol set	Ed Vibha Upadhayaya		4000.00	–
0000 A	8289	Ancient Indian Town Planning	A.Kaushik		2100.00	–
0000 A	8290	Annotated Biobliography on Himalaya	Y.Verma,		4800.00	–
0000 A	8291	Antiques their restoration and preservation	A.L.Lucas		695.00	–
0000 A	8292	Archaeological Remains and Excavations at Sambhar	Rai Bahadur Daya Ram Sahni		800.00	–

0000 A	8293	Art and Culture Felici. Vol. in ho. Of Prof. S.Nurul Hasan	A.J.Qaisar & S.P.Verma		2000.00	–
0000 A	8294	Art Traditions of the Paramaras of Vagada	P.K.Trivedi		3600.00	–
0000 A	8295	Art Treasures of Rajasthan	Chandramani Singh		2800.00	–
0000 A	8296	Aspect of Indian Archaeology	M.D.N.Sashi		800.00	–
0000 A	8297	Bayana : a concept of historical Archaeology	Rajeev Bargoti		1600.00	–
0000 A	8298	Early Farming Communities of the Kaimur (Excavation at Senuwar) 2 vol set	Birendra Pratap Singh		6500.00	–
0000 A	8299	Relevance of Museum and Museology in Modern Society	Vibha Upadhayaya		3000.00	–
0000 A	8300	Excavations at Bairat	Rai Bahadur Daya Ram Sahni		800.00	–
0000 A	8301	Excavations at Lal Qila	R.C.Gaur		1500.00	–
0000 A	8302	Excavations at Rairh	K.N.Puri		800.00	–
0000 A	8303	Fire Worship in Ancient India	Madhulika Sharma		995.00	–
0000 A	8304	Fortified Cities of Ancient India	Ratan lal Mishra		795.00	–
0000A	8305	Forts and Palaces of Himachal Pradesh	Usha Bande and Him Chatterjee		3600.00	–
0000 A	8306	Fountain Stone Slab of Chamba	S.M.Sethi & Hari Chauhan		800.00	–
0000 A	8307	Ganesa in Indian Art and Literature	Nirmala Yadava		4000.00	–
0000 A	8308	Gleanings of Indian Archaeology History and Culture	K.D.Vajpai & Jamindar		7500.00	–
0000 A	8309	Heritage Management	S.K.Bhowmik		2200.00	–
0000 A	8310	Iconography of the Hindu Temples in Marathwada	B.Deshmukh		995.00	–
0000 A	8311	Kachchhapaghata Art and Architecture	Ahmed Ali		2200.00	–
0000 A	8312	Archaeology, Museology and Conservation	Vibha Upadhayaya		1295.00	–
0000 A	8313	Paidigutta Excavations	D.L.N.Sastry		1500.00	–
0000 A	8314	Painted Grey Ware	R.C.Gaur		800.00	–
0000 A	8315	Pathways to Literature Art and Archaeology	Chandramani Singh		6000.00	–
0000 A	8316	Portrayal of the woman	G.B.Deglurkar		1950.00	–
0000 A	8317	Protected Monuments of Rajasthan	Chandramani Singh		6000.00	–
0000 A	8318	Saivite Scultures of Kashmir	Uma Pandey		475.00	–
0000 A	8319	Sculptural Traditions of Rajasthan	N.Vashishtha		2200.00	–
0000 A	8320	Selected Art Pieces of Aligarh Archaeology Museum	R.C.Gaur		1200.00	–
0000 A	8321	Studies in Indian Archaeology and Ancient India	R.C.Gaur		4500.00	–
0000 A	8322	Studies in Indian Iconography	P.K.Agrawala		1995.00	–
0000 A	8323	Symphony in Stone Festivities in Early Buddhism	Garima Kaushik		1500.00	–
0000 A	8324	Temples of Marathwada	P.Deo		1500.00	–
0000 A	8325	Temples of Rajasthan	R.V.Somani		2300.00	–
0000 A	8326	Krishna Theme in the Visual Art of Rajasthan	Vandana Khanna		2000.00	–
0000 A	8327	Reading Shaw's Plays: A Freudain Way	Vibha Sharma		695.00	–
0000 A	8328	Gender Reality : survival strategy	Supriya Agarwal		650.00	–
0000 A	8329	Dramatis Personae of Valmiki Ramayana	T.S.Krishnamurthy		495.00	–
0000 A	8330	Theatre Quotes	Ranbir Singh		325.00	–
0000 A	8331	H.G.Wells as a Novelist	K.K.Kemkar		995.00	–
0000 A	8332	A Classical Dictionary of India	John Dowson		1595.00	–
0000 A	8333	Research Methodology	Harshna Agarwal		2795.00	–
0000A	8334	Panchatantra *(English rendering of panchatantra stories)*	K.Easwern Kutty		495.00	–

0000 A	8335	Gender Reality survival strategy	Supriya		650.00	–
0000 A	8336	Sati and Social Reforms in India	Meena Gaur		795.00	–
0000 A	8337	Tribals in Criminal Web	M.A.Ansari		995.00	–
0000 A	8338	Domestic Violence Against Women	Shashi Goel		1295.00	–
0000 A	8339	Law Relating to Construction A Socio-Legal Study	Prahlad Rai		795.00	–
0000 A	8340	Interaction of the Bhils with Other Communities	L.P.Mathur		300.00	–
0000 A	8341	Protest Movement of Bhils	L.P.Mathur		350.00	–
0000 A	8342	Dramatic Elements in Moder Art	Ravi Chaturvedi		2100.00	–
0000 A	8343	Evolution of Indian Classical Music	Neeraja Bhatnagar		1500.00	–
0000 A	8344	Fundamentals of Music Therapy	P.S.Mehta		750.00	–
0000 A	8345	Performing Arts of Rajasthan	Ed.Chandramani Singh		3000.00	–
0000 A	8346	Theatre Quotes	Ranbir Sinh		325.00	–
0000 A	8347	Researches in Ayurveda Past and Present *(Vd. Guraj Sharma Mishra Felicitation Volume.)*	B.L.Gaur and S.K.Khandal		1500.00	–
0000 A	8348	Researches in Ayurveda Past and *Present (Vd. P.V.Sharma Felicitation Vol.*	B.L.Gaur and S.K.Sharma		1200.00	–
0000 A	8349	Pharmacautic of Metals	Tamrkar		350.00	–
0000 A	8350	Concept of Jathragani Ayurveda	S.K.Sharma		300.00	–
0000 A	8351	Concept of Attatvabhinivesh andAyurveda	Rajesh Kotecha		450.00	–
0000 A	8352	Concept of Lekhana in Ayurveda	Meta Kotecha		300.00	–
0000 A	8353	Upvan Vinod	G.N.Bahura		200.00	–
0000 A	8354	Understanding Ayurveda	B.L.Gaur		375.00	–
0000 A	8355	The Flux of Existence in Ayurveda	Upendra Dixit		300.00	–
0000 A	8356	Honey and Its Ayurvedic Approach	Santosh Khandal		300.00	–
0000 A	8357	Modern Relevance of Theravada Buddhism Ethics	Tater		795	–
0000 A	8358	Aganda for Reseach *in Indian and Western Philosophy 2 vol set*	Dayakrishna		2795	–
0000 A	8359	Freedom the art and science of life	Kavi Narayana Murthy		995	–
0000 A	8360	Religious Movement in Orissa	B.B.Mishra		400	–
0000 A	8361	The Yoga and Holistic Health	Yadav		250	–
0000 A	8362	Archaeological Remains and Excavations at Sambhar	Rai Bahadur Daya Ram Sahni		800.00	–
0000 A	8363	Art Traditions of the Paramaras of Vagada	P.K.Trivedi		3600.00	–
0000 A	8364	Art Treasures of Rajasthan	Chandramani Singh		2800.00	–
0000 A	8365	Bayana : a concept of historical Archaeology	Rajeev Bargoti		1600.00	–
0000 A	8366	Economy and Polity of Rajasthan	M.Sato & B.L.Bhadani		400.00	–
0000 A	8367	Excavations at Bairat	Rai Bahadur Daya Ram Sahni		800.00	–
0000 A	8368	Excavations at Lal Qila	R.C.Gaur		1500.00	–
0000 A	8369	Excavations at Rairh	K.N.Puri		800.00	–
0000 A	8370	Facets of a Marwar Historian	Ed B.L.Bhadani		1500.00	–
0000A	8371	Fortified Cities of Ancient India	Ratan lal Mishra		795.00	–
0000 A	8372	Heritage of the Rulers of Amber	Ranbir Sinh		1500.00	–
0000 A	8373	History of Shekhawats	Ranbir Sinh		750.00	–
0000 A	8374	History of the Rashtrakutas (Rathodas)	B.N.Reu		350.00	–
0000 A	8375	Kachchhavahas Amber the city of mother goddess	G.N.Bahura and Chandramani Singh		1350.00	–
0000 A	8376	Krishna Theme in the Visual Art of Rajasthan	Vandana Khanna		2000.00	–

0000 A	8377	Mausoleum and Tomb of Rajasthan	Ratan lal Mishra		1500.00	–
0000 A	8378	Mirth of Jaipur Wall Painting	Mamta chaturvedi		2500.00	–
0000 A	8379	Princely Historian maharajkumar Dr. Raghbir sinh commemoration Volume			4000.00	–
0000 A	8380	Protected Monuments of Rajasthan	Chandramani Singh		6000.00	–
0000 A	8381	Ranthambhor the impregnable fort	Ranbir Sinh		2400.00	–
0000 A	8382	Sculptural Art of Abaneri : A Paradigm	Rajendra Yadav		2200.00	–
0000 A	8383	Sculptural Traditions of Rajasthan	N.Vashishtha		2200.00	–
0000 A	8384	Tales of Love in Rajasthani Painting	Ramanuj Pancholi		2300.00	–
0000 A	8385	Temples of Rajasthan	R.V.Somani		2300.00	–
0000 A	8386	The Chishti Shrine of Ajmer pir,pilgrims, practices	S.Liyaqat H.Moini		800.00	–
0000 A	8387	The City of Sawai Jaipur	G.N.Bahura		1950.00	–
0000 A	8388	Travels in Western India	Raghubir sinh		350.00	–
0000 A	8389	War Strategy of Maharana Pratap	L.P.Mathur		350.00	–
0000 A	8390	Rajput Nobility	R.K.Saxena		400.00	–
0000 A	8391	Prithviraj Chauhan and his times	R.V.Somani		795.00	–
0000 A	8392	Performing Arts of Rajasthan	Chandramani Singh		3000.00	–
0000 A	8393	Interaction of the Bhils with other communities	L.P.Mathur		300.00	–
0000 A	8394	Protest Movements of Bhils	L.P.Mathur		350.00	–
0000 A	8395	Trade and Commerce in Western Rajputana	H.S.Sharma		995.00	–
0000 A	8396	Visionary, Vision and Wisdom	Chandramani Singh		795.00	–
0000 A	8397	Strategic Human Resources Management	Shubhangana		995.00	–
0000 A	8398	Top Careers *(Planning, Guidance and Counselling)*	S.K.Chaudhary		995.00	–
0000 A	8399	Research Methodology	Harshna Agarwal		2795.00	–
0000A	8400	Social Welfare in Backward Castes *(Expenditure and Scheme)*	Rakhi Gupta		995.00	–
0000 A	8401	Strategic Advertising Marketing and Sales Management	S.K.Chaudhary		995.00	–
0000 A	8402	Heritage Management	S.K.Bhowmik		2200.00	–
0000 A	8403	Protected Monuments of Rajasthan	Ed. Chandramani Sinh		6000.00	–
0000 A	8404	Ranthambhor the impregnable fort	Ranbir Sinh		2400.00	–
0000 A	8405	Heritage of Kachhawahas Amber (P.B)	Ranbir Sinh		300.00	–
0000 A	8406	Heritage of the Kachhawahas Jaipur City (P.B.)	Ranbir Sinh		300.00	–
0000 A	8407	Kachhavaha's Amber the City of Mother Goddess (P.B.)	Bahura and Singh		550.00	–
0000 A	8408	The City of Sawai Jaipur (P.B.)	G.N.Bahura		750.00	–
0000 A	8409	Glory of Jaipur City	G.N.Bahura		200.00	–
0000 A	8410	Amber History Art and Architecture	S.S.Natani		35.00	–
0000 A	8411	Hawa Mahal	S.s.Natani		35.00	–
0000 A	8412	Jaigarh Fort	G.N.Bahura		35.00	–
0000 A	8413	Albert Hall Museum	Tarachand Jain		35.00	–
0000 A	8414	City Palace history,art and architecture	G.N.Bahura		35.00	–
0000 A	8415	Nahargadh Fort	G.N.Bahura		35.00	–
0000 A	8416	The Sacred Palace Galta	S.S.Natani		35.00	–
0000 A	8417	Tourist Centres of India	S.Khandelwal		1995.00	–

0000 A	8418	यजुर्वेद भाष्य	महर्षि दयानन्द कृत अमर साहित्य	वैदिक प्रकाशन	600.00	–
0000 A	8419	सत्यार्थ प्रकाश	महर्षि दयानन्द कृत अमर साहित्य	वैदिक प्रकाशन	150.00	–
0000 A	8420	सत्यार्थ प्रकाश (सजिल्द)	महर्षि दयानन्द कृत अमर साहित्य	वैदिक प्रकाशन	80.00	–
0000 A	8421	सत्यार्थ प्रकाश (असजिल्द)	महर्षि दयानन्द कृत अमर साहित्य	वैदिक प्रकाशन	50.00	–
0000 A	8422	ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका	महर्षि दयानन्द कृत अमर साहित्य	वैदिक प्रकाशन	200.00	–
0000 A	8423	संस्कार विधि (सजिल्द)	महर्षि दयानन्द कृत अमर साहित्य	वैदिक प्रकाशन	50.00	–
0000 A	8424	संस्कार विधि (असजिल्द)	महर्षि दयानन्द कृत अमर साहित्य	वैदिक प्रकाशन	40.00	–
0000 A	8425	आर्याभिविनयः	महर्षि दयानन्द कृत अमर साहित्य	वैदिक प्रकाशन	25.00	–
0000 A	8426	व्यवहारभानुः	महर्षि दयानन्द कृत अमर साहित्य	वैदिक प्रकाशन	12.00	–
0000 A	8427	पंचमहा यज्ञ विधि	महर्षि दयानन्द कृत अमर साहित्य	वैदिक प्रकाशन	12.00	–
0000 A	8428	वर्णोच्चारण शिक्षा	महर्षि दयानन्द कृत अमर साहित्य	वैदिक प्रकाशन	8.00	–
0000A	8429	आर्योद्येश्य रत्न माला	महर्षि दयानन्द कृत अमर साहित्य	वैदिक प्रकाशन	5.00	–
0000 A	8430	गोकरुणानिधिः	महर्षि दयानन्द कृत अमर साहित्य	वैदिक प्रकाशन	6.00	–
0000 A	8431	स्वमन्तव्यामन्तव्य प्रकाश	महर्षि दयानन्द कृत अमर साहित्य	वैदिक प्रकाशन	5.00	–
0000 A	8432	उपदेश मंजरी	महर्षि दयानन्द कृत अमर साहित्य	वैदिक प्रकाशन	22.00	–
0000 A	8433	दयानन्द लघु ग्रंथ संग्रह	महर्षि दयानन्द कृत अमर साहित्य	वैदिक प्रकाशन	70.00	–
0000 A	8434	अमृत पान	महात्मा आनन्द स्वामी	वैदिक प्रकाशन	55.00	–
0000 A	8435	आनन्द गायत्री कथा	महात्मा आनन्द स्वामी	वैदिक प्रकाशन	25.00	–
0000 A	8436	शंकर और दयानन्द	महात्मा आनन्द स्वामी	वैदिक प्रकाशन	18.00	–
0000 A	8437	वैदिक सत्य नारायण व्रत कथा	महात्मा आनन्द स्वामी	वैदिक प्रकाशन	20.00	–
0000 A	8438	उपनिषदों का संदेश	महात्मा आनन्द स्वामी	वैदिक प्रकाशन	35.00	–
0000 A	8439	मानव और मानवता	महात्मा आनन्द स्वामी	वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8440	यह धन किसका है?	महात्मा आनन्द स्वामी	वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8441	दो रास्ते	महात्मा आनन्द स्वामी	वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8442	तत्वज्ञान	महात्मा आनन्द स्वामी	वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8443	प्रभु भक्ति	महात्मा आनन्द स्वामी	वैदिक प्रकाशन	25.00	–
0000 A	8444	सुखी गृहस्थ	महात्मा आनन्द स्वामी	वैदिक प्रकाशन	18.00	–
0000 A	8445	एक ही रास्ता	महात्मा आनन्द स्वामी	वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8446	मानव जीवन–गाथा	महात्मा आनन्द स्वामी	वैदिक प्रकाशन	28.00	–
0000 A	8447	भक्त और भगवान	महात्मा आनन्द स्वामी	वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8448	घोर घने जंगल में	महात्मा आनन्द स्वामी	वैदिक प्रकाशन	35.00	–
0000 A	8449	प्रभु मिलन की राह	महात्मा आनन्द स्वामी	वैदिक प्रकाशन	35.00	–
0000 A	8450	बोध कथाएं	महात्मा आनन्द स्वामी	वैदिक प्रकाशन	35.00	–
0000 A	8451	दुनिया में रहना किस तरह?	महात्मा आनन्द स्वामी	वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8452	प्रभु–दर्शन	महात्मा आनन्द स्वामी	वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8453	महामंत्र	महात्मा आनन्द स्वामी	वैदिक प्रकाशन	25.00	–
0000 A	8454	त्यागमयी देवियां	महात्मा आनन्द स्वामी	वैदिक प्रकाशन	20.00	–
0000 A	8455	मां (गायत्री मंत्र की महिमा)	महात्मा आनन्द स्वामी	वैदिक प्रकाशन	20.00	–
0000 A	8456	यज्ञ प्रसाद	महात्मा आनन्द स्वामी	वैदिक प्रकाशन	15.00	–
0000 A	8457	हरिद्वार का प्रसाद	महात्मा आनन्द स्वामी	वैदिक प्रकाशन	7.00	–
0000A	8458	षड्दर्शनम्	स्वामी जगदीश्वरानन्द	वैदिक प्रकाशन	180.00	–
0000 A	8459	विद्यार्थी लेखावली	स्वामी जगदीश्वरानन्द	वैदिक प्रकाशन	75.00	–

0000 A	8460	भगवान श्री कृष्ण और गीता उपदेश	स्वामी जगदीश्वरानन्द	वैदिक प्रकाशन	15.00	–
0000 A	8461	यज्ञोपवीत का महत्व	स्वामी जगदीश्वरानन्द	वैदिक प्रकाशन	6.00	–
0000 A	8462	भारत की अवनति के सात कारण	स्वामी जगदीश्वरानन्द	वैदिक प्रकाशन	20.00	–
0000 A	8463	विद्यार्थियों की दिनचर्या	स्वामी जगदीश्वरानन्द	वैदिक प्रकाशन	20.00	–
0000 A	8464	कुछ करो कुछ बनो	स्वामी जगदीश्वरानन्द	वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8465	मर्यादा पुरुषोत्तम राम	स्वामी जगदीश्वरानन्द	वैदिक प्रकाशन	25.00	–
0000 A	8466	आदर्श परिवार	स्वामी जगदीश्वरानन्द	वैदिक प्रकाशन	35.00	–
0000 A	8467	वैदिक विवाह पद्धति	स्वामी जगदीश्वरानन्द	वैदिक प्रकाशन	40.00	–
0000 A	8468	सामवेद शतकम्	स्वामी जगदीश्वरानन्द	वैदिक प्रकाशन	18.00	–
0000 A	8469	ऋग्वेद शतकम्	स्वामी जगदीश्वरानन्द	वैदिक प्रकाशन	18.00	–
0000 A	8470	यजुर्वेद शतकम्	स्वामी जगदीश्वरानन्द	वैदिक प्रकाशन	17.00	–
0000 A	8471	अथर्ववेद शतकम्	स्वामी जगदीश्वरानन्द	वैदिक प्रकाशन	18.00	–
0000 A	8472	भक्ति संगीत शतम्	स्वामी जगदीश्वरानन्द	वैदिक प्रकाशन	15.00	–
0000A	8473	दिव्य औषधियां	स्वामी जगदीश्वरानन्द	वैदिक प्रकाशन	60.00	–
0000 A	8474	चमत्कारी औषधियां	स्वामी जगदीश्वरानन्द	वैदिक प्रकाशन	60.00	–
0000 A	8475	घरेलू औषधियां	स्वामी जगदीश्वरानन्द	वैदिक प्रकाशन	8.00	–
0000 A	8476	दिव्य रसायन : गोमूत्र	स्वामी जगदीश्वरानन्द	वैदिक प्रकाशन	25.00	–
0000 A	8477	वेद मंजरी	पं० चमूपति एम.ए. कृत विचारोत्तेजक साहित्य	वैदिक प्रकाशन	125.00	–
0000 A	8478	योगेश्वर कृष्ण	पं० चमूपति एम.ए. कृत विचारोत्तेजक साहित्य	वैदिक प्रकाशन	75.00	–
0000 A	8479	वैदिक दर्शन	पं० चमूपति एम.ए. कृत विचारोत्तेजक साहित्य	वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8480	वैदिक स्वर्ग	पं० चमूपति एम.ए. कृत विचारोत्तेजक साहित्य	वैदिक प्रकाशन	50.00	–
0000 A	8481	अनादि तत्व	पं० चमूपति एम.ए. कृत विचारोत्तेजक साहित्य	वैदिक प्रकाशन	40.00	–
0000 A	8482	चौदहवीं का चांद	पं० चमूपति एम.ए. कृत विचारोत्तेजक साहित्य	वैदिक प्रकाशन	90.00	–
0000 A	8483	यजुर्वेद ज्योति	पं० चमूपति एम.ए. कृत विचारोत्तेजक साहित्य	वैदिक प्रकाशन	200.00	–
0000 A	8484	अथर्ववेद ज्योति	पं० चमूपति एम.ए. कृत विचारोत्तेजक साहित्य	वैदिक प्रकाशन	200.00	–
0000 A	8485	वैदिक कथाओं का सच	डॉ० भवानी लाल भारतीय कृत शोध पूर्ण पुस्तकें	वैदिक प्रकाशन	35.00	–
0000 A	8486	ऋग्वेद : एक सरल परिचय	डॉ० भवानी लाल भारतीय कृत शोध पूर्ण पुस्तकें	वैदिक प्रकाशन	35.00	–
0000 A	8487	यजुर्वेद : एक सरल परिचय	डॉ० भवानी लाल भारतीय कृत शोध पूर्ण पुस्तकें	वैदिक प्रकाशन	35.00	–
0000 A	8488	सामवेद : एक सरल परिचय	डॉ० भवानी लाल भारतीय कृत शोध पूर्ण पुस्तकें	वैदिक प्रकाशन	35.00	–
0000 A	8489	अथर्ववेद : एक सरल परिचय	डॉ० भवानी लाल भारतीय कृत शोध पूर्ण पुस्तकें	वैदिक प्रकाशन	35.00	–
0000 A	8490	महर्षि दयानंद सरस्वती की आत्मकथा	डॉ० भवानी लाल भारतीय कृत शोध पूर्ण पुस्तकें	वैदिक प्रकाशन	35.00	–
0000 A	8491	मैंने ऋषि दयानन्द को देखा	डॉ० भवानी लाल भारतीय कृत शोध पूर्ण पुस्तकें	वैदिक प्रकाशन	50.00	–
0000 A	8492	श्री कृष्ण चरित	डॉ० भवानी लाल भारतीय कृत शोध पूर्ण पुस्तकें	वैदिक प्रकाशन	125.00	–
0000 A	8493	ऋषि दयानन्द की खरी–खरी बातें	डॉ० भवानी लाल भारतीय कृत शोध पूर्ण पुस्तकें	वैदिक प्रकाशन	20.00	–
0000 A	8494	याम जी कृष्ण वर्मा	डॉ० भवानी लाल भारतीय कृत शोध पूर्ण पुस्तकें	वैदिक प्रकाशन	24.00	–
0000 A	8495	आर्य समाज के बीस बलिदानी	डॉ० भवानी लाल भारतीय कृत शोध पूर्ण पुस्तकें	वैदिक प्रकाशन	35.00	–
0000 A	8496	वैदिक उपदेश माला	स्वाध्याय ग्रंथ माला	वैदिक प्रकाशन	20.00	–
0000 A	8497	एकादशोपनिषद् 1001 प्रश्नोत्तर	स्वाध्याय ग्रंथ माला	वैदिक प्रकाशन	150.00	–
0000 A	8498	श्रीमद्भगवदगीता 1001 प्रश्नोत्तर	स्वाध्याय ग्रंथ माला	वैदिक प्रकाशन	150.00	–

0000 A	8499	स्वाध्याय संदीप	स्वाध्याय ग्रंथ माला	वैदिक प्रकाशन	300.00	–
0000 A	8500	वैदिक संपदा	स्वाध्याय ग्रंथ माला	वैदिक प्रकाशन	300.00	–
0000 A	8501	युग–प्रवर्तक स्वामी दयानन्द	स्वाध्याय ग्रंथ माला	वैदिक प्रकाशन	125.00	–
0000A	8502	आर्य समाज (लाला लाजपतराय)	स्वाध्याय ग्रंथ माला	वैदिक प्रकाशन	100.00	–
0000 A	8503	ईश्वरीय ज्ञानः वेद	स्वाध्याय ग्रंथ माला	वैदिक प्रकाशन	200.00	–
0000 A	8504	आर्य पथिक लेखराम	स्वाध्याय ग्रंथ माला	वैदिक प्रकाशन	95.00	–
0000 A	8505	स्वामी दर्शनानन्द ग्रंथ संग्रह	स्वाध्याय ग्रंथ माला	वैदिक प्रकाशन	400.00	–
0000 A	8506	धर्म का वैज्ञानिक स्वरूप	स्वाध्याय ग्रंथ माला	वैदिक प्रकाशन	125.00	–
0000 A	8507	यज्ञ थैरेपी	स्वाध्याय ग्रंथ माला	वैदिक प्रकाशन	95.00	–
0000 A	8508	संस्कार समुच्चय	स्वाध्याय ग्रंथ माला	वैदिक प्रकाशन	300.00	–
0000 A	8509	उपनिषद् रहस्य	स्वाध्याय ग्रंथ माला	वैदिक प्रकाशन	375.00	–
0000 A	8510	धर्म और विज्ञान	स्वाध्याय ग्रंथ माला	वैदिक प्रकाशन	50.00	–
0000 A	8511	राजर्षि मनु व उनकी मनुस्मृति	स्वाध्याय ग्रंथ माला	वैदिक प्रकाशन	150.00	–
0000 A	8512	महापुरुषों के जीवन से सीखें	स्वाध्याय ग्रंथ माला	वैदिक प्रकाशन	25.00	–
0000 A	8513	भारत में मूर्ति पूजा	स्वाध्याय ग्रंथ माला	वैदिक प्रकाशन	40.00	–
0000 A	8514	वैदिक वाड्मय का इतिहास तीन खण्डों में पुनः प्रकाशित	स्वाध्याय ग्रंथ माला	वैदिक प्रकाशन	1200.00	–
0000 A	8515	भारतीय संस्कृति का इतिहास	स्वाध्याय ग्रंथ माला	वैदिक प्रकाशन	100.00	–
0000 A	8516	भाषा का इतिहास पुनः प्रकाशित	स्वाध्याय ग्रंथ माला	वैदिक प्रकाशन	150.00	–
0000 A	8517	स्वामी दयानन्द के प्रेरक प्रसंग	स्वाध्याय ग्रंथ माला	वैदिक प्रकाशन	150.00	–
0000 A	8518	उपनिषद् एक सरल परिचय	स्वाध्याय ग्रंथ माला	वैदिक प्रकाशन	90.00	–
0000 A	8519	पौराणिक पोप पर वैदिक तोप	स्वाध्याय ग्रंथ माला	वैदिक प्रकाशन	400.00	–
0000 A	8520	पौराणिक पोल प्रकाश	स्वाध्याय ग्रंथ माला	वैदिक प्रकाशन	330.00	–
0000 A	8521	मनुस्मृति	स्वाध्याय ग्रंथ माला	वैदिक प्रकाशन	250.00	–
0000 A	8522	वैदिक संपत्ति	स्वाध्याय ग्रंथ माला	वैदिक प्रकाशन	350.00	–
0000 A	8523	महर्षि का जीवन–चरित	स्वाध्याय ग्रंथ माला	वैदिक प्रकाशन	400.00	–
0000 A	8524	स्वाध्याय संदोह	स्वाध्याय ग्रंथ माला	वैदिक प्रकाशन	25.00	–
0000 A	8525	सन्मार्ग दर्शन	स्वाध्याय ग्रंथ माला	वैदिक प्रकाशन	190.00	–
0000 A	8526	आर्य समाज और डॉ० अम्बेडकर	स्वाध्याय ग्रंथ माला	वैदिक प्रकाशन	50.00	–
0000 A	8527	चतुर्वेद शतकम्	स्वाध्याय ग्रंथ माला	वैदिक प्रकाशन	50.00	–
0000 A	8528	वैदिक विचारधारा	स्वाध्याय ग्रंथ माला	वैदिक प्रकाशन	50.00	–
0000 A	8529	वरुण की नौका	स्वाध्याय ग्रंथ माला	वैदिक प्रकाशन	160.00	–
0000 A	8530	आस्तिकवाद	स्वाध्याय ग्रंथ माला	वैदिक प्रकाशन	190.00	–
0000A	8531	धर्म का आदि स्रोत	स्वाध्याय ग्रंथ माला	वैदिक प्रकाशन	35.00	–
0000 A	8532	त्रिदेव निर्णय	स्वाध्याय ग्रंथ माला	वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8533	जाति निर्णय	स्वाध्याय ग्रंथ माला	वैदिक प्रकाशन	160.00	–
0000 A	8534	बौद्धिमत और वैदिक धर्म	स्वाध्याय ग्रंथ माला	वैदिक प्रकाशन	35.00	–
0000 A	8535	वेद प्रवचन	स्वाध्याय ग्रंथ माला	वैदिक प्रकाशन	220.00	–
0000 A	8536	कर्म व्यवस्था	स्वाध्याय ग्रंथ माला	वैदिक प्रकाशन	130.00	–
0000 A	8537	वैदिक विचारधारा का वैज्ञानिक आधार	प्रो. सत्यव्रत सिद्धांतालंकार कृत विज्ञान सम्मत पुस्तकें	वैदिक प्रकाशन	175.00	–
0000 A	8538	वैदिक संस्कृति का संदेश	प्रो. सत्यव्रत सिद्धांतालंकार कृत विज्ञान सम्मत पुस्तकें	वैदिक प्रकाशन	125.00	–
0000 A	8539	सत्य की खोज	प्रो. सत्यव्रत सिद्धांतालंकार कृत विज्ञान सम्मत पुस्तकें	वैदिक प्रकाशन	95.00	–
0000 A	8540	ब्रह्मचर्य संदेश	प्रो. सत्यव्रत सिद्धांतालंकार कृत विज्ञान सम्मत पुस्तकें	वैदिक प्रकाशन	35.00	–
0000 A	8541	आर्य और आर्य समाज का संक्षिप्त परिचय	प्रो. सत्यव्रत सिद्धांतालंकार कृत विज्ञान सम्मत पुस्तकें	वैदिक प्रकाशन	12.00	–
0000 A	8542	ईश्वर पूजा का वैदिक स्वरूप	प्रो. सत्यव्रत सिद्धांतालंकार कृत विज्ञान सम्मत पुस्तकें	वैदिक प्रकाशन	12.00	–
0000 A	8543	ओ३म् की व्याख्या	प्रो. सत्यव्रत सिद्धांतालंकार कृत विज्ञान सम्मत पुस्तकें	वैदिक प्रकाशन	8.00	–
0000 A	8544	आर्य समाज के दस नियमों की व्याख्या	प्रो. सत्यव्रत सिद्धांतालंकार कृत विज्ञान सम्मत पुस्तकें	वैदिक प्रकाशन	15.00	–
0000 A	8545	बाल सत्यार्थ प्रकाश	प्रो. सत्यव्रत सिद्धांतालंकार कृत विज्ञान सम्मत पुस्तकें	वैदिक प्रकाशन	10.00	–

0000 A	8546	न्याय दर्शनम् भाष्य	आचार्य उदयवीर शास्त्री कृत दार्शनिक साहित्य	वैदिक प्रकाशन	250.00	–
0000 A	8547	वैशेषिकदर्शनम् भाष्य	आचार्य उदयवीर शास्त्री कृत दार्शनिक साहित्य	वैदिक प्रकाशन	230.00	–
0000 A	8548	सांख्यदर्शनम् भाष्य	आचार्य उदयवीर शास्त्री कृत दार्शनिक साहित्य	वैदिक प्रकाशन	200.00	–
0000 A	8549	योगदर्शनम् भाष्य	आचार्य उदयवीर शास्त्री कृत दार्शनिक साहित्य	वैदिक प्रकाशन	200.00	–
0000 A	8550	वेदान्तदर्शनम् भाष्य	आचार्य उदयवीर शास्त्री कृत दार्शनिक साहित्य	वैदिक प्रकाशन	300.00	–
0000 A	8551	मीमांसादर्शनम् भाष्य	आचार्य उदयवीर शास्त्री कृत दार्शनिक साहित्य	वैदिक प्रकाशन	400.00	–
0000 A	8552	सांख्य दर्शन का इतिहास	आचार्य उदयवीर शास्त्री कृत दार्शनिक साहित्य	वैदिक प्रकाशन	300.00	–
0000 A	8553	सांख्य सिद्धांत	आचार्य उदयवीर शास्त्री कृत दार्शनिक साहित्य	वैदिक प्रकाशन	300.00	–
0000 A	8554	वेदांत दर्शन का इतिहास	आचार्य उदयवीर शास्त्री कृत दार्शनिक साहित्य	वैदिक प्रकाशन	250.00	–
0000 A	8555	प्राचीन सांख्य–संदर्भ	आचार्य उदयवीर शास्त्री कृत दार्शनिक साहित्य	वैदिक प्रकाशन	100.00	–
0000 A	8556	वेद प्रवचन	पं. गंगा प्रसाद उपाध्याय	वैदिक प्रकाशन	160.00	–
0000 A	8557	शतपथ ब्राह्मण	पं. गंगा प्रसाद उपाध्याय	वैदिक प्रकाशन	1200.00	–
0000 A	8558	विवाह और विवाहित जीवन	पं. गंगा प्रसाद उपाध्याय	वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8559	कर्मफल सिद्धांत	पं. गंगा प्रसाद उपाध्याय	वैदिक प्रकाशन	25.00	–
0000A	8560	ईशोपनिषद्	पं. गंगा प्रसाद उपाध्याय	वैदिक प्रकाशन	20.00	–
0000 A	8561	संध्या क्या, क्यों और कैसे?	पं. गंगा प्रसाद उपाध्याय	वैदिक प्रकाशन	35.00	–
0000 A	8562	मीमांसा प्रदीप	पं. गंगा प्रसाद उपाध्याय	वैदिक प्रकाशन	225.00	–
0000 A	8563	हम क्या खाएं घास या मांस?	पं. गंगा प्रसाद उपाध्याय	वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8564	शाश्वत जीवन	पं. गंगा प्रसाद उपाध्याय	वैदिक प्रकाशन	25.00	–
0000 A	8565	जीवात्मा	पं. गंगा प्रसाद उपाध्याय	वैदिक प्रकाशन	45.00	–
0000 A	8566	वैदिक गणपति	श्री मदन रहेजा	वैदिक प्रकाशन	55.00	–
0000 A	8567	अंधविश्वास निर्मूलन	श्री मदन रहेजा	वैदिक प्रकाशन	95.00	–
0000 A	8568	शंका समाधान	श्री मदन रहेजा	वैदिक प्रकाशन	60.00	–
0000 A	8569	सुविचार	श्री मदन रहेजा	वैदिक प्रकाशन	35.00	–
0000 A	8570	जन्म से पहले मृत्यु के बाद	श्री मदन रहेजा	वैदिक प्रकाशन	40.00	–
0000 A	8571	वेदों की वाणी संतों की जुबानी	श्री मदन रहेजा	वैदिक प्रकाशन	90.00	–
0000 A	8572	मूर्ति पूजा या ईश्वरोपासना	श्री मदन रहेजा	वैदिक प्रकाशन	60.00	–
0000 A	8573	गीत भण्डार	भजन संगीत सागर संग्रह	वैदिक प्रकाशन	75.00	–
0000 A	8574	गीत सागर	भजन संगीत सागर संग्रह	वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8575	प्रकाश गीत व अन्य रचनाएं	भजन संगीत सागर संग्रह	वैदिक प्रकाशन	40.00	–
0000 A	8576	प्रकाश भजनावली	भजन संगीत सागर संग्रह	वैदिक प्रकाशन	25.00	–
0000 A	8577	पथिक भजन संग्रह भाग – 2	भजन संगीत सागर संग्रह	वैदिक प्रकाशन	70.00	–
0000 A	8578	अर्मी भजन सुधा	भजन संगीत सागर संग्रह	वैदिक प्रकाशन	18.00	–
0000 A	8579	रामायण–संदेश	भजन संगीत सागर संग्रह	वैदिक प्रकाशन	20.00	–
0000 A	8580	भजन संगीत सागर भाग – 1	भजन संगीत सागर संग्रह	वैदिक प्रकाशन	160.00	–
0000 A	8581	भजन संगीत सागर भाग – 2	भजन संगीत सागर संग्रह	वैदिक प्रकाशन	60.00	–
0000 A	8582	गीता–संदेश	भजन संगीत सागर संग्रह	वैदिक प्रकाशन	14.00	–
0000 A	8583	राष्ट्रीय देश भक्ति गीत	भजन संगीत सागर संग्रह	वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8584	आर्य सत्संग गुटका (अजिल्द)	वैदिक कर्मकाण्ड	वैदिक प्रकाशन	10.00	–
0000 A	8585	आर्य सत्संग गुटका (सजिल्द)	वैदिक कर्मकाण्ड	वैदिक प्रकाशन	20.00	–
0000 A	8586	अन्त्येष्टि संस्कार	वैदिक कर्मकाण्ड	वैदिक प्रकाशन	20.00	–
0000 A	8587	आर्य समाज प्रवेश पत्र	वैदिक कर्मकाण्ड	वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8588	वैदिक संध्या	वैदिक कर्मकाण्ड	वैदिक प्रकाशन	5.00	–
0000A	8589	सामाजिक पद्धतियां	वैदिक कर्मकाण्ड	वैदिक प्रकाशन	50.00	–
0000 A	8590	भवन भास्कर और भाग्य वास्तु शास्त्र	वैदिक कर्मकाण्ड	वैदिक प्रकाशन	100.00	–
0000 A	8591	सन्ध्या पद्धति मीमांसा	वैदिक कर्मकाण्ड	वैदिक प्रकाशन	65.00	–
0000 A	8592	आर्य एवं पद्धति	वैदिक कर्मकाण्ड	वैदिक प्रकाशन	50.00	–
0000 A	8593	देव यज्ञ	वैदिक कर्मकाण्ड	वैदिक प्रकाशन	14.00	–

0000 A	8594	यज्ञ पद्धति मीमांसा	वैदिक कर्मकाण्ड	वैदिक प्रकाशन	65.00	–
0000 A	8595	यज्ञ–चिकित्सा	वैदिक कर्मकाण्ड	वैदिक प्रकाशन	15.00	–
0000 A	8596	महर्षि दयानन्द	प्रेरणाप्रद जीवनियां	वैदिक प्रकाशन	15.00	–
0000 A	8597	गुरु विरजानन्द	प्रेरणाप्रद जीवनियां	वैदिक प्रकाशन	8.00	–
0000 A	8598	स्वामी श्रद्धानन्द	प्रेरणाप्रद जीवनियां	वैदिक प्रकाशन	10.00	–
0000 A	8599	प्रेरक बोध कथाएं	प्रेरणा दायक कहानियां	वैदिक प्रकाशन	45.00	–
0000 A	8600	शिक्षाप्रद श्रेष्ठ कथाएं	प्रेरणा दायक कहानियां	वैदिक प्रकाशन	45.00	–
0000 A	8601	उत्तम शिक्षा की अच्छी–अच्छी कहानियां भाग – 1	प्रेरणा दायक कहानियां	वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8602	जीवन निर्माण की ऐतिहासिक कहानियां	प्रेरणा दायक कहानियां	वैदिक प्रकाशन	50.00	–
0000 A	8603	पंचतंत्र	प्रेरणा दायक कहानियां	वैदिक प्रकाशन	85.00	–
0000 A	8604	जातक कथाएं	प्रेरणा दायक कहानियां	वैदिक प्रकाशन	85.00	–
0000 A	8605	हितोपदेश की कहानियां	प्रेरणा दायक कहानियां	वैदिक प्रकाशन	85.00	–
0000 A	8606	नानी की कहानियां	प्रेरणा दायक कहानियां	वैदिक प्रकाशन	85.00	–
0000 A	8607	51 अनमोल कहानियां	प्रेरणा दायक कहानियां	वैदिक प्रकाशन	120.00	–
0000 A	8608	सोजे वतन तथा अन्य जब्तशुदा कहानियां	प्रेरणा दायक कहानियां	वैदिक प्रकाशन	85.00	–
0000 A	8609	स्वाधीनता आंदोलन की कहानियां	प्रेरणा दायक कहानियां	वैदिक प्रकाशन	90.00	–
0000 A	8610	अनमोल प्रेरक प्रसंग	प्रेरणा दायक कहानियां	वैदिक प्रकाशन	100.00	–
0000 A	8611	सौ वर्ष जीने की कला	आयुर्वेद योग स्वास्थ्य	वैदिक प्रकाशन	15.00	–
0000 A	8612	प्राणायाम	आयुर्वेद योग स्वास्थ्य	वैदिक प्रकाशन	15.00	–
0000 A	8613	शाकाहार–पीयूष	आयुर्वेद योग स्वास्थ्य	वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8614	ब्रह्मचर्य–विज्ञान	आयुर्वेद योग स्वास्थ्य	वैदिक प्रकाशन	60.00	–
0000 A	8615	भोजन द्वारा चिकित्सा	आयुर्वेद योग स्वास्थ्य	वैदिक प्रकाशन	60.00	–
0000 A	8616	पेट के रोगों की अचूक चिकित्सा	आयुर्वेद योग स्वास्थ्य	वैदिक प्रकाशन	40.00	–
0000 A	8617	क्या खाएं और क्यों (आरोग्य प्रकाश)	आयुर्वेद योग स्वास्थ्य	वैदिक प्रकाशन	60.00	–
0000A	8618	चिकित्सा सम्राट आयुर्वेद	आयुर्वेद योग स्वास्थ्य	वैदिक प्रकाशन	110.00	–
0000 A	8619	Hammira Mahakavya	Naya Chandra Suri		NA	1968
0000 A	8620	Rajavinod Mahakavya	Udai Raj		40/-	1956
0000 A	8621	Ishwaravilasa	Shri Krishna Bhatta		NA	1958
0000 A	8622	Mahakavya			25/-	1956
0000 A	8623	Chakrapani Vijaya	Laxmi Dhar Bhatta		156/-	1996
0000 A	8624	Mahakavya			105/-	1996
0000 A	8625	Shatrushalya Charita	Mahakavi Vishva		17/-	1985
0000 A	8626	Mahakavya Vol. I	Nath		10/-	1956
0000 A	8627	Shatrushalya Charita			NA	1960
0000 A	8628	Mahakavya Vol. II			10/-	1963
0000 A	8629	Kamabhinandan	Dhanadeshvara		35/-	1959
0000 A	8630	Mahakavya			10/-	1969
0000 A	8631	Krishna Giti	Kavi Soma Natha		10/-	1957
0000 A	8632	Dashakantha Vadha	M.M. D.P.Dwivedi		30/-	1974
0000 A	8633	Karnamritaprapa	Someshvara Bhatta		30/-	1966
0000 A	8634	Padya Muktavali	Shri Krishna Bhatta		50/-	1975
0000 A	8635	Sanghapati Rupaji	Shrivallabha Gani		10/-	1991
0000 A	8636	Vamsha – Prashasti			37/-	1991
0000 A	8637	Karan Kutuhala	Mahakavi		29/-	
0000 A	8638		Bholanatha		22/-	1996
0000 A	8639	Sangita Raghunandana	Vishwanatha Deva		75/-	1969
0000 A	8640	with commentary			NA	1956
0000 A	8641	Vasavadatta Katha	Subandhu		35/-	1960
0000 A	8642	Khanda Prashasti	Hanumat Kavi		35/-	1963
0000 A	8643	Soorsingh Vamsha	Madhava Bhatta		10/-	1968
0000 A	8644	Prashasti			10/-	1969
0000 A	8645	Man Prakash	Rai Muraridas		155/-	
0000 A	8646	Sangeet Madhava	Prabodhanand		124/-	1953
0000A	8647	Takhat Vilas Champu	Sarasvati		55/-	1982
0000 A	8648	Takhat Vilas Champu	Shesha Pandit			–

0000 A	8649	Sanatkumar Chakri-	Jinapala Gani			–
0000 A	8650	Charita Mahakavya				–
0000 A	8651	Shringara Haravali	Shri Harsha			–
0000 A	8652	Vasant Vilasa Phagu	Anonymous			–
0000 A	8653	Indraprastha Prabandha	"			–
0000 A	8654	Nandopakhyana	"			–
0000 A	8655	Shankari Sangita	Kavi Jaya Narayana			–
0000 A	8656	Rajratnakar Mahakavya	Mahakavi Sadashiva			–
0000 A	8657	Kyamkhan Raso	Kavi Jana			–
0000 A	8658	Ratan Raso	Kavi Kumbhakarna			–
0000 A	8659	Hammir Raso	Mahesh Kavi		NA	1982
0000 A	8660	Kanharade Prabhandha	Kavi Padmanabha		111/-	1953
0000 A	8661	Veera Vana	Dhadhee Badar		72/-	1960
0000 A	8662	Sodhayana	Kavi Chimanji		65/-	1966
0000 A	8663	Gora Badal Padmini	Kavi Hemaratna		56/-	1966
0000 A	8664	Chaupai			75/-	1968
0000 A	8665	Gora Badal Charitra	Kavi Hemaratna		56/-	1953
0000 A	8666	Koorma-vansha-Yasha	Gopaldan Kaviya		75/-	1960
0000 A	8667	Prakasha (Lava Rasa)			80/-	1968
0000 A	8668	Raghuvara Jasa Prakash	Kishanaji Adha		NA	1968
0000 A	8669	Gaja-guna-rupaka-	Keshodas Gadan		40/-	1968
0000 A	8670	bandha			35/-	1964
0000 A	8671	Vaitala Pacchisi	Deidan Naita		60/-	1965
0000 A	8672	Rajaniti-ra-Kavitta	Devidas		39/-	1959
0000 A	8673	Rukmini-Haran	Sanyaji Jhula		70/-	1965
0000 A	8674	Pratap Raso	Jachika Jiwana		65/-	1966
0000 A	8675	Bhagata Mala	Charan Brahmadas		20/-	1958
0000A	8676	Bhagata Mala	Raghavadas		15/-	1958
0000 A	8677	Binhai Raso	Rao Mahesha Das		55/-	1967
0000 A	8678	Jugala Vilasa	Kavi Pithal		15/-	1968
0000 A	8679	Kaveendra Kalplata	Kaveendracharya		30/-	1961
0000 A	8680		Saraswati		33/-	1984
0000 A	8681	Madhu Malati Sachitra	Chaturbhujadas		43/-	1957
0000 A	8682	Katha			NA	1960
0000 A	8683	Sthulibhadra Kakadi	Depala		65/-	1966
0000 A	8684	Nehataranga	Budha Singh Hada		55/-	1968
0000 A	8685	Ajeeta Vilasa	Anonymous		50/-	1968
0000 A	8686	Rajasthani Sahitya	"		95/-	1972
0000 A	8687	Sangraha Vol. I			70/-	1979
0000 A	8688	Rajasthani Sahitya	Anonymous		75/-	1961
0000 A	8689	Sangraha Vol. II			90/-	1962
0000 A	8690	Rajasthani Sahitya	"		95/-	1963
0000 A	8691	Sangraha Vol. III			140/-	1968
0000 A	8692	Rajasthani Veer Geet	"		NA	1975
0000 A	8693	Sangraha Vol. I			45/-	1972
0000 A	8694	Rajasthani Veer Geet	"		76/-	1991
0000 A	8695	Sangraha Vol. II			40/-	1989
0000 A	8696	Rajasthani Veer Geet	"		205/-	1999
0000 A	8697	Sangraha Vol. III				–
0000 A	8698	Rajasthani Veer Geet	"			–
0000 A	8699	Sangraha Vol. IV				–
0000 A	8700	Sooraj Prakash Vol. I	Kavi Karanidan			–
0000 A	8701	Sooraj Prakash Vol. II	"			–
0000 A	8702	Sooraj Prakash Vol. III	"			–
0000 A	8703	Mira Brihat Padavali	Sant Meera Bai			–
0000 A	8704	Pt. 1				–
0000A	8705	Mira Brihat Padavali	"			–
0000 A	8706	Pt. 2				–

0000 A	8707	Narasi Ji Ro Mahero	Anonymous			–
0000 A	8708	Achal Das Khichi Ri	Gadan Shivadas			–
0000 A	8709	Vachanika				–
0000 A	8710	Nanda Batrisi	Anonymous			–
0000 A	8711	Hamirayan	Khem Kavi			–
0000 A	8712	Jan Granthawali Part III			205/-	2004
0000 A	8713	Maharashi Kula	Madhusudan Ojha		77/-	1956
0000 A	8714	Vaibhava Part – I			30/-	1961
0000 A	8715	Maharashi Kula	Madhusudan Ojha		67/-	1969
0000 A	8716	Vaibhava Part – II			15/-	1969
0000 A	8717	Pathyaswasti	Madhusudan Ojha		130/-	1997
0000 A	8718	Mantra Bhagawata	Nilakantha Bhatta		110/-	1999
0000 A	8719	Madhusudan Ojha ki			25/-	1957
0000 A	8720	Saraswat Sadhna			NA	1956
0000 A	8721	Ukti Ratnakar	Sadhu Sundar Gani		60/-	1964
0000 A	8722	Shabdaratna Pradipa	Anonymous		68/-	1994
0000 A	8723	Ekaksharanama Kosh	"		20/-	1959
0000 A	8724	Sangraha			460/-	1986
0000 A	8725	Sayaniya Nirukti Kosha	-		Under	1987
0000 A	8726	Vastu Ratna Kosha	Anonymous		Published	1967
0000 A	8727	Raj. Hindi Sankshipt	-		NA	1969
0000 A	8728	Shabda Kosha Vol. I			NA	1970
0000 A	8729	Raj. Hindi Sankshipt	-		NA	1970
0000 A	8730	Shabda Kosha Vol. II			100/-	1976
0000 A	8731	वेद रहस्य	महात्मा नारायण स्वामी	वैदिक प्रकाशन	40.00	–
0000 A	8732	एकादशोपनिषद् 1001 प्रश्नोत्तर	महात्मा नारायण स्वामी	वैदिक प्रकाशन	300.00	–
0000 A	8733	मृत्यु और परलोक	महात्मा नारायण स्वामी	वैदिक प्रकाशन	75.00	–
0000A	8734	योग रहस्य	महात्मा नारायण स्वामी	वैदिक प्रकाशन	50.00	–
0000 A	8735	मृत्यु रहस्य	महात्मा नारायण स्वामी	वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8736	कर्म रहस्य	महात्मा नारायण स्वामी	वैदिक प्रकाशन	200.00	–
0000 A	8737	आत्म दर्शन	महात्मा नारायण स्वामी	वैदिक प्रकाशन	200.00	–
0000 A	8738	आजादी के दीवाने		वैदिक प्रकाशन	60.00	–
0000 A	8739	देश भक्त महिलाएं		वैदिक प्रकाशन	35.00	–
0000 A	8740	भारत में विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं का इतिहास		वैदिक प्रकाशन	90.00	–
0000 A	8741	नवजागरण के पुरोधा महर्षि दयानन्द सरस्वती (दो भागों में)		वैदिक प्रकाशन	400.00	–
0000 A	8742	भारत में बाईबिल		वैदिक प्रकाशन	20.00	–
0000 A	8743	भारत के क्रांतिकारी और शहीद		वैदिक प्रकाशन	60.00	–
0000 A	8744	भारतीय देश भक्तों को कारावास और बलिदान की कहानी		वैदिक प्रकाशन	450.00	–
0000 A	8745	भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयां		वैदिक प्रकाशन	260.00	–
0000 A	8746	चांद फांसी अंक		वैदिक प्रकाशन	275.00	–
0000 A	8747	मंदिरों की लूट		वैदिक प्रकाशन	40.00	–
0000 A	8748	अरब में सात साल		वैदिक प्रकाशन	60.00	–
0000 A	8749	गांधी वध क्यों?		वैदिक प्रकाशन	60.00	–
0000 A	8750	आखिरी जीत हमारी		वैदिक प्रकाशन	110.00	–
0000 A	8751	विद्रोही सुभाष		वैदिक प्रकाशन	110.00	–
0000 A	8752	महामात्य चाणक्य		वैदिक प्रकाशन	130.00	–
0000 A	8753	भगवान एकलिंग		वैदिक प्रकाशन	130.00	–
0000 A	8754	हेमचन्द्र विक्रमादित्य		वैदिक प्रकाशन	125.00	–
0000 A	8755	भारत में सशस्त्र क्रांति चेष्टा का रोमांचकारी इतिहास		वैदिक प्रकाशन	125.00	–
0000 A	8756	पाकिस्तान का विष वृक्ष		वैदिक प्रकाशन	55.00	–
0000 A	8757	काफिर		वैदिक प्रकाशन	55.00	–
0000 A	8758	गोडसे की आवाज सुनो		वैदिक प्रकाशन	35.00	–
0000 A	8759	राष्ट्रीय नेताओं की इतिहासिक भूलें		वैदिक प्रकाशन	80.00	–

0000A	8760	काला पानी–क्रांतिकारियों का तीर्थ स्थल		वैदिक प्रकाशन	200.00	–
0000 A	8761	चंद्रशेखर आजाद और उनके साथ गद्दार साथी		वैदिक प्रकाशन	75.00	–
0000 A	8762	क्रांतिकारी आंदोलन–कुछ अधखुले पन्ने		वैदिक प्रकाशन	40.00	–
0000 A	8763	नेताजी और आजाद हिन्द फौज		वैदिक प्रकाशन	200.00	–
0000 A	8764	मैं अंग्रेजों का जासूसथा – दूसरे विश्व युद्ध से आजादी तक		वैदिक प्रकाशन	100.00	–
0000 A	8765	पं० श्यामजी कृष्ण वर्मा		वैदिक प्रकाशन	70.00	–
0000 A	8766	स्वामी श्रद्धानन्द – एक विलक्षण व्यक्तित्व		वैदिक प्रकाशन	250.00	–
0000 A	8767	प्रभु भक्त दयानन्द		वैदिक प्रकाशन	50.00	–
0000 A	8768	छत्रपति शिवाजी		वैदिक प्रकाशन	60.00	–
0000 A	8769	आर्य पथिक पं० लेखराम मुंशीराम जिज्ञासु		वैदिक प्रकाशन	40.00	–
0000 A	8770	वीर बन्दा बैरागी		वैदिक प्रकाशन	200.00	–
0000 A	8771	भगत सिंह – एक ज्वलंत इतिहास		वैदिक प्रकाशन	100.00	–
0000 A	8772	गांधी बे–नकाब		वैदिक प्रकाशन	125.00	–
0000 A	8773	नेहरू बे–नकाब		वैदिक प्रकाशन	90.00	–
0000 A	8774	गुरु गोविन्द सिंह		वैदिक प्रकाशन	90.00	–
0000 A	8775	खुदी राम बोस पहला किशोर क्रांतिकारी		वैदिक प्रकाशन	75.00	–
0000 A	8776	शहीद मदन लाल ढींगरा एवं शहीद सरदार ऊधम सिंह		वैदिक प्रकाशन	85.00	–
0000 A	8777	बंदी जीवन बहुचर्चित आत्मकथा		वैदिक प्रकाशन	175.00	–
0000 A	8778	राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा		वैदिक प्रकाशन	90.00	–
0000 A	8779	ऋग्वेदादिभाष्य	पं. हरिशरण सिद्धांतालंकार	वैदिक प्रकाशन	2650.00	–
0000 A	8780	यजुर्वेदभाष्य – दो भाग		वैदिक प्रकाशन	700.00	–
0000 A	8781	सामवेदभाष्य – दो भाग		वैदिक प्रकाशन	400.00	–
0000 A	8782	अथर्ववेदभाष्य – तीन भाग		वैदिक प्रकाशन	1150.00	–
0000 A	8783	वेद भाष्य महर्षि दयानन्द के भाष्य सहित 9 भागों में		वैदिक प्रकाशन	3500.00	–
0000 A	8784	वेद भाष्य महर्षि दयानन्द के भाष्य सहित 4 सजिल्द दयानन्द संस्थान		वैदिक प्रकाशन	3600.00	–
0000 A	8785	चारों वेद संहिताएं	स्वामी जगदीश्वरा नन्द	वैदिक प्रकाशन	1230.00	–
0000 A	8786	ईश्वर पूजा का वैदिक स्वरूप	रामचन्द्र देहलवी	वैदिक प्रकाशन	45.00	–
0000 A	8787	ईश्वर ने दुनिया क्यों बनाई?	रामचन्द्र देहलवी	वैदिक प्रकाशन	60.00	–
0000 A	8788	वेद का इस्लाम पर प्रभाव	रामचन्द्र देहलवी	वैदिक प्रकाशन	10.00	–
0000A	8789	शंका समाधान	रामचन्द्र देहलवी	वैदिक प्रकाशन	15.00	–
0000 A	8790	ईश्वर सिद्धि	रामचन्द्र देहलवी	वैदिक प्रकाशन	10.00	–
0000 A	8791	ईश्वर से दूरी क्यों?	प्रकाश आर्य महू	वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8792	धर्म के आधार पर वेद क्या है?	प्रकाश आर्य महू	वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8793	जीवन अमृत	प्रकाश आर्य महू	वैदिक प्रकाशन	10.00	–
0000 A	8794	आर्य और आर्य समाज का संक्षिप्त परिचय	प्रकाश आर्य महू	वैदिक प्रकाशन	15.00	–
0000 A	8795	समझें तो? क्या है आर्य समाज? और क्या इसकी राष्ट्र को देन?	प्रकाश आर्य महू	वैदिक प्रकाशन	10.00	–
0000 A	8796	जीवन का एक सत्य	प्रकाश आर्य महू	वैदिक प्रकाशन	10.00	–
0000 A	8797	आर्य समाज की प्रगति में बाधक कारण और उनका निदान कैसे?	प्रकाश आर्य महू	वैदिक प्रकाशन	10.00	–
0000 A	8798	जी हां आप मृत्यु पर विजय पा सकते हैं	प्रकाश आर्य महू	वैदिक प्रकाशन	10.00	–
0000 A	8799	विशुद्ध मनुस्मृति	डॉ० सुरेन्द्र कुमार	वैदिक प्रकाशन	200.00	–
0000 A	8800	मनु का विरोध क्यों?	डॉ० सुरेन्द्र कुमार	वैदिक प्रकाशन	6.00	–
0000 A	8801	मुन का विरोध क्यों?	डॉ० सुरेन्द्र कुमार	वैदिक प्रकाशन	6.00	–
0000 A	8802	महर्षि दयानन्द वर्णित शिक्षा पद्धति	डॉ० सुरेन्द्र कुमार	वैदिक प्रकाशन	150.00	–
0000 A	8803	महर्षि मनु बनाम डॉ० अम्बेडकर	डॉ० सुरेन्द्र कुमार	वैदिक प्रकाशन	150.00	–

0000 A	8804	राज ऋषि मनु और उनकी मनुस्मृति	डॉ० सुरेन्द्र कुमार	वैदिक प्रकाशन	200.00	–
0000 A	8805	भारत का द्वितीय संग्राम आजाद हिन्द फौज की कहानी	पुरुषोत्तम नागेश ओक	वैदिक प्रकाशन	250.00	–
0000 A	8806	भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें	पुरुषोत्तम नागेश ओक	वैदिक प्रकाशन	95.00	–
0000 A	8807	भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें बड़ा साइज	पुरुषोत्तम नागेश ओक	वैदिक प्रकाशन	150.00	–
0000 A	8808	विश्व इतिहास की विलुप्त अध्याय	पुरुषोत्तम नागेश ओक	वैदिक प्रकाशन	85.00	–
0000 A	8809	ताजमहल मंदिर भवन है	पुरुषोत्तम नागेश ओक	वैदिक प्रकाशन	95.00	–
0000 A	8810	ताजमहल तेजोमहालय शिव मंदिर है	पुरुषोत्तम नागेश ओक	वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8811	भारत में मुस्लिम सुल्तान भाग – 2	पुरुषोत्तम नागेश ओक	वैदिक प्रकाशन	160.00	–
0000 A	8812	आगरा का लाल किला लाल हिन्दू भवन है	पुरुषोत्तम नागेश ओक	वैदिक प्रकाशन	65.00	–
0000 A	8813	दिल्ली का लाल किला लाल कोट है	पुरुषोत्तम नागेश ओक	वैदिक प्रकाशन	75.00	–
0000 A	8814	वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास – चार भागों में	पुरुषोत्तम नागेश ओक	वैदिक प्रकाशन	340.00	–
0000 A	8815	फतेहपुर सीकरी हिन्दू नगर है	पुरुषोत्तम नागेश ओक	वैदिक प्रकाशन	75.00	–
0000 A	8816	लखनऊ के इमाम बाड़े हिन्दू भवन हैं	पुरुषोत्तम नागेश ओक	वैदिक प्रकाशन	60.00	–
0000 A	8817	क्या भारत का इतिहास भारत के शत्रुओं द्वारा लिखा गया है?	पुरुषोत्तम नागेश ओक	वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000A	8818	हास्यापद अंग्रेजी भाषा	पुरुषोत्तम नागेश ओक	वैदिक प्रकाशन	60.00	–
0000 A	8819	क्रिश्चियेनिटी कृष्ण नीति है	पुरुषोत्तम नागेश ओक	वैदिक प्रकाशन	95.00	–
0000 A	8820	कौन कहता है अकबर महान था?	पुरुषोत्तम नागेश ओक	वैदिक प्रकाशन	95.00	–
0000 A	8821	आरोग्य सौन्दर्य तथा व्यायाम व सूर्य नमस्कार	पुरुषोत्तम नागेश ओक	वैदिक प्रकाशन	50.00	–
0000 A	8822	हमारी विरासत अर्थात् दिव्य भारत की गौरवशाली इतिहास	तेजपाल सिंह धामा	वैदिक प्रकाशन	250.00	–
0000 A	8823	मनुर्भव अर्थात् विजयी विश्व हिन्दुत्व हमारा	तेजपाल सिंह धामा	वैदिक प्रकाशन	50.00	–
0000 A	8824	गौ का गौरव	तेजपाल सिंह धामा	वैदिक प्रकाशन	130.00	–
0000 A	8825	अग्नि की लपटें अर्थात् महारानी पद्मिनी की बलिदान गाथा	तेजपाल सिंह धामा	वैदिक प्रकाशन	90.00	–
0000 A	8826	पृथ्वी राज चौहान एक पराजित विजेता	तेजपाल सिंह धामा	वैदिक प्रकाशन	60.00	–
0000 A	8827	अखण्ड आर्यवर्त अर्थात् चन्द्र गुप्त चाणक्य कथा	तेजपाल सिंह धामा	वैदिक प्रकाशन	70.00	–
0000 A	8828	पंक से पंकज अर्थात् महर्षि वाल्मिकी कथाभूत	तेजपाल सिंह धामा	वैदिक प्रकाशन	50.00	–
0000 A	8829	नल–नील अभियान 'श्री राम सेतु निर्माण'	तेजपाल सिंह धामा	वैदिक प्रकाशन	90.00	–
0000 A	8830	हिन्दुत्व	वीर सावरकर	वैदिक प्रकाशन	40.00	–
0000 A	8831	गोमांतक	वीर सावरकर	वैदिक प्रकाशन	40.00	–
0000 A	8832	प्रतिशोध	वीर सावरकर	वैदिक प्रकाशन	40.00	–
0000 A	8833	मोपला	वीर सावरकर	वैदिक प्रकाशन	40.00	–
0000 A	8834	हिन्दुत्व के पंच प्राण	वीर सावरकर	वैदिक प्रकाशन	40.00	–
0000 A	8835	1857 का स्वातंत्र समर	वीर सावरकर	वैदिक प्रकाशन	500.00	–
0000 A	8836	काला पानी	वीर सावरकर	वैदिक प्रकाशन	350.00	–
0000 A	8837	छह स्वर्णिम पृष्ठ	वीर सावरकर	वैदिक प्रकाशन	500.00	–
0000 A	8838	महामना सावरकर	वीर सावरकर	वैदिक प्रकाशन	25.00	–
0000 A	8839	लोकोत्तर द्रष्टा सावरकर	वीर सावरकर	वैदिक प्रकाशन	25.00	–
0000 A	8840	अमर सेनानी सावरकर	वीर सावरकर	वैदिक प्रकाशन	40.00	–
0000 A	8841	कश्मीर जीत में हार	बलराज मधोक	वैदिक प्रकाशन	50.00	–
0000 A	8842	कश्मीर जीत या हार	बलराज मधोक	वैदिक प्रकाशन	60.00	–
0000 A	8843	पाकिस्तान की आदि और अंत	बलराज मधोक	वैदिक प्रकाशन	70.00	–
0000 A	8844	हम अंडा क्यों न खाएं	आचार्य आर्य नरेश	वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8845	भारत वर्ष का संक्षिप्त इतिहास	गुरुदत्त	वैदिक प्रकाशन	125.00	–
0000 A	8846	इतिहास में भारतीय परम्पराएं	गुरुदत्त	वैदिक प्रकाशन	125.00	–
0000A	8847	श्रीमद्भगवत्गीताः	गुरुदत्त	वैदिक प्रकाशन	125.00	–
0000 A	8848	यजुर्वेद और गृहस्थ धर्म	गुरुदत्त	वैदिक प्रकाशन	50.00	–

0000 A	8849	हमारी सांस्कृतिक धरोहर	गुरुदत्त	वैदिक प्रकाशन	160.00	–
0000 A	8850	वेद प्रवेशिका	गुरुदत्त	वैदिक प्रकाशन	80.00	–
0000 A	8851	ईशकेन् कठ उपनिषद् तैत्तिरीय उपनिषद्	गुरुदत्त	वैदिक प्रकाशन	50.00	–
0000 A	8852	प्रश्न ऐत्तरेय उपनिषद् मुण्डक माण्डूक्य उपनिषद्	गुरुदत्त	वैदिक प्रकाशन	40.00	–
0000 A	8853	वेद मंत्रों के देवता	गुरुदत्त	वैदिक प्रकाशन	40.00	–
0000 A	8854	वेद और वैदिक काल	गुरुदत्त	वैदिक प्रकाशन	40.00	–
0000 A	8855	वेदों में सोम	गुरुदत्त	वैदिक प्रकाशन	40.00	–
0000 A	8856	वेदों में इन्द्र	गुरुदत्त	वैदिक प्रकाशन	60.00	–
0000 A	8857	साइंस और वेद	गुरुदत्त	वैदिक प्रकाशन	45.00	–
0000 A	8858	विज्ञन और विज्ञान	गुरुदत्त	वैदिक प्रकाशन	60.00	–
0000 A	8859	सृष्टि रचना	गुरुदत्त	वैदिक प्रकाशन	60.00	–
0000 A	8860	भारत गांधी नेहरू की छाया में	गुरुदत्त	वैदिक प्रकाशन	95.00	–
0000 A	8861	अंतिम यात्रा	गुरुदत्त	वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8862	स्वाधीनता के पथ	गुरुदत्त	वैदिक प्रकाशन	110.00	–
0000 A	8863	पथिक	गुरुदत्त	वैदिक प्रकाशन	110.00	–
0000 A	8864	स्वराज्यदान	गुरुदत्त	वैदिक प्रकाशन	110.00	–
0000 A	8865	विश्वासघात	गुरुदत्त	वैदिक प्रकाशन	110.00	–
0000 A	8866	देश की हत्या	गुरुदत्त	वैदिक प्रकाशन	100.00	–
0000 A	8867	दासता के लिए रूप	गुरुदत्त	वैदिक प्रकाशन	100.00	–
0000 A	8868	उपनिषद् भाष्य	गुरुदत्त	वैदिक प्रकाशन	50.00	–
0000 A	8869	वेदों में इतिहास नहीं	गुरुदत्त	वैदिक प्रकाशन	20.00	–
0000 A	8870	सत्यार्थ प्रकाश क्या और क्यों?	गुरुदत्त	वैदिक प्रकाशन	20.00	–
0000A	8871	क्या अथर्ववेद में जादू–टोना आदि है	गुरुदत्त	वैदिक प्रकाशन	12.00	–
0000 A	8872	अवतारवाद मीमांसा	गुरुदत्त	वैदिक प्रकाशन	50.00	–
0000 A	8873	ऋग्वेद में आचार–सामग्री	गुरुदत्त	वैदिक प्रकाशन	100.00	–
0000 A	8874	आर्य समाज की मान्यताएं	गुरुदत्त	वैदिक प्रकाशन	16.00	–
0000 A	8875	वाल्मीकि रामायण सूक्त कोष	गुरुदत्त	वैदिक प्रकाशन	50.00	–
0000 A	8876	वर्ण व्यवस्था	गुरुदत्त	वैदिक प्रकाशन	25.00	–
0000 A	8877	आदर्श गृहस्थ जीवन	गुरुदत्त	वैदिक प्रकाशन	90.00	–
0000 A	8878	भारत की आदर्श वीरांगनाएं	गुरुदत्त	वैदिक प्रकाशन	45.00	–
0000 A	8879	दो बहनों की धार्मिक बातें	गुरुदत्त	वैदिक प्रकाशन	60.00	–
0000 A	8880	सन्मार्ग दर्शन	गुरुदत्त	वैदिक प्रकाशन	200.00	–
0000 A	8881	क्या आप की आयु निश्चित है	गुरुदत्त	वैदिक प्रकाशन	50.00	–
0000 A	8882	मृत्यु को दूर करने के उपाय	गुरुदत्त	वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8883	हंसना जरूरी है	गुरुदत्त	वैदिक प्रकाशन	110.00	–
0000 A	8884	संपूर्ण चाणक्य नीति–सूत्र एवं अर्थशास्त्र सहित	गुरुदत्त	वैदिक प्रकाशन	110.00	–
0000 A	8885	चाणक्य और चन्द्रगुप्त	गुरुदत्त	वैदिक प्रकाशन	110.00	–
0000 A	8886	ब्राह्मण की गौ	गुरुदत्त	वैदिक प्रकाशन	175.00	–
0000 A	8887	मस्जिद से यज्ञशाला की ओर	पं. महेन्द्र पाल आर्य	वैदिक प्रकाशन	80.00	–
0000 A	8888	पूर्व इमाम की कलम से वेद और कुरान की समीक्षा	पं. महेन्द्र पाल आर्य	वैदिक प्रकाशन	70.00	–
0000 A	8889	बेचारे ने जवाब देकर फंसाया इस्लाम को	पं. महेन्द्र पाल आर्य	वैदिक प्रकाशन	80.00	–
0000 A	8890	अक्ल पर दखल न देने वाले धर्म व मजहब के भेद को क्या जानें	पं. महेन्द्र पाल आर्य	वैदिक प्रकाशन	100.00	–
0000 A	8891	सत्य की राह हिन्दी व अंग्रेजी		वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8892	शेख चिल्ली और लाल बुझक्कड़ के कारनामे		वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8893	सत्यार्थ प्रकाश डी.वी.डी.		वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8894	परिवारिक सुख व समृद्धि वी.सी.डी.		वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8895	गुरुदेव दयानन्द		वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8896	महर्षि दयानन्द सरस्वती का संपूर्ण साहित्य		वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8897	ऋषि गाथा वी.सी.सी.		वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8898	वैदिक संध्या व यज्ञ वी.सी.डी.		वैदिक प्रकाशन	30.00	–

0000 A	8899	गायत्री मंत्र वी.सी.डी.		वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000A	8900	भक्ति भजनमाला		वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8901	नारी शक्ति		वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8902	देश भक्ति		वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8903	यज्ञ विज्ञान		वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8904	ईश्वर की सत्ता		वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8905	पाश्चात्करण कितना उचित?		वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8906	देश भक्ति गीत		वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8907	खिलौना माटी का		वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8908	भजन संदेश		वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8909	गुलाब प्रसून		वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8910	भक्ति रस सरिता		वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8911	ऋषि के चरणों में		वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8912	पथिक भजन संग्रह		वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8913	भजन स्वरांजलि		वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8914	भक्ति सरोवर		वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8915	भरत मिलाप		वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8916	ऋषि गाथा		वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8917	सुखी गृहस्थ		वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8918	प्रदीप के गीत		वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8919	देश भक्ति के गीत		वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8920	वैदिक गीतांजलि		वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8921	दिव्य चिंतन		वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8922	भजन संग्रह		वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8923	ओ३म् सत्संग श्री राजेन्द्र काचरू		वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8924	पितर–श्राद्ध	सुभाष अग्रवाल	वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8925	सत्यार्थ प्रकाश 18 भाषाओं में		वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8926	हम होंगे कामयाब चन्द्रशेखर		वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8927	जीवन के रंग		वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8928	चारों वेदों की अर्थ सहित 8 डी.वी.डी.		वैदिक प्रकाशन	500.00	–
0000A	8929	नक्कटा चोर मूर्ख गुरु चेला		वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8930	वैदिक विनय		वैदिक प्रकाशन	150.00	–
0000 A	8931	गुरुदत्त विद्यार्थी हिन्दी		वैदिक प्रकाशन	80.00	–
0000 A	8932	गुरुदत्त विद्यार्थी अंग्रेजी		वैदिक प्रकाशन	80.00	–
0000 A	8933	उपनिषद् की कहानियां		वैदिक प्रकाशन	70.00	–
0000 A	8934	दयानन्द लघु ग्रंथ संग्रह		वैदिक प्रकाशन	70.00	–
0000 A	8935	महर्षि दयानन्द सरस्वती ग्रंथ परिचय		वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8936	शिष्टाचार एवम् नैतिक शिक्षा – 1		वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8937	शिष्टाचार एवम् नैतिक शिक्षा – 2		वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8938	शिष्टाचार एवम् नैतिक शिक्षा – 3		वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8939	शिष्टाचार एवम् नैतिक शिक्षा – 4		वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8940	शिष्टाचार एवम् नैतिक शिक्षा – 5		वैदिक प्रकाशन	35.00	–
0000 A	8941	शिष्टाचार एवम् नैतिक शिक्षा – 6		वैदिक प्रकाशन	35.00	–
0000 A	8942	शिष्टाचार एवम् नैतिक शिक्षा – 7		वैदिक प्रकाशन	35.00	–
0000 A	8943	शिष्टाचार एवम् नैतिक शिक्षा – 8		वैदिक प्रकाशन	35.00	–
0000 A	8944	शिष्टाचार एवम् नैतिक शिक्षा – 9		वैदिक प्रकाशन	40.00	–
0000 A	8945	शिष्टाचार एवम् नैतिक शिक्षा – 10		वैदिक प्रकाशन	40.00	–
0000 A	8946	शिष्टाचार एवम् नैतिक शिक्षा – 11		वैदिक प्रकाशन	40.00	–
0000 A	8947	शिष्टाचार एवम् नैतिक शिक्षा – 12		वैदिक प्रकाशन	40.00	–
0000 A	8948	आर्य समाज के नियम उपनियम		वैदिक प्रकाशन	50.00	–
0000 A	8949	आर्य विवाह एक्ट		वैदिक प्रकाशन	15.00	–
0000 A	8950	वेद सेट		वैदिक प्रकाशन	20.00	–
0000 A	8951	वेद सेट		वैदिक प्रकाशन	2000.00	–
0000 A	8952	सत्यार्थ प्रकाश ब्रेल लिपि		वैदिक प्रकाशन	5100.00	–
0000 A	8953	महर्षि दयानन्द सरस्वती जीवनी		वैदिक प्रकाशन	2000.00	–
0000 A	8954	ओ३म् स्टीकर स्मॉल सिम्पल		वैदिक प्रकाशन	1000.00	–
0000 A	8955	ओ३म् स्टीकर स्मॉल रेडियम		वैदिक प्रकाशन	1.00	–
0000 A	8956	ओ३म् स्टीकर मध्यम रेडियम		वैदिक प्रकाशन	10.00	–

0000 A	8957	नाम स्लिप स्टीकर		वैदिक प्रकाशन	15.00	–
0000A	8958	महर्षि दयानन्द सरस्वती		वैदिक प्रकाशन	5.00	–
0000 A	8959	महर्षि दयानन्द सरस्वती		वैदिक प्रकाशन	25.00	–
0000 A	8960	महर्षि दयानन्द सरस्वती		वैदिक प्रकाशन	25.00	–
0000 A	8961	महर्षि दयानन्द सरस्वती		वैदिक प्रकाशन	25.00	–
0000 A	8962	महर्षि दयानन्द सरस्वती		वैदिक प्रकाशन	25.00	–
0000 A	8963	भगवान को क्यों माने		वैदिक प्रकाशन	25.00	–
0000 A	8964	शेख चिल्ली लाल बुजक्कड़		वैदिक प्रकाशन	25.00	–
0000 A	8965	शेख चिल्ली लाल बुजक्कड़		वैदिक प्रकाशन	25.00	–
0000 A	8966	महर्षि दयानन्द क्रांतिकारी शिष्य		वैदिक प्रकाशन	25.00	–
0000 A	8967	महर्षि दयानन्द के अनुयायी		वैदिक प्रकाशन	35.00	–
0000 A	8968	प्यारा ऋषि		वैदिक प्रकाशन	25.00	–
0000 A	8969	शगुन लिफाफा सिक्का युक्त		वैदिक प्रकाशन	5.00	–
0000 A	8970	शगुन लिफाफा बिना सिक्का		वैदिक प्रकाशन	4.00	–
0000 A	8971	ओ३म् अक्रेलिक फोटो फ्रेम बड़ा		वैदिक प्रकाशन	700.00	–
0000 A	8972	ओ३म् अक्रेलिक फोटो फ्रेम छोटा		वैदिक प्रकाशन	270.00	–
0000A	8973	ओ३म् दीवार घड़ी		वैदिक प्रकाशन	150.00	–
0000 A	8974	महर्षि दयानन्द दीवार घड़ी		वैदिक प्रकाशन	150.00	–
0000 A	8975	मानव कल्याण के स्वर्णिम सूत्र		वैदिक प्रकाशन	2.00	–
0000 A	8976	वेद सेट		वैदिक प्रकाशन	2000.00	–
0000 A	8977	वेद सेट		वैदिक प्रकाशन	1500.00	–
0000 A	8978	नया संवत्सर कार्ड		वैदिक प्रकाशन	5.00	–
0000 A	8979	एक निमंत्रण		वैदिक प्रकाशन	10.00	–
0000 A	8980	ओ३म् ध्वज छोटा		वैदिक प्रकाशन	15.00	–
0000 A	8981	ओ३म् ध्वज मध्यम		वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8982	ओ३म् ध्वज मिनी		वैदिक प्रकाशन	10.00	–
0000 A	8983	ओ३म् झण्डियां सूती वस्त्र		वैदिक प्रकाशन	4.00	–
0000 A	8984	ओ३म् झण्डियां प्लास्टिक तिकोनी		वैदिक प्रकाशन	1.00	–
0000 A	8985	ओ३म् ध्वज		वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	8986	ओ३म् ध्वज बड़ा		वैदिक प्रकाशन	60.00	–
0000 A	8987	ओ३म् ध्वज फैन्सी बड़ा		वैदिक प्रकाशन	120.00	–
0000 A	8988	ओ३म् ध्वज फैन्सी छोटा		वैदिक प्रकाशन	50.00	–
0000 A	8989	पटका साटन फैन्सी		वैदिक प्रकाशन	40.00	–
0000 A	8990	पटका सूती फैन्सी		वैदिक प्रकाशन	25.00	–
0000 A	8991	पटका सूती साधारण		वैदिक प्रकाशन	20.00	–
0000 A	8992	आसन छोटा		वैदिक प्रकाशन	100.00	–
0000 A	8993	आसन मध्यम		वैदिक प्रकाशन	150.00	–
0000 A	8994	आसन बड़ा		वैदिक प्रकाशन	250.00	–
0000 A	8995	एक किलोग्राम च्यवनप्राश स्पेशल		वैदिक प्रकाशन	294.00	–
0000 A	8996	एक किलोग्राम च्यवनप्राश साधारण		वैदिक प्रकाशन	225.00	–
0000 A	8997	500 ग्राम सूखी आंवला कैण्डी		वैदिक प्रकाशन	160.00	–
0000 A	8998	एक लीटर आंवला स्वरस		वैदिक प्रकाशन	154.00	–
0000 A	8999	400 ग्राम चाय		वैदिक प्रकाशन	225.00	–
0000 A	9000	200 ग्राम चाय		वैदिक प्रकाशन	125.00	–
0000 A	9001	100 ग्राम चाय		वैदिक प्रकाशन	61.00	–
0000A	9002	250 ग्राम गुलकंद		वैदिक प्रकाशन	114.00	–
0000 A	9003	200 मिलीग्राम महाभृंगराज तैल		वैदिक प्रकाशन	206.00	–
0000 A	9004	60 ग्राम पायोकिल मंजन		वैदिक प्रकाशन	88.00	–
0000 A	9005	25 ग्राम पायोकिल मंजन		वैदिक प्रकाशन	42.00	–
0000 A	9006	105 ग्राम सफेद सुरमा		वैदिक प्रकाशन	32.00	–
0000 A	9007	50 ग्राम मधुमेह नाशनी		वैदिक प्रकाशन	259.00	–
0000 A	9008	20 किलोग्राम हवन सामग्री		वैदिक प्रकाशन	1500.00	–
0000 A	9009	10 किलोग्राम हवन सामग्री		वैदिक प्रकाशन	750.00	–
0000 A	9010	पांच किलोग्राम हवन सामग्री		वैदिक प्रकाशन	450.00	–
0000 A	9011	एक किलोग्राम हवन सामग्री		वैदिक प्रकाशन	100.00	–
0000 A	9012	500 ग्राम हवन सामग्री		वैदिक प्रकाशन	50.00	–
0000 A	9013	कैलेण्डर 2016		वैदिक प्रकाशन	12.00	–
0000 A	9014	नेम प्लेट प्लास्टिक 3 x 4		वैदिक प्रकाशन	15.00	–

0000 A	9015	लघु सत्यार्थ प्रकाश		वैदिक प्रकाशन	10.00	–
0000 A	9016	भगवान को क्यों माने		वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	9017	अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल		वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	9018	महर्षि दयानन्द सरस्वती		वैदिक प्रकाशन	25.00	–
0000 A	9019	महर्षि दयानन्द सरस्वती		वैदिक प्रकाशन	25.00	–
0000 A	9020	महर्षि दयानन्द सरस्वती		वैदिक प्रकाशन	25.00	–
0000 A	9021	महर्षि दयानन्द सरस्वती		वैदिक प्रकाशन	25.00	–
0000 A	9022	महर्षि दयानन्द सरस्वती		वैदिक प्रकाशन	25.00	–
0000 A	9023	शेख चिल्ली लाल बुजक्कड़		वैदिक प्रकाशन	25.00	–
0000 A	9024	शेख चिल्ली लाल बुजक्कड़		वैदिक प्रकाशन	25.00	–
0000 A	9025	शेख चिल्ली लाल बुजक्कड़		वैदिक प्रकाशन	25.00	–
0000 A	9026	महर्षि दयानन्द क्रांतिकारी शिष्य		वैदिक प्रकाशन	35.00	–
0000 A	9027	महर्षि दयानन्द अनुयायी		वैदिक प्रकाशन	25.00	–
0000 A	9028	प्यारा ऋषि		वैदिक प्रकाशन	25.00	–
0000 A	9029	लाला लाजपत राय		वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	9030	बोध कथाएं		वैदिक प्रकाशन	35.00	–
0000A	9031	विद्यार्थी लेखावली		वैदिक प्रकाशन	75.00	–
0000 A	9032	विद्यार्थियों की दिनचर्या		वैदिक प्रकाशन	20.00	–
0000 A	9033	कुछ करो कुछ बनो		वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	9034	सुविचार		वैदिक प्रकाशन	40.00	–
0000 A	9035	प्रेरक बोध कथाएं		वैदिक प्रकाशन	45.00	–
0000 A	9036	शिक्षाप्रद कथाएं		वैदिक प्रकाशन	45.00	–
0000 A	9037	उत्तम शिक्षा की अच्छी–अच्छी कहानियां भाग – 1		वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	9038	पंचतंत्र		वैदिक प्रकाशन	85.00	–
0000 A	9039	जातक कथाएं		वैदिक प्रकाशन	85.00	–
0000 A	9040	नानी की कहानियां		वैदिक प्रकाशन	85.00	–
0000 A	9041	ईमानदार बालक		वैदिक प्रकाशन	25.00	–
0000 A	9042	भृर्तहरि शतकम्		वैदिक प्रकाशन	125.00	–
0000 A	9043	संस्कार विधि		वैदिक प्रकाशन	90.00	–
0000 A	9044	महर्षि दयानन्द		वैदिक प्रकाशन	60.00	–
0000 A	9045	विदुर नीति		वैदिक प्रकाशन	100.00	–
0000 A	9046	चाणक्यनीति		वैदिक प्रकाशन	80.00	–
0000 A	9047	गांधी नेहरू भारत के लिए वरदान या अभिशाप		वैदिक प्रकाशन	150.00	–
0000 A	9048	भारतीय शिक्षा का दार्शनिक आधार		वैदिक प्रकाशन	100.00	–
0000 A	9049	इतिहास की मृत्यु		वैदिक प्रकाशन	100.00	–
0000 A	9050	कुरान 176 प्रश्न		वैदिक प्रकाशन	250.00	–
0000 A	9051	काला पहाड़		वैदिक प्रकाशन	50.00	–
0000 A	9052	भक्ष्याभक्ष्य विचार		वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	9053	बाईबिल ईश्वरीय–संदेश		वैदिक प्रकाशन	250.00	–
0000 A	9054	हजरत मोहम्मद साहब का विचित्र जीवन		वैदिक प्रकाशन	450.00	–
0000 A	9055	जलते दिल धधकते अंगारे		वैदिक प्रकाशन	310.00	–
0000 A	9056	भारतीय पर्व और त्योहार		वैदिक प्रकाशन	250.00	–
0000 A	9057	कुरान की विचारणीय बातें		वैदिक प्रकाशन	25.00	–
0000 A	9058	पुराणों के कृष्ण		वैदिक प्रकाशन	5.00	–
0000 A	9059	बाईबिल पर सप्रमाण 31 प्रश्न		वैदिक प्रकाशन	15.00	–
0000A	9060	पौराणिक कीर्तन पाखण्ड है		वैदिक प्रकाशन	15.00	–
0000 A	9061	ईसाई धर्म की निरसारता		वैदिक प्रकाशन	5.00	–
0000 A	9062	इस्लाम में नारी की दुर्गति		वैदिक प्रकाशन	25.00	–
0000 A	9063	ईश्वर सिद्धि		वैदिक प्रकाशन	10.00	–
0000 A	9064	शिवजी के चार विलक्षण बेटे		वैदिक प्रकाशन	5.00	–
0000 A	9065	भूत–प्रेत रहस्य		वैदिक प्रकाशन	30.00	–
0000 A	9066	संस्कार महत्व		वैदिक प्रकाशन	10.00	–
0000 A	9067	शिवाजी का पत्र		वैदिक प्रकाशन	15.00	–
0000 A	9068	जिहाद के नाम पर		वैदिक प्रकाशन	100.00	–
0000 A	9069	प्रमाणिक इस्लामी हदीस		वैदिक प्रकाशन	200.00	–

0000 A	9070	युधिष्ठर संवाद		वैदिक प्रकाशन	80.00	–
0000 A	9071	अरब में मेरे सात साल		वैदिक प्रकाशन	250.00	–
0000 A	9072	गीता और महर्षि दयानन्द		वैदिक प्रकाशन	15.00	–
0000 A	9073	कास्ट सिस्टम		वैदिक प्रकाशन	20.00	–
0000 A	9074	हनुमान जी बंदर नहीं थे		वैदिक प्रकाशन	5.00	–
0000 A	9075	ईश्वर ने दुनिया क्यों बनाई?		वैदिक प्रकाशन	15.00	–
0000 A	9076	दुर्लभ गीता		वैदिक प्रकाशन	80.00	–
0000 A	9077	भागवत् समीक्षा		वैदिक प्रकाशन	300.00	–
0000 A	9078	विश्व में वैदिक सभ्यता		वैदिक प्रकाशन	200.00	–
0000 A	9079	भारत में मुस्लिम आतंकवाद		वैदिक प्रकाशन	10.00	–
0000 A	9080	यदि आचार्य चाणक्य प्रधानमंत्री होते		वैदिक प्रकाशन	10.00	–
0000 A	9081	तुलसी और शालिग्राम		वैदिक प्रकाशन	10.00	–
0000 A	9082	मन नहीं टिकता क्या करें		वैदिक प्रकाशन	15.00	–
0000 A	9083	कौन कहता है कर्ण कुन्ती का		वैदिक प्रकाशन	50.00	–
0000 A	9084	आर्य समाज और हिन्दू धर्म		वैदिक प्रकाशन	5.00	–
0000 A	9085	ईसाई मत की पोल		वैदिक प्रकाशन	10.00	–
0000 A	9086	सच्ची बात		वैदिक प्रकाशन	10.00	–
0000 A	9087	शराब और मूर्ति पूजा		वैदिक प्रकाशन	10.00	–
0000 A	9088	क्या मांसाहार मानवता है		वैदिक प्रकाशन	10.00	–
0000A	9089	वैदिक यज्ञ विज्ञान		वैदिक प्रकाशन	50.00	–
0000 A	9090	ब्रह्मचर्य ही जीवन		वैदिक प्रकाशन	40.00	–
0000 A	9091	अरब का कदीमी मजहब		वैदिक प्रकाशन	15.00	–
0000 A	9092	गीता पर प्रश्न		वैदिक प्रकाशन	6.00	–
0000 A	9093	शंका समाधान		वैदिक प्रकाशन	15.00	–
0000 A	9094	शिवलिंग पूजा क्यों		वैदिक प्रकाशन	50.00	–
0000 A	9095	चमन		वैदिक प्रकाशन	50.00	–
0000 A	9096	A Bilingual Glossary of The Nagananda	Suniti Kumar Pathak	The Asiatic Society	10.00	–
0000 A	9097	A critical edition of srikalacakratantraraja	Biswanath Banerjee	The Asiatic Society	90.00	–
0000 A	9098	A descriptive catalogue of the bengali manuscripts in the collection of the asiatic society Part I	Jatindra Mohan Bhattacharjee	The Asiatic Society	4.00	–
0000 A	9099	A descriptive catalogue of the persian manuscripts in the third collection of the asiatic society	Mohammed Abdullah	The Asiatic Society	480.00	–
0000 A	9100	A descriptive catalogue of the sanskrit manuscripts Part I	Dalia Bandury	The Asiatic Society	450.00	–
0000 A	9101	A descriptive catalogue of the sanskrit manuscripts Part II	Dalia Bandury	The Asiatic Society	500.00	–
0000 A	9102	A descriptive catalogue of the sanskrit manuscripts in the collection of the asiatic society	N.C. Vedantatirtha	The Asiatic Society	30.00	–
0000 A	9103	A descriptive catalogue of the sanskrit manuscripts in the collection of the asiatic society Fascicle I	Ajit Ranjan Bhattacharya	The Asiatic Society	16.00	–
0000 A	9104	A descriptive catalogue of the sanskrit manuscripts in the collection of the asiatic society Fascicle I	Ajit Ranjan Bhattacharya	The Asiatic Society	10.00	–
0000 A	9105	A descriptive catalogue of the sanskrit manuscripts in the collection of the asiatic society Fascicle I	Satya Ranjan Banerjee	The Asiatic Society	55.00	–
0000 A	9106	A heap of jewels of oral radiation	Archana Ray	The Asiatic Society	280.00	–
0000 A	9107	A list of kharosthi inscriptions	N.G. Majumdar	The Asiatic Society	150.00	–
0000 A	9108	A primer of navyanyaya language & Methodology	Ujjwala Jha	The Asiatic Society	280.00	–
0000 A	9109	A selection of pioneering research papers of the journal of the asiatic society on zoology & physics	Sunil Sen Sharma	The Asiatic Society	360.00	–
0000 A	9110	Alexander Csoma Dekoros Vol. I & II	P.J. Marczell	The Asiatic Society	1200.00 Set	–

0000 A	9111	An approach to the cultural mapping of north east India in respect of tribal tales	Pratibha Mandal	The Asiatic Society	750.00	–
0000 A	9112	Annotated bibliography of the articles on Zoology	Anindita De	The Asiatic Society	450.00	–
0000 A	9113	Apastamba samanya-sutra or Yajnaparibhasa sutra	Samiran Chandra Chakrabati	The Asiatic Society	250.00	–
0000 A	9114	Arya Dravida Vidya Raja	Bhakti De	The Asiatic Society	240.00	–
0000 A	9115	Asla : Land and people, vol. I	Ajit Kumar Danda	The Asiatic Society	1000.00	–
0000 A	9116	Asla : Land and people, vol. II	Ajit Kumar Danda	The Asiatic Society	1500.00	–
0000 A	9117	Asla : Manab O Prakriti	Sir William Jones	The Asiatic Society	300.00	–
0000A	9118	Asla : Persia and India	John Ogilby	The Asiatic Society	3000.00	–
0000 A	9119	Aspects of History of science	Naresh Chandra Datta	The Asiatic Society	150.00	–
0000 A	9120	Astasahasrika Prajna Paramita	Dr. Edward Conze	The Asiatic Society	30.00	–
0000 A	9121	Asvaghosa	B.C. Law	The Asiatic Society	180.00	–
0000 A	9122	Aswalayana Srauta Sutra	Amar Chattopadhyay	The Asiatic Society	1200.00	–
0000 A	9123	Background papers of the international seminar on Re-appraisal & Re-understanding of indigenous peopls	U.N. Biswas	The Asiatic Society	700.00	–
0000 A	9124	Bangla Bhasay Bijnancharcha	Saradindu Sekhar Ray	The Asiatic Society	750.00	–
0000 A	9125	Bangla Puthir talika samanvaya	Jatindra Mohan Bhattacharjee	The Asiatic Society	150.00	–
0000 A	9126	Bankim chandra chattopadhyay : His contribution to Indian life and culture	Ujjwal Kumar Majumdar	The Asiatic Society	120.00	–
0000 A	9127	Bengal Nawabs	Jadunath Sarkar	The Asiatic Society	200.00	–
0000 A	9128	Bengal Vaisnavism and Srichaitanya	Janardan Chakraborty	The Asiatic Society	60.00	–
0000 A	9129	Bharater Atit Byakhya Prasange	Amartya Sen	The Asiatic Society	50.00	–
0000 A	9130	Bibliography of epigraphical studies Part I	Sibadas Chaudhuri	The Asiatic Society	240.00	–
0000 A	9131	Bibliography of indo logical studies in 1953	Sibadas Chaudhuri	The Asiatic Society	4.00	–
0000 A	9132	Bibliography of indo logical studies in 1955	Sibadas Chaudhuri	The Asiatic Society	10.00	–
0000 A	9133	Bibliography of indo logical studies in 1956	Sibadas Chaudhuri	The Asiatic Society	50.00	–
0000 A	9134	Bibliography of recovery of metals from spent industrial catalysts	Subrata Dutta Chaudhuri	The Asiatic Society	320.00	–
0000 A	9135	Bicentenary souvenir of the asiatic society		The Asiatic Society	10.00	–
0000 A	9136	Buddha and buddhism	Biswanath Banerjee	The Asiatic Society	280.00	–
0000 A	9137	Buddhist Hybrid sanskrit literature	Sukumari Bhattacharji	The Asiatic Society	320.00	–
0000 A	9138	Cachar district records Vol. I & II	D. Datta	The Asiatic Society	450.00 Set	–
0000 A	9139	Calcutta tercentenary Bibliography Vol. I	P.T. Nair	The Asiatic Society	160.00	–
0000 A	9140	Calcutta tercentenary Bibliography Vol. II	P.T. Nair	The Asiatic Society	600.00	–
0000 A	9141	Cantechnology lead to a prosperous society	APJ Abdul Kalam	The Asiatic Society	15.00	–
0000 A	9142	Catalogue of arabic manuscriptsin tabular form Vol. 1	M.S. Khan	The Asiatic Society	40.00	–
0000 A	9143	Catalogue of arabic manuscriptsin tabular form Vol. 1I	M.S. Khan	The Asiatic Society	80.00	–
0000 A	9144	Catalogue of hindi printed books	Girijanath Bhattacharya	The Asiatic Society	5.00	–
0000 A	9145	Catalogue of persian printed books	Matiur Rahman	The Asiatic Society	12.00	–
0000 A	9146	Catalogue of sanskrit Mss. Vol. I	Late Pandit N.C. Vedantatirtha	The Asiatic Society	20.00	–
0000A	9147	Catalogue of sanskrit Mss. Vol. II	Late Pandit N.C. Vedantatirtha	The Asiatic Society	15.00	–
0000 A	9148	Catalogue of tibetan manuscripts in the collection of the asiatic society Vol. I	Lama Jumpa Ngawang	The Asiatic Society	52.00	–

0000 A	9149	Catalogue of urdu printed books in the library of the asiatic society Vol. I	A. Khallaque	The Asiatic Society	60.00	–
0000 A	9150	Catalogue of urdu printed books in the library of the asiatic society Vol. II	A. Khallaque	The Asiatic Society	200.00	–
0000 A	9151	Catalogus catalogorum of assamese manuscripts	Jatindra Mohan Bhattacharjee	The Asiatic Society	20.00	–
0000 A	9152	Catalogus catalogorum of bengali manuscripts Vol. I	Jatindra Mohan Bhattacharjee	The Asiatic Society	60.00	–
0000 A	9153	Centenary review of the asiatic society, 1784-1884 Vol. I, II & III	Rajendralala Mitra	The Asiatic Society	250.00	–
0000 A	9154	Chandasutrabhasyam Yadavaprakasakritam	Haridas Sinha Ray	The Asiatic Society	25.00	–
0000 A	9155	Charakasamhitar darsanik bravana-samiksa	Dalia Bandury	The Asiatic Society	220.00	–
0000 A	9156	Chinese sources of south asian history in translation : Data for study of India-China relations through ages, Vol. I	Hara Prasad Ray	The Asiatic Society	400.00	–
0000 A	9157	Chinese sources of south asian history in translation : Data for study of India-China relations through ages, Vol. II	Hara Prasad Ray	The Asiatic Society	240.00	–
0000 A	9158	Chinese sources of south asian history in translation : Data for study of India-China relations through ages, Vol. III	Hara Prasad Ray	The Asiatic Society	420.00	–
0000 A	9159	Chinese sources of south asian history in translation : Data for study of India-China relations through ages, Vol. IV	Hara Prasad Ray	The Asiatic Society	350.00	–
0000 A	9160	Collected papers of jnan chandra ghosh Vol. I & II		The Asiatic Society	1200.00 Set	–
0000 A	9161	Collected works of mahendralal sircar eugene lafont and the scienec movement	Arun Kumar Biswas	The Asiatic Society	1350.00	–
0000 A	9162	Community development of chotonagpur	Jyoti Sen	The Asiatic Society	20.00	–
0000 A	9163	Concise descriptive catalogue of the persian mss. In the collection of the asiatic society of bengal	W. Ivanow	The Asiatic Society	190.00	–
0000 A	9164	Connectivity and beyond : Indo-thai relations though ages	Lipi Ghosh	The Asiatic Society	420.00	–
0000 A	9165	Contribution of P.C. bagchi on sino-Indo tibetology	Hara Prasad Ray	The Asiatic Society	150.00	–
0000 A	9166	Contributions to the geography and history of bengal	H. Blochmann	The Asiatic Society	450.00	–
0000 A	9167	Dandaviveka of vardhamana Upadhyaya	Bhabatosh Bhattacharya	The Asiatic Society	40.00	–
0000 A	9168	Dasa-Rupa	F.E. Hall	The Asiatic Society	20.00	–
0000 A	9169	Dattaka-Tilakah	J Aydeb Ganguly Shastri	The Asiatic Society	250.00	–
0000 A	9170	Dawn of modern marine science in India	Jyotirmoy Dutta	The Asiatic Society	1500.00	–
0000 A	9171	Descriptive Bi-Lingual catalogue of chinese books in the collection of the asiatic society		The Asiatic Society	1200.00	–
0000 A	9172	Descriptive catalogue of rajasthani mss. Vol. I	V.B. Trivedi	The Asiatic Society	8.00	–
0000 A	9173	Descriptive catalogue of rajasthani mss. Vol. II	A.C. Mhamia	The Asiatic Society	1200.00	–
0000 A	9174	Descriptive catalogue of sanskrit manuscripts Vol. XIV	Chittaranjan Chakravarty	The Asiatic Society	8.00	–
0000 A	9175	Descriptive catalogue of the sanskrit mss. Vol. XI	H.P. Shastri	The Asiatic Society	36.00	–
0000A	9176	Descriptive catalogue of sanskrit manuscripts, Indian philosophy	Debabrata Sensharma	The Asiatic Society	900.00	–

0000 A	9177	Descriptive catalogue of the sanskrit mss.	H.P. Shastri	The Asiatic Society	15000.00 Set	–
0000 A	9178	Descriptive catalogue of the sanskrit mss. Part - II	H.P. Shastri	The Asiatic Society	8.00	–
0000 A	9179	Descriptive catalogue of the sanskrit mss. (Vyakaraana)	N.C. Vedantatirtha	The Asiatic Society	25.00	–
0000 A	9180	Development, desplacement and marginalisation	Ranjana Ray	The Asiatic Society	450.00	–
0000 A	9181	Dictionary of buddhist doctrinal and technical terms	B.N. Choudhary	The Asiatic Society	840.00	–
0000 A	9182	Diwan-E-Brahman	Md. Amin	The Asiatic Society	480.00	–
0000 A	9183	Dr. Bidhan chandra ray - A jewel of India	Asoke Bagchi	The Asiatic Society	250.00	–
0000 A	9184	Economic impact of raids on the shifting cultivators of tripura	Malabika Das Gupta	The Asiatic Society	150.00	–
0000 A	9185	Epic women : East & West	Sister Maeve Hughes	The Asiatic Society	90.00	–
0000 A	9186	Ethnicity, nationalism and integration	Ajit Kumar Danda	The Asiatic Society	300.00	–
0000 A	9187	Excavations at moghalmari	Asok Datta	The Asiatic Society	1200.00	–
0000 A	9188	Faith and reason : Indian scene & perspective	Amiya Mazumdar	The Asiatic Society	90.00	–
0000 A	9189	Father eugene lafont of st. Xavier's college, kolkata and the contemporary science movement	Arun Kumar Biswas	The Asiatic Society	600.00	–
0000 A	9190	Fight against cancer	B. Mukherjee	The Asiatic Society	10.00	–
0000 A	9191	First supplement to concise descriptive catalogue of the persian mss. In the collection of the asiatic society of bengal	W. Ivanow	The Asiatic Society	5.00	–
0000 A	9192	Folklore of the kolhan of C.H. Bompas	Pallab Sen Gupta	The Asiatic Society	225.00	–
0000 A	9193	Future of indology	Biswanath Banerjee	The Asiatic Society	240.00	–
0000 A	9194	Ganit shastree smaraniya janra Vol. I	Pradip Kr. Majumdar	The Asiatic Society	250.00	–
0000 A	9195	Ganitavali	Bibhuti Bhushan Bhattacharya	The Asiatic Society	400.00	–
0000 A	9196	Gauda banga ramya katha	Suniti Kr. Chatterji	The Asiatic Society	120.00	–
0000 A	9197	Gaudiya Dance	Pallab Sen Gupta	The Asiatic Society	450.00	–
0000 A	9198	Gaudiya Nritya	Mahua Mukherjee	The Asiatic Society	480.00	–
0000 A	9199	Gaudiya Nritya Nibandhaguccha	Pallab Sen Gupta	The Asiatic Society	180.00	–
0000 A	9200	Gauranga Vijaya	Sukumar Sen	The Asiatic Society	140.00	–
0000 A	9201	Gitagovinda O bharat-sanskriti		The Asiatic Society	100.00	–
0000 A	9202	Gleanings of the past and the science movement	A.K. Biswas	The Asiatic Society	300.00	–
0000 A	9203	Gold coins in the collection of the asiatic society	Sutapa Sinha	The Asiatic Society	2500.00	–
0000 A	9204	Gopal haldar : sanskritir rasarupadrasta	Sunil Behari Sen Sharma	The Asiatic Society	120.00	–
0000A	9205	Haft Iqlim Vol. II	Amin Ahmand Razi	The Asiatic Society	50.00	–
0000 A	9206	Haft Iqlim Vol. V	Amin Ahmand Razi	The Asiatic Society	15.00	–
0000 A	9207	Haricaritam of caturbhuja	Sivaprasad Bhattacharya	The Asiatic Society	25.00	–
0000 A	9208	History & Doctrines of the wahhabis	Abdullah	The Asiatic Society	180.00	–
0000 A	9209	History of Indian medicine based on vedic literature satapatha brahmana	Mridula Saha	The Asiatic Society	140.00	–
0000 A	9210	History, science and society in the indian context	Arun Kumar Biswas	The Asiatic Society	600.00	–
0000 A	9211	Humayun in persia	Sukumar Ray	The Asiatic Society	200.00	–
0000 A	9212	Index to the publications of the asiatic society Vol. I, Part I	Sibadas Chaudhuri	The Asiatic Society	22.00	–
0000 A	9213	Index to the publications of the asiatic society Vol. I, Part II	Sibadas Chaudhuri	The Asiatic Society	10.00	–
0000 A	9214	India and ethiopia : from the seventh century B.C.	Suniti Kumar Chatterji	The Asiatic Society	300.00	–

0000 A	9215	India-China interface and the road ahead	Hara Prasad Ray	The Asiatic Society	325.00	–
0000 A	9216	Indo-Russian relations, 1917-47 Part I	Purabi Roy	The Asiatic Society	900.00	–
0000 A	9217	Indo-Russian relations, 1917-47 Part II	Purabi Roy	The Asiatic Society	1200.00	–
0000 A	9218	Indo-Russian relations, 1917-1947	Purabi Roy	The Asiatic Society	200.00	–
0000 A	9219	Introducing mahayana buddhism	Biswanath Banerjee	The Asiatic Society	400.00	–
0000 A	9220	Introduction of the early correspondence of the asiatic society	Amalendu De	The Asiatic Society	300.00	–
0000 A	9221	Iranianism	Suniti Kumar Chatterji	The Asiatic Society	75.00	–
0000 A	9222	Jamshedpur-The growth of the city and its regions	Maya Dutta	The Asiatic Society	40.00	–
0000 A	9223	Jayananda Biracita Chaitanya-Mangal	Biman Behari Majumdar & Sukhamay Mukhopadhyay	The Asiatic Society	420.00	–
0000 A	9224	Jiva Gosvamin	Asoke Chatterjee Shastri	The Asiatic Society	100.00	–
0000 A	9225	Jottings on the literary aspects of the brahmanda-purana	Asoke Chatterjee Shastri	The Asiatic Society	225.00	–
0000 A	9226	Kathakali	Kalamandalam Govindan Kutty	The Asiatic Society	250.00	–
0000 A	9227	Kiranavali of Udayanacharyya Fascs. I-III	Siva Candra Sarvabhauma	The Asiatic Society	60.00	–
0000 A	9228	Kiranavali of Udayanacharyya Fascs. IV	Siva Candra Sarvabhauma	The Asiatic Society	360.00	–
0000 A	9229	Kiratajana Kriti	Suniti Kumar Chatterji	The Asiatic Society	150.00	–
0000 A	9230	Krisi-Parasara	Girija Prasanna Majumdar	The Asiatic Society	100.00	–
0000 A	9231	Kritya-Tattvarnava Part - I	Rajendra Chandra Hazra	The Asiatic Society	25.00	–
0000 A	9232	Kritya-Tattvarnava Part - II	Rajendra Chandra Hazra	The Asiatic Society	325.00	–
0000 A	9233	Lalitavistara	Bijoya Goswami	The Asiatic Society	480.00	–
0000A	9234	Late Mediaeval temples of bengal : Origin and classification	David J. McCutchion	The Asiatic Society	300.00	–
0000 A	9235	Life and experiences of a bengali chemist, Vol. I & II	Prafulla Chandra Ray	The Asiatic Society	800.00	–
0000 A	9236	Life and times of an Indian anthropologist : K.P. Chattopadhyay	Gautam Chattopadhyay	The Asiatic Society	90.00	–
0000 A	9237	Literary translation and bengali	Aditi Ghosh	The Asiatic Society	180.00	–
0000 A	9238	Lokayata Philosophy	Subuddhi Charan Goswami	The Asiatic Society	240.00	–
0000 A	9239	Lower sundarban, role of fisheries in its sustainable development	B.C. Sharma	The Asiatic Society	150.00	–
0000 A	9240	Ma'Asir-I' Alamgiri	Jadunath Sarkar	The Asiatic Society	240.00	–
0000 A	9241	Madhyayugiya bharate sanskrita sahitya	Kali Kumar Dutta	The Asiatic Society	10.00	–
0000 A	9242	Majma'-Ul-Bahrain or the mingling of the two oceans	Prince Muhammad Dara Shikuh	The Asiatic Society	150.00	–
0000 A	9243	Man and nature : The discourses	Sir William Jones	The Asiatic Society	300.00	–
0000 A	9244	Mangalavada	Gangesa Upadhyaya	The Asiatic Society	20.00	–
0000 A	9245	Manutikasamgraha	Julius Jolly	The Asiatic Society	80.00	–
0000 A	9246	Matsyendra samhita, Ascribed to matsyendranatha, Part - I	Debabrata Sensharma	The Asiatic Society	150.00	–
0000 A	9247	Meghnadsaha in parliament	Santimay Chatterjee	The Asiatic Society	120.00	–
0000 A	9248	Mineral processing to elemental science in the medieval world : India and europe	Arun Kumar Biswas	The Asiatic Society	580.00	–
0000 A	9249	Miniature chess problem : More movers	N. Sikdar	The Asiatic Society	125.00	–
0000 A	9250	Mricchakatika : Bicitra Barnali	Biswanath Banerjee	The Asiatic Society	100.00	–
0000 A	9251	Mudranusilana : Articles of the seminar on coins of bengal and north-east India	Samaresh Bandyopadhyay	The Asiatic Society	1000.00	–
0000 A	9252	Mystical buddhism from a sibylline perspective	Satadal Kargupta	The Asiatic Society	1200.00	–
0000 A	9253	Naamaghosha	Subhas Shasmal	The Asiatic Society	500.00	–

0000 A	9254	Navyanyaya : Language and methodology		The Asiatic Society	120.00	–
0000 A	9255	Nirmal kumar bose : Life, works and vision	Tulika Sen	The Asiatic Society	360.00	–
0000 A	9256	Nitisara by Kamandaki	Rajendralala Mitra	The Asiatic Society	650.00	–
0000 A	9257	Numismatic supplement		The Asiatic Society	50.00	–
0000 A	9258	Nyayadarsane srikanthatippanakam	Anantalal Thakur	The Asiatic Society	35.00	–
0000A	9259	Nyayasutras with nyayarahasya of ramabhadra sarvabhauma and anviksiki-tattvavivarana of janakinatha cudamani vol. I & II	Prabal Kumar Sen	The Asiatic Society	1100.00	–
0000 A	9260	On rammohan roy	Ramesh Chandra Majumdar	The Asiatic Society	100.00	–
0000 A	9261	Origin and development of sanskrit metrics	Arati Mitra	The Asiatic Society	90.00	–
0000 A	9262	Panchavimsa-brahmana	Dr. W. Caland	The Asiatic Society	225.00	–
0000 A	9263	Pandit mrityunjay vidyalamkara prabandhavali	Asit K. Bandyopadhyay	The Asiatic Society	80.00	–
0000 A	9264	Parasara-smriti parasara madhava Vol. I, II & III		The Asiatic Society	90.00 Set	–
0000 A	9265	Polarisation of lonospherically propagated radio waves	S.R. Khastgir	The Asiatic Society	420.00	–
0000 A	9266	Population, environment and food security	M.S. Swaminathan	The Asiatic Society	20.00	–
0000 A	9267	Possibility of different types of religion	Kalidas Bhattacharyya	The Asiatic Society	80.00	–
0000 A	9268	Prithvirajvaijayamahakavya : Aitihasik O Kavyik parikrama	Sanjit Bhattacharya	The Asiatic Society	360.00	–
0000 A	9269	Proceedings of the asiatic society, Vol. I	Sibadas Chaudhuri	The Asiatic Society	175.00	–
0000 A	9270	Proceedings of the asiatic society, Vol. II, III & IV	Sibadas Chaudhuri	The Asiatic Society	6300.00 Set	–
0000 A	9271	Prolegomena to prakritica et jainica	Satya Ranjan Banerjee	The Asiatic Society	250.00	–
0000 A	9272	Punjab and awadh	Chanda Chattopadhyay	The Asiatic Society	450.00	–
0000 A	9273	Qanun-I-Humayuni of Khwandmir	Baini Prasad	The Asiatic Society	140.00	–
0000 A	9274	Rabindranathtagore and patrick geddes	Arunendu Banerjee	The Asiatic Society	160.00	–
0000 A	9275	Rajbadidanga : 1962	Sudhir Ranjan Das	The Asiatic Society	480.00	–
0000 A	9276	Rammohun Roy - His role in Indian renaissance	Saumyendranath Tagore	The Asiatic Society	60.00	–
0000 A	9277	Rasagangadhara	Chinmayee Chatterjee	The Asiatic Society	110.00	–
0000 A	9278	Rasarnava	Baini Prasad	The Asiatic Society	85.00	–
0000 A	9279	Renascent Bengal	Ramesh Chandra Majumdar	The Asiatic Society	120.00	–
0000 A	9280	Research transaction, vol. 2		The Asiatic Society	20.00	–
0000 A	9281	Rock art studies in India - A historical perspective	Somnath Chakraverty	The Asiatic Society	400.00	–
0000 A	9282	Royal succession in ancient cambodia	Adhir Chakravarti	The Asiatic Society	50.00	–
0000 A	9283	Russia After stalin	Zafar Imam	The Asiatic Society	120.00	–
0000 A	9284	Russian artists in India	Ekaterina Zozulya	The Asiatic Society	720.00	–
0000 A	9285	Russo-Indian relations in the nineteenth century	Purabi Roy	The Asiatic Society	1200.00	–
0000 A	9286	Sabdaratnavali of mathuresha	Manindra Mohan Choudhary	The Asiatic Society	40.00	–
0000 A	9287	Saddharmapundarika sutram	Nalinaksha Dutt	The Asiatic Society	140.00	–
0000A	9288	Samayapradipa	Asoke Chatterjee Shastri	The Asiatic Society	30.00	–
0000 A	9289	Sangit damodar	Mahua Mukherjee	The Asiatic Society	400.00	–
0000 A	9290	Sanskrit and modern medical vocabulary	Asoke Bagchi	The Asiatic Society	240.00	–
0000 A	9291	Santal medicine and connected folklore	P.O. Bodding	The Asiatic Society	600.00	–
0000 A	9292	Sarvadarshana samgraha or an epitome of the different systems of India philosophy	Madhavacharya	The Asiatic Society	52.00	–

0000 A	9293	Second supplement to concise descriptive catalogue of persian mss.	W. Ivanow	The Asiatic Society	5.00	–
0000 A	9294	Sedentary games of India	Nirbed Ray and Amitabha Ghosh	The Asiatic Society	325.00	–
0000 A	9295	Sekasubhodaya	Sukumar Sen	The Asiatic Society	240.00	–
0000 A	9296	Shah Alam II and his court	Pratul Chandra Gupta	The Asiatic Society	200.00	–
0000 A	9297	Simantaradhi O Jhadkhandi Banglar Gramin Sabdakosa	Sudhir Kumar Karan	The Asiatic Society	900.00	–
0000 A	9298	Sir William Jones, bicentenary of his birth, commemoration volume		The Asiatic Society	350.00	–
0000 A	9299	Siva-Parinaya	Krishna Rajanaka	The Asiatic Society	120.00	–
0000 A	9300	Slokavarttika	Ganganatha Jha	The Asiatic Society	125.00	–
0000 A	9301	Social and political ideas of M.N. Roy	Nirmal Chandra Bhattacharyya	The Asiatic Society	60.00	–
0000 A	9302	Sociology and unpredictability in the growth of science and technology by charles hard townes	Jyotirmay Dutta	The Asiatic Society	40.00	–
0000 A	9303	Some psychological aspects of early buddhist philosophy basedon abhidharmakosa of vasubandhu	Aruna Haldar	The Asiatic Society	240.00	–
0000 A	9304	Sraddhadipa	Pandit Jadavendra Nath Ray	The Asiatic Society	20.00	–
0000 A	9305	Srauta sutra of asvalayana	Gargya Narayana Vidyaratna	The Asiatic Society	175.00	–
0000 A	9306	Sri aurobindo		The Asiatic Society	100.00	–
0000 A	9307	Sri Sri chaitanyacharitamrita	Krishnadas Kaviraja	The Asiatic Society	1400.00	–
0000 A	9308	Studies in history of sciences	Santimay Chatterjee	The Asiatic Society	300.00	–
0000 A	9309	Studies in jayarashi bhatta's critique of knowing from words	Dilip Kumar Mohanta	The Asiatic Society	250.00	–
0000 A	9310	Studies in the pahlavi grammar of E.Blochet	Sinha Ray	The Asiatic Society	500.00	–
0000 A	9311	Subhankari	Santanu Chacraverti	The Asiatic Society	330.00	–
0000 A	9312	Supriya sarthavahajataka of bhadrakalpavadana	Soma Basu	The Asiatic Society	350.00	–
0000A	9313	Swami vivekananda : A pictorial tribute	Swami Vivekanand	The Asiatic Society	400.00	–
0000 A	9314	Swami Vivekananda : A tribute	Swami Vivekanand	The Asiatic Society	150.00	–
0000 A	9315	Swami vivekananda's neo-vedanta	R.K. Dasgupta	The Asiatic Society	50.00	–
0000 A	9316	Tabakat-I-Nasiri of abu umar usman, 2 Vols.	H.G. Raverty	The Asiatic Society	900.00 Set	–
0000 A	9317	Tantrayana Art - An album	S.K. Saraswati	The Asiatic Society	900.00	–
0000 A	9318	Taranath Tarkabachaspatir jibancharit	Sambhu chandra vidyaratna	The Asiatic Society	225.00	–
0000 A	9319	Tarikh-I-Bangala-I-Mahabatjangi	Abdus Subhan	The Asiatic Society	30.00	–
0000 A	9320	Tarkamrita of jagadish tarkalamkar	Jiban krishna tarkatirtha	The Asiatic Society	20.00	–
0000 A	9321	The Ain-I-Akbari of abul fazi, Vol. I, II & III	H.S. Jarrett	The Asiatic Society	1800.00 Set	–
0000 A	9322	The akbarnama of abul fazl, 3 vols.	H. Beveridge	The Asiatic Society	1500.00 Set	–
0000 A	9323	The asiatic society		The Asiatic Society	10.00	–
0000 A	9324	The asiatic society act		The Asiatic Society	10.00	–
0000 A	9325	The avestan compounds	Pranabesh Sinha Ray	The Asiatic Society	600.00	–
0000 A	9326	The dictionary of the lushai language	James Herbert Lorrains	The Asiatic Society	200.00	–
0000 A	9327	The early annals of the english in bengal, vol. I	C.R. Wilson	The Asiatic Society	200.00	–
0000 A	9328	The east asian miracle and India	Mukul Majumdar	The Asiatic Society	40.00	–
0000 A	9329	The eighteenth century in south asia : New terrains	Subhas Ranjan Chakraborty	The Asiatic Society	400.00	–
0000 A	9330	The endangered earth : role of India	A.P. Mitra	The Asiatic Society	250.00	–
0000 A	9331	The folk rhymes of the bengali vratas	Bhabataran Datta	The Asiatic Society	600.00	–
0000 A	9332	The grihya sutra of aswalayana	Ramanarayana Vidyaratna	The Asiatic Society	110.00	–
0000 A	9333	The history and culture of mongolia	Buyantyn Dashtseren	The Asiatic Society	45.00	–
0000 A	9334	The kanyakubja-Gauda struggle	D.C. Sircar	The Asiatic Society	100.00	–

0000 A	9335	The khudnawisht sawanih hayat-I-nassakh	Abdus Subhan	The Asiatic Society	60.00	–
0000 A	9336	The kol tribe of central India	Walter G. Griffiths	The Asiatic Society	240.00	–
0000 A	9337	The legend of the topes	Bimala Churn Law	The Asiatic Society	65.00	–
0000 A	9338	The life and works of Joseph Needham	Sushil Kumar Mukherjee	The Asiatic Society	250.00	–
0000 A	9339	The Ma'athir-ul-umara, Vol. I	Baini Prasad	The Asiatic Society	800.00	–
0000 A	9340	The Ma'athir-ul-umara, Vol. II	Baini Prasad	The Asiatic Society	1000.00	–
0000 A	9341	The Ma'athir-ul-umara, Vol. III	Baini Prasad	The Asiatic Society	50.00	–
0000A	9342	The modern bengali dictionary for non-bengali readers Vol. II	Asit K. Bandyopadhyay	The Asiatic Society	750.00	–
0000 A	9343	The modern bengali dictionary for non-bengali readers Vol. III	Asit K. Bandyopadhyay	The Asiatic Society	800.00	–
0000 A	9344	The modern bengali dictionary for non-bengali readers Vol. IV	Pabitra Sarkar	The Asiatic Society	1000.00	–
0000 A	9345	The mutinies and the people	Ramakanta Chakrabarty	The Asiatic Society	225.00	–
0000 A	9346	The mystic songs of kanha and saraha	Pranabesh Sinha Ray	The Asiatic Society	450.00	–
0000 A	9347	The new ocean regime emerging dimensions in the asian perspective	Sumita Sen	The Asiatic Society	225.00	–
0000 A	9348	The north-east frontier of India	D.P. Choudhary	The Asiatic Society	200.00	–
0000 A	9349	The origin and development of bhojpuri	U.N. Tewari	The Asiatic Society	350.00	–
0000 A	9350	The paippalada-samhita of the atharvaveda Vol. II	Dipak Bhattacharya	The Asiatic Society	400.00	–
0000 A	9351	The paippalada-samhita of the atharvaveda Vol. III	Dipak Bhattacharya	The Asiatic Society	400.00	–
0000 A	9352	The phonemic and morphemic frequencies of the bengali language	B.P. Mallik	The Asiatic Society	400.00	–
0000 A	9353	The prakrit gatha saptasati	Radha Govinda Basak	The Asiatic Society	300.00	–
0000 A	9354	The Quest for indentity : The tribal solidarity movement in north-east India	Amalendu Kishore Chakraborty	The Asiatic Society	320.00	–
0000 A	9355	The rajbansis of north bengal	Charu Chandra Sanyal	The Asiatic Society	800.00	–
0000 A	9356	The rigveda samhita Vol.I	Basanta Kumar Ganguly	The Asiatic Society	800.00	–
0000 A	9357	The sounds of bengali and french	Aditi Ghosh	The Asiatic Society	180.00	–
0000 A	9358	The suryasiddhanta	A.K. Chakravarty	The Asiatic Society	300.00	–
0000 A	9359	The tabaqat-I-Akbari Vol. I	Brojendranath De	The Asiatic Society	100.00	–
0000 A	9360	The tabaqat-I-Akbari Vol. II	Brojendranath De	The Asiatic Society	400.00	–
0000 A	9361	The tabaqat-I-Akbari Vol. III	Brojendranath De	The Asiatic Society	400.00	–
0000 A	9362	The upper atmosphere (HB)	S.K. Mitra	The Asiatic Society	250.00	–
0000 A	9363	The upper atmosphere (PB)	S.K. Mitra	The Asiatic Society	150.00	–
0000 A	9364	The zamima-I-Tadhkira-I-Yusufi	Abdus Subhan	The Asiatic Society	20.00	–
0000 A	9365	Tibetan translation of the nyayabindu of dharma kirti	L. De la Vallee Poussin	The Asiatic Society	30.00	–
0000 A	9366	Time past and time present		The Asiatic Society	1500.00	–
0000 A	9367	Tipu sultan and his age	Aniruddha Ray	The Asiatic Society	240.00	–
0000 A	9368	Tirtha chintamani	Vacaspati Misra	The Asiatic Society	120.00	–
0000 A	9369	Udayanacarya's atmatattvaviveka		The Asiatic Society	225.00	–
0000 A	9370	Understanding the prophetic : The history and philosophy of prognostication in ancient India	Satadal Kargupta	The Asiatic Society	900.00	–
0000 A	9371	Uprisings of 1857	Subhas Ranjan Chakraborty	The Asiatic Society	400.00	–
0000 A	9372	Urban development in ancient India	Adhir Chakravarti	The Asiatic Society	660.00	–
0000 A	9373	Uvasagadasao	A.F.R. Hoernle	The Asiatic Society	60.00	–
0000A	9374	Vahni-puranam	Anasuya Bhowmik	The Asiatic Society	1200.00	–
0000 A	9375	Vaikhanasasmartasutram	W. Caland	The Asiatic Society	225.00	–
0000 A	9376	Vaikhanasa-srautasutram	Dr. W. Caland	The Asiatic Society	120.00	–
0000 A	9377	Vaisnava iconology in Nepal : A study in art and religion	Pratapadity Pal	The Asiatic Society	100.00	–
0000 A	9378	Vidhiswarup vicar	Mm. Gadadhar	The Asiatic Society	10.00	–
0000 A	9379	Vidyasagar : Ekushshataker Chokhey	Pallab Sen Gupta	The Asiatic Society	180.00	–

0000 A	9380	Vishnupala's manasa mangala	Sukumar Sen	The Asiatic Society	160.00	–
0000 A	9381	William Jones	Dilip Gangopadhyay	The Asiatic Society	15.00	–
0000 A	9382	Women's studies and women's movement in India	Kusum Datta	The Asiatic Society	320.00	–
0000 A	9383	Yuga purana	John E. Mitchiner	The Asiatic Society	400.00	–
0000 A	9384	Sarvadarshana samgraha or an epitome of the different systems of India philosophy	Pandita iswarchandra vidyasagara	The Asiatic Society	200.00	–
0000 A	9385	Dasa-rupa	F.E. Hall	The Asiatic Society		–
0000 A	9386	Srauta sutra of asvalayana	Gargya Narayana Vidyaratna	The Asiatic Society		–
0000 A	9387	The grihya sutra of aswalayana	Gargya Narayana Vidyaratna	The Asiatic Society		–
0000 A	9388	Tabakat-I-Nasiri of abu umar usman, 2 Vols.	H.G. Raverty	The Asiatic Society		–
0000 A	9389	Manutikasamgraha	Julius Jolly	The Asiatic Society		–
0000 A	9390	Uvasagadasao	A.F.R. Hoernle	The Asiatic Society		–
0000 A	9391	Astasahasrika Prajna Paramita	Dr. Edward Conze	The Asiatic Society		–
0000 A	9392	The akbarnama of abul fazl, 3 vols.	H. Beveridge	The Asiatic Society		–
0000 A	9393	Slokavarttika	Ganganatha Jha	The Asiatic Society		–
0000 A	9394	Udayanacarya's atmatattvaviveka		The Asiatic Society		–
0000 A	9395	Tibetan translation of the nyayabindu of dharma kirti	L. De la Vallee Poussin	The Asiatic Society		–
0000 A	9396	Rasarnava	Praphulla Chandra Ray	The Asiatic Society		–
0000 A	9397	Tirtha chintamani	Kamal Krishna Smrititirtha	The Asiatic Society		–
0000 A	9398	Kiranavali	Narendra Chandra Vedantatirtha	The Asiatic Society		–
0000 A	9399	The Ma'thir-Ul-umara	Nawwab Samsam-Ud-Daula	The Asiatic Society		–
0000 A	9400	Siva-Parinaya	George A. Grierson	The Asiatic Society		–
0000 A	9401	The tabaqat-I-akbari	Brojendranath De	The Asiatic Society		–
0000 A	9402	Concise descriptive catalogue of the persian mss. In the collection of the asiatic society of bengal	W.lvanow	The Asiatic Society		–
0000A	9403	First supplement to concise descriptive catalogue of the persian mss. In the collection of the asiatic society of bengal	W. lvanow	The Asiatic Society		–
0000 A	9404	Majma'-Ul-Bahrain or the mingling of the two oceans	M. Mahfuz-Ul-Haq	The Asiatic Society		–
0000 A	9405	Vaikhanasasmartasutram	W. Caland	The Asiatic Society		–
0000 A	9406	Second supplement to concise descriptive catalogue of persian mss.	W. lvanow	The Asiatic Society		–
0000 A	9407	Panchavimsa-brahmana	W. Caland	The Asiatic Society		–
0000 A	9408	The dictionary of the lushai language	James Herbert Lorrains	The Asiatic Society		–
0000 A	9409	Qanun-I-Humayuni of Khwandmir	Baini Prasad	The Asiatic Society		–
0000 A	9410	Vaikhanasa-srautasutram	W. Caland	The Asiatic Society		–
0000 A	9411	The legend of the topes	Bimala Churn Law	The Asiatic Society		–
0000 A	9412	Ma'Asir-I' Alamgiri	Jadunath Sarkar	The Asiatic Society		–
0000 A	9413	The Ain-I-Akbari of abul fazi, Vol. I, II & III	H.S. Jarrett	The Asiatic Society		–
0000 A	9414	Saddharmapundarika sutram	N.D. Mironov's	The Asiatic Society		–
0000 A	9415	A Bilingual Glossary of The Nagananda	Suniti Kumar Pathak	The Asiatic Society		–
0000 A	9416	Gauranga Vijaya	Sukumar Sen	The Asiatic Society		–
0000 A	9417	Astasahasrika Prajna Paramita	Edward Conze	The Asiatic Society		–
0000 A	9418	Krisi-Parasara	Girija Prasanna Majumdar	The Asiatic Society		–
0000 A	9419	Sekasubhodaya	Sukumar Sen	The Asiatic Society		–
0000 A	9420	Haft Iqlim	M. Ishaque	The Asiatic Society		–
0000 A	9421	Haricaritam of caturbhuja	Siva Prasad Bhattacharya	The Asiatic Society		–
0000 A	9422	Vishnupala's manasa mangala	Sukumar Sen	The Asiatic Society		–

0000 A	9423	Tarikh-I-Bangala-I-Mahabatjangi	Abdus Subhan	The Asiatic Society		–
0000 A	9424	Sabdaratnavali of mathuresha	Manindra Mohan Choudhary	The Asiatic Society		–
0000 A	9425	Chaitanya-mangal	Biman Behari Majumdar & Sukhamay Mukhopadhyay	The Asiatic Society		–
0000 A	9426	The prakrit gatha saptasati	Radha Govinda Basak	The Asiatic Society		–
0000 A	9427	Samayapradipa	Asoke Chatterjee Shastri	The Asiatic Society		–
0000 A	9428	Haft Iqlim	S.B. Samadi	The Asiatic Society		–
0000 A	9429	Parasara-smriti parasara madhava Vol. I, II & III	Mm. Gadadhar	The Asiatic Society		–
0000 A	9430	Vidhiswarup vicar	Mm. Gadadhar	The Asiatic Society		–
0000 A	9431	The tabaqat-I-Akbari	Brojendranath De	The Asiatic Society		–
0000A	9432	Dandaviveka of vardhamana Upadhyaya	Bhabatosh Bhattacharya	The Asiatic Society		–
0000 A	9433	Parasara-smriti parasara madhava Vol. I, II & III	Mm. Chandrakanta Tarkalankara	The Asiatic Society		–
0000 A	9434	Kritya-Tattvarnava	Rajendra Chandra Hazra	The Asiatic Society		–
0000 A	9435	Chandasutrabhasyam Yadavaprakasakritam	Haridas Sinha Ray	The Asiatic Society		–
0000 A	9436	The zamima-I-Tadhkira-I-Yusufi	Abdus Subhan	The Asiatic Society		–
0000 A	9437	Sraddhadipa	Pandit Jadavendra Nath Ray	The Asiatic Society		–
0000 A	9438	Mangalavada	Gaurinath Shastri	The Asiatic Society		–
0000 A	9439	Nitisara by Kamandaki	Sisir Kumar Mitra	The Asiatic Society		–
0000 A	9440	A critical edition of srikalacakratantraraja	Biswanath Banerjee	The Asiatic Society		–
0000 A	9441	Yuga purana	John E. Mitchiner	The Asiatic Society		–
0000 A	9442	Nyayadarsane srikanthatippanakam	Anantalal Thakur	The Asiatic Society		–
0000 A	9443	The khudnawisht sawanih hayat-I-nassakh	Abdus Subhan	The Asiatic Society		–
0000 A	9444	Matsyendra samhita, Ascribed to matsyendranatha, Part - I	Debabrata Sensharma	The Asiatic Society		–
0000 A	9445	The paippalada-samhita of the atharvaveda vol. II	Deepak Bhattacharya	The Asiatic Society		–
0000 A	9446	Lalita vistara	Bijoya Goswami	The Asiatic Society		–
0000 A	9447	The suryasiddhanta	A.K. Chakravarty	The Asiatic Society		–
0000 A	9448	Aswalayana Srauta Sutra	Amar Chattopadhyay	The Asiatic Society		–
0000 A	9449	Prithvirajvaijayamahakavya : Aitihasik O Kavyik parikrama	Sanjit Bhattacharya	The Asiatic Society		–
0000 A	9450	Nyayasutras with nyayarahasya of ramabhadra sarvabhauma and anviksiki-tattvavivarana of janakinatha cudamani vol. I & II	Prabal Kumar Sen	The Asiatic Society		–
0000 A	9451	The rigveda samhita Vol.I	Basanta Kumar Ganguly	The Asiatic Society		–
0000 A	9452	Dattaka-Tilakah	Jaydeb Ganguly Shastri	The Asiatic Society		–
0000 A	9453	Ganitavali	Manabendu Banerjee	The Asiatic Society		–
0000 A	9454	Apastamba samanya-sutra or Yajnaparibhasa sutra	Samiran Chandra Chakrabati	The Asiatic Society		–
0000 A	9455	The mystic songs of kanha and saraha	Pranabesh Sinha Ray	The Asiatic Society		–
0000 A	9456	Diwan-E-Brahman	Md. Amin	The Asiatic Society		–
0000A	9457	A heap of jewels of oral radiation	Archana Ray	The Asiatic Society		–
0000 A	9458	Arya Dravida Vidya Raja	Bhakti De	The Asiatic Society		–
0000 A	9459	Studies in jayarashi bhatta's critique of knowing from words	Dilip Kumar Mohanta	The Asiatic Society		–
0000 A	9460	Sangit damodar	Mahua Mukherjee	The Asiatic Society		–
0000 A	9461	Supriya sarthavahajataka of bhadrakalpavadana	Soma Basu	The Asiatic Society		–
0000 A	9462	Vahni-puranam	Anasuya Bhowmik	The Asiatic Society		–
0000 A	9463	The kol tribe of central India	Walter G. Griffiths	The Asiatic Society		–
0000 A	9464	The upper atmosphere	S.K. Mitra	The Asiatic Society		–
0000 A	9465	Humayun in persia	Sukumar Ray	The Asiatic Society		–

0000 A	9466	The origin and development of bhojpuri	U.N. Tewari	The Asiatic Society		–
0000 A	9467	The rajbansis of north bengal	Charu Chandra Sanyal	The Asiatic Society		–
0000 A	9468	Community development of chotonagpur	Jyoti Sen	The Asiatic Society		–
0000 A	9469	Rajbandidanga : 1962	Sudhir Kumar Karan	The Asiatic Society		–
0000 A	9470	India and ethiopia : from the seventh century B.C.	Suniti Kumar Pathak	The Asiatic Society		–
0000 A	9471	India and ethiopia : from the seventh century B.C.	Suniti Kumar Pathak	The Asiatic Society		–
0000 A	9472	Vaisnava iconology in Nepal : A study in art and religion	Pratapadity Pal	The Asiatic Society		–
0000 A	9473	Late Mediaeval temples of bengal : Origin and classification	David J. McCutchion	The Asiatic Society		–
0000 A	9474	Iranianism	Suniti Kumar Chatterji	The Asiatic Society		–
0000 A	9475	Some psychological aspects of early buddhist philosophy basedon abhidharmakosa of vasubandhu	Aruna Haldar	The Asiatic Society		–
0000 A	9476	Royal succession in ancient cambodia	Adhir Chakravarti	The Asiatic Society		–
0000 A	9477	Origin and development of sanskrit metrics	Arati Mitra	The Asiatic Society		–
0000 A	9478	Lower sundarban, role of fisheries in its sustainable development	B.C. Sharma	The Asiatic Society		–
0000 A	9479	Epic women : East & West	Sister Maeve Hughes	The Asiatic Society		–
0000 A	9480	Jiva Gosvamin	Asoke Chatterjee Shastri	The Asiatic Society		–
0000 A	9481	Jottings on the literary aspects of the brahmanda-purana	Asoke Chatterjee Shastri	The Asiatic Society		–
0000 A	9482	Father eugene lafont of st. Xavier's college, kolkata and the contemporary science movement	Arun Kumar Biswas	The Asiatic Society		–
0000 A	9483	Mystical buddhism from a sibylline perspective	Satadal Kargupta	The Asiatic Society		–
0000 A	9484	Understanding the prophetic : The history and philosophy of prognostication in ancient India	Satadal Kargupta	The Asiatic Society		–
0000 A	9485	Sanskrit and modern medical vocabulary	Asoke Bagchi	The Asiatic Society		–
0000A	9486	The sounds of bengali and french	Aditi Ghosh	The Asiatic Society		–
0000 A	9487	Rock art studies in India - A historical perspective	Somnath Chakraverty	The Asiatic Society		–
0000 A	9488	Gaudiya Nritya-pracin banglar sastriya nritya-dhara	Mahua Mukherjee	The Asiatic Society		–
0000 A	9489	Dr. Bidhan chandra ray - A jewel of India	Asoke Bagchi	The Asiatic Society		–
0000 A	9490	The Quest for indentity : The tribal solidarity movement in north-east India	Amalendu Kishore Chakraborty	The Asiatic Society		–
0000 A	9491	Urban development in ancient India	Adhir Chakravarti	The Asiatic Society		–
0000 A	9492	Subhankari	Santanu Chacraverti	The Asiatic Society		–
0000 A	9493	The folk rhymes of the bengali vratas	Bhabataran Datta	The Asiatic Society		–
0000 A	9494	Alexander Csoma Dekoros Vol. I & II	P.J. Marczell	The Asiatic Society		–
0000 A	9495	Women's studies and women's movement in India	Kusum Datta	The Asiatic Society		–
0000 A	9496	The avestan compounds	Pranabesh Sinha Ray	The Asiatic Society		–
0000 A	9497	Economic impact of raids on the shifting cultivators of tripura	Malabika Das Gupta	The Asiatic Society		–
0000 A	9498	Excavations at moghalmari	Asoke Datta	The Asiatic Society		–
0000 A	9499	An approach to the cultural mapping of north east India in respect of tribal tales	Pratibha Mandal	The Asiatic Society		–
0000 A	9500	Mineral processing to elemental science in the medieval world : India and europe	Arun Kumar Biswas	The Asiatic Society		–
0000 A	9501	Buddhist Hybrid sanskrit literature	Sukumari Bhattacharji	The Asiatic Society		–

0000 A	9502	The kanyakubja-Gauda struggle	D.C. Sircar	The Asiatic Society		–
0000 A	9503	Lok Rang : Haryanvi Jakdi Geet	Janardan Sharma		600.00	2015
0000 A	9504	Aaranyarodnam	Niranjan Mishr		100.00	2015
0000 A	9505	Baal Geet	Ramlala Tiwari		400.00	2015
0000 A	9506	Bhartiya Rastriya Suraksha avam Urja Paridrishya	Arun & Pankaj		1,000.00	2015
0000 A	9507	Bhartiya sanskrit ka dharmik swaroop avm vaigyanikta	Vibha Agnihotri		500.00	2015
0000 A	9508	Bhartiya Shiksha Padhati or Swami viveka nanda	Isamlal Karharia		700.00	2015
0000 A	9509	Bhojpuri Upanyas ek antaryatra	Niraj Kumar		500.00	2015
0000 A	9510	Baudh Darshan Avam Patanjal Acharshastra	Sadhna Mandal		700.00	2015
0000A	9511	Contemporary Issues : A Legal Examination	Siya Ram Shukla		900.00	2015
0000 A	9512	Contemporary Philosophy (In 4 Volumes)	U.S. Bist		4,000.00	2015
0000 A	9513	Cross Border Terrorism: Biggest threat to India's Security	Rajvir Singh		1,500.00	2015
0000 A	9514	Current Trends in Library & Information Science in Digital Era	Ashish, Sanjay & Basant		1,500.00	2015
0000 A	9515	Dard ke Sur mein Gata Hun	Naresh Kumar Udaas		400.00	2015
0000 A	9516	Dr. Jaggannath Jha Saraswataabhinandan Granth	Indranath Jha		1,500.00	2015
0000 A	9517	Dynamic of Mall Business in India	Rahul Ranjan Singh		995.00	2015
0000 A	9518	Ek Darshanik ki Chook	Raghvendra Narayana Singh		500.00	2015
0000 A	9519	Fir Kab Aaogi	Ramashankar Shrivastava		400.00	2015
0000 A	9520	Gatha Amar Raghunath ki	Surya Prakash Shukl		800.00	2015
0000 A	9521	Geetanjali : Ek Punah Path	Raghvendra Narayana Singh		700.00	2015
0000 A	9522	Hasi- Hasi Panva Khivailey Beimanva	Ramashankar Srivastava		400.00	2015
0000 A	9523	Hawaon ke Rukh Mod do	Kamlesh Sood		300.00	2015
0000 A	9524	Hindi Sanskrit Nibandhmanjari	Azad Mishr		1,500.00	2015
0000 A	9525	Human Rights : A Socio-Legal Prospectives	Siya Ram Shukla		900.00	2015
0000 A	9526	India's National Security & Energy Scenario	Arun & Dr. Pankaj		1,500.00	2015
0000 A	9527	Issai Missionariyon ka Janjatiya Sahitya	Nageshwar Singh		600.00	2015
0000 A	9528	JAWAHARLAL NEHRU - The First Indian Socialist Leader of Independent Indian	Kaur & Sharma		600.00	2015
0000 A	9529	Kalsurya	Sateesh Vimal		300.00	2015
0000 A	9530	Kamleshwar ke Katha Sahitya mein Nari	Reeta Devi		600.00	2015
0000 A	9531	Kasish	Aarti Bansal		150.00	2015
0000 A	9532	Katha-Mala	Sunita Kumari		75.00	2015
0000 A	9533	Krishi Majdoor ki Samajik, Arthik Sthiti	Ritu Kumari		700.00	2015
0000 A	9534	Maharshipatanjalkrit Mahabhashyashaya Lokiktam	Kiran Arya		150.00	2015
0000 A	9535	Mahila Atyachar, Shoshan avam Hinsa ke Pariprekshya mein Manvadhikar avam Media ki Bhumika	Pratibha Kumari Anand		900.00	2015
0000 A	9536	Manav Utkarsh avam Yougik Vidhiyan	Anuja Rawat		600.00	2015
0000 A	9537	Meri Lokpriya Kavitayein	Naresh kumar Udass		600.00	2015
0000 A	9538	Micro Finance & Public Sector Banks	Vindeshwari, Sanjay,Ajay Kumar		900.00	2015
0000 A	9539	Nagpuri Sahitya aur Isai Missionary	Nageshwar Singh		300.00	2015
0000A	9540	Naxali Jeevan Aur Sangharsh	Prakash Kumar		400.00	2015
0000 A	9541	Nehru and His Contemporaries : Gandhi, Patel & Bose	Chauhan & Kaur		400.00	2015

0000 A	9542	Patanjal Yog-sutra ke Aadharbhoot Tatva	Indrani		600.00	2015
0000 A	9543	Persian Gulf: A Quest for Oil & Power	Arun Kumar Dixit		700.00	2015
0000 A	9544	Prachin Bharat Mein Stri Shiksha : Dasha avam Disha	Mamta Dixit		600.00	2015
0000 A	9545	Prakrit Subhashit Sangrah Avam Agddatt-Madanmanjari Katha	Ramakant Prasad Srivastava		400.00	2015
0000 A	9546	Premchand ke Upanyaso mein Gandhivaad	Shashilata		400.00	2015
0000 A	9547	Professional Networking Sites for Buisness Development	Ankur Gautam		700.00	2015
0000 A	9548	Rachnakaron ki Srijansheelta	Ramnath Mehta		700.00	2015
0000 A	9549	Ramdarash Mishr ka Katha Sahitya aur Gramin Jeevan	Praveen Kumar		700.00	2015
0000 A	9550	Rashte Kabhi Khatm Nahi Hote	Raghvendra Narayana Singh		400.00	2015
0000 A	9551	Reflections on Some Recent Legal Issue	Siya Ram Shukla		900.00	2015
0000 A	9552	Research Methedology	U.S. Bist		700.00	2015
0000 A	9553	Roodan	Ramlala Tiwari		150.00	2015
0000 A	9554	Samagra Swasthya avam Yougik Vidhiyan	Anuja Rawat		600.00	2015
0000 A	9555	Sanskrit Anusandhan Manjari	Rajesh Singh		400.00	2015
0000 A	9556	Sanskrit Sahitya ki aadhunik pravritiyan	Kusum Bhooriya Dutt		900.00	2015
0000 A	9557	Sanskrit Vangmay mein Paryavaran Chintan	Rajesh Singh		700.00	2015
0000 A	9558	Saur Janjati mein Shiksha avam Swasthya	Neeraj Goswami		600.00	2015
0000 A	9559	Sharirik Shiksha	Deepak Singh Bhandari		400.00	2015
0000 A	9560	Shastriya Nibandh Manjusha	Azad Mishr		1,000.00	2015
0000 A	9561	Shriharshavirichitam : Naishdhiyacharitam	Niranjan Mishra		500.00	2015
0000 A	9562	Shrimadabhinavguptpadacharyakrit Vimbprativimbvaad	Saroj Kumar Shukl		300.00	2015
0000 A	9563	Shrishivaarprnamastu	Ashok Piryabandhu		400.00	2015
0000 A	9564	Udvikasiya Manav Vigyan	Vibha Agnihotri		900.00	2015
0000 A	9565	Ulgulan ki Aag	Hare Ram Tripathi		150.00	2015
0000 A	9566	Unnishvi Shatabadi mein Neel Sanskriti ka Vikas	Rakesh Tiwari		400.00	2015
0000 A	9567	Vallabhsuktiratnashatkam	Kiran Arya		150.00	2015
0000 A	9568	Vande Bhartam	Niranjan Mishr		100.00	2015
0000 A	9569	Vipran Prabandh (Marketing Management)	Bhrigunandan Singh		1,200.00	2015
0000 A	9570	Wakt ki Dhaar ko Dekho	Naresh kumar Udaas		400.00	2015
0000 A	9571	World Trade Organization and Agricultural Trade in India	S. M. Hossain		900.00	2015
0000A	9572	Yatrayein Ek Jeevan Anand	Kundan Singh Aswal		400.00	2015
0000 A	9573	Yoga and Working Woman	Anuja Rawat		700.00	2015
0000 A	9574	Abhyaranya: Prof. Sheeldhar Singh	Jitendra Kumar Singh		700.00	2014
0000 A	9575	Aupnishdic Adhyatam Vigyan	Iswar Bhardwaj		400.00	2014
0000 A	9576	Basic and Applied Pulmonary Physiology	Syed Amir Ahmad		700.00	2014
0000 A	9577	Bhartiya Avam Paschatya Kavyashastra	Mridul Joshi		800.00	2014
0000 A	9578	Bhartiya Navjagaran: Aarop Aur Pratyutar	Akhilesh Kumar		600.00	2014
0000 A	9579	Bhitar kee aag	Jitendra Nath Pathak		300.00	2014
0000 A	9580	Chat par Chand Aaya	B. P. Dubey		150.00	2014
0000 A	9581	Do Took	Sushil Upadhyay		300.00	2014
0000 A	9582	Dr. Lakshmishankar Mishr 'Nishank' ke Muktak Kavya	Syed Mahfooz Hasan Rizawi		150.00	2014
0000 A	9583	E. M. Forster's Novels: A study of Artistics Patterns	S. M. Rizwan Ahmad		700.00	2014

0000 A	9584	Economics of Dairy Cooperatives	Binay Kumar Singh		700.00	2014
0000 A	9585	Faeday Hi Faeday	Balendushekhar Tiwari		300.00	2014
0000 A	9586	Foundation of Food and Nutrition	Kiran Angra		700.00	2014
0000 A	9587	Godan: Ek Mahakavyatmak Upanyas	Jitendra Nath Pathak		400.00	2014
0000 A	9588	Harivansh Puran avam Jinsenpraneet Harivanshpuran	Siddhnath Khajuriya		700.00	2014
0000 A	9589	Haryana ke sango mein Nayak nayika Chitran	Meenakshi		700.00	2014
0000 A	9590	Hindu Avam Jain Kavyon mein Hanuman	Ramakant Prasad Srivastava		895.00	2014
0000 A	9591	Kathanjali	Madhuri Rajak		150.00	2014
0000 A	9592	Kavya Saurabham	Prakashchandra Pant		500.00	2014
0000 A	9593	Kchitiz ke us par	Usha Kalia		150.00	2014
0000 A	9594	Kchitiz ke us Par	Usha Kalia		150.00	2014
0000 A	9595	Kedarghati vidhwa Babhoov	Niranjan Mishr		150.00	2014
0000 A	9596	Kyap: Sanrachna Dristi	Chitra		400.00	2014
0000 A	9597	Maa Aakash kitna Bada hai	Naresh kumar Udaas		150.00	2014
0000 A	9598	Madhukar Geetam	Ajad Mishra		500.00	2014
0000 A	9599	Minaron ka Desh	Jitendra Nath Pathak		300.00	2014
0000 A	9600	Modernity and Post-Modernity Debate	Sanjay Kumar Shukla		700.00	2014
0000 A	9601	Mrityunjai Bharat aur Swami Vivekanand	Ramnath Mehta		500.00	2014
0000 A	9602	Nagpuri Muhavaron Aur Lokkoktiyoun ka Sahityayik avam Sanskritik Adhhyan	Ashok Kumar Mishra		600.00	2014
0000 A	9603	Naxalism: Issues, Challenges & Alternative Approaches	Arun Kumar Dixit		1,300.00	2014
0000 A	9604	Naxalwad: Muddey, Chunautiyan avam Vikalp	Arun & Pankaj		1,200.00	2014
0000 A	9605	Nutrition for the Family	Kiran Angra		700.00	2014
0000 A	9606	Pandit Jawaharlal Nehru: His Vision And Mind	Kiran Chauhan & Karamjeet Kaur		400.00	2014
0000 A	9607	Paryavaran Adhyayn	Ram Dayal Singh		795.00	2014
0000 A	9608	Paryavaran Pradushan ke Vividh Aayam avam Samadhan	Shyam Vriksha Maurya		500.00	2014
0000 A	9609	Patanjal Yog Sutra Ka Parichay aur Vaigyanik Adhyatma	Asim Kulshreshtha		700.00	2014
0000 A	9610	Prayogatmak Sharirik Manav Vigyan	Vibha Agnihotri		700.00	2014
0000 A	9611	Prof. Ajad Mishr ki Sanskrit Saparya	Ajad Mishra		700.00	2014
0000 A	9612	Rag Darbari (Punarmulankan)	Balendushekhar Tiwari		400.00	2014
0000 A	9613	Rastri	Azad Mishr		500.00	2014
0000 A	9614	Resource Wealth of Himachal Pradesh	Vinod Kumar & Pushpa Thakur		1,200.00	2014
0000 A	9615	Re-Visiting Nehru	Manpreet & Karamjeet		700.00	2014
0000 A	9616	Roshani Cheente Huye Shabd	Naresh Kumar Udass		400.00	2014
0000 A	9617	Rural Non -Farm Sector Employment			600.00	2014
0000 A	9618	Sanskrit ke Abhinav Rachnadharmi : Acharya Radhavallabh Tripathi	Kusum Bhuriya Dutta		700.00	2014
0000A	9619	Sanskrit ke Arvachin Sahitya ke Vikas mein Pt. Premnayan Diwedi ka Yogdan	Risabh Bhardwaj		1,300.00	2014
0000 A	9620	Seeta : Ek Vishad Gatha	Jitendra Nath Pathak		300.00	2014
0000 A	9621	Shastra Mimansa	Vednarayan Chowdhary		500.00	2014
0000 A	9622	Shisupalvadh mai Alnkar Saundrya	Shivbuhsan Sanand Kumar		500.00	2014
0000 A	9623	Smrtiyon ke Angan Mae	Ramashankar Shrivastava		400.00	2014
0000 A	9624	Shrimadram Geeta	Sourya Narayan		400.00	2014
0000 A	9625	The Book of God	Raghavendra Narayan Singh		500.00	2014
0000 A	9626	The Ineligible Bachelors	Anupam Pathak		500.00	2014

0000 A	9627	The Relevance of Dr. B. R. Ambedkar's Economic Thoughts	Surendra Singh		500.00	2014
0000 A	9628	Tribal Development in Post Economic Reforms Period	Dilip Shah		1,995.00	2014
0000 A	9629	Uday Prakash ki Kahaniyon mein Samaj	Reeta Devi		400.00	2014
0000 A	9630	Utakrist Vichar	Krishna Awasthi		200.00	2014
0000 A	9631	Vartman Bharat Chunautiyan Aur Sangharsh	Geeta Devi		400.00	2014
0000 A	9632	Ved, Yagya aur Paryavaran	Surya Narayan Gautam		500.00	2014
0000 A	9633	Vedon Mai Arthik Chintan	Mahaveer		500.00	2014
0000 A	9634	Vinayana's World-A story untold...	Vinayana Khurana		150.00	2014
0000 A	9635	Yog or Yogi	Anuja & Asim		700.00	2014
0000 A	9636	Nibandhatmak Kavya Prakash (set in 3 Volume)	Niranjan Mishra		1,500.00	2014
0000 A	9637	A Breif History of Indian Philosophy	Vinod Kumari		700.00	2013
0000 A	9638	Adhunik Sanskrit Sahitya mae Strotakavya	Ratnakar		795.00	2013
0000 A	9639	An Economic Study of Public Undertaking Government	Indu Sekhar Pandey		500.00	2013
0000 A	9640	An Orchard for Life	Raghvendra Narayana Singh		395.00	2013
0000 A	9641	Anchui Maa	Amar Trinotra		400.00	2013
0000 A	9642	Andhera Chubhata Hai	Raghvendra Narayana Singh		400.00	2013
0000 A	9643	Astha	Pramod Chaturvedi		300.00	2013
0000 A	9644	Atmonnati ke Das Vaidik Som avam Gurumantra Gayatri ki Divya Sadhna	Swami Shreyonand Videhyati		500.00	2013
0000 A	9645	Atoot Riste	Suresh Prakesh		400.00	2013
0000 A	9646	Awadhi Geet-Bahar	Suresh Prakash Shukla		400.00	2013
0000 A	9647	Bahut Jaroori Hai Roti	Suman Shekhar		400.00	2013
0000A	9648	Bhartiya Bhasa Darshan	Vijaypal Shastri		300.00	2013
0000 A	9649	Bhartiya Darshan Samkalin Sandarbh	Bhuvneshwar Nath Ojha		895.00	2013
0000 A	9650	Bhartiya Sangeet Ke Badalte Parivesh Mein Naitik Mulya	Kiran & Indu		500.00	2013
0000 A	9651	Bhartiya Sanskriti Ki Aviral Dhara Shri Ganga	Mamta Singh		400.00	2013
0000 A	9652	Bhartiya Trarkshashtra (Indian Logistics)	Pravin Kumar Gupt		400.00	2013
0000 A	9653	Bhawaniprasad Mishra Ke Kavya Men Gandhiwadi Chetna Ka Shankhnad	Seema Rani		400.00	2013
0000 A	9654	Bindo	Amar Trinotra		400.00	2013
0000 A	9655	Botaldas Ke Bayan	Ramashankar Shrivastava		400.00	2013
0000 A	9656	Changing face of Rural Woman in Himachal Himalyas	Vijay Kumar Sharma		700.00	2013
0000 A	9657	Criticism on E.M. Forster : An Evaluation	Yamuna Prasad		995.00	2013
0000 A	9658	Dakshin-Purva Asia ke Sath Bharat ke Vyaparik Sambandh	Nisha Singh		500.00	2013
0000 A	9659	Dalit Mahilayen	Renu Dewan		300.00	2013
0000 A	9660	Dharm Meemansa	Karuna		500.00	2013
0000 A	9661	Folk Inspiration in Contemporary Indian Art	Kiran Angra		700.00	2013
0000 A	9662	Geet Geeta	Mathura Dubey		300.00	2013
0000 A	9663	Gum Hoti Larkiyan	Suman Shekhar		400.00	2013
0000 A	9664	Gunjanmanjaree	Brijesh Kumar Shukla		150.00	2013
0000 A	9665	Gyan Jyoti Punj	Ashok Piryabandhu		400.00	2013
0000 A	9666	Haribhadrasoori Krit Vishantivanshika	Indu Kumari		495.00	2013
0000 A	9667	Hasya Vayang Katha Vatika	Suresh Prakash Shukla		400.00	2013
0000 A	9668	Hey Janmbhumi	Ashok Piryabandhu		400.00	2013

0000 A	9669	Hey Ram	Ashok Piryabandhu		400.00	2013
0000 A	9670	Hindi Ke Teeen Kahanikar Avam unki Kahaniya	Prakash Kumar		295.00	2013
0000 A	9671	Hindi Natak Aur Rangmanch mein Lok Tatva	Swami Pyari Kora		1,200.00	2013
0000 A	9672	Human Geography of Tribal Region	Shrimanta Mukhopadhyay		700.00	2013
0000 A	9673	I Will Sing Eternally	Raghvendra Narayana Singh		395.00	2013
0000 A	9674	Ikkesweeni Sadi main Mahila Rajnaitik Sashkatikarn	Smritaa		795.00	2013
0000 A	9675	Impact of Employment Generation Programmes on Rural Development	Shree Chandra Jha		700.00	2013
0000 A	9676	In Dino	Mridul Joshi		150.00	2013
0000A	9677	Manavshastra Ka Parichay(Introduction to Anthropology)	Vibha Agnihotri		500.00	2013
0000 A	9678	Ishwar Udass Hai	Raghvendra Narayana Singh		200.00	2013
0000 A	9679	Jeevan Ke Das Sukh avam Unki Prapti ke Vaidik Upay	Surya Narayan Gautan		400.00	2013
0000 A	9680	Jeewan Ek Moteryan Hai	Heera Nandan		400.00	2013
0000 A	9681	Kalidas Ki Prem Bhavna	Shriram Tiwari		500.00	2013
0000 A	9682	Kathasagar	Krishna Chandra		150.00	2013
0000 A	9683	Kavivar Arsi Prasad Singh : Jeevan Aur Sahitya	Sheeldhar Prasad		600.00	2013
0000 A	9684	Kis Devta Ki Upasna Karein Ham	Raghvendra Narayana Singh		200.00	2013
0000 A	9685	Lahron ka Sangharsh	Jitendra Nath Pathak		300.00	2013
0000 A	9686	Lasra Kutain	Ramashankar Shrivastava		300.00	2013
0000 A	9687	Lautkar Nahi Jaungi	Naresh kumar Udaas		200.00	2013
0000 A	9688	Manavshastriya avam Samajshastriya Anusandhan	Vibha Agnihotri		895.00	2013
0000 A	9689	Parivahan avam Vipran Bhugoal	Ravindra Singh		995.00	2013
0000 A	9690	Parmeswar se Sakchatkar	Raghvendra Narayana Singh		795.00	2013
0000 A	9691	Pattern, Prospects and Problems of Development	Anita Sinha		795.00	2013
0000 A	9692	Physical Anthropology & Human Genetics	Aishwarya Awasthi		795.00	2013
0000 A	9693	Please Come to my Desk	Deepanjan Paul		150.00	2013
0000 A	9694	Pragatihashic Manav Shastra	Aishwarya Awasthi		500.00	2013
0000 A	9695	Pragatisheel Kavita aur Trilochan	Santdutt Sharma		795.00	2013
0000 A	9696	Pragatiwadi Bhavna Mein Arsi Prasad Singh ka Yogdan	Jitendra Kumar Singh		400.00	2013
0000 A	9697	Prayogatmak Bhautik Manav Vigyan	Vibha Agnihotri		500.00	2013
0000 A	9698	Rambriksh Benipuri ke Sahitya main Gramya Jeevan	Payal Kumari		400.00	2013
0000 A	9699	Rashmi Malhotra ka Kathamak Paridrishya	Rahul		400.00	2013
0000 A	9700	Saduktishatkam	Kriti Kapoor		300.00	2013
0000 A	9701	Sangeet Ka Chitra Kala va Murti Kala Par Prabhav (In 2 Vol).	Kaushal Kumari		3,500.00	2013
0000 A	9702	Sanskrit Sahitya mein Prayavaran	Ratna & Dutta		500.00	2013
0000 A	9703	Science of Folk Healing and Survival of Mountain Communities	Sushma Sharma		2,500.00	2013
0000 A	9704	Shades of Darkness (A Noval)	Raghvendra Narayana Singh		500.00	2013
0000 A	9705	Shrutimanjeeram	Brijesh Kumar Shukla		150.00	2013
0000A	9706	Social Costs of Indian Railways	Shree Chandra Jha		500.00	2013
0000 A	9707	Shrijan Dharm avam Samiksha	Ram Nath Mehta		600.00	2013
0000 A	9708	Shuddhadvet Vedant ka Anusheelan	Indu Kumari		600.00	2013
0000 A	9709	Swargiya Pandit Shri Sashikant Jha (Smritigrantha)	Sundar Narayan Jha		995.00	2013

0000 A	9710	The Direction of Central Loans To States	Ajay Kumar		700.00	2013
0000 A	9711	The Fog Called Life	Ritu Sinha		300.00	2013
0000 A	9712	Udas Dino ki Kavitayein	Naresh kumar Udaas		400.00	2013
0000 A	9713	Vaidik Gyan ki Divya Dhara	Swami Shreyonand Videhyati		500.00	2013
0000 A	9714	Vasant sa Khilkhilate Rahna	Kamlesh Sood		150.00	2013
0000 A	9715	Vayaharik Patrakarita	Susheel Upadhyay		400.00	2013
0000 A	9716	Vichobh	Raghvendra Narayana Singh		400.00	2013
0000 A	9717	Vignettes of Himachal Himalyas (In 2 Vol.)	Vinod & Vijay Kumar		2,500.00	2013
0000 A	9718	Yahan Tumhara Koi Nahi	Naresh kumar Udaas		200.00	2013
0000 A	9719	Aakashdeep	Naresh kumar Udaas		300.00	2012
0000 A	9720	An Introducation to Mathematical Concepts in Economics	Vindeshwari Prasad		600.00	2012
0000 A	9721	Ashes in the Fire	Syed Sarwar Hussain		500.00	2012
0000 A	9722	Bandron Ka Pariwar	Pramod Chaturvedi		200.00	2012
0000 A	9723	Bharat Ke Samudayeek Vikas Karyakram Ki Samasyayen avm Sambhavnayen	Gopal Prasad		700.00	2012
0000 A	9724	Bhartiya Sanjeet Ka Leekpeetta (Shastra Paksh va Kriyatmak Paksh ka Talmel) Kitna Sarthak	Kiran Angra and Vinita Sood		500.00	2012
0000 A	9725	Baudh Dharm avam Dalit Chetna	Shyamvriksha Maurya		400.00	2012
0000 A	9726	Dahshat	Raghvender Narayan Singh		300.00	2012
0000 A	9727	Dairy Co-operatives & Rural Poverty	Ram Pravesh Singh		500.00	2012
0000 A	9728	Dynamics of India's Export Performances	Neeraj Kumar Thakur		700.00	2012
0000 A	9729	Economics of Dairy Farming	G. S. Dokania		700.00	2012
0000 A	9730	Fizi Men Hindi Prachar Ka Itihas	Netaji Sharma		400.00	2012
0000 A	9731	Gaon Ke Sapuut	Dinesh Chandra Pandey		200.00	2012
0000 A	9732	Geeta Ki Prasangikta	Kaptan Singh		500.00	2012
0000 A	9733	Graham Greene	S. S. Senapati		500.00	2012
0000 A	9734	Grameen Sansthayein tatha Gramin Netritva	Arun Kumar		600.00	2012
0000A	9735	Hastchhep Rashtradharm	Raghvendra Narayana Singh		300.00	2012
0000 A	9736	Hathyog Swaroop Avam Sadhna	Yogi Adityanath		300.00	2012
0000 A	9737	India of Mahatma Gandhi's Dream	Kiran & Manpreet		500.00	2012
0000 A	9738	Indo-U.S. Relations	Arun Kumar Dixit		500.00	2012
0000 A	9739	Integrated Rural Development Programme	P.K. Singh		500.00	2012
0000 A	9740	Inter-Cast Relationships of Scheduled Castes in a Village	Santosh Kumari		300.00	2012
0000 A	9741	Inter-State Relations in Ancient India (200 BC to 700AD)	Jai Shankar Thakur		500.00	2012
0000 A	9742	Kalptaru Ban Jana tum	Suman Shekhar		150.00	2012
0000 A	9743	Kavita Ki Antaryatra	Mridul Joshi		400.00	2012
0000 A	9744	Leo Tolstoy	Geeta Gupta		395.00	2012
0000 A	9745	Mahatma Gandhi Ki Samajik Rajnaitik Avdharna	Rajesh Kumar		700.00	2012
0000 A	9746	Mahavrat	Suman Shekhar		300.00	2012
0000 A	9747	Mitti ka Makan	Raghvendra Narayana Singh		300.00	2012
0000 A	9748	Mrityu, Parlok avm Punarjanam Rahasya	Kundan Singh Aswal		400.00	2012
0000 A	9749	Muhurtchintamani	Shivlochan Jha		795.00	2012
0000 A	9750	Panchayat Ki Mahilayein	Renu Diwan		300.00	2012
0000 A	9751	Panchayati Raj Institution and Emerging Patterns of Women Leadership	Santosh Kumari		500.00	2012

0000 A	9752	Praman Meemansa	Amit kumar Mishra		500.00	2012
0000 A	9753	Prapanch Tantram	Subodh Singh		200.00	2012
0000 A	9754	Premchand Ke Shoshit Dalit Patron Ke Antervedana	Nageshwar Singh		500.00	2012
0000 A	9755	Prespective of Teaching of English in Multi-lingual Context	Kiran & Onika Dhamij		500.00	2012
0000 A	9756	Purusharth Ke Prateek Principal Hazarilal Yadav	Rahul		750.00	2012
0000 A	9757	Rach Do Amar Kahani	Ahok Priyabandhu		400.00	2012
0000 A	9758	Relevance of Nehru's Thought in Present Scenario	Kiran & Karamjeet		695.00	2012
0000 A	9759	Sahab Seet Par Nahi Hain	Ramashankar Srivastava		400.00	2012
0000 A	9760	Sanskrit Kavya Sahitya me Vivekananda	Susheel Pathak		795.00	2012
0000 A	9761	Silk Industry in India	Bibhuti Nath Jha		600.00	2012
0000 A	9762	Smritiyon Men Achar Mimansa	Usha Joshi		500.00	2012
0000 A	9763	Strings of Thoughts	Syed Shah Asghar Hussain		500.00	2012
0000A	9764	The Escape and other Stories	Rajesh Kumar		300.00	2012
0000 A	9765	The Plays of T.S. Eliot	Anindita		500.00	2012
0000 A	9766	The Sea Yonder	Mustapha Bouchareb		500.00	2012
0000 A	9767	Upnishdo Mein Samaj Darshan	Lalita Kumari		500.00	2012
0000 A	9768	Upnishdon Me Sanyasyog	Ishwar Bhardwaj		700.00	2012
0000 A	9769	*Patharon ke Sahar mein kho Gaya Gaon* (Urdu)			200.00	2012
0000 A	9770	Valmiki Ramayan Aur Ramcharitmanas	Mridul Joshi		500.00	2012
0000 A	9771	Vidyajyoti	Dinesh Chandra Pandey		400.00	2012
0000 A	9772	Vishnu Prabhakar : Viyaktitva Aur Krititva	Sudha Malhotra		700.00	2012
0000 A	9773	Voice from the Margin: The Dalit Face in The Indian English Novel	Rajesh Kumar		500.00	2012
0000 A	9774	Ye Bikharey Panne	Ramashankar Srivastava		300.00	2012
0000 A	9775	Atlai -Himalaya : Two Foundationa of Eurasia	Bansal, Gupta & Sergey		1,500.00	2012
0000 A	9776	Pooja, Upasna Ka Mahatva Aur Dharm Men Roodhiwad	Kundan Singh Aswal		400.00	2012
0000 A	9777	AAmod Trangini	Niranjan Mishra		500.00	2011
0000 A	9778	Acharya Hazari Prasad Diwedi Avm Pandit Ramchadra Shukla ke Sahityoitihas mein Sahityeitihasik Chintan	Reena Kumari		600.00	2011
0000 A	9779	Agyey ke Nari Charitron ka Manovaigyanik Vishleshan	Sunita Kumari		500.00	2011
0000 A	9780	Agyey Ki Kavya Bhasa Avam Shaili	Malati Sharma		500.00	2011
0000 A	9781	Andolan Ki Mahilayen	Renu Diwan		300.00	2011
0000 A	9782	Applied Practical Chemistry	R. K. Shukla		500.00	2011
0000 A	9783	Ath Gram Shatakam	Niranjan Mishra		50.00	2011
0000 A	9784	Atha Pramat Kavayam	Niranjan Mishra		50.00	2011
0000 A	9785	Bache Hote Hain Achhe	Naresh Kumar Udass		150.00	2011
0000 A	9786	Bhartiya Grameen Arthvyavastha: Addhyan avam Vishleshan	Ugramohan Jha & Rampravesh Singh		600.00	2011
0000 A	9787	Bhartiya Jeevan Drishti ke Mool Tatva	Priyanka		400.00	2011
0000 A	9788	Bhartiye avam Pagambari Dahrmo mein Amratva Ki Avdharna	Lalti Mehta		500.00	2011
0000 A	9789	Baudh Dharm Avam Jain Dharm mein Naitikta ki Avdharana	Bhuvneshwar Nath Ojha		500.00	2011
0000 A	9790	Despairing Voices	Syed Sarwar Hussain		500.00	2011
0000 A	9791	Diffrent Strokes	Shanker Dutt		500.00	2011
0000 A	9792	Glory Be To God	Raghvendra Narayana Singh		500.00	2011
0000A	9793	Hamare Sapno ke Hatyare	Naresh Kumar Udass		200.00	2011
0000 A	9794	Hindi Shbadkosh Parampara mein Jharkhand ka yogdan	Lalita Kumari		700.00	2011

0000 A	9795	Human Resource Management	Vinay kumar Deogharia		500.00	2011
0000 A	9796	Iya ki Khatoli	Ramashankar Shrivastava		300.00	2011
0000 A	9797	Jain Tatha Baudh Darshan mein Manavtavaad	Shashi Jha		500.00	2011
0000 A	9798	Kanto ki Bagiya	Mala Kumari Rana		200.00	2011
0000 A	9799	Kuch Gajalein, Kuch Geet Hamare	Sandeep		200.00	2011
0000 A	9800	Kundlini Yog	Rakesh Giri		300.00	2011
0000 A	9801	Kwhaishaen....A Young Love story	Vinay Niranjan (v@n)		150.00	2011
0000 A	9802	Maa	Rahul		150.00	2011
0000 A	9803	Maa Gaon Chorana Nahi Chahati	Naresh Kumar Udass		400.00	2011
0000 A	9804	Madhyakalin Hindi Kavya ki Samvedna	Avdhesh Kumar		500.00	2011
0000 A	9805	Manav Chetana	Ishwar Bharadwaj		600.00	2011
0000 A	9806	Modernization of Indian Villages	Parmanand Jha		500.00	2011
0000 A	9807	Nirala Ka Kavya Rag se Vidroh Tak	Avdhesh Kumar		250.00	2011
0000 A	9808	Panchayati Raj Vyavasth Avm Gramin Vikas	Satyendra Kumar		500.00	2011
0000 A	9809	Pariveshgat Sahityayik Sanskriti ka Anusheelan	Kavita Vihan		400.00	2011
0000 A	9810	Patharon ke Sahar mein kho Gaya Gaon (Hindi)	Kedar Singh		150.00	2011
0000 A	9811	Paul Stott and His India	Rajesh Kumar		795.00	2011
0000 A	9812	Philosophical Ideas of Wittgenstein	Tanooja Tiwari		500.00	2011
0000 A	9813	Practical Hand Book of Organic Chemistry	R. K. Shukla		500.00	2011
0000 A	9814	Pranayam	Harshvardhan Goswami		400.00	2011
0000 A	9815	Punarnirmanadhikarnam	Satyawan Kumar		500.00	2011
0000 A	9816	Purav Ki Aor	Subodh Singh		200.00	2011
0000 A	9817	Rick-Sukta Manjusha	Mahaveer		1,000.00	2011
0000 A	9818	Sanchipta Shrimadbhagvatam	Sujata		500.00	2011
0000 A	9819	Sanskarik Lokgeeton ka Shastriya Addhyan	Geeta Joshi		600.00	2011
0000 A	9820	Sanskrit Prabhavit Mahasuvi Avam Sirmori Lok Gathayein	Om Prakash Sharma		700.00	2011
0000 A	9821	Sathori Hindi Katha Sahitya Mein Dalit Vimarsha Ka Swaroop	Prakash Kumar		400.00	2011
0000A	9822	Selected Topics in Molecular Spectroscopy	R. K. Shkla		500.00	2011
0000 A	9823	Shree Chatanaya Deo	Sujata		400.00	2011
0000 A	9824	Smriti Ekagrata Par Pranayam Ka Prabhav	Brajesh Singh		500.00	2011
0000 A	9825	Soor Kavya mein Lok Sahitya	Madhuri Rajak		500.00	2011
0000 A	9826	Shri Rampanchali Aur Shri Ramkriti Mahakavya	Pampa Sen		700.00	2011
0000 A	9827	Sudhiyon ke Vrindavan	B.P.Dubey		200.00	2011
0000 A	9828	Swar Yoga	Ganesh & Anjana		300.00	2011
0000 A	9829	The Poetry of W.H. Auden	Raghvendra Narayana Singh		500.00	2011
0000 A	9830	The Political Unification of tribals in India	Emmanuel Barle s.j.		500.00	2011
0000 A	9831	Tulsi Vangmay Anttyakshari	Seeta Vimbra		400.00	2011
0000 A	9832	Vaidic Ugeen Samajic Arthic avam Dharmik Jeevan	Deepa Gupta		400.00	2011
0000 A	9833	Vede-manovigyan Meemansa	Rama Kumari		500.00	2011
0000 A	9834	Vyavsayik Sangathan : Prabandhan avam Prashashan	Bhrigunandan & Anuradha		995.00	2011
0000 A	9835	Women In Household Management of Tribal Economy	Sahgufta Yasmin		600.00	2011
0000 A	9836	Yog Avam Ayurveda	Pinki Bhanot		300.00	2011
0000 A	9837	Yoga Avam Ahar	Ganesh Shankar		400.00	2011
0000 A	9838	Yug Drashta Kavi Kabir	Avdhesh Kumar		250.00	2011
0000 A	9839	Shabd Nahi Hain Kavita	Shivdayal Singh		200.00	2011

0000 A	9840	Astitva ke Shashwat Ayam	Raghvendra Narayana Singh		500.00	2010
0000 A	9841	Avyay Purash Nirupan	Sundar Narayan Jha		250.00	2010
0000 A	9842	Azadi ki Mahilaye	Renu Diwan		250.00	2010
0000 A	9843	Bapu aur Uske Baad	Jitendra Nath Pathak		300.00	2010
0000 A	9844	Basics of Disaster Management (In 2 Vol)	Shrivastava & Archana		2,500.00	2010
0000 A	9845	Bhartiya Darshan mein Karm, Gyan aur Moksh	Rita Jha		450.00	2010
0000 A	9846	Bhartiya Sanskriti aur Lok Prateek	Mamta Singh		350.00	2010
0000 A	9847	Bhartiye Locktantra Ka Sankat Avam Locknayak Jaiprakash Narayana	Namita Prasad		500.00	2010
0000 A	9848	Chayavadi Kavya Aur Uske Kaviyo ka Avdaan	Bahadur & Aggarwal		350.00	2010
0000 A	9849	Concept of God (In Philosophical Theology)	Arun Narayan Bhandari		450.00	2010
0000 A	9850	Culture Ecology Interface	Pankaj Gupta		600.00	2010
0000A	9851	Deep Raag	Nirmal Valiya		250.00	2010
0000 A	9852	Dharshanik Chintan Ker Vividh Ayam	Sanjay and Sucheta Shukla		500.00	2010
0000 A	9853	Divya Vedamritam	Swami Shreyonand Videhyati		300.00	2010
0000 A	9854	E.M. Forster : The Women in his Novels	Debashis Mallik		500.00	2010
0000 A	9855	Feminism and Postcolonialism in Karupabai Satthianadhay	Smriti Singh		500.00	2010
0000 A	9856	Financial Management : A Study of Automobile in India	Sanjay Kumar Ghosh		500.00	2010
0000 A	9857	Gender Discrimination and Environment in 21st century	Jagdish Prasad Sharma		500.00	2010
0000 A	9858	Hindi Manovaigyanik Upanyason mein Asamanya Patra	Rama Kanta		500.00	2010
0000 A	9859	Hindi ke Anchalik Upanyason ki Sanskritik Chetna	Meltina Toppo		450.00	2010
0000 A	9860	Khushwant Singh- As a Novelist	Ranjan Kumar		500.00	2010
0000 A	9861	Kritarjuniya : Ekadash Sarg	Neelima Pathak		200.00	2010
0000 A	9862	Life Insurance Corporation of India Marketing and Business	Jagdish Prasad Sharma		750.00	2010
0000 A	9863	Mahangar Mein Awas Chayan ke Samajik, Sanskarik Nirdharak Tatva : Ek Addhyan	Ravindra Bansal		500.00	2010
0000 A	9864	Management of Consumers Co-Opratiatves	Shree Mohan & Sanjay		500.00	2010
0000 A	9865	Manavtavaad aur Rajvyavastha	Mayank Murari		600.00	2010
0000 A	9866	Nath Sampraday mein Yog ka Swaroop	Naresh Kumar Gharu		500.00	2010
0000 A	9867	Nirmal Valia Ke Kavya ke Vividh Aayam	Rahul		600.00	2010
0000 A	9868	Pahari tatha Maidani Kchetron mein Satat Shiksha	Shiv Kumar Sharma		500.00	2010
0000 A	9869	Patanjal Yogsutra Avam Vyasbhasya ka Achar Meemansiya Addhyan	Yogeshwar Dutt		600.00	2010
0000 A	9870	Paschatya Kavyanusheelan	mridul joshi		600.00	2010
0000 A	9871	Please Behave Yourself…	Raghvendra Narayana Singh		300.00	2010
0000 A	9872	Policies & Practices of Personal Management	B. N. Singh		500.00	2010
0000 A	9873	Postmodern Gandhi in Life and Literature	Muniba Sami		500.00	2010
0000 A	9874	Pragatiwadi Kaviyon ki Jeevan Drishti	Mansa Devi		450.00	2010
0000 A	9875	Prechand aur Gaban- Ek Punarmulyankan	Jitendra Nath Pathak		400.00	2010
0000 A	9876	Premchand ke Katha Sahitya mein Suktiyan	Niyati Kalp		700.00	2010

0000 A	9877	Radhakrishna's Philosphy of History	S. B. P. Mehta		500.00	2010
0000 A	9878	Ramayaniya Amritvindu	Vidya Sharda		695.00	2010
0000 A	9879	Rashtriya Samajik sahayata Karyakramo ka labhukon par Prabhav	Pratima Pathak		500.00	2010
0000A	9880	Rashtriya Andolan aur Jharkhand ka Janjatiya Sangharsh	Bharti Jha		500.00	2010
0000 A	9881	Religious Identity and Prejudice	Renu Dewan		700.00	2010
0000 A	9882	Resource Planning and Economic Development	S. K. Jha		500.00	2010
0000 A	9883	Rick-Sukta Sangraha	Sangeeta Vidyalankar		500.00	2010
0000 A	9884	Ruskin Bond Trends and Motifs	Achal Sinha		395.00	2010
0000 A	9885	Saral Yogasan	Ishwar Bhardwaj		200.00	2010
0000 A	9886	Shiksha Labdhayate Aavashyak Sanskarah	Veena Vishnoye		200.00	2010
0000 A	9887	Short Stories of R.K. Narayan : Themes and Techniques	Disha Sharma		700.00	2010
0000 A	9888	Snehil Shrijan : Shodh Sankalan Kala Ank	Mamta Singh		350.00	2010
0000 A	9889	The Plays of Sean 'O' Casey	Shalini Agarwal		500.00	2010
0000 A	9890	The Tribal Soldiers of Mahama Gandhi	Sushil Rajgarhia		500.00	2010
0000 A	9891	Women Empowerment and Globlisation	Jagdish Sharma		500.00	2010
0000 A	9892	Women Empowerment in Globalised 21st Century	S.K. Jha		800.00	2010
0000 A	9893	Yagya Padhhati	Madhu Chopra		150.00	2010
0000 A	9894	Nirala Sahitya ka Sanskritik Anusheelan	Ashok Kumar Tiwari		500.00	2010
0000 A	9895	Adwait Vedant (Siddhantbindu ke Aalok mein)	Shyamvriksha Morya		500.00	2009
0000 A	9896	Agricultural Finance and Commercial Banks	Sadanand Jha		500.00	2009
0000 A	9897	Arvacheen Hindi Natya Vidha	Keerti Sharma		500.00	2009
0000 A	9898	Baudh Praman Mimansa	Vijaypal Shastri		250.00	2009
0000 A	9899	Dehradun ke Bhittichitron mein Daiviya Chintan	Varsha Sonker		500.00	2009
0000 A	9900	Dharohar	Mamta Singh		500.00	2009
0000 A	9901	Dynamics of Agricultural Development	U. G. Jha & Naresh Jha		500.00	2009
0000 A	9902	Economic Thoughts of Mahatma Gandhi	Purnima & Shobha		500.00	2009
0000 A	9903	Fictional Works of Bhabani Bhattacharya	Ashutosh Roy		495.00	2009
0000 A	9904	Hello! Mai Krishna Bol Raha hun…	Shyamvriksha Maurya		300.00	2009
0000 A	9905	Human Resource Management: For Public Sector Undertakings	Jayant Kumar Chakraborty		900.00	2009
0000 A	9906	Impact of Economic Reforms on Co-operative Movement in India	Ugra Mohan Jha		500.00	2009
0000 A	9907	Issues in Applied Ethics	Vinod Kumari		500.00	2009
0000 A	9908	Malin Basti Wasiyon ki Samajik avam Arthik Dashayein	Neelam, Meena &Deedar		450.00	2009
0000A	9909	Management of Urinary Diseases-An Ayurvedic Approach	S.K. Joshi		250.00	2009
0000 A	9910	Manavta Aur Mulyaon Ka Charan	Mala Kumari Rana		150.00	2009
0000 A	9911	Myths and Symbols in Hindu Religion	Bhagawat Rana		750.00	2009
0000 A	9912	Pandit Deen Dayal Upadhyay ka Rajneetik Chintan	Vinod Chandra Pathak		600.00	2009
0000 A	9913	Parent Child Relationship and Intelligence Level of Children of Single Parent	Vikram Singh		500.00	2009
0000 A	9914	Paryavarn Avam Swasthya	Sunil Kumar Joshi		350.00	2009

0000 A	9915	Personality and Academic Achievements	Madhurima Verma		350.00	2009
0000 A	9916	Philosophical Reflections: Exploring Classical and Recent Issues	Sanjay Kumar Shukla		700.00	2009
0000 A	9917	Poverty Alleviation Programmes and Development	Amita Sinha		500.00	2009
0000 A	9918	Puran Prabhavi Himachali Lok Jeewan	Vidya Sharda		700.00	2009
0000 A	9919	Regional Inequalities and Fiscal Equalisation in India	Phanindra Kumar Singh		500.00	2009
0000 A	9920	Soordas Aur Bhartendu	Sunil Kumar Upadhyay		500.00	2009
0000 A	9921	Television Patrakarita	Shrikant Singh		650.00	2009
0000 A	9922	The Fiction of Toni Morrison : A Critical Study	Vishnu Kant		450.00	2009
0000 A	9923	Tulnatmak Dharm Avam Darshan	Shubhra		500.00	2009
0000 A	9924	Working Stastus of Employees of HEC	Shobha Datta Jha		500.00	2009
0000 A	9925	Madhumeh Prabandhan Ke liye Yog Avam Prakritik Chikitsa	Rajeev Rastogi		250.00	2009
0000 A	9926	Bharat ke Pramukh Baudh Kendra	Danpal Singh		800.00	2008
0000 A	9927	Chatron mein Madak Dravyon ka Badhta Prayog avam Roktham	Meena, Neelam & Deedar		350.00	2008
0000 A	9928	Chitra Mudgal ke Katha Sahitya mein Yugin Chintan	Archana Mishra		200.00	2008
0000 A	9929	Chuppiyo ka Bayan (Payodhi ki Gazlen)	Laxminarayan 'Payodhi'		125.00	2008
0000 A	9930	Economics of Banana Plantation	Manindra Kumar Singh		450.00	2008
0000 A	9931	Gadhya Ke Do Rang	Ashok Priyadarshi		250.00	2008
0000 A	9932	Gadhyayan	Kamal Kumar Bose		50.00	2008
0000 A	9933	Geetarth Sangrha: Explanation And Discussion	U. S. Bist		495.00	2008
0000 A	9934	Globlisation and Gandhian : Approach to Rural Development	A.N. Choudhary		450.00	2008
0000 A	9935	Haryanvi Lok Geeton ka Paramparik Sambandh : Reet Tatha Geet	Rama Kanta		350.00	2008
0000 A	9936	Hindi Sahityotihas mein Pustkalayon ki Bhumika	Veena Jha		350.00	2008
0000 A	9937	J. Krishna Murti : Treatement of Violence	Asha Singh		250.00	2008
0000A	9938	Jaishankar Prasad avam Mohan Rakesh ke Natakon mein Prativimbit Yugeen Samasyayein	Swami Pyari Kora		300.00	2008
0000 A	9939	Katiyeshtikdeepakah	Sundar Narayan Jha		350.00	2008
0000 A	9940	Kavyagandha	Shivnarayan		35.00	2008
0000 A	9941	Khetihar Majdooron ki Samajik, Arthik Dasha : Ek Addhyan	Daman Chandra Mishra		350.00	2008
0000 A	9942	Mahadevi Kavya Mein Prakritik Vimb	Champa Singh		500.00	2008
0000 A	9943	Meditation : The Key to Self Discover	Yogi Udai		350.00	2008
0000 A	9944	Natural Clamities in India	Mahendra Singh		400.00	2008
0000 A	9945	Novels of Toni Morrison : Man-Woman Relationship	Abdul Ahad		495.00	2008
0000 A	9946	Paryavaran Shiksha	Jasveer Singh Malik		500.00	2008
0000 A	9947	Patanjalyog -Nathyog: Parampara, Darshan, Sadhana Avam Vaishiatya	Bharti Singh		400.00	2008
0000 A	9948	Rashtriya Kavya Dhara ke Kavi Nishank	Savita Mohan		200.00	2008
0000 A	9949	Rekhi Sukhno ka Sagar	Amrit Prasad		350.00	2008
0000 A	9950	Rural Credit in India	Prakash Chandra Deogharia		450.00	2008
0000 A	9951	Samkaleen Hindi Kahani Ko Himachal Ka Yogdan	Jogindra Yadav		500.00	2008

0000 A	9952	Sankhya Yog Darshan	Sangeeta Vidyalankar		600.00	2008
0000 A	9953	Shabdo ke Kchitiz se	Mridul Joshi		300.00	2008
0000 A	9954	Upanyaskar Nagarjun	Asha Gautam		450.00	2008
0000 A	9955	Vividha (Jeevan ka Sach)	Deepa Joshi		200.00	2008
0000 A	9956	Yashpal Ke Katha Sahitya Mein Nari Purush Sambandh	Shashibala Mishra		300.00	2008
0000 A	9957	Yoga and Moral Value	Ganesh & Nitin		695.00	2008
0000 A	9958	Contemporary Indian : An Economic Perspective	Srivastava & Archana		600.00	2008
0000 A	9959	Panchayati Raj and Mobilization of Weaker Section	Deoghariya & Ashok		450.00	2008
0000 A	9960	Upnishdon ke Swar	Madhu Chopra		300.00	2008
0000 A	9961	Aacharya Nand Dulare Bajpayee : Beesvi Sadi ke Sameekchak	Tanooja Chaudhary		250.00	2007
0000 A	9962	Bharat-Pakistan Samband : Ek Naveen Pariprekshya	Amit Kumar Singh		400.00	2007
0000 A	9963	Bhartiya Rastriya Andolan mein Lokmanya Baal Gangadhar Tilak ka Yogdaan	Sudha Kulshreshtha		500.00	2007
0000 A	9964	Computer Aur Media	Bhagvandev Pandey		350.00	2007
0000 A	9965	Contemporary of Afro-American Literature : A Study of Man and Society	Mani Sinha		395.00	2007
0000 A	9966	Dharmik Anusthano Me Prayukta Padpon ki Vaigyanik Aur Vivechan	Divakar Bebani		1,000.00	2007
0000 A	9967	Hum Ho Gaye Arth ki Talash mein	Mridul Joshi		200.00	2007
0000 A	9968	Hindi Prahasan Parampara aur Roop Vidhan	Rashmi Rekha Pandey		595.00	2007
0000A	9969	Katha Bharati	Reeta & Bahadur		250.00	2007
0000 A	9970	Kumaouni Ka Bhasha Vaigyanik Addhyan	Bhavani Dutt Kandpal		1,200.00	2007
0000 A	9971	Mahabharat Men Sankhya Darshan	Meera Modi		400.00	2007
0000 A	9972	Mahadevi Verma ka Visheshan Vidhan	Sapna Pandey		350.00	2007
0000 A	9973	Mahamantra Gayatri Ki Divya Sadhana	Swami Shreyonand Videhyati		250.00	2007
0000 A	9974	Mental Health and Diabetes	Deepesh Chand Prasad		495.00	2007
0000 A	9975	Mujhe Chand Chuna Hain	Shyamvriksha Maurya		400.00	2007
0000 A	9976	Nibandhana	Mridul Joshi		300.00	2007
0000 A	9977	Patiyala Darbar ka Hindi Niti Sahitya	Neeraj Mohan		450.00	2007
0000 A	9978	Prachin Bharat mein Aarthik Sansthano ka Vikas	Deepa Gupta		450.00	2007
0000 A	9979	Role of Women Journalism in Socio - Political Field	Seema Verma		200.00	2007
0000 A	9980	Sanatan Dharm mein Hindu Muslim Ekta aur Gandhi	Rakesh & Naresh		795.00	2007
0000 A	9981	Sangeet Mimansa	Mridul Joshi		795.00	2007
0000 A	9982	Sathotter Hindi ke Mithkiye Khand kavyo ka Shilp Vidhan	Sugandh Pandey		500.00	2007
0000 A	9983	Vedic Yajna Therapy	Dinesh Chandra Shastri		300.00	2007
0000 A	9984	Yagyavalkya Smriti ka Vyavharik avam Saidhantik Paksh	Rajeev Nayan		795.00	2007
0000 A	9985	Yog Jeevan Paddhati	Swami Muktanand puri ji		450.00	2007
0000 A	9986	Yoga Psychotherapy and Its Applications	Ganesh Shankar		300.00	2007
0000 A	9987	Nibandh Bharti	Jung Bahadur Pandey		100.00	2007
0000 A	9988	Aacharya Shankar aur Sant Kabir	Babita Maurya		500.00	2006
0000 A	9989	Adhunik Kavita ki Antaryatra	Tanooja Chaudhary		200.00	2006
0000 A	9990	Ashatang Yoga in Relation to Holistic Health	P.K. Mallappa & Ganesh		450.00	2006
0000 A	9991	Backward Caste Politics : A study of Socio-Political Mobilit	Jyotsna Sharma		450.00	2006

0000 A	9992	Bharat ke Samajik avam Dharmik Jeevan mein Arya Samaj ka Yogdaan	Madhu Chopra		450.00	2006
0000 A	9993	Bhartiya Addhyatmik Pristhab-Bhumi mein Gadhwali Lok Sangeet	Tushthi Maithani		795.00	2006
0000 A	9994	Jain Niti Avam Samaj Darshan	Pravin Kumar Gupt		500.00	2006
0000 A	9995	Jain Tatva Mimansa avam Syadvad	Pramod Kumar		200.00	2006
0000 A	9996	Lok Sangeet mein Seemavart Kchetro ka Yogdaan	Sunita Siwach		450.00	2006
0000 A	9997	Lokgeeton mein Naad Saundarya	Pushpa Sharma		500.00	2006
0000A	9998	Purushmedhyagyasya Samikshatmakamadhyanam	Sunder Narayan Jha		425.00	2006
0000 A	9999	Rachnadharmita ke Vividh Aayam avam Madhya Pradesh	Tanooja Chaudhary		300.00	2006
0000 A	10000	Red Cross : A seed in Magnitude	K.N.P. Srivastava		795.00	2006
0000 A	10001	Samaj Darshan aur Rajneeti	Shyamvriksha Maurya		600.00	2006
0000 A	10002	Sanshay ki ek Raat : Parampara aur Aadhunikta	Alka Dhanpat		200.00	2006
0000 A	10003	Scientific Investigation of Yogic Practices	Usha Lohan		350.00	2006
0000 A	10004	Shabd Darshan	Sandhya Sati		400.00	2006
0000 A	10005	Ved Mimansa : Ek Parisheelan	Dinesh Chandra Shastri		300.00	2006
0000 A	10006	Yog Vigyan Pradeepika	Vijaypal Shastri		395.00	2006
0000 A	10007	Dramatic Theory and Practice of T.S. Eliot	K.S. Mishra		450.00	2006
0000 A	10008	Adwait Vedant avam Kashmir Saiv Adwaitvaad	Vishambhar Nath Dwivedi		300.00	2005
0000 A	10009	Anungunj	K.N.P. Srivastava		150.00	2005
0000 A	10010	Bharat mein Samoohgaan : Parampara avam Swaroop	Sashi Kaliya		500.00	2005
0000 A	10011	Bhartiya Loknrityon mein Haryan aur Rajasthan	Neeraj Mohan		500.00	2005
0000 A	10012	Bhartiya Lok Sangeet mein Haryana ka Yogdaan	Ramakanta		300.00	2005
0000 A	10013	Bhisma Sahney : A Study of his Play	Sandhya Tripathi		300.00	2005
0000 A	10014	Buddhism and Symbol Worship	Sinha & Rakesh		350.00	2005
0000 A	10015	Conceptual Devlopment in Children	Rekha Sapra		300.00	2005
0000 A	10016	Electronic Media aur Baal Vikas	Yogesh Kumar Pandey		350.00	2005
0000 A	10017	Geetartha Sangraha	Shastri and Bharadwaj		700.00	2005
0000 A	10018	Hath Yoga for Human Health	Nitin & Ganesh		425.00	2005
0000 A	10019	Kavya Kunjam	Niranjan Mishra		250.00	2005
0000 A	10020	Krukkchetra ka Mithakiya Chintan	Renu Maheshwari		200.00	2005
0000 A	10021	Management and Redemption of Public Dept in India	Urmila Khanduri		400.00	2005
0000 A	10022	Mark Akenside- As a Pre-Romantic Poet	Sunil Kumar		395.00	2005
0000 A	10023	Mujhe Chand Chahiye	Seema Vaishya		250.00	2005
0000 A	10024	Patanjal Yog avam Nath Yog	Surakshit Goswami		600.00	2005
0000 A	10025	Population Problems : A Global Perspective	R.D. Sharma		250.00	2005
0000 A	10026	Prachin Bharat mein Dharmik Sahishurta	Rakesh Sharma		500.00	2005
0000A	10027	Purano mein Shrishthi avam Pralaya	Krishna Chandra		350.00	2005
0000 A	10028	Pustakalaya aur Aadhunk Samaj	Mangeram, Ramchandra & Ajay Kumar Srivastava		250.00	2005
0000 A	10029	Revolution in the Philosophy of Edmund Husserl	Sanjay Kumar Shukla		700.00	2005
0000 A	10030	Trivikrambhattvirachic Madalasa Champu	Niranjan Mishra		500.00	2005
0000 A	10031	Tulsi Sahitya Mein Charitra Sambandhi Avdharana	Renu Maheshwari		450.00	2005
0000 A	10032	Uddhavgeeta Mein Bhaktiyog Darshan	Pramod Kumar Yogarthi		600.00	2005
0000 A	10033	Vaidik Upma Kosh	Dinesh Chandra Shastri		700.00	2005

0000 A	10034	Working Women & Care of the Aged	Poornima Jain		350.00	2005
0000 A	10035	Manas Manthan	K.N.P. Srivastva		700.00	2005
0000 A	10036	Adhyatama Siddhant	Trilok Chandra		150.00	2004
0000 A	10037	Janmadhyam Kanoon avam Uttardayitva	Shrikant Singh		350.00	2004
0000 A	10038	Mulk Raj Anand's Shorter Fiction : A Study of his Vision	R.V. Singh		495.00	2004
0000 A	10039	Poorva Sabarkar Charitam	Kunwar Narendra Pratap Singh		500.00	2004
0000 A	10040	Ramdarsh Mishr ke Upanyaso Ki Vaicharik Prishtha Bhumi	Seema Vaishya		450.00	2004
0000 A	10041	Sampreshan Pratiroop avam Siddhant	Shrikant Singh		450.00	2004
0000 A	10042	James Mathew Barrie : Maker of Myth	Nirupama Sinha		300.00	2003
0000 A	10043	The Plays of Rabindra Nath Tagore	Beena Agarwal		395.00	2003
0000 A	10044	SIDHITRAYI		Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 125	
0000 A	10045	SRIMADBHAGVADGITA (ANUKARNIYA SARTATVA) H.B.	SWAMI PRAKHAR PRAGYANAND SARASWATI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 525	
0000 A	10046	MIMANSANYAYAPRAKASA	A.CHINNASWAMI SASTRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 125	
0000 A	10047	TANDYAMAHABRAMHAN-I	A.CHINNASWAMI SASTRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 487.50	
0000 A	10048	TANDYAMAHABHRAHMANA-II	A.CHINNASWAMI SASTRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 487.50	
0000 A	10049	TANDYAMAHABHRAHMANA-I-II Vol. Set	A.CHINNASWAMI SASTRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 975	
0000 A	10050	KUMARSAMBHVAM COMPLETE	ACARYA SESARAJ SARMA		Rs 495	
0000 A	10051	CHAPIYATRIKONGANITAM	ACHYUTANANDA JHA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 65	
0000 A	10052	KAMA SAMUHA	AMAL SHIB PATHAK	Chaukhambha Publications	Rs 395	
0000 A	10053	SUSRUTA SAMHITA-I	AMBIKADATTA SASTRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 525	
0000 A	10054	SUSRUTA SAMHITA-I-II complete	AMBIKADATTA SASTRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 1020	
0000 A	10055	SUSRUTA SAMHITA-II	AMBIKADATTA SASTRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 495	
0000A	10056	SRADDHAVIVEKA	ANANTARAM DOGRA SASTRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 75	
0000 A	10057	SULBASUTRAM of KATYAYANA	ANANTARAM DOGRA SASTRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 75	
0000 A	10058	ALANKARASEKHARA	ANANTARAM SASTRY	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 25	
0000 A	10059	NATYA-SHASTRA- I-IV - DELUX COMPLETE	BABULAL SHUKLA SASTRY	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 3000	
0000 A	10060	NATYA SASTRA-I	BABULAL SUKLA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 750	
0000 A	10061	NATYA SASTRA-II	BABULAL SUKLA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 750	
0000 A	10062	NATYA SASTRA-III	BABULAL SUKLA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 750	
0000 A	10063	NATYA SASTRA-IV	BABULAL SUKLA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 750	
0000 A	10064	NATYA SASTRAM- I-II VOL.	BABULAL SUKLA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 55	
0000 A	10065	THE CHANDRAKALA NATIKA	BABULAL SUKLA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 55	
0000 A	10066	YOGASUTRA	BALADEVA MISRA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 75	
0000 A	10067	VAIYAKARANA-SIDDHANTA-KAUMUDI (COMPLETE)	BALAKRISNA PANCHOLI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 725	
0000 A	10068	VAIYAKARANA-SIDDHANTA-KAUMUDI-I	BALAKRISNA PANCHOLI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 155	

0000 A	10069	VAIYAKARANA-SIDDHANTA-KAUMUDI-II	BALAKRISNA PANCHOLI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 155	
0000 A	10070	VAIYAKARANA-SIDDHANTA-KAUMUDI-III	BALAKRISNA PANCHOLI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 155	
0000 A	10071	VAIYAKARANA-SIDDHANTA-KAUMUDI-IV	BALAKRISNA PANCHOLI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 260	
0000 A	10072	NAGANANDA NATAKA	BALDEVA UPADHYAYA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 50	
0000 A	10073	SIDDHANTASIROMANI	BAPU DEVA SASTRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 175	
0000 A	10074	SANKCHEPSHARIRKAM	BHAU SASTRI VAJHE	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 100	
0000 A	10075	RAGHUVANSA MAHAKAVYA -I	BRAHMA SANKARA MISRA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 20	
0000 A	10076	RAGHUVANSA MAHAKAVYA-II	BRAHMA SANKARA MISRA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 20	
0000 A	10077	RAGHUVANSA MAHAKAVYA-III	BRAHMA SANKARA MISRA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 20	
0000 A	10078	RAGHUVANSA MAHAKAVYA-IV	BRAHMA SANKARA MISRA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 20	
0000 A	10079	RAGHUVANSA MAHAKAVYA-V	BRAHMA SANKARA MISRA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 20	
0000 A	10080	MEDINIKOSA	JAGANNATH SAS TRI HOSHING	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 145	
0000 A	10081	MADHAVA NIDANA	BRAHMASANKRA SASTRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 410	
0000 A	10082	CAURAPANCASIKA	BRAJESACHANDRA SRIVASTAVA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 85	
0000 A	10083	THE VOICE OF VERDICT	BRAJKISOR SWAIN	Chaukhambha Publications	Rs 395	
0000 A	10084	DASAVATARCARITAM	BUDHI SARMA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 125	
0000A	10085	VANAUSADHI CHANDRODAYA-I	CHANDRARAJA BHANDARI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 575	
0000 A	10086	VANAUSADHI CHANDRODAYA-II	CHANDRARAJA BHANDARI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 575	
0000 A	10087	VANAUSADHI CHANDRODAYA-I-II Vol. set	CHANDRARAJA BHANDARI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 1150	
0000 A	10088	NYAYABINDU	CHANDRASEKARA SASTRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 75	
0000 A	10089	DASARUPAKAM	CHARANATIRTHA MAHARAJA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 95	
0000 A	10090	MEGHADUTA	CHARANATIRTHA MAHARAJA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 175	
0000 A	10091	AN INTRODUCTION TO NIGHANTU OF AYURVEDA	D.S.LUCAS	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 250	
0000 A	10092	SHAKTIVADA	DAMODAR SHASTRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 375	
0000 A	10093	RASAMRITAM	DAMODER JOSI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 275	
0000 A	10094	AVACHHEDAKATVANIRUKTI	DATTATREYA SASTRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 150	
0000 A	10095	KAMASUTRA	DEVADUTTA SASTRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 425	
0000 A	10096	BHAMATI- I-II VOL Set	DHUNDHIRAJA SASTRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 650	
0000 A	10097	BHAMATI-I	DHUNDHIRAJA SASTRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 375	
0000 A	10098	BHAMATI-II	PT. DHUNDIRAJ SHASTRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 275	
0000 A	10099	BRAHMASUTRA SANKARABHASYA-I	DHUNDHIRAJA SASTRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 450	
0000 A	10100	BRAHMASUYRA SANKARABHASYA-II	DHUNDHIRAJA SASTRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 450	
0000 A	10101	LAGHUSIDHANTAKAUMUDI	DINANATH TIVARI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 195	
0000 A	10102	JATAKALANKARA	DINANATHA JHA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 55	

0000 A	10103	AYURVEDA TVCHA ROGA VIJNAN	DIVAKAR OJHA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 75	
0000 A	10104	SAMUDRIK VIDYA (HASTREKHAO EVAM ANGLAKSHANO KA SAMPOORNA VIVECHAN)	DR. ABHA YAGYASENI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 65	
0000 A	10105	DAIVAGYABHARANAM	DR. CHANDRAMAULI UPADHYAY	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 275	
0000 A	10106	GOL VIMARSH	DR. CHANDRAMAULI UPADHYAY	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 55	
0000 A	10107	MUHURT MANJARI	DR. CHANDRAMAULI UPADHYAY	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 55	
0000 A	10108	PRASHNA-VIMARSH	DR. CHANDRAMAULI UPADHYAY	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 55	
0000 A	10109	SAMAGRA JIVAN JINE KI NAI KALA	DR. DHRENDRA PRASAD JAUHARI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 95	
0000 A	10110	VYAVAHAR AYURVEDA OR VIDHI AYURVEDA	DR. HARISHCHANDRA GUPTA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 495	
0000 A	10111	NAISADHCHARITAM– VI-X SARG	DR. KESHAVRAV MUSALGAWAKAR & RAJESHWAR SHASTRI MUS	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 150	
0000 A	10112	KALIDAS-MIMANSA	DR. KESHAVRAV MUSALGAWAKAR & RAJESHWAR SHASTRI MUSALGAWAKAR	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 525	
0000 A	10113	BHARTIYA KUNDALINI GANITA	DR. KRISHNKANT PANDEY	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 125	
0000A	10114	GOLIYAREKHAGANITAM	DR. KRISHNKANT PANDEY	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 55	
0000 A	10115	SAHITYADARPAN (I-II CANTOS)	DR. MADHAVJANARDANRATATE	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 65	
0000 A	10116	RASENDRASAR SANGRAHA	DR. P. SURESH	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 1500	
0000 A	10117	ARTHSANGRAH	DR. R. S. MUSALGAVAKAR	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 295	
0000 A	10118	SRI YOGCHINTAMANI EVAM VYAWAHAR JYOTISH	DR. RAJESHWAR SHASTRI MUSALGAWKAR & PT. SHEKHAR SH	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 395	
0000 A	10119	VIVA IN RACHANA SAREERA	DR.P.K.MOHARANA	Chaukhambha Publications	Rs 150	
0000 A	10120	HYMNS OF THE RGVEDA IN THE SAMHITA AND PADA TEXTS - I-II vol. Complete	F. MAX MULLER	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 2100	
0000 A	10121	HYMS OF THE RIGVEDA - I Vol.	F. MAX MULLER	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 1050	
0000 A	10122	HYMS OF THE RIGVEDA -II Vol.	F. MAX MULLER	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 1050	
0000 A	10123	A GUIDE TO AYURVEDIC COMPETITIVE EXAMINATIONS-I	G.P. RAO	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 250	
0000 A	10124	A GUIDE TO AYURVEDIC COMPETITIVE EXAMINATIONS-II	G.P. RAO	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 425	
0000 A	10125	A GUIDE TO AYURVEDICCOMPTITIVE EXAMINATION I-II Vol. Set.	G.P. RAO	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 675	
0000 A	10126	A TEXT BOOK OF BHAISAJYAKALPANA VIJNANAM	G.P. RAO	Chaukhambha Publications	Rs 695	
0000 A	10127	MODEL PAPERS FOR AYURVEDIC COMPETITIVE EXAMINATION	G.P. RAO	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 300	
0000 A	10128	DOCTOR-PATIENT RELATIONSHIP IN ANCIENT INDIAN MEDICINE	G.S.LAVEKAR	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 95	

0000 A	10129	SALYA-VIJNAN	G.S.LAVEKAR	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 175	
0000 A	10130	HINDI SANKHYADARSAN	GAJANANA SASTRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 695	
0000 A	10131	SAMKHYA-TATTVA-KAUMUDI	GAJANANA SASTRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 395	
0000 A	10132	VAIDIK SAHITYA KA ITIHAS	GAJANANA SASTRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 450	
0000 A	10133	NARPATIJAYACARYASVAROD YA	GANESHADATTA PATHAKA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 255	
0000 A	10134	GADANIGRAHA-I	GANGA SAHAYA PANDEYA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 275	
0000 A	10135	GADANIGRAHA-II	GANGA SAHAYA PANDEYA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 575	
0000 A	10136	GADANIGRAHA-III	GANGA SAHAYA PANDEYA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 575	
0000 A	10137	GADANIGRAHA-I-III Vol. Set	GANGA SAHAYA PANDEYA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 1425	
0000 A	10138	KRTYASARASAMUCHCHAYA	GANGADHARA MISRA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 175	
0000 A	10139	ABHIJNANA-SAKUNTALAM	GANGASAGAR RAI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 325	
0000 A	10140	ABHIJYANSHAKUNTALAM - CHTURTH SARG	GANGASAGAR RAI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 15	
0000 A	10141	HARAVIJAYAM - Ist CANTOS	GANGASAGAR RAI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 15	
0000 A	10142	MUDRARAKASAS NATAKAM	GANGASAGAR RAI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 125	
0000A	10143	SANSKRT KE PRAMUKHA NATAKAKAR TATHA UNKI KRTIYAN	GANGASAGAR RAI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 275	
0000 A	10144	VASAVADATTA	GANGASAGAR RAI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 75	
0000 A	10145	VENISANHARA-NATAKAM	GANGASAGAR RAI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 95	
0000 A	10146	SIDHANT KAUMUDI	GIRIJADATTA TRIPATHI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 35	
0000 A	10147	LAGHUSABDENDUSEKHAR I	GOPAL SASTRI NENE	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 750	
0000 A	10148	LAGHUSABDENDUSEKHAR II	GOPALA SASTRI NENE	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 750	
0000 A	10149	SIDDHANTA KAUMUDI - Ist CANTOS	GOPALA SASTRI NENE	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 25	
0000 A	10150	VAGVALLABHA	GOSVAMI DAMODARA SASTRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 150	
0000 A	10151	NAMALINGANUSASANA NAM OR AMARA-KOSA	HARGOVIND SASTRY	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 450	
0000 A	10152	RAGHUVANSA	HARGOVIND SASTRY	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 145	
0000 A	10153	MATHURIPANCHALAKSNI	HARIHARA SASTRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 50	
0000 A	10154	VAIYAKARANABHUSANASAR A	HARIVALLABHA SASTRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 575	
0000 A	10155	CATURVARGACINTAMANI (1-4 VOL; 7 PARTS). Set.	HEMADRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 11000	
0000 A	10156	CATURVARGACINTAMANI-I	HEMADRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 2000	
0000 A	10157	CATURVARGACINTAMANI-II	HEMADRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 1500	
0000 A	10158	CATURVARGACINTAMANI-III	HEMADRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 1500	
0000 A	10159	CATURVARGACINTAMANI-IV	HEMADRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 1500	
0000 A	10160	CATURVARGACINTAMANI-V	HEMADRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 1500	
0000 A	10161	CATURVARGACINTAMANI-VI	HEMADRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 1500	
0000 A	10162	CATURVARGACINTAMANI-VII	HEMADRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 1500	

0000 A	10163	CAKRADATTA	INDRADEVA TRIPATI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 175	
0000 A	10164	RASARATNASMUCCHYA	INDRADEVA TRIPATI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 675	
0000 A	10165	VAIDYRATANAM	INDRADEVA TRIPATI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 135	
0000 A	10166	VYADHI NIGRAHA	INDRADEVA TRIPATI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 75	
0000 A	10167	FAKKIKAPRAKASH	INNDRADUTT SHARMA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 325	
0000 A	10168	ANEKARTHASAGRAHA	JAGANNATH SASTRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 125	
0000 A	10169	PRAKRTA PRAKASH	JAGANNATH SASTRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 225	
0000 A	10170	GATHASAPTASATI	JAGANNATHA PATHAKA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 325	
0000 A	10171	AYURVEDA CHIKITSA SUTRA	JAGDEESHA PRASAD SARMA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 225	
0000A	10172	MADHUMEHA PARICHAYA	JAYANT DEOPUJARI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 95	
0000 A	10173	MUSIC DANCE AND MUSICAL INSTRUMENTS	K.KUSUMA BAI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 200	
0000 A	10174	PRAKRTA-VYAKARANA	K.V. APTE	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 200	
0000 A	10175	GUNARATNAMALA	KAILASAPATI PANDEY	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 750	
0000 A	10176	SMARTA-YAJNADIPIKA	KAILASH CHANDRA DUBE	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 95	
0000 A	10177	JATAK PARIJAT	KAPILESVARA SASTRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 495	
0000 A	10178	PANCHIKARANAM	KAMESHWAR NATH MISHRA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 125	
0000 A	10179	JYOTISA SASTRIA CINTAN KE KUCH MANAK BINDU	KAMESVAR UPADHYAYA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 95	
0000 A	10180	PARASARI-HORA	KAMESVAR UPADHYAYA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 50	
0000 A	10181	SRUTABODHA	KANAKA LALA THAKUR	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 50	
0000 A	10182	ASTANGA HRDAYAM OF VAGBHATA (SUTRA STHAN)	KANJIV LOCHAN	Chaukhambha Publications	Rs 495	
0000 A	10183	AYURVEDIC THESAURUS	KANJIV LOCHAN	Chaukhambha Publications	Rs 250	
0000 A	10184	BHAISAJYARATNAVALI I-III vol. Set	KANJIV LOCHAN	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 2925	
0000 A	10185	BHAISAJYARATNAVALI-I	KANJIV LOCHAN	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 975	
0000 A	10186	BHAISAJYARATNAVALI-II	KANJIV LOCHAN	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 975	
0000 A	10187	BHAISAJYARATNAVALI-III	KANJIV LOCHAN	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 975	
0000 A	10188	DIETARY RULES & PROHIBITIONS IN DIFFERENT DISEASES	KANJIV LOCHAN	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 275	
0000 A	10189	ILLUSTRATIONS ON AYURVEDIC SURGERY AND PHARMACEUTICS	KANJIV LOCHAN	Chaukhambha Publications	Rs 325	
0000 A	10190	MEDICINE OF EARLY INDIA	KANJIV LOCHAN	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 225	
0000 A	10191	SUSRUTA SAMHITA DARPANA	KANJIV LOCHAN	Chaukhambha Publications	Rs 95	
0000 A	10192	UTTARRAMCHARITAM-KHSTRO ANK	KAPILDEV GIRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 12	
0000 A	10193	UTTARARAMACARITAM	KAPILDEVA GIRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 135	
0000 A	10194	KAVYAPRAKASAH (COMPLETE)	KAPILDEVA GIRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 595	
0000 A	10195	SAONDARANANDA-MAHAKAVYAM	KARUNASANKAR DUBE	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 75	

0000 A	10196	CARAKA SAMHITA-I	KASHINATH SASTRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 450	
0000 A	10197	CARAKA SAMHITA-II	KASHINATH SASTRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 400	
0000 A	10198	CHARAKA SAMHITA-I-II Complete Set.	KASHINATH SASTRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 850	
0000 A	10199	MEGHDUTA	KEDARA NATH SHARMA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 55	
0000 A	10200	VRTTRATNAKARA	KEDARA NATH SHARMA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 20	
0000A	10201	ELEMENTS OF RESEARCH METHODODLOGY IN SANSKRIT	KESABCANDRA DASH	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 195	
0000 A	10202	HARSACARITAM	KESAVARAO MUSALGAVAKAR	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 245	
0000 A	10203	HARSACARITAM-I	KESAVARAO MUSALGAVAKAR	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 25	
0000 A	10204	HARSACARITAM-I-II	KESAVARAO MUSALGAVAKAR	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 40	
0000 A	10205	HARSACARITAM-I-IV	KESAVARAO MUSALGAVAKAR	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 60	
0000 A	10206	HARSACARITAM-III	KESAVARAO MUSALGAVAKAR	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 45	
0000 A	10207	HARSACARITAM-V	KESAVARAO MUSALGAVAKAR	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 25	
0000 A	10208	LAGHUSABDENDUSEKHARA	KHUDDI JHA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 225	
0000 A	10209	VYAKARANBHUSANSAR	KHUDDI JHA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 50	
0000 A	10210	SAHITYA DARPAN- I PARICHED	KRISNA MOHANA SASTRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 25	
0000 A	10211	SAHITYA DARPAN- VI	KRISNA MOHANA SASTRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 50	
0000 A	10212	SAHITYADARPANA - complete	KRISNA MOHANA SASTRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 475	
0000 A	10213	SAHITYADARPANA-I-VI	KRISNA MOHANA SASTRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 275	
0000 A	10214	SAHITYADARPANA-VII-X	KRISNA MOHANA SASTRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 200	
0000 A	10215	GUDHARTHATATTVALOKA	LAKSMINATH JHA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 225	
0000 A	10216	VYASA-SUBHASITA-SAMGRAHA	LUDWIK STERNBACH	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 225	
0000 A	10217	PANCATANTRA (APARIKSHITAKARAKAM)	MADHAV N. JOSHI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 75	
0000 A	10218	JIVANMUKTIVIVEKA	MAHAPRABHULAL GOSWAMI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 175	
0000 A	10219	PATANJAL YOGASUTRAM	MAHAPRABHULAL GOSWAMI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 125	
0000 A	10220	MATHEMATICS IN AYURVEDA	MRS. S.A. GOKHALE	Chaukhambha Publications	Rs 195	
0000 A	10221	LATYAYANA SRAUTA SUTRA	MUKUNDA JHA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 150	
0000 A	10222	MANTRARTHA DIPIKA	MUKUNDA JHA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 115	
0000 A	10223	KATHBODHA	MUKUNDALAL SASTRY	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 50	
0000 A	10224	AITAREYABRAHMANAM	MULA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 125	
0000 A	10225	SUKLA YAJURVEDA MADHYANDINIYA SAMHITA (PTTRAKAR)	MULA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 275	
0000 A	10226	SUKLA YAJURVEDA MADHYANIDINIYA SAMHITA (CLOTH)	MULA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 295	
0000 A	10227	SUKLAYAJURVEDAMADHYANANDNIYA SAMHITA-GUTKAKAR		Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 95	

0000 A	10228	MAHIMNA STOTRA	NARAYAN PATI SHARMA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 175	
0000 A	10229	AMARKOSA OR NAMALINGANUSASANAM	NARAYAN RAM ACARYA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 115	
0000A	10230	SUBHASITATRINSATI	NARAYAN RAM ACARYA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 95	
0000 A	10231	NYAYASIDDHANTAMUKTAVA LI	NARAYAN SASTRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 595	
0000 A	10232	TRIPURARAHASYA MAHATMYA KHANDA	NARAYAN SASTRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 400	
0000 A	10233	SARASVATA VYAKARANA-I-II	NAVAKISORA KARA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 250	
0000 A	10234	SARSVATA-VYAKARANA-I	NAVAKISORA KARA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 100	
0000 A	10235	SARSVATA-VYAKARANA-II	NAVAKISORA KARA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 150	
0000 A	10236	SIDDHANTACHANDRIKA-I	NAVAKISORA KARA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 100	
0000 A	10237	SIDDHANTACHANDRIKA-I-II	NAVAKISORA KARA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 250	
0000 A	10238	SIDDHANTACHANDRIKA-II	NAVAKISORA KARA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 150	
0000 A	10239	KHANDANA-KHANDA-KHADYAM	NAVIKANTA JHA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 375	
0000 A	10240	ANTYAKARMADIPAKA	NITYANANDA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 95	
0000 A	10241	KATIYESTIDIPAKA	NITYANANDA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 95	
0000 A	10242	VARSAKRTYADIPAKA, KALANIRNAYA & VRATODYAPANA	NITYANANDA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 200	
0000 A	10243	HAND BOOK OF AYURVEDIC MEDICINE	O.P.GUPTA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 225	
0000 A	10244	AYURVEDIYA VIKRTI VIJNANA & ROGA VIJNANA -I	P.S. BYADGI	Chaukhambha Publications	Rs 595	
0000 A	10245	AYURVEDYA VIKRUTI VIJNANA & ROGA VIJNANAM -II	P.S. BYADGI	Chaukhambha Publications	Rs 655	
0000 A	10246	YOGASUTRA (SIX COMMENTARIES)	PATANJALI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 150	
0000 A	10247	PARASHAR SMRITI	PT. DAMODAR DUTT MISRA ‘PRASOON’	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 75	
0000 A	10248	JAGADISHI VYADHIKARANAM	PT. DHUNDIRAJ SHASTRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 375	
0000 A	10249	VAISESIKADARSANAM	PT. DHUNDIRAJ SHASTRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 425	
0000 A	10250	VAISHESHIKDARSHANAM	PT. DHUNDIRAJ SHASTRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 25	
0000 A	10251	DHWANYALOK	PT. PATTABHIRAM SHASTRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 495	
0000 A	10252	PRAUDHAMANORAMA (AVYAYIBHAVANTA)	PT. SADA SIVA SARMA SASTRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 495	
0000 A	10253	PRAUDHAMANORMA (TATPURUSAPRAKARAN)	SADASHIV SHARMA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 495	
0000 A	10254	VAKROKTIJIVITAM (COMPLETE)	RADHESYAMA MISRA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 275	
0000 A	10255	VAKROKTIJIVITAM-I	RADHESYAMA MISRA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 95	
0000 A	10256	VAKROKTIJIVITAM-I-II	RADHESYAMA MISRA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 145	
0000 A	10257	VAKROKTIJIVITAM-II	RADHESYAMA MISRA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 50	
0000 A	10258	SHBD DSHATU CHANDRIKA	RAJESHWAR SHASTRI MUSALGAWAKAR	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 595	
0000A	10259	SUKRANITI	RAJESVARA SASTRI DRAVID	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 250	
0000 A	10260	DHATUROOP KAUMUDUI	RAJESVARADATTA SASTRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 695	

0000 A	10261	NAISADHIYACARITAM -I-V	RAJESVARADATTA SASTRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 145	
0000 A	10262	NAISADHIYACARITAM -VI-X	RAJESVARADATTA SASTRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 150	
0000 A	10263	NAISADHIYACARITAM-I-III	RAJESVARADATTA SASTRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 125	
0000 A	10264	NAISADHIYACARITAM-II	RAJESVARADATTA SASTRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 35	
0000 A	10265	NAISADHIYACARITAM-III	RAJESVARADATTA SASTRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 35	
0000 A	10266	NAISADHIYACARITAM-IV	RAJESVARADATTA SASTRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 35	
0000 A	10267	NAISADHIYACARITAM-V	RAJANARAYANA SASTRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 35	
0000 A	10268	NAISADHIYACHARITAM-I	RAJESVARADATTA SASTRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 55	
0000 A	10269	RATNAVALI NATIKA	RAJESVARADATTA SASTRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 85	
0000 A	10270	TARKASANGRHA	RAJESVARADATTA SASTRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 55	
0000 A	10271	VIKRAMANKADEVACARITAM (1ST CANTO)	RAJESVARADATTA SASTRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 40	
0000 A	10272	VAKYAPADIYAM (BRAHMA-KANDA)	RAM GOVIND SUKLA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 95	
0000 A	10273	BRAHADDEVATA (COMPLETE)	RAM KUMAR RAI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 275	
0000 A	10274	BRHADDEVATA -I-II	RAM KUMAR RAI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 40	
0000 A	10275	KRTITATTVA SAMGRAHA	RAMACHANDRA JHA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 100	
0000 A	10276	PAUROHITYAKARMASARA	RAMAKANTA SHARMA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 50	
0000 A	10277	RAGHAVANAISADHIYAM	RAMAKUBERA SASTRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 75	
0000 A	10278	NALACATITRAM	RAMAPATI MISRA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 75	
0000 A	10279	GARUDAPURANA	RAMASANKARA BHATTACHARYA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 425	
0000 A	10280	LAGHUSANGRHA	RAMCANDRA PATHAK	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 75	
0000 A	10281	MUHURTA CHINTAMANI (PIYUSHADHARA)	RAMCANDRA PATHAK	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 250	
0000 A	10282	PHALITA SANGRAHA	RAMCANDRA PATHAK	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 75	
0000 A	10283	SIGHRABODHA	RAMCANDRA PATHAK	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 55	
0000 A	10284	TAJIKA NILKANTHI	RAMCHANDRA PATHAK	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 395	
0000 A	10285	VAIDYAKA PARIBHASA PRADEEPA	RAMCHANDRA REDDY	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 175	
0000 A	10286	PRINCIPLES & PRACTICES OF AYURVEDIC MEDICINE	DR. S. GOPAL	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 325	
0000 A	10287	PARIBHASENDUSEKHARA	SADASHIV SHARMA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 155	
0000A	10288	TARKASAMGRAHAH	SATKARI S. VANGIYA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 495	
0000 A	10289	DRAVYAGUNA SUTRAM	SATYADEVA DUBE	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 150	
0000 A	10290	KASYAPA SAMHITA OR VRDDHA-JIVAKIYA TANTRA	SATYAPALA BHISAGACHARYA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 895	
0000 A	10291	SATPANCASIKA	SATYENDRA PRASAD MISRA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 55	
0000 A	10292	YOGA AND AYURVEDA	SATYENDRA PRASAD MISRA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 225	
0000 A	10293	KUMARSABHAVAM - IV	SHESRAJ SHARMA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 25	
0000 A	10294	KUMARSAMBHAVAM - I	SHESRAJ SHARMA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 25	

0000 A	10295	KUMARSAMBHAVAM - II	SHESRAJ SHARMA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 25	
0000 A	10296	KUMARSAMBHAVAM - III	SHESRAJ SHARMA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 25	
0000 A	10297	KUMARSAMBHAVAM - V	SHESRAJ SHARMA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 30	
0000 A	10298	KARMAKAND PRADIP-[CLOTH]	ANNA SHASTRI MORE	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 275	
0000 A	10299	KARMAKAND PRADIP-PATRAKAR	ANNA SHASTRI MORE	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 250	
0000 A	10300	JAGADISI PAKSATA	SIVADATTA MISRA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 175	
0000 A	10301	VYAPTIPANCHAKARAHASYA AND SIMHAVYAGHRA LAKSANARAHASYA	SIVADATTA MISRA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 75	
0000 A	10302	VAIYAKARANA-SIDDHANTA-LAGHU-MANJUSA	SOBHAPATI UPADHYAYA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 475	
0000A	10303	CHHANDAH KAUMUDI	SRI NARAYAN SASTRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 25	
0000 A	10304	SUSRUT SAMHITA	SRIDALHANACHARYA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 595	
0000 A	10305	GOBHILAGRHYASUTRA	SUDHAKARA MALVIYA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 325	
0000 A	10306	THE ATHARVAVEDA AND THE GOPTHA-BRAHMANA	SURYAKANTA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 525	
0000 A	10307	AITREYOPANISHAD	SWAMI PRAKHAR PRAGYANAND SARASWATI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 25	
0000 A	10308	BRAMHASUTRA (VEDANTA DARSHAN)	SWAMI PRAKHAR PRAGYANAND SARASWATI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 495	
0000 A	10309	ISAVASYOPANISHAD	SWAMI PRAKHAR PRAGYANAND SARASWATI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 25	
0000 A	10310	ISHADINAVOPANISHAD	SWAMI PRAKHAR PRAGYANAND SARASWATI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 595	
0000 A	10311	KATHOPANISHAD	SWAMI PRAKHAR PRAGYANAND SARASWATI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 55	
0000 A	10312	KENOPANISHAD	SWAMI PRAKHAR PRAGYANAND SARASWATI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 25	
0000 A	10313	KUNDALINI SADHANA (AMRIT KALASH)	SWAMI PRAKHAR PRAGYANAND SARASWATI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 95	
0000 A	10314	MANDUKYOPANISHAD	SWAMI PRAKHAR PRAGYANAND SARASWATI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 25	
0000 A	10315	MUNDAKOPANISHAD	SWAMI PRAKHAR PRAGYANAND SARASWATI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 55	
0000 A	10316	NARAD BHAKTISUTRA	SWAMI PRAKHAR PRAGYANAND SARASWATI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 75	
0000 A	10317	PRAN CHIKITSA (ADHYATMIK UPCHAR VIDHI)	SWAMI PRAKHAR PRAGYANAND SARASWATI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 175	
0000 A	10318	PRASHNOPANISHAD	SWAMI PRAKHAR PRAGYANAND SARASWATI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 55	
0000 A	10319	SHWETASHWAROPANISHAD	SWAMI PRAKHAR PRAGYANAND SARASWATI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 55	
0000 A	10320	TAITIRIYOPANISHAD	SWAMI PRAKHAR PRAGYANAND SARASWATI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 45	

0000 A	10321	VIVEK-CHUDAMANI - HINDI ANUVAD SAHITA	SWAMI PRAKHAR PRAGYANAND SARASWATI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 495	
0000 A	10322	YANTRA MANTRA SHAKTI	SWAMI PRAKHAR PRAGYANAND SARASWATI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 85	
0000 A	10323	YOGVASISTHA-SAR	SWAMI PRAKHAR PRAGYANAND SARASWATI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 95	
0000 A	10324	GAYATRI TANTRA	TARAKANATH BHATTACHARYA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 65	
0000 A	10325	SRI SWAMI VIVEKANAND CHARITA MAHAKAVYA	TRYAMBAK BHANDARAKARA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 100	
0000 A	10326	SIDDHANTABINDU	TRYAMBAKARAMA SASTRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 495	
0000 A	10327	AGADA TANTRA	U.R.SEKHAR NAMBURI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 495	
0000 A	10328	APASTAMBA DHARMA SUTRA	UMESHA CHANDRA PANDEYA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 275	
0000 A	10329	GAUTAMAB DHARMA SUTRANI	UMESHA CHANDRA PANDEYA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 495	
0000 A	10330	YAJNAVALKYASMRTI (ACHARADHYAYA)	UMESHA CHANDRA PANDEYA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 65	
0000 A	10331	YAJNAVALKYASMRTI (VYAVAHARADHYAYA)	UMESHA CHANDRA PANDEYA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 235	
0000A	10332	YAJNAVALKYASMRTI (COMPLETE)	UMESHA CHANDRA PANDEYA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 595	
0000 A	10333	ASTANG HRIDAYAM - HEMADRI COMMENTRY	VAIDYA HARISHASTRI PARADKAR	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 595	
0000 A	10334	SNEHANA THERAPY IN AYURVEDA	VAIDYA VASANT C. PATIL	Chaukhambha Publications	Rs 195	
0000 A	10335	TARKA PRAKARANA	VAMACHARANA BHATTACHARYA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 35	
0000 A	10336	CHAMPU-RAMAYANA	VASUDEVA LAKSMANA SASTRI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 195	
0000 A	10337	AYURVEDIYA PANCHAKARMA CHIKITSA - VIJNANA	VIJAY KUMAR RAI	Chaukhambha Publications	Rs 295	
0000 A	10338	PREMARASAYANA	VISNUPRASAD BHANDARI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 65	
0000 A	10339	NARADASMRTI	VRJAKISORA SWAIN	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 150	
0000 A	10340	JANAKIHARANAM (CANTOS I-II)	YADUNANDANA MISRA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 65	
0000 A	10341	AYURVEDIYA KRIYA SARIRA (TEXT BOOK OF AYURVEDIYA PHYSIOLOGY)- I VOL.	YOGESH CHANDRA MISRA	Chaukhambha Publications	Rs 595	
0000 A	10342	AYURVEDIYA KRIYA SARIRA (A TEXT BOOK OF AYURVEDIYA PHYSIOLOGY) - II VOL	DR. YOGESH CHANDRA MISHR	Chaukhambha Publications	Rs 695	
0000 A	10343	PADARTHA VIJNANA	YOGESH CHANDRA MISRA	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 575	
0000 A	10344	KAMASARA OF KAMDEVA	AMAL SHIB PATHAK	Chaukhambha Publications	RS 95	
0000 A	10345	SRINGAR KAVYA	AMAL SHIB PATHAK	Chaukhambha Publications	Rs 95	
0000 A	10346	THE CEREMONY OF SACRED THREAD	DR. BRAJA KISHORE SWAIN	Chaukhambha Publications	Rs 275	
0000 A	10347	KAUMARABHRTYA- UPDATED	DR. DINESH K.S.	Chaukhambha Publications	Rs 695	
0000 A	10348	PRECISE NOTES & MCQ'S ON AGAD TANTRA	DR. G. ATULKUMAR	Chaukhambha Publications	Rs 195	
0000 A	10349	ENCYCLOPAEDIC DICTIONARY OF AYURVEDA (DICTIONARY)	DR. KANJIV LOCHAN & DR. P.S. BYADAGI	Chaukhambha Publications	Rs 2995	

0000 A	10350	RECENT ADVANCES IN KSARASUTRA	DR. MARTHA BHASKAR RAO	Chaukhambha Publications	Rs 495	
0000 A	10351	AYURVED PRAVESH PARIKSHA DARPAN (AYURVEDA)	DR. NIRANJAN SARRAF & DR. VANDANA SARRAF	Chaukhambha Publications	Rs 495	
0000 A	10352	108 DIVINE NAMES OF DHANVANTARI	DR. P. RAM MANOHAR	Chaukhambha Publications	Rs 145	
0000 A	10353	PRACTICAL GUIDE TO DRAVYAGUNA VIJNANAM	DR. P. Y. ANSARY	Chaukhambha Publications	Rs 275	
0000 A	10354	KALAZAR IN AYURVEDA	DR. P.S. BYADGI	Chaukhambha Publications	Rs 495	
0000 A	10355	A TEXT BOOK OF DRAVYAGUNA VIJNANA -I VOL.	DR. PRAKASH L. HEGDE & DR. HARINI A.	Chaukhambha Publications	Rs 595	
0000 A	10356	HEALTHY HEALING FOR BETTER LIFE	DR. SANDEEP SHAH	Chaukhambha Publications	Rs 65	
0000 A	10357	PRAKRITI AT A GLANCE	DR. SANDEEP SHAH	Chaukhambha Publications	Rs 65	
0000 A	10358	CARAKA SAMHITA : AT A GLANCE	DR. T. PRASANNA KUMAR	Chaukhambha Publications	Rs 145	
0000 A	10359	VYAVAHARAYURVEDA AND VIDHIVAIDYAK	DR. U R. SEKHAR NAMBURI	Chaukhambha Publications	Rs 495	
0000 A	10360	SWASTHVRITT VIJYAN - HINDI VERSION	DR. VIJAY KR. RAI	Chaukhambha Publications	Rs 595	
0000A	10361	VAAT VYADHI CHIKITSA VIJNANA	DR. VINOD KUMAR SINGH	Chaukhambha Publications	Rs 115	
0000 A	10362	BHASAJYA KALPANA VIJNANA - HINDI	G.P. RAO	Chaukhambha Publications	Rs 495	
0000 A	10363	SWASTHYA SAR	VAIDYA SANDEEP SHAH	Chaukhambha Publications	Rs 65	
0000 A	10364	AYURVEDIC PHARMACOLOGY & THERAPEUTIC USES OF MEDICINAL PLANTS - DRAVYAGUNAVIGNYAN	VAIDYA V. M. GOGTE	Chaukhambha Publications	Rs 1500	
0000 A	10365	A COMPREHENSIVE GUIDE ON CARAKA SAMHITA	VAIDYA VASANT C. PATIL	Chaukhambha Publications	Rs 225	
0000 A	10366	AGAD TANTRA - HINDI	Dr. Nitin Sharma	Chaukhambha Publications	Rs 425	
0000 A	10367	NATYALOCHANAM OF TRILOCANADITYA	AMAL SHIB PATHAK	Chaukhambha Publications	Rs 395	
0000 A	10368	Nagara Sarvaswa of Padmasri (An 11th/Cen. Treatise of Kama Sastra) Text with Eng. Translation.	AMAL SHIB PATHAK	Chaukhambha Publications	**soon**	
0000 A	10369	JANMKUNDALI - GRAHYOGPHAL	PT. CHARAPANI BHATT	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 195	
0000 A	10370	Practical Hand book of Rasashastra & Bhaisajyakalpana	Dr Bharat J. Rathi	Chaukhambha Publications	Rs 495	
0000 A	10371	A Text Book of Shalakya Tantra - Vol.-I (Netra Roga)	Dr. Adikanda Biswal & Dr. Rausmita Rautray	Chaukhambha Publications	Rs 595	
0000 A	10372	A TEXT BOOK OF SHALAKYA TANTRA VOL- II (ENT & HEAD DISORDERS)	Dr. Adikanda Biswal & Dr. Rausmita Rautray	Chaukhambha Publications	Rs 675	
0000 A	10373	SRIMADBHAGVADGITA - ANUKARNIYA SAR TATWA	Dr. Keshavrao Sadashivshastri Musalgaokar	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 695	
0000 A	10374	TARK-SAMGRAHA 'TARK MIMANSA HINDI TIKA'	DR RAJESWAR SASTRI MUSALGAOKAR	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 395	
0000 A	10375	PRINCIPLE & PRACTICE OF PANCHAKARMA-4th Edition	Dr, Vasant C. Patil	Chaukhambha Publications	Rs 795	
0000 A	10376	A TEXT BOOK OF KAYACHIKITSA - VOL.-I	DR. P.S. BYADGI & Dr. A,K. Pandey	Chaukhambha Publications	Rs 595	
0000 A	10377	A TEXT BOOK OF KAYA CHIKITSA - VOL.-II	DR. P.S. BYADGI & Dr. A,K. Pandey	Chaukhambha Publications	Rs 795	
0000 A	10378	HEMORRHOIDS AN AYURVEDIC TEXTUAL CONCORDANCE FROM ASTANG HRIDAYAM	Dr. SUJITHRA RAM MANOHAR	Chaukhambha Publications	Rs 275	

0000 A	10379	M.C.Q.'S ON ASTANGAHRIDAYAM (SUTRA STHANA)	DR. MANISHA G. DHUNGAV	Chaukhambha Publications	Rs 95	
0000 A	10380	SHARANGDHAR SAMHITA 'ADHAMALA TIKA'	PARASHURAM SHASTRI	Chaukhambha Publications	Rs 395	
0000 A	10381	Sarangadhara Samhita of Sarangadharacharya. Sanskrit Text with English Translation	Dr. G. Prabhakar Rao	Chaukhambha Publications	Rs 695	
0000 A	10382	RITUSAMHARAM	Dr. Rajkumar Upadhyay	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 85	
0000 A	10383	TANTRA ME AYURVEDA	S.N. Khandelwal	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Press	
0000 A	10384	VIKRAMOVARSHIYAM	DR. GANGA SAGAR RAI	Chaukhambha Sanskrit Sansthan	Rs 295	
0000 A	10385	AYURVEDIYA KRIYA SHARIRA - Vol.- I - HINDI	PROF. DR. YOGESH CHANDRA MISHRA	Chaukhambha Publications	Rs 795	
0000 A	10386	ASHTANGAHRIDAYA PRASHNAWALI	DR MAMATA MITTAL & DR. RAKESH GUPTA	Chaukhambha Publications	Rs 195	
0000 A	10387	AYURVEIDYA STRIROAGA-VIJNANA (A TEXT BOOK OF AYURVEDIC GYNAECOLOGY)	DR. A. SULOCHANA	Chaukhambha Publications	Rs 595	
0000 A	10388	101 Hit Films Of Indian Cinema English(PB)	Renu Saran	Chaukhambha Publications	195	
0000 A	10389	101 Questions About Sex & Their Answers (E) English(PB)	Brijesh Kumar	Chaukhambha Publications	35	
0000A	10390	108 Income Tax Mantras For Tax Seving PB English	Subhash Lakhotia	Chaukhambha Publications	250	
0000 A	10391	108 Investment Mantras (E) English(PB)	Subhash Lakhotia	Chaukhambha Publications	125	
0000 A	10392	108 Pearls Of wisdom English(PB)	Raghu Korrapati	Chaukhambha Publications	250	
0000 A	10393	201 Diet Tips For Heart Patients (English PB)	Bimal Chhajer	Chaukhambha Publications	150	
0000 A	10394	201 Tips For Blood Pressure (English PB)	Bimal Chhajer	Chaukhambha Publications	150	
0000 A	10395	201 Tips For Diabetes Patients (English PB)	Bimal Chhajer	Chaukhambha Publications	150	
0000 A	10396	201 Tips For Gas Or Acidity English (PB)	Bimal Chhajer	Chaukhambha Publications	150	
0000 A	10397	201 Tips For Loosing Weight (English PB)	Bimal Chhajer	Chaukhambha Publications	150	
0000 A	10398	2012 Universal Doom Or New Age? English(PB)	Kamal Radha Krishan Srimali	Chaukhambha Publications	95	
0000 A	10399	2030 Stories of Tommorow (E) English(PB)	Dayanand Gupta	Chaukhambha Publications	75	
0000 A	10400	3500 Names For Babies (E) English(PB)	Mahesh Dutt Sharma	Chaukhambha Publications	60	
0000 A	10401	351 Effective Letters For Every Occasion (E) English(PB)	Ayushma Sharma	Chaukhambha Publications	125	
0000 A	10402	51 Children Winners Of National Bravery Award PB English	Renu Saran	Chaukhambha Publications	75	
0000 A	10403	60 Ways To Overcome Terrorism & Recession (Jihad) (E) English(PB)	Sunil Prabhakar	Chaukhambha Publications	95	
0000 A	10404	751 Vegetarian Super Cook Book PB English	Neera Kumar	Chaukhambha Publications	200	
0000 A	10405	88 Pearls PB English	Krishan Murari	Chaukhambha Publications	150	
0000 A	10406	A Beacon Of Hope For The Childless Couples English(PB)	Satish Goel	Chaukhambha Publications	60	
0000 A	10407	A Bit Of Love & Small Revolution English(PB)	Pankaj Singh	Chaukhambha Publications	100	
0000 A	10408	A Complete Guide To Biochemic Remedies English(PB)	S K Sharma	Chaukhambha Publications	75	
0000 A	10409	A Complete Guide To Homeopathic Remedies English(PB)	S K Sharma	Chaukhambha Publications	150	
0000 A	10410	A Guide To Network Marketing English(PB)	Surya Sinha	Chaukhambha Publications	100	

0000 A	10411	A Guide To Tax Planning Lower Your Taxes English(PB)	R N Lakhotia	Chaukhambha Publications	100	
0000 A	10412	A Lustful Arson Grihadaha English(PB)	Sharat Chandra Chattopadhyay	Chaukhambha Publications	150	
0000 A	10413	A New Vision Of History English(PB)	R N Vyas	Chaukhambha Publications	150	
0000 A	10414	A Royal Fling Hardly Royal English(PB)	A Varma	Chaukhambha Publications	100	
0000 A	10415	A Splash Of Love English(PB)	Rajiv Ranjan	Chaukhambha Publications	100	
0000 A	10416	A Very Special Wish HB English	Varios	Chaukhambha Publications	475	
0000 A	10417	A whiff of fragrance English(PB)	Ashok Upadhaya	Chaukhambha Publications	100	
0000 A	10418	A+ Manager DNA Decoded English(PB)	Raghu Korrapati	Chaukhambha Publications	150	
0000A	10419	Aage bado Swami Vivekanand PB English	Ramesh Pokhriyal Nishank	Chaukhambha Publications	50	
0000 A	10420	Abhigyan Shakuntalam English(PB)	Kalidas	Chaukhambha Publications	95	
0000 A	10421	Abhimanyu English(PB)	B K Chaturvedi	Chaukhambha Publications	20	
0000 A	10422	Accupuncture And Acupressure Guide English(PB)	Satish Goel	Chaukhambha Publications	150	
0000 A	10423	Accupuncture Guide English(PB)	Satish Goel	Chaukhambha Publications	75	
0000 A	10424	Actually Theres No Problem English(HB)	B S Tirtha Maharaj	Chaukhambha Publications	400	
0000 A	10425	Actually Theres No Problem English(PB)	B S Tirtha Maharaj	Chaukhambha Publications	200	
0000 A	10426	Add Inches English(PB)	S K Sharma	Chaukhambha Publications	60	
0000 A	10427	Advanced Ephemeries English(PB)	Kewal Anand Joshi	Chaukhambha Publications	150	
0000 A	10428	Advanced Sudoku English(PB)	Naresh Mohan Lal Sood	Chaukhambha Publications	75	
0000 A	10429	Adventures With Evil Spirits English (PB)	Joseph J Ghosh	Chaukhambha Publications	80	
0000 A	10430	Aesop Educative Stories English(PB)	Prakash Mannu	Chaukhambha Publications	35	
0000 A	10431	Aesop Entertaining Stories English(PB)	Prakash Mannu	Chaukhambha Publications	35	
0000 A	10432	Aesop Inspiring Stories English(PB)	Prakash Mannu	Chaukhambha Publications	35	
0000 A	10433	Aesop Interesting Stories English(PB)	Prakash Mannu	Chaukhambha Publications	35	
0000 A	10434	Aesop The Best Stories English(HB)	Prakash Mannu	Chaukhambha Publications	175	
0000 A	10435	After All You Are My Destiny PB English	Satya Pal Chandra	Chaukhambha Publications	125	
0000 A	10436	Agni Purana English(PB)	B K Chaturvedi	Chaukhambha Publications	95	
0000 A	10437	Ailet (Guide) PB English	Arvind Mohan Dwivedi	Chaukhambha Publications	400	
0000 A	10438	Ailet (PTP) PB English	Arvind Mohan Dwivedi	Chaukhambha Publications	150	
0000 A	10439	Aim High For Bigger Win English(PB)	Tarun Engineer	Chaukhambha Publications	125	
0000 A	10440	Akbar Birbal English(HB)	Rachna Bhola Yamini	Chaukhambha Publications	175	
0000 A	10441	Akbar Birbal Jokes 1 English(PB)	B K Chaturvedi	Chaukhambha Publications	20	
0000 A	10442	Akbar Birbal Jokes 2 English(PB)	B K Chaturvedi	Chaukhambha Publications	20	
0000 A	10443	Akbar Birbal Jokes 4 English(PB)	B K Chaturvedi	Chaukhambha Publications	20	
0000 A	10444	Akhilesh Yadav English(PB)	Yagya Dutt Sharma	Chaukhambha Publications	150	

0000 A	10445	All About Female Sexual Disorders English(PB)	Satish Goel	Chaukhambha Publications	45	
0000 A	10446	All In One PB English		Chaukhambha Publications	80	
0000 A	10447	All The Secrets Of Palmistry English(PB)	Dayanand Verma	Chaukhambha Publications	195	
0000A	10448	Allah To Zen English(PB)	Chetan Unmani	Chaukhambha Publications	150	
0000 A	10449	Allergy English(PB)	Bimal Chhajer	Chaukhambha Publications	50	
0000 A	10450	Ambani And Ambani English(PB)	Tarun Engineer	Chaukhambha Publications	95	
0000 A	10451	An Encounter with Pakistan Reality English(PB)	Satish Verma	Chaukhambha Publications	300	
0000 A	10452	An Eternal Love Story PB English	Amit Khan	Chaukhambha Publications	125	
0000 A	10453	And Miles To Go Before I Sleep PB English	Saurabh Kumar Roy	Chaukhambha Publications	175	
0000 A	10454	And The Flowers Showered English(PB)	Osho	Chaukhambha Publications	250	
0000 A	10455	And The Reason is You English(PB)	Upasana Gupta	Chaukhambha Publications	125	
0000 A	10456	Angel Of Love And Life PB English	Prabhakar Singh	Chaukhambha Publications	100	
0000 A	10457	Anger English(PB)	Bimal Chhajer	Chaukhambha Publications	50	
0000 A	10458	Animals Colouring & Activity Book English(PB)			25	
0000 A	10459	Anna Hazare English(PB)	Prateeksha M Tiwari		95	
0000 A	10460	Anti Hindus English (PB)	Prafull Goradia		150	
0000 A	10461	Anti Social English(PB)	Sumer Chand		150	
0000 A	10462	Antioxidants The Wonder Food English(PB)	Bimal Chhajer		50	
0000 A	10463	APJ Abdul Kalam English(PB)	Renu Saran		30	
0000 A	10464	APJ. Abdul Kalam English(PB)	Renu Saran		40	
0000 A	10465	Arabian Night 1 English (PB)			35	
0000 A	10466	Arabian Night 2 English (PB)			35	
0000 A	10467	Arabian Night 3 English (PB)			35	
0000 A	10468	Arabian Night 4 English (PB)			35	
0000 A	10469	Arabian Night English (HB)	Prakash Manu		175	
0000 A	10470	Are you the one for me (E) English(PB)	Chital Mehta		100	
0000 A	10471	Aroma Therapy English(PB)	Shiv Sharma		95	
0000 A	10472	Arvind Kejriwal PB English	Arvind Mohan Dwivedi		125	
0000 A	10473	Asatyam @ Satyam English(PB)	Anand Kumar		95	
0000 A	10474	Assistant In United India Insurance (10 PTP) 2015 PB English	Vikas Doon		130	
0000 A	10475	Assistant Loco Pilot and Technician (Guide) PB English	Arvind Mohan Dwivedi		200	
0000 A	10476	Assistant Loco Pilot And Technician Practice Test Paper PB English	Arvind Mohan Dwivedi		115	
0000A	10477	Asthmaallergies (Causes & Cure) English(PB)	Shiv Sharma		95	
0000 A	10478	Astrology And Wealth English(PB)	Bhojraj Dwivedi		125	
0000 A	10479	Astrology The Third Eye Of The Vedas English(PB)	Gopal Das Neeraj		95	
0000 A	10480	At The Feet Of The Master (Manal Reiki) English(PB)	Madabusi Sabramaniam		195	
0000 A	10481	Atharveda English(PB)	Rajbali Pandey		125	
0000 A	10482	Attractive Bindiyan English(PB)	Vandana Gang		40	
0000 A	10483	Aura A Spectrum Of Colors English(PB)	Jasnita Walia		45	
0000 A	10484	Aushadh Darshan English(PB)	Ramdev		50	
0000 A	10485	Ayodhya War & Peace English(PB)	Sri Sri Ravishankar Ji		200	
0000 A	10486	Ayurvedic Treatment For Common Diseases English(PB)	Vipul Rao		150	

0000 A	10487	Ayurvediya Garbhsanskar English (PB)	Abhay Kulkarni		275	
0000 A	10488	Baba Ramdev Resurgence of now india freedom movement 2 English(PB)	K.C. Mahendru		295	
0000 A	10489	Back Pain English(PB)	Bimal Chhajer		50	
0000 A	10490	Backache (Spondylitis Cervical Arthritis Gout Rheumatism) English(PB)	Nistha		125	
0000 A	10491	Bad Shayari Sms English(PB)	Kuldeep Saluja		20	
0000 A	10492	Bauls The Dancing Mystics English(PB)	Osho		95	
0000 A	10493	Bauls the Mystics Of Celebration English(PB)	Osho		95	
0000 A	10494	Bauls The Seekers Of The Path English(PB)	Osho		95	
0000 A	10495	Bauls The Singing Mystics English(PB)	Osho		95	
0000 A	10496	Be Oceanic English(PB)	Osho		95	
0000 A	10497	Be Smart Know Your Income Tax 2011-2012 English(PB)	R N Lakhotia		150	
0000 A	10498	Be Young & Healthy For 100 Years English(PB)	Pushpa Khurana		75	
0000 A	10499	Be Your Own Astrologer Ascendant Aries English(PB)	Bhojraj Dwivedi		150	
0000 A	10500	Be Your Own Astrologer Ascendant Cancer English(PB)	Bhojraj Dwivedi		150	
0000 A	10501	Be Your Own Astrologer Ascendant Capricorn English(PB)	Bhojraj Dwivedi		150	
0000 A	10502	Be Your Own Astrologer Ascendant Gemini English(PB)	Bhojraj Dwivedi		150	
0000 A	10503	Be Your Own Astrologer Ascendant Leo English(PB)	Bhojraj Dwivedi		150	
0000 A	10504	Be Your Own Astrologer Ascendant Pisces English(PB)	Bhojraj Dwivedi		150	
0000 A	10505	Be Your Own Astrologer Ascendant Scorpio English(PB)	Bhojraj Dwivedi		150	
0000A	10506	Be Your Own Astrologer Ascendant Virgo English(PB)	Bhojraj Dwivedi		150	
0000 A	10507	Be Your Own Doctor English(PB)	Kanta Gupta		75	
0000 A	10508	Beat The Academic Exam The Smart Way English(PB)	Sunil Vaid		50	
0000 A	10509	Beat The Entrance Exam The Smart Way English(PB)	Sunil Vaid		50	
0000 A	10510	Beloved Osho English(PB)	Ageh Bharti		150	
0000 A	10511	Beyond The Enlightenment PB English	Osho		495	
0000 A	10512	Bhagat Singh English(PB)	Simran		30	
0000 A	10513	Bhagat Singh English(PB)	Bhawan Singh Rana		95	
0000 A	10514	Bhajan Lokgeet Or Aartiyan English(PB)			150	
0000 A	10515	Bharat ki Aasha Narender Modi PB English	Manish Kumar		50	
0000 A	10516	Bharat Ratna Madan Mohan Malviya PB ENGLISH	Swati Upadhaya		30	
0000 A	10517	Bhavishya Purana English(PB)	B K Chaturvedi		95	
0000 A	10518	Big and Little HB English	Ana Martin Larranaga		250	
0000 A	10519	Big Boss English(PB)	MVP		100	
0000 A	10520	Bikes Beers And A Babe English PB	Junaid A Tagala		100	
0000 A	10521	Billoo and Wonder PB English	Pran		35	
0000 A	10522	Billoo Coconut Tree PB English	Pran		50	
0000 A	10523	Billoo Digest 1 PB English	Pran		100	
0000 A	10524	Billoo Digest -2 PB English	Pran		100	
0000 A	10525	Billoo Ki Girlfriend PB English	Pran		50	
0000 A	10526	Billoo Short Break PB English	Pran		35	
0000 A	10527	Binayak Sen Animy & Friends English(PB)	Arvind Kumar		125	
0000 A	10528	Birbals Wit English(PB)			35	

0000 A	10529	Birthday Gift PB English	Alok Chaudhary		250	
0000 A	10530	Blessed Days With Osho (English PB)	Ageh Bharti		200	
0000 A	10531	Blessings Of Love PB English	Prabhakar Singh		0	
0000 A	10532	Bloody Merit Scholars English(PB)	Amitabh Kumar		100	
0000 A	10533	Body Language (E) English(PB)	Jagdish Sharma		125	
0000 A	10534	Book Of Love English(PB)	Mariya Shaws		150	
0000A	10535	Brahamvevart Purana English(PB)	B K Chaturvedi		75	
0000 A	10536	Breakfast for the Soul English(PB)	Subhash Lakhotia		150	
0000 A	10537	Breakfast Specialties English(PB)	Neera Verma		50	
0000 A	10538	Breeze From A Distant Land PB English	Aruna Sitesh		150	
0000 A	10539	Buddha The Manifestation Of Silence English(PB)	Sri Sri Ravishankar Ji		99	
0000 A	10540	Buddhism (Teachings Of Buddha) English(PB)	Manan Sharma		150	
0000 A	10541	Building A Nation (Essays On India) English(PB)	Yogesh Atal		95	
0000 A	10542	Building Construction English(PB)	Kuldeep Saluja		95	
0000 A	10543	By Lantern Light English(HB)	Cat Weatherill & Alison Edgson		425	
0000 A	10544	By the Light of The Silvery M English(HB)			299	
0000 A	10545	Care After English (PB)	Bimal Chhajer		50	
0000 A	10546	Cartoon Colouring Book 1 PB English			35	
0000 A	10547	Cartoon Colouring Book 2 PB English			35	
0000 A	10548	Cartoon Colouring Book 3 PB English			35	
0000 A	10549	Cartoon Colouring Book 4 PB English			35	
0000 A	10550	Causes & Cure Of Blood Pressure English(PB)	Satish Goel		75	
0000 A	10551	Causes & Cure Of Heart Ailments English(PB)	Satish Goel		60	
0000 A	10552	Causes & Cure Of Stress (Migraine & Headache English(PB)	Shiv Sharma		95	
0000 A	10553	Causes & Possible Prevention Of Asthma And Allergies English(PB)	Brijesh Kumar		45	
0000 A	10554	Causes Cure & Prevention Of Childrens Diseases English(PB)	Rajeev Sharma		95	
0000 A	10555	Causes Cure & Prevention Of High Blood Cholestrol English(PB)	M K Gupta		95	
0000 A	10556	Causes Cure & Prevention Of Nervous Diseases English(PB)	Shiv Sharma		95	
0000 A	10557	Cc Cuddly Bunny Cloth English(HB)			159	
0000 A	10558	Cc Cuddly Kitten Cloth English(HB)			159	
0000 A	10559	Cc Cuddly Puppy Cloth English(HB)			159	
0000 A	10560	Cc Jolly Snowman Cloth English(HB)			159	
0000 A	10561	CCC Course On Computer Concept PB English			190	
0000 A	10562	CCC Course On Computer Concepts (Practice Test Papers) PB English	Arvind Mohan Dwivedi		70	
0000 A	10563	Cervical Spondylosis English(PB)	Bimal Chhajer		50	
0000A	10564	Chacha Chaudhary & Mr. X English	Pran		50	
0000 A	10565	Chacha Chaudhary and Prof Bad PB English	Pran		50	
0000 A	10566	Chacha Chaudhary Big Head Comics PB English	Pran		35	
0000 A	10567	Chacha Chaudhary Digest -1 PB English	Pran		100	
0000 A	10568	Chacha Chaudhary Digest -2 PB English	Pran		100	
0000 A	10569	Chacha Chaudhary Digest -3 PB English	Pran		100	

0000 A	10570	Chacha Chaudhary Digest -4 PB English	Pran		100	
0000 A	10571	Chacha Chaudhary Fack Currency PB English	Pran		35	
0000 A	10572	Chacha Chaudhary Football World Cup PB English	Pran		35	
0000 A	10573	Chacha Nehru English(PB)			15	
0000 A	10574	Chakmak Shayri Sms English(PB)	Kuldeep Saluja		20	
0000 A	10575	Chalisa Sangreh (Including Aarties In Roman) English(PB)			95	
0000 A	10576	Chanakya English(PB)	B K Chaturvedi		95	
0000 A	10577	Chanakya English(PB)	Renu Saran		30	
0000 A	10578	Chanakya English(PB)	Renu Saran		40	
0000 A	10579	Chanakya Neeti English(PB)	B K Chaturvedi		150	
0000 A	10580	Chanakya The Great PB English	Rajeshwar Mishra		250	
0000 A	10581	Chandra Shekhar Azad (An Immortal Revolutionary Of India) English(PB)	Bhawan Singh Rana		95	
0000 A	10582	Change Your Name Change Your Fate English(PB)	Bhojraj Dwivedi		150	
0000 A	10583	Channelizing self for success English(PB)	Kapil Kakar		125	
0000 A	10584	Chatrapati Shayari Sms English(PB)	Kuldeep Saluja		20	
0000 A	10585	Cheiros Astrology English(PB)	Cheiro		150	
0000 A	10586	Cheiros Numerology English(PB)	Cheiro		95	
0000 A	10587	Cherios Astro Numerology & Your Star English(PB)	Cheiro		150	
0000 A	10588	Chess For Pleasure English(PB)	B R Kishore		60	
0000 A	10589	Chhatrapati Shivaji English(PB)	Bhawan Singh Rana		95	
0000 A	10590	Children Development English(PB)	Hare Ram Singh		150	
0000 A	10591	Chilly Shayari Sms English(PB)	Kuldeep Saluja		20	
0000 A	10592	Chinese Cook Book English(PB)	Neera Verma		35	
0000A	10593	Cholestrol & Fats English(PB)	Bimal Chhajer		50	
0000 A	10594	Choose Your Career English(PB)	Renu Saran		125	
0000 A	10595	Christmas Stencils HB English	Maria Maddocks		280	
0000 A	10596	Christmas With You HB English	Julia Hubery & Sophy Williams		500	
0000 A	10597	CISF Constable PB ENGLISH	Vikas Doon		200	
0000 A	10598	CISF Contable PTP PB English	Vikas Doon		80	
0000 A	10599	Clat (PTP) PB English	Arvind Mohan Dwivedi		180	
0000 A	10600	Click Clock Crocodiles Back	Goellebrei demy		175	
0000 A	10601	Come On Get Set Go English(PB)	Sailesh Lodha		195	
0000 A	10602	Command Your Destiny PB English	Ashok Gupta		175	
0000 A	10603	Commercial Vaastu English(PB)	Bhojraj Dwivedi		200	
0000 A	10604	Common Diseases & Urinary System (Prevention & Cure) English(PB)	S K Sharma		95	
0000 A	10605	Common Diseases Of Women English(PB)	Renu Gupta		95	
0000 A	10606	Common English Error English(PB)	Rewa Bhasin		150	
0000 A	10607	Common Law Admision Test PB English	Arvind Mohan Dwivedi		415	
0000 A	10608	Commonwealth Games 2010 English(PB)	Rajiv Tiwari		125	
0000 A	10609	Complete Beautician Course English(PB)	Renu Gupta		95	
0000 A	10610	Complete Personality Development Course English(PB)	Surya Sinha		150	
0000 A	10611	Comprehensive Definicional Gloffry (PB) English	Arvind Mohan Dwivedi		99	
0000 A	10612	Comprehensive Vaastu English(PB)	Gopal Sharma		150	
0000 A	10613	Computer Programming And Operating Guide English(PB)	Shashank Johri		60	
0000 A	10614	Constipation English(PB)	Bimal Chhajer		50	

0000 A	10615	Corporal Punishment In School PB English	Parminder Singh Bullar		195	
0000 A	10616	Corporate Guru Dhirubhai Ambani English(PB)	Prateeksha M Tiwari		125	
0000 A	10617	Crazy Shayari Sms English(PB)	Kuldeep Saluja		20	
0000 A	10618	Creation Srishti Vignana English(PB)	Sri Sri Ravishankar Ji		200	
0000 A	10619	Crispy Jokes (English PB)	G C Goyal		60	
0000 A	10620	Crossing The Line English Pb	Aabhas K Maldahiyar		100	
0000 A	10621	CTET Class I-V (Guide) Primary Section PB English			370	
0000A	10622	CTET Class I-V (Practice Test Papers) Primary Section PB English			130	
0000 A	10623	CTET Class VI-VIII (Practice Test Papers) Science & Maths PB English			130	
0000 A	10624	CTET Class VI-VIII (Practice Test Papers) Social Studies PB English			130	
0000 A	10625	Cuddly Cuffs Cluck English(HB)			159	
0000 A	10626	Cuddly Cuffs Hee Haw English(HB)			159	
0000 A	10627	Cuddly Cuffs Moo English(HB)			159	
0000 A	10628	Cure Diabetes English(PB)	Bimal Chhajer		50	
0000 A	10629	Current Affairs English Magazine PB			20	
0000 A	10630	Current Affairs Mennual 2015			200	
0000 A	10631	Daily Prayer English(PB)	Vipul Rao		40	
0000 A	10632	Daisys Fairy Flowers English(HB)			159	
0000 A	10633	Damiel Black English(PB)	Kevin		100	
0000 A	10634	Dancing to Your Hearts Desire English(PB)	Lakshmi Hichkad		100	
0000 A	10635	Dare To Dream Dare To Excel English(PB)	Harikrishan Devsare		95	
0000 A	10636	Davids Dream Team Zinis All English(HB)			375	
0000A	10637	Dayanand Saraswati English(PB)	Simran		30	
0000 A	10638	Deewano Ki Shayari Sms English(PB)	Kuldeep Saluja		20	
0000 A	10639	Delhi A Travel Guide English(PB)	Rajiv Tiwari		125	
0000 A	10640	Delicious Indian Sweets English(PB)	Neera Verma		50	
0000 A	10641	Delighting Jokes English(PB)	G C Goyal		60	
0000 A	10642	Delighting Tales Of Tenalirama English(PB)	Giriraj Sharan Agarwal		25	
0000 A	10643	Depression English(PB)	Bimal Chhajer		50	
0000 A	10644	Devi Bhagwat Purana English(PB)	B K Chaturvedi		95	
0000 A	10645	Devi's Tantra PB English	Azima V Rosciano		250	
0000 A	10646	Dhyan Yog (English PB)	Dayanand Verma		60	
0000 A	10647	Diabities Type 1 & 2 PB English	Biswaroop Roy Choudhray		150	
0000 A	10648	Diamond Angloa Assamese Pocket Dictionary English(PB)	H Dihingia		75	
0000 A	10649	Diamond Annual Horoscop 2015 PB English	Bhojraj Dwivedi		250	
0000 A	10650	Diamond Annual Horoscope 2012 English(PB)	Bhojraj Dwivedi		195	
0000 A	10651	Diamond Annual Horoscope 2013 English PB	Bhojraj Dwivedi		195	
0000 A	10652	Diamond Assamese Learning & Speaking Course Thorough English English(PB)	Debajit Saikia		50	
0000 A	10653	Diamond Bangla Dictionaries PB English	Sumana Chakraborty		195	
0000 A	10654	Diamond Body Building Course English(PB)	Manoj Kumar		95	
0000 A	10655	Diamond Easy Sudoku English(PB)	Naresh Mohan Lal Sood		60	
0000 A	10656	Diamond English English Dictionary English(PB)	Renu Saran		99	

0000 A	10657	Diamond English English Hindi Dictionary English(HB)	Baljit Singh		250	
0000 A	10658	Diamond Gem English Dictionary English(PB)	Baljit Singh		70	
0000 A	10659	Diamond History Quiz Book English(PB)	Anuj Goswami		125	
0000 A	10660	Diamond Horoscope 2015 (Aquarius) PB English	Bhojraj Dwivedi		50	
0000 A	10661	Diamond Horoscope 2015 (Aries) English PB	Bhojraj Dwivedi		50	
0000 A	10662	Diamond Horoscope 2015 (Cancer) English PB	Bhojraj Dwivedi		50	
0000 A	10663	Diamond Horoscope 2015 (Capricorn) PB English	Bhojraj Dwivedi		50	
0000 A	10664	Diamond Horoscope 2015 (Gemini) English PB	Bhojraj Dwivedi		50	
0000 A	10665	Diamond Horoscope 2015 (Pisces) PB English	Bhojraj Dwivedi		50	
0000A	10666	Diamond Horoscope 2015 (Scorpio) PB English	Bhojraj Dwivedi		50	
0000 A	10667	Diamond Horoscope 2015 (Taurus) English PB	Bhojraj Dwivedi		50	
0000 A	10668	Diamond Horoscope 2015 PB (Leo)	Bhojraj Dwivedi		50	
0000 A	10669	Diamond Horoscope 2015 PB (Libra) English	Bhojraj Dwivedi		50	
0000 A	10670	Diamond Horoscope 2015 PB (Sagittaurus) English	Bhojraj Dwivedi		50	
0000 A	10671	Diamond Horoscope 2015 PB (Virgo) English	Bhojraj Dwivedi		50	
0000 A	10672	Diamond Mini English English Hindi (Dictionery) English(PB)	Baljit Singh		95	
0000 A	10673	Diamond Pocket Dictionary English(PB)			40	
0000 A	10674	Did She Love Me English(PB)	Jyormoy Mazumdar		100	
0000 A	10675	Diet For Healthy Heart English(PB)	Bimal Chhajer		50	
0000 A	10676	Diet Management Guide English(PB)	Rajeev Sharma		195	
0000 A	10677	Dirty Bertie Pants English(PB)	David Roberts		99	
0000 A	10678	Dirty Bertie Worms	David Roberts		99	
0000 A	10679	Discovery Of Independent India English(PB)	Joginder Singh		195	
0000 A	10680	Diseases Of Digestive System English(PB)	Shiv Sharma		95	
0000 A	10681	Diseases Of Respiratory Tract (Nose Throat Chest And Lungs) English(PB)	Nistha		95	
0000 A	10682	Divine Revelations Of A Sai Devotee English(PB)	Satya Pal Ruhela		95	
0000 A	10683	Donald Duck And The Cellular Chase Issue XVIII English(PB)			25	
0000 A	10684	Donald Duck And The Telemystery Issue XIX English(PB)			25	
0000 A	10685	Donald Duck Digest I English(PB)			90	
0000 A	10686	Donald Duck Issue I English(PB)			25	
0000 A	10687	Donald Duck Issue II English(PB)			25	
0000 A	10688	Donald Duck Issue III English(PB)			25	
0000 A	10689	Donald Duck Issue IV English(PB)			25	
0000 A	10690	Donald Duck Issue IX English(PB)			25	
0000 A	10691	Donald Duck Issue V English(PB)			25	
0000 A	10692	Donald Duck Issue VI English(PB)			25	
0000 A	10693	Donald Duck Issue VII English(PB)			25	
0000 A	10694	Donald Duck Issue VIII English(PB)			25	
0000A	10695	Donald Duck Issue X English(PB)			25	
0000 A	10696	Donald Duck Issue XI English(PB)			25	
0000 A	10697	Donald Duck Issue XII English(PB)			25	
0000 A	10698	Donald Duck Issue XIII English(PB)			25	
0000 A	10699	Donald Duck Issue XIV English(PB)			25	

0000 A	10700	Donald Duck Issue XV English(PB)			25	
0000 A	10701	Donald Duck Issue XVI English(PB)			25	
0000 A	10702	Donald Duck Issue XVII English(PB)			25	
0000 A	10703	Donald Duck Issue XXII English(PB)			25	
0000 A	10704	Dont Wake the Lion HB English	Anna Claybourne		375	
0000 A	10705	Double Your Growth PB English	Vivek Bindra		150	
0000 A	10706	Dr Sunil Jogis Badhai Bhare Sms English(PB)	Sunil Jogi		15	
0000 A	10707	Dr Sunil Jogis Chahat Bhare Sms English(PB)	Sunil Jogi		15	
0000 A	10708	Dr Sunil Jogis Eahsas Bhare Sms English(PB)	Sunil Jogi		15	
0000 A	10709	Dr Sunil Jogis Mohabbat Bhare Sms English(PB)	Sunil Jogi		15	
0000 A	10710	Dr Sunil Jogis Pyaar Bhare Sms English(PB)	Sunil Jogi		20	
0000 A	10711	Dr Sunil Jogis Shayari Bhare Sms English(PB)	Sunil Jogi		20	
0000 A	10712	Dr Sunil Jogis Thahakon Bhare Sms English(PB)	Sunil Jogi		15	
0000 A	10713	Dr Sunil Jogis Vyangya Bhare Sms English(PB)	Sunil Jogi		15	
0000 A	10714	Dr. Radhakrishnan English(PB)	Renu Saran		30	
0000 A	10715	Dr. Radhakrishnan English(PB)	Renu Saran		40	
0000 A	10716	Dragon and Fire Hard English(PB)	Abhishek Chaudhary		100	
0000 A	10717	Dreams Are Worth Chasing English(PB)	Alok Bhattacharya		100	
0000 A	10718	Dressing Room English(PB)	Abhishek Dubey		195	
0000 A	10719	DSSSB/AIIMS Staff Nurse PTP PB English	Vikas Doon		100	
0000 A	10720	Dubai On Wheels English(PB)	Shamlal Puri		100	
0000 A	10721	Durgesh Nandani English(PB)	Bankim Chandra Chattopadhyay		95	
0000 A	10722	Dying at 19 English(PB)	Alokita Sharma		100	
0000 A	10723	Dynamic Business Letter Writing English(PB)	B R Kishore		95	
0000A	10724	Dynamic Memory 100% Success In Exams English(PB)	Tarun Chakrabroty		95	
0000 A	10725	Dynamic Memory Advance Dtp Course English(PB)	Davinder Singh Minhas		225	
0000 A	10726	Dynamic Memory Common Error In English English(PB)	Tarun Chakrabroty		110	
0000 A	10727	Dynamic Memory Computer Course 7 (E)	Biswaroop Roy Choudhray		350	
0000 A	10728	Dynamic Memory Computer Course Old English (PB)	Biswaroop Roy Choudhray		275	
0000 A	10729	Dynamic Memory Computer Dictionery English(PB)	Tarun Chakrabroty		110	
0000 A	10730	Dynamic Memory Computer Hardware and networking English(PB)	Davinder Singh Minhas		150	
0000 A	10731	Dynamic Memory Computer Made Easy English(PB)	Davinder Singh Minhas		150	
0000 A	10732	Dynamic Memory Create Your Own Website (3 In 1) English(PB)	Davinder Singh Minhas		110	
0000 A	10733	Dynamic Memory Essay & Letter Writing (For Primary) English(PB)	Mamta Chaturvedi		75	
0000 A	10734	Dynamic Memory Essay & Letter Writing In Just 20 Minutes A Day(For Secondary) English(PB)	Mamta Chaturvedi		75	
0000 A	10735	Dynamic Memory Essay Letter & Paragraph Writing In Just 20 Minutes A Day (For Senior Level)	Mamta Chaturvedi		95	
0000 A	10736	Dynamic Memory Golden Book Of Proverbs English(PB)	Ayushma Sharma		125	
0000 A	10737	Dynamic Memory How To Succeed In Share Market English(PB)	Tarun Chakrabroty		95	
0000 A	10738	Dynamic Memory Internet & Email English(PB)	Davinder Singh Minhas		110	

0000 A	10739	Dynamic Memory Internet Dictionery English(PB)	Tarun Chakrabroty		110	
0000 A	10740	Dynamic Memory M S Access English(PB)	Davinder Singh Minhas		60	
0000 A	10741	Dynamic Memory M S Excel 2010 English(PB)	Davinder Singh Minhas		60	
0000 A	10742	Dynamic Memory M S Word 2010 English(PB)	Davinder Singh Minhas		60	
0000 A	10743	Dynamic Memory Magic Tricks English(PB)	Tarun Chakrabroty		95	
0000 A	10744	Dynamic Memory Methods (E) English(PB)	Biswaroop Roy Choudhray		150	
0000 A	10745	Dynamic Memory Microsoft Office 2003 English(PB)	Davinder Singh Minhas		150	
0000 A	10746	Dynamic Memory Modern Paragraph Writing-Junior Level English(PB)	Rewa Bhasin		75	
0000 A	10747	Dynamic Memory Modern Paragraph Writing-Secondary Level English(PB)	Rewa Bhasin		75	
0000 A	10748	Dynamic Memory Modern Paragraph Writing-Senior Level English(PB)	Rewa Bhasin		75	
0000 A	10749	Dynamic Memory Perfect Spoken English English(PB)	Tarun Chakrabroty		110	
0000 A	10750	Dynamic Memory Practical English English Dictionary English(PB)	Renu Saran		95	
0000 A	10751	Dynamic Memory Self Letter Drafting Course English(PB)	Biswaroop Roy Choudhray		160	
0000 A	10752	Dynamic Memory Success In Exams With Better Marks English(PB)	Vijay Anand		75	
0000A	10753	Dynamic Memory Sure Success In Interview (E) English(PB)	Tarun Chakrabroty		125	
0000 A	10754	Dynamic Memory Synonyms & Antonyms English(PB)	Tarun Chakrabroty		125	
0000 A	10755	Dynamic Memory Top Essays For Competitive Exams English(PB)	Renu Saran		150	
0000 A	10756	Dynamic Memory Windows 98/Xp & Internet English(PB)	Davinder Singh Minhas		110	
0000 A	10757	Dynamic Memory Windows Vista & Office 2007 English(PB)	Davinder Singh Minhas		200	
0000 A	10758	Early Bird : 123 Sea HB English	Julie Fletcher		250	
0000 A	10759	Early Bird : Cuddle,Cuddle, Little Friends HB English	Julie Fletcher		250	
0000 A	10760	Early Bird : Hop in the Garden HB English	Julie Fletcher		250	
0000 A	10761	Early Bird : Jungle Colours HB English	Julie Fletcher		250	
0000 A	10762	Early Bird : Tweet,Tweet in The Tree HB English	Julie Fletcher		250	
0000 A	10763	Earthy Tones (English HB)	Gurudyal Singh		195	
0000 A	10764	Earthy Tones (English PB)	Gurudyal Singh		95	
0000 A	10765	Easy Guide To Feng Shui English(PB)	Rekha Kale		95	
0000 A	10766	Easy Guide To Reiki English(PB)	Rekha Kale		125	
0000 A	10767	Easy Guide To Relationship Building English(PB)	Rekha Kale		95	
0000 A	10768	Ecstasy The Language Of Existence English(PB)	Osho		95	
0000 A	10769	Education A Reflection Of Life English(PB)	Sudarshan Ji		100	
0000 A	10770	Educative Jatak Tales English(PB)	Pratibha Kasturiya		35	
0000 A	10771	Educative Tales Of Bible English(PB)			35	
0000 A	10772	Educative Tales Of Panchtantra English(PB)	Pratibha Kasturia		35	
0000 A	10773	Ek Bharat Shresht Bharat English PB	Pradeep Pandit		250	
0000 A	10774	Ek Onkar Satnam English(HB)	Narinder Nirchhal		395	
0000 A	10775	Eklavya (Children Biography) PB English	Renu Saran		30	

0000 A	10776	Eklavya English(PB)	B K Chaturvedi		20	
0000 A	10777	English Grammer For School PB English	Pradeep Rohilla		200	
0000 A	10778	Enhance Your Sexual Potency English(PB)	Brijesh Kumar		35	
0000 A	10779	Enhance Your Vocalburay English(PB)	Rewa Bhasin		150	
0000 A	10780	Enlightenment An Inside Story PB English	Sadguru		225	
0000 A	10781	Entertaining Jatak Tales English(PB)	Pratibha Kasturiya		35	
0000A	10782	Entertaining Tales From Tenalirama English(PB)	Giriraj Sharan Agarwal		25	
0000 A	10783	Entertaining Tales Of Hitopdesh English(PB)	Pratibha Kasturiya		35	
0000 A	10784	Entertaining Tales Of Panchtantra English(PB)	Pratibha Kasturia		35	
0000 A	10785	Entertaining Tales Of Tenalirama English(PB)	Pratibha Kasturiya		35	
0000 A	10786	Entertaining Tales Of Vikram Betal English(PB)	Pratibha Kasturiya		35	
0000 A	10787	Essenge Of Vedas English(PB)	B R Kishore		250	
0000 A	10788	Eternal Celebration English(PB)	Osho		95	
0000 A	10789	Everyday Complete Letter Writing (E) English(PB)	B R Kishore		75	
0000 A	10790	Exercise Management Guide English(PB)	Rajeev Sharma		150	
0000 A	10791	Exrcise Constable & Lady Exrcise Constable (West Bengal Police) English (PB)			200	
0000 A	10792	Eyecare (Better Eyesight Without Glasses) English(PB)	Shiv Sharma		95	
0000 A	10793	Facts Compendium PB English			110	
0000 A	10794	Fairy Tales Colouring & Activity Book English(PB)			25	
0000 A	10795	Fall In Love With Your Wife English(PB)	Prashant Sagar Rao		50	
0000 A	10796	Family Homeopathic Guide English(PB)	S K Sharma		95	
0000 A	10797	Family Planning & Birth Control English(PB)	Satish Goel		45	
0000 A	10798	Famous Indian Women English(PB)	Renu Saran		125	
0000 A	10799	Fasts & Festivals Of India English(PB)	Manish Verma		95	
0000 A	10800	Fengshui Chinese Vaastu For Better Living & Prosperity English(PB)	Bhojraj Dwivedi		195	
0000 A	10801	Festival Of India 2 English(HB)	Priyanka		300	
0000 A	10802	Festivals Of India Baisakhi English(PB)			40	
0000 A	10803	Festivals Of India Chirsmas English(PB)			40	
0000 A	10804	Festivals Of India Diwali English(PB)			50	
0000 A	10805	Festivals Of India Durga Puja English(PB)			40	
0000 A	10806	Festivals Of India Dussehra English(PB)			40	
0000 A	10807	Festivals Of India Eid English(PB)			40	
0000 A	10808	Festivals Of India Ganesh Chaturthi English(PB)			40	
0000 A	10809	Festivals Of India Guru Parv English(PB)			40	
0000 A	10810	Festivals Of India Holi English(PB)			40	
0000A	10811	Festivals Of India Krishan Janamastami English(PB)			40	
0000 A	10812	Festivals Of India Navratra English(PB)			50	
0000 A	10813	Festivals Of India Onam English(PB)			40	

0000 A	10814	Festivals Of India Pongal English(PB)			40	
0000 A	10815	Fidgety Fish(PB)	Ruth Galloway		199	
0000 A	10816	Film Actors English(PB)	Renu Saran		195	
0000 A	10817	Film Actresses English(PB)	Renu Saran		195	
0000 A	10818	Filmi Non Filmi Songs (With Their Notations) English(PB)	Mamta Chaturvedi		250	
0000 A	10819	First Aid Guide English(PB)	Rajeev Sharma		75	
0000 A	10820	Five Cheeky Monkeys (Sound Book) English(HB)			280	
0000 A	10821	Five Tumbling Tigers HB English	Debbie Tarbett		280	
0000 A	10822	Fixer English(PB)	Sunil Vaid		150	
0000 A	10823	Flash Point (English PB)	Mainak Dhar		195	
0000 A	10824	Fly Without Wings English(PB)	Osho		95	
0000 A	10825	Flying High English(PB)	Abhishek Singh Khatwal		100	
0000 A	10826	Folk Tales Of Andhra Pradesh English(PB)	Rachna Bhola Yamini		25	
0000 A	10827	Folk Tales Of Assam English(PB)	Rachna Bhola Yamini		25	
0000 A	10828	Folk Tales Of Jammu & Kashmir English(PB)	Rachna Bhola Yamini		25	
0000 A	10829	Folk Tales Of Jharkhand English(PB)	Rachna Bhola Yamini		25	
0000 A	10830	Folk Tales Of Karnataka English(PB)	Rachna Bhola Yamini		25	
0000 A	10831	Folk Tales Of Manipur English(PB)	Rachna Bhola Yamini		25	
0000 A	10832	Folk Tales Of Tamilnadu English(PB)	Rachna Bhola Yamini		25	
0000 A	10833	Folk Tales Of Tripura English(PB)	Rachna Bhola Yamini		25	
0000 A	10834	Folk Tales Of Uttranchal English(PB)	Rachna Bhola Yamini		25	
0000 A	10835	Food For Good Health English(PB)	S K Sharma		150	
0000 A	10836	For A Better Tomorrow (How To Make Your Dream A Reality?) English(PB)	Joginder Singh		150	
0000 A	10837	For You My Love English(PB)	Ashok Upadhaya		100	
0000 A	10838	For Your Beautiful Dreams English(PB)	Satya Pal Ruhela		100	
0000 A	10839	Foreingners Who Loved & Served India English(PB)	K C Brahmachary		150	
0000A	10840	Freedom Struggle Of 1857 English(PB)	Renu Saran		95	
0000 A	10841	Friends Forever PB English	Gail Yerrill		425	
0000 A	10842	From Pocket Money Of Professional Salary PB English	Vivek Bindra		200	
0000 A	10843	From The Heart To Heart PB English	Rajesh Chetan		100	
0000 A	10844	Fuzzy-Wuzzy Bugs HB English	Paul Bright & Jack Tickle		425	
0000 A	10845	Gajanan English(PB)	S P Bansal		75	
0000 A	10846	Gandhi And Management English(PB)	Praveen Shukla		95	
0000 A	10847	Garuda Purana (E) English(PB)	B K Chaturvedi		95	
0000 A	10848	Gas Acidity & Heartburn English(PB)	Bimal Chhajer		50	
0000 A	10849	Gautam Buddha (The Spiritual Light Of Asia) English(HB)	Suresh Narain Mathur		295	
0000 A	10850	Gautam Budha PB English	Renu Saran		40	
0000 A	10851	Geetanjali (E) English(PB)	Ravindranath Tagore		75	
0000 A	10852	Gems Power English(PB)	V K Sharma		150	
0000 A	10853	Geography Quiz Book English(PB)	Anuj Goswami		95	
0000 A	10854	Glory Of Freedom (Sufis The People Of The Path Vol Ii Ch 18) English(PB)	Osho		250	
0000 A	10855	Glory Of Indian Culture English(PB)	Giriraj Shah		195	
0000 A	10856	God (English PB)	Veda Bharti		200	
0000 A	10857	Goddess Durga English(PB)	O P Jha		30	

0000 A	10858	Gods And Goddesses Of India (E) English(PB)	Kailash Nath Seth		150	
0000 A	10859	Gods On Trial And Other Stories English(PB)	Gulzar Singh Sandhu		95	
0000 A	10860	Gods Toolbox How God Answers Prayers English(PB)	Jiliyana Reymond		95	
0000 A	10861	Golden angle & the darkness of midnight English(PB)	Satyapal Chandra		100	
0000 A	10862	Golden Key To Become Super Rich PB English	Subhash Lakhotia		175	
0000 A	10863	Golden Sutra Of Success English(PB)	Gopal Sharma		95	
0000 A	10864	Goodby By Pass Surgery Welcome Natural By Pass HB English	Bimal Chhajer		495	
0000 A	10865	Goodness Killed Me English(PB)	Ashish Dutt Sharma		100	
0000 A	10866	Gora English(PB)	Ravindranath Tagore		195	
0000 A	10867	Grandma`S Home Tips English(PB)	Rajeev Sharma		95	
0000 A	10868	Grandpa And Grandma'S Stories English(PB)	Geetika Goyal		150	
0000A	10869	Great Indian Culture English(PB)	Rachna Bhola Yamini		25	
0000 A	10870	Great Indian Personalities (E) English(PB)	Renu Saran		150	
0000 A	10871	Great Personalities Of The World English(PB)	Renu Saran		175	
0000 A	10872	Great Words Win Hearts English(PB)	Ujjawal Patni		195	
0000 A	10873	Grehlakshmi 201 Mehandi Design 1 English(PB)	Manish Verma		20	
0000 A	10874	Grehlakshmi 201 Mehandi Design 2 English(PB)	Manish Verma		20	
0000 A	10875	Grehlakshmi 201 Mehndi Design 5 English(PB)	Manish Verma		20	
0000 A	10876	Grehlakshmi 261 Mehandi And Tatoo Designs English(PB)	Manish Verma		20	
0000 A	10877	Grehlakshmi 301 Mehandi Design 3 English(PB)	Manish Verma		20	
0000 A	10878	Grehlakshmi Nel Art Design PB Hindi			25	
0000 A	10879	Gujrati Cook Book English(PB)	Neera Verma		35	
0000 A	10880	Gulistaan (Garden Of Flower) English(PB)	Sheikh		100	
0000 A	10881	Guru Nanak Dev English(PB)	Giriraj Sharan Agarwal		95	
0000 A	10882	Hair Care (Prevention Of Dandruff & Baldness) English(PB)	Renu Gupta		95	
0000 A	10883	Handbook On Diabetes (E) English(PB)	Shalini Chakraborty		75	
0000 A	10884	Hanuman Big Book Of Mask English(PB)			60	
0000 A	10885	Hanuman Book Of Alphabets English(PB)			60	
0000 A	10886	Hanuman Book Of Numbers English(PB)			60	
0000 A	10887	Hanuman English(PB)			35	
0000 A	10888	Hanuman First Picture Word Book English(HB)			150	
0000 A	10889	Hanuman Fun And Games Sticker Fun Book English(PB)			60	
0000 A	10890	Hanuman Fun Faces Sticker Book English(PB)			60	
0000 A	10891	Hanuman Origami Paper Craft English(PB)			60	
0000 A	10892	Hanuman Story Collection (4 Incredible Stories) English(HB)			175	
0000 A	10893	Hanuman The Big Book Origami Paper Craft English(PB)			60	
0000 A	10894	Hanuman The Birthday Party English(PB)			50	
0000 A	10895	Hanuman The Complete Story Book English(PB)			60	

0000 A	10896	Hanuman The Cricket Match English(PB)			50	
0000 A	10897	Hanuman The Seven Wonders Of The World English(PB)			50	
0000A	10898	Have Guts … The Untiring Truth English(PB)	Jaswin Jassi		95	
0000 A	10899	Heal Without Pill English(PB)	Biswaroop Roy Choudhray		250	
0000 A	10900	Healing Through Yoga English(PB)	Sunil Singh		75	
0000 A	10901	Healthy Cooking EnglishPB)	Bimal Chhajer		50	
0000 A	10902	Healthy Heart PB English	Bimal Chhajer		50	
0000 A	10903	Heart Attack English(PB)	Bimal Chhajer		50	
0000 A	10904	Heart Mafia PB English	Biswaroop Roy Choudhray		150	
0000 A	10905	Heart To Heart (With Heart Specialist) English(PB)	Vishnu Jain		125	
0000 A	10906	Her Flight To The Love Nest English(PB)	Kuldeep Sing Bedi		100	
0000 A	10907	Herbal Cure For Common Diseases English(PB)	Vipul Rao		95	
0000 A	10908	Here And Now English(PB)	OSHO		95	
0000 A	10909	Hi Fi Shayari Sms English(PB)	Kuldeep Saluja		20	
0000 A	10910	Hidden Ocean PB English	Shree Adheesh		250	
0000 A	10911	High Blood Pressure PB English	Bimal Chhajer		50	
0000 A	10912	High School Love English(PB)	Chocoholic Shadow		100	
0000 A	10913	Higher The Risk Greater The Success PB English	Tarun Engineer		150	
0000 A	10914	Hilarious Jokes English(PB)	G C Goyal		60	
0000 A	10915	Himalayan Pilgrimage Gateway To The Gods English(HB)	Surojit Mahalanobis		395	
0000 A	10916	Hindu Dharma English(PB)	M K Gandhi		75	
0000 A	10917	Hindu Gods And Goddesses English(HB)	Suresh Narain Mathur		395	
0000 A	10918	Hindu Masjids (English PB)	Prafull Goradia		195	
0000 A	10919	Hindu Traditions And Beliefs A Scientific Velocity English(HB)	Bhojraj Dwivedi		300	
0000 A	10920	Hindu Vrat Kathayen English(PB)			50	
0000 A	10921	Hinduism English(PB)	B R Kishore		125	
0000 A	10922	History of Indian Cinema English(PB)	Renu Saran		250	
0000 A	10923	Hitopdesh English(HB)	Rachna Bhola Yamini		175	
0000 A	10924	Holiday Colouring Book PB English			35	
0000 A	10925	Honey English(PB)	Tina Nolan		99	
0000 A	10926	Hot Shayari Sms English(PB)	Kuldeep Saluja		20	
0000A	10927	How Stars Influence Our Destiny English(PB)	Dayanand Verma		75	
0000 A	10928	How To Achieve Your Goal PB English	Joginder Singh		150	
0000 A	10929	How to Be A Successfull Insurance Agent English(PB)	Ashok Goyal		95	
0000 A	10930	How To Become A Millionaire PB English	Subhash Lakhotia		100	
0000 A	10931	How To Excel When Chips Are Down English(PB)	Joginder Singh		95	
0000 A	10932	How To Loose The Last 5 Kilos English PB	Namita Jain		150	
0000 A	10933	How To Multiply Your Money In Share Market ? English(PB)	Dinkar Kumar		75	
0000 A	10934	How To Pass Learner'S Licence Test English(PB)	Kailash C Bhal		50	
0000 A	10935	How To Play Cricket English(PB)	B K Chaturvedi		20	
0000 A	10936	How To Play Flute & Shehnai English(PB)	Mamta Chaturvedi		60	
0000 A	10937	How To Play Flute & Shehnai English(PB)	Mamta Chaturvedi		45	
0000 A	10938	How To Play Guitar English(PB)	Mamta Chaturvedi		60	
0000 A	10939	How To Play Harmonium & Synthesiser English(PB)	Mamta Chaturvedi		95	
0000 A	10940	How To Play Sitar English(PB)	Mamta Chaturvedi		60	

0000 A	10941	How To Receive Sri Sathya Sai Babas Grace English(PB)	Satya Pal Ruhela		150	
0000 A	10942	How To Save Income Tax Through Limited Liablity Partnership English(PB)	Subhash Lakhotia		175	
0000 A	10943	How To Succeed In Life English(PB)	Joginder Singh		150	
0000 A	10944	HTET PB English	Vikas Doon		115	
0000 A	10945	Human in Khakhi English(PB)	Ashok Kumar		140	
0000 A	10946	Human Rights Perspective Plan For 21St Century English(PB)	Giriraj Shah		195	
0000 A	10947	Humour Of Birbal PB English	Anindra Roy		125	
0000 A	10948	Hypnotism English(PB)	Vipul Rao		95	
0000 A	10949	I Am The Gate English(PB)	Osho		250	
0000 A	10950	I Dont Want To go To Bed	Tim Warnes		199	
0000 A	10951	I Loved A Street Woman (PB) English	Nitin Khare		125	
0000 A	10952	I Say Unto You (Vol I) English(PB)	Osho		250	
0000 A	10953	I Say Unto You (Vol II) English(PB)	Osho		250	
0000 A	10954	I Won't Mind (Loving You For Ever) PB English	Asif Seraj		125	
0000 A	10955	IBPS Clerk Grade Exam (Practise Test Paper) PB English			180	
0000A	10956	IBPS Clerk Grade Exam PB English			320	
0000 A	10957	IBPS CWE PO/MT (PTP) PB English	Vikas Doon		115	
0000 A	10958	IBPS CWE RRB PB ENGLISH	Vikas Doon		200	
0000 A	10959	IBPS IT Specialist Officer 2014 PB English			100	
0000 A	10960	IBPS Probationary officer & management trainees (Po & Mt) Guide PB English	Prerna badoni		380	
0000 A	10961	IBPS Probationery Officers (12 Practice Papers) PB English			190	
0000 A	10962	IBPS Regional Rural Bank (Officers) 10 Practice Test Papers PB English			175	
0000 A	10963	IBPS Regional Rural Bank Office Assistants (12 Practice Papers) English (PB)			185	
0000 A	10964	IBPS Regional Rural Bank Officer (CWE) (Scale I,II & III) Guide PB English			425	
0000 A	10965	IBPS Regional Rural Banks OA (Multipurpose) Exam (CWE) English (PB)			375	
0000 A	10966	Ignou B.ed Practice Test Paper PB English			125	
0000 A	10967	Illusion In Air English(PB)	Soumyashri Debasish		100	
0000 A	10968	Illustrated Classic Series Oliver Twist English(PB)	Charles Dickens		40	
0000 A	10969	Illustrated Classics Series Black Beauty English(PB)	Anna Sewell		40	
0000 A	10970	Illustrated Classics Series David Copperfield English(PB)			40	
0000A	10971	Illustrated Classics Series Great Expectations English(PB)			40	
0000 A	10972	Illustrated Classics Series Kidnapped English(PB)	Robert Louis Stevenson		40	
0000 A	10973	Illustrated Classics Series Pride And Prejudice English(PB)			40	
0000 A	10974	Illustrated Classics Series The Adventures Of Robinson Crusoe English(PB)			40	
0000 A	10975	Illustrated Classics Series The Call Of The Wild English(PB)			40	
0000 A	10976	Illustrated Classics Series The Count Of Monte Cristo English(PB)			40	
0000 A	10977	Illustrated Classics Series The Time Machine English(PB)	H G Wells		40	
0000 A	10978	Illustrated Classics Series Treasure Island English(PB)			40	

0000 A	10979	Illustrated World Classics 20000 Leagues Under The Sea English(PB)	Jules Verne		40	
0000 A	10980	Illustrated World Classics A Christmas Carol	Charles Dickens		40	
0000 A	10981	Illustrated World Classics A Connecticut Yankee in King Arthur's Court English(PB)	Mark Twain		50	
0000 A	10982	Illustrated World Classics A Journey To The Centre Of The Earth English(PB)	Jonathan Swift		40	
0000 A	10983	Illustrated World Classics A Tale of Two Cities English(PB)	Charles Dickens		40	
0000 A	10984	Illustrated World Classics Around The World In 80 Days English(PB)	Jules Verne		40	
0000 A	10985	Illustrated World Classics Ben Hur English(PB)	Lew Wallace		40	
0000 A	10986	Illustrated World Classics Frankenstein English(PB)	Mary Shelly		50	
0000 A	10987	Illustrated World Classics Gullivers Travels English(PB)	Jonathan Swift		40	
0000 A	10988	Illustrated World Classics Ivanhoe	Walter Scott		40	
0000 A	10989	Illustrated World Classics Jane Eyre	Charlotte Brontë		40	
0000 A	10990	Illustrated World Classics King Solomon's Mines	H Rider Haggard		40	
0000 A	10991	Illustrated World Classics Moby Dick English(PB)	Herman Melville		40	
0000 A	10992	Illustrated World Classics The Adventures Of Robin Hood English(PB)	Howard Pyle		50	
0000 A	10993	Illustrated World Classics The Adventures of Tom Sawyer English(PB)	Mark Twain		50	
0000 A	10994	Illustrated World Classics The Hound of the Baskervilles English(PB)	Arthur Conan Doyle		50	
0000 A	10995	Illustrated World Classics The Last Of The Mohicans English(PB)	James Fenimore Cooper		40	
0000 A	10996	Illustrated World Classics The Mayor of Casterbridge	Thomas Hardy		40	
0000 A	10997	Illustrated World Classics The Mill on the Floss	George Eliot		40	
0000 A	10998	Illustrated World Classics The Nutcracker and the Mouse King	E T A Hoffman		40	
0000 A	10999	Illustrated World Classics The Prince and the Pauper English(PB)	Mark Twain		40	
0000A	11000	Illustrated World Classics The Prisoner of Zenda English(PB)	Anthony Hope		50	
0000 A	11001	Illustrated World Classics The Scarlet Pimpernel	Baroness Emma Orczy		40	
0000 A	11002	Illustrated World Classics The Tale of Heidi English(PB)	Johanna Spyri		40	
0000 A	11003	Illustrated World Classics The Three Musketeers English(PB)	Alexandre Dumas		40	
0000 A	11004	Illustrated World Classics The Wizard of Oz English(PB)	L F Baum		50	
0000 A	11005	Impossible Possible (E) English(PB)	Biswaroop Roy Choudhray		150	
0000 A	11006	Improve Your Health With Apple Guava Mango English(PB)	Rajeev Sharma		50	
0000 A	11007	Improve Your Health With Basil & Margosa English(PB)	Rajeev Sharma		50	
0000 A	11008	Improve Your Health With Carrot Radish & Ginger English(PB)	Rajeev Sharma		50	
0000 A	11009	Improve Your Health With Dairy Products & Juices English(PB)	Rajeev Sharma		50	
0000 A	11010	Improve Your Health With Dry Fruits And Medicinal Plants English(PB)	Rajeev Sharma		50	
0000 A	11011	Improve Your Health With Fruits & Flowers English(PB)	Rajeev Sharma		50	

0000 A	11012	Improve Your Health With Garlic Onion English(PB)	Rajeev Sharma		50	
0000 A	11013	Improve Your Health With Honey English(PB)	Rajeev Sharma		50	
0000 A	11014	Improve Your Health With Lemon & Indian Hog Plum English(PB)	Rajeev Sharma		50	
0000 A	11015	Improve Your Health With Papaya Bengal Quince English(PB)	Rajeev Sharma		50	
0000 A	11016	Improve Your Health With Spices English(PB)	Rajeev Sharma		50	
0000 A	11017	Improve Your Health With Trees & Plants English(PB)	Rajeev Sharma		50	
0000 A	11018	Improve Your Health With Vegetables English(PB)	Rajeev Sharma		50	
0000 A	11019	Improve Your Health With Watersunmud Therapy English(PB)	Rajeev Sharma		50	
0000 A	11020	Improve Your Health With Wheatgrass & Grains English(PB)	Rajeev Sharma		50	
0000 A	11021	In Love Or In Roller Coster PB English	Vithika		125	
0000 A	11022	In The Name of Love English(PB)	Nitya Prakash		100	
0000 A	11023	India Book Of Record 2014 PB English	Biswaroop Roy Choudhray		395	
0000 A	11024	India Book Of Records 2011 English(PB)	Biswaroop Roy Choudhray		250	
0000 A	11025	India Book Of Records 2012 (E) English(PB)	Biswaroop Roy Choudhray		295	
0000 A	11026	India Book Of Records 2013 English(PB)	Biswaroop Roy Choudhray		395	
0000 A	11027	India Book Of Records-2015 HB English	Biswaroop Roy Choudhray		750	
0000 A	11028	India Book Of Records-2015 PB English	Biswaroop Roy Choudhray		450	
0000A	11029	India Of My Dream English(PB)	M K Gandhi		150	
0000 A	11030	India of swami vivekanand dreams (E) English(PB)	Himanshu shekhar		150	
0000 A	11031	Indian Air Force-Airman Group-Y PB English	Arvind Mohan Dwivedi		185	
0000 A	11032	Indian Airports (Shocking Ground Realities) English(PB)	K R Wadhwaney		195	
0000 A	11033	Indian Microwave Cook Book (E) English(PB)	Tehlina Kaul		125	
0000 A	11034	Indian Sudoku English(PB)	Naresh Mohan Lal Sood		60	
0000 A	11035	Indira Gandhi English(PB)	Meena Agarwal		95	
0000 A	11036	Indira Gandhi English(PB)	Renu Saran		30	
0000 A	11037	Industry & Business English(PB)	Kuldeep Saluja		75	
0000 A	11038	Infond Memory Of Myself English(PB)	Kunal Chowdhary		100	
0000 A	11039	Infond Memory Of Myself English(PB)	Kunal Chowdhary		195	
0000 A	11040	Initiation (Ram Katha) English(PB)	Narender Kohli		150	
0000 A	11041	Inner Journey I English(PB)	Yogi Pilot Baba		250	
0000 A	11042	Inner Journey II English(PB)	Yogi Pilot Baba		250	
0000 A	11043	Inside Outside (Translation Of Ghare Baire) English(PB)	Ravindranath Tagore		95	
0000 A	11044	Inspiring Jataka Tales English(PB)	Pratibha Kasturiya		35	
0000 A	11045	Inspiring Tales Of Panchtantra English(PB)	Pratibha Kasturia		35	
0000 A	11046	Inspiring Tales Of Vikram Betal English(PB)	Pratibha Kasturiya		35	
0000 A	11047	Interesting Jatak Tales English(PB)	Pratibha Kasturiya		35	
0000 A	11048	Interesting Tales Of Bible English(PB)			35	
0000 A	11049	Interesting Tales Of Birbal English(PB)			35	
0000 A	11050	Interesting Tales Of Hitopdesh English(PB)	Pratibha Kasturiya		35	
0000 A	11051	Interesting Tales Of Panchtantra English(PB)	Pratibha Kasturia		35	

0000 A	11052	Interesting Tales Of Tenalirama English(PB)	Pratibha Kasturiya		35	
0000 A	11053	Invisible Confidence Visible Faith English(PB)	Sirshree		125	
0000 A	11054	Invisible Doctor English(PB)	Biswaroop Roy Choudhray		150	
0000 A	11055	Iron Man Activity Book English(PB)			50	
0000 A	11056	Ishwar Chandra Vidyasagar English(PB)	B K Chaturvedi		30	
0000 A	11057	It's All B'coz Of You PB English	Noelle Nams		125	
0000A	11058	Jasmins Fairy Bubbles English(HB)			159	
0000 A	11059	Jataka Tales English(HB)	Pratibha Kasturiya		175	
0000 A	11060	Jataka Tales English(PB)	Ambika Prashad Sharma		95	
0000 A	11061	Jawaharlal Nehru English(PB)	Renu Saran		30	
0000 A	11062	JEE (Mains) Joint Entrance Exam 2014 PB English	Arvind Mohan Dwivedi		180	
0000 A	11063	Jigsaw Farm (BB) HB English			325	
0000 A	11064	Jigsaw Jungle (BB) HB English	Julie Fletcher		325	
0000 A	11065	Jokes For All English(PB)	Gopi A Tejwani		95	
0000 A	11066	Jokes Of Joginder Singh English(PB)	Joginder Singh		95	
0000 A	11067	Jokes Of Joginder Singh Partii English(PB)	Joginder Singh		95	
0000 A	11068	Jokes Of Mulla Nasruddin (English PB)	Giriraj Sharan Agarwal		20	
0000 A	11069	Jokes Of Sheikh Chilli English(PB)	Giriraj Sharan Agarwal		25	
0000 A	11070	Jokes Of Tenalirama English(PB)	Giriraj Sharan Agarwal		25	
0000 A	11071	Journey of the Phoenix	Rajinder Singh		0	
0000 A	11072	Joy Of Sharing PB English	Subhash Lakhotia		150	
0000 A	11073	Juice Therapy For Better Health English(PB)	Ashok Gupta		95	
0000 A	11074	Juicy Shayari Sms English(PB)	Kuldeep Saluja		20	
0000 A	11075	Jumbo Colouring Book 1 PB English			100	
0000 A	11076	Jumbo Colouring Book 2 English			100	
0000 A	11077	Jumbo Colouring Book 3			100	
0000 A	11078	Jumbo Colouring Book 4			100	
0000 A	11079	Jumbo Colouring Book 5			100	
0000 A	11080	Jumbo English(PB)			40	
0000 A	11081	Jungle Friends (BB) English(HB)			425	
0000 A	11082	Just Mushroom English(PB)	Komal Taneja		100	
0000 A	11083	Jyoti Meditation for Childern	Rajinder Singh		200	
0000 A	11084	Kadve Pravachan PB English	Muni Sri Tarun Sagar Ji Maharaj		195	
0000 A	11085	Kailash Mansarover English(PB)	Yogi Pilot Baba		250	
0000 A	11086	Kailash Satyarthi PB English	Kritika Bhardwaj, Ashok K. Sharma		125	
0000A	11087	Kakuro Challange(The Ultimate Cross Sums Challenge) English(PB)	Shab Puzzler Media		75	
0000 A	11088	Kakuro(The All New Brain Teaser) English(PB)	Shab Puzzler Media		75	
0000 A	11089	Kakuro(The Ultimate Test Of Your Concentration And Patience English(PB)	Shab Puzzler Media		75	
0000 A	11090	Kalki Purana English(PB)	B K Chaturvedi		95	
0000 A	11091	Kamasutra HB English			125	
0000 A	11092	Kapaal Kundla English(PB)	Bankim Chandra Chattopadhyay		95	
0000 A	11093	Karamyogi Swami Vivekanand PB English	Ramesh Pokhriyal		50	
0000 A	11094	Katju Follies (English PB)	Raj Gopal Katju		60	
0000 A	11095	Katju Nuggets (English PB)	Raj Gopal Katju		95	
0000 A	11096	Kautilaya Arthshashtra English(PB)	B K Chaturvedi		95	
0000 A	11097	KENDRIYA VADHYALAYA Sangathan PB English	Vikas Doon		115	
0000 A	11098	KG Colouring Book PB English			35	

0000 A	11099	Kingdom Of Shiva PB English	Shivkishen		595	
0000 A	11100	Kiran Bedi Making Of The Top Cop (International Edition) PB English	Kiran Bedi		150	
0000 A	11101	Kiran Bedi Making Of The Top Cop PB English	Kiran Bedi		50	
0000 A	11102	Kiran Bedi The Women Of Substance English(PB)	Sidhart Iyer		125	
0000 A	11103	Knee Pain English(PB)	Bimal Chhajer		50	
0000 A	11104	Know Your Horoscope Yourself English(PB)	Kaulacharya Jagdishanand Tirth		95	
0000 A	11105	Koffee With Karan English(PB)	Karan Johar		395	
0000 A	11106	Koorma Puran English(PB)	Vinay		95	
0000 A	11107	Krishna Absolute Joy English(PB)	Sri Sri Ravishankar Ji		99	
0000 A	11108	Krishna English(PB)			40	
0000 A	11109	Ladies Health Guide English(PB)	Nistha		95	
0000 A	11110	Ladies Slimming Course English(PB)	Satish Goel		110	
0000 A	11111	Lakshya PB English	Subhash Lakhotia		150	
0000 A	11112	Lal Kitab (E) English(PB)	Radha Krishna Srimali		150	
0000 A	11113	Language Of The Hand English(PB)	Cheiro		125	
0000 A	11114	Latest Shayari Sms English(PB)	Kuldeep Saluja		20	
0000 A	11115	Laughter Is My Message English(PB)	Osho		95	
0000A	11116	Laughter The Best Meditation English(PB)	Inderjeet Singh		95	
0000 A	11117	Learn Assamese Through English In 30 Days English(PB)	Krishna Gopal Vikal		100	
0000 A	11118	Learn Bengali In 30 Days Through English English(PB)	Sameer Dey		95	
0000 A	11119	Learn English In 30 Days Through Assamese English(PB)	B R Kishore		35	
0000 A	11120	Learn English In 30 Days Through Assamese English(PB)	B R Kishore		75	
0000 A	11121	Learn English In 30 Days Through Bengali English(PB)	Sameer Dey		50	
0000 A	11122	Learn English In 30 Days Through Bengali English(PB)	B R Kishore		75	
0000 A	11123	Learn English In 30 Days Through Kannada English(PB)	B R Kishore		95	
0000 A	11124	Learn English In 30 Days Through Konkani English(PB)	B R Kishore		75	
0000 A	11125	Learn English In 30 Days Through Malayalam English(PB)	B R Kishore		95	
0000 A	11126	Learn English In 30 Days Through Tamil English(PB)	B R Kishore		95	
0000 A	11127	Learn English In 30 Days Through Telugu English(PB)	B R Kishore		60	
0000 A	11128	Learn French In 30 Days Through English English(PB)	Bhavna Chopra		125	
0000 A	11129	Learn Gujarati In 30 Days Through English English(PB)	Krishna Gopal Vikal		75	
0000 A	11130	Learn Hindi In 30 Days Through English English(PB)	Krishna Gopal Vikal		150	
0000 A	11131	Learn How To Reverse Heart Disease English(PB)	Bimal Chhajer		50	
0000 A	11132	Learn In 30 Days English Grammar Through Hindi PB English	B R Kishore		80	
0000 A	11133	Learn Kannada In 30 Days Through English English(PB)	Krishna Gopal Vikal		95	
0000 A	11134	Learn Malayalam In 30 Days Through English English(PB)	Krishna Gopal Vikal		95	
0000 A	11135	Learn Marathi In 30 Days Through English English(PB)	Krishna Gopal Vikal		125	
0000 A	11136	Learn Tamil In 30 Days Through English English(PB)	Krishna Gopal Vikal		95	
0000 A	11137	Learn Telugu In 30 Days Through English English(PB)	Krishna Gopal Vikal		95	
0000 A	11138	Learn To Say I Love You English(PB)	Surya Sinha		150	

0000 A	11139	Learn To Slap Your Child (E) English(PB)	Sunil Vaid		150	
0000 A	11140	Let Us Make Life A Celebration HB English	Sudarshan Ji		600	
0000 A	11141	Lets Learn From Stories English(PB)	Ramesh Pokhriyal		30	
0000 A	11142	Leucoderma English(PB)	Ramji Gupta		100	
0000 A	11143	Life A Song A Dance English(PB)	Osho		95	
0000 A	11144	Life As I See English(PB)	Joginder Singh		125	
0000A	11145	Life Profile & Biography Of Buddha English(PB)	Shiv Sharma		150	
0000 A	11146	Linga Purana English(PB)	B K Chaturvedi		95	
0000 A	11147	Little Fox in the woods HB English	Mike Berry		280	
0000 A	11148	Live For India PB English	Anshu Pathak		150	
0000 A	11149	Lives on The Brink English(PB)	Anu Peshawaria		250	
0000 A	11150	Living Healthy With Asthma English(PB)	Bimal Chhajer		50	
0000 A	11151	Living With Menopause English(PB)	Narendra Teotia		45	
0000 A	11152	LOC (Life Of College) (E) English(PB)	Sumit Vijay		100	
0000 A	11153	Lord Buddha (Children Biography) PB English	Renu Saran		30	
0000 A	11154	Lord Buddha English(PB)	B R Kishore		15	
0000 A	11155	Lord Hanuman And His Art Of Efficient Management English(PB)	Sunil Jogi		100	
0000 A	11156	Lord Hanumana PB English	Simran Kaur		80	
0000 A	11157	Lord Krisha And His Leadership PB English	Krishan Murrari Soni		150	
0000 A	11158	Lord Krishna (Children Biography) PB English	Renu Saran		30	
0000 A	11159	Lord Krishna English(PB)	B R Kishore		20	
0000 A	11160	Lord Krishna PB English	Simran Kaur		80	
0000 A	11161	Lord Mahavira (Children Biography) PB English	Renu Saran		30	
0000 A	11162	Lord Rama & Hanumna two in One HB English	Simran Kaur		175	
0000 A	11163	Lord Rama (Children Biography) PB English	Renu Saran		30	
0000 A	11164	Lord Rama English(PB)	S P Bansal		95	
0000 A	11165	Lord Rama PB Englsh	Simran Kaur		80	
0000 A	11166	Lord Shiva & Krishna two in One HB English	Simran kaur		175	
0000 A	11167	Lord Shiva English(PB)	O P Jha		30	
0000 A	11168	Lord Shiva English(PB)	Dr. B.R.Kishore		15	
0000 A	11169	Lord Shiva PB English	O P Jha		80	
0000 A	11170	Love & The Circle Of Six English PB	Avishek Das		100	
0000 A	11171	Love @ Internet (E) English(PB)	Rajeev Ranjan		100	
0000 A	11172	Love All PB English	Manish Sharma		125	
0000 A	11173	Love And Meditation English(PB)	Osho		95	
0000A	11174	Love Destination Unknown English(PB)	Vicky R		100	
0000 A	11175	Love Happens So Does A Breakup English(PB)	Saurav S		100	
0000 A	11176	Love In A Time Machine English(PB)	Minoo		100	
0000 A	11177	Love is where your heart is English(PB)	Alok Bhattacharya		100	
0000 A	11178	Love Letters for you (E) English(PB)			60	
0000 A	11179	Love Pride Paradox & Prophecy English(PB)	Soumyashri Debasish		100	
0000 A	11180	Love Sex & Marriage English(PB)	K Sohail Bette Davis		150	
0000 A	11181	Love Song For Osho English(PB)	Anand Devika		100	
0000 A	11182	Love Whispers English(PB)	Swami Rana		150	
0000 A	11183	Lucky Boy English(PB)	Seema Seth		100	
0000 A	11184	Mad Shayari Sms English(PB)	Kuldeep Saluja		20	

0000 A	11185	Magic Of Love English PB	Vicky Pagaria		100	
0000 A	11186	Magic Of Numbers A Guide To Numerology English(PB)	V K Sharma		195	
0000 A	11187	Mahabharata English(PB)	B R Kishore		125	
0000 A	11188	Mahanayak Narendra Modi PB English	Kumar Pankaj		150	
0000 A	11189	Maharana Pratap English(PB)	Bhawan Singh Rana		95	
0000 A	11190	Maharana Pratap English(PB)	Simran		30	
0000 A	11191	Mahatma Gandhi English(PB)	Renu Saran		30	
0000 A	11192	Mahatma Gandhi English(PB)	Renu Saran		40	
0000 A	11193	Make Me Your Friend English(PB)	Sunil Mohan Gera		100	
0000 A	11194	Makeover For Leftover English(PB)	Komal Taneja		100	
0000 A	11195	Management And Corporate Guru Chanakya English (PB)	Himanshu Shekhar		150	
0000 A	11196	Management Guru Bhagwan Shri Ram English(HB)	Sunil Jogi		300	
0000 A	11197	Management Guru Bhagwan Shri Ram English(PB)	Sunil Jogi		95	
0000 A	11198	Management Guru Ganesha English(PB)	B K Chandra Shekhar		150	
0000 A	11199	Management Guru Lord Krishna English(PB)	O P Jha		150	
0000 A	11200	Management Guru Narendra Modi PB English	Himanshu Shekhar		175	
0000 A	11201	Management Guru Professro Laloos Rail English(PB)	Sunil Jogi		150	
0000 A	11202	Management through Folk Wisdom English(PB)	C L Dadhich		100	
0000A	11203	Manorama English(PB)	Prem chand		100	
0000 A	11204	Markandeya Purana English(PB)	B K Chaturvedi		75	
0000 A	11205	Market Day Mini Library HB English	Tomislav Zlatic		250	
0000 A	11206	Marlons Mean Machine / Katies Cutom Kart (HB) English			375	
0000 A	11207	Marriage & Career English(PB)	Kuldeep Saluja		75	
0000 A	11208	Marriage & Prostitution English(PB)	Arastu Prabhakar		95	
0000 A	11209	Massage For Good Health English(PB)	Rajeev Sharma		95	
0000 A	11210	Math Challenge Lavel 1 English(PB)	James Riley		95	
0000 A	11211	Mathematical Puzzles And Brain Twisters English(PB)	B K Chaturvedi		95	
0000 A	11212	Mathematics Quiz Book English(PB)	Anuj Goswami		95	
0000 A	11213	Maths III 6+ English(PB)			60	
0000 A	11214	Maths IV 7+ English(PB)			60	
0000 A	11215	Maths V 8+ English(PB)			60	
0000 A	11216	Mathura brindaban the Mystical Land Of Lord Krishna English(PB)	F S Growse		550	
0000 A	11217	Matsya Puran English(PB)	Vinay		95	
0000 A	11218	Max Flash Mission 1 Game On English(PB)	Jonny Zucker		99	
0000 A	11219	Max Flash Mission 2 Super Sonic English(PB)	Jonny Zucker		99	
0000 A	11220	Meditation The Art Of Ecstasy English(PB)	Osho		250	
0000 A	11221	Meditation And The Art Of Dying English(PB)	Veda Bharti		200	
0000 A	11222	Meditation Yoga English(PB)	Bhagwan Dev		95	
0000 A	11223	Meeting The Ultimate English(PB)	Osho		95	
0000 A	11224	Meghalaya Police Commando & Constable PB English	Arvind Mohan Dwivedi		195	
0000 A	11225	Memory Mind & Body English(PB)	Biswaroop Roy Choudhray		195	
0000 A	11226	Memory Techniques For Science Students English(PB)	Neerja Roy Choudhary		95	
0000 A	11227	Memory Unlimited (E) English(PB)	Biswaroop Roy Choudhray		150	
0000 A	11228	Merlin English(PB)	Tina Nolan		99	

0000 A	11229	Message Of The Darshan (E) English(PB)	B B Paliwal		150	
0000 A	11230	Message Of The Puranas English(PB)	B B Paliwal		150	
0000 A	11231	Message Of The Vedas English(PB)	B B Paliwal		150	
0000A	11232	Messiah Of Poor Mother Teresa English(PB)	B K Chaturvedi		95	
0000 A	11233	Mickey Mouse And The Impossible Letter Issue XIX English(PB)			25	
0000 A	11234	Mickey Mouse And The Unbravle Captain Courageous Issue XVIII English(PB)			25	
0000 A	11235	Mickey Mouse Digest I English(PB)			90	
0000 A	11236	Mickey Mouse Issue I English(PB)			25	
0000 A	11237	Mickey Mouse Issue III English(PB)			25	
0000 A	11238	Mickey Mouse Issue IV English(PB)			25	
0000 A	11239	Mickey Mouse Issue IX English(PB)			25	
0000 A	11240	Mickey Mouse Issue V English(PB)			25	
0000 A	11241	Mickey Mouse Issue VI English(PB)			25	
0000 A	11242	Mickey Mouse Issue VII English(PB)			25	
0000 A	11243	Mickey Mouse Issue VIII English(PB)			25	
0000 A	11244	Mickey Mouse Issue X English(PB)			25	
0000 A	11245	Mickey Mouse Issue XI English(PB)			25	
0000 A	11246	Mickey Mouse Issue XII English(PB)			25	
0000 A	11247	Mickey Mouse Issue XIII English(PB)			25	
0000 A	11248	Mickey Mouse Issue XIV English(PB)			25	
0000 A	11249	Mickey Mouse Issue XV English(PB)			25	
0000 A	11250	Mickey Mouse Issue XVI English(PB)			25	
0000 A	11251	Midnight Shayari Sms English(PB)	Kuldeep Saluja		20	
0000 A	11252	Mind Body Spirit & You English(PB)	Kapil Kakkar		150	
0000 A	11253	Mini Machines (Mini Library) HB English	James Croft		250	
0000 A	11254	Miracles Of Health & Happiness English(PB)	Subhash Lakhotia		150	
0000 A	11255	Mirror Mirror On The Wall English(PB)	Roopa Somasundaran		100	
0000 A	11256	Mom Says Get Married English(PB)	Himanshu Modi		100	
0000 A	11257	Monuments Of India English(PB)	Renu Saran		125	
0000 A	11258	Moral Stories of Bible English(HB)			175	
0000 A	11259	Moral Tales From Panchtantra English(PB)	Giriraj Sharan Agarwal		35	
0000 A	11260	Mother Teresa English(PB)	Renu Saran		30	
0000A	11261	Mother Teresa English(PB)	Renu Saran		40	
0000 A	11262	Mouthteeth & Ear Nose Throat Disorders English(PB)	Rajeev Sharma		95	
0000 A	11263	Mudra Vigyan English(PB)	Rajni Kant Upadhayay		75	
0000 A	11264	Mughlai Cook Book English(PB)	Neera Verma		45	
0000 A	11265	Mumbai Kiski & Other Articles English(PB)	Prem Chand Sahajwala		100	
0000 A	11266	Munshi Premchand English(PB)	Rekha Sigi		95	
0000 A	11267	Muslim Leagues Unfinished Agenda English(PB)	Prafull Goradia		150	
0000 A	11268	Mutual Funds-Ladder To Wealth Creation English(PB)	Vivek K Negi		125	
0000 A	11269	My Cute ABC Picture Dictionary PB English			60	
0000 A	11270	My Dance With A Madman English(PB)	Anand Subhuti		150	
0000 A	11271	My Experiment With Truth An Autobiography English (PB)	M K Gandhi		250	

0000 A	11272	My First Board Book of ABC HB English			80	
0000 A	11273	My First Book of ABC PB English			60	
0000 A	11274	My First Book of Numbers 1-100 PB English			60	
0000 A	11275	My First Christmas HB English	Stephen Barker		375	
0000 A	11276	My Life Is For You English(PB)	Satyapal Chandra		100	
0000 A	11277	My Life With Osho PB English	Azima V. Rosciano		350	
0000 A	11278	My Little Box of Bedtime Rhymes PB English	Sanja Rescek		250	
0000 A	11279	My Little Night Light English(HB)			299	
0000 A	11280	Mysterious Whisper English(PB)	Arastu Prabhakar		95	
0000 A	11281	Mystique Of The Enligtenment Soul English(PB)	Anjani Kumar Singh		100	
0000 A	11282	Naadi Predictions English(PB)	Shashi Kant Oak		250	
0000 A	11283	Namo Mantra Of Narender Modi (English) PB	Kumar Pankaj		150	
0000 A	11284	Nandan Nilekani English(PB)	Rajiv Tiwari		95	
0000 A	11285	Narada Purana English(PB)	B K Chaturvedi		75	
0000 A	11286	Narayana Murthy English(PB)	Renu Sharan		95	
0000 A	11287	Narendra Modi English(PB)			30	
0000 A	11288	Natural Healing With Reiki (For Stress Free Happy & Healthy Life) English(PB)	Sukhdeepak Malwai		100	
0000 A	11289	Naturopathy (The Nature'S Way Of Healing Life English(PB)	Jasnita Walia		45	
0000A	11290	Naturopathy For Better Health English(PB)	Ashok Gupta		95	
0000 A	11291	Naughty Shayari Sms English(PB)	Kuldeep Saluja		20	
0000 A	11292	Navrattan Bodh Katha English(PB)	Kirit Bhai		95	
0000 A	11293	NDA/NA Practise Test Paper PB English	Arvind Mohan Dwivedi		280	
0000 A	11294	Neelkanth English(PB)	Purnima Mazumdar		95	
0000 A	11295	Neo Reiki English(PB)	Veet Sankalpo		150	
0000 A	11296	New Dimensions Of K P Astrology English(PB)	Arastu Prabhakar		150	
0000 A	11297	New Kamasutra Sex Management Guide English(PB)	Rajeev Sharma		175	
0000 A	11298	Nirmala English(PB)	Prem chand		110	
0000 A	11299	Nirvana The Last Nightmare English(PB)	Osho		250	
0000 A	11300	No Dream Too Big PB English	Joginder Singh		150	
0000 A	11301	Nobel Prize Winner-Malala PB English	Kritika Bhardwaj, Ashok K. Sharma		125	
0000 A	11302	Nobel Prize Winners Of The World English(PB)	Rachna Bhola Yamini		200	
0000 A	11303	Non Vegetarian Cook Book (E) English(PB)	Tehlina Kaul		100	
0000 A	11304	Non Vegetarian Cook Book English(PB)	Neera Verma		45	
0000A	11305	Nothing Is Impossible English(PB)	Joginder Singh		150	
0000 A	11306	Obesity Management English(PB)	Bimal Chhajer		50	
0000 A	11307	Objection Your Honour(All You Wanted To Know About Indian Law) English(PB)	Nishant Kashyap		95	
0000 A	11308	Objective GK 2016 PB English	Vikas Doon		150	
0000 A	11309	Occult Lines On The Hand English(PB)	V K Sharma		150	
0000 A	11310	On & Behind The Indian Cinema English (PB)	J K Bajaj		250	
0000 A	11311	On the Wings of Love & Sacrifice English(PB)	Swami Vivek Bharti		200	
0000 A	11312	One Earth One Humanity English(PB)	Osho		95	
0000 A	11313	One Liner & Quotes faceBook English(PB)	Abhinav Chhajer		50	
0000 A	11314	One Liners PB English	Abhinav Chhabra		100	

0000 A	11315	One Sided It's Not But It Was PB English	Nitish & Sumit		125	
0000 A	11316	Oneness With God English(PB)	M K Spencer Yogi		100	
0000 A	11317	Oops! I Fell In Don's Daughter English Pb	Piyush Nayak		100	
0000 A	11318	Osho My Love English(PB)	Chaman Lal Bharti		25	
0000 A	11319	Osho Upnishad English(PB)	Osho		495	
0000 A	11320	Our Environmental Challenges & Solustion PB English	R S Shrivasatva		350	
0000 A	11321	Padma Purana English(PB)	Vinay		75	
0000 A	11322	Pakistan Short Stories English(PB)	Fakhar Zaman		195	
0000 A	11323	Panchtantra English (HB)	Rachna Bhola Yamini		175	
0000 A	11324	Paneer Hungama English(PB)	Neena Puri		50	
0000 A	11325	Paneer Khazana English(PB)	Neena Puri		50	
0000 A	11326	Paneer Magaic English(PB)	Neena Puri		50	
0000 A	11327	Parinita English(PB)	Sharat Chandra Chattopadhyay		100	
0000 A	11328	Party Stencils HB English	Maria Maddocks		280	
0000 A	11329	Party Time Shayari Sms English(PB)	Kuldeep Saluja		20	
0000 A	11330	Passage Through India English (PB)	Raghu Korrapati		150	
0000 A	11331	Past Life (A Mysterious Reality) English (PB)	Rekha Kale		100	
0000 A	11332	Patyala Down The Throat English(PB)	Chandraprakash Mohata		100	
0000 A	11333	Peaces To Peace English(PB)	Radhika Nagrath		125	
0000A	11334	Perfect Mantras For Succeeding In Network Marketing English(PB)	Surya Sinha		150	
0000 A	11335	Perfect Spoken English English(PB)	Rewa Bhasin		150	
0000 A	11336	Perfect Success Mantras English(PB)	Ramesh Pokhriyal		125	
0000 A	11337	Pickles Chutnies & Jems English(PB)	Neera Verma		45	
0000 A	11338	Pilgrimage Centers Of India English(PB)	Brajesh Kumar		175	
0000 A	11339	Pinki Aur Muchaad Singh PB English	Pran		50	
0000 A	11340	Pinki Digest-1 PB English	Pran		100	
0000 A	11341	Pinki Digest-2 PB English	Pran		100	
0000 A	11342	Pinki Gennie PB English	Pran		50	
0000 A	11343	Pinki Laptop PB English	Pran		35	
0000 A	11344	Pinki World Tour PB English	Pran		35	
0000 A	11345	Pinki's Height PB English	Pran		35	
0000 A	11346	Play And Win Kaun Banega Crorepati English(PB)-2			150	
0000 A	11347	Please Mom Its My Life English(PB)	Jaideep Singh Chadha		125	
0000 A	11348	Plot English(PB)	Kuldeep Saluja		75	
0000 A	11349	Poisonous Roots English(PB)	Roop Narain Sonker		60	
0000 A	11350	Postal Department Postal Assistante PB English			115	
0000 A	11351	Power Learning English Magazine PB			30	
0000 A	11352	Power Of Positive Thinking English(PB)	G D Buddhiraja		150	
0000 A	11353	Power Of Vaastu & Fengshui PB English	Gopal Sharma		295	
0000 A	11354	Power Thinking English(PB)	Ujjawal Patni		195	
0000 A	11355	Power To Write Your Own Destiny English(PB)	Ashokindu		100	
0000 A	11356	Practical Parenting Tips (E) English(PB)	Vicky Lansky		150	
0000 A	11357	Practical Vaastu Shastra (E) English(PB)	Satyanand		150	
0000 A	11358	Prahlad The Ace Devotee English(PB)	B K Chaturvedi		20	
0000 A	11359	Pranab Mukherjee English (PB)	Sudarshan Bhatia		125	

0000 A	11360	Pranayam Kundalini & Hathyoga English(PB)	Bhagwan Dev		95	
0000 A	11361	Prans Billoo Big Copy Colour Sticker Activity Book English(PB)			40	
0000 A	11362	Prans Billoo Super Copy Colour Sticker Activity Book English(PB)			40	
0000A	11363	Prans Chacha Chaudhary Amazing Copy Colour Sticker Activity Book English(PB)			40	
0000 A	11364	Prans Chacha Chaudhary Book Of Masks English(PB)			40	
0000 A	11365	Prans Chacha Chaudhary Easy Copy Colour Sticker Activity Book English(PB)			40	
0000 A	11366	Prans Pinki Big Copy Colour Sticker Activity Book English(PB)			40	
0000 A	11367	Prans Pinki Cute Copy Colour Sticker Activity Book English(PB)			40	
0000 A	11368	Prans Sabu Crazy Copy Colour Sticker Activity Book English(PB)			40	
0000 A	11369	Prans Sabu Ultimate Copy Colour Sticker Activity Book English(PB)			40	
0000 A	11370	Pregnancy & Child Care (E) English(PB)	Satish Goel		125	
0000 A	11371	Pregnancy & Child Care English(PB)	Brijesh Kumar		50	
0000 A	11372	Pride Of The Nation Dr A P J Abdul Kalam English(PB)	Mahesh Dutt Sharma		95	
0000 A	11373	Primary Teachers Eligibility Test Exam 2014 PB English	Arvind Mohan Dwivedi		135	
0000 A	11374	Princess Firoza PB English	Purushotam Pomal		175	
0000 A	11375	Punjabi Cook Book English(PB)	Neera Verma		35	
0000 A	11376	Pyramid Vaastu Sheer Cheating English(PB)	Kuldeep Saluja		150	
0000 A	11377	Quick Kitty Party Delights English(PB)	Komal Taneja		100	
0000 A	11378	Quiet (PB)	Paul Bright		199	
0000 A	11379	Quiet Talks With The Master English(PB)	Satya Pal Ruhela		60	
0000 A	11380	Rabindranath Tagore English(PB)	Simran		30	
0000 A	11381	Rabindranath Tagore English(PB)	Renu Saran		40	
0000 A	11382	Railway Recruitment Cell Group d Exam (Guide) PB English	Lali Kumari		160	
0000 A	11383	Railway Recruitment Cell Group d Exam (Practice Test Papers) PB English			110	
0000 A	11384	Rainbow In Dew Drops English(PB)	Anshu Pathak		100	
0000 A	11385	RAJASTHAN Teacher Eligibility Test PB English	Vikas Doon		115	
0000 A	11386	Rajiv Gandhi English(PB)	Renu Saran		30	
0000 A	11387	Ram Krishna Paramhansa English(PB)	B R Kishore		95	
0000 A	11388	Ramanujacharyas Bhavarth Ratnakar PB Englsh	Arastu Prabhakar		150	
0000 A	11389	Ramayana English(PB)	B R Kishore		125	
0000 A	11390	Rang Bhoomi English(PB)	Prem chand		195	
0000 A	11391	Rani Laxmibai English(PB)	Renu Saran		30	
0000A	11392	Rani Of Jhansi (E) English(PB)	Bhawan Singh Rana		95	
0000 A	11393	Rani Of Jhansi English(HB)	Bhawan Singh Rana		300	
0000 A	11394	Rare Messages From Shri Shirdi Sai Baba As God English(PB)	M K Spencer		60	
0000 A	11395	Raseeli Shayari Sms English(PB)	Kuldeep Saluja		20	
0000 A	11396	Ratan Tata English(PB)	Prateeksha M Tiwari		150	
0000 A	11397	RBI Assistant Recruitment Exam (12 Practice Test Paper) English (PB)			150	
0000 A	11398	Read & Learn Astrology English(PB)	B K Chaturvedi		45	

0000 A	11399	Read & Learn Numerology English(PB)	B K Chaturvedi		45	
0000 A	11400	Read & Learn Palmistry English(PB)	B K Chaturvedi		45	
0000 A	11401	Recruitment Of Assistants In New India Assurance Company Ltd. (Practice Test Paper) PB English			185	
0000 A	11402	Recruitment of Primary Teachers Exam 2014 PB English			135	
0000 A	11403	Rejuvenate With Kundalini Mantra Yoga English(PB)	L R Chowdhary		95	
0000 A	11404	Religions Of The World Gurus Philosophers Mystics & Saints Of India (Parti) English(PB)	Giriraj Shah		195	
0000 A	11405	Religions Of The World Gurus Philosophers Mystics & Saints Of India (Partii) English(PB)	Giriraj Shah		195	
0000 A	11406	Religious Basis Of Hindu Beliefs English(PB)	Bhojraj Dwivedi		95	
0000 A	11407	Remedial Vaastushastra English(HB)	Bhojraj Dwivedi		400	
0000 A	11408	Remedial Vaastushastra English(PB)	Bhojraj Dwivedi		200	
0000 A	11409	Renowned Devotees Of Sai Baba PB English	O P Jha		110	
0000 A	11410	Requirement Of Assistant Station Master TT Train Clark (Practice Test Paper) PB English			125	
0000 A	11411	Rest In Pieces English(PB)	Ruzbeh N Bharucha		95	
0000 A	11412	Return Of Hanuman English(PB)			35	
0000 A	11413	Rice Cook Book English(PB)	Neera Verma		125	
0000 A	11414	Rigveda (E) English(PB)	Rajbali Pandey		125	
0000 A	11415	Ring Ring English(HB)			159	
0000 A	11416	Rishi Ram Ram English(PB)	M K Spencer		100	
0000 A	11417	Round and Round Jigsaw Garden & Toy English(HB)			399	
0000 A	11418	Round and Round Jigsaw Sea & Toy English(HB)			399	
0000 A	11419	Round and Round: Jigsaw Farm & Toy English(HB)			399	
0000 A	11420	RRB Exam-2015 (PTP) PB English	Vikas Doon, Sanjay Kumar		80	
0000A	11421	RRB Staff Nurse PB English			100	
0000 A	11422	Rudraksh Therapy English(PB)	B D Sharma		95	
0000 A	11423	Rules Of Various Sports English(PB)	Sanjay Bhola Dheer		95	
0000 A	11424	Running Around In Circles English(PB)	Kunal Chowdhary		195	
0000 A	11425	Sai Grace And Recent Predictions English(PB)	Satya Pal Ruhela		95	
0000 A	11426	Saina Nehwal PB English	Renu Saran		125	
0000 A	11427	sakaratmak soch Swami Vivekanand PB English	Ramesh Pokhriyal Nishank		50	
0000 A	11428	Sampuran Vaastu Shastra English(PB)	Bhojraj Dwivedi		200	
0000 A	11429	Samveda English(PB)	Rajbali Pandey		95	
0000 A	11430	Sanskar Vidhi (Arya Samaj) English(PB)	Bhagwan Dev		250	
0000 A	11431	Santas Day Cloth English(HB)			159	
0000 A	11432	Santa's Special Letter HB English	Josephine Collins		425	
0000 A	11433	Saral English Grammar PB English	Pradeep Rohila		225	
0000 A	11434	Sardar Patel PB English	Simran		30	
0000 A	11435	Sardar Patel PB English	Renu Saran		150	
0000 A	11436	Say Cheese All The Way English(PB)	Komal Taneja		100	
0000 A	11437	SBI ASSTT Manager (Systems) PB English	Arvind Mohan Dwivedi		100	
0000 A	11438	SBI Clerk Grade Exam (15-Practice Test Paper) English (PB)			200	

0000 A	11439	SBI Clerk Grade Exam Guide English (PB)			350	
0000 A	11440	SBI Probationary Officer Guide PB English			525	
0000 A	11441	SBI Probationery Officers (12 Practice Test Paper) PB English	Arvind Mohan Dwivedi		290	
0000 A	11442	Scandals Controversies & World Cup2003 English(PB)	K R Wadhwaney		195	
0000 A	11443	Science Of Mind Simplified English(PB)	B K Chandra Shekhar		150	
0000 A	11444	Science Quiz Book English(PB)	Anuj Goswami		95	
0000 A	11445	Scientific Basis Of Hindu Beliefs English(PB)	Bhojraj Dwivedi		125	
0000 A	11446	scientific Method To Top Every Exam Of Life English(PB)	Biswaroop Roy Choudhray		110	
0000 A	11447	SCT Police Constables And Fireman (Andrapradesh Police) English (PB)			250	
0000 A	11448	Sea Animal Colouring & Activity Book English(PB)			25	
0000 A	11449	Sea Friends English(HB)	Anna Claybourne & Jo Moon		425	
0000A	11450	Search For The Royal Traitor English(PB)	Varun Sehgal		100	
0000 A	11451	Secrects Of Business Success English(PB)	Ram Kailash Gupta		110	
0000 A	11452	Secret Of Disciplehood English(PB)	Osho		95	
0000 A	11453	Secrets Of Success English(PB)	Tarun Engineer		150	
0000 A	11454	Secrets Of Success Through Bhagwadgeeta English(PB)	Kapil Kakkar		110	
0000 A	11455	Secrets Of Super Success English(PB)	Subhash Lakhotia		125	
0000 A	11456	Selected Gujarati Short Stories English(PB)	Rajendra Awasthi		95	
0000 A	11457	Selected Hindi Short Stories English(PB)	Rajendra Awasthi		125	
0000 A	11458	Selected Malayalam Short Stories English(PB)	Rajendra Awasthi		95	
0000 A	11459	Selected Punjabi Short Stories English(PB)	Rajendra Awasthi		95	
0000 A	11460	Selected Tamil Short Stories English(PB)	Rajendra Awasthi		95	
0000 A	11461	Self Confidence Gate Way To Success English(PB)	Ram Kailash Gupta		125	
0000 A	11462	Sense Of Humour Of Birbal English(PB)	Prakash Mannu		35	
0000 A	11463	Sense Of Humour Of Tenalirama English(PB)	Pratibha Kasturiya		35	
0000 A	11464	Sex A New Concept English(PB)	Dayanand Verma		75	
0000 A	11465	Sex For Adolescents English(PB)	Brijesh Kumar		35	
0000 A	11466	Sex For All English(PB)	Satish Goel		95	
0000 A	11467	Shadows A love Story English(PB)	Niranjan Tasneem		100	
0000 A	11468	Shadows In Cages (Mother & Child In Indian Prisons) English(PB)	Ruzbeh N Bharucha		225	
0000 A	11469	Shape Of The Hand English(PB)	V K Sharma		95	
0000 A	11470	Shape Your Personality PB English	CD Semwal		125	
0000 A	11471	She Fell In Love English(PB)	Rajinder Singh		100	
0000 A	11472	Shirdi Sai Baba (Children Biography) PB English	O P Jha		30	
0000 A	11473	Shirdi Sai Baba Life Philosophy And Devotion	O P Jha		150	
0000 A	11474	Shirdi Sai Baba PB English	O P Jha		80	
0000 A	11475	Shirdi Sai The Supreme English(PB)	Satya Pal Ruhela		95	
0000 A	11476	Shiv Abhishek Pujan English(PB)	Bhojraj Dwivedi		40	
0000 A	11477	Shiv Purana English(PB)	B K Chaturvedi		95	
0000 A	11478	Shrawan Kumar (The Worthy Son) English(PB)	B K Chaturvedi		20	
0000A	11479	Shree Sai Nath Mananam English(PB)	B V N Swami		50	

0000 A	11480	Shri Gaytari Chalisa (Roman) English(PB)			10	
0000 A	11481	Shri Guruji Golwalkar English(PB)	Mahesh Dutt Sharma		95	
0000 A	11482	Shri Hanuman Chalisa (Roman) English(PB)	B K Chaturvedi		60	
0000 A	11483	Shri Sai Baba Chants English(PB)	Purushottama Nanda		100	
0000 A	11484	Shri Satya Narayana Vrat Katha (English And Hindi) English(PB)			25	
0000 A	11485	Shri Shiv Chalisa (Roman) English(PB)			10	
0000 A	11486	Shrimad Bhagvad Gita Krishna The Charioteer English (PB)	Ramesh Tiwari		175	
0000 A	11487	Shunya PB English	Varun Sehgal		125	
0000 A	11488	Silence Behind Noise PB ENGLISH	Sanjay Kumar Verma		250	
0000 A	11489	Silly Shayari Sms English(PB)	Kuldeep Saluja		20	
0000 A	11490	Simply Beautiful Home English(PB)	Anshu Pathak		295	
0000 A	11491	Siya Seth Dicide To Die English(PB)	Sneha Mehta		100	
0000 A	11492	Skanda Purana English(PB)	Vinay		95	
0000 A	11493	Skin Care English(PB)	Renu Gupta		125	
0000 A	11494	Slices From A Life English(PB)	Abhimanyu Unnaut		125	
0000 A	11495	Social Sciences (The Indian Scene) English(PB)	Yogesh Atal		95	
0000 A	11496	Sonar Gaon PB English	Nilendu Sen		150	
0000 A	11497	Soul Of Jainism English(PB)	Shiv Sharma		125	
0000 A	11498	Soul@Universe Com English(HB)	Pandit Atre		200	
0000 A	11499	Soul@Universe Com English(PB)	Pandit Atre		75	
0000 A	11500	Soups Cook Book English(PB)	Neera Verma		45	
0000 A	11501	Soya Everyday English(PB)	Komal Taneja		100	
0000 A	11502	Spark Of The Divine English(PB)	Rajinder Singh		200	
0000 A	11503	Speed Palmistry With Memory Tips English(PB)	Biswaroop Roy Choudhray		95	
0000 A	11504	Spicy Shayari Sms English(PB)	Kuldeep Saluja		20	
0000 A	11505	Spiritual Fitness English(PB)	Nency Mramor		95	
0000 A	11506	Spiritualism In Day To Day Life English(PB)	R N Lakhotia		50	
0000 A	11507	Sports Scare	H P Siingh Rishi		110	
0000A	11508	Spring Stencils HB English	Maria Maddocks		280	
0000 A	11509	Sri Aurobindo English(PB)	Simran		30	
0000 A	11510	Sri Aurobindo English(PB)	Purnima Mazumdar		75	
0000 A	11511	Sri Krishna The Ascetic English(PB)	Rekha Sigi		95	
0000 A	11512	Sri Ram Charit Manas English(PB)	S P Ojha		125	
0000 A	11513	Sri Ramakrishna Paramhansa (Children Biography) PB English	Renu Saran		30	
0000 A	11514	Sri Sai Science of Vaastu English(PB)	Gopal Sharma		195	
0000 A	11515	Sri Sai Science Of Vaastu English(PB)	Gopal Sharma		195	
0000 A	11516	Sri Sathya Sai Baba English(PB)	Satya Pal Ruhela		95	
0000 A	11517	Sri Shirdi Sai Bhajanmala In Roman English(PB)	Satya Pal Ruhela		50	
0000 A	11518	Sri Sri As I Know Him English(PB)	Sri Sri Ravishankar Ji		149	
0000 A	11519	Srikanta English(PB)	Sharat Chandra Chattopadhyay		150	
0000 A	11520	SSC CAPFS PTP PB English	Vikas Doon		80	
0000 A	11521	SSC Combined Graduate Level (12 Practice Test Paper) PB English			200	
0000 A	11522	SSC Combined Graduate Level (Tier 1) PB English			400	
0000 A	11523	SSC Combined Higher Secondary Level - 2015 PB English			290	
0000 A	11524	SSC Combined Higher Secondary Level - Practice Test Papers PB English			150	
0000 A	11525	SSC Combined Higher Secondary Level - PTP 2015 PB English			150	

0000 A	11526	SSC Constable Recruitment Exam PB English			210	
0000 A	11527	SSC Multi Tasking Practice Test Paper PB English Envelope			125	
0000 A	11528	SSC Multitasking (12 Practice Test Paper) PB English			100	
0000 A	11529	SSC Stenographer Grade C & D 2014 (Practice Test Paper) PB English			150	
0000 A	11530	SSC Stenographer Grade C & D 2014 GUIDE PB English			225	
0000 A	11531	Staff Nurse (ANM/GNM) PTP PB English	Vikas Doon		100	
0000 A	11532	Steel King Lakshmi Mittal English(PB)	Prateeksha M Tiwari		95	
0000 A	11533	Stop Loosing Start Winning PB English	Ashu Dutt		150	
0000 A	11534	Stories From Hitopadesh English(PB)	Purnima Mazumdar		60	
0000 A	11535	Stories From Panchtantra English(PB)	Purnima Mazumdar		95	
0000 A	11536	Stories From Panchtantra I English(PB)	B K Chaturvedi		20	
0000A	11537	Stories That Enlighten You English (PB)	JPS Jolly		150	
0000 A	11538	Stress PB English	Bimal Chhajer		50	
0000 A	11539	Stroke Paralysis English(PB)	Bimal Chhajer		50	
0000 A	11540	Study Of Omens English(PB)	Bhojraj Dwivedi		95	
0000 A	11541	Study Of Pencil Shading Animal 1 (E) English(PB)	Shivasheesh Sharma		60	
0000 A	11542	Subhash Chandra Bose English(PB)	Renu Saran		40	
0000 A	11543	Subodha Stotra Ratna Sangrahah English(PB)			95	
0000 A	11544	Success Is Not By Chance (E) English(PB)	Ashokindu		125	
0000 A	11545	Success Mantra English(PB)	Joginder Singh		150	
0000 A	11546	Sudoku For Pleasure English(PB)	Naresh Mohan Lal Sood		60	
0000 A	11547	Sudoku Gems English(PB)	Naresh Mohan Lal Sood		60	
0000 A	11548	Sudoku Is Fun English(PB)	Naresh Mohan Lal Sood		75	
0000 A	11549	Sudoku Island English(PB)	Naresh Mohan Lal Sood		60	
0000 A	11550	Sudoku Magic English(PB)	Naresh Mohan Lal Sood		60	
0000 A	11551	Sudoku Pearls English(PB)	Naresh Mohan Lal Sood		60	
0000 A	11552	Sudoku Treasure English(PB)	Naresh Mohan Lal Sood		60	
0000 A	11553	Sudoku Whichcraft English(PB)	Naresh Mohan Lal Sood		60	
0000 A	11554	Sufi The Invisible Man Of The Underworld English(PB)	Abid Surti		150	
0000 A	11555	Sukhwant Kalsi's Cartoon Book English(PB)	Sukhwant Kalsi		95	
0000 A	11556	Superhit Shayari Sms English(PB)	Kuldeep Saluja		20	
0000 A	11557	Surya Chikitsa English(PB)	Satyanand		125	
0000 A	11558	Swami Vivekanand A Biography English(PB)	Asha Prasad		195	
0000 A	11559	Swami Vivekanand English(PB)	Simran		30	
0000 A	11560	Swami Vivekananda in Chicago PB English	Ramesh Pokhriyal Nishank		50	
0000 A	11561	Take Your Dream Job English(PB)	Yograj Negi		125	
0000 A	11562	Tales From The Mahabharat English(PB)	B K Chaturvedi		125	
0000 A	11563	Tales From The Puranas English(PB)	Mahesh Dutt Sharma		125	
0000 A	11564	Tales From The Ramayan English(PB)	Meena Agarwal		125	
0000 A	11565	Tales From The Upanishads English(PB)	Mahesh Dutt Sharma		125	
0000A	11566	Tales From The Vedas And Other Scriptures English(PB)	B K Chaturvedi		125	
0000 A	11567	Tales Of Krishna English(HB)	Narayan Sharma		350	
0000 A	11568	Tales Of Krishna English(PB)	Narayan Sharma		125	

0000 A	11569	Tantra Vision An Invitation To Silence English(PB)	Osho		95	
0000 A	11570	Tantric Transformation English(PB)	Osho		295	
0000 A	11571	Teachings And Philosophy Of Buddha English(PB)	Udit Sharma		150	
0000 A	11572	Ten on the Bus English(HB)			299	
0000 A	11573	Tenaliram English(HB)			175	
0000 A	11574	Tenaliramas Jokes 1 English(PB)	B K Chaturvedi		20	
0000 A	11575	Tenaliramas Jokes 2 English(PB)	B K Chaturvedi		20	
0000 A	11576	Tenaliramas Wit English(PB)	Pratibha Kasturiya		35	
0000 A	11577	Tense For Life English(PB)	Anand Satyarthi		100	
0000 A	11578	That Hardly Happens To Someone English(PB)	Rajesh Singh		100	
0000 A	11579	The 4th Idiot English(PB)	Biswaroop Roy Choudhray		150	
0000 A	11580	The 7th Semester English(PB)	Priyam Kumar		100	
0000 A	11581	The Anatomy Of Computer Virus English(PB)	Sahil Khan		150	
0000 A	11582	The Architect Of Modern India Dr Bhimrao Ambedkar English(PB)	Mahesh Ambedkar		95	
0000 A	11583	The Art Of Living Osho Quotes To Eternal Life English(PB)	Osho		250	
0000 A	11584	The Aspirants English(PB)	Yadam Ram Kumar		100	
0000 A	11585	The Astrological Analysis Of Earth Quake English(PB)	Bhojraj Dwivedi		60	
0000 A	11586	The Autobiography Of Benjamin Franklin PB English	Benjamin Franklin		150	
0000 A	11587	The Awesome Challenge Of Aids English(PB)	Pushpa Khurana		60	
0000 A	11588	The Best Of Vikram Betal English(PB)	Pratibha Kasturiya		35	
0000 A	11589	The Bhagvadgita English(PB)	M K Gandhi		195	
0000 A	11590	The Bitter Truths Of Network Marketing English(PB)	Ujjawal Patni		125	
0000 A	11591	The Black Snow English(PB)			100	
0000 A	11592	The Business Of Good People Englis (PB)	Raghu Korrapati		150	
0000 A	11593	The Busy Little Train English(HB)			375	
0000 A	11594	The Busy Red Tractor English(HB)			375	
0000A	11595	The Carnival Of Peace Kumbh Teertham Haridwar (English HB)	Radhika Nagrath		3000	
0000 A	11596	The Centre Of The Cyclone English(PB)	Osho		95	
0000 A	11597	The Crazy Indian And Other Stories PB English	Krishan Murrari Soni		150	
0000 A	11598	The Creeping Shadow English(PB)	Rajendra Awasthi		95	
0000 A	11599	The Crunching Munching Caterpillar(PB)	Sheridan Cain Jack Tickle		199	
0000 A	11600	The Death Of A Passport English(PB)	Iqbal Ramoowalia		150	
0000 A	11601	The Dirt On Breaking Up English(PB)	Justin Lookadoo		150	
0000 A	11602	The Dirt On Dating English(PB)	Justin Lookadoo		150	
0000 A	11603	The Dirt On Drugs English(PB)	Justin Lookadoo		150	
0000 A	11604	The Dirt On Sex English(PB)	Justin Lookadoo		150	
0000 A	11605	The Divine Melody English(PB)	Osho		250	
0000 A	11606	The Eternal Sai English(PB)	S Maneey		40	
0000 A	11607	The Excellence In You English(PB)	Giriraj Shah		150	
0000 A	11608	The Fairies Of Starshine Meadow (Daisy And The Dazzling Drama)English(PB)	Kate Bloom		99	
0000 A	11609	The Fairies Of Starshine Meadow (Rose Andd The Perfect Pet) English PB	Kate Bloom		99	
0000 A	11610	The First Woman President Of India Pratibha Patil English(PB)	Kumar Pankaj		95	
0000 A	11611	The Great Challenge English(PB)	Osho		250	

0000 A	11612	The Great Entrepreneurs Of India English(PB)	Renu Saran		150	
0000 A	11613	The Green Revolution English(PB)	Komal Taneja		100	
0000 A	11614	The Haunted Park PB English	Eknoor Singh Arora		125	
0000 A	11615	The Holy Geeta English(HB)	Malayaj Garg		3000	
0000 A	11616	The Immortal Fakir Of Shirdi English(PB)	Satya Pal Ruhela		150	
0000 A	11617	The Immortal Philosopher Of India Swami Vivekananda English(PB)	Meena Agarwal		95	
0000 A	11618	The Incredible Hulk Colouring Book English(PB)			40	
0000 A	11619	The Incredible Hulk Sticker Book English(PB)			50	
0000 A	11620	The Initiative English(PB)	Vikram Gadewal		100	
0000 A	11621	The Inward Journey In Osho'S Guidance English(PB)	Anand Urmila		75	
0000 A	11622	The Jungle Jive English(HB)			349	
0000 A	11623	The Karma Of Beauty English(PB)	Sangeeta Mehta		120	
0000A	11624	The Kings Mascot	Rajinder Singh		40	
0000 A	11625	The Last Goal English(PB)	Surender Mohan Pathak		100	
0000 A	11626	The Light English (PB)	Devam		100	
0000 A	11627	The Light HB English	Devam		200	
0000 A	11628	The Magic Blanket English(HB)			250	
0000 A	11629	The Magic Box English(HB)	Richard Morgan		250	
0000 A	11630	The Magic Little Sleigh English(HB)			375	
0000 A	11631	The Mahabharata English(PB)	Story By- Arpita Barua		75	
0000 A	11632	The Making Of Mahatma (A Biography) English(PB)	Anuradha Ray		95	
0000 A	11633	The Mall English(PB)	Saroj Rathi		100	
0000 A	11634	The Mannual Of Sex And Tantra English(PB)	B R Kishore		95	
0000 A	11635	The Martyr Bhagat Singh Experiments in Revolution English(PB)	Kuldip Nayyar		100	
0000 A	11636	The Master Is A Mirror English(PB)	Osho		95	
0000 A	11637	The Miracle Man sri Satya Sai Baba English(PB)	B K Chaturvedi		75	
0000 A	11638	The Monkey With Bright Blue Bottam	Nick Schon		175	
0000A	11639	The Monster Counting Book HB English	Kate Daubney		425	
0000 A	11640	The Mystery Beyond Mind English(PB)	Osho		95	
0000 A	11641	The Mystique Of Gems & Stones English(PB)	Bhojraj Dwivedi		250	
0000 A	11642	The New Migrant English(PB)	Joginder Singh Kanwal		150	
0000 A	11643	The New Palmistry English(PB)	Judith Hipskind		250	
0000 A	11644	The Noisy Noisy Farm HB English	Stephanie Stansbie		500	
0000 A	11645	The One A Tale Of An Amazing Spiritual Quest English(PB)	Narayan Arvind		195	
0000 A	11646	The Opportunity Rama Katha II English(PB)	Narender Kohli		150	
0000 A	11647	The paradise never lost English(PB)	Pramod bharti		150	
0000 A	11648	The Pathway To Addiction Recovery PB English	Neil Paul		150	
0000 A	11649	The Power Of Mantra & The Mystery Of Initiation English(PB)	Pandit Rajmani Tigunati		175	
0000 A	11650	The Power of Thoughts English(PB)	Tarun Engineer		150	
0000 A	11651	The Psychology Of The Esoteric English(PB)	Osho		250	
0000 A	11652	The Radio Jockey Hand Book English(PB)	Simran Kohli		195	
0000 A	11653	The Ramayana English(PB)			40	
0000 A	11654	The Revolutionary Subhash English(PB)	Giriraj Sharan Agarwal		100	
0000 A	11655	The Rise Of Kundalini English(PB)	Dietmar Kraemer		100	

0000 A	11656	The Royal Way (Sufi The People Of The Path Volii Ch 915) English(PB)	Osho		250	
0000 A	11657	The Saffron Book English(PB)	Prafull Goradia		150	
0000 A	11658	The Secret Of Happiness English(PB)	Jas Mand		195	
0000 A	11659	The Story Of Rama (A Mythological Novel) English(PB)	Narender Kumar Sinha		250	
0000 A	11660	The Supreme Mother Goddess Durga English(PB)	B K Chaturvedi		95	
0000 A	11661	The Tantra Experience English(PB)	Osho		295	
0000 A	11662	The Three Little Pigs HB English	Jenny Arthur		475	
0000 A	11663	The Ultimate Kakuro(Are You Game For It ?) English(PB)	Shab Puzzler Media		75	
0000 A	11664	The Unofficial Joke Book Of Advanced Sms English(PB)	Kuldeep Saluja		60	
0000 A	11665	The Unofficial Joke Book Of Afghanistan English(PB)	Kuldeep Saluja		60	
0000 A	11666	The Unofficial Joke Book Of Amsterdam Sms English(PB)	Kuldeep Saluja		20	
0000 A	11667	The Unofficial Joke Book Of Australia English(PB)	Kuldeep Saluja		60	
0000A	11668	The Unofficial Joke Book Of Belgium English(PB)	Kuldeep Saluja		60	
0000 A	11669	The Unofficial Joke Book Of Berlin Sms English(PB)	Kuldeep Saluja		20	
0000 A	11670	The Unofficial Joke Book Of Birthday Sms English(PB)	Kuldeep Saluja		20	
0000 A	11671	The Unofficial Joke Book Of Brazil English(PB)	Kuldeep Saluja		60	
0000 A	11672	The Unofficial Joke Book Of Canada English(PB)	Kuldeep Saluja		60	
0000 A	11673	The Unofficial Joke Book Of Chiki Sms English(PB)	Kuldeep Saluja		20	
0000 A	11674	The Unofficial Joke Book Of Classic Sms English(PB)	Kuldeep Saluja		20	
0000 A	11675	The Unofficial Joke Book Of Crazy Sms English(PB)	Kuldeep Saluja		20	
0000 A	11676	The Unofficial Joke Book Of Fantastic Sms English(PB)	Kuldeep Saluja		20	
0000 A	11677	The Unofficial Joke Book Of Foolish Sms English(PB)	Kuldeep Saluja		20	
0000 A	11678	The Unofficial Joke Book Of Friendship Sms English(PB)	Kuldeep Saluja		20	
0000 A	11679	The Unofficial Joke Book Of Good Morning Sms English(PB)	Kuldeep Saluja		20	
0000 A	11680	The Unofficial Joke Book Of Good Night Sms English(PB)	Kuldeep Saluja		20	
0000 A	11681	The Unofficial Joke Book Of Hawai English(PB)	Kuldeep Saluja		60	
0000 A	11682	The Unofficial Joke Book Of Holland English(PB)	Kuldeep Saluja		60	
0000 A	11683	The Unofficial Joke Book Of Hong Kong English(PB)	Kuldeep Saluja		60	
0000 A	11684	The Unofficial Joke Book Of India English(PB)	Kuldeep Saluja		60	
0000 A	11685	The Unofficial Joke Book Of Internet English(PB)	Kuldeep Saluja		60	
0000 A	11686	The Unofficial Joke Book Of Jamaica English(PB)	Kuldeep Saluja		60	
0000 A	11687	The Unofficial Joke Book Of Japan English(PB)	Kuldeep Saluja		60	
0000 A	11688	The Unofficial Joke Book Of Lachile Sms English(PB)	Kuldeep Saluja		20	
0000 A	11689	The Unofficial Joke Book Of Las Vegas Sms English(PB)	Kuldeep Saluja		20	
0000 A	11690	The Unofficial Joke Book Of London Sms English(PB)	Kuldeep Saluja		20	
0000 A	11691	The Unofficial Joke Book Of Love Sms English(PB)	Kuldeep Saluja		20	

0000 A	11692	The Unofficial Joke Book Of Lubhavne Sms English(PB)	Kuldeep Saluja		20	
0000 A	11693	The Unofficial Joke Book Of Malaysia English(PB)	Kuldeep Saluja		60	
0000 A	11694	The Unofficial Joke Book Of Manbhavne Sms English(PB)	Kuldeep Saluja		20	
0000 A	11695	The Unofficial Joke Book Of Manchale Sms English(PB)	Kuldeep Saluja		20	
0000 A	11696	The Unofficial Joke Book Of Melbourne English(PB)	Kuldeep Saluja		60	
0000A	11697	The Unofficial Joke Book Of Mind Blowing Sms English(PB)	Kuldeep Saluja		20	
0000 A	11698	The Unofficial Joke Book Of Moscow Sms English(PB)	Kuldeep Saluja		20	
0000 A	11699	The Unofficial Joke Book Of Mulla Nasruddin English(PB)	Kuldeep Saluja		60	
0000 A	11700	The Unofficial Joke Book Of Natkhat Sms English(PB)	Kuldeep Saluja		20	
0000 A	11701	The Unofficial Joke Book Of Naughty Sms English(PB)	Kuldeep Saluja		20	
0000 A	11702	The Unofficial Joke Book Of New Sms English(PB)	Kuldeep Saluja		60	
0000 A	11703	The Unofficial Joke Book Of New York English(PB)	Kuldeep Saluja		60	
0000 A	11704	The Unofficial Joke Book Of New Zealand English(PB)	Kuldeep Saluja		60	
0000 A	11705	The Unofficial Joke Book Of Pakistan English(PB)	Kuldeep Saluja		60	
0000 A	11706	The Unofficial Joke Book Of Paris Sms English(PB)	Kuldeep Saluja		20	
0000 A	11707	The Unofficial Joke Book Of Patiala English(PB)	Kuldeep Saluja		60	
0000 A	11708	The Unofficial Joke Book Of Pyare Sms English(PB)	Kuldeep Saluja		20	
0000 A	11709	The Unofficial Joke Book Of Rapchique Sms English(PB)	Kuldeep Saluja		20	
0000 A	11710	The Unofficial Joke Book Of Rome Sms English(PB)	Kuldeep Saluja		20	
0000 A	11711	The Unofficial Joke Book Of Shararti Sms English(PB)	Kuldeep Saluja		20	
0000 A	11712	The Unofficial Joke Book Of Sharmiley Sms English(PB)	Kuldeep Saluja		20	
0000 A	11713	The Unofficial Joke Book Of Sheikh Chilli English(PB)	Kuldeep Saluja		60	
0000 A	11714	The Unofficial Joke Book Of Silly Sms English(PB)	Kuldeep Saluja		20	
0000 A	11715	The Unofficial Joke Book Of Singapore English(PB)	Kuldeep Saluja		60	
0000 A	11716	The Unofficial Joke Book Of Some More Sms English(PB)	Kuldeep Saluja		20	
0000 A	11717	The Unofficial Joke Book Of Sri Lanka English(PB)	Kuldeep Saluja		60	
0000 A	11718	The Unofficial Joke Book Of Switzerland English(PB)	Kuldeep Saluja		60	
0000 A	11719	The Unofficial Joke Book Of Sydney English(PB)	Kuldeep Saluja		60	
0000 A	11720	The Unofficial Joke Book Of Thailand English(PB)	Kuldeep Saluja		60	
0000 A	11721	The Unofficial Joke Book Of Uk English(PB)	Kuldeep Saluja		60	
0000 A	11722	The Unofficial Joke Book Of Valentine Sms English(PB)	Kuldeep Saluja		20	
0000 A	11723	The Very Friendly Firefly HB English	Jack Tickle		375	
0000 A	11724	The Very Greedy Bee	Jack Tickle		175	
0000 A	11725	The Very Merry Mice HB English	Jack Tickle		425	
0000A	11726	The Very Noisy Night Gift Box HB English	Diana Hendry		450	
0000 A	11727	The Very Smiley Snowman HB English	Jack Tickle		425	
0000 A	11728	The Very Snowy Christmas HB English	Diana Hendry		375	

0000 A	11729	The Volcano (A Novel On Indian Partition) English(PB)	Swaran Chandan		195	
0000 A	11730	The Yogasara Upanishad English(PB)	Sri Sri Ravishankar Ji		79	
0000 A	11731	There Is Never A Last Time For English(PB)	Vishwajeet Singh & Indresh Kumar		100	
0000 A	11732	Think And How To Grow Rich (E) English(PB)	Napoleon Hill		125	
0000 A	11733	Think Big Become Big English(PB)	Tarun Engineer		175	
0000 A	11734	Third Earth And Other Short Stories English(PB)	Aruna Sitesh		150	
0000 A	11735	Thrilling Jokes English(PB)	G C Goyal		60	
0000 A	11736	Thus Spake Buddha English(PB)	Anurag Sharma		150	
0000 A	11737	Thus Spake Sri Shridi Sai Baba English(PB)	B Uma Maheshwara Rao		40	
0000 A	11738	Thus Spoke English(PB)	Shooyo Ji		95	
0000 A	11739	Tick Tock English(HB)			159	
0000 A	11740	Tickling Shayari Sms English(PB)	Kuldeep Saluja		20	
0000 A	11741	Till We Meet Again PB English	Leema Dhar		150	
0000 A	11742	Time Management English(PB)	Rekha Vyas		150	
0000 A	11743	Tips & Tricks Excel 2010 English(PB)	Davinder Singh Minhas		150	
0000 A	11744	Tips & Tricks Windows 7 English(PB)	Davinder Singh Minhas		150	
0000 A	11745	Tips & Tricks Word 2010 English(PB)	Davinder Singh Minhas		150	
0000 A	11746	Tips For Success (E) English(PB)	Sunil Jogi		150	
0000 A	11747	Tips Of Property PB English	Subhash Lakhotia R N Lakhotia		150	
0000 A	11748	Toppers Top Tips PB English	JPS Jolly		150	
0000 A	11749	Touched By Fire English(PB)	Pandit Rajmani Tigunati		295	
0000 A	11750	Tourist Centers Of India English(PB)	B K Chaturvedi		95	
0000 A	11751	Trading Fundamentals English(PB)	Vivek K Negi		150	
0000 A	11752	Triangles Of terror English(PB)	Shyam Lal Puri		100	
0000 A	11753	Triple Eclipse Of 2009 English(PB)	Sri Sri Ravishankar Ji		200	
0000 A	11754	Triplen English(PB)	Raj Kumar Kohli		195	
0000A	11755	Triumph at Tsunami PB English	V K Jain		220	
0000 A	11756	Trust Hardwork Not Distiny English(PB)	Ramesh Pokhriyal		150	
0000 A	11757	Tubby Finds A Blue Balloon (3) English(PB)			35	
0000 A	11758	Tubby Is Honest (5) English(PB)			35	
0000 A	11759	Tubby Is Lost (12) English(PB)			35	
0000 A	11760	Tubby Learns Greediness Is Harmful (2) English(PB)			35	
0000 A	11761	Tubby Learns Not To Fight (8) English(PB)			35	
0000 A	11762	Tubby Learns To Be Careful (7) English(PB)			35	
0000 A	11763	Tubby Learns To Clean (4) English(PB)			35	
0000 A	11764	Tubby Learns To Remember (11) English(PB)			35	
0000 A	11765	Tubby Learns to Share (6) English(PB)			35	
0000 A	11766	Tubby Loves To Draw (9) English(PB)			35	
0000 A	11767	Tubby Loves To Go To School (1) English(PB)			35	
0000 A	11768	Tubby Tells Truth (10) English(PB)			35	
0000 A	11769	Tubbys Bed Time Story PB English			60	
0000 A	11770	Tubbys Big Colouring Book English(PB)			80	
0000 A	11771	Tubbys Capital & Small Writing Book PB English			60	
0000 A	11772	Tubbys Capital Writing Book English(PB)			60	

0000 A	11773	Tubbys Classic Tales Aladdin & The Magic Lamp English(PB)			50	
0000 A	11774	Tubbys Classic Tales Alice In Wonderland English(PB)			40	
0000 A	11775	Tubbys Classic Tales Cinderella English(PB)			50	
0000 A	11776	Tubbys Classic Tales Goldilocks And The Three Bears English(PB)			50	
0000 A	11777	Tubbys Classic Tales Hansel And Gretel English(PB)			50	
0000 A	11778	Tubbys Classic Tales Hare And The Tortoise English(PB)			40	
0000 A	11779	Tubbys Classic Tales Little Red Riding Hood English(PB)			50	
0000 A	11780	Tubbys Classic Tales Pinocchio English(PB)			50	
0000 A	11781	Tubbys Classic Tales Rapunzel English(PB)			50	
0000 A	11782	Tubbys Classic Tales Snow White And The Seven Divraps English(PB)			50	
0000 A	11783	Tubbys Classic Tales The Jungle Book English(PB)			40	
0000A	11784	Tubbys Colouring Book Of Bollywood Actors English(PB)			20	
0000 A	11785	Tubbys Colouring Book Of Cricketers English(PB)			20	
0000 A	11786	Tubbys Colouring Book Of Dances Of India English(PB)			20	
0000 A	11787	Tubbys Colouring Book Of Festival Of India English(PB)			20	
0000 A	11788	Tubbys Colouring Book Of Ganesha English(PB)			20	
0000 A	11789	Tubbys Colouring Book Of Gods & Goddesses English(PB)			20	
0000 A	11790	Tubbys Colouring Book Of Great Personalities English(PB)			20	
0000 A	11791	Tubbys Colouring Book Of Hanuman English(PB)			20	
0000 A	11792	Tubbys Colouring Book Of Krishna English(PB)			20	
0000 A	11793	Tubbys Colouring Book Of Shiva English(PB)			20	
0000 A	11794	Tubbys Colouring Book Of Tourist Places English(PB)			20	
0000 A	11795	Tubbys Cursive Writing Book 1 English(PB)			50	
0000 A	11796	Tubbys Cursive Writing Book 2 PB English			60	
0000 A	11797	Tubbys Cursive Writing Book 3 PB English			60	
0000 A	11798	Tubbys Cursive Writing Book 4 PB English			60	
0000 A	11799	Tubbys Cursive Writing Book 5 PB English	Priyanka		60	
0000 A	11800	Tubbys Cut & Paste Chart Book Actions English(PB)			12	
0000 A	11801	Tubbys Cut & Paste Chart Book Alphabet A To Z English(PB)			25	
0000 A	11802	Tubbys Cut & Paste Chart Book Amphibians & Reptiles English(PB)			12	
0000 A	11803	Tubbys Cut & Paste Chart Book Balanced Diet & Vitamin Chart English(PB)			12	
0000 A	11804	Tubbys Cut & Paste Chart Book Birds English(PB)			12	
0000 A	11805	Tubbys Cut & Paste Chart Book Cereals Pulses & Spices English(PB)			12	
0000 A	11806	Tubbys Cut & Paste Chart Book Cloths English(PB)			12	
0000 A	11807	Tubbys Cut & Paste Chart Book Colours & Shapes English(PB)			12	

0000 A	11808	Tubbys Cut & Paste Chart Book Computer Parts English(PB)			12	
0000 A	11809	Tubbys Cut & Paste Chart Book Domestic Animals & Pets English(PB)			12	
0000 A	11810	Tubbys Cut & Paste Chart Book Electrical Appliances English(PB)			12	
0000 A	11811	Tubbys Cut & Paste Chart Book Festivals Of India English(PB)			12	
0000 A	11812	Tubbys Cut & Paste Chart Book Fish English(PB)			12	
0000A	11813	Tubbys Cut & Paste Chart Book Flags English(PB)			12	
0000 A	11814	Tubbys Cut & Paste Chart Book Flowers English(PB)			12	
0000 A	11815	Tubbys Cut & Paste Chart Book Freedom Fighters English(PB)			12	
0000 A	11816	Tubbys Cut & Paste Chart Book Fruits English(PB)			12	
0000 A	11817	Tubbys Cut & Paste Chart Book Good Manners English(PB)			12	
0000 A	11818	Tubbys Cut & Paste Chart Book Human Body English(PB)			12	
0000 A	11819	Tubbys Cut & Paste Chart Book Indian Cricketrs English(PB)			12	
0000 A	11820	Tubbys Cut & Paste Chart Book Insects English(PB)			12	
0000 A	11821	Tubbys Cut & Paste Chart Book Kitchen Articles English(PB)			12	
0000 A	11822	Tubbys Cut & Paste Chart Book Monuments Of India English(PB)			12	
0000 A	11823	Tubbys Cut & Paste Chart Book Non Vegetarian Dishes English(PB)			12	
0000 A	11824	Tubbys Cut & Paste Chart Book Numbers English(PB)			12	
0000 A	11825	Tubbys Cut & Paste Chart Book Olympic Games English(PB)			12	
0000 A	11826	Tubbys Cut & Paste Chart Book Plants & Trees English(PB)			12	
0000 A	11827	Tubbys Cut & Paste Chart Book Sea Animals English(PB)			12	
0000 A	11828	Tubbys Cut & Paste Chart Book Vegetables English(PB)			12	
0000 A	11829	Tubbys Cut & Paste Chart Book Vegetarian Dishes English(PB)			12	
0000 A	11830	Tubbys Cut & Paste Chart Book Vehicles English(PB)			12	
0000 A	11831	Tubbys Cut & Paste Chart Book Wild Animals English(PB)			12	
0000 A	11832	Tubbys First Book Of 1 To 20 Numbers English(PB)	Pramod Negi		60	
0000 A	11833	Tubbys First Book Of Abc English(PB)			35	
0000 A	11834	Tubbys First Book Of Abc English(PB)	Pramod Negi		60	
0000 A	11835	Tubbys First Book Of Alphabets Colour Book English(PB)			40	
0000 A	11836	Tubbys First Book Of Amazing Circus Colouring Book English(PB)			30	
0000 A	11837	Tubbys First Book Of Animals Colour Books English(PB)			30	
0000 A	11838	Tubbys First Book Of Animals English(PB)			60	
0000 A	11839	Tubbys First Book Of Birds Colour Book English(PB)			35	
0000 A	11840	Tubbys First Book Of Birds English(PB)			35	
0000 A	11841	Tubbys First Book Of Colours & Shapes English(PB)	Pramod Negi		60	
0000A	11842	Tubbys First Book Of Flags English(PB)			20	

0000 A	11843	Tubbys First Book Of Flowers Colour Book English(PB)			30	
0000 A	11844	Tubbys First Book Of Flowers English(PB)			35	
0000 A	11845	Tubbys First Book Of Fruits & Vegetables English(PB)	Pramod Negi		60	
0000 A	11846	Tubbys First Book Of Fruits Colour Book English(PB)			30	
0000 A	11847	Tubbys First Book Of Fruits English(PB)			35	
0000 A	11848	Tubbys First Book Of Fun Beach Colour Book English(PB)			30	
0000 A	11849	Tubbys First Book Of Fun With Colour I English(PB)	Preschool Books		25	
0000 A	11850	Tubbys First Book Of Fun With Colour II English(PB)			30	
0000 A	11851	Tubbys First Book Of Fun With Colour III English(PB)			30	
0000 A	11852	Tubbys First Book Of Fun With Colour Iv English(PB)			30	
0000 A	11853	Tubbys First Book Of My Pets Colour Book English(PB)			30	
0000 A	11854	Tubbys First Book Of Numbers English(PB)			35	
0000 A	11855	Tubbys First Book Of Nursery Rhymes English(PB)			20	
0000 A	11856	Tubbys First Book Of Nursery Rhymes English(PB)	Santosh Anand		60	
0000 A	11857	Tubbys First Book Of Sea Animals English(PB)			20	
0000 A	11858	Tubbys First Book Of Shapes & Colors English(PB)			20	
0000 A	11859	Tubbys First Book Of Toys Colour Book English(PB)			35	
0000 A	11860	Tubbys First Book Of Vegetable English(PB)			20	
0000 A	11861	Tubbys First Book Of Vegetables Colour Book English(PB)			30	
0000 A	11862	Tubbys First Book Of Vehicles Colour Book English(PB)			30	
0000 A	11863	Tubbys First Book Of Vehicles English(PB)			20	
0000 A	11864	Tubbys First Book Of Wild Animals English(PB)			20	
0000 A	11865	Tubbys First Book Of Writing (Capital Small Cursive) English(PB)	Pramod Negi		60	
0000 A	11866	Tubbys First Book Of Writing Capital Cursive English(PB)			40	
0000 A	11867	Tubbys First Book Of Writing Small Cursive English(PB)			60	
0000 A	11868	Tubbys Jumbo Colouring Book English(PB)			80	
0000 A	11869	Tubbys Learning Numbers 1 To 20 English(PB)			35	
0000 A	11870	Tubbys Learning Numbers 1 To 50 English(PB)	Priyanka		70	
0000A	11871	Tubbys Nursery Rhymes 1 PB English	Priyanka		50	
0000 A	11872	Tubbys Nursery Rhymes 2 PB English	Priyanka		50	
0000 A	11873	Tubbys Play With Dot To Dot English(PB)			40	
0000 A	11874	Tubbys Play With Dot To Dot-2 English(PB)			40	
0000 A	11875	Tubbys Play With Play With Fun Puzzle Find The Difference English(PB)			40	
0000 A	11876	Tubbys Play With Play With Fun Puzzle Find The Difference-2 English(PB)			40	
0000 A	11877	Tubbys Play With Play With Maze Fun English(PB)			40	

0000 A	11878	Tubbys Play With Play With Maze Fun-2 English(PB)			40	
0000 A	11879	Tubbys Small Writing Book English(PB)			40	
0000 A	11880	Tubbys Wiped & Clean Four In One (English) PB			80	
0000 A	11881	Turn Your Creative Spark Into A Flame English(PB)	Joginder Singh		95	
0000 A	11882	Turning In English(PB)	Osho		50	
0000 A	11883	Turning In English(PB)	Osho		95	
0000 A	11884	Universality Of Buddha English(PB)	Shiv Sharma		150	
0000 A	11885	Unlock The Door to Success English(PB)	Ashok Jain		125	
0000 A	11886	Unveiling The Secrets Of Reiki English(PB)	Madabusi Sabramaniam		195	
0000 A	11887	Validated Management Practices English PB	Raghu Korrapati		495	
0000 A	11888	Varaha Purana English(PB)	B K Chaturvedi		95	
0000 A	11889	Vatsyanana Kamasutra (E) English(PB)	B R Kishore		125	
0000 A	11890	Vayu Puran English(PB)	B B Paliwal		95	
0000 A	11891	Vedanta : Seven Steps To Samadhi PB English	Osho		395	
0000 A	11892	Vedanta An Art Of Dying English(PB)	Osho		95	
0000 A	11893	Vedanta The First Star In The Evening English(PB)	Osho		95	
0000 A	11894	Vedanta The Supreme Of Knowledge English(PB)	Osho		95	
0000 A	11895	Veer Hanuman (Children Biography) PB English	Renu Saran		30	
0000 A	11896	Veer Shivaji English(PB)	Simran		30	
0000 A	11897	Veer Shivaji English(PB)	Renu Saran		40	
0000 A	11898	Veer Vinayak Damodar Savarkar (An Important Revolutionary Of India) English(PB)	Bhawan Singh Rana		95	
0000 A	11899	Veg Oriental Cook Book English(PB)	Komal Taneja		100	
0000A	11900	Vegetarian Cook Book English(PB)	Tehlina Kaul		100	
0000 A	11901	Vegetarianism English(PB)	Bimal Chhajer		50	
0000 A	11902	Vegetarianism In Day To Day Life English(PB)	R N Lakhotia		50	
0000 A	11903	Vehicle Colouring & Activity Book English(PB)			25	
0000 A	11904	Vikram Betal English(HB)	Pratibha Kasturiya		175	
0000 A	11905	Vishnu Purana English(PB)	B K Chaturvedi		95	
0000 A	11906	Vitamins For Natural Healing English(PB)	G C Goyal		95	
0000 A	11907	Vocabulary @ 100 Words/Hr English(PB)	Biswaroop Roy Choudhray		150	
0000 A	11908	Walking For Better Health English(PB)	Satish Goel		95	
0000 A	11909	Walking The Path English(PB)	Sri Sri Ravishankar Ji		179	
0000 A	11910	Walking With You In The Shades Of Love PB English	Deepak Yadav		125	
0000 A	11911	Wanda's Washing Machine English(HB)	Anna McQuinn & Jan McCafferty		375	
0000 A	11912	We'll Meet Again (Serendipity Fate & Karma) English(PB)	Anshu Pathak		100	
0000 A	11913	West Bengal GK 2015 English	Tarun Chakraborty		130	
0000 A	11914	West Bengal Police Recruitment Board, Kolkata Excise Constable (Male & Female)(E)			225	
0000 A	11915	West Bengal SSC (Guide) PB English			215	
0000 A	11916	West Bengal SSC (Practice Test Paper) PB English			100	
0000 A	11917	West bengal SSC Sub Inspector Of Food PB English	Arvind Mohan Dwivedi		175	

0000 A	11918	West Bengal Staff Selection Commission Kolkata Recruitment of ASI (English)			225	
0000 A	11919	West Bengal TET (VI-VIII) Maths & Science PB English	Sumana Chakraborti		135	
0000 A	11920	West Bengal TET (VI-VIII) Social Study PB English	Sumana Chakraborti		135	
0000 A	11921	When A Jilted Woman Hits Back English(PB)	Rajinder Singh		100	
0000 A	11922	When Bugsie Ran Away From Home English (PB)	Shuchi Naum		250	
0000 A	11923	When Rahul Met Sunshine English(PB)	Seema Seth		95	
0000 A	11924	When The Sky Is Fallin English(PB)	Hemant rana shah		100	
0000 A	11925	Where Monsoon Never Ends English(PB)	M Pothen		150	
0000 A	11926	Where Whale Went English(HB)			280	
0000 A	11927	Who Am I English(PB)	Dalip Kaur Tiwana		100	
0000 A	11928	Whos Hiding In The Forest English(HB)	Debbie Tarbett		250	
0000A	11929	Why Are We Still Like This Only English(PB)	Jaideep Singh Chadha		150	
0000 A	11930	Why Does My Child Misbehave English(PB)	Sunil Vaid		100	
0000 A	11931	Why Doesn't My Child Eat English(PB)	Sunil Vaid		100	
0000 A	11932	Why Network Marketing English(PB)	Surya Sinha		150	
0000 A	11933	Why We Fight English(PB)	Pandit Rajmani Tigunati		150	
0000 A	11934	Why Women Are What They Are English(PB)	Swati Lodha		195	
0000 A	11935	Windows To The World Religions English(HB)	Suresh Narain Mathur		495	
0000 A	11936	Winners And Losers English(PB)	Ujjawal Patni		175	
0000 A	11937	Wisdom For The New Millenniunm English(PB)	Sri Sri Ravishankar Ji		149	
0000 A	11938	Wits Of Tenalirama English(PB)	Giriraj Sharan Agarwal		25	
0000 A	11939	Womens Desire PB English	Satya Pal Chandra		100	
0000 A	11940	Wonderful Plays To Educate Children (English PB)	Prakash Manu		150	
0000 A	11941	Wonders Of Magneto Therapy English(PB)	S K Sharma		125	
0000 A	11942	Wonders Of Numbers English(PB)	Gopal Sharma		75	
0000 A	11943	Wonders Of The World English(PB)	Renu Saran		100	
0000 A	11944	Work Experience Education English(PB)	Satyapal Ruhela		95	
0000 A	11945	World Famous Scientists English(PB)	Renu Saran		150	
0000 A	11946	World Famous Women English(PB)	Renu Saran		125	
0000 A	11947	Worship Of Sri Sathya Sai Baba English(PB)	Sushila Devi Ruhela		50	
0000 A	11948	Yajurveda English(PB)	Rajbali Pandey		95	
0000 A	11949	Yantra Mantra Tantra And Occult Science English(PB)	Bhojraj Dwivedi		195	
0000 A	11950	Yes i have been to hell English(PB)	Junaid		100	
0000 A	11951	Yes You Can (E) English(PB)	Harikrishan Devsare		95	
0000 A	11952	Yoga For Better Health English(PB)	Bhagwan Dev		95	
0000 A	11953	Yoga For Reversal Of Heart Disease HB English	Bimal Chhajer		395	
0000 A	11954	Yoga Moving To The Center English(PB)	Osho		250	
0000 A	11955	Yoga The Ever Present Flower English(PB)	Osho		250	
0000 A	11956	Yogic & Saatvik Diet English(PB)	Komal Taneja		100	
0000 A	11957	You Are The One For Someone PB English	Shriyut Kumar Sribastava		125	
0000A	11958	You Ask He Answers English(HB)	B S Tirtha Maharaj		400	
0000 A	11959	You Ask He Answers English(PB)	B S Tirtha Maharaj		200	

0000 A	11960	You Turn India English(PB)	Sri Sri Ravishankar Ji		300	
0000 A	11961	Your Money My Advice PB English	Subhash Lakhotia		175	
0000 A	11962	Youth Icons Of India English(PB)	Kumar Pankaj		95	
0000 A	11963	Zen The Art Of Enlightenment English(PB)	Osho		250	
0000 A	11964	Zero Oil 151 Snackes Namkeen English(PB)	Bimal Chhajer		150	
0000 A	11965	Zero Oil Cook Book English(PB)	Bimal Chhajer		150	
0000 A	11966	Zero Oil South Indian Cook Book (E) English(PB)	Bimal Chhajer		150	
0000 A	11967	Zero Oil Sweets Book English(PB)	Bimal Chhajer		160	
0000 A	11968	Zero Oil Thali (A Complete Meal Without Oil) English(PB)	Bimal Chhajer		150	
0000 A	11969	All In One Hindi & English PB Hindi & English			80	
0000 A	11970	Be An Achiever(Vijai Bhav) English & Hindi(PB)	K G Varshney		125	
0000 A	11971	Diamond English Hindi Beginners Dictionary English & Hindi(PB)	Giriraj Sharan Agarwal		120	
0000 A	11972	Ganga Talao Chalisa (English & Hindi PB)			10	
0000A	11973	Kali Poojan English & Hindi(PB)	Vinay Singhal		95	
0000 A	11974	Learn & Speak 15 Indian Languages Through Hindi & English English & Hindi(PB)	Prabhakar Machhve		95	
0000 A	11975	Panchayati Raj In India HB Hindi & English	Babu Aditya Prasad		999	
0000 A	11976	Sanatan Pooja Vidhi English & Hindi(PB)	Bhojraj Dwivedi		150	
0000 A	11977	Shri Durga Chalisa English & Hindi(PB)			10	
0000 A	11978	The Ramayana English & Hindi(PB)			40	
0000 A	11979	Tubbys Cut & Paste Vitamins Chart English & Hindi(PB)			10	
0000 A	11980	Tubbys Wiped & Clean Four In One (H+E) PB			80	
0000 A	11981	101 Rashtra Geet (H) Hindi(PB)	Sunil Jogi		95	
0000 A	11982	108 Investment Mantras (H) Hindi(HB)	Subhash Lakhotia		300	
0000 A	11983	108 Investment Mantras (H) Hindi(PB)	Subhash Lakhotia		100	
0000 A	11984	18 Brand Astra (H) Hindi(PB)	Jagdeep Kapoor		95	
0000 A	11985	18 Varsh Ki Ladki (H) Hindi(PB)	Nimai Bhattacharya		60	
0000 A	11986	201 tips for gas or acidity PB Hindi	Dr. Bimal chhajer		125	
0000 A	11987	201 Tips For High Bloodpressure Control (Hindi PB)	Bimal Chhajer		150	
0000 A	11988	2012 Universal Doom Or New Age? (H) Hindi(PB)	Ashok Kumar Sharma		95	
0000 A	11989	21 Kahaniyan Manto HB Hindi	Manto		450	
0000 A	11990	21 Kahaniyan Manto PB Hindi	Manto		150	
0000 A	11991	21 Shreshth Kahaniyan Amarkant (H) Hindi(PB)	Amarkant		110	
0000 A	11992	21 Shreshth Kahaniyan Girirajsharan Aggarwal (H) Hindi(PB)	Giriraj Sharan Agarwal		95	
0000 A	11993	21 Shreshth Kahaniyan Manmohan Saral (H) Hindi(PB)	Manmohan Saral		95	
0000 A	11994	21 Shreshth Kahaniyan Prem Chand (H) Hindi(PB)	Prem Chand		95	
0000 A	11995	21 shreshth Kahaniyan Ramesh Pokhriyal Nishank PB Hindi	Ramesh Pokhriyal		150	
0000 A	11996	21 Shreshth Kahaniyan Usha Mahajan (H) Hindi(PB)	Usha Mahajan		95	
0000 A	11997	21 Shreshtha Kahaniyan Chitra Mudgal (H) Hindi(PB)	Chitra Mudgal		125	
0000 A	11998	21 Shreshtha Kahaniyan Yadvendra Sharma Chandra (H) Hindi(PB)	Yadvendra Sharma Chandra		95	
0000 A	11999	21 Shresth Kahaniyan Mannu Bhandari (H) Hindi(PB)	Mannu Bhandari		150	

0000 A	12000	21 Shresth Kahaniyan Pranav Kumar Vandhopadhyay (H) Hindi(PB)	Pranav Kumar Vandhopadhyay		110	
0000 A	12001	21 shresth Kahaniyan Ramesh Pokhriyal Nishank HB Hindi	Ramesh Pokhriyal Nishank		450	
0000A	12002	21 shresth Kahaniyan Sharatchandra HB Hindi	Sharatchandra		450	
0000 A	12003	21 shresth Kahaniyan Sharatchandra PB hindi	Sharatchandra		150	
0000 A	12004	21 shresth Kahaniyan Vishnu Prabhakar HB Hindi	Vishnu Prabhakar		450	
0000 A	12005	21 shresth Kahaniyan Vishnu Prabhakar PB Hindi	Vishnu Prabhakar		150	
0000 A	12006	21 Tamil Kahaniyan Madhu Dhawan (H) Hindi(PB)	Madhu Dhawan		95	
0000 A	12007	21Shreshtha Kahaniyan Abid Surti (H) Hindi(PB)	Abid Surti		95	
0000 A	12008	21Shreshtha Kahaniyan Maheep Singh (H) Hindi(PB)	Maheep Singh		95	
0000 A	12009	22 Yards (H) Hindi(PB)	Tuhin A Sinha		95	
0000 A	12010	24 Brand Mantra (H) Hindi(PB)	Jagdeep Kapoor		95	
0000 A	12011	24 Tirthankar (H) Hindi(PB)	Harsha Jain		60	
0000 A	12012	2G Spectrum (H) Hindi(PB)	Joginder Singh		125	
0000 A	12013	30 Din Mein Angrezi Seekhiye (H) Hindi(PB)	B R Kishore		60	
0000 A	12014	30 Din Mein Hindi Sikhe (H) Hindi(PB)	Kusum Vir		95	
0000 A	12015	30 Din Mein Safal Stock Market Investor Kaise Bane PB Hindi	Ashu Dutt		100	
0000 A	12016	4 Saptah Mein vajan Ghatayen Hindi(PB)	Namita Jain		125	
0000 A	12017	51 Gazlen (H) Hindi(PB)	Ramdarash Mishra		75	
0000 A	12018	51 Shakti Peeth Tirth PB Hindi	Suresh Kumar Singh		125	
0000 A	12019	51 Shresth Vangya Rachnay Ravindarnath Tyagi (H) Hindi(HB)	Ravindarnah Tyagi		400	
0000 A	12020	51 Shresth Vangya Rachnay Ravindarnath Tyagi (H) Hindi(PB)	Ravindarnah Tyagi		150	
0000 A	12021	51 Shresth Vyang Rachnayen Dmodar Dikshit (H) Hindi(PB)	Damodar Dikshit		125	
0000 A	12022	51 Shresth Vyang Rachnayen Gajendra Tiwari (H) Hindi(PB)	Gajendra Tiwari		125	
0000 A	12023	51 Shresth Vyang Rachnayen Gopal Chaturvedi (H) Hindi(PB)	Gopal Chatutvedi		125	
0000 A	12024	51 Shresth Vyang Rachnayen Hari Joshi (H) Hindi(PB)	Hari Joshi		95	
0000 A	12025	51 Shresth Vyang Rachnayen Jawahar Chaudhary (H) Hindi(PB)	Jawahar Chaudhary		125	
0000 A	12026	51 Shresth Vyang Rachnayen Mahesh Chandra Dwivedi (H) Hindi(PB)	Mahesh Chandra Dwivedi		95	
0000 A	12027	51 Shresth Vyang Rachnayen Prem Janamjai (H) Hindi(PB)	Prem Janamjai		125	
0000 A	12028	51 Shresth Vyang Rachnayen Rekha Vyas (H) Hindi(PB)	Rekha Vyas		95	
0000 A	12029	51 Shresth Vyang Rachnayen Sarojani Pritam (H) Hindi(HB)	Sarojani Preetam		300	
0000 A	12030	51 Shresth Vyang Rachnayen Sarojani Pritam (H) Hindi(PB)	Sarojani Pritam		125	
0000A	12031	51 Shresth Vyang Rachnayen Vinod Shukla (H) Hindi(PB)	Vinodshankar Shukla		125	
0000 A	12032	51 Vyanga Rachnayein (Harish Nawal) Hindi (HB)	Harish Nawal		450	
0000 A	12033	6.9 Richter Scale (H) Hindi(PB)	Sanjay Sinha		150	
0000 A	12034	751 Super Cook Book PB Hindi	Neera Kumar		200	
0000 A	12035	9 Brand Shastra (H) Hindi(PB)	Jagdeep kapoor		95	
0000 A	12036	A Humsukhan (H) Hindi(PB)	Antar Jadish Nissar		75	
0000 A	12037	A Ji Suniye (H) Hindi(PB)	Ashok Chakradhar		100	
0000 A	12038	Aacharya Srisudarshan Ka Sakal Brahmand Chintan (H) Hindi(PB)	Satyendra Suman		95	

0000 A	12039	Aadhunik Bharat Ke Nirmata Jawahar Lal Nehru HB Hindi	Satyendra Chaturvedi		300	
0000 A	12040	Aadhunik Bharat Ke Nirmata Jawahar Lal Nehru Hindi (PB)	Satyendra Chaturvedi		75	
0000 A	12041	Aadhunik Feng Shui (H) Hindi(PB)	Gopal Sharma		95	
0000 A	12042	Aadhunik Santo ki Aadhyatamik Yatra Sadguru (H) Hindi(PB)	Shashi Kant Sadaiv		250	
0000 A	12043	Aadhyatmik Moti (Jagrat Jeewan Ke Liye) Hindi (PB)	Rajinder Singh		100	
0000 A	12044	Aage Badho (H) Hindi(PB)	Swett Marden		75	
0000 A	12045	Aage bado Swami Vivekanand PB Hindi	Ramesh Pokhriyal Nishank		50	
0000 A	12046	Aage Bado HB Hindi	Swett Marden		250	
0000 A	12047	Aaj Ka Chanakya Management Guru Amit Shah PB HINDI	Rakesh Gupta		125	
0000 A	12048	Aaj Ka Iran Kranti Aur Asha Ki Dastan (H) Hindi(PB)	Shirin Abadi		150	
0000 A	12049	Aaj Sthir Hai Jwaar (H) Hindi(PB)	Satyendra Srivastav		60	
0000 A	12050	Aakash Bhar Anand (H) Hindi(PB)	Osho		60	
0000 A	12051	Aakhiri 5 Kilo Kaise Ghatayein PB Hindi	Namita Jain		125	
0000 A	12052	Aalok Path PB Hindi	Jughraj Sethia		125	
0000 A	12053	Aane Wale Kal Ki Kahaniyan (H) Hindi(PB)	Dayanand Verma		60	
0000 A	12054	Aangan Se Aasman Tak (Persiddh Bhartiya Mahilayen) Hindi(PB)	Renu Saran		95	
0000 A	12055	Aankh Ki Kirkiri (H) Hindi(PB)	Ravindranath Tagore		95	
0000 A	12056	Aankhen Ek Anmol Vardan (H) Hindi(PB)	Rajeev Sharma		75	
0000 A	12057	Aankho Ki Drashiti (H) Hindi(PB)	Hari Om Gupta		50	
0000 A	12058	Aao Hum Jeena Seekhen (H) Hindi(PB)	Yuvacharya Mahasarman		40	
0000 A	12059	Aao Jeevan Mein Rang Bharen (H) Hindi(PB)	Vinod K Gupta		95	
0000A	12060	Aao Sikhen Khaniyon Se (H) Hindi(PB)	Ramesh Pokhriyal		30	
0000 A	12061	Aap Aur Apka Vyahar PB Hindi	Surya Sinha		110	
0000 A	12062	Aap Bhi Ban Sakte Hain Genius (H) Hindi(PB)	Arpna Majumdar		100	
0000 A	12063	Aap Bhi Safal Ho Sakte Hain (H) Hindi(HB)	Joginder Singh		250	
0000 A	12064	Aap Bhi Safal Ho Sakte Hain (H) Hindi(PB)	Joginder Singh		125	
0000 A	12065	Aap Kya Nahin Kar Sakte (H) Hindi(PB)	Swett Marden		75	
0000 A	12066	Aap Kya Nahin Kar Sakte HB Hindi	Swett Marden		250	
0000 A	12067	Aarthik Patrakarita PB Hindi	Himanshu Shekhar		150	
0000 A	12068	Aas Paas Ki Laghu Kahaniyan Hindi (PB)	Krishna Murari Soni		100	
0000 A	12069	Aashiqon Ki Shayari Sms (H) Hindi(PB)	Kuldeep Saluja		15	
0000 A	12070	Aasmaan Ko Chhoo Lo (H) Hindi(PB)	A G Krishnamurthy		75	
0000 A	12071	Aasoo Aur Hashi (H) Hindi(PB)	Sudhir Gupta		60	
0000 A	12072	Aastha Ek Shakti PB Hindi	Rajkumar		140	
0000 A	12073	Aatam Pooja Upnishad Part-I (H) Hindi(PB)	Osho		250	
0000 A	12074	Aatam Pooja Upnishad Part-II (H) Hindi(PB)	Osho		250	
0000 A	12075	Aatambodh Hindi (PB)	Devam		100	
0000 A	12076	Aathato Bhakti Jigayasa Bhag 2 (H) Hindi(HB)	Osho		450	
0000 A	12077	Aatma Ke Liye Amrit (H) Hindi(PB)	Subhash Lakhotia		100	
0000 A	12078	Aatmvishwas Kaise Prapt Karien (H) Hindi(PB)	Anant Pai		40	
0000 A	12079	Aatmvishwas Ki Poonji (H) Hindi(PB)	Swett Marden		75	
0000 A	12080	Aatmvishwas Safalta Ka Aadhar (H) Hindi(HB)	Ram Kailash Gupta		400	

0000 A	12081	Aatmvishwas Safalta Ka Aadhar (H) Hindi(PB)	Ram Kailash Gupta		150	
0000 A	12082	Aatmvishwas Safalta Ka Dwar (H) Hindi(PB)	Sirshree		150	
0000 A	12083	Ab Bhi Waqt Hai Sambhal E Nawjawan (H) Hindi(PB)	Sudarshan Ji		95	
0000 A	12084	Abhigyan Shakuntalam (H) Hindi(PB)	Ashok Kaushik		95	
0000 A	12085	Abhimanyuanat Ki Aarambhik Kahaniya (H) Hindi(PB)	Abhimanyu Unnaut		60	
0000 A	12086	Abhyudaya Ram Katha-I (H) Hindi(PB)	Narender Kohli		350	
0000 A	12087	Abhyudaya Ram Katha-II (H) Hindi(PB)	Narender Kohli		350	
0000 A	12088	Accupressure Guide (H) Hindi(PB)	Satish Goel		95	
0000A	12089	Accupuncture And Acupressure Guide (H) Hindi(PB)	Satish Goel		150	
0000 A	12090	Accupuncture Guide (H) Hindi(PB)	Satish Goel		50	
0000 A	12091	Acharya Sudarshan Ka Anant Jivan Pravah (H) Hindi(PB)	Satyendra Kumar Singh		95	
0000 A	12092	Adbhut Satya (H) Hindi(PB)	Vandna Girdhar		100	
0000 A	12093	Adbhut Unnav PB Hindi	Vrijesh Pathak		99	
0000 A	12094	Adhinasth Krishi Seva Varg-3 PB Hindi	Neelam Sharma		145	
0000 A	12095	Adhunik Patrakarita (H) Hindi(PB)	Ashok Kumar Sharma		95	
0000 A	12096	Adhure Indradhanush (H) Hindi(PB)	Parmod Bharti		150	
0000 A	12097	Aesop Ki Anokhi Kahaniya Hindi(HB)	Prakash Mannu		175	
0000 A	12098	Aesop Ki Kahaniyan PB Hindi	Prakash Manu		150	
0000 A	12099	Aesop Ki Khaniyan HB Hindi			450	
0000 A	12100	Aesop Ki Manoranjak Kahaniya Hindi (PB)	Prakash Mannu		35	
0000 A	12101	Aesop Ki Prerak Kahaniya Hindi (PB)	Prakash Mannu		35	
0000 A	12102	Aesop Ki Rochak Kahaniya Hindi (PB)	Prakash Mannu		25	
0000 A	12103	Aesop Ki Shikshprad Kahaniya Hindi (PB)	Prakash Mannu		35	
0000 A	12104	Agar Thaan Lijiye (H) Hindi(PB)	Harikrishan Devsare		125	
0000 A	12105	Agni Puran (H) Hindi(PB)	Vinay		95	
0000 A	12106	Ahinsha (H) Hindi(PB)	Osho		30	
0000 A	12107	Aisi Karni Kar Chalo (H) Hindi(PB)	Sudarshan Ji		150	
0000 A	12108	Ajab Anokhi Kishar Kahaniyan PB Hindi	Prakash Manu		150	
0000 A	12109	Ajab Anokhi Kishor Kahaniyan HB Hindi	Prakash Manu		450	
0000 A	12110	Ajahu Chet Ganwar PB Hindi New	Osho		395	
0000 A	12111	Ajay Jadeja (H) Hindi(PB)	Rajshekhar Mishra		40	
0000 A	12112	Akath Kahani Prem Ki PB Hindi	Osho		200	
0000 A	12113	Akbar Birbal (H) Hindi(HB)	Rachna Bhola Yamini		175	
0000 A	12114	Akbar Birbal Vinod (H) Hindi(PB)	Giriraj Sharan Agarwal		95	
0000 A	12115	Akhilesh Yadav Hindi(PB)	Yagya Dutt Sharma		125	
0000 A	12116	Akkar Bakkar Ho Ho Ho (H) Hindi(PB)	Ajay Janamjai		60	
0000 A	12117	Alakh Niranjan (H) Hindi(PB)	Kavi Shusk		100	
0000A	12118	Alif Laila Urf f Hazar Dastan Hindi (HB)	Prakash Manu		175	
0000 A	12119	Alif Laila Urf Hazar Dastan (H) Hindi(PB)	Giriraj Sharan Agarwal		125	
0000 A	12120	Alif Laila Urf Hazar Dastan 1 Hindi (PB)			35	
0000 A	12121	Alif Laila Urf Hazar Dastan 2 Hindi (PB)			35	
0000 A	12122	Alif Laila Urf Hazar Dastan 3 Hindi (PB)			35	
0000 A	12123	Alif Laila Urf Hazar Dastan 4 Hindi (PB)			35	

0000 A	12124	Alif Laila Urf Hazar Dastan Hindi (HB)	Giriraj Sharan Agarwal		250	
0000 A	12125	Allah Gavah Hai (H) Hindi(PB)	Ageh Bharti		100	
0000 A	12126	Allergy (H) Hindi(PB)	Bimal Chhajer		40	
0000 A	12127	Allergy And Asthma Ka Upchar (H) Hindi(PB)	Rajeev Sharma		60	
0000 A	12128	Alok Kiran PB Hindi	Jugraj Sethia		125	
0000 A	12129	Amar Sangeet Ka Divya Samssparsh Hindi (PB)	Ramdev		95	
0000 A	12130	Ambani And Ambani (H) Hindi(PB)	Tarun Engineer		95	
0000 A	12131	Amir Banne Ke 55 Achuk Mantra (H) Hindi(PB)	M K Majumdar		100	
0000 A	12132	Amitabh Se Abhishek Tak (H) Hindi(PB)	Tarun Engineer		95	
0000 A	12133	Amrit Ki Disha (H) Hindi(PB)	Osho		95	
0000 A	12134	Amrit Vani Hindi (PB)	Arun Malhotra		20	
0000 A	12135	Amrit Vani (H) Hindi(PB)	Giriraj Sharan Agarwal		125	
0000 A	12136	Anahad (H) Hindi(PB)	Rajesh Reddy		95	
0000 A	12137	Anandmath (H) Hindi(PB)	Bankim Chandra Chattopadhyay		95	
0000 A	12138	Anasakti Yoga (H) Hindi(PB)	M K Gandhi		75	
0000 A	12139	Andha Gayak Hindi(PB)	Prakash Manu		35	
0000 A	12140	Andhkar Se Prakash Ki Aur (H) Hindi(PB)	Ageh Bharti		40	
0000 A	12141	Anger Management (H) Hindi(PB)	Swati Y Bhave		125	
0000 A	12142	Anko Ka Adbhut Sansar (H) Hindi(PB)	Bhojraj Dwivedi		195	
0000 A	12143	Anko Ka Chamatkar (H) Hindi(PB)	V K Sharma		150	
0000 A	12144	Anmol Moti (H) Hindi(PB)	Pooja Sharma		60	
0000 A	12145	Anmol Vachan Hindi (HB)	Anand Bodhisatv		50	
0000 A	12146	Anmol Vachan Hindi(PB)	Anand Bodhisatv		95	
0000A	12147	Anna Hazare (H) Hindi(PB)	Prateeksha M Tiwari		95	
0000 A	12148	Anna Ki Jung (H) Hindi(PB)	Sudarshan Ji		125	
0000 A	12149	Antar Agni (Bhagwat Gita Ka Manovigyan) Bhag-5 (H) Hindi(PB)	Osho		200	
0000 A	12150	Antyeshti Karma Paddhati (H) Hindi(PB)	Bhojraj Dwivedi		75	
0000 A	12151	Anubhut Yantra Mantra Tantra Aur Totke (H) Hindi(PB)	Bhojraj Dwivedi		150	
0000 A	12152	Anupam Mehandi (H) Hindi(PB)	Neera Verma		20	
0000 A	12153	Anything For You Mam (H) Hindi(PB)	Tushar Raheja		110	
0000 A	12154	APJ Abdul Kalam (H) Hindi(PB)	Renu Saran		30	
0000 A	12155	APJ Abdul Kalam (H) Hindi(PB)	Renu Saran		40	
0000 A	12156	Apne Aapko Pahcaniye (H) Hindi(PB)	Swett Marden		75	
0000 A	12157	Apne Aapko Pehchaniye HB Hindi	Swett Marden		250	
0000 A	12158	Apne Bachche Ko Safal Kaise Banayen PB Hindi	Anand Kulshreshtha		95	
0000 A	12159	Apne Bachchon Ko Shresht Kaise Banayein PB Hindi	Tarun Chakrabroty		150	
0000 A	12160	Apni Janam Patri Swavam Padhe Kanya Laganfal (H) Hindi(PB)	Bhojraj Dwivedi		150	
0000 A	12161	Apni Janam Patri Swavam Padhe Kumbh Laganfal (H) Hindi(PB)	Bhojraj Dwivedi		150	
0000 A	12162	Apni Janam Patri Swavam Padhe Mesh Laganphal (H) Hindi(PB)	Bhojraj Dwivedi		150	
0000 A	12163	Apni Janam Patri Swavam Padhe Singh Laganfal (H) Hindi(PB)	Bhojraj Dwivedi		150	
0000 A	12164	Apni Janam Patri Swavam Padhe Tula Laganphal (H) Hindi(PB)	Bhojraj Dwivedi		150	
0000 A	12165	Apni Janam Patri Swavam Padhe Vrish Laganphal (H) Hindi(PB)	Bhojraj Dwivedi		150	
0000 A	12166	Apni Janam Patri Swayam Padhe Dhanu Laganfal (H) Hindi(PB)	Bhojraj Dwivedi		125	
0000 A	12167	Apni Janam Patri Swayam Padhe Kark Laganphal (H) Hindi(PB)	Bhojraj Dwivedi		150	

0000 A	12168	Apni Janam Patri Swayam Padhe Makar Laganfal (H) Hindi(PB)	Bhojraj Dwivedi		150	
0000 A	12169	Apni Janam Patri Swayam Padhe Meen Laganfal (H) Hindi(PB)	Bhojraj Dwivedi		150	
0000 A	12170	Apni Janam Patri Swayam Padhe Vershichik Laganfal (H) Hindi(PB)	Bhojraj Dwivedi		150	
0000 A	12171	Apni Janampatri Aap Banayen (H) Hindi(PB)	Bhojraj Dwivedi		75	
0000 A	12172	Apni Janampatri Swam Padhein (H) Hindi(PB)	Jagdish Sharma		95	
0000 A	12173	Apni Santan Ko Chanta Marna Sikhen (H) Hindi(PB)	Sunil Vaid		175	
0000 A	12174	Arvind Kejriwal PB Hindi	Arvind Mohan Dwivedi		100	
0000 A	12175	Asambhav Sambhav (Hindi HB)	Biswaroop Roy Choudhray		250	
0000A	12176	Asatyam @ Satyam (Hindi PB)	Anand Kumar		95	
0000 A	12177	Ashok Chakardhar Ki Vyang Chetna (H) Hindi(HB)	Dr. Praveen Shukla		600	
0000 A	12178	Ashtavakra Gita Hindi (PB)	Govind Singh		50	
0000 A	12179	Ashtavakra Mahageeta Bhag I Mukti Ki Aakanksha Hindi(HB)	Osho		250	
0000 A	12180	Ashtavakra Mahageeta Bhag I Mukti Ki Aakansha Hindi(PB)	Osho		200	
0000 A	12181	Ashtavakra Mahageeta Bhag II Dukh Ka Mool Hindi(HB)	Osho		300	
0000 A	12182	Ashtavakra Mahageeta Bhag II Dukh Ka Mool Hindi(PB)	Osho		250	
0000 A	12183	Ashtavakra Mahageeta Bhag III Jo Hai So Hai Hindi(HB)	Osho		300	
0000 A	12184	Ashtavakra Mahageeta Bhag IV Sahajta Mein Tripti Hindi(HB)	Osho		250	
0000 A	12185	Ashtavakra Mahageeta Bhag- IV Sahajta Mein Tripti Hindi(PB)	Osho		250	
0000 A	12186	Ashtavakra Mahageeta Bhag IX Anumaan Nahin Anubhav Hindi(HB)	Osho		250	
0000 A	12187	Ashtavakra Mahageeta Bhag V Sannate Ki Sadhna Hindi(HB)	Osho		250	
0000 A	12188	Ashtavakra Mahageeta Bhag VI Na Sansar Na Mukti Bhag Hindi(HB)	Osho		250	
0000 A	12189	Ashtavakra Mahageeta Bhag VII Samarpit Swatantrata Hindi(HB)	Osho		250	
0000 A	12190	Ashtavakra Mahageeta Bhag- VII Samarpit Swatantrata Hindi(PB)	Osho		250	
0000 A	12191	Ashtavakra Mahageeta Bhag VIII Sukh Swabhav Hindi(HB)	Osho		250	
0000 A	12192	Ashtavakra Mahageeta Bhag- VIII Sukh Swabhav Hindi(PB)	Osho		250	
0000 A	12193	Ashtavakra Mahageeta Bhag-III Jo Hai So Hai Hindi(PB)	Osho		250	
0000 A	12194	Ashtavakra Mahageeta Bhag-IX Anumaan Nahin Anubhav Hindi(PB)	Osho		200	
0000 A	12195	Ashtavakra Mahageeta Bhag-V Sannate Ki Sadhna Hindi(PB)	Osho		200	
0000 A	12196	Ashtavakra Mahageeta Bhag-VI Na Sansar Na Mukti Hindi(PB)	Osho		200	
0000 A	12197	Ashvikrti Mein Utha Hath (H) Hindi(PB)	Osho		60	
0000 A	12198	Assam Ke Lok Kathayen Evam Prashnotari (H) Hindi(PB)	Rachna Bhola Yamini		25	
0000 A	12199	Assistant Loco Pilot And Technician (Guide) PB Hindi	Arvind Mohan Dwivedi		200	
0000 A	12200	Assistant Loco Pilot And Technician Practice Test Paper PB Hindi	Arvind Mohan Dwivedi		115	
0000 A	12201	Asthma PB Hindi	Bimal Chhajer		50	
0000 A	12202	Astitva Ki Yatra (H) Hindi(PB)	Ram Niwas Bharti		150	
0000 A	12203	Atal Udgar HB HINDI	Rakesh Gupta		500	
0000 A	12204	Atal Udgar PB Hindi	Rakesh Gupta		250	

0000A	12205	Ataulla Khan Ke Ghazlein (H) Hindi(PB)	Mahesh Dutt Sharma		40	
0000 A	12206	Ath Shri Mushkaye Namah Hindi (PB)	Rajesh Arora		150	
0000 A	12207	Atharved (H) Hindi(PB)	Raj Bahadur Pandey		95	
0000 A	12208	Avaidh Rishtey (H) Hindi(PB)	Nimai Bhattacharya		60	
0000 A	12209	Avasar Bita Jaye (H) Hindi(PB)	Swett Marden		75	
0000 A	12210	Ayurvedic Aushadiyan (H) Hindi(PB)	Vipul Rao		150	
0000 A	12211	Baadlon Se Salaam Leta Hoon (H) Hindi(PB)	Gopal Das Neeraj		95	
0000 A	12212	Baap Re Baap (H) Hindi(PB)	Pradeep Choube		95	
0000 A	12213	Baba Ramdev Ke Sapno Ka Bharat (H) Hindi(HB)	K C Mahendru		150	
0000 A	12214	Baba Ramdev Ke Sapno Ka Bharat (H) Hindi(PB)	K C Mahendru		150	
0000 A	12215	Bacchan Yatri Agnipath Ka (H) Hindi(PB)	Gopal Das Neeraj		60	
0000 A	12216	Bachcha Log Taali Bajao (H) Hindi(PB)	Aalok Kumar Satpute		100	
0000 A	12217	Bachcho Ko Seekh Dene Wali 51 Kahaniyan Hindi(HB)	Prakash Manu		450	
0000 A	12218	Bachcho Ko Seekh Dene Wali 51 Kahaniyan Hindi(PB)	Prakash Manu		150	
0000 A	12219	Bachchon Ka Panchtantra HB Hindi	Prakash Manu		450	
0000 A	12220	Bachchon Ka Panchtantra PB Hindi	Prakash Manu		150	
0000 A	12221	Bachchon Ke Anokhe Hasya Natak Hindi(HB)	Prakash Manu		400	
0000 A	12222	Bachchon Ke Anupam Natak (Hindi HB)	Giriraj Sharan Agarwal		200	
0000 A	12223	Bachchon Ke Hasya Natak (H) Hindi(HB)	Giriraj Sharan Agarwal		200	
0000 A	12224	Bachchon Ke Rang Rangeely Natak Hindi(HB)	Prakash Manu		400	
0000 A	12225	Bachchon Ke Rochak Natak (H) Hindi(HB)	Giriraj Sharan Agarwal		200	
0000 A	12226	Bachchon Ke Rochak Natak (H) Hindi(PB)	Giriraj Sharan Agarwal		95	
0000 A	12227	Bachchon Ke Shikshaprad Natak (H) Hindi(HB)	Giriraj Sharan Agarwal		200	
0000 A	12228	Bachchon Ke Shikshaprad Natak Hindi (PB)	Giriraj Sharan Agarwal		125	
0000 A	12229	Bachchon Ke Shreshth Samajik Natak Hindi (PB)	Prakash Manu		125	
0000 A	12230	Bachchon Ke Shreshth Samajik Natak Hindi(HB)	Prakash Manu		450	
0000 A	12231	Bachchon Ke Sunder Naam (H) Hindi(PB)	Mahesh Dutt Sharma		40	
0000 A	12232	Bachchon Ke Uttam Natak (Hindi HB)	Giriraj Sharan Agarwal		200	
0000 A	12233	Bachchon Ki 51 Hasya Kathayen (H) Hindi(PB)	Prakash Manu		125	
0000A	12234	Bachchon Ki Bhaavpurna Parivarik Kahaniyan PB Hindi	Prakash Manu		150	
0000 A	12235	Bachchon Ki Jaatak Kathayen PB Hindi	Prakash Manu		150	
0000 A	12236	Bachchon Ki Jatak Kahaniyan HB Hindi	Prakash Manu		450	
0000 A	12237	Bachchon Ki Mahatvapoorna Parivarik Kahaniyan HB Hindi			450	
0000 A	12238	Bachchon Ki Safalta Mein Sahayak Kaise Banien (H) Hindi(PB)	Anant Pai		40	
0000 A	12239	Bachchon Ko Seekh Dete Anokhe Natak (H) Hindi(PB)	Prakash Mannu		125	
0000 A	12240	Bachchon Ko Seekh Dete Anokhe Natak Hindi(HB)	Prakash Manu		400	
0000 A	12241	Bachchon Ko Sex Ki Shiksha Kaise Dein Hindi (HB)	Rajeev Sharma		250	
0000 A	12242	Bachhe Huye Vyanjan Se Bane Naye Vyanjan (H) Hindi(PB)	Komal Taneja		100	

0000 A	12243	Bad Shayari Sms (H) Hindi(PB)	Kuldeep Saluja		15	
0000 A	12244	Bada Lakshya Badi Jeet Hindi(HB)	Tarun Engineer		300	
0000 A	12245	Bada Socho Bada Bano (H) Hindi(PB)	Tarun Engineer		175	
0000 A	12246	Bade Bado Ke Utpat (H) Hindi(PB)	Surender Sharma		125	
0000 A	12247	Bade Ghar Ki Beti (Mansarovar 7-8) Hindi (PB)	Prem Chand		175	
0000 A	12248	Bade Sapno Ka Bada Jadu (H) Hindi(PB)	S Vaishvik		125	
0000 A	12249	Bahar E Shayari (H) Hindi(PB)	Kuldeep Saluja		15	
0000 A	12250	Bahatar Saal Ka Bacha (H) Hindi(HB)	Abid Surti		300	
0000 A	12251	Bahatar Saal Ka Bacha (H) Hindi(PB)	Abid Surti		95	
0000 A	12252	Bahuterae Hai Ghat (H) Hindi(PB)	Osho		60	
0000 A	12253	Baithak Jari Hai Hindi(PB)	Antar Jagdish		100	
0000 A	12254	Bal Rog (H) Hindi(PB)	Hari Om Gupta		50	
0000 A	12255	Bangla Ki Shrestha Kahaniyan (H) Hindi(PB)	Vaasu Bhattacharya		150	
0000 A	12256	Barack Obama (H) Hindi(PB)	Rajiv Tiwari		95	
0000 A	12257	Beet Gaya So Beet Gaya (H) Hindi(PB)	Maharaji		60	
0000 A	12258	Behti Nadi PB Hindi	Devender Gupta		100	
0000 A	12259	Beirada Nazar Unse Takra Gai (H) Hindi(PB)	Gyan Bhed		150	
0000 A	12260	Beton Wali Vidhwa & Other Stories PB Hindi	Prem Chand		125	
0000 A	12261	Bhagat Singh (H) Hindi(PB)	Renu Saran		30	
0000 A	12262	Bhagwad Geeta (Part-3) Hindi (PB)	Paramhansa Nityanand		350	
0000A	12263	Bhagwan Satya Shree Sai Ka Adhbhut Anugreh (H) Hindi(PB)	Adha Prasad Tripathi		40	
0000 A	12264	Bhagwan Shiv (H) Hindi(PB)	O P Jha		30	
0000 A	12265	Bhagwan Shri Ganesh Hindi(PB)			30	
0000 A	12266	Bhagwan Shri Ganesh Hindi(PB)	O P Jha		30	
0000 A	12267	Bhagwatgita Se Sikhe Safalta Ke Sutra (H) Hindi(PB)	Kapil Kakkar		125	
0000 A	12268	Bhagya Ke Rahasya (H) Hindi(PB)	Ramprakash Trivedi		150	
0000 A	12269	Bhagye Par Nahi Parishram Par Vishvas Karein (H) Hindi(HB)	Ramesh Pokhriyal		300	
0000 A	12270	Bhagye Par Nahi Parishram Par Vishwas Karen (H) Hindi(PB)	Ramesh Pokhriyal		150	
0000 A	12271	Bhairava Upasana (H) Hindi(PB)	Radha Krishna Srimali		95	
0000 A	12272	Bhakti Sutra (H) Hindi(HB)	Osho		450	
0000 A	12273	Bhanvar (H) Hindi(PB)	Raj Kumar Kohli		75	
0000 A	12274	Bharat Ek Anuthi Sampada (H) Hindi(PB)	Osho		95	
0000 A	12275	Bharat Ka Swadhinta Sangram (H) Hindi(PB)	Avdesh Kumar Chaturvedi		100	
0000 A	12276	Bharat Ke 51 Yug Pravartak Vaigyanik PB Hindi	Prakash Manu		125	
0000 A	12277	Bharat Ke 51 Yugpravartak Vaigyanik HB Hindi	Prakash Manu		400	
0000 A	12278	Bharat Ke Amar Krantikari Chandra Shekhar Azad (H) Hindi(PB)	Meena Agarwal		95	
0000 A	12279	Bharat Ke Amar Krantikari Gopal Krishan Gokhle (H) Hindi(PB)	Avdesh Kumar Chaturvedi		60	
0000 A	12280	Bharat Ke Amar Krantikari Ram Prasad Bismil (H) Hindi(PB)	Bhawan Singh Rana		95	
0000 A	12281	Bharat Ke Amar Krantikari Shahid Bhagat Singh Hindi (PB)	Bhawan Singh Rana		95	
0000 A	12282	Bharat Ke Amar Manishi Swami Vivekanand (H) Hindi(PB)	Bhawan Singh Rana		95	
0000 A	12283	Bharat Ke Amar Senani Nana Sahab Peshwa Hindi(PB)	Bhawan Singh Rana		95	
0000 A	12284	Bharat ke Mahan Amar Krantikari Madanlal Dhingra Aur Shahid Udham Singh (H) Hindi(PB)	Avdesh Kumar Chaturvedi		75	

0000 A	12285	Bharat Ke Mahan Swatantrata Senani Madan Mohan Malviya (H) Hindi(PB)	Ashok Kaushik		95	
0000 A	12286	Bharat Ke Rashtrapati (HB) Hindi	Renu Saran		100	
0000 A	12287	Bharat Ke Rashtrapati (H) PB	Renu Saran		100	
0000 A	12288	Bharat Ke Tyohar 1 Hindi(HB)	Priyanka		300	
0000 A	12289	Bharat Ke Tyohar 2 (H) Hindi(HB)	Priyanka		300	
0000 A	12290	Bharat Ke Tyohar Baisakhi (H) Hindi(PB)			40	
0000 A	12291	Bharat Ke Tyohar Christmas (H) Hindi(PB)			50	
0000A	12292	Bharat Ke Tyohar Dashara (H) Hindi(PB)			40	
0000 A	12293	Bharat Ke Tyohar Deepawali (H) Hindi(PB)			50	
0000 A	12294	Bharat Ke Tyohar Durga Puja (H) Hindi(PB)			40	
0000 A	12295	Bharat Ke Tyohar Eid (H) Hindi(PB)			40	
0000 A	12296	Bharat Ke Tyohar Ganesh Chaturthi (H) Hindi(PB)			40	
0000 A	12297	Bharat Ke Tyohar Holi (H) Hindi(PB)			40	
0000 A	12298	Bharat Ke Tyohar Janmashtmi (H) Hindi(PB)			50	
0000 A	12299	Bharat Ke Tyohar Navratr (H) Hindi(PB)			50	
0000 A	12300	Bharat Ke Tyohar Onam (H) Hindi(PB)			40	
0000 A	12301	Bharat Ke Tyohar Pongal (H) Hindi(PB)			40	
0000 A	12302	Bharat Ke Tyohar Rakshabandhan (H) Hindi(PB)			50	
0000 A	12303	Bharat ki Aasha Narender Modi PB Hindi	Manish Kumar		50	
0000 A	12304	Bharat Ki Aitihasik Jhalak (H) Hindi(PB)	Radha Swami		95	
0000 A	12305	Bharat Ki Lok Kathaye Hindi (PB)	Giriraj Sharan Agarwal		125	
0000 A	12306	Bharat Ki Pratham Mahila Rashtpati Pratibha Patil (H) Hindi(HB)	Kumar Pankaj		200	
0000A	12307	Bharat Ki Pratham Mahila Rashtpati Pratibha Patil (H) Hindi(PB)	Kumar Pankaj		95	
0000 A	12308	Bharat Ratna Sachin Hindi (PB)	Vimal Kumar		150	
0000 A	12309	Bhartiya Gaurav Ke Baal Natak (H) Hindi(HB)	Giriraj Sharan Agarwal		200	
0000 A	12310	Bhartiya Gaurav Ke Baal Natak Hindi (PB)	Giriraj Sharan Agarwal		95	
0000 A	12311	Bhartiya Jyotish (H) Hindi(PB)	Radha Krishna Srimali		60	
0000 A	12312	Bhartiya Police Jaisa Maine Dekha (H) Hindi(PB)	Kiran Bedi		95	
0000 A	12313	Bhav Ganga (H) Hindi(PB)	Uma Sharma		100	
0000 A	12314	Bhavishaya Puran (H) Hindi(PB)	Vinay		95	
0000 A	12315	Bhavna Ke Bhojpatro Par Osho (H) Hindi(PB)	Vikal Gautam		150	
0000 A	12316	Bhawna Ke Swar Hindi(PB)	Rajesh Salav		100	
0000 A	12317	Bhay Se Mukti (H) Hindi(PB)	Nityanand		175	
0000 A	12318	Bhaya Mukt Jiwan (H) Hindi(PB)	Osho		30	
0000 A	12319	Bhitar Ka Aakash (H) Hindi(PB)	Sri Sri Ravishankar Ji		79	
0000 A	12320	Bhitar Ka Diya (H) Hindi(PB)	Osho		60	
0000 A	12321	Bhoj Sanhita Briahaspati Khand (H) Hindi(PB)	Bhojraj Dwivedi		200	
0000 A	12322	Bhoj Sanhita Buddh Khand (H) Hindi(PB)	Bhojraj Dwivedi		200	
0000 A	12323	Bhoj Sanhita Chandra Khand (H) Hindi(PB)	Bhojraj Dwivedi		200	
0000 A	12324	Bhoj Sanhita Ketu Khand (H) Hindi(PB)	Bhojraj Dwivedi		200	

0000 A	12325	Bhoj Sanhita Mangal Khand (H) Hindi(PB)	Bhojraj Dwivedi		200	
0000 A	12326	Bhoj Sanhita Rahu Khand (H) Hindi(PB)	Bhojraj Dwivedi		200	
0000 A	12327	Bhoj Sanhita Shukra Khand (H) Hindi(PB)	Bhojraj Dwivedi		200	
0000 A	12328	Bhoj Sanhita Surya Khand (H) Hindi(PB)	Bhojraj Dwivedi		200	
0000 A	12329	Bhojan Dwara Swasthya Aur Rogon Ka Upchar (H) Hindi(PB)	S K Sharma		95	
0000 A	12330	Bhole Bhale (H) Hindi(PB)	Ashok Chakradhar		100	
0000 A	12331	Bhookamp Ke Jyotishiya Bishleswan Ka Saargarvit Adhdhyan (H) Hindi(PB)	Bhojraj Dwivedi		40	
0000 A	12332	Bhrigu Sanhita (H) Hindi(PB)	Radha Krishna Srimali		150	
0000 A	12333	Bible Ki Anokhi Kahaniyan HB Hindi	Prakash Manu		450	
0000 A	12334	Bible Ki Anokhi Kahaniyan PB Hindi	Prakash Manu		150	
0000 A	12335	Bible Ki Kahaniya Hindi(HB)			175	
0000A	12336	Bible Ki Manoranjak Kahaniyan Hindi(PB)			30	
0000 A	12337	Bible Ki Prerak Kahaniyan Hindi(PB)			30	
0000 A	12338	Bible Ki Rochak Kahaniyan Hindi(PB)			30	
0000 A	12339	Bible Ki Shikshaprad Kahaniyan Hindi(PB)			30	
0000 A	12340	Bihar GK PB Hindi			80	
0000 A	12341	Bihar Police Constable PB Hindi	Arvind Mohan Dwivedi		120	
0000 A	12342	Bihar SSC Exam-2015 PB Hindi			195	
0000 A	12343	Bihari Satsai PB Hindi	Bihari Satsai		100	
0000 A	12344	Billoo and Wonder PB Hindi	Pran		35	
0000 A	12345	Billoo Badhshah Joke Book (H) Hindi(PB)	Kuldeep Saluja		50	
0000 A	12346	Billoo Captain of Cricket PB Hindi	Pran		35	
0000 A	12347	Billoo Coconut Tree PB Hindi	Pran		50	
0000 A	12348	Billoo Digest -1 PB Hindi	Pran		100	
0000 A	12349	Billoo Digest -2 PB Hindi	Pran		100	
0000 A	12350	Billoo Ki Girlfriend PB Hindi	Pran		50	
0000 A	12351	Billoo Short Break PB Hindi	Pran		35	
0000 A	12352	Bindo Ka Ladka (H) Hindi(PB)	Sharat Chandra Chattopadhyay		75	
0000 A	12353	Biraj Bahu (H) Hindi(PB)	Sharat Chandra Chattopadhyay		95	
0000 A	12354	Birbal Ka Haas Parihaas (H) Hindi(PB)			25	
0000 A	12355	Birbal Ki Rochak Kahaniyan (H) Hindi(PB)			35	
0000 A	12356	Birbal Ki Sughbugh (H) Hindi(PB)			35	
0000 A	12357	Blood Pressure Karan Aur Ilaj (H) Hindi(PB)	Satish Goel		95	
0000 A	12358	Bloody Merit Scholars (H) Hindi(PB)	Amitabh Kumar		100	
0000 A	12359	Board Pariksha Mein Safal Kaise Hon (H) Hindi(PB)	Sunil Vaid		50	
0000 A	12360	Body Building Course Hindi (PB)	Manoj Kumar		95	
0000 A	12361	Body Language (H) Hindi(PB)	Jagdish Sharma		100	
0000 A	12362	Bolgappe (H) Hindi(PB)	Ashok Chakradhar		100	
0000 A	12363	Brahma Puran (H) Hindi(PB)	Vinay		95	
0000 A	12364	Brahmavaivart Puran (H) Hindi(PB)	Vinay		60	
0000A	12365	Brahmgyan Ka Yatharth (H) Hindi(PB)	Dayanand Verma		50	
0000 A	12366	Bujhe Birla Koi(Kabir Vani) (H) Hindi(PB)	Osho		95	
0000 A	12367	Bujhte Diye Ki Law (H) Hindi(PB)	Pankaj Dhwan		250	

0000 A	12368	Bukhar Ko Kahe Alvida (H) Hindi(PB)	Hari Om Gupta		50	
0000 A	12369	Buland Iradon Se sapne Sach Karein (H) Hindi(PB)	Tarun Engineer		150	
0000 A	12370	Cancer Hindi(PB)	Hari Om Gupta		50	
0000 A	12371	Cancer Karan Aur Nivaran Hindi(PB)	Satish Goel		95	
0000 A	12372	Care After 50 PB Hindi	Bimal Chhajer		50	
0000 A	12373	CCC Course On Computer Concept PB Hindi			190	
0000 A	12374	CCC Course On Computer Concepts (Practice Test Papers) PB Hindi			70	
0000 A	12375	Cervical Spondylosis PB Hindi	Bimal Chhajer		50	
0000 A	12376	Chacha Chaudhary & Mr. X PB Hindi	Pran		50	
0000 A	12377	Chacha Chaudhary and Prof Bad PB Hindi	Pran		50	
0000 A	12378	Chacha Chaudhary Big Head Comics PB Hindi	Pran		35	
0000 A	12379	Chacha Chaudhary Digest -1 PB Hindi	Pran		100	
0000 A	12380	Chacha Chaudhary Digest -2 PB Hindi	Pran		100	
0000 A	12381	Chacha Chaudhary Digest -3 PB Hindi	Pran		100	
0000 A	12382	Chacha Chaudhary Digest -4 PB Hindi	Pran		100	
0000 A	12383	Chacha Chaudhary Fack Currency PB Hindi	Pran		35	
0000 A	12384	Chacha Chaudhary Football World Cup PB Hindi	Pran		35	
0000 A	12385	Chahakti Shayari Sms Hindi(PB)	Kuldeep Saluja		15	
0000 A	12386	Chaho Sab Kuch Chaho Hindi(PB)	Sadguru		175	
0000 A	12387	Chakmak Shayri Sms Hindi(PB)	Kuldeep Saluja		15	
0000 A	12388	Chal Gai Hindi(PB)	Shail Chaturvedi		95	
0000 A	12389	Chal Hansa Us Desh (H) Hindi(PB)	Osho		50	
0000 A	12390	Chal Osho Ke Gaon Mein Hindi(PB)	Gyan Bhed		150	
0000 A	12391	Chamatkari Hastrekhayeen (H) Hindi(PB)	V K Sharma		150	
0000 A	12392	Chamatkari Jyotish (H) Hindi(PB)	V K Sharma		200	
0000 A	12393	Chamatkari Ratan (H) Hindi(PB)	V K Sharma		150	
0000A	12394	Chamatkari Vaastu (H) Hindi(PB)	V K Sharma		150	
0000 A	12395	Chanakya Aur Chandragupt Hindi(PB)	Rajendra Pandey		95	
0000 A	12396	Chanakya Hindi(PB)	Renu Saran		30	
0000 A	12397	Chanakya Hindi(PB)	Renu Saran		40	
0000 A	12398	Chanakya Neeti (H) Hindi(PB)	Ashwini Parashar		110	
0000 A	12399	Chanakya Sutra Hindi(PB)	Bhawan Singh Rana		75	
0000 A	12400	Chandrakanta Hindi(HB)	Devki Nandan Khatri		300	
0000 A	12401	Chandrakanta Hindi(PB)	Devki Nandan Khatri		150	
0000 A	12402	Chandrakanta Santati Part I Hindi(HB)	Devki Nandan Khatri		300	
0000 A	12403	Chandrakanta Santati Part I Hindi(PB)	Devki Nandan Khatri		95	
0000 A	12404	Chandrakanta Santati Part II Hindi(HB)	Devki Nandan Khatri		300	
0000 A	12405	Chandrakanta Santati Part III Hindi(PB)	Devki Nandan Khatri		95	
0000 A	12406	Chandrakanta Satnati Part III Hindi(HB)	Devki Nandan Khatri		300	
0000 A	12407	Chandrakanta Satnati Part IV Hindi(HB)	Devki Nandan Khatri		300	
0000 A	12408	Chandrakanta Satnati Part V Hindi(HB)	Devki Nandan Khatri		300	
0000 A	12409	Chandrakanta Satnati Part VI Hindi(HB)	Devki Nandan Khatri		300	

0000 A	12410	Chandranath Hindi(PB)	Sharat Chandra Chattopadhyay		75	
0000 A	12411	Charam Rog Hindi(PB)	Hari Om Gupta		50	
0000 A	12412	Charitraheen (H) Hindi(PB)	Sharat Chandra Chattopadhyay		150	
0000 A	12413	Chatrapati Shayari Sms Hindi(PB)	Kuldeep Saluja		15	
0000 A	12414	Chawal Ke Vyanjan Hindi(PB)	Neera Verma		60	
0000 A	12415	Cheese Ke Swadist Vyanjan Hindi(PB)	Komal Taneja		100	
0000 A	12416	Cheiro Nakshatra Vigyan Hindi(PB)	Cheiro		95	
0000 A	12417	Cheiro Ank Vigyan Hindi(PB)	Cheiro		95	
0000 A	12418	Chetna Ke Pankh Hindi(PB)	Satya Vedant		100	
0000 A	12419	Chhatisgarh Ki Anokhi Lok Kathayeen PB Hindi	Prakash Manu		70	
0000 A	12420	Chhatisgarh Ki Kahaniyan (Hindi PB)	Aparna Anand		20	
0000 A	12421	Chhatisgarh Ki Kathayen (Hindi PB)	Aparna Anand		20	
0000 A	12422	Chhatisgarh Ki Lok Kathayen (Hindi PB)	Aparna Anand		20	
0000A	12423	Chhatisgarh Ki Lok Sanskriti (Hindi PB)	Aparna Anand		20	
0000 A	12424	Chhatisgarh Ki Manoranjak Lok Kathayeen PB Hindi	Prakash Manu		70	
0000 A	12425	Chhatisgarh Ki Rochak Lok Kathayeen PB Hindi	Prakash Manu		70	
0000 A	12426	Chhatisgarh Ki Sarvashresht Lok Kathayein Hindi (HB)	Prakash Manu		450	
0000 A	12427	Chhatisgarh Ki Sarvashresht Lok Kathayein Hindi (PB)	Prakash Manu		150	
0000 A	12428	Chhatisgarh Lok Sanskriti Kala Aur Sahitya PB Hindi	Prakash Manu		80	
0000 A	12429	Chhatrapati Shivaji Hindi PB	Renu Saran		40	
0000 A	12430	Chhatrapati Shivaji Hindi(PB)	Bhawan Singh Rana		95	
0000 A	12431	Chhattisgarh Swasthya Seva Mission Staff Nurse Evam Prachikitsa Staff PB Hindi	Arvind Mohan Dwivedi		235	
0000 A	12432	Chhoot Na Jaye Dagariya Hindi(HB)	Sudarshan Ji		125	
0000 A	12433	Chidiya Ko Mil Gaya Moti	Prakash Manu		35	
0000 A	12434	Chili Shayari Sms Hindi(PB)	Kuldeep Saluja		15	
0000 A	12435	Chinese Vayanjan Hindi(PB)	Neera Verma		50	
0000 A	12436	Chingari Jo Jindagi Badal De Hindi(PB)	P S Rathore		125	
0000 A	12437	Chinnamasta Evam Tripurbharvi Tantrik Sadhanayen Hindi(PB)	Radha Krishna Srimali		75	
0000 A	12438	Chinta Chhodo Sukh Se Jeeyo HB Hindi	Swett Marden		250	
0000 A	12439	Cholesterol & Fats PB Hindi	Bimal Chhajer		50	
0000 A	12440	Chota Bhim Issue-1 (Kahan Hai Bhim) PB Hindi	Rajeev chilka		60	
0000 A	12441	Chota Bhim Issue-10 (Balshali Rakshas) PB Hindi	Rajiv Chilka		60	
0000 A	12442	Chota Bhim Issue-11 (Dusre Grah Ka Khoya Hua Vaasi) PB Hindi	Rajeev Chikla		60	
0000 A	12443	Chota Bhim Issue-12 (Jadugar Harry) PB Hindi	Rajiv Chilka		60	
0000 A	12444	Chota Bhim Issue-13 (Einstein) PB Hindi	Rajeev Chilka		50	
0000 A	12445	Chota Bhim Issue-14 (Udne Wala Kaleen) PB Hindi	Rajiv Chilaka		50	
0000 A	12446	Chota Bhim Issue-2 (Baban Sher) PB Hindi	Rajeev Chilka		60	
0000 A	12447	Chota Bhim Issue-3 (Samundari Rajkumari) PB Hindi	Rajeev Chikla		60	
0000 A	12448	Chota Bhim Issue-4 (Lakadhara) PB Hindi	Rajeev Chikla		60	
0000 A	12449	Chota Bhim Issue-5 (Pagal Magarmach) PB Hindi	Rajeev Chikla		60	

0000 A	12450	Chota Bhim Issue-6 (Dholakpur Mein Circus) PB Hindi	Rajeev Chikla		60	
0000 A	12451	Chota Bhim Issue-7 (Samurai Sam) PB Hindi	Rajeev Chikla		60	
0000A	12452	Chota Bhim Issue-8 (Bolne Wala Tota) PB Hindi	Rajeev Chikla		60	
0000 A	12453	Chota Bhim Issue-9 (Sona Braham Bhatt ka Sharap) PB Hindi	Rajeev Chikla		60	
0000 A	12454	Chubhatey Kadve Pravachan (Hindi PB)	Surya Sinha		110	
0000 A	12455	Chuhe Aur Aadmi Mein Fark Hindi(PB)	Sarojani Preetam		75	
0000 A	12456	Chumbak Chiktisa (H) Hindi(PB)	S K Sharma		95	
0000 A	12457	Chuna Hai Aasman Hindi(PB)	Kumar Pankaj		95	
0000 A	12458	Chunautiyon Ko Chunautiyaan PB Hindi	JOGINDER SINGH		150	
0000 A	12459	Chunav Loktantra Aur Media Hindi(PB)	Mamta Tiwari		95	
0000 A	12460	Chutile Jokes Hindi(PB)	Kuldeep Saluja		40	
0000 A	12461	Chutili Chikotiyan Hindi(PB)	Madhup Pandey		100	
0000 A	12462	Chutputkule Hindi(PB)	Ashok Chakradhar		100	
0000 A	12463	CISF Constable PB HINDI	Vikas Doon		200	
0000 A	12464	CISF Constable PTP PB HINDI	Vikas Doon		80	
0000 A	12465	Clinton Ke Prem Prasang (Hindi PB)	Mahesh Dutt Sharma		40	
0000 A	12466	Clinton Lewinsky Scandal (Hindi PB)	Ashok Kumar Sharma		40	
0000 A	12467	Coma Hindi(PB)	Pramod Kumar Jha		150	
0000 A	12468	Commercial Vaastu Hindi(PB)	Bhojraj Dwivedi		125	
0000 A	12469	Commercial Vaastu Hindi(PB)	Parasmal		95	
0000 A	12470	Commonwealth Games 2010 Hindi(PB)	Rajiv Tiwari		125	
0000 A	12471	Complete Personality Development Course Hindi(PB)	Surya Sinha		150	
0000 A	12472	Computer Programming And Operating Guide Hindi(PB)	Shashank Johri		50	
0000 A	12473	Cricket Ka Mahanayak Sachin Hindi(HB)	Rajshekhar Mishra		375	
0000 A	12474	Cricket Ka Mahanayak Sachin Hindi(PB)	Rajshekhar Mishra		95	
0000 A	12475	Cricket Kaise Khelen Hindi(PB)	Charan Pal Singh Sobti		75	
0000 A	12476	Cricket Ke Romanchak Prasang (Hindi PB)	Vikas Luthra		40	
0000 A	12477	Cricket Sabse Bada Fraud PB Hindi	Atul Kumar		150	
0000 A	12478	Crime Reporter Kaise Bane ? Hindi(PB)	M K Majumdar		75	
0000 A	12479	CTET Class I-V (Guide) Primary Section PB Hindi			370	
0000 A	12480	CTET Class I-V (Practice Test Papers) Primary Section PB Hindi			130	
0000A	12481	CTET Class VI-VIII (Practice Test Papers) Science & Maths PB Hindi			130	
0000 A	12482	CTET Class VI-VIII (Practice Test Papers) Social Studies PB Hindi			130	
0000 A	12483	Daak Vibhag PTP PB Hindi	Arvind Mohan Dwivedi		115	
0000 A	12484	Daal Par Khili Titali Hindi(PB)	Ashok Chakradhar		95	
0000 A	12485	Dabbewale Hindi(PB)	Pundit Shrinivas		95	
0000 A	12486	Dada Dadi Ki Kahaniyan Hindi(PB)	Geetika Goyal		125	
0000 A	12487	Dadi Maa Ke Gharelu Nuskhe Hindi(PB)	Rajeev Sharma		125	
0000 A	12488	Daffodil Jal Rahe Hai HB Hind	Mirdula Garg		400	
0000 A	12489	Daffodil Jal Rahe Hai PB Hindi	Mirdula Garg		110	
0000 A	12490	Dairy Ke Panne Hindi(PB)	Ageh Bharti		60	
0000 A	12491	Dalit Samaj Ke Pitamah Dr Bhimrao Ambedkar Hindi(PB)	Sunil Jogi		75	
0000 A	12492	Dampatya Maitri Hindi(PB)	Sudarshan Ji		95	

0000 A	12493	Danke Ki Chot Per Sharaphat Hindi(PB)	Tarshem Gujral		60	
0000 A	12494	Dar Se Aage Badho Dar Ke Baad Hi Jeet Hai Hindi(PB)	Ashokindu		125	
0000 A	12495	Dard Chamakta Hai Hindi(PB)	Muzzafar Warsi		75	
0000 A	12496	Dard E Dil Shayari Sms Hindi(PB)	Kuldeep Saluja		15	
0000 A	12497	Dard Ki Katran Hindi(PB)	Shashi Kant Sadaiv		75	
0000 A	12498	Dareeche PB Hindi	Suresh Neerav		150	
0000 A	12499	Das Guru Hindi(PB)	Gurpreet Singh		60	
0000 A	12500	Das Mahavidhayae Saadhna Rahasya Hindi (PB)	Radha Krishna Srimali		295	
0000 A	12501	Dashafal Darpan Hindi(PB)	Radha Krishna Srimali		95	
0000 A	12502	Daulat Ki Tijori Guptisagar Ki Theory Hindi (PB)	Tarun Engineer		150	
0000 A	12503	Dayanand Saraswati Hindi(PB)	Renu Saran		30	
0000 A	12504	Days Of My Bachelor Hood And Ambitions Hindi(PB)	Sachin Jain		100	
0000 A	12505	Deen Dayal Upadhyay Hindi(PB)	Harish Dutt Sharma		95	
0000 A	12506	Deendayal Upadhyay HB Hindi	Mahesh Sharma		300	
0000 A	12507	Deepawali Hindi(PB)	Kamal Radha Krishan Srimali		60	
0000 A	12508	Deewane Galib Hindi(PB)	Noor Nabi Abbassi		125	
0000 A	12509	Deewano Ki Shayari Sms Hindi(PB)	Kuldeep Saluja		15	
0000A	12510	Delhi A Touriste Guide Hindi(PB)	Rajiv Tiwari		125	
0000 A	12511	Delhi A Travel Guide Hindi(PB)	Rajiv Tiwari		125	
0000 A	12512	Dena Pavana Hindi(PB)	Sharat Chandra Chattopadhyay		95	
0000 A	12513	Depression Hindi(PB)	Bimal Chhajer		40	
0000 A	12514	Deshbhakt Shayam HB Hindi	Nishantketu		800	
0000 A	12515	Dev Lok Mein Thekedari Hindi(PB)	Akash Sharma		95	
0000 A	12516	Devam PB Hindi	Anand Vishws		100	
0000 A	12517	Devdas (H) Hindi(PB)	Sharat Chandra Chattopadhyay		95	
0000 A	12518	Devi Bhagwat Puran Hindi(PB)	Vinay		95	
0000 A	12519	Devi Chowdharani Hindi(PB)	Bankim Chandra Chattopadhyay		95	
0000 A	12520	Devi Devtaon Ki Chamatkarik Kathayen Hindi(PB)	Narayan Sharma		95	
0000 A	12521	Dhadkati Shayri Sms Hindi(PB)	Kuldeep Saluja		15	
0000 A	12522	Dhan Ka Nivesh Kaise Karein Hindi(PB)	Dinkar Kumar		100	
0000 A	12523	Dhanurdhari Ram PB Hindi	Nishantketu		500	
0000 A	12524	Dharam Banam Mazhab Hindi(PB)	Shankar Saran		95	
0000 A	12525	Dharm Aur Rajneeti (H) Hindi(PB)	Osho		60	
0000 A	12526	Dharti Ki Beti PB Hindi	Prakash Manu		35	
0000 A	12527	Dhirubhai Ambani Hindi(PB)	Renu Saran		35	
0000 A	12528	Dhirubhaism (H) Hindi(PB)	A G Krishnamurthy		100	
0000 A	12529	Dhoomawati Eam Bagalamookhi Tantrik Sadhnayen Hindi(PB)	Radha Krishna Srimali		95	
0000 A	12530	Dhoop Bhi Chhaon Bhi Hindi(PB)	Sadhvi Pramukha Kanakprapha		100	
0000 A	12531	Dhoop ka Chehra Bashir Badr ki Ghazalen Hindi(PB)	Bashir Badr		95	
0000 A	12532	Dhoop Ka Kaha HB Hindi	Prarthna Pandit		200	
0000 A	12533	Dhuaanki Aas Ka Safar HB Hindi	Prakash Sohail		600	
0000 A	12534	Dhyan Ka Vastavik Swaroop Hindi(PB)	Anandmurti Guru Maa		30	
0000 A	12535	Dhyan Kya Hai (H) Hindi(PB)	Osho		95	
0000 A	12536	Dhyan Prem Ki Chao Mein Hindi(PB)	Gyan Bhed		150	
0000 A	12537	Dhyan Sutra Hindi(PB)	Osho		110	
0000 A	12538	Diabetes PB Hindi	Bimal Chhajer		50	
0000A	12539	Diabities Type 1 & 2 PB Hindi	Biswaroop Roy Choudhray		150	
0000 A	12540	Diamond Beauty Guide Hindi(PB)	Asha Pran		75	

0000 A	12541	Diamond Guitar Guide Hindi(PB)	Ram Garg		60	
0000 A	12542	Diamond Hindi English & English English Hindi Dictionary Hindi(HB)	Baljit Singh		350	
0000 A	12543	Diamond Hindi English Dictionary Hindi(HB)	Giriraj Sharan Agarwal		350	
0000 A	12544	Diamond Hindi English Dictionary Hindi(PB)	Giriraj Sharan Agarwal		150	
0000 A	12545	Diamond Hindi English Dictionery (Mini) Hindi(PB)	Giriraj Sharan Agarwal		75	
0000 A	12546	Diamond Hindi Samantar Kosh Hindi(HB)	Giriraj Sharan Agarwal		250	
0000 A	12547	Diamond Hindi Vayakaran Evam Rachna Hindi(PB)	Giriraj Sharan Agarwal		125	
0000 A	12548	Diamond Homeopathic Guide Hindi (HB)	S Chauhan		350	
0000 A	12549	Diamond Homeopathic Guide Hindi(PB)	S Chauhan		110	
0000 A	12550	Diamond Ladies Health Guide Hindi(PB)	Usha Rai Verma		125	
0000 A	12551	Diamond Mini Hindi Shabdkosh Hindi(PB)	Giriraj Sharan Agarwal		75	
0000 A	12552	Diamond Nibandh Evem Patra Lekhan(Secondary Level) Hindi(PB)	Giriraj Sharan Agarwal		95	
0000 A	12553	Diamond Nibhandh Evam Patralekhan (Senior Class Ke Liye) Hindi(PB)	Giriraj Sharan Agarwal		95	
0000 A	12554	Diamond Prashnottari Hindi(PB)	Anuj Goswami		60	
0000 A	12555	Diamond Rashiphal 2015 Dhanu PB Hindi	Bhojraj Dwivedi		40	
0000 A	12556	Diamond Rashiphal 2015 Kanya PB Hindi	Bhojraj Dwivedi		40	
0000 A	12557	Diamond Rashiphal 2015 Kark PB Hindi	Bhojraj Dwivedi		40	
0000 A	12558	Diamond Rashiphal 2015 Kumbh PB Hindi	Bhojraj Dwivedi		40	
0000 A	12559	Diamond Rashiphal 2015 Makar PB Hindi	Bhojraj Dwivedi		40	
0000 A	12560	Diamond Rashiphal 2015 Meen PB Hindi	Bhojraj Dwivedi		40	
0000 A	12561	Diamond Rashiphal 2015 Mesh PB Hindi	Bhojraj Dwivedi		40	
0000 A	12562	Diamond Rashiphal 2015 MithunPB Hindi	Bhojraj Dwivedi		40	
0000 A	12563	Diamond Rashiphal 2015 Singh PB Hindi	Bhojraj Dwivedi		40	
0000 A	12564	Diamond Rashiphal 2015 Tula PB Hindi	Bhojraj Dwivedi		40	
0000 A	12565	Diamond Rashiphal 2015 Vraschik PB Hindi	Bhojraj Dwivedi		40	
0000 A	12566	Diamond Rashiphal 2015 Vrshabh PB Hindi	Bhojraj Dwivedi		40	
0000 A	12567	Diamond Saral Hindi Nibandh (Prathmik Kakshhaon Ke Liye) Hindi(PB)	Giriraj Sharan Agarwal		60	
0000A	12568	Diamond Varschik Rashiphal 2015 PB Hindi	Bhojraj Dwivedi		225	
0000 A	12569	Diamond Vyavaharik Hindi Shabdkosk Hindi(PB)	Giriraj Sharan Agarwal		150	
0000 A	12570	Dil Ki Baat Kisse kahe aur kaise PB Hindi	Subhash Lakhotia		150	
0000 A	12571	Dildar E Shayari Hindi(PB)	Kuldeep Saluja		15	
0000 A	12572	Din Divangat Huye(Geet) Hindi(PB)	Kunwar Baichain		75	
0000 A	12573	Divya Aabha Mandal Hindi(PB)	Mahesh Dutt Sharma		75	
0000 A	12574	Divya Chingari Hindi(PB)	Rajinder Singh		125	
0000 A	12575	Divya Sai Sandesh Hindi(PB)	Satya Pal Ruhela		60	
0000 A	12576	Diya Tale Andhera HB Hindi	Osho		450	
0000 A	12577	Do Bailon Ki Katha PB Hindi	Prem Chand		50	
0000 A	12578	Do Kadam Budhtave Ki Aur Hindi(PB)	Sri Sri Ravishankar Ji		79	

0000 A	12579	Donald Duck Aur Cellular Ka Picha Issue XVIII Hindi(PB)			25	
0000 A	12580	Donald Duck Aur Telemystery Issue XIX Hindi(PB)			25	
0000 A	12581	Donald Duck Issue II Hindi(PB)			25	
0000 A	12582	Donald Duck Issue III Hindi(PB)			25	
0000 A	12583	Donald Duck Issue IV Hindi(PB)			25	
0000 A	12584	Donald Duck Issue IX Hindi(PB)			25	
0000 A	12585	Donald Duck Issue VI Hindi(PB)			25	
0000 A	12586	Donald Duck Issue XIII Hindi(PB)			25	
0000 A	12587	Donald Duck Issue XXII Hindi(PB)			25	
0000 A	12588	Doosra Banbaas(Kaifi Aazmi Ki Gazlein Aur Nazmein) Hindi(PB)	Suresh Kumar		95	
0000 A	12589	Dr Keshav Hedgewar Hindi(PB)	Harish Dutt Sharma		95	
0000 A	12590	Dr Sunil Jogi Ke Ahasas Bhare Sms Hindi(PB)	Sunil Jogi		15	
0000 A	12591	Dr Sunil Jogi Ke Badhai Bhare Sms Hindi(PB)	Sunil Jogi		15	
0000 A	12592	Dr Sunil Jogi Ke Chahat Bhare Sms Hindi(PB)	Sunil Jogi		15	
0000 A	12593	Dr Sunil Jogi Ke Mohabbat Bhare Sms Hindi(PB)	Sunil Jogi		15	
0000 A	12594	Dr Sunil Jogi Ke Pyar Bhare Sms Hindi(PB)	Sonil Jogi		15	
0000 A	12595	Dr Sunil Jogi Ke Shayari Bhare Sms Hindi(PB)	Sonil Jogi		15	
0000 A	12596	Dr Sunil Jogi Ke Thahakon Bhare Sms Hindi(PB)	Sunil Jogi		15	
0000A	12597	Dr Sunil Jogi Ke Vayang Bhare Sms Hindi(PB)	Sunil Jogi		15	
0000 A	12598	Dr. Radhakrishnan Hindi(PB)	Renu Saran		30	
0000 A	12599	Dr. Radhakrishnan Hindi(PB)	Renu Saran		40	
0000 A	12600	Dragon and Fire Hard Hindi(PB)	Abhisek Choudhary		100	
0000 A	12601	DSSSB/AIIMS Staff Nurse (PTP) PB Hindi	Lali Kumari, Abdhesh, Shabnam		100	
0000 A	12602	DSSSB/AIIMS Staff Nurse PB Hindi	Lali Kumari, Abdhesh, Shabnam		250	
0000 A	12603	Dubte Suraj Ka Ishq Hindi(PB)	Prem Janamjai		75	
0000 A	12604	Durga Upasana Hindi(PB)	Radha Krishna Srimali		50	
0000 A	12605	Durgesh Nandani Hindi(PB)	Bankim Chandra Chattopadhyay		95	
0000 A	12606	Dutta Hindi(PB)	Sharat Chandra Chattopadhyay		60	
0000 A	12607	Dynamic Memory Advance Dtp Course Hindi(PB)	Davinder Singh Minhas		200	
0000 A	12608	Dynamic Memory Apni Website Sway Tayar Karein Hindi(PB)			125	
0000 A	12609	Dynamic Memory Computer Course Hindi (PB)	Biswaroop Roy Choudhray		350	
0000 A	12610	Dynamic Memory Computer Course Old Hindi (PB)	Biswaroop Roy Choudhray		275	
0000 A	12611	Dynamic Memory English Speaking Course Hindi (PB)	Biswaroop Roy Choudhray		225	
0000 A	12612	Dynamic Memory Group Discussion Hindi(PB)	Tarun Chakrabroty		150	
0000 A	12613	Dynamic Memory Hindi Se Bangla Seekhne Ka Saral Course Hindi(PB)	Tarun Chakrabroty		125	
0000 A	12614	Dynamic Memory Internet & Email Hindi(PB)	Davinder Singh Minhas		110	
0000 A	12615	Dynamic Memory Interview Mein Safalata Hindi(PB)	Tarun Chakrabroty		110	
0000 A	12616	Dynamic Memory Methods (H) Hindi(PB)	Biswaroop Roy Choudhray		150	
0000 A	12617	Dynamic Memory Pariksha Mein 100% Safalata Kaise Prapt Karen ? Hindi(HB)	Tarun Chakrabroty		200	
0000 A	12618	Dynamic Memory Pariksha Mein 100% Safalata Kaise Prapt Karen ? Hindi(PB)	Tarun Chakrabroty		75	

0000 A	12619	Dynamic Memory Tally 9 1 Hindi(PB)	Tarun Chakrabroty		110	
0000 A	12620	Dynamic Memory Windows Vista & Office 2007 Hindi(PB)	Davinder Singh Minhas		200	
0000 A	12621	E Samunder Kabhi Utar Mujhme Hindi(PB)	Shahid Meer		95	
0000 A	12622	Eidgaha PB Hindi	Prem Chand		50	
0000 A	12623	Ek Aur Lal Tikon Hindi(PB)	Narender Kohli		50	
0000 A	12624	Ek Aur Lohiya Mulayam Singh Hindi(PB)	Sunil Jogi		95	
0000 A	12625	Ek Baat Aur HB Hindi	Manju		300	
0000A	12626	Ek Bharat Shresth Bharat PB Hindi	Pradeep Pandit		250	
0000 A	12627	Ek Dariya Khwab Main(Alam Khursheed Ki Gajlein) Hindi(PB)	Suresh Kumar		75	
0000 A	12628	Ek Ek Kadam (H) Hindi(PB)	Osho		60	
0000 A	12629	Ek Fakkar Masiha Osho Part 1 Hindi(PB)	Gyan Bhed		250	
0000 A	12630	Ek Fakkar Masiha Osho Part 2 Hindi(PB)	Gyan Bhed		250	
0000 A	12631	Ek Fakkar Masiha Osho Part 3 Hindi(PB)	Gyan Bhed		250	
0000 A	12632	Ek Fakkar Masiha Osho Part 4 Hindi(PB)	Gyan Bhed		250	
0000 A	12633	Ek Fakkar Masiha Osho Part 5 Hindi(PB)	Gyan Bhed		200	
0000 A	12634	Ek Fakkar Masiha Osho Part 6 Hindi(PB)	Gyan Bhed		250	
0000 A	12635	Ek Fakkar Masiha Osho Part 7 Hindi(PB)	Gyan Bhed		250	
0000 A	12636	Ek Fakkar Masiha Osho Part 8 Hindi(PB)	Gyan Bhed		250	
0000 A	12637	Ek Fakkar Masiha Osho Part 9 Hindi(PB)	Gyan Bhed		250	
0000 A	12638	Ek Geet Zindagi HB Hindi	Prarthna Pandit		300	
0000 A	12639	Ek Kadam Rakhkar To Dekh Hindi(PB)	Sudarshan Ji		95	
0000 A	12640	Ek Mati Do Adhyaye Hindi(PB)	Vinod Nand Jha		95	
0000A	12641	Ek matr Samasya (H) Hindi(PB)	Osho		30	
0000 A	12642	Ek Matre Upai Jaago (H) Hindi(PB)	Osho		95	
0000 A	12643	Ek Nurse Ki Dairy Hindi(PB)	Nimai Bhattacharya		60	
0000 A	12644	Ek Onkar Satnam (H) Hindi(PB)	Osho		275	
0000 A	12645	Ek Osho Shishya Ki Antaryatra Hindi(PB)	Ageh Bharti		40	
0000 A	12646	Ek Pukar Meri Awaz Hindi(PB)	Jyoti		110	
0000 A	12647	Ek Saadhe Sab Sadhe (H) Hindi(PB)	Osho		60	
0000 A	12648	Ek Se Badkar Ek Hindi(PB)	A G Krishnamurthy		95	
0000 A	12649	Ek Sufi Ke Sannidhay Main Hindi(PB)	Damini Uniyal		40	
0000 A	12650	Ekkisavin Sadi Mein Adhayatma Hindi(PB)	Sri Om		100	
0000 A	12651	Expert Kehta Hai Hindi(PB)	Dinesh Kushwaha		125	
0000 A	12652	Fadakati Shayri Sms Hindi(PB)	Kuldeep Saluja		15	
0000 A	12653	Faiz Aur Adam Ki Shayri Hindi(PB)	Amar Dehlavi		50	
0000 A	12654	Fakirana Andaz HB Hindi	O P Jha		400	
0000 A	12655	Fakirana Andaz Hindi PB	O P Jha		150	
0000 A	12656	Fal sabji meve Masale Swasthya Ke Rekhwale Hindi(PB)	Rajeev Sharma		95	
0000 A	12657	Falit Jyotish Ke Rahasya Hindi(PB)	Ramprakash Trivedi		195	
0000 A	12658	False 30 Din Mein Angreji Sikhen PB Hindi	B R Kishore		60	
0000 A	12659	Feature Lekhan Hindi(PB)	Sanjay Srivastav		75	
0000 A	12660	Feng Shui Parshanotari Hindi(PB)	Jagdish Sharma		60	
0000 A	12661	Fengshui Ka Jaharvad Hindi(PB)	Rajesh Tiwari		95	
0000 A	12662	Fifty Shades Darker PB Hindi	E L James		250	
0000 A	12663	Fifty Shades Of Freed PB hindi	E L Jems		250	
0000 A	12664	Fifty Shades Of Grey Hindi (PB)	E L James		250	

0000 A	12665	Filhal Itna Hee Hindi(PB)	Arun Jaimini		75	
0000 A	12666	Film Reporting Kaise Kare Hindi(PB)	M K Majumdar		95	
0000 A	12667	Filmi Prashnotari Hindi(PB)	Ganga Prasad Sharma		50	
0000 A	12668	First Aid (Prathmik Chikitsa) Hindi(PB)	Rajeev Sharma		95	
0000 A	12669	Fractured Love PB Hindi	Kuldeep Chaubey		125	
0000A	12670	Fusion Prashnottari Hindi(PB)	Anuj Goswami		60	
0000 A	12671	Gadhou Ka Khula Adhiveshan Hindi(PB)	Premkishore Patakha		95	
0000 A	12672	Gajal Meri Ibadat Hai Hindi(PB)	Manik Varma		95	
0000 A	12673	Galatfahmi Hindi(PB)	Nimai Bhattacharya		60	
0000 A	12674	Galti Kiski Bhag 1 Hindi(PB)	Kiran Bedi		125	
0000 A	12675	Galti Kiski Bhag 2 Hindi(PB)	Kiran Bedi		125	
0000 A	12676	Gandhi Aur Gandhigiri Hindi(PB)	Praveen Shukla		95	
0000 A	12677	Gandhi Par Punarvichar (H) Hindi(PB)	Osho		50	
0000 A	12678	Ganesh Puran Hindi(PB)	Vinay		95	
0000 A	12679	Ganesh Shankar Vidhyarthi Hindi(PB)	Bhawan Singh Rana		150	
0000 A	12680	Ganesh Smiridhi Ke Bhagwan Hindi(PB)	Arpita Barua		40	
0000 A	12681	Ganesh Upshana Aur Sadhna Hindi(PB)	Radha Krishna Srimali		100	
0000 A	12682	Gao Darshan Hindi(PB)	Shankar Lal Joshi		75	
0000 A	12683	Garibon Ki Masiha Mother Teresa Hindi(PB)	Mahesh Dutt Sharma		95	
0000 A	12684	Garuda Ji Ke Sawal Hindi(PB)	Kirit Bhai		50	
0000 A	12685	Gas Acidty Evam Sine Mein Jalan Hindi(PB)	Bimal Chhajer		50	
0000 A	12686	Gauravshali Jeevan Kaise Jiyen Hindi(PB)	Vinod K Gupta		75	
0000 A	12687	Gautam Buddha Prashnotari Hindi(PB)	Shamsher Ahmad Khan		40	
0000 A	12688	Gautam Budha PB Hindi	Renu Gupta		40	
0000 A	12689	Gavah No Teen Hindi(PB)	Vimal Mitra		50	
0000 A	12690	Gayatri Upasana Hindi(PB)	Radha Krishna Srimali		95	
0000 A	12691	Gayatri Vaibhav Hindi(PB)	Jaydev Hasija Vanprasthi		75	
0000 A	12692	Gazlein Sarhad Paar Se Hindi(PB)	Suresh Kumar		75	
0000 A	12693	Geet Hamare Desh ke Hindi(PB)	Pramod Layatu		25	
0000 A	12694	Geet Jo Gaye Nahin Hindi(PB)	Gopal Das Neeraj		95	
0000 A	12695	Geeta Aur Sri Krishna PB Hindi	Budhiprakash Vajpayee		350	
0000 A	12696	Geeta Mata Hindi(PB)	M K Gandhi		150	
0000 A	12697	Geeta Rahasya Hindi(HB)	Bal Gangadhar Tilak		395	
0000 A	12698	Geeta Rahasya Hindi(PB)	Bal Gangadhar Tilak		395	
0000A	12699	Geetanjali (H) Hindi(PB)	Ravindranath Tagore		95	
0000 A	12700	Gehrae Pani Paith Hindi(PB)	Osho		100	
0000 A	12701	Gehu ke Jwar Hindi(PB)	Biswaroop Roy Choudhray		175	
0000 A	12702	Ghagh Aur Bhaddari Ki Kahawatein Hindi(PB)	Devnarayan Diwedi		75	
0000 A	12703	Ghar Aur Bahar Hindi(PB)	Ravindranath Tagore		95	
0000 A	12704	Gharelu Bagvani Hindi(PB)	Shashikala Shahi		75	
0000 A	12705	Gharelu Ilaj Hindi(PB)	Vipul Rao		95	
0000 A	12706	Gharelu Nushkho Ka Khazana Hindi (PB)	Rajeev Sharma		100	
0000 A	12707	Ghat Ka Patthar Hindi(PB)	Gulshan Nanda		60	
0000 A	12708	Ghazal Samrat Jagjit Singh Ki Ghazalein Hindi(PB)	Edited		125	
0000 A	12709	Ghutane Ka Dard Hindi(PB)	Bimal Chhajer		50	
0000 A	12710	Godan Hindi(HB)	Prem Chand		300	
0000 A	12711	Godan Hindi(PB)	Prem Chand		175	
0000 A	12712	Goddess Durga Hindi(PB)	O P Jha		30	
0000 A	12713	Gora Hindi(HB)	Ravindranath Tagore		450	

0000 A	12714	Gora Hindi(PB)	Ravindranath Tagore		150	
0000 A	12715	Gram Swarajya Hindi(PB)	M K Gandhi		125	
0000 A	12716	Greha Nakshatro Dwara Bhagya Nirman Hindi(HB)	Dayanand Verma		60	
0000 A	12717	Grehadah Hindi(PB)	Sharat Chandra Chattopadhyay		100	
0000 A	12718	Grehgochar Siddhant Hindi(PB)	Mohan Bhai D Patel		60	
0000 A	12719	Grehlakshmi 101 Aakarshak Bunai Designes 4 Hindi(PB)	Manish Verma		25	
0000 A	12720	Grehlakshmi 101 Aakarshak Bunai Designes 5 Hindi (PB)	Manish Verma		25	
0000 A	12721	Grehlakshmi 101 Aakarshak Bunai Designes 6 Hindi (PB)	Manish Verma		25	
0000 A	12722	Grehlakshmi 101 Aakarshak Bunai Designes Hindi(PB)	Manish Verma		25	
0000 A	12723	GrehlakshmI 101 Akarshak Bunai Design 3 Hindi (PB)			25	
0000 A	12724	Grehlakshmi 101 Baby Knitting Design & Accesories (Bunai-7) PB Hindi			25	
0000 A	12725	Grehlakshmi 101 Best Vegetarian Recepies Hindi (PB)			25	
0000 A	12726	Grehlakshmi 101 Bunai Design For Teenagers (Bunai-8) PB Hindi			25	
0000 A	12727	Grehlakshmi 101 Bunai Designes 2 Hindi(PB)	Manish Verma		25	
0000A	12728	Grehlakshmi 101 Chef Vegetarian Recipes PB Hindi	Manish Verma		25	
0000 A	12729	Grehlakshmi 111 Lazeez Vyanjan Hindi(PB)			25	
0000 A	12730	Grehlakshmi 111 Nonveg Recipes Hindi(PB)	Manish Verma		25	
0000 A	12731	Grehlakshmi 121 Summer Fashion Disign Collection Hindi(PB)	Manish Verma		25	
0000 A	12732	Grehlakshmi 161 Achar Murabbe Aur Chatni Hindi (PB)	Manish Verma		25	
0000 A	12733	Grehlakshmi 161 Aloo & Paneer Rcps Hindi(PB)	Manish Verma		25	
0000 A	12734	Grehlakshmi 161 Chaat Pakori Hindi(PB)	Manish Verma		25	
0000 A	12735	Grehlakshmi 161 Cheese Recipes PB Hindi			25	
0000 A	12736	Grehlakshmi 161 Chiken and Egg Recipies	Manish Verma		25	
0000 A	12737	Grehlakshmi 161 Chinese Recipes Hindi(PB)	Manish Verma		20	
0000 A	12738	Grehlakshmi 161 Healthy Husband Tifin Recepies Hindi (PB)	Manish Verma		25	
0000 A	12739	Grehlakshmi 161 Homemade ice-cream Cake & Deserts PB	Sangeeta Anand		25	
0000 A	12740	Grehlakshmi 161 Kids Tifin And Party recepies Hindi(PB)	Manish Verma		25	
0000 A	12741	Grehlakshmi 161 Kitty Party Recipe Hindi(PB)	Manish Verma		25	
0000 A	12742	Grehlakshmi 161 Macaroni Pasta Noodlas Recipes PB Hindi	Manish Kumar		25	
0000 A	12743	Grehlakshmi 161 Mango Recipies Hindi(PB)	Manish Verma		20	
0000 A	12744	Grehlakshmi 161 Microwave Recipies Hindi(PB)	Manish Verma		25	
0000 A	12745	Grehlakshmi 161 Pressure Cooker Recepies Hindi (PB)	Manish Verma		25	
0000 A	12746	Grehlakshmi 161 Rooh Afzai Recipies Hindi(PB)	Manish Verma		20	
0000 A	12747	Grehlakshmi 161 Shakahari Vyanjan (Hindi PB)	Manish Verma		25	
0000 A	12748	Grehlakshmi 161 Sindhi Gujrati Rajasthani Recipies Hindi(PB)	Manish Verma		25	
0000 A	12749	Grehlakshmi 161 Soups Salads And Snacks Hindi(PB)	Manish Verma		25	

0000 A	12750	Grehlakshmi 161 South Indian Recepi PB Hindi	Sangeeta Anand		25	
0000 A	12751	Grehlakshmi 161 Soya Mashroom Oriental Cook Book PB Hindi			30	
0000 A	12752	Grehlakshmi 161 Super Breakfast Hindi (PB)	Manish Verma		25	
0000 A	12753	Grehlakshmi 161 Swadisht Mishthan Hindi(PB)	Manish Verma		25	
0000 A	12754	Grehlakshmi 161 Zero Oil Recipes Hindi(PB)	Manish Verma		25	
0000 A	12755	Grehlakshmi 201 Aakarshak Mehandi Design 18 PB Hindi			25	
0000 A	12756	Grehlakshmi 201 Arebian Mehndi Design 14 PB Hindi	Manish Verma		25	
0000A	12757	Grehlakshmi 201 Bridal Mehndi Design 12 PB Hindi	Manish Verma		25	
0000 A	12758	Grehlakshmi 201 Bridal Mehndi Design 13 PB Hindi	Manish Verma		25	
0000 A	12759	Grehlakshmi 201 Bridal Mehndi Design-16 PB Hindi	Dushyant Chauhan		25	
0000 A	12760	Grehlakshmi 201 Dilkash Mehandi-19 PB Hindi			25	
0000 A	12761	Grehlakshmi 201 Dulhan Mehandi Design -20 (PB) Hindi			25	
0000 A	12762	Grehlakshmi 201 Festival Mehndi Designes Hindi(PB)			25	
0000 A	12763	Grehlakshmi 201 Manmohak Mehandi Design 17 PB Hindi			25	
0000 A	12764	Grehlakshmi 201 Mehandi Design 2 Hindi(PB)	Manish Verma		25	
0000 A	12765	Grehlakshmi 201 Mehandi Design 3 Hindi(PB)	Manish Verma		25	
0000 A	12766	Grehlakshmi 201 Mehandi Design-1 Hindi(PB)	Manish Verma		25	
0000 A	12767	Grehlakshmi 201 Mehndi Design 5 Hindi(PB)	Manish Verma		25	
0000 A	12768	Grehlakshmi 201 Mehndi Design 6 Hindi(PB)	Manish Verma		25	
0000 A	12769	Grehlakshmi 201 Mehndi Design 7 Hindi(PB)	Msnish Verma		25	
0000 A	12770	Grehlakshmi 201 Mehndi Design 8 Hindi(PB)	Manish Verma		25	
0000 A	12771	Grehlakshmi 201 Mehndi Design 9 Hindi(PB)	Manish Verma		25	
0000 A	12772	Grehlakshmi 201 Stylish Mehndi Design 10 Hindi(PB)	Manish Verma		25	
0000 A	12773	Grehlakshmi 201 Stylish Mehndi Design 11 Hindi(PB)	Manish Verma		25	
0000 A	12774	Grehlakshmi 261 Mehandi And Tatoo Designs 4 Hindi(PB)	Manish Verma		25	
0000 A	12775	Grehlakshmi 261 Rangoli Design Hindi(PB)	Manish Verma		25	
0000 A	12776	Grehlakshmi 500+ Hair Care Tips Hindi(PB)	Manish Verma		20	
0000 A	12777	Grehlakshmi 700+Skin Care Tips Hindi(PB)	Manish Verma		25	
0000 A	12778	Grehlakshmi Baniye Best Parents (H) Hindi(PB)	Renu Saran		25	
0000 A	12779	Grehlakshmi Beauty Guide Hindi(PB)	Manish Verma		25	
0000 A	12780	Grehlakshmi Best Disigners Braidal Collection PB (Hindi)			25	
0000 A	12781	Grehlakshmi Bridal Beauty (Booklet) PB Hindi			25	
0000 A	12782	Grehlakshmi Chanakya Neeti Hindi(PB)	Manish Verma		20	
0000 A	12783	Grehlakshmi Cool Makeup Trends Hindi PB			25	
0000 A	12784	Grehlakshmi Dadi Maa Ke 700 Gharelu Nuskhe Hindi (PB)			25	
0000 A	12785	Grehlakshmi Delhi Ka Khana Khazana	Manish Verma		25	

0000A	12786	GrehlakshmI Dhan Aur Sukh Simridhi Ki Devi Hindi (PB)			20	
0000 A	12787	GrehlakshmI Durga Evam Navratra Ki Mahima Aur Mahatav Hindi (PB)	Manish Verma		20	
0000 A	12788	Grehlakshmi Kahana Kazana 101 Lajawab Recepies Hindi (PB)			25	
0000 A	12789	Grehlakshmi Kya Kare Jab Maa Bane ? Hindi (PB)			25	
0000 A	12790	Grehlakshmi Meggi bhuna Mashala 161 Shakahari Vyanjan Hindi(PB)	Manish Verma		20	
0000 A	12791	Grehlakshmi Sex Ke Anchhuye Pahelu Hindi (PB)			25	
0000 A	12792	Grehlakshmi Summer Magic Hindi (PB)	Manish Verma		20	
0000 A	12793	Grehlakshmi Trendy Bridal Jewellery Hindi(PB)	Manish Verma		25	
0000 A	12794	Grehlakshmi Vrat Ke Vyanjan Hindi(PB)	Manish Verma		25	
0000 A	12795	Guide To Indian Premier League Hindi(PB)	Rakesh Pandey		95	
0000 A	12796	GUJ Swasthya Seva Mission Staff Nurse Evam Prachikitsa Staff PB Hindi	Arvind Mohan Dwivedi		235	
0000 A	12797	Guldasta Hindi(PB)	Rishi Vansh		75	
0000 A	12798	Gungunati Shayari Sms Hindi(PB)	Kuldeep Saluja		15	
0000 A	12799	Gurda Aur Mutrsansthan Ke Rog Hindi(PB)	Rajeev Sharma		95	
0000 A	12800	Guru Hi Mukti Data Hindi(PB)	Sri Krishna Nand Ji Maharaj		250	
0000 A	12801	Guru Nanak Dev Hindi(PB)	Renu Saran		30	
0000 A	12802	Guru Nanak Dev Hindi(PB)	Giriraj Sharan Agarwal		95	
0000 A	12803	Guru partap Sadh Ki Sangati (H) Hindi(PB)	Osho		200	
0000 A	12804	Gurudev Rabindranath Tagore Hindi(PB)	Maheshwar Mishra		95	
0000 A	12805	Guruji Dungarmal Kaushik Ki Pran Shakti Chikitsa Hindi(PB)	Chhatrapal Singh		95	
0000 A	12806	Gyan Ka Jharna PB Hindi	R K Dogra		150	
0000 A	12807	Gyan Vigyan Ki Aashcharyajanak Kahaniyan Hindi(PB)	Prakash Manu		125	
0000 A	12808	Gyarah Nukkad Natak Hindi(HB)	Giriraj Sharan Agarwal		200	
0000 A	12809	Gyarah Nukkad Natak Hindi(PB)	Giriraj Sharan Agarwal		95	
0000 A	12810	Haar Ke Baad Hi Jeet Hai Hindi(PB)	Joginder Singh		110	
0000 A	12811	Half Girlfriend (H)	Chetan Bhagat		176	
0000 A	12812	Hamne Chhua Aakash (Mahan Bhartiya Vibhutiyan) Hindi(PB)	Renu Saran		95	
0000 A	12813	Hansa Hansa Ke Maroonga Hindi(PB)	Mahendra Ajnabi		75	
0000 A	12814	Hanse Khele Na Karein Man Bhang (Gorakh Vani) (H) Hindi(PB)	Osho		95	
0000A	12815	Hansi Ke Anar Daane Hindi(PB)	Sunil Jogi		95	
0000 A	12816	Hansi Ke Golgappe Hindi(PB)	Sunil Jogi		75	
0000 A	12817	Hansi Khel Nahin Hindi(PB)	Ved Prakash Ved		75	
0000 A	12818	Hanso Aur Mar Jaao Hindi(PB)	Ashok Chakradhar		100	
0000 A	12819	Hanste Hanste Kaise Jiyen Hindi(PB)	Swett Marden		75	
0000 A	12820	Hanstehanste Kaise Jeeyan HB Hindi	Swett Marden		250	
0000 A	12821	Hanuman Hindi(PB)			35	
0000 A	12822	Hanuman Tantra Sadhna Hindi(PB)	Radha Krishna Srimali		150	
0000 A	12823	Hanumanji Ka Kushal Prabandhan Hindi(HB)	Sunil Jogi		300	
0000 A	12824	Hanumanji Ka Kushal Prabandhan Hindi(PB)	Sunil Jogi		100	
0000 A	12825	Haqlana Aur Aapka Bachha Questions Answers Hindi(PB)	Sajiv Adlakha		40	
0000 A	12826	Har Hal Me Khush Hai Hindi(PB)	Praveen Shukla		75	
0000 A	12827	Har Tasveer Adhuri Hindi(PB)	Mehtab Haider Nakavi		75	

0000 A	12828	Hara Samundar Gopi Chander Hindi(PB)	Ajay Janamjai		80	
0000 A	12829	Harayana GK Hindi	Vikas Doon		80	
0000 A	12830	Hardyaghat Aur Raktchap Hindi(PB)	Hari Om Gupta		50	
0000 A	12831	Hardyaghat Hindi(PB)	Bimal Chhajer		50	
0000 A	12832	Hari Subziyon Ke Vyanjan Hindi(PB)	Komal Taneja		100	
0000 A	12833	Harivansh Puran Hindi(PB)	Vinay		95	
0000 A	12834	Haryana Ke Jan Jeewan Ki Kahaniya (Hindi PB)	Kunvar Raisingh Chauhan		25	
0000 A	12835	Haryana Ki Lok Kathayen Hindi(PB)	Kunvar Raisingh Chauhan		30	
0000 A	12836	Hasaye Ja Pyare Hindi(PB)	Gemini Hariyanavi		95	
0000 A	12837	Hasiba Kheliba Dhariba Dhyanam (H) Hindi(PB)	Osho		95	
0000 A	12838	Hastaakshar Vigyan Hindi(PB)	Jagdish Sharma		75	
0000 A	12839	Hastrekha Aur Premvivah Hindi(PB)	Cheiro		50	
0000 A	12840	Hath Ki Banavat Hindi(PB)	V K Sharma		125	
0000 A	12841	Healthy Cooking PB Hindi	Bimal Chhajer		50	
0000 A	12842	Healthy Heart PB Hindi	Bimal Chhajer		50	
0000 A	12843	Heart Mafia PB Hindi	Biswaroop Roy Choudhray		150	
0000A	12844	Heera (Jyotish Aur Ratna) Hindi(PB)	Jagdish Sharma		50	
0000 A	12845	Hello Charles Hindi(PB)	Rekha Agarwal		100	
0000 A	12846	Hi Fi Shayari Sms Hindi(PB)	Kuldeep Saluja		15	
0000 A	12847	High Blood Pressure PB Hindi	Bimal Chhajer		50	
0000 A	12848	Himmat Hai Hindi(PB)	Kiran Bedi		250	
0000 A	12849	Hind Ki Shaan (H) Hindi(PB)	Bekal Utsahi		100	
0000 A	12850	Hindi English Teacher PB Hindi	Renu Saran		100	
0000 A	12851	Hindi Ke Muktak Aur Rubaiyan Hindi(PB)	Sunil Jogi		100	
0000 A	12852	Hindu Aur Hindutva Hindi PB	Ila Kumar		99	
0000 A	12853	Hindu Manyataon Ka Dharmik Adhaar Hindi(PB)	Bhojraj Dwivedi		95	
0000 A	12854	Hindu Manyataon Ka Vaigyanik Aadhar Hindi(PB)	Bhojraj Dwivedi		110	
0000 A	12855	Hindu Nishane Par Hindi(PB)	Subramaniam Swami		95	
0000 A	12856	Hindu Vivah Evam Yagopavit Sanskar Hindi(PB)	Bhojraj Dwivedi		100	
0000 A	12857	Hindutatva Hindi(PB)	Rachna Bhola Yamini		60	
0000 A	12858	Hinsa Kaisi Kaisi (Hindi HB)	Nishtar Khanquahi		150	
0000 A	12859	Hinsa Kaisi Kaisi (Hindi PB)	Nishtar Khanquahi		75	
0000 A	12860	Hirdaya Rog Se Mukti Ke Saral Upaye Hindi(PB)	Vishnu Jain		95	
0000 A	12861	Hirdaya Rogiyon Ke Liye Sanjivani Hindi(PB)	Bimal Chhajer		50	
0000 A	12862	Hit Filmi Geet 1934 To 1960 Part I Hindi(PB)	Kumud Rastogi		95	
0000 A	12863	Hit Filmi Geet 1961 To 1970 Part II Hindi(PB)	Kumud Rastogi		50	
0000 A	12864	Hit Filmi Geet 1971 To 1980 Part III Hindi(PB)	Kumud Rastogi		95	
0000 A	12865	Hit Filmi Geet 1981 To 1984 Part Iv Hindi(PB)	Kumud Rastogi		95	
0000 A	12866	Hit Filmi Geet 1985 To 1991 Part V (Hindi PB)	Mahesh Dutt Sharma		95	
0000 A	12867	Hit Filmi Geet 1992 To 1996 Part VI Hindi(PB)	Mahesh Dutt Sharma		50	
0000 A	12868	Hit Filmi Geet 2003 To 2006 Part VIII Hindi(PB)	Gajendra Singh		50	
0000 A	12869	Hit Filmi Geet 2006 To 2007 Part IX Hindi(PB)	Mahesh Dutt Sharma		50	
0000 A	12870	Hit Filmi Geet 2008 To 2009 Part X Hindi(PB)	Mahesh Dutt Sharma		50	
0000 A	12871	Hitopadesh Ki Manoranjak Kahaniyan Hindi(PB)	Pratibha Kasturiya		35	

0000 A	12872	Hitopadesh Ki Prerak Kahaniyan Hindi(PB)	Pratibha Kasturiya		35	
0000A	12873	Hitopadesh Ki Shikshaprad Kahaniya Hindi(PB)	Pratibha Kasturiya		35	
0000 A	12874	Hitopdesh (H) Hindi(PB)	Ashok Kaushik		95	
0000 A	12875	Hitopdesh Hindi(HB)	Rachna Bhola Yamini		175	
0000 A	12876	Hitopdesh Ki Rochak Kahaniya Hindi(PB)	Pratibha Kasturiya		35	
0000 A	12877	Home Beautician Course (Ghar Mein Beauty Palour Kaise Kholae) Hindi(PB)	Jyoti Rajiv		95	
0000 A	12878	Honi Hoye So Hoye (Kabir Vani) (H) Hindi(PB)	Osho		75	
0000 A	12879	Honi Hoye So Hoye (Kabir Vani) (H) Hindi(PB) New	Osho		200	
0000 A	12880	Hori Dohavali Hindi(HB)	Rajkumar Sachaan 'Hori'		300	
0000 A	12881	Hori Dohavali Hindi(PB)	Rajkumar Sachan Hori		95	
0000 A	12882	Hospital Se Zinda Kaise Lote PB Hindi	Biswaroop Roy Choudhray		95	
0000 A	12883	HR Swasthya Seva Mission Staff Nurse Evam Prachikitsa Staff PB Hindi	Arvind Mohan Dwivedi		235	
0000 A	12884	Hridaya Rogiyon Ke Liye 201 Ahaar Tips Hindi(PB)	Bimal Chhajer		125	
0000 A	12885	HSSC Clerk Grade Pariksha 2014 (Practis Test Paper) PB Hindi	Arvind Mohan Dwivedi		150	
0000 A	12886	HSSC Clerk Grade Pariksha 2014 PB Hindi	Arvind Mohan Dwivedi		290	
0000 A	12887	HSSC Stenographer (Practise Test Paper)PB Hindi	Arvind Mohan Dwivedi		150	
0000 A	12888	HSSC Stenographer (Guide) PB Hindi	Arvind Mohan Dwivedi		220	
0000 A	12889	HTET BAAL VIKAS AND SHIKSHA SHASTRA PB Hindi	Vikas Doon		115	
0000 A	12890	HTET Environmental Studies Title PB Hindi	Vikas Doon		55	
0000 A	12891	HTET PB Hindi	Vikas Doon		115	
0000 A	12892	Hum Honge Kamyaab Hindi(PB)	Gopal Sharma		110	
0000 A	12893	Hungama Hai Kyon Barpa Hindi(PB)	Prem Nishith		75	
0000 A	12894	I Am Sorry PB Hindi	Ghanshyam Aggarwal		150	
0000 A	12895	IBPS Clerk Grade Exam (Practise Test Paper) PB Hindi			180	
0000 A	12896	IBPS Clerk Grade Exam PB Hindi			310	
0000 A	12897	IBPS CWE PO/MT (PTP) PB Hindi	Vikas Doon		115	
0000 A	12898	IBPS CWE RRB PB HINDI	Vikas Doon		200	
0000 A	12899	IBPS Krishi Adhikari Guide & Practise Test Paper (15 PTP) PB Hindi	Neelam Sharma		99	
0000 A	12900	IBPS Probationary Officer Evam Prabandhan Prashishu (Po & Mt) Guide PB Hindi			370	
0000 A	12901	IBPS Probationery Officers (12 Practice Test Papers) PB Hindi			190	
0000A	12902	IBPS Regional Rural Bank (Officers) 10 Practice Test Papers PB Hindi			185	
0000 A	12903	IBPS Regional Rural Bank Office Assistants (12 Practice Papers) Hindi (PB)			185	
0000 A	12904	IBPS Regional Rural Bank Officer (CWE) (Scale I,II & III) Guide PB Hindi			405	
0000 A	12905	IBPS Regional Rural Banks OA (Multipurpose) Exam (CWE) Hindi (PB)			375	
0000 A	12906	ICE Cream Ki Kahani PB Hindi	Prakash Manu		35	
0000 A	12907	Ignou B.ed Practice Test Paper PB Hindi			125	
0000 A	12908	India Book Of Records 2011 Hindi(PB)	Biswaroop Roy Choudhray		195	

0000 A	12909	India Book Of Records 2012 Hindi(PB)	Biswaroop Roy Choudhray		250	
0000 A	12910	Indian Air Force (Group-Y) Guide Cum Test Paper PB Hindi	Arvind Mohan Dwivedi		185	
0000 A	12911	Indian Microwave Cook Book (H) Hindi(PB)	Tehlina Kaul		100	
0000 A	12912	Indira Gandhi HB Hindi	Meena Agarwal		300	
0000 A	12913	Indira Gandhi Hindi(PB)	Meena Agarwal		95	
0000 A	12914	Indira Gandhi Hindi(PB)			30	
0000 A	12915	Indrajal Magic Tricks Hindi(PB)	Jadugar - Samrath Ashok		95	
0000 A	12916	Intelligence Bureau PB Hindi	Vikas Doon		100	
0000 A	12917	Invisible Doctor Hindi(PB)	B K Chandra Shekhar		150	
0000 A	12918	Irshya Se Mukti Hindi(PB)	Nityanand		175	
0000 A	12919	Ishquia Shayari Sms Hindi(PB)	Kuldeep Saluja		15	
0000 A	12920	Ishwar Ka Doosra Naam Hai Maa Hindi(PB)	Tarun Engineer		95	
0000 A	12921	Ishwar Ki Aur Hindi(PB)	Nency Mramor		75	
0000 A	12922	Ishwar Se Kya Prathnao Se Jawab Milta Hain Hindi(PB)	Jiliyana Reymond		75	
0000 A	12923	Isliye Baudam Ji Isliye Hindi(PB)	Ashok Chakradhar		100	
0000 A	12924	Istri Rogon Ki Sahaj Chikitsa (Dadi Ma Ki Grehlu Nusko Par Adgarit Hindi(PB)	Rajeev Sharma		95	
0000 A	12925	ITBPF Tally Cumunication Cader (11-Practice Test Pepers) Hindi (PB)			60	
0000 A	12926	J P Jaisa Maine Dekha Hindi(HB)	Amlesh Raju		500	
0000 A	12927	Jaago Jiwan Jagran Ki Bela Hindi(PB)	Shooyo Ji		95	
0000 A	12928	Jaane Kitni Aankhe Hindi (HB)	Rajendra Awasthi		450	
0000 A	12929	Jaane Kitni Aankhe PB Hindi	Rajendra Awasthi		150	
0000 A	12930	Jaat Hamari Brahm Hai (H) Hindi(PB)	Osho		60	
0000A	12931	Jab Raha Na Koi Chara Hindi(PB)	Ashok Chakradhar		95	
0000 A	12932	Jadui Shayari Sms Hindi(PB)	Kuldeep Saluja		15	
0000 A	12933	Jahrili jaren Hindi(PB)	Roop Narain Sonker		50	
0000 A	12934	Jaikara Sheran Wali Ka Mata Ki Bheten Hindi(PB)	Sajan Peshawari		75	
0000 A	12935	Jal Mein Kamal (Bhagwat Gita Ka Manovigyan) Bhag-6 (H) Hindi(PB)	Osho		200	
0000 A	12936	Jalti Chhattan Hindi(PB)	Gulshan Nanda		60	
0000 A	12937	Jam Gaya Suraj Hindi(PB)	Abhimanyu Unnaut		75	
0000 A	12938	Jammu Kashmir Ki Lokkathayen Evam Prashnotari Hindi(PB)	Rachna Bhola Yamini		25	
0000 A	12939	Jane Kya Tapke Hindi(PB)	Ashok Chakradhar		95	
0000 A	12940	Jannayak Rahul Gandhi PB Hindi	Rakesh Pandey		295	
0000 A	12941	Jansakhya Visphot (H) Hindi(PB)	Osho		95	
0000 A	12942	Jansampark Hindi(PB)	Amit Kumar		95	
0000 A	12943	Jatak Kathayen Hindi(HB)	Pratibha Kasturiya		175	
0000 A	12944	Jatak Kathayen Hindi(PB)	Bhawan Singh Rana		125	
0000 A	12945	Jawahar Navodaya Vidyalaya (Practice Test Papers) PB Hindi			100	
0000 A	12946	Jawahar Navodaya Vidyalaya Pravesh Pariksha Hindi (PB)			160	
0000 A	12947	Jawaharlal Nehru Hindi(PB)	Renu Saran		30	
0000 A	12948	Jeene Ka Saahas (H) Hindi(PB)	Rajiv		100	
0000 A	12949	Jeet Lo khwabon ko PB Hindi	Joginder Singh		150	
0000 A	12950	Jeet Sako To Jeet Lo Hindi(PB)	Harikrishan Devsare		125	
0000 A	12951	Jeet Ya Haar Raho Tayaar Hindi (PB)	Ujjawal Patni		199	
0000 A	12952	Jeevan Amrit (H) Hindi(PB)	Osho		200	
0000 A	12953	Jeevan Aur Marityu (H) Hindi(PB)	Osho		30	
0000 A	12954	Jeevan Aur Vayavhar (H) Hindi(PB)	Swett Marden		75	
0000 A	12955	Jeevan Aur Vyavhar HB Hindi	Swett Marden		250	

0000 A	12956	Jeevan Ek Yagyashala HB Hindi	Nishantketu		300	
0000 A	12957	Jeevan Jine Ki Kala PB Hindi	Anand Satyarthi		100	
0000 A	12958	Jeevan Ke Prerak (H) Hindi(PB)	Surya Sinha		150	
0000 A	12959	Jeevan Ke Prerak Hindi(HB)	Surya Sinha		300	
0000A	12960	Jeevan Ke Rang Osho Ke Sang Hindi(PB)	Ageh Bharti		60	
0000 A	12961	Jeevan Kranti (H) Hindi(PB)	Osho		60	
0000 A	12962	Jeevan Mein Anand Hindi(PB)	Jas Mand		95	
0000 A	12963	Jeevan Mein Safal Kaise Ho Hindi(PB)	Vinod K Gupta		60	
0000 A	12964	Jeevan Sangeet (H) Hindi(PB)	Osho		95	
0000 A	12965	Jeevan Sthagit Hai Hindi (PB)	Parmod Bharti		150	
0000 A	12966	Jeevit Mandir (H) Hindi(PB)	Osho		60	
0000 A	12967	Jhansi Ki Rani Laxmi Bai Hindi (HB)	Bhawan Singh Rana		300	
0000 A	12968	Jharkhand Andolan Ke Masiha Binod Bihari Mehato Hindi(PB)	Rajkishore Mehato		50	
0000 A	12969	Jharkhand Ki Lok Kathayen Evam Prashnotari Hindi(PB)	Rachna Bhola Yamini		25	
0000 A	12970	Jhuk Aaye Badriya Sawan Ki (H) Hindi(PB)	Osho		60	
0000 A	12971	Jin Khoja Tin Paaiyan Gahre Pani Paith Hindi(HB)	Osho		500	
0000 A	12972	Jindagi Ki Kahani Hindi(PB)	Maharaji		60	
0000 A	12973	Jism Ke Chhilake Hindi(PB)	Nishantketu		150	
0000 A	12974	Jitna Bada Jokhim Utni Badi Safalta PB Hindi	Tarun Engineer		150	
0000A	12975	Jiwan Ke Vividha Rang Hindi(PB)	Sudarshan Ji		60	
0000 A	12976	Jiwan Ko Sunder Kaise Banayen Hindi(PB)	Sudarshan Ji		60	
0000 A	12977	Jiwan Safal Kaise Banaye Hindi(PB)	Sudarshan Ji		60	
0000 A	12978	JKD Swasthya Seva Mission Staff Nurse Evam Prachikitsa Staff PB Hindi	Arvind Mohan Dwivedi		235	
0000 A	12979	Jo Kare So Joker Hindi(PB)	Ashok Chakradhar		100	
0000 A	12980	Jo Kuch Bhi Tha Darmiyan PB Hindi	Dinesh Gupta		100	
0000 A	12981	Jogi Bhajanamrit Hindi(PB)	Sunil Jogi		75	
0000 A	12982	Jotahi Jot Samaani (Kabir Vani) (H) Hindi(PB)	Osho		95	
0000 A	12983	Judo Jodo Aur Jeeto (Network Marketing) H Hindi(PB)	Ujjawal Patni		225	
0000 A	12984	Juicey Shayari Sms Hindi(PB)	Kuldeep Saluja		15	
0000 A	12985	Jumbo Hindi(PB)			40	
0000 A	12986	Jungle Janwar Aur Aadmi Hindi(PB)	Nishantketu		150	
0000 A	12987	Just Mushroom Hindi(PB)	Komal Taneja		100	
0000 A	12988	Jyo Ki Tyo Dhari Dinhi Chadariya (H) Hindi(PB)	Osho		200	
0000 A	12989	Jyotish Aur Aayusaya Yog Hindi(PB)	Bhojraj Dwivedi		95	
0000 A	12990	Jyotish Aur Dhan Yog Hindi(PB)	Bhojraj Dwivedi		95	
0000 A	12991	Jyotish Aur Laxmi Yog Kanya Laganphal Hindi(PB)	Kamal Radha Krishan Srimali		125	
0000 A	12992	Jyotish Aur Laxmi Yog Makar Laganphal Hindi(PB)	Kamal Radha Krishan Srimali		125	
0000 A	12993	Jyotish Aur Laxmi Yog Meen Laganphal Hindi(PB)	Kamal Radha Krishan Srimali		125	
0000 A	12994	Jyotish Aur Rajyog Hindi(PB)	Bhojraj Dwivedi		95	
0000 A	12995	Jyotish Aur Ratan Hindi(PB)	Radha Krishna Srimali		95	
0000 A	12996	Jyotish Aur Rog Vichar Hindi(PB)	Bhojraj Dwivedi		95	
0000 A	12997	Jyotish Aur Santan Yog Hindi(PB)	Bhojraj Dwivedi		95	
0000 A	12998	Jyotish Aur Vivah Yog Hindi(PB)	Bhojraj Dwivedi		95	
0000 A	12999	Jyotish Fhaldeepika Hindi(PB)	Mohan Bhai D Patel		60	
0000 A	13000	Jyotish Ke Rahasya Hindi(PB)	Ramprakash Dwivedi		150	
0000 A	13001	Jyotish Mein Bhawan Vahan Aur Kirti Yog Hindi(PB)	Bhojraj Dwivedi		95	

0000 A	13002	Jyotish Prashnotari Hindi(PB)	Bhojraj Dwivedi		75	
0000 A	13003	Jyotish Sikhiyae Hindi(PB)	Radha Krishna Srimali		175	
0000A	13004	Jyotish Tatva Vivek Hindi(PB)	Ramesh Upadhyay		125	
0000 A	13005	Jyotish Vigyan PB Hindi	Osho		60	
0000 A	13006	Ka Sovae Din Rain (H) Hindi(PB) New	Osho		200	
0000 A	13007	Kaal Chintan Aatmbodh Hindi(HB)	Rajendra Awasthi		500	
0000 A	13008	Kaal Chintan Aatmbodh Hindi(PB)	Rajendra Awasthi		150	
0000 A	13009	Kaal Chintan Aatmchintan Hindi(HB)	Rajendra Awasthi		500	
0000 A	13010	Kaal Chintan Aatmchintan Hindi(PB)	Rajendra Awasthi		150	
0000 A	13011	Kaal Chintan Aatmlochan Hindi(HB)	Rajendra Awasthi		500	
0000 A	13012	Kaal Chintan Aatmlochan Hindi(PB)	Rajendra Awasthi		150	
0000 A	13013	Kaal Chintan Antarman (H) Hindi(PB)	Rajendra Awasthi		150	
0000 A	13014	Kaal Chintan Antarman Hindi(HB)	Rajendra Awasthi		500	
0000 A	13015	Kaal Chintan Anubhuti Hindi(HB)	Rajendra Awasthi		500	
0000 A	13016	Kaal Chintan Anubhuti Hindi(PB)	Rajendra Awasthi		150	
0000 A	13017	Kaal Chintan Atmamanthan Hindi(HB)	Rajendra Awasthi		500	
0000 A	13018	Kaal Chintan Atmamanthan Hindi(PB)	Rajendra Awasthi		150	
0000 A	13019	Kaal Ke Haath Kamniya Hindi(PB)	Maharaji		60	
0000 A	13020	Kaam Urja Ko Samjho Hindi(PB)	Anandmurti Guru Maa		50	
0000 A	13021	Kab Tak Sahoge Hindi(HB)	Ajay Lal		400	
0000 A	13022	Kabul Ka Kitab Wala Hindi(PB)	Arvind Kumar		150	
0000 A	13023	Kabz Aur Swash Ke Rog Hindi(PB)	Hari Om Gupta		50	
0000 A	13024	Kabz Hindi(PB)	Bimal Chhajer		40	
0000 A	13025	Kache Rasto Ka Safar Hindi(PB)	Ramdarash Mishra		95	
0000 A	13026	Kadve Pravachan PB Hindi	Muni Sri Tarun Sagar Ji Maharaj		195	
0000 A	13027	Kahai Kabir Diwana PB Hindi	Osho		250	
0000 A	13028	Kahan Shuru Kahan Khatam PB Hindi	Dwarika Prasad Agarwal		125	
0000 A	13029	Kahan We Kahan Ye Hindi(HB)	Praveen Shukla		200	
0000 A	13030	Kahan We Kahan Ye Hindi(PB)	Praveen Shukla		75	
0000 A	13031	Kahaniya Bolti Hai Hindi (PB)	Surya Sinha		125	
0000 A	13032	Kahaniyan Jo Genius Banaye PB Hindi	J P S Jolly		150	
0000A	13033	Kahaniyan Jo Jeena Sikhayen Hindi (HB)	Jolly Uncle		450	
0000 A	13034	Kahaniyan Jo Jeena Sikhayen Hindi (PB)	Jolly Uncle		125	
0000 A	13035	Kahaniyan Jo Raah Dikhaye Hindi (PB)	J P S JOLLY		125	
0000 A	13036	Kahe Kabir Main Poora Paya PB Hindi	Osho		250	
0000 A	13037	Kahen Kabir Kuchch Udham Kije Hindi(PB)	Sri Krishana Nand Ji Maharaj		200	
0000 A	13038	Kahkashan Ka Safar Hindi(PB)	Suresh Kumar		75	
0000 A	13039	Kailash Satyarthi (PB) Hindi	Kritika Bhardwaj, Ashok K. Sharma		125	
0000 A	13040	Kaisa Ho Sakta Hai Shubh Bhavisaya Ka Nirman Hindi(PB)	Acharya Mahapragya		100	
0000 A	13041	Kaisa Hoga Aapka Jeevan Sathi Hindi(PB)	Kamal Radha Krishan Srimali		75	
0000 A	13042	Kaise Jeeten Kaun Banega Crorpati Hindi(PB)	Anuj Goswami		60	
0000 A	13043	Kaise Kare Rango Se Upchar Hindi (HB)	Ted Andrews		250	
0000 A	13044	Kaise Kare Rango Se Upchar Hindi(PB)	Ted Andrews		95	
0000 A	13045	Kaka Ki Pholjhariyan Hindi(PB)	Kaka Hathrasi		95	
0000 A	13046	Kakke Ke Chchake Hindi(PB)	Kaka Hathrasi		95	

0000 A	13047	Kali Pujan Aur Chandi Paath Hindi(PB)	Vinay Singhal		95	
0000 A	13048	Kalidas Ke Natak Hindi(PB)	Ashok Kaushik		150	
0000 A	13049	Kaliyug Ke Ved Vyas Munshi Prem Chand Hindi(PB)	Maheshwar Mishra		75	
0000 A	13050	Kalki Puran Hindi(PB)	Vinay		95	
0000 A	13051	Kalsarpyog Shanti Aur Ghat Vivah Par Shodhkarya Hindi(PB)	Bhojraj Dwivedi		125	
0000 A	13052	Kam Bhav Ki Nai Vyakhya Hindi(PB)	Dayanand Verma		95	
0000 A	13053	Kamar Dard Hindi(PB)	Hari Om Gupta		50	
0000 A	13054	Kamar Dard Hindi(PB)	Bimal Chhajer		40	
0000 A	13055	Kamar Dard Karan Aur Nivaran Hindi(PB)	Nishtha		95	
0000 A	13056	Kamayani Hindi(PB)	Jai Shankar Prasad		95	
0000 A	13057	Kamyab Beema Agent Kaise Bane Hindi(PB)	Ashok Goyal		125	
0000 A	13058	Kamyabi Kaise (Come On Get Set Go) (H) Hindi(PB)	Sailesh Lodha		150	
0000 A	13059	Kan Naak Gala Evam Sirdard Hindi(PB)	Hari Om Gupta		50	
0000 A	13060	Kanooni Salah Hindi(PB)	Dinkar Kumar		95	
0000 A	13061	Kapaal Kundla Hindi(PB)	Bankim Chandra Chattopadhyay		75	
0000A	13062	Karam Bada Ya Bhagya Hindi(PB)	Sanjay Sharma		95	
0000 A	13063	Karambhumi Hindi(HB)	Prem Chand		300	
0000 A	13064	Karambhumi Hindi(PB)	Prem Chand		150	
0000 A	13065	Karamyog (Bhagwat Gita Ka Manovigyan) Bhag 3 (Hindi HB)	Osho		200	
0000 A	13066	Karamyog (Bhagwat Gita Ka Manovigyan) Bhag-3 (H) Hindi(PB)	Osho		200	
0000 A	13067	Karamyogi Swami Vivekanand PB Hindi	Ramesh Pokhriyal		50	
0000 A	13068	Karate Kya Hai Aur Ise Kyon Seekhen Hindi(PB)	Bhupender singh		120	
0000 A	13069	Karmat Jujharu Aur Shishak Mahila Kiran Bedi PB Hindi	Sidhart Ayyar		125	
0000 A	13070	Karmatma Aur Karma Ka Sidhant Hindi(PB)	Tejguru Sarshree Tejparkhizi		95	
0000 A	13071	Karodpati Se Arabpati Kaise Bane (H) Hindi(PB)	Subhash Lakhotia		150	
0000 A	13072	Karyasthal Par Bhawanatmak Buddhimatta Hindi(PB)	Dalip Singh		125	
0000 A	13073	Kashi Hindu Vishvavidyalaya Staff Nurse And Parachikitsa Staff PTP PB Hindi	Arvind Mohan Dwivedi		100	
0000 A	13074	Kashi Hindu Vishvavidyalaya Staff Nurse And Prachikitsa Staff-2014 PB Hindi	Arvind Mohan Dwivedi		250	
0000 A	13075	Kashinath Hindi(PB)	Sharat Chandra Chattopadhyay		95	
0000 A	13076	Kashmir Ke Antheen Jung PB Hindi	Satish Verma		250	
0000 A	13077	Kasturi Kundal Basai PB Hindi	Osho		250	
0000 A	13078	Kath Sarit Sagar Hindi(PB)	Bhawan Singh Rana		95	
0000 A	13079	Katju Ji Batayin Hindi(PB)	Raj Gopal Katju		75	
0000 A	13080	Kaun Hai Guru PB Hindi	Shashi Kant Sadaiv		150	
0000 A	13081	Kaun Hai Osho Hindi(PB)	Shashi Kant Sadaiv		250	
0000 A	13082	Kautilaya Arthshashtra Hindi(PB)	Ashok Kaushik		95	
0000 A	13083	Kavya Aur Kala Tatha Anya Nibandh Hindi(PB)	Jai Shankar Prasad		40	
0000 A	13084	Kayakalp Hindi(PB)	Prem Chand		175	
0000 A	13085	Kele Ka Chhilka Hindi(PB)	Prem Kishore Patakha		75	
0000 A	13086	KENDRIYA VADHYALAYA Sangathan PB Hindi	Vikas Doon		115	
0000 A	13087	Khawab Farosh(Ahmed Fraj Ki Shayri) Hindi(PB)	Ahmed Faraz		95	
0000 A	13088	Khel Patrakarita Hindi(HB)	Rajshekhar Mishra		200	

0000 A	13089	Khel Patrakarita Hindi(PB)	Rajshekhar Mishra		60	
0000 A	13090	Khidkiyaan Hindi(PB)	Ashok Chakradhar		75	
0000A	13091	Khud Badlein Apni Kismat Hindi(PB)	Ashokindu		125	
0000 A	13092	Khud Badlen Apni Kismat Hindi(HB)	Ashokindu		300	
0000 A	13093	Khul Kar Khao Fir Bhi Vajan Ghatao PB Hindi	Pooja Makhija		225	
0000 A	13094	Khule Dimag Ki Taqat PB Hindi	Lokesh Sharma		100	
0000 A	13095	Kiran Bedi Kaise Bani Top Cop (International Edition) PB Hindi	Kiran Bedi		150	
0000 A	13096	Kiran Bedi Kaise Bani Top Cop PB Hindi	Kiran Bedi		50	
0000 A	13097	Kishore Ke Hit Filmi Geet Hindi(PB)	Kumud Rastogi		100	
0000 A	13098	Koi Deewana Kahta Hai Hindi(HB)	Kumar Vishwas		500	
0000 A	13099	Koi Deewana Kahta Hai Hindi(PB)	Kumar Vishwas		99	
0000 A	13100	Kranti Ka Masiha Dr. Binayak Sen Hindi(PB)	Arvind Kumar		100	
0000 A	13101	Kranti Sutra (H) Hindi(PB)	Osho		95	
0000 A	13102	Krantiveer Subhash Hindi(PB)	Giriraj Sharan Agarwal		95	
0000 A	13103	Krishan Jigyasa Khoj Uplabhadhi (H) Hindi(PB)	Osho		95	
0000 A	13104	Krishan Aur Hasta Hua Dharam (H) Hindi(PB)	Osho		95	
0000 A	13105	Krishan Guru Bhi Sakha Bhi (H) Hindi(PB)	Osho		95	
0000 A	13106	Krishan Leela Ki Kathayen Hindi(PB)	Narayan Sharma		95	
0000 A	13107	Krishna Se Prashna HB Hindi	Sumedh Gawendy		300	
0000 A	13108	Krodh Se Karuna Ki Aur Hindi(PB)	Anandmurti Guru Maa		50	
0000 A	13109	Kshitij Hindi(PB)	Parmod Bharti		150	
0000 A	13110	Kuch Kaha Kuch Likha Baki Phir Kabhi Hindi(HB)			300	
0000 A	13111	Kuchh Pani Kuchh Aag Hindi(PB)	Naresh Shandilya		60	
0000 A	13112	Kuchh Vichar Hindi(PB)	Prem Chand		95	
0000 A	13113	Kundilini Aur Samadhi Hindi(PB)	Gyan Bhed		250	
0000 A	13114	Kurma Puran Hindi(PB)	Vinay		95	
0000 A	13115	Kurukshetra Geetawali Hindi(HB)	Commander Vinay Singh		300	
0000 A	13116	Kya Aap Aamir Banana Chahate Hai Hindi(PB)	Tarun Engineer		150	
0000 A	13117	Kya Hai Network Marketing Jaaniyen (H) Hindi(PB)	Surya Sinha		150	
0000 A	13118	Kya Kahate Hain Puran Hindi(PB)	Mahesh Dutt Sharma		125	
0000 A	13119	Kya Kahte Hai Upnishad Hindi(PB)	Mahesh Dutt Sharma		125	
0000A	13120	Kya Kahte Hain Ved Hindi(PB)	Mahesh Dutt Sharma		75	
0000 A	13121	Kya Kare Jab Maa Bane (H) Hindi(PB)	Haidi Markof		295	
0000 A	13122	Kya Karein Doosre Varsh Mein PB Hindi	Haidi Markof		295	
0000 A	13123	Kya Karen Jab Maa Banna Chahen PB Hindi	Haidi Markof		295	
0000 A	13124	Kya Karen Pratham Varsh Mein PB Hindi	Haidi Markof		450	
0000 A	13125	Kya Khayen Jab Maa Bane Hindi (PB)	Haidi Markof		295	
0000 A	13126	Kya Khoya Kya Paya Hindi(PB)	Sudarshan Ji		60	
0000 A	13127	Kya Mera Kya Tera(Kabir Vani) (H) Hindi(PB)	Osho		95	
0000 A	13128	Kyon Mera Bachcha Ashisht Vyvhar Karta Hai Hindi	Sunil Vaid		100	
0000 A	13129	Kyon Mera Bachcha Khana Nahi Khata Hindi(PB)	Sunil Vaid		100	
0000 A	13130	Kyunki Main Murga Hoon Hindi(PB)	Rajkumar Sachan Hori		95	
0000 A	13131	Ladies Sangeet Hindi(PB)	Ganga Prasad Sharma		95	

0000 A	13132	Lafzon Ki Ghatayen Bekal Utsahi Ki Ghazalen Hindi(PB)	Bekal Utsahi		75	
0000 A	13133	Lajawab Birbal Hindi(PB)			35	
0000 A	13134	Lajili Shayri Sms Hindi(PB)	Kuldeep Saluja		15	
0000 A	13135	Lakshmi Tantra Sadhna Hindi(PB)	Radha Krishna Srimali		125	
0000 A	13136	Lakshmi Upasana Hindi(PB)	Radha Krishna Srimali		50	
0000 A	13137	Lakshya (Shani Chalisa) HB Hindi	Bhimsain		400	
0000 A	13138	Lakshya Jindagi Ka Hindi(PB)	Subhash Lakhotia		125	
0000 A	13139	Lal Bahadur Shastri Hindi(HB)	Sunil Jogi		300	
0000 A	13140	Lal Bahadur Shastri Hindi(PB)	Sunil Jogi		75	
0000 A	13141	Lal Kitab Hindi(PB)	Radha Krishna Srimali		150	
0000 A	13142	Lal Passina Hindi(PB)	Abhimanyu Unnaut		395	
0000 A	13143	Lala Lajpat Rai Hindi(PB)	Meena Agarwal		95	
0000 A	13144	Lali Mere Lal Ki (H) Hindi(PB)	Osho		60	
0000 A	13145	Lamhon Ka Ghar	Shashi Narayan Swadheen		300	
0000 A	13146	Lata Ke Hit Filmi Geet Hindi(PB)	Kumud Rastogi		100	
0000 A	13147	Latest Shayari Sms Hindi(PB)	Kuldeep Saluja		15	
0000 A	13148	Laxmi Pravesh Kaise Ho Hindi(PB)	Gopal Sharma		95	
0000A	13149	Learn Hindi In 30 Days Through Telugu Hindi(PB)			100	
0000 A	13150	Life Is After All Life Hindi(PB)	Aastik Bhatt		95	
0000 A	13151	Ling Puran Hindi(PB)	Vinay		95	
0000 A	13152	Lingashtkam Hindi(PB)	Kirit Bhai		150	
0000 A	13153	Lokgeet (Punjabi Marvari Hindu Vivah Va Vibinn Tyoharo Per Gaye Jane Wale Geet) Hindi(PB)	Leelavati Bansal		125	
0000 A	13154	Lokmanya Bal Gangadhar Tilak Hindi(PB)	Meena Agarwal		95	
0000 A	13155	Lord Hanumana PB Hindi	Simran Kaur		80	
0000 A	13156	Lord Krishna PB Hindi	Simran Kaur		80	
0000 A	13157	Lord Rama & Hanumna two in One HB Hindi	Simran Kaur		175	
0000 A	13158	Lord Rama PB Hindi	Simran Kaur		80	
0000 A	13159	Lord Shiva & Krishna two in One HB Hindi	Simran Kaur		175	
0000 A	13160	Lord Shiva PB Hindi	O P Jha		80	
0000 A	13161	Love In A Time Machine Hindi(PB)	Minoo		95	
0000 A	13162	Love Sex Aur Marriage Hindi(PB)	K Sohail Bette Davis		95	
0000 A	13163	Maa Durga Hindi(PB)			35	
0000 A	13164	Maa Durga Ke Rahasya PB Hindi	Kamal Kishor		125	
0000 A	13165	Maa Hi Hai Bhagwan Hindi(PB)	Sunil Jogi		95	
0000 A	13166	Madhumeh Hindi(PB)	Shalini Chakraborty		75	
0000 A	13167	Madhumeh Karan Aur Ilaz Hindi(PB)	Rajeev Sharma		95	
0000 A	13168	Madhumeh Rogiyon Ke Liye 201 Tips Hindi(PB)	Bimal Chhajer		150	
0000 A	13169	Magic Fun Book PB Hindi			25	
0000 A	13170	Magic No.2 Hindi(PB)	Ivor Uchial		25	
0000 A	13171	Maha Pragya Ke Amrit Vachan Hindi(PB)	Naresh Shandilya		95	
0000 A	13172	Mahabharat Ki Kathayein Hindi(PB)	Mahesh Dutt Sharma		110	
0000 A	13173	Mahabharata Hindi(PB)			75	
0000 A	13174	Mahakali Evam Tara Tanatrik Sadhanayen Hindi(PB)	Radha Krishna Srimali		95	
0000 A	13175	Mahal Jhopdi Hindi(PB)	Satyanarayan Vijay Vibhakar		95	
0000 A	13176	Mahalakshmi Pujan Aur Deepotsav Hindi(PB)	Lekhraj Dwivedi		50	
0000 A	13177	Mahamatya Chanakya Hindi(PB)	Ashwini Parashar		95	
0000A	13178	Mahan Chanakya Jivani Aur Samgra Sahitya Hindi(HB)	Rajeshwar Mishra		400	
0000 A	13179	Mahan Chanakya Jivani Aur Samgra Sahitya Hindi(PB)	Rajeshwar Mishra		195	

0000 A	13180	Mahanagar (Punjabi Ki Kahaniyan) Hindi(PB)	S Balwant		60	
0000 A	13181	Maharana Pratap Hindi(PB)	Bhawan Singh Rana		100	
0000 A	13182	Maharana Pratap Hindi(PB)			30	
0000 A	13183	Maharshi Aurobind Hindi(PB)	Renu Saran		30	
0000 A	13184	Mahatma Gandhi Hindi(PB)	Renu Saran		30	
0000 A	13185	Mahatma Gandhi Hindi(PB)	Renu Saran		40	
0000 A	13186	Mahatma Gandhi Jeevni Aur Jeevan Darshan Hindi(PB)	Prakash Nagaich		95	
0000 A	13187	Mahaveer Vani No 1 Hindi(HB)	Osho		500	
0000 A	13188	Mahaveer Vani No 2 Hindi(HB)	Osho		500	
0000 A	13189	Mahila Shashaktikaran HB Hindi	Inderaj Singh		500	
0000 A	13190	Mahilayen Bulandi Ki Aur Hindi(PB)	Seema Goswami		140	
0000 A	13191	Main Dharamikta Sikhata Hoon Dharm Nahin (H) Hindi(PB)	Osho		75	
0000 A	13192	Main Kehta Ankhan Dekhi (H) Hindi(PB)	Osho		60	
0000 A	13193	Main Kyon Aaya Tha Hindi (PB)	Shashi Kant Sadaiv		200	
0000 A	13194	Main Mirtyu Sikhata Hoon Hindi(PB)	Osho		250	
0000 A	13195	Main Upasthit Hoon Yahan Hindi(PB)	Balkrishan Garg		95	
0000 A	13196	Majedar Jokes Hindi(PB)	Mahesh Dutt Sharma		25	
0000 A	13197	Majedar Shayari Sms Hindi(PB)	Kuldeep Saluja		15	
0000 A	13198	Majhli Didi Hindi (HB)	Sharat Chandra Chattopadhyay		75	
0000 A	13199	Majhli Didi Hindi(PB)	Sharat Chandra Chattopadhyay		95	
0000 A	13200	Man Ka Manovigyan Hindi(PB)	B K Chandra Shekhar		125	
0000 A	13201	Man Ka Meet Hindi(PB)	Mariya Shaws		95	
0000 A	13202	Man Ke Jeete Jeet PB Hindi	Surya Sinha		110	
0000 A	13203	Man Ke Kitne Pass Hindi(PB)	Saroj Maloo		100	
0000 A	13204	Man Ki Baat Hindi(PB)			40	
0000 A	13205	Man Mast Hua Hindi(PB)	Alhad Bikaneri		95	
0000 A	13206	Man Se Azad Hindi(PB)	Anandmurti Guru Maa		30	
0000A	13207	Management & Corporate Guru Chanakya (H) Hindi(PB)	Himanshu Shekhar		125	
0000 A	13208	Management Guru Bhagwan Shri Krishan Hindi(PB)	O P Jha		125	
0000 A	13209	Management Guru Bhagwan Shri Ram Hindi(HB)	Sunil Jogi		300	
0000 A	13210	Management Guru Bhagwan Shri Ram Hindi(PB)	Sunil Jogi		110	
0000 A	13211	Management Guru Ganesha Hindi(HB)	B K Chandra Shekhar		300	
0000 A	13212	Management Guru Ganesha Hindi(PB)	B K Chandra Shekhar		150	
0000 A	13213	Management Guru Narendra Modi PB Hindi	Himanshu Shekhar		175	
0000 A	13214	Management Guru Prof Laloo Ki Rail Hindi(PB)	Sunil Jogi		95	
0000 A	13215	Management ke Mool Mantra PB Hindi	Shashi Kant Sadaiv		125	
0000 A	13216	Manavta Ka Ekmatr Mitra Shani Hindi(PB)	Ajay Bhambi		75	
0000 A	13217	Manchahi Santan Ladka Ya Ladki Kaise Paayen Hindi(PB)	Surendra Pal Sharma		95	
0000 A	13218	Mandir Wahi Banayenge Magar Kyon Hindi(PB)	Brajgopal Rai Chanchal		95	
0000 A	13219	Manglik Dosh Karan Va Nivaran Hindi (PB)	Bhojraj Dwivedi		110	
0000 A	13220	Manikya (Jyotish Aur Ratna) Hindi(PB)	Jagdish Sharma		50	
0000 A	13221	Manipur Ki Lok Kathayen Evam Prashnotari Hindi(PB)	Rachna Bhola Yamini		25	
0000 A	13222	Manmath Bhavnaon Ka Prabandhan PB Hindi	Pawan Sharma		150	

0000 A	13223	Mann Ki Ankhen Khol Hindi(PB)	Sudarshan Ji		150	
0000 A	13224	Manorama Hindi(PB)	Prem Chand		95	
0000 A	13225	Manoranjak Jatak Kathayen Hindi(PB)	Pratibha Kasturiya		35	
0000 A	13226	Mansarovar II Hindi(HB)	Prem Chand		300	
0000 A	13227	Mansarovar III Hindi(HB)	Prem Chand		300	
0000 A	13228	Mansarovar IV Hindi(HB)	Prem Chand		300	
0000 A	13229	Mansarovar Ke Kauwe Hindi(PB)	Surender Sharma		95	
0000 A	13230	Mansarovar V Hindi(HB)	Prem Chand		300	
0000 A	13231	Mansarovar VII Hindi(HB)	Prem Chand		300	
0000 A	13232	Mansarovar VIII Hindi(HB)	Prem Chand		300	
0000 A	13233	Mansarover VI Hindi(HB)	Prem Chand		300	
0000 A	13234	Manto Ke Behtareen Afsane Hindi(PB)	Saadat Ali Hasan Manto		150	
0000 A	13235	Mantra Shakti Se Kamna Siddhi Hindi(PB)	Radha Krishna Srimali		95	
0000A	13236	Mantra Shakti Se Rog Nivaran Hindi(PB)	Radha Krishna Srimali		95	
0000 A	13237	Manu Aur Shraddha PB Hindi	Nishantketu		300	
0000 A	13238	Manusmriti Hindi(PB)	Triloki Nath Chaturvedi		95	
0000 A	13239	Markandey Puran Hindi(PB)	Vinay		95	
0000 A	13240	Maryada Purshottam Sri Ram Hindi(PB)	Ashwini Parashar		60	
0000 A	13241	Massage Therapy Hindi(PB)	Rajeev Sharma		75	
0000 A	13242	Mast Shayari Sms Hindi(PB)	Kuldeep Saluja		15	
0000 A	13243	Matangi Aur Kamla Tantrik Sadhanayein Hindi(PB)	Radha Krishna Srimali		60	
0000 A	13244	Matsaya Puran Hindi(PB)	Vinay		95	
0000 A	13245	Matunga Jungle Ki 51 Acharaj Bhari Khaniyan Hindi(PB)	Prakash Manu		100	
0000 A	13246	Mausam Ate Jate Hain(Nida Fazli Ki Gajlein Aur Nazmein Hindi(PB)	Suresh Kumar		100	
0000 A	13247	Mausamon Ki Hawayen Hindi(PB)	Suresh Kumar		75	
0000 A	13248	Media Ka Badalta Charitra Hindi(HB)	Himanshu Shekhar		300	
0000 A	13249	Media Ka Badalta Charitra Hindi(PB)	Himanshu Shekhar		125	
0000 A	13250	Medicin Aur Meditesan Hindi(PB)	Osho		30	
0000 A	13251	Meera Jiwani v sahitya Hindi(PB)	Giriraj Sharan Agarwal		95	
0000 A	13252	Meera Ke Prabhu Girdhar Nagar(Meera Vani) Hindi(PB)	Osho		95	
0000 A	13253	Mehandi Se Shrinagar Hindi(PB)	Neera Verma		20	
0000 A	13254	Mehboob Ki Shayari Sms Hindi(PB)	Kuldeep Saluja		15	
0000 A	13255	Mehfil A Shayari Sms Hindi(PB)	Kuldeep Saluja		15	
0000 A	13256	Memory Mind & Body Hindi (PB)	Biswaroop Roy Choudhray		175	
0000 A	13257	Memory Techniquesvigyan Ke Vidyarthiyon Ke Liye Hindi(PB)	Neerja Roy Choudhary		95	
0000 A	13258	Memory Unlimited Hindi(PB)	Biswaroop Roy Choudhray		150	
0000 A	13259	Mera Haryana Hindi(PB)	Manju Sharma		60	
0000 A	13260	Mera Jiwan Aone Hindi(PB)	Kaka Hathrasi		125	
0000 A	13261	Mera Mujh Mein Kuchh Nahin PB Hindi	Osho		250	
0000 A	13262	Mercidiese Ghode Banam 800 CC Ghode PB Hindi	Alok Puranik		125	
0000 A	13263	Mere Ikyavan Vyangya Hindi(PB)	Giriraj Sharan Agarwal		95	
0000 A	13264	Mere Jeevan Ke Anubhav PB Hindi	Girish Pankaj		125	
0000A	13265	Mere Priya Aatman Hindi(PB)	P C Bagmar		125	
0000 A	13266	Mere Sapno Ka Bharat Hindi(PB)	M K Gandhi		150	
0000 A	13267	Mere To Girdhar Gopal(Meera Vani) Hindi(PB)	Osho		95	
0000 A	13268	Meri 51 Vyangya Rachnayeen Jaimni Hariyanvi PB Hindi	JAIMNI HARIYANVI		150	
0000 A	13269	Meri 51 Vyangya Rachnayein (Jaimni Hariyanvi) Hindi (HB)	Jaimni Hariyanvi		450	

0000 A	13270	Meri 51Vyang Rachnayen (Girish Pankaj) Hindi(PB)	Girish Pankaj		75	
0000 A	13271	Meri Aankhon Mein Mohbbat Ke Manjar Hai PB Hindi	Dinesh Gupta		100	
0000 A	13272	Meri Partinidhi Vyang Rachnayen PB Hindi	Suresh Neerav		150	
0000 A	13273	Meri Pukar Sun Lena HB Hindi	Sudarshan Ji		400	
0000 A	13274	Meri Rajnishpuram Yatra Hindi(PB)	Ageh Bharti		50	
0000 A	13275	Meri Vyangya Kavitayen Hindi(PB)	Udbhrant		75	
0000 A	13276	Mickey Mouse Aur Mushkilo Se Bhara Patra Issue XIX Hindi(PB)			25	
0000 A	13277	Mickey Mouse Aur Sahasi Captan Issue XVIII Hindi(PB)			25	
0000 A	13278	Mickey Mouse Issue II Hindi(PB)			25	
0000 A	13279	Mickey Mouse Issue IV Hindi(PB)			25	
0000 A	13280	Mickey Mouse Issue V Hindi(PB)			25	
0000 A	13281	Mickey Mouse Issue VI Hindi(PB)			25	
0000 A	13282	Mickey Mouse Issue VIII Hindi(PB)			25	
0000 A	13283	Mickey Mouse Issue XV Hindi(PB)			25	
0000 A	13284	Mickey Mouse Issue XXII Hindi(PB)			25	
0000 A	13285	Midnight Joks Hindi(PB)	Kuldeep saluja		40	
0000 A	13286	Midnight Shyari Sms Hindi(PB)	Kuldeep Saluja		15	
0000 A	13287	Milta Rahoonga Khwab Main (Shahryar Ki Gazlien Aur Nazmein) Hindi(HB)	Suresh Kumar		300	
0000 A	13288	Milta Rahoonga Khwab Main (Shahryar Ki Gazlien Aur Nazmein) Hindi(PB)	Suresh Kumar		95	
0000 A	13289	Mind Positive Life Positive Hindi (PB)	Joginder Singh		125	
0000 A	13290	Minua Aur Dampua Ke Karname Hindi(PB)	V Raghunathan		40	
0000 A	13291	Minua Aur Dampua Ke Kartoot Hindi(PB)	V Raghunathan		40	
0000 A	13292	Mir Aur Dard Ki Shayare Hindi(PB)	Amar Dehlavi		50	
0000 A	13293	Mithi Mirchiyan Hindi(PB)	Madhup Pandey		100	
0000A	13294	Mitti Ke Diye Hindi(PB)	Osho		60	
0000 A	13295	Mobile Ke Jadugar Hindi(PB)	Akhil Chandra		75	
0000 A	13296	Modern Panchtantra Hindi(PB)	Manjit Singh		60	
0000 A	13297	Mohra Tatha Anaya Kahaniyan Hindi(PB)	Aalok Kumar Satpute		75	
0000 A	13298	Moon Par Honeymoon Hindi(PB)	Jemini Hariyanvi		125	
0000 A	13299	Moonga (Jyotish Aur Ratna) Hindi(PB)	Jagdish Sharma		50	
0000 A	13300	Motapa (Obesity) PB Hindi	Bimal Chhajer		50	
0000 A	13301	Motape Se Mukti Ke Liye 201 Tips Hindi(HB)	Bimal Chhajer		300	
0000 A	13302	Motape Se Mukti Ke Liye 201 Tips Hindi(PB)	Bimal Chhajer		150	
0000 A	13303	Mother Teresa Hindi(PB)	Rachna Bhola Yamini		30	
0000 A	13304	Mother Teresa Hindi(PB)	Renu Saran		40	
0000 A	13305	Moti (Jyotish Aur Ratna) Hindi(PB)	Jagdish Sharma		50	
0000 A	13306	Moun Sangeet Hindi(PB)	Osho		95	
0000 A	13307	MP Lekhpal PB Hindi	Vikas Doon		80	
0000 A	13308	MP Platoon Commander PB HINDI	Vikas Doon		200	
0000A	13309	MP Samanya Gyan PB Hindi	Arvind Mohan Dwivedi		85	
0000 A	13310	Mrinalini Hindi(PB)	Bankim Chandra Chattopadhyay		60	
0000 A	13311	Mrityu Ek Kalpna Hai Hindi(PB)	Sadguru		50	
0000 A	13312	Mudde Aur Darshti Kone Hindi(HB)	Kiran Bedi		600	
0000 A	13313	Mudde Aur Darshti Kone Hindi(PB)	Kiran Bedi		250	
0000 A	13314	Mudra Vigyan Hindi(PB)	Rajni Kant Upadhayay		75	
0000 A	13315	Mughlai Vayanjan Hindi(PB)	Neera Verma		35	
0000 A	13316	Muh Daat Naak Kaan Va Gala Ke Rog Aur Unke Upchar Hindi(PB)	Rajeev Sharma		60	

0000 A	13317	Mukesh Ke Hit Filmi Geet Hindi(PB)	Kumud Rastogi		100	
0000 A	13318	Mukhakriti Vigyan Hindi(PB)	Nitendra Sharma		95	
0000 A	13319	Mulayam Singh Yadav Chintan Aur Vichar Hindi(PB)	Ashok Kumar Sharma		300	
0000 A	13320	Mullah Nasruddin Hindi (HB)	Giriraj Sharan Agarwal		125	
0000 A	13321	Mullah Nasruddin Hindi(PB)	Giriraj Sharan Agarwal		125	
0000 A	13322	Mumbai Mohabbat Aur Tanhai Hindi(PB)	Rajeev paul		150	
0000 A	13323	Muskan Ek Pavitra Uphar Hindi(PB)	Sri Sri Ravishankar Ji		10	
0000 A	13324	Muskurati Shayari Sms Hindi(PB)	Kuldeep Saluja		15	
0000 A	13325	Mutual Funds Ladder To Wealth Creation Hindi(PB)	Vivek Negi		100	
0000 A	13326	My Unknown Future PB Hindi	Shivam Tiwari		125	
0000 A	13327	Na Kahna Seekhen (H) Hindi(PB)	Renu Saran		125	
0000 A	13328	Naam Badliye Bhagya Badliye Hindi(PB)	Bhojraj Dwivedi		125	
0000 A	13329	Naam Sumir Man Bavre PB Hindi New	Osho		200	
0000 A	13330	Naari Jo Hai So Kyon? Hindi(PB)	Swati Lodha		150	
0000 A	13331	Nadi Granth Bhavisya Hindi(PB)	Shashi Kant Oak		175	
0000 A	13332	Nahi Ram Bin Thaaon HB Hindi	Osho		350	
0000 A	13333	Nai Kranti Ki Rooprekha Hindi(PB)	Osho		60	
0000 A	13334	Nakshatra Faldeepika Hindi(PB)	Mohan Bhai D Patel		60	
0000 A	13335	Nana Nani Ki Kahaniyan Hindi(PB)	Geetika Goyal		95	
0000 A	13336	Nange Paaon PB Hindi	Brijesh Pathak		125	
0000 A	13337	Nanhe Pankh Ki Unchi Udan Hindi(PB)	Ajay Janamjai		80	
0000A	13338	Narad Puran Hindi(PB)	Vinay		60	
0000 A	13339	Narender Modi Ka Namo Mantra PB Hindi	Kumar Pankaj		125	
0000 A	13340	Narendra Modi Hindi(PB)			30	
0000 A	13341	Natkhat Sms Hindi(PB)	Kuldeep Saluja		15	
0000 A	13342	Naughty Shyari Sms Hindi(PB)	Kuldeep Saluja		15	
0000 A	13343	Naveentam Ghatna Chakra PB Hindi			200	
0000 A	13344	Naveentam Hindi Path Padarshika PB Hindi	Kessen Budhoo		200	
0000 A	13345	Navratri Hindi(PB)	Kamal Radha Krishan Srimali		60	
0000 A	13346	Naya Aayam Hindi(HB)	Abhimanyu Unnaut		300	
0000 A	13347	Naya Aayam Hindi(PB)	Abhimanyu Unnaut		150	
0000 A	13348	Naye Bharat Ke Nirmata Lal Krishan Advani Hindi(HB)	Mahesh Dutt Sharma		200	
0000 A	13349	Naye Bharat Ke Nirmata Lal Krishan Advani Hindi(PB)	Mahesh Dutt Sharma		75	
0000 A	13350	Naye Samaj Ki Khoj Hindi(PB)	Osho		50	
0000 A	13351	Neel Gagan Ki Aur Hindi(PB)	Hariraj Singh Noor		95	
0000 A	13352	Neelam (Jyotish Aur Ratna) Hindi(PB)	Jagdish Sharma		50	
0000 A	13353	Neelkanth Hindi(PB)	Gulshan Nanda		100	
0000 A	13354	Nelsan Mandela Hindi(HB)	Satya Prakash Bansal		40	
0000 A	13355	Nelsan Mandela Jaisa Netrityu Hindi(PB)	Arvind Kumar		100	
0000 A	13356	Netritva Aur Prashasan Jaisa Maine Dekha (H) Hindi(PB)	Kiran Bedi		125	
0000 A	13357	Network Marketing Dosti Aur Vyapar Hindi(PB)	A S Faiz		95	
0000 A	13358	Network Marketing Kitna Sach Kitna Jhooth (H) Hindi(PB)	Ujjawal Patni		150	
0000 A	13359	Network marketing Sawal Aapke jawab Surya Sinha Ke PB Hindi	Surya Sinha		150	
0000 A	13360	Nirmal Anand Hindi(PB)	Rajendra Somani		250	
0000 A	13361	Nirmala Hindi(PB)	Prem Chand		95	
0000 A	13362	Nobel Prize Winner-Malala PB Hindi	Kritika Bhardwaj, Ashok K. Sharma		125	

0000 A	13363	Non Vegetarian Cook Book Hindi(PB)	Tehlina Kaul		75	
0000 A	13364	Nyay & Other Stories PB Hiindi	Prem Chand		125	
0000 A	13365	Om Mani Pad Human Hindi(PB)	Osho		50	
0000 A	13366	One Life Is Not Enough (HB) Hindi	K Natwar Singh		450	
0000A	13367	One Life Is Not Enough PB Hindi	K Natwar Singh		295	
0000 A	13368	One Minute Memory Mind Manager Hindi(HB)	Biswaroop Roy Choudhray		200	
0000 A	13369	One Minute Memory Mind Manager Hindi(PB)	Biswaroop Roy Choudhray		75	
0000 A	13370	Operation Pradhanmantri PB Hindi	Ujjawal Patni		100	
0000 A	13371	Osama Ka Annt Hindi(PB)	Raj Kumar Singh		95	
0000 A	13372	Osho Dhyan Aur Utsav Ke Rishi Hindi(PB)	Osho		200	
0000 A	13373	Osho Dhyan Yog Hindi(PB)	Osho		175	
0000 A	13374	Osho Diary Ke Darpan Mein Hindi(PB)	Arvind Kumar		150	
0000 A	13375	Osho Ek Mahprarambh Hindi(PB)	Ageh Bharti		60	
0000 A	13376	Osho Gatha Hindi(PB)	Ageh Bharti		40	
0000 A	13377	Osho Hi Osho Hindi(PB)	Gyan Bhed		150	
0000 A	13378	Osho Ke Aas Paas Hindi(PB)	Ageh Bharti		100	
0000 A	13379	Osho Ke Sang Kuch Anmol Shan Hindi(PB)	Ageh Bharti		35	
0000 A	13380	Osho Ki Madhushala Me Bachhan Hindi(PB)	Ageh Bharti		40	
0000 A	13381	Osho Maikhane Ke Ye Deewane Rind Hindi(PB)	Gyan Bhed		150	
0000 A	13382	Osho Prem Ghata Barsi Hindi(PB)	Raja Bharti		50	
0000 A	13383	Osho Ras Barse Hindi(PB)	Gyan Bhed		150	
0000 A	13384	Osho Rash Bhijyo Hindi(PB)	Ageh Bharti		95	
0000 A	13385	Osho Shishya Ki Daastan Kavita Ki Juban Hindi(PB)	Ageh Bharti		150	
0000 A	13386	Paanch Absurd Upanyas Hindi(PB)	Narender Kohli		50	
0000 A	13387	Padam Puran Hindi(PB)	Vinay		60	
0000 A	13388	Palmistry Ke Goodh Rahasya Hindi(PB)	Dayanand Verma		150	
0000 A	13389	Panch Parmeshwar PB Hindi	Prem Chand		50	
0000 A	13390	Panchtantra Hindi (HB)	Rachna Bhola Yamini		175	
0000 A	13391	Panchtantra Ke Anokhe Natak HB Hindi	Prakash Manu		450	
0000 A	13392	Panchtantra Ke Anokhe Natak PB Hindi	Prakash Manu		150	
0000 A	13393	Panchtantra Ki Kahaniyan Hindi(PB)	Ashok Kaushik		95	
0000 A	13394	Panchtantra Ki Manoranjak Kahaniyan Vol 3 Hindi(PB)	Pratibha Kasturia		35	
0000 A	13395	Panchtantra Ki Prarak Kahaniyan Hindi(PB)	Giriraj Sharan Agarwal		30	
0000A	13396	Panchtantra Ki Prerak Kahaniyan Vol 4 Hindi(PB)	Pratibha Kasturia		35	
0000 A	13397	Panchtantra Ki Rochak Kahaniya Vol 2 Hindi(PB)	Pratibha Kasturia		35	
0000 A	13398	Panchtantra Ki Shikshaprad Kahaniya Hindi(PB)	Giriraj Sharan Agarwal		35	
0000 A	13399	Panchtantra Ki Shikshaprad Kahaniyan Vol 1 Hindi(PB)	Pratibha Kasturia		35	
0000 A	13400	Pankaj Udhas Ki Ghazlen Hindi(PB)	Mahesh Dutt Sharma		40	
0000 A	13401	Panna (Jyotish Aur Ratna) Hindi(PB)	Jagdish Sharma		50	
0000 A	13402	Panwoae Tale Bhavishya Hindi(PB)	Bhojraj Dwivedi		150	
0000 A	13403	Parampara Hindi(PB)	Narender Kumar Sinha		150	
0000 A	13404	Parikrama Uttrakhand Hindi(PB)	Giriraj Shah		150	
0000 A	13405	Parinita Hindi(PB)	Sharat Chandra Chattopadhyay		95	
0000 A	13406	Pariyon Ki 51 Manmohak Kahaniyan Hindi(HB)	Prakash Manu		300	

0000 A	13407	Pariyon Ki 51 Manmohak Kahaniyan Hindi(PB)	Prakash Manu		150	
0000 A	13408	Parmanu Gatha Hindi(PB)	Sunil Jogi		95	
0000 A	13409	Party Time Shayari Sms Hindi(PB)	Kudeep Saluja		15	
0000 A	13410	Paryavaran aur aasan mahavinash Hindi (HB)	Guruji Ved Prakash		300	
0000 A	13411	Paryavaran Ki Anoothi Kahaniyan PB Hindi	Prakash Manu		175	
0000 A	13412	Paryawaran Dasha Aur Disha Hindi(PB)	Giriraj Sharan Agarwal		150	
0000 A	13413	Paschim Ke Teen Rang Hindi(PB)	Dayanand Verma		30	
0000 A	13414	Patanjalya Yog Darshan Hindi(PB)	Kirit Bhai		50	
0000 A	13415	Path Ke Davedar Hindi(PB)	Sharat Chandra Chattopadhyay		125	
0000 A	13416	Patheya Hindi(PB)	Osho		95	
0000 A	13417	Pati Patni Aur Sukhi Pariwar Hindi(PB)	A Madhvan		95	
0000 A	13418	Pati Patni Ke Jokes Hindi(PB)	Mahesh Dutt Sharma		30	
0000 A	13419	Patjhad ke Hare Hare Patte Hindi(PB)	Sudarshan Ji		95	
0000 A	13420	Patnjali Yog Sutra 1 (H HB) Hindi(HB)	Osho		450	
0000 A	13421	Patnjali Yog Sutra 1 (H) Hindi	Osho		400	
0000 A	13422	Patnjali Yog Sutra 2 (H HB) Hindi(HB)	Osho		450	
0000 A	13423	Patnjali Yog Sutra 2 (H) Hindi	Osho		400	
0000 A	13424	Patnjali Yog Sutra 3 (H HB) Hindi(HB)	Osho		450	
0000A	13425	Patnjali Yog Sutra 3 (H) Hindi(PB)	Osho		400	
0000 A	13426	Patnjali Yog Sutra 4 (H HB) Hindi(HB)	Osho		450	
0000 A	13427	Patnjali Yog Sutra 4 (H) Hindi(PB)	Osho		400	
0000 A	13428	Patnjali Yog Sutra 5 (H HB) Hindi(HB)	Osho		500	
0000 A	13429	Patnjali Yog Sutra 5 (H) Hindi(PB)	Osho		400	
0000 A	13430	Patra Aur Patrakarita Hindi(PB)	Rachna Bhola Yamini		95	
0000 A	13431	Patra Hi Nahi Bachchan Mitra Hai Hindi(PB)	Udbhrant		150	
0000 A	13432	Pavitra Hindu Dharmagranth Hindi(PB)	Satyajit		100	
0000 A	13433	Pehla Lakchay Tay Karain Hindi(PB)	Joginder Singh		125	
0000 A	13434	Pet Evam Pathari Ke Rog Hindi(PB)	Hari Om Gupta		50	
0000 A	13435	Pet Ke Rog Kaaran Aur Upchaar Hindi(PB)	Rajeev Sharma		125	
0000 A	13436	Phool Khile Chaman Chaman Hindi(PB)	Chaman Lal Chaman		100	
0000 A	13437	Pighalti Shila Hindi(HB)	Veena Vij Udit		200	
0000 A	13438	Pinki Aur Muchaad Singh PB Hindi	Pran		50	
0000 A	13439	Pinki Digest-1 PB Hindi	Pran		100	
0000 A	13440	Pinki Digest-2 PB Hindi	Pran		100	
0000 A	13441	Pinki Fun Day PB Hindi	Pran		50	
0000 A	13442	Pinki Laptop PB Hindi	Pran		35	
0000 A	13443	Pinki World Tour PB Hindi	Pran		35	
0000 A	13444	Pinki's Height PB Hindi	Pran		35	
0000 A	13445	Play And Win Kaun Banega Crorepati Hindi(PB)-2			150	
0000 A	13446	Poonjigat Labh Par Kar Kaise Bachaen (H) Hindi(PB)	Subhash Lakhotia		150	
0000 A	13447	Positive Thinking Hi Safalta Ka Sutra Hindi(HB)	Joginder Singh		300	
0000 A	13448	Positive Thinking Hi Safalta Ka Sutra Hindi(PB)	Joginder Singh		175	
0000 A	13449	Postal Department (Postal Assistance) Guide PB Hindi	Kusum Lata, Ajay Riyal		235	
0000 A	13450	Power Learning Hindi Magazine PB			30	
0000 A	13451	Power Of Positive Thinking Hindi (PB)	Tarun Engineer		175	

0000 A	13452	Power Thinking Hindi(PB)	Ujjawal Patni		195	
0000 A	13453	Prabhavshali Logon ki 12 aadten aur unki safalta ka Rahasya Hindi(PB)	Tarun Engineer		250	
0000A	13454	Prabhu Ki Paghdandiya Hindi(PB)	Osho		95	
0000 A	13455	Prabhu Mandir Yah Deh Ri Hindi(PB)	Osho		75	
0000 A	13456	Prachya Jyotish Ke Rahasya Tatha Durlabh Shubhashubh Yog Hindi(PB)	Susshant Raj		200	
0000 A	13457	Pradushan Mukt Paryavaran Hindi(PB)	Rachna Bhola Yamini		60	
0000 A	13458	Pragyan Purush Pandit Suresh Neerav HB Hindi	Suresh Neerav		450	
0000 A	13459	Pragyavenu Hindi(PB)	Udbhrant		95	
0000 A	13460	Prahari O Desh Ke Hindi(PB)	Udbhrant		75	
0000 A	13461	Prakhar Rashtra Vadi Raj Neta Atal Bihari Vajpai Hindi(HB)	Mahesh Sharma		400	
0000 A	13462	Prakhar Rashtra Vadi Raj Neta Atal Bihari Vajpai Hindi(PB)	Mahesh Sharma		150	
0000 A	13463	Prakriti Dwara Swasthya Gehoon Ki Jware Aur Anayay Anaj Hindi(PB)	Rajeev Sharma		50	
0000 A	13464	Prakriti Dwara Swasthya Surya Mitti Jal Hindi(PB)	Rajeev Sharma		30	
0000 A	13465	Prakritik Chikitsa Hindi(PB)	Satish Goel		50	
0000 A	13466	Pranab Mukherjee PB Hindi	Pranabh Mukherjee		295	
0000 A	13467	Pranayam Kundaline Aur Hatyoga Hindi(PB)	Bhagwan Dev		95	
0000 A	13468	Prashan Aapke Uttar Sai Ke Hindi(PB)	Sushil Bharti		50	
0000 A	13469	Prashan Jyotish Hindi(PB)	Radha Krishna Srimali		95	
0000 A	13470	Pratangira Sampooran Prayog Hindi(PB)	Ramesh Dwivedi		95	
0000 A	13471	Pratigaya Hindi(HB)	Prem Chand		200	
0000 A	13472	Pratigaya Hindi(PB)	Prem Chand		95	
0000 A	13473	Pravesh Pariksha Mein Safal Kaise Hon Hindi(PB)	Sunil Vaid		50	
0000 A	13474	Prayas PB Hindi	Hemant Rana		60	
0000 A	13475	Preksha Dhyan Se Hriday Rog Ka Upchar PB Hindi	Bimal Chhajer		195	
0000 A	13476	Prem Aur Vivah Hindi(PB)	Osho		30	
0000 A	13477	Prem Chand Ki Shresht Bhawanapurn Kahaniya PB Hindi	Prem Chand		95	
0000 A	13478	Prem Ka Arth Hindi Hindi(PB)	Osho		30	
0000 A	13479	Prem Patra Hindi(PB)	Bhawan Singh Rana		40	
0000 A	13480	Prem Prasang Hindi(PB)	Upender Kumar		40	
0000 A	13481	Premaashram (H) Hindi(PB)	Prem Chand		195	
0000 A	13482	Premchand Karam Bhoomi (Abhyas Pustika) Hindi(PB)	Giriraj Sharan Agarwal		50	
0000A	13483	Premchand Karam Bhoomi Sanchchipt Hindi(PB)	Prem Chand		85	
0000 A	13484	Premchand Ki Amar Kahaniyan (Abhyas Pustika) Hindi(PB)	Prem Chand		60	
0000 A	13485	Premchand Ki Amar Kahaniyan Hindi(PB)	Giriraj Sharan Agarwal		75	
0000 A	13486	Premchand Ki Kahanion Per Aadharit Natak Hindi (PB)	Giriraj Sharan Agarwal		95	
0000 A	13487	Premchand Ki Kahanion Per Aadharit Natak Hindi(HB)	Giriraj Sharan Agarwal		200	
0000 A	13488	Premchand Ki Sarvashreshta Kahaniyan Hindi(PB)	Prem Chand		95	
0000 A	13489	Premchand Ki Sugam Kahaniya Hindi(PB)	Giriraj Sharan Agarwal		85	
0000 A	13490	Premchand Ki Sugam Kahaniyan (Abhyas Pustika) Hindi(PB)	Giriraj Sharan Agarwal		75	
0000 A	13491	Premchand Vardaan (Abhyas Pustika) Hindi(PB)	Giriraj Sharan Agarwal		60	
0000 A	13492	Premrang Ras Odh Chadria Hindi(PB)	Osho		200	

0000 A	13493	Prerak Jatak Kathayen Hindi(PB)	Pratibha Kasturiya		35	
0000 A	13494	Preranamurti Narendra Modi PB Hindi			35	
0000 A	13495	Property Kaise Khariden Aur Bechen Hindi(PB)	R N Lakhotia		125	
0000 A	13496	Pukhraj (Jyotish Aur Ratna) Hindi(PB)	Jagdish Sharma		50	
0000 A	13497	Punjabi Vyanjan Hindi(PB)	Neera Verma		50	
0000 A	13498	Purano Ki Kathayen Hindi(PB)	Mahesh Dutt Sharma		110	
0000 A	13499	Purush Aur Sex Hindi(PB)	Hari Om Gupta		50	
0000 A	13500	Pyas Ko Pehchano Hindi(PB)	Maharaji		60	
0000 A	13501	Pyasa Sach Hindi(PB)	Vandna Girdhar		100	
0000 A	13502	Pyramid Evam Mandir Vaastu Hindi(PB)	Bhojraj Dwivedi		150	
0000 A	13503	Pyramid Shakti Evam Vaastu Hindi(PB)	Gopal Sharma		110	
0000 A	13504	Pyramid Vaastu Sirf Dhokha Hindi(PB)	Kuldeep Saluja		150	
0000 A	13505	Qutab Minar Hindu Vaidhshala Hindi(PB)	Bhojraj Dwivedi		50	
0000 A	13506	Raag Asawari Hindi(PB)	Nimai Bhattacharya		60	
0000 A	13507	Raah Ke Phool (Hindi PB)	Sadguru		150	
0000 A	13508	Rabindranath Tagore Hindi(PB)	Simran		30	
0000 A	13509	Rabindranath Tagore Hindi(PB)	Renu Saran		40	
0000 A	13510	Radio Jockeying Hindi(PB)	Rakesh Pragya		75	
0000 A	13511	Rafi Ke Hit Filmi Geet Hindi(PB)	Kumud Rastogi		100	
0000A	13512	Raghuvansh Hindi(PB)	Mahakavi Kalidas		95	
0000 A	13513	Rahasyamayi Himvadiyan Hindi(PB)	Chakardhar Semval		150	
0000 A	13514	Rahim Ke Dohe	Rajender Pandey		100	
0000 A	13515	Rahim Ke Dohe HB Hindi	Swami Ananad		300	
0000 A	13516	Rahu Ketu Avam Grahan Vichar Hindi(PB)	Bhojraj Dwivedi		110	
0000 A	13517	Raidas Vani Jeevni Va Sahitya Hindi(PB)	Rachna Bhola Yamini		95	
0000 A	13518	Railway Recruitment Cell Group d Exam (Guide) PB Hindi	Arvind Mohan Dwivedi		160	
0000 A	13519	Railway Recruitment Cell Group-D Exam (Practice Test Papers) PB Hindi			110	
0000 A	13520	Raj Bhasa Vyavahar Hindi(PB)	Kusum Vir		95	
0000 A	13521	Raj Singh Aur Rajmohan Ki Estree Hindi(PB)	Bankim Chandra Chattopadhyay		95	
0000 A	13522	Rajasthan Patvari PB Hindi	Vikas Doon		80	
0000 A	13523	Rajasthan Police Constable Practice Test Paper PB Hindi			65	
0000 A	13524	Rajasthan Samanaya Gyan PB Hindi	Arvind Mohan Dwivedi		85	
0000 A	13525	RAJASTHAN Teacher Eligibility Test (Baal Vikas) PB Hindi	Vikas Doon		115	
0000 A	13526	RAJASTHAN Teacher Eligibility Test PB Hindi	Vikas Doon		115	
0000 A	13527	Raji Hai Teri Raja Mein Hindi(PB)	Anandmurti Guru Maa		30	
0000 A	13528	Rajim Kumbha PB Hindi			2000	
0000 A	13529	Rajiv Gandhi Hindi(PB)	Renu Saran		30	
0000 A	13530	Rajiv Gandhi Ke Sapno Ka Bharat Hindi(HB)	Jagdish Piyush		400	
0000 A	13531	Rajiv Gandhi Ke Sapno Ka Bharat Hindi(PB)	Jagdish Piyush		150	
0000 A	13532	Rajiv Ratan Gandhi Hindi(PB)	Meena Agarwal		95	
0000 A	13533	Rajni Hindi(PB)	Bankim Chandra Chattopadhyay		95	
0000 A	13534	Ram Ke Path Par Hindi(PB)	Lallan Prashad Vyas		95	
0000 A	13535	Ram Krishna Paramhansa Hindi(PB)	Ashok Kaushik		95	
0000 A	13536	Ram Naam Nij Aushadhi(Ddauvani) Hindi(PB)	Osho		95	

0000 A	13537	Ram Naam Ras Peeje(Meera Vani) Hindi(PB)	Osho		95	
0000 A	13538	Ram Prasad Bismil Hindi(HB)	Bhawan Singh Rana		200	
0000 A	13539	Ram Se Kharo Hai Kaun Hindi(PB)	Pradeep Sharma Duttatrya		75	
0000 A	13540	Ramal Vigyan Hindi(PB)	Radha Krishna Srimali		95	
0000A	13541	Ramsetu Hindi(PB)	Subramaniam Swami		95	
0000 A	13542	Rang bhoomi Hindi(HB)	Munshi Premchand		400	
0000 A	13543	Rang Bhoomi Hindi(PB)	Prem Chand		250	
0000 A	13544	Rang Jama Lo Hindi(PB)	Ashok Chakradhar		75	
0000 A	13545	Rang Rangeele Punjabi Geet Hindi(PB)			100	
0000 A	13546	Rangeeli Shayari Sms Hindi(PB)	Kuldeep Saluja		15	
0000 A	13547	Rani Laxmi Bai Hindi(PB)			30	
0000 A	13548	Rasbhari Shayari Sms Hindi(PB)	Kuldeep Saluja		15	
0000 A	13549	Rasdhar Hindi(PB)	Anandmurti Guru Maa		50	
0000 A	13550	Rashtra Gaurav Ratan Tata (H) Hindi(PB)	Prateeksha M Tiwari		95	
0000 A	13551	Rashtra Sadhna Ke Swar Hindi(PB)			25	
0000 A	13552	Rashtriya Filmi Geet Hindi(PB)			40	
0000 A	13553	Rasik Shayari Sms Hindi(PB)	Kuldeep Saluja		15	
0000 A	13554	Ratishringara Sannyassaar Hindi(PB)	Nishantketu		95	
0000 A	13555	Ratno Ka Rahasyamay Sansar Hindi(PB)	Bhojraj Dwivedi		200	
0000 A	13556	Ravindarnath Ki Kahaniyan I Hindi(PB)	Ravindranath Tagore		95	
0000 A	13557	Rayeshkhana Hindi(PB)	Ahmed Nadeem		95	
0000 A	13558	RBI Assistant Bharti Pariksha (12 Practice Test Paper) Hindi (PB)			140	
0000 A	13559	Recruitment Of Assistants In New India Assurance Company Ltd. (Practice Test Paper) PB Hindi			175	
0000 A	13560	Red Saree HB Hindi	Javier Maro		595	
0000 A	13561	Red Saree PB Hindi	JAVIER MORO		350	
0000 A	13562	Reiki (Swasth Sukhi Avam Sampooran Jeewan Ke Liye) Hindi(PB)	Rajni Kant Upadhayay		95	
0000 A	13563	Rekhaon Ka Rahasyamaya Sansar Hindi(PB)	Bhojraj Dwivedi		295	
0000 A	13564	Remedial Vaastushastra Hindi(PB)	Bhojraj Dwivedi		150	
0000 A	13565	Reporting Samachar Kya Hai Hindi(PB)	Kumar Pankaj		95	
0000 A	13566	Ret Ki Rabab Hindi (PB)	Antar Jagdish		125	
0000 A	13567	Return Of Hanuman Hindi(PB)			35	
0000 A	13568	Rigveda (H) Hindi(PB)	Raj Bahadur Pandey		95	
0000 A	13569	Rochak Jatak Kathayen Hindi(PB)	Pratibha Kasturiya		35	
0000A	13570	Roshani Ke Gharonde Hindi(PB)	Bashir Badr		95	
0000 A	13571	Roshini Bankar Jiyo Hindi(PB)	Giriraj Sharan Agarwal		60	
0000 A	13572	RPF & RPSF Constable Guide PB Hindi			190	
0000 A	13573	RPF & RPSF Constable PTP PB Hindi			85	
0000 A	13574	RPSC-Rajasthan Lok Sewa Aayog PB Hindi	Vikas Doon		100	
0000 A	13575	RRB Exam 2015 PB Hindi			80	
0000 A	13576	RRB-2015 Staff Nurse (Upcharika) 20 PTP Hindi (PB)	Lali Kumari		100	
0000 A	13577	RRB-2015 Staff Nurse (Upcharika) Guide PB Hindi	Lali Kumari		250	
0000 A	13578	Rudraksh upasana Hindi(PB)	Ganesh singh		50	
0000 A	13579	Rupantran Jeewan ka PB Hindi	Saroj Maloo		125	
0000 A	13580	Saadh Satnami Mat Hindi(PB)	Vijai Phool Sadh Satnami		75	
0000 A	13581	Saajan Ki Mehandi Hindi(PB)	Neera Verma		20	
0000 A	13582	Sab Milti Rehna Hindi(HB)	Ashok Chakradhar		200	
0000 A	13583	Sab Milti Rehna Hindi(PB)	Ashok Chakradhar		95	

0000 A	13584	Sab Sambhav Hai Hindi(PB)	Shashi Kant Sadaiv		95	
0000 A	13585	Sabad Bhaya Ujiyala (Gorakh Wani) Hindi(PB)	Osho		60	
0000 A	13586	Sachche Sadhak Ke Liye 4 Hindi(PB)	Sri Sri Ravishankar Ji		69	
0000 A	13587	Sachche Sadhak Ke Liye 6 Hindi(PB)	Sri Sri Ravishankar Ji		69	
0000 A	13588	Sachche Sadhak Ke Liye 7 Hindi(PB)	Sri Sri Ravishankar Ji		69	
0000 A	13589	Sadhna Ke Ayam Hindi(PB)	Osho		60	
0000 A	13590	Sadhna Path Mag.	Manish Verma		30	
0000 A	13591	Safal Jeevan Ke 201 Gyan Sutra Hindi(PB)	Sunil Jogi		95	
0000 A	13592	Safal Jivan Ke Rahasya Hindi(PB)	Rakesh Gupta		95	
0000 A	13593	Safal Jivan Main Ankon Ka Mahatwa Hindi(PB)	Gopal Sharma		75	
0000 A	13594	Safal Kaise Banein Hindi(PB)	Anant Pai		40	
0000 A	13595	Safal Prabandhan Ke Sutra Hindi(PB)	Vijay Joshi		95	
0000 A	13596	Safal Prabandhan Ki Pahli Shart Team Work Aur Kushal Netratav Hindi(PB)	Vijay Joshi		95	
0000 A	13597	Safal Vakta Safal Vyakti (H) Hindi(PB)	Ujjawal Patni		195	
0000 A	13598	Safalta Aapki Mutthi Mein Hindi(PB)	Joginder Singh		150	
0000A	13599	Safalta Ka Jadoo Hindi(HB)	Joginder Singh		300	
0000 A	13600	Safalta Ka Jadoo Hindi(PB)	Joginder Singh		125	
0000 A	13601	Safalta Ka Rahasya Hindi(PB)	Swett Marden		75	
0000 A	13602	Safalta Ke 41 Mantra Hindi(PB)	Harikrishan Devsare		150	
0000 A	13603	Safalta Ke Achook Mantra Hindi(PB)	Ramesh Pokhriyal		110	
0000 A	13604	Safalta Ke Sopan HB Hindi	Swett Marden		250	
0000 A	13605	Safalta Ke Sopan Hindi(PB)	Swett Marden		75	
0000 A	13606	Safalta Ke Sutra Hindi(PB)	Kapil Kakkar		75	
0000 A	13607	Safalta Ki Kunji HB Hindi	Swett Marden		250	
0000 A	13608	Safalta Ki Kunji Hindi(PB)	Swett Marden		75	
0000 A	13609	Safalta Ki Nai Takneek PB Hindi	Rajshekhar Mishra		125	
0000 A	13610	Safalta ki or 10 Aasaan Kadam	Deepak Behal		170	
0000 A	13611	Safalta Ki Vaigyanik Taknik Hindi(PB)	Biswaroop Roy Choudhray		110	
0000 A	13612	Safalta Paane Ki 8 Shaktiyan Hindi(PB)	Shishir		125	
0000 A	13613	Safaltam Kaptan Dhoni Hindi(PB)	Amit Kumar		100	
0000 A	13614	Safar Badalon Ka (Yatra Vritant) Hindi(PB)	Kunwar Baichain		100	
0000 A	13615	Safar Saath Saal Ka Hindi(PB)	Ajay Janamjai		195	
0000 A	13616	Sahab Bathroom Main Hain Hindi (PB)	Aas Karan Atal		125	
0000 A	13617	Sahaj Prathna Ke Sutra Hindi(PB)	Anandmurti Guru Maa		30	
0000 A	13618	Sahayak Station Master TT Train Clark, booking (Practice Test Paper) PB Hindi			125	
0000 A	13619	Sai Baba Aur Unki Shirdi Hindi(PB)	O P Jha		100	
0000 A	13620	Sai Baba ke Parsidh Bhakt Hindi(PB)	O P Jha		95	
0000 A	13621	Sai Bhajan Mala Hindi(PB)	Acharya Purushottam Ananda		100	
0000 A	13622	Sai Sarita Hindi(PB)	Sushil Bharti		70	
0000 A	13623	Sai Sharnam Gachhami Hindi(PB)	Adha Prasad Tripathi		50	
0000 A	13624	Sai Sri Ke Adbhut Devdoot Hindi(PB)	Sushil Bharti		60	
0000 A	13625	sakaratmak soch Swami Vivekanand PB Hindi	Ramesh Pokhriyal Nishank		50	
0000 A	13626	Sakratmak Vichron Ka Jaadu Hindi(PB)	Surya Sinha		125	
0000 A	13627	Sakshatkar (Interview) Hindi(PB)	Kumar Pankaj		95	

0000A	13628	Sakshi Krishan Aur Raslila Hindi(PB)	Osho		95	
0000 A	13629	Salakho Ki Parchahiya Hindi(PB)	Ruzbeh N Bharucha		95	
0000 A	13630	Samachar Patra Prabandhan Aur Prasar Hindi(PB)	Kumar Pankaj		95	
0000 A	13631	Samagra Siksha Hindi(PB)	Sudarshan Ji		60	
0000 A	13632	Samajik Samta Ke Agradoot Babu Jagjivan Ram Hindi(HB)	Sunil Jogi		400	
0000 A	13633	Samajik Samta Ke Agradoot Babu Jagjivan Ram Hindi(PB)	Sunil Jogi		125	
0000 A	13634	Samanya Hindi Evam Sanchipt Vyakaran PB Hindi	Vikas Doon		220	
0000 A	13635	Samarth Bharat PB Hindi	Pankaj Singh		400	
0000 A	13636	Sambandho Ki Madhur Paribhasha Hindi(PB)	Rekha Kale		60	
0000 A	13637	Sambhog Se Samadhi Ki Aur (Sampuran) Hindi Hindi(PB)	Osho		275	
0000 A	13638	Sambhog Se Samadhi Ki Aur (Simiti Sanskaran) With Cd Hindi(PB)	Osho		295	
0000 A	13639	Sambhog Se Samadhi Ki Aur Hindi(HB)	Osho		400	
0000 A	13640	Sambhog Se Samadhi Ki Aur Part I Hindi(PB)	Osho		60	
0000 A	13641	Sambhog Se Samadhi Ki Aur-II Yuvak Aur Yon Hindi(PB)	Osho		60	
0000 A	13642	Sambhog Se Samadhi Ki Aur-III Nari Aur Kranti Hindi(PB)	Osho		60	
0000A	13643	Sambhog Se Samadhi Ki Aur-IV Jeevan Kranti Ke Sutra Hindi(PB)	Osho		60	
0000 A	13644	Sampadan Kala The Art Of Editing Hindi(PB)	Rajshekhar Mishra		95	
0000 A	13645	Samrat Prithavi Raj Chauhan Hindi(PB)	Raghuvir Singh Rajput		75	
0000 A	13646	Samveda Hindi(PB)	Raj Bahadur Pandey		95	
0000 A	13647	Sanatan Satya (Bhagwat Gita Ka Manovigyan) Bhag-4 Hindi(PB)	Osho		200	
0000 A	13648	Sanatan Yaksh Prashan Hindi(PB)	Nishantketu		95	
0000 A	13649	Sangat Sadhu Ki Hindi(PB)	Patrick Levy		295	
0000 A	13650	Sangharsh Se Sikhar Tak Hindi(HB)	Joginder Singh		300	
0000 A	13651	Sangram Hindi(PB)	Prem Chand		95	
0000 A	13652	Sankhya Darshan Hindi(PB)	Vinay		75	
0000 A	13653	Sankhyatmak Abhiruchi & Aankdo Ka Vishleshan PB Hindi	Subodh Kumar		250	
0000 A	13654	Sankibai Shankri Hindi(PB)	Sarojani Preetam		60	
0000 A	13655	Sanskritik Prashnotri Hindi(PB)	Arpita Gandhi		20	
0000 A	13656	Sant Kabeer Hindi(PB)	Giriraj Sharan Agarwal		95	
0000 A	13657	Sant Tulsidaas Aur Unka Sahitya HB Hindi	Swami Anand		300	
0000 A	13658	Sant Tulsidas Aur Inka Sahitya PB Hindi	Swami Anand Kulshreshtha		100	
0000 A	13659	Sapandan Hindi(PB)	Ageh Bharti		60	
0000 A	13660	Sapne Dekhne Ka Sahas Hindi(PB)	Anjali Hajarika		110	
0000 A	13661	Sapno Ka Sahar Hindi(PB)	Seema Seth		95	
0000 A	13662	Saral Geeta Saar PB Hindi	Avdesh Bihari Mathue		12	
0000 A	13663	Saral Jyotish PB Hindi	Ramesh Dwivedi		150	
0000 A	13664	Sardar Patel PB Hindi	Renu Saran		30	
0000 A	13665	Sardar Patel Hindi(PB)	Meena Agarwal		125	
0000 A	13666	Sargarbhit Samsamayiki Hindi Magazine PB			20	
0000 A	13667	Sarson Ke Jude Mein Tesu ke Phool Hindi(PB)	Bekal Utsahi		75	
0000 A	13668	Sarswati Upasana Hindi(PB)	Radha Krishna Srimali		50	
0000 A	13669	Saswar Rudrabhishek Prayog Hindi(PB)	Bhojraj Dwivedi		100	
0000 A	13670	Sat Bhase Raidas (Raidas Ki Vani) Hindi(PB)	Osho		95	
0000 A	13671	Satya Hi Ishwar Hai Hindi(PB)	M K Gandhi		75	

0000A	13672	Satya Ke Prayog (Abridged) Hindi(PB)	M K Gandhi		95	
0000 A	13673	Satya Ke Prayog Hindi(PB)	M K Gandhi		195	
0000 A	13674	Satya Ki Vijay Rajiv Gandhi Ki Hatya Hindi(PB)	D R Karthykeyan		150	
0000 A	13675	Satyagreh (Mansarovar 3-4) PB Hindi	Prem Chand		175	
0000 A	13676	Saundrya Aur Swasthya Hindi(PB)	Hari Om Gupta		50	
0000 A	13677	SBI Clerk Grade Exam (15-Practice Test Paper) Hindi (PB)			200	
0000 A	13678	SBI Lipik (Clerk) Grade Pariksha (Guide) Hindi (PB)			350	
0000 A	13679	SBI Probationery Officers (12 Practice Test Paper) PB Hindi	Arvind Mohan Dwivedi		265	
0000 A	13680	Secrects Of Business Success Hindi(HB)	Ram Kailash Gupta		300	
0000 A	13681	Secrects Of Business Success Hindi(PB)	Ram Kailash Gupta		125	
0000 A	13682	Secrets Of Success (H) Hindi(PB)	Tarun Engineer		125	
0000 A	13683	Secrets Of Super Success Hindi(HB)	Subhash Lakhotia		300	
0000 A	13684	Secrets Of Super Success Hindi(PB)	Subhash Lakhotia		125	
0000 A	13685	Seemaye Toot Gayee Hindi(PB)	Nimai Bhattacharya		60	
0000 A	13686	Seva Sadan Hindi(PB)	Prem Chand		150	
0000 A	13687	Sex Aur Pati Patni Hindi(PB)	Satish Goel		95	
0000 A	13688	Sex Paap Nahi Hai Hindi(PB)	Chandarmoli		40	
0000 A	13689	Shabar Mantra Hindi(PB)	Ramesh Dwivedi		95	
0000 A	13690	Shabd bhi bolte hain PB Hindi	Sudarshan maharaj		125	
0000 A	13691	Shad Aur Akhtar Ki Shayari Hindi(PB)	Amar Dehlavi		50	
0000 A	13692	Shahid Bhagat Singh ! Kranti Mein Ek Prayog Hindi(PB)	Kuldip Nayyar		95	
0000 A	13693	Shakahaar Hindi(PB)	Bimal Chhajer		40	
0000 A	13694	Shakeel Aur Kateel Ki Shayari Hindi(PB)	Amar Dehlavi		50	
0000 A	13695	Sham Ki Barisen Hindi(PB)	Suresh Kumar		95	
0000 A	13696	Shama Erumi Hindi(PB)	Anandmurti Guru Maa		30	
0000 A	13697	Shani Upasana Hindi(PB)	Radha Krishna Srimali		50	
0000 A	13698	Shani Upchaar Hindi (PB)	Bhojraj Dwivedi		110	
0000 A	13699	Share Bazar Mein Kamyabi Kaise Haasil Kare Hindi (PB)	Dinkar Kumar		75	
0000 A	13700	Share Bazar Teji Mandi & Satta Market Hindi(PB)	Kewal Anand Joshi		195	
0000A	13701	Sharir Man Santulan Hindi(PB)	Osho		30	
0000 A	13702	Sharir Sarvang Lakshan Hindi(PB)	Radha Krishna Srimali		60	
0000 A	13703	Shat Panchashika Hindi(PB)	Lekhraj Dwivedi		150	
0000 A	13704	Shatakveer Sachin Hindi(PB)	Rajshekhar Mishra		125	
0000 A	13705	Shatranj Kaise Khelen Hindi(PB)	Prakash Nagaich		95	
0000 A	13706	Shatranj Ke Khiladi PB Hindi	Prem Chand		50	
0000 A	13707	Shaurya Aur Balidan Ki Amar Kahaniyan HB Hindi	Prakash Manu		450	
0000 A	13708	Shaurya Aur Balidan Ki Amar Kahaniyan PB Hindi	Prakash Manu		150	
0000 A	13709	Shayar Bemisal Shayari Bakamal Part I Hindi(PB)	Pavan Kumar		150	
0000 A	13710	Shayar Bemisal Shayari Bakamal Part II Hindi(PB)	Pavan Kumar		150	
0000 A	13711	Sheikh Chilli Ke Latife Hindi (HB)	Giriraj Sharan Agarwal		250	
0000 A	13712	Sheikh Chilli Ke Latife Hindi(PB)	Giriraj Sharan Agarwal		25	
0000 A	13713	Shekh Farid Vani Hindi(PB)	Rachna Bhola Yamini		95	
0000 A	13714	Sherestha Rochak Kathaye Aladdin Aur Jadui Chirag Hindi(PB)			40	
0000 A	13715	Sherestha Rochak Kathaye Jungle Book Hindi(PB)			40	
0000 A	13716	Sherestha Rochak Kathaye Kachua Aur Khargosh Hindi(PB)			40	

0000 A	13717	Sherestha Rochak Kathayen Hansel Aur Gretel Hindi(PB)			40	
0000 A	13718	Shesh Parichay Hindi(PB)	Sharat Chandra Chattopadhyay		110	
0000 A	13719	Shesh Prashan Hindi (HB)	Sharat Chandra Chattopadhyay		500	
0000 A	13720	Shesh Prashan Hindi(PB)	Sharat Chandra Chattopadhyay		125	
0000 A	13721	Shikhar Par Pahunchne ke 108 gyan sutra Hindi(PB)	Raghu Korrapati		200	
0000 A	13722	Shiksha Aur Jagran Hindi(PB)	Osho		60	
0000 A	13723	Shiksha Aur Vidroh Hindi(PB)	Osho		60	
0000 A	13724	Shiksha Mein Sampoorna Gunwatta Prabandhan Hindi(PB)	Marmar Mukhopadhyay		495	
0000 A	13725	Shiksha Naye Prayog Hindi(PB)	Osho		150	
0000 A	13726	Shiksha Osho Ki Drishti Mein Hindi(PB)	Anand Vairagya		195	
0000 A	13727	Shikshaprad Jatak Kathayen Hindi(PB)	Pratibha Kasturiya		35	
0000 A	13728	Shila Dixit Vikas Ki Prateek Hindi(PB)	Tarun Engineer		75	
0000 A	13729	Shirdi Ke Sai Baba Hindi(PB)	Prakash Nagaich		95	
0000A	13730	Shirdi Sai Baba Jeevan Darshan Aur Bhakti Hindi(PB)	O P Jha		95	
0000 A	13731	Shirdi Sai Baba PB Hindi	O P Jha		80	
0000 A	13732	Shiv Puran (H) Hindi(PB)	Vinay		95	
0000 A	13733	Shiv Sutra Hindi (PB)	Devam		100	
0000 A	13734	Shiv Sutra Hindi(HB)	Osho		300	
0000 A	13735	Shiv Upasana Hindi(PB)	Radha Krishna Srimali		60	
0000 A	13736	Shodashi Aur Bhuwaneshwari Tantrik Sadhanayein Hindi(PB)	Radha Krishna Srimali		95	
0000 A	13737	Shreshth Kaun? Hindi(PB)	Osho		30	
0000 A	13738	Shri Gurujee Golvalkar Hindi(HB)	Harish Dutt Sharma		300	
0000 A	13739	Shri Gurujee Golvalkar Hindi(PB)	Harish Dutt Sharma		95	
0000 A	13740	Shri Krishan Shri Satya Sai Hindi(PB)	Jandhyala Suman Babu		60	
0000 A	13741	Shri Madhurashtakam Hindi(PB)	Kirit Bhai		75	
0000 A	13742	Shri Ram Krishna Bhaktamrit Charitra (Granth 1 Sampuran) Hindi(HB)	Paramhansa Ram Mangal Das		50	
0000 A	13743	Shri Sai Avtar Trimurti Hindi(PB)	Satya Pal Ruhela		50	
0000 A	13744	Shri Sai Geetayan Hindi (PB)	Chakor Aajgaonkar		40	
0000 A	13745	Shri Shirdi Sai Baba Ke Sang Mera Jeewan Hindi (PB)	Satya Pal Ruhela		30	
0000 A	13746	Shri Shirdi Sai Bhajan Sangrah Hindi(PB)	Sushila Devi Ruhela		40	
0000 A	13747	Shrimad Bhagvadgita (Mini) Hindi(PB)	Dayanand Verma		25	
0000 A	13748	Shrimad Bhagwad Geeta (Adhunik Vayakhan) Hindi (PB)	Dayanand Verma		150	
0000 A	13749	Shrimad Bhagwat Puran Hindi(PB)	Vinay		75	
0000 A	13750	Shubada Hindi(PB)	Sharat Chandra Chattopadhyay		95	
0000 A	13751	Shunyata Hai Mahamukti Hindi(PB)	Osho		95	
0000 A	13752	Shyama Prasad Mukherjee Hindi(PB)	Harish Dutt Sharma		95	
0000 A	13753	Shyama Prashad Mukherjee HB Hindi	Mahesh Sharma		300	
0000 A	13754	Sidhi Saadi Baatein PB Hindi	Rajesh Chetan		100	
0000 A	13755	Sikhen Jeevan Jeene Ki Kala Hindi(PB)	Shashi Kant Sadaiv		125	
0000 A	13756	Sikhiyen Hardya Rog Se Mukti Ke Upay Hindi(PB)	Bimal Chhajer		50	
0000 A	13757	Sili Shayari Sms Hindi(PB)	Kuldeep Saluja		15	
0000 A	13758	Sitaram Hindi(PB)	Bankim Chandra Chattopadhyay		75	
0000A	13759	Skanda Purana Hindi(PB)	Vinay		60	

0000 A	13760	Skandgupt Hindi(PB)	Jai Shankar Prasad		110	
0000 A	13761	Smaran Shakti Kaise Badhayen Hindi(PB)	Anant Pai		50	
0000 A	13762	Smritiyon Mein Roos Hindi(HB)	Shikha Varshney		300	
0000 A	13763	So To Hai Hindi(HB)	Ashok Chakradhar		200	
0000 A	13764	Soch Badlo Safalta Paao (PB) Hindi	Joginder Singh		150	
0000 A	13765	Society Jokes Hindi(PB)	Kuldeep Saluja		40	
0000 A	13766	Sonagachi Ki Champa Hindi(HB)	Nimai Bhattacharya		120	
0000 A	13767	Sonia Gandhi Hindi (PB)	Mahesh Dutt Sharma		95	
0000 A	13768	Sonia Gandhi Rajneeti Ki Pawitra Ganga Hindi(PB)	Jagdish Piyush		150	
0000 A	13769	Soordas Aur Unka Sahitya HB Hindi	Swami Anand		300	
0000 A	13770	Soordas Aur Unka Sahitya PB Hindi	Swami Anand Kulshreshtha		100	
0000 A	13771	Soya Everyday Hindi(PB)	Komal Taneja		100	
0000 A	13772	Spicy Shayari Sms Hindi(PB)	Kuldeep Saluja		15	
0000 A	13773	Squatting With Diginity Hindi(HB)	Kumar Alok		500	
0000 A	13774	Srasti Se Srasta Tak Hindi(PB)	Sadguru		50	
0000 A	13775	Sri Balyogi Ke Sanindhay Mein Hindi(PB)	Nilesh Soni		20	
0000 A	13776	Sri Sathya Sai Avtar Aur Sri Nar Narayan Gufa Ashram Chamatkar Hindi(PB)	Adha Prasad Tripathi		30	
0000 A	13777	Sri Shankar Maharaj Adbhut Charitra Va Amuly Updesh Hindi(PB)			70	
0000 A	13778	Sri Shirdi Sai Bhajan mala Hindi(PB)	Sushila Devi Ruhela		10	
0000 A	13779	Srikanta Hindi(PB)	Sharat Chandra Chattopadhyay		150	
0000 A	13780	Srimad Bhagwadgeeta Hindi(PB)	Kirit Bhai		95	
0000 A	13781	SSB Constable Driver (10-Practice Test Papers) Hindi (PB)			65	
0000 A	13782	SSB Tally Cumunication Cader (10-Practice Test Pepers) Hindi (PB)			80	
0000 A	13783	SSC Capfs-15 PTP PB HINDI	Vikas Doon		80	
0000 A	13784	SSC Combined Higher Secondary Level - 2015 PB Hindi			290	
0000 A	13785	SSC Combined Higher Secondary Level - PTP 2015 PB Hindi			150	
0000 A	13786	SSC Constable Bharti Pariksha PB Hindi			200	
0000 A	13787	SSC Multi Tasking Practice test Paper PB Hindi Envelope			125	
0000A	13788	SSC Multitasking (12 Practice Test Paper) PB Hindi			100	
0000 A	13789	SSC Sanyukt Snatak Star Pariksha (12 Practice Set paper) PB Hindi			200	
0000 A	13790	SSC Sanyukt Snatak Star Pariksha (Tier-I) PB Hindi			400	
0000 A	13791	SSC Stenographer (Aashulipik) Grade C & D 2014 (Practice Test Paper) PB Hindi			150	
0000 A	13792	SSC Stenographer (Aashulipik) Grade C & D 2014 Guide PB Hindi			215	
0000 A	13793	Staff Nurse & Parachikitsa (DELHI)(Guide) PB Hindi	Arvind Mohan Dwivedi		315	
0000 A	13794	Staff Nurse (Upcharika/ANM/GNM) Guide PB Hindi			300	
0000 A	13795	Staff Nurse (Upcharika/ANM/GNM) PTP PB Hindi	Lali Kumari & Avdhesh		100	
0000 A	13796	Staff Nurse And Parachikitsa Staff (Gujarat) PTP PB Hindi	Arvind Mohan Dwivedi		95	
0000 A	13797	Staff Nurse And Parachikitsa Staff (Haryana) PTP PB Hindi	Arvind Mohan Dwivedi		95	
0000 A	13798	Staff Nurse And Parachikitsa staff (Jharkhand) PTP PB Hindi	Arvind mohan Dwivedi		95	

0000 A	13799	Staff Nurse And Parachikitsa Staff (Uttarakhand) PTP PB Hindi	Arvind Mohan Dwivedi		95	
0000 A	13800	Staff Nurse NRHM Rajasthan PB Hindi			320	
0000 A	13801	Steel King Lakshmi Mittal (H) Hindi(PB)	Prateeksha M Tiwari		95	
0000 A	13802	Steve Jobs	I M Rajaswi		75	
0000 A	13803	Stock Market Mein Safalta Ke Tips PB Hindi	Ashu Dutt		100	
0000 A	13804	Stotra Shakti Hindi(PB)	Radha Krishna Srimali		95	
0000 A	13805	Stress Management Guide Hindi(PB)	Bimal Chhajer		125	
0000 A	13806	Stress PB Hindi	Bimal Chhajer		50	
0000 A	13807	Stri Ki Kuch Ankahi Hindi(PB)	Shashi Kant Sadaiv		75	
0000 A	13808	Stri Shakti Hindi(HB)	S Madhwan		300	
0000 A	13809	Stri Shakti Hindi(PB)	S Madhwan		100	
0000 A	13810	Stri Shakti Jaisa Maine Dekha Hindi(PB)	Kiran Bedi		125	
0000 A	13811	Stroke Paralysis Hindi(PB)	Bimal Chhajer		50	
0000 A	13812	Subah Hindi(PB)	Ramavtar Bairwa		95	
0000 A	13813	Subhash Chandra Bose Hindi(PB)	Rachna Bhola Yamini		30	
0000 A	13814	Subhash Chandra Bose Hindi(PB)	Renu Saran		40	
0000 A	13815	Suchana Ka Adhikar Adhinium Hindi(PB)	Rajender Pandey		100	
0000 A	13816	Sudarshan Ramayan Sangeetmay Sriramkatha Hindi (HB)	Sudarshan Ji		1001	
0000A	13817	Sufi Sant Amir Khusro Aur Unki Shayari HB Hindi	Swami Anand		300	
0000 A	13818	Sufi Sant Amir Khusro va Unki Shayari PB Hindi	Amir Khusro		175	
0000 A	13819	Sufi Sant Bulleshah Aur Unka Sahitya HB HINDI	Swami Anand		600	
0000 A	13820	Sufi Sant Bulleshah Aur Unki Shayari PB Hindi	Bulle Shah		150	
0000 A	13821	Sugam Tantragam Hindi(PB)	Nishantketu		200	
0000 A	13822	Sugam Vaastu Shastra Hindi(PB)	Gopal Sharma		95	
0000 A	13823	Sukhi Bharwan Rasedar Subjiyan Kadiya Va Daale Hindi(PB)	Neera Verma		100	
0000 A	13824	Sunhare Kal Ki Aur Hindi(PB)	Joginder Singh		150	
0000 A	13825	Suni Suni Aave Hansi PB HINDI	Sanjay Jhala		125	
0000 A	13826	Suno Bhai Sadho PB Hindi	Osho		250	
0000 A	13827	Surya Chikitsa Cromotherepy Hindi(PB)	Hari Om Gupta		125	
0000 A	13828	Swadist Soup Hindi(PB)	Neera Verma		60	
0000 A	13829	Swami Vivekanand Ek Jeevni Hindi(PB)	Asha Prasad		175	
0000 A	13830	Swami Vivekanand Hindi(PB)	Renu Saran		30	
0000 A	13831	Swami Vivekanand Hindi(PB)	Renu Saran		35	
0000 A	13832	Swami Vivekanand Hindi(PB)	Renu Saran		40	
0000 A	13833	Swami Vivekanand Ke Sapno Ka Bharat (H) Hindi(PB)	Himanshu Shekhar		150	
0000 A	13834	Swami Vivekananda in Chicago PB Hindi	Ramesh Pokhriyal Nishank		50	
0000 A	13835	Swamutra Chikitsa Hindi(PB)	S K Sharma		95	
0000 A	13836	Swapan Jyotish Hindi(PB)	Radha Krishna Srimali		95	
0000 A	13837	Swarnim Bharat Hindi(PB)	Osho		60	
0000 A	13838	Swarodaya Tantra Hindi(PB)	Jagdish Sharma		95	
0000 A	13839	Swasth Hardya Ke Liye Ahar Hindi(PB)	Bimal Chhajer		50	
0000 A	13840	Swatantra Patrakarita Hindi(PB)	M K Majumdar		95	
0000 A	13841	Swayam Ko Aur Dusro Ko Pehchanane Ki Kala Hindi(HB)	Shashi Kant Sadaiv		300	
0000 A	13842	Swayam Ko Aur Dusro Ko Pehchanane Ki Kala Hindi(PB)	Shashi Kant Sadaiv		125	
0000 A	13843	Tamasha Hindi(PB)	Ashok Chakradhar		100	

0000 A	13844	Tanav Chhodo Zindagi Sanwaro PB Hindi	Subhash Lakhotia		95	
0000 A	13845	Tandav (Kalsarpyog Ka Vaigyanik Va Vaidik Khandan) Hindi(PB)	Rajesh Tiwari		75	
0000A	13846	Tantia Tope Hindi (PB)	Bhawan Singh Rana		95	
0000 A	13847	Tantra Rahasya Hindi(PB)	Radha Krishna Srimali		95	
0000 A	13848	Tantra Shakti Aur Sadhana Hindi(PB)	Bhojraj Dwivedi		125	
0000 A	13849	Tantropaithy Hindi(PB)	R P Upadhyay		150	
0000 A	13850	Tao Upnishad 2 Hindi(HB)	Osho		450	
0000 A	13851	Tapasya Hindi(PB)	Ashapurana Devi		95	
0000 A	13852	Tarange Hindi(HB)	Shanti Sharma		300	
0000 A	13853	Tashnkam Hindi(HB)	Anurag Hitkari		300	
0000 A	13854	Tathya Sankalan 2015 PB Hindi			110	
0000 A	13855	Teen Fitness Guide Hindi(PB)	Namita Jain		125	
0000 A	13856	Tees Hazari Court Delhii PB Hindi	Vikas Doon		165	
0000 A	13857	Tenaliram Hindi(HB)			175	
0000 A	13858	Tenaliram Ka Haas Parihas (Jr Diamond) Hindi(PB)			25	
0000 A	13859	Tenaliram Ke Rochak Kahaniyan(Fusion) Hindi(PB)	Giriraj Sharan Agarwal		25	
0000 A	13860	Tenaliram Ke Rochak Kahaniyan(Jr Diamond) Hindi(PB)			35	
0000 A	13861	Tenaliram Ki Manoranjak Kahaniyan(Fusion) Hindi(PB)	Giriraj Sharan Agarwal		35	
0000 A	13862	Tenaliram Ki Manoranjak Kahaniyan(Jr Diamond) Hindi(PB)			25	
0000 A	13863	Tenaliram Ki Sugh Bugh (Jr Diamond) Hindi(PB)			25	
0000 A	13864	Tenaliram Ki Sujh Bujh Hindi(PB)	Giriraj Sharan Agarwal		75	
0000 A	13865	Tere Saath Ki Aadat PB Hindi	Shashi Kant Sadaiv		100	
0000 A	13866	Thahaka Express HB Hindi	Mahesh Garg		250	
0000 A	13867	Thahaka Express PB Hindi	Mahesh Garg		125	
0000 A	13868	Thakur Ka Kuan (Mansarovar 1-2) Hindi (PB)	Prem Chand		175	
0000 A	13869	Thal Main Baal Hindi(PB)	R D N Srivastava		95	
0000 A	13870	That Hardly Happens To Someone Hindi(PB)	Rajesh Singh		100	
0000 A	13871	The 3 Mistake Of My Life (H) Hindi(PB)	Chetan Bhagat		150	
0000 A	13872	The 4th Idiot Hindi(PB)	Biswaroop Roy Choudhray		150	
0000 A	13873	The Comeback Hindi(PB)	Suhas Mantri		95	
0000 A	13874	Thoda Sa Roomani Ho Lein Hum Hindi(PB)	Navab Shahabadi		125	
0000A	13875	Time Management Hindi(PB)	Rekha Vyas		150	
0000 A	13876	Tips & Tricks Excel 2010 Hindi(PB)	Davinder Singh Minhas		150	
0000 A	13877	Tips & Tricks Windows 7 Hindi(PB)	Davinder Singh Minhas		150	
0000 A	13878	Tips & Tricks Word 2010 Hindi(PB)	Davinder Singh Minhas		110	
0000 A	13879	Tips Of Success Hindi(PB)	Sunil Jogi		125	
0000 A	13880	Toppers Ke Top Tips PB Hindi	JPS Jolly		150	
0000 A	13881	Tota Maina Hindi(PB)	Ambika Prashad Sharma		50	
0000 A	13882	Trashna Hindi(PB)	Osho		30	
0000 A	13883	Tripura Ke Lokkathayen Evam Prashnotari Hindi(PB)	Rachna Bhola Yamini		25	
0000 A	13884	Tu Daal Daal Main Paat Paat Hindi(PB)	Sanjay Jhala		75	
0000 A	13885	Tubbys Baal Geet PB Hindi	Priyanka		35	
0000 A	13886	Tubbys Cut & Paste Chart Book Ka Kha Ga Varanmala Hindi(PB)			25	
0000 A	13887	Tubbys Geeton Ki Phoolwari PB Hindi	Priyanka		35	
0000 A	13888	Tubbys Hindi Baal Geet PB Hindi	Priyanka		35	
0000 A	13889	Tubbys Hindi Varanmala Hindi(PB)			50	
0000 A	13890	Tubbys Suno Kahani Dadi Se PB Hindi			60	

0000 A	13891	Tufan E Sagar Hindi(PB)	Jagdish Godara Sagar		95	
0000 A	13892	Tukda Tukda Yeh Zindagi Hindi(PB)	Naresh Shandilya		75	
0000 A	13893	Tutta Abhiman Hindi(PB)	Yadvendra Sharma Chandra		110	
0000 A	13894	Twacha Rog Karan Aur Nivaran Hindi(PB)	Rajeev Sharma		125	
0000 A	13895	Udasiyon Se Ghira Chand (Gazlen) Hindi(PB)	Suresh Kumar		95	
0000 A	13896	Udiyo Pankh Pasaar(Prasnotar) Hindi(PB)	Osho		200	
0000 A	13897	Ujalon Ki Pariyan (Bashir Badr Ki Gazlen) Hindi(PB)	Suresh Kumar		100	
0000 A	13898	Ujla Sach	Vandna Girdhar		100	
0000 A	13899	Uma Kahun Main Anubhav Apna Hindi(PB)	Sri Krishna Nand Ji Maharaj		150	
0000 A	13900	Ummeden Jindagi Hai HB Hindi	Prem Bhardwaj		300	
0000 A	13901	Unnati Ki Rahe Hindi(PB)	Swett Marden		75	
0000 A	13902	Unnati Ki Rraahen HB Hindi	Swett Marden		250	
0000 A	13903	UP Adhinasth sewa Chayan Ayog 3467 Kanisht Sahayak PTP PB Hindi			80	
0000A	13904	UP B.ed Sanyukt Pravesh Pariksha (Commerce) PB Hindi	Arvind Mohan Dwivedi		130	
0000 A	13905	UP B.ed Sanyukt Pravesh Pariksha (Kala Work) PB Hindi	Arvind Moha Dwivedi		130	
0000 A	13906	UP B.ed Sanyukt Pravesh Pariksha (Science & Maths) PB Hindi	Arvind Mohan Dwivedi		130	
0000 A	13907	UP GK Text PB Hindi	Arvind Mohan Dwivedi		50	
0000 A	13908	UP Lekhpal Bharti Pariksha (Practice Paper - 12) Hindi (PB)			75	
0000 A	13909	UP Lekhpal Bharti Pariksha Hindi (PB)			160	
0000 A	13910	UP Objective GK PB Hindi	Arvind Mohan Dwivedi		65	
0000 A	13911	UP Police (Upniikshak Mukhya Bharti) PSC & Fireman Practise Test Paper PB Hindi	Arvind Mohan Dwivedi		180	
0000 A	13912	UP Police Aarkshi (Constable) Bharti Priksha (11-Practice Test Papers) Hindi (PB)			65	
0000 A	13913	UP Police Aarkshi (Constable) Hindi (PB)			200	
0000 A	13914	UP Police Computer Operator Hindi (PB)			175	
0000 A	13915	UP RAJASVA LEKHPAL AND CHAKBANDI LEKHPAL-SAMANYA GANEET PB Hindi	Vikas Doon		41	
0000 A	13916	UP RAJASVA LEKHPAL AND CHAKBANDI LEKHPAL-SAMANYA GYAN PB Hindi	Vikas Doon		21	
0000 A	13917	UP RAJASVA LEKHPAL AND CHAKBANDI LEKHPAL-SAMANYA HINDI PB Hindi	Vikas Doon		18	
0000 A	13918	UP RAJASVA LEKHPAL AND CHAKBANDI LEKHPAL-SAMANYA JAGRUKTA PB Hindi	Vikas Doon		31	
0000 A	13919	UP RAJASVA LEKHPAL-GUIDE PB Hindi	Vikas Doon		200	
0000 A	13920	UP RAJASVA LEKHPAL-PTP PB Hindi	Vikas Doon		75	
0000 A	13921	UP TET Environmental Studies PB Hindi	Vikas Doon		55	
0000 A	13922	Upchar Ki Shaja Pravreti Hindi(PB)	David Servan Schriever		150	
0000 A	13923	UPPSC-PTP Hindi PB	Vikas Doon		110	
0000 A	13924	UPTET First Paper I-V PB Hindi	Lali Kumari		150	
0000 A	13925	UPTET Second Paper (VI-VIII Science & Maths) PB Hindi	Lali Kumari		150	
0000 A	13926	UPTET Second Paper (VI-VIII Social Studies) PB Hindi	Lali Kumari		150	
0000 A	13927	Us Nazar Ne Kya Se Kya Bana Diya Hindi(PB)	Gyan Bhed		195	
0000 A	13928	Usi Ki Yeh Sharab Hindi(PB)	Prem Nishith		60	

0000 A	13929	Uttardayitav Hindi(PB)	Osho		30	
0000 A	13930	Uttrakhand Mein Aadhyatmik Paryatan Mandir Evam Tirath Hindi(PB)	Sarita Shah		150	
0000 A	13931	Vaad vivad Pratiyogita Hindi(PB)	Giriraj Sharan Agarwal		60	
0000 A	13932	Vaaris Tatha Anya Kahaniya Hindi(PB)	Ramchandra Bhave		75	
0000A	13933	Vaastav Mein PB Hindi	Shailja Kaushal		150	
0000 A	13934	Vaastu Dosh Aur Nivaran Hindi(PB)	Parasmal		125	
0000 A	13935	Vaastu Dwara Khushhal Jeevan Ke 108 Sutra Hindi(PB)	Parasmal		95	
0000 A	13936	Vaastu Feng Shui Antrik Saj Sajja Hindi(PB)	Kuldeep Saluja		50	
0000 A	13937	Vaastu Feng Shui Bhawan Nirman Hindi(PB)	Kuldeep Saluja		60	
0000 A	13938	Vaastu Feng Shui Flat & Office Hindi(PB)	Kuldeep Saluja		60	
0000 A	13939	Vaastu Feng Shui Udog Aur Vyapar Hindi(PB)	Kuldeep Saluja		60	
0000 A	13940	Vaastu Jignasayan Evam Samadhan Hindi(PB)	Bhojraj Dwivedi		125	
0000 A	13941	Vaidik Ganit Geeta Hindi(PB)	Kailash Nath Nemani		110	
0000 A	13942	Vaikalpik Chikitsa Hindi(PB)	R S Vivek		100	
0000 A	13943	Varah Puran Hindi(PB)	Vinay		95	
0000 A	13944	Vardan Hindi(HB)	Prem Chand		200	
0000 A	13945	Vardan Hindi(PB)	Prem Chand		95	
0000 A	13946	Vardan Sanchipat Sanskaran Hindi(PB)	Prem Chand		75	
0000 A	13947	Vardhavastha Hindi(PB)	Hari Om Gupta		50	
0000 A	13948	Vastunisht Samanya Gyan PB Hindi			150	
0000 A	13949	Vayanjan Kuchh Naye Kuchh Purane Hindi(PB)	Shobha Kher		100	
0000 A	13950	Vayu Puran Hindi(PB)	Vinay		95	
0000 A	13951	Ve Dono Ek Hi The (Hindi PB)	RITU SINGHAL		100	
0000 A	13952	Ved Aur Svasamved HB Hindi	Budhi Prakash Bajpai		600	
0000 A	13953	Ved Aur Svasamved PB Hindi	Budhi Prakash Bajpai		250	
0000 A	13954	Vedant Darshan Hindi(PB)	Vinay		75	
0000 A	13955	Vedon Ki Kathayen Hindi (HB)	Mahesh Sharma		350	
0000 A	13956	Vedon Ki Kathayen Hindi(PB)	Mahesh Dutt Sharma		110	
0000 A	13957	Veer Savarkar Hindi(HB)	Bhawan Singh Rana		200	
0000 A	13958	Veg Oriental Cook Book Hindi(PB)	Komal Taneja		100	
0000 A	13959	Vegetarian Cook Book Hindi(PB)	Tehlina Kaul		110	
0000 A	13960	Veh Kahan Hai Hindi(PB)	Narender Kohli		75	
0000 A	13961	Vibhinna Khelon Ke Niyam Hindi(PB)	Sanjay Bhola Dheer		110	
0000A	13962	Vichar Kranti Hindi(PB)	Osho		60	
0000 A	13963	Vicharon Ke Phool Hindi(PB)	Ageh Bharti		40	
0000 A	13964	Vicharon Ko Badalna Sikhen Hindi(HB)	Acharya Mahapragya		350	
0000 A	13965	Vidur Niti Hindi(PB)	Kirit Bhai Ji		125	
0000 A	13966	Vidur Niti Hindi(PB)	Ashwini Parashar		125	
0000 A	13967	Vigyan Aur Adhyatmikta Hindi(PB)	Sri Sri Ravishankar Ji		10	
0000 A	13968	Vigyan Prashnottari Hindi(PB)	Sushila Sharma		125	
0000 A	13969	Vikas Ka Nayak Nitish Kumar Hindi(HB)	Kuldeep Saluja		200	
0000 A	13970	Vikas Ka Nayak Nitish Kumar Hindi(PB)	Kumar Pankaj		75	
0000 A	13971	Vikas Ka Paath HB Hindi	Swett Marden		250	
0000 A	13972	Vikas Ka Path Hindi(PB)	Swett Marden		75	
0000 A	13973	Vikram Aur Betal Hindi(HB)	Pratibha Kasturiya		175	
0000 A	13974	Vikram Betal Ki Manoranjak Kahaniya Hindi(PB)	Pratibha Kasturiya		25	
0000 A	13975	Vikram Betal Ki Prerak Kahaniya Hindi(PB)	Pratibha Kasturiya		25	

0000 A	13976	Vikram Betal Ki Rochak Kahaniya Hindi(PB)	Pratibha Kasturiya		25	
0000A	13977	Vikram Betal Ki Shresth kahaniya Hindi(PB)	Pratibha Kasturiya		25	
0000 A	13978	Vinod Priya Prabhu Hindi(PB)	Sri Sri Ravishankar Ji		79	
0000 A	13979	Vipradas Hindi(PB)	Sharat Chandra Chattopadhyay		125	
0000 A	13980	Vish Viriksh Hindi(PB)	Bankim Chandra Chattopadhyay		95	
0000 A	13981	Vishnu Puran Hindi(PB)	Vinay		95	
0000 A	13982	Vishv Presidh Nobel Purskar Vijeta Hindi(PB)	Prateeksha M Tiwari		150	
0000 A	13983	Vishv Presidh Vaktitva (H) Hindi(PB)	Renu Saran		110	
0000 A	13984	Vishv Samajvad Ke Poshak Lohiya Hindi(HB)	Sunil Jogi		400	
0000 A	13985	Vishv Samajvad Ke Poshak Lohiya Hindi(PB)	Sunil Jogi		150	
0000 A	13986	Vishwa Prasidh Vaigyanik HB Hindi	Renu Saran		500	
0000 A	13987	Vishwa Prasidh Vaigyanik PB Hindi	Renu Saran		195	
0000 A	13988	Vitamin Evam Khaniz Lavan Hindi (HB)	Rajeev Sharma		250	
0000 A	13989	Vitamin Evam Khaniz Lavan Hindi(PB)	Rajeev Sharma		95	
0000 A	13990	Vivah Mein Badha Hindi(PB)	Kamal Radha Krishan Srimali		110	
0000 A	13991	Vivah Uphaar Hindi(PB)	T C Anand		60	
0000 A	13992	Vivek Drishti Hindi(PB)	Poonam Chand Rateria Rishiputra		20	
0000 A	13993	Vrihad Bhrigu Sanhita Hindi (PB)	Kamal Radha Krishan Srimali		400	
0000 A	13994	Vrihad Vatsayayan Kamsutra Hindi(PB)	Satish Goel		110	
0000 A	13995	Vyakhatamak GK 2015 PB Hindi	Arvind Mohan Dwivedi		110	
0000 A	13996	Vyanga Purana Hindi(PB)	Shyam Sunder Ghosh		95	
0000 A	13997	Vyangam Sarnam Gachchami Hindi(PB)	Osho		175	
0000 A	13998	Vyavsaye Mein Prabandhan Gunwatta Ke 76 Mantra Hindi(PB)	Debashish Sarkar		95	
0000 A	13999	Wah Pataka Wah PB Hindi	Prem Kishor Pataka		100	
0000 A	14000	WBTET Class I-V Primary Section PTP Hindi	Vikas Doon		135	
0000 A	14001	WBTET Class VI-VIII Science & Maths PTP Hindi	Vikas Doon		135	
0000 A	14002	Who Will Bell The Cat Hindi(HB)	Mohit Siddqi		300	
0000 A	14003	Who Will Bell The Cat Hindi(PB)	Mohit Siddqi		150	
0000 A	14004	Yaaro Shadi Mat Karna Hindi(PB)	Sunil Jogi		100	
0000 A	14005	Yajurveda Hindi(PB)	Raj Bahadur Pandey		95	
0000A	14006	Yamraj On Arth Hindi(PB)	Ashok anjum		60	
0000 A	14007	Yantra Shakti Aur Sadhana Hindi(PB)	Bhojraj Dwivedi		150	
0000 A	14008	Yantra Siddhi Hindi(PB)	Radha Krishna Srimali		95	
0000 A	14009	Ye Maikada Hai Maikada Hindi(PB)	Prem Nishith		75	
0000 A	14010	Ye Pathar Bolte Hain Hindi(PB)	Pranav Goswami		100	
0000 A	14011	Yeh Bhi Nahi Hindi(HB)	Maheep Singh		500	
0000 A	14012	Yeh Bhi Nahin Hindi (PB)	Maheep Singh		150	
0000 A	14013	Yeh Kya Ho Gaya Hindi(PB)	Tejender Sharma		60	
0000 A	14014	Yeh Sambhav Hai Hindi(PB)	Kiran Bedi		250	
0000 A	14015	Yog Dwara Hriday Rog Se Mukti PB Hindi	Bimal Chhajer		195	
0000 A	14016	Yog Purshon Ke Liye Hindi (HB)	Bhagwan Dev		250	
0000 A	14017	Yog Samagra Vigyan Hindi(PB)	Sanjeev Kashyap		100	
0000 A	14018	Yog Se Aryogya Tak (With Dvd) Hindi(PB)	Yog Guru Sunil Singh		150	
0000 A	14019	Yog Se Aryogya Tak Hindi(PB)	Yog Guru Sunil Singh		75	
0000 A	14020	Yog Se Rog Nivaran Hindi(PB)	Bhagwan Dev		95	

0000 A	14021	Yog Striyon Ke Liye Hindi(PB)	Bhagwan Dev		95	
0000 A	14022	Yogasan Aur Swasthaya Hindi(PB)	Bhagwan Dev		95	
0000 A	14023	Yogik V Saatvik Ahar Hindi(PB)	Komal Taneja		100	
0000 A	14024	Yogiraj Shrikrishna Hindi(PB)	Vinay		75	
0000 A	14025	Yogsar Upanishad Hindi(PB)	Sri Sri Ravishankar Ji		69	
0000 A	14026	Yon Hua Computer Ka Avishkar PB Hindi	Prakash Manu		35	
0000 A	14027	Yudh Aur Shanti (Bhagwat Gita Ka Manovigyan) Bhag-1 Hindi(PB)	Osho		200	
0000 A	14028	Yug Pravartak Mahatama Budh Hindi(PB)	Ashok Kaushik		95	
0000 A	14029	Yugo Yugo Ke Masiah Sai Baba Hindi(PB)	Ramkrishan Jajoo		100	
0000 A	14030	Yugpurush Maharishi Dayanand Saraswati PB Hindi	Shashi Kant Sadaiv		75	
0000 A	14031	Yuvak Aur Yon Hindi(PB)	Osho		30	
0000 A	14032	Zafar Aur Dag Ki Shayri Hindi(PB)	Amar Dehlavi		50	
0000 A	14033	Zen Heart Zen Sole Hindi(PB)	Swami Antar Jagdish		95	
0000 A	14034	Zen Ki Ghoshna Hindi(PB)	Osho		250	
0000A	14035	Zero Oil 151 Nashte Namkeen Hindi(PB)	Bimal Chhajer		150	
0000 A	14036	Zero Oil Cook Book Hindi(PB)	Bimal Chhajer		150	
0000 A	14037	Zero Oil Mithayein Hindi (PB)	Bimal Chhajer		150	
0000 A	14038	Zero Oil South Indian Cook Book Hindi(PB)	Bimal Chhajer		150	
0000 A	14039	Zero Oil Thali Hindi(PB)	Bimal Chhajer		150	
0000 A	14040	Instrumental Nadaswaram	Jayashankar & Valayapatti		200	1989
0000 A	14041	Instrumental Saxophone	Kadri Gopalnath		200	1989
0000 A	14042	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2001
0000 A	14043	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2001
0000 A	14044	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2001
0000 A	14045	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2001
0000 A	14046	Tamil Dev.Murugan Songs	Pithukuli Murugadass		200	1993
0000 A	14047	Tamil Dev.Murugan Songs	Pithukuli Murugadass		200	1993
0000 A	14048	Instrumental Saxophone	Kadri Gopalnath		200	1993
0000 A	14049	Instrumental Saxophone	Kadri Gopalnath		200	1993
0000 A	14050	Instrumental Nadaswaram	MPN Sethuraman & MPN Ponnuswamy		200	1999
0000 A	14051	Classical Vocal	Sudha Raghunathan		200	1996
0000 A	14052	Instrumental Nadaswaram	Dr.Sheikh Chinna Moulana		200	1989
0000 A	14053	Sanskrit Recital	Sudha Raghunathan		200	1989
0000 A	14054	Instrumental Nadaswaram	Dr.Sheikh Chinna Moulana		200	1989
0000 A	14055	Instrumental Nadaswaram	Dr.Sheikh Chinna Moulana		200	1989
0000 A	14056	Instrumental Nadaswaram	Various Artists		200	2000
0000 A	14057	Instrumental Saxophone	Kadri Gopalnath		200	2000
0000 A	14058	Instrumental Nadaswaram	Dr.Sheikh Chinna Moulana		200	2000
0000 A	14059	Classical Vocal	M.L.Vasanthakumari Vocal with support of Sudha Raghunathan		200	1998
0000 A	14060		support of Sudha Ragunathan			
0000 A	14061	Tamil Dev. Amman Songs	L.R.Easwari.		50	1996
0000 A	14062	Instrumental Nadaswaram	Namagiri Pettai Krishnan		200	1989
0000 A	14063	Tamil Dev.Ganpathy Songs	Pithukuli Murugadass		200	1988
0000A	14064	Tamil Dev.Krishna Songs	Pithukuli Murugadass		200	1985
0000 A	14065	Instrumental Nadaswaram	Namagiri Pettai Krishnan		200	1989
0000 A	14066	Cl.Inst-Violin/Veena/Mandolin/Nadaswaram/Flute	E.Gayathri / Kadhri Gopalnath/Chinna Moulana/U.Srinivas/N.Ramani		200	1992
0000 A	14067	Vocal	Sudha Raghunathan		200	1990
0000 A	14068	Instrumental Violin	Kunnakudi.R.Vaidyanathan		200	1998
0000 A	14069	Instrumental Mandolin	U.Srinivas		200	1986
0000 A	14070	Tamil Dev.Ganpathy Songs	K.Veeramani		50	1985
0000 A	14071	Tamil Dev.Amman Songs	L.R.Easwari.		50	1985

0000 A	14072	Tamil Dev.Amman Songs	L.R.Easwari.		50	1990
0000 A	14073	Sanskrit Recital	Radhakrishna Sastrigal		200	1990
0000 A	14074	Sanskrit Recital	Radhakrishna Sastrigal		200	1987
0000 A	14075	Sanskrit Chanting	S.P.Balasubramaniam		50	1987
0000 A	14076	Sanskrit Chanting	S.P.Balasubramaniam		200	1985
0000 A	14077	Classical Vocal	Dr.Balamuralikrishna		200	1987
0000 A	14078	Instrumental Veena	E.Gaayathri		200	1987
0000 A	14079	Instrumental Veena	E.Gaayathri		200	1989
0000 A	14080	Vocal	Dr.M.L.Vasanthakumari		200	1985
0000 A	14081	Instrumental Violin	Kunnakudi .R.Vaidyanathan		200	1989
0000 A	14082	Classical Vocal	Dr.Balamuralikrishna		200	1989
0000 A	14083	Cl.Inst-Violin/Veena/Mandolin/Nadaswaram/Flute	E.Gaayathri/Namagiripettai Krishnan/N.Ramani/U.Srinivas/ Kadri Gopalnath/		200	1989
0000 A	14084	Cl.Inst-Violin/Veena/Mandolin/Nadaswaram/Flute	Kunnakudi.Vaidyanathan/Dr.Sheikh Chinna Moulana/Jayashankar&Valaya-patti		200	1989
0000 A	14085	Cl.Inst-Violin/Veena/Mandolin/Nadaswaram/Flute	Kunnakudi.Vaidyanathan/Dr.Sheikh Chinna Moulana/Jayashankar&Valaya-patti		200	1986
0000 A	14086	Classical Vocal	Dr.M.L.Vasanthakumari		200	1988
0000 A	14087	Sanskrit Recital	Puddukottai Mahaliga Sastrigal		200	1988
0000 A	14088	Sanskrit Recital	Puddukottai Mahaliga Sastrigal		200	1989
0000 A	14089	Instrumental Flute	Dr.N.Ramani		200	1990
0000 A	14090	Sanskrit Recital	Dr.M.L.Vasathakumari		200	1990
0000 A	14091	Sanskrit Recital	Thanjavur.S.Radhakrishna Sastrigal		200	1992
0000 A	14092	Instrumental Nadaswaram	Karauikurichi Arunachalam		200	1993
0000A	14093	Instrumental Nadaswaram	T.E.Palaniswamy & Party		200	1994
0000 A	14094	Classical Vocal	Maharajapuram Santhanam		200	1995
0000 A	14095	Tamil Dev.Ayyappan Songs	K.Veeramani		50	1995
0000 A	14096	Tamil Dev.Ayyappan Songs	K.Veeramani		50	1995
0000 A	14097	Tamil Dev.Ayyappan Songs	K.Veeramani		50	1995
0000 A	14098	Tamil Dev.Ayyappan Songs	K.Veeramani		50	2001
0000 A	14099	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	1998
0000 A	14100	Tamil Dev.Ayyappan Songs	K.Veeramani		50	1996
0000 A	14101	Sanskrit Recital	Thanjavur.S.Radhakrishna Sastrigal		200	2000
0000 A	14102	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2000
0000 A	14103	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2000
0000 A	14104	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2000
0000 A	14105	Sanskrit Recital	Unni Krishnan.		200	2000
0000 A	14106	Classical Vocal	Dr.M.L.Vasanthakumati & Sudha Ragunathan		200	2000
0000 A	14107	Sanskrit Recital	Unni Krishnan.		200	2001
0000 A	14108	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2001
0000 A	14109	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2001
0000 A	14110	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2001
0000 A	14111	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2001
0000 A	14112	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2000
0000 A	14113	Cl.Inst-Violin/Veena/Mandolin/ Nadaswaram/Flute	Kadri Gopalnath/N.Ramani/U.Srinivas /Sheikh Chinna Moulana/e.Gaayathri/Kunnakudi .Vaidyanathan/Bhakthavatc halam.		200	2000
0000 A	14114	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2002
0000 A	14115	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2002
0000 A	14116	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2002
0000 A	14117	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2002
0000 A	14118	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2002
0000 A	14119	Classical Vocal	Maharajapuram Santhanam		200	2002

0000 A	14120	Classical Vocal	Dr.M.L.Vasanthakumari & Sudha Ragunathan		200	2002
0000 A	14121	Cl.Inst-Veena	E.Gaayathri		200	2002
0000A	14122	Sanskrit Chanting	Vinayagar/Murugan/Rama/Siva/ Ayyappan and Gayathri Mantram Chanting		200	2002
0000 A	14123	Classical Vocal	Dr.M.L.Vasanthakumari & Sudha Ragunathan		200	2002
0000 A	14124	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2003
0000 A	14125	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2003
0000 A	14126	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2003
0000 A	14127	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2003
0000 A	14128	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2003
0000 A	14129	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2003
0000 A	14130	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2003
0000 A	14131	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2003
0000 A	14132	Instrumental Nadaswaram	MPN Brothers, Jayashankar & Valayapatti, Dr.Sheik Chinna Moulana, Namag-iripettai Krishnan, Karaikuruchi Arunachalam		200	2004
0000 A	14133	Instrumental Nadaswaram	MPN Brothers, Jayashankar & Valayapatti, Dr.Sheik Chinna Moulana, Namagiripettai Krishnan, Karaikuruchi Arunachalam		200	2003
0000 A	14134	Sanskrit Recital	Suchitra Krishnamurthy		200	2004
0000 A	14135	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2004
0000 A	14136	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2004
0000 A	14137	Instrumental Nadaswaram	MPN Brothers, Jayashankar & Valayapatti, Dr.Sheik Chinna Moulana, Namagiripettai Krishnan, Karaikuruchi Arunachalam		200	2004
0000 A	14138	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2004
0000 A	14139	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2004
0000 A	14140	Classical Vocal	Sudha Ragunathan, NithyashreeBalamuralikrishna/ MaharajapuramSanthanam, M.L.Vasanthakumari		200	2004
0000 A	14141	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2004
0000 A	14142	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2004
0000 A	14143	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2004
0000 A	14144	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2004
0000 A	14145	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2004
0000 A	14146	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2004
0000 A	14147	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2004
0000 A	14148	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2004
0000 A	14149	Sanskrit Recital	Mrs.Prema Rangarajan		200	2004
0000 A	14150	Classical Vocal	Maharajapuram Santhanam,Balamurali Krishna and Sudha Ragunathan		200	2005
0000A	14151	Classical Vocal	Nithyashree, M.L.Vasanthakumari Sowmya, Sudha Ragunathan		200	1995
0000 A	14152	Classical Vocal	Maharajapuram Santhanam, Nityashree M.L.Vasanthakumari and BalamuraliKrishna		200	1995
0000 A	14153	Classical Vocal	Maharajapuram Santhanam and balamuralikrishna		200	1985
0000 A	14154	Tamil Childrens Songs	T.M.Soundarajan & P.Susheela		100	1985
0000 A	14155	Tamil Childrens Songs	T.M.Soundarajan & P.Susheela		100	1985
0000 A	14156	Tamil Devotional	T.M.Soundararajan		200	1985
0000 A	14157	Classical Vocal	Nithyashree, Sudha Ragunathan Sowmya, M.L.Vasanthakumari		200	2004
0000 A	14158	Tamil Dev.Ganapathy Songs	L.R.Easwari & K.Veeramani		50	2004
0000 A	14159	Tamil Dev.Balaji Songs	Rajkumar Barathi & T.M.Soundararajan		50	2000
0000 A	14160	Tamil Dev.Amman Songs	L.I.Easwari		50	1985

0000 A	14161	Tamil Dev.Sivan Songs	Dharmapuram Swaminathan & Rajkumar Swaminathan		100	1985
0000 A	14162	Tamil Dev.Krishna Songs	P.Susheela & Pithukuli Murugadass		50	1995
0000 A	14163	Calssical Inst-Mridangam	T.V.Gopalakrishnan		200	2004
0000 A	14164	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2000
0000 A	14165	Sacred Pali Recital	Malgudi Shubaa		200	2000
0000 A	14166	Instrumental Veena	Veena.E.Gayathri		200	1985
0000 A	14167	Instrumental Veena	Veena.E.Gayathri		200	2005
0000 A	14168	Tamil Devotional - Ayyappan	T.L.Maharajan		50	2004
0000 A	14169	Om Chanting	Sudha Ragunathan		200	2004
0000 A	14170	Classical Vocal	Sudha Ragunathan		200	2004
0000 A	14171	Sanskrit Recital	Nithyashree Mahadevan		200	2004
0000 A	14172	Sanskrit Recital	Prema Rangarajan		200	1985
0000 A	14173	Sanskrit Recital	Prema Rangarajan		200	1985
0000 A	14174	Instrumental	Instrumental		200	2004
0000 A	14175	Tamil Devotional	L.R.Easwari		50	2004
0000 A	14176	Tamil Devotional	L.R.Easwari		50	2004
0000 A	14177	Sanskrit Recital	Sunitha Nagarajan		200	2004
0000 A	14178	Cl.Instrumental - Veena	E.Gaayathri		200	2004
0000 A	14179	Classical Vocal - Krishna	Sowmya		200	2004
0000A	14180	Classical Vocal - Ganesha	Sowmya		200	2004
0000 A	14181	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2004
0000 A	14182	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2004
0000 A	14183	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2004
0000 A	14184	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2004
0000 A	14185	Sanskrit Recital	R. Vedavalli		200	2004
0000 A	14186	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2004
0000 A	14187	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2004
0000 A	14188	Instrumental	Instrumental		200	2004
0000 A	14189	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2004
0000 A	14190	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2004
0000 A	14191	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2004
0000 A	14192	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2004
0000 A	14193	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2004
0000 A	14194	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2004
0000 A	14195	Sanskrit Recital	Vidya and Nitya		200	2004
0000 A	14196	Classical Instrumental	Various Artists -		200	2004
0000 A	14197	Music Therapy	Music by Aadithyan		200	2005
0000 A	14198	Music Therapy	E.Gaayathri		200	2005
0000 A	14199	Music Therapy	E.Gaayathri		200	2005
0000 A	14200	Music Therapy	Sivaramakrishnan/Kalpana Venkat		200	2005
0000 A	14201	Music Therapy	Music by Aadithyan		200	2005
0000 A	14202	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2005
0000 A	14203	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2005
0000 A	14204	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2005
0000 A	14205	Tamil Devotional - Ayyappan	Manikka Vinayagam		50	2005
0000 A	14206	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2005
0000 A	14207	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2005
0000 A	14208	Tamil Devotional	Bombay Sisters		50	2005
0000A	14209	Classical Instrumental	E.Gaayathri		200	2005
0000 A	14210	Tamil Devotional	Anuradha Sriram		50	2005
0000 A	14211	Tamil Devotional	Anuradha Sriram		50	2005
0000 A	14212	Tamil Devotional	Malgudi Shubaa		50	2005
0000 A	14213	Tamil Devotional	Anuradha Sriram		50	2005
0000 A	14214	Tamil Devotional	Anuradha Sriram		50	2005
0000 A	14215	Classcial Inst Mirudangam	T.V.Gopalakrishnan		200	2005
0000 A	14216	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2005
0000 A	14217	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2005

0000 A	14218	Instrumental	Instrumental		200	2005
0000 A	14219	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2005
0000 A	14220	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2005
0000 A	14221	Instrumental	Instrumental		200	2005
0000 A	14222	Instrumental	T.E.Palaniswamy		200	2005
0000 A	14223	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2005
0000 A	14224	Sanskrit Recital	Sowmya		200	2005
0000 A	14225	Sanskrit Recital	Dakshinamurthy and party		200	2005
0000 A	14226	Tamil Devotional	Smt.R.Vedavalli		200	2005
0000 A	14227	Telegu Devotional	Hyderabad Brothers		200	2005
0000 A	14228	Sanskrit Recital	Prema Rengarajan		200	2005
0000 A	14229	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2005
0000 A	14230	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2005
0000 A	14231	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2005
0000 A	14232	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2005
0000 A	14233	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2005
0000 A	14234	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2005
0000 A	14235	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2005
0000 A	14236	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2005
0000 A	14237	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2005
0000A	14238	Classical Vocal	Smt.Sudha Ragunathan		200	2005
0000 A	14239	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2005
0000 A	14240	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2005
0000 A	14241	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2005
0000 A	14242	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2005
0000 A	14243	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2005
0000 A	14244	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2005
0000 A	14245	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		50	2005
0000 A	14246	Sanskrit Recital	Smt.R.Vedavalli		200	2005
0000 A	14247	Sanskrit Recital	Smt.R.Vedavalli		200	2005
0000 A	14248	Sanskrit Recital	Anuradha Krishnamurthy		200	2005
0000 A	14249	Sanskrit Recital	Bombay Sisters		200	2005
0000 A	14250	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2005
0000 A	14251	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2005
0000 A	14252	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2005
0000 A	14253	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2005
0000 A	14254	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2005
0000 A	14255	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2005
0000 A	14256	Classical Instrumental	Violin - Kunnakudi Vaidyanathan Thavil - Valayapatti A.R.Subramaniam		200	2005
0000 A	14257	Classical Instrumental	Namagiripettai Krishnan		200	2005
0000 A	14258	Classical Instrumental	U.Srinivas		200	2005
0000 A	14259	Classical Instrumental	M.P.N.Sethuraman & Ponnusamy T.A.Kaliyamurthy,V.G.Balasubramaniam		200	2005
0000 A	14260	Classical Instrumental	Kadri Gopalnath, A.K.Palanivel		200	2005
0000 A	14261	Classical Instrumental	E.Gaayathri		200	2005
0000 A	14262	Sanskrit Recital	M.L.Vasantha kumari		200	2005
0000 A	14263	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2005
0000 A	14264	Music Therapy	Dr.Myhtliy,P.Hd. Director, Music Therapy Apollo Hospital		200	2005
0000 A	14265	Classical Instrumental	Instrumental		200	2005
0000 A	14266	Music Therapy	Dr.Myhtliy,P.Hd. Director, Music Therapy Apollo Hospital		200	2005
0000A	14267	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2005
0000 A	14268	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2005
0000 A	14269	Sanskrit Recital	Prema Rengarajan		200	2005
0000 A	14270	Sanskrit Recital	Kadambi Srinathan		200	2005

0000 A	14271	Sanskrit Recital	Kadambi Srinathan		200	2005
0000 A	14272	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		50	2005
0000 A	14273	Tamil Devotional	K.Veeramani		50	2005
0000 A	14274	Tamil Devotional	Unni Krishnan		50	2005
0000 A	14275	Tamil Devotional	Veeramani Daasan		50	2005
0000 A	14276	Music Therapy	Dr.Myhtliy,P.Hd. Director, Music Therapy Apollo Hospital		200	2005
0000 A	14277	Music Therapy	Dr.Myhtliy,P.Hd. Director, Music Therapy Apollo Hospital		200	2005
0000 A	14278	Music Therapy	Dr.Myhtliy,P.Hd. Director, Music Therapy Apollo Hospital		200	2005
0000 A	14279	Music Therapy	Dr.Myhtliy,P.Hd. Director, Music Therapy Apollo Hospital		200	2005
0000 A	14280	Tamil Devotional	Unni Menon		50	2005
0000 A	14281	Tamil Devotional	S.P.Balasubramaniam		50	2005
0000 A	14282	Tamil Devotional	Mahanadhi Shobana		50	2005
0000 A	14283	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2005
0000 A	14284	Tamil Pop	Malgudi Shubaa		100	2005
0000 A	14285	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2005
0000 A	14286	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2005
0000 A	14287	Classical Instrumental	E.Gaayathri		200	2005
0000 A	14288	Classical Instrumental	Kadri Gopalnath - Saxophone		200	2005
0000 A	14289	Classical Instrumental	M.S.Gopalakrishnan - Violin		200	2005
0000 A	14290	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2005
0000 A	14291	Sanskrit Recital	Anuradha Krishnamurthy		200	2005
0000 A	14292	Sanskrit Recital	R.Vedavalli		200	2005
0000 A	14293	Tamil Devotional	R.Vedavalli		200	2005
0000 A	14294	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2005
0000 A	14295	Classical Instrumental	Various Artists		200	2005
0000A	14296	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2005
0000 A	14297	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2005
0000 A	14298	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2005
0000 A	14299	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2005
0000 A	14300	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2005
0000 A	14301	Tamil Devotional - Amman	L.R.Easwari		50	2005
0000 A	14302	Tamil Devotional - Amman	Vani jayaram		50	2005
0000 A	14303	Tamil Devotional - Amman	L.R.Easwari		50	2005
0000 A	14304	Tamil Devotional - Amman	Pushpavanam Kuppuswamy		50	2005
0000 A	14305	Tamil Devotional - Amman	B.S.Sasirekha		50	2005
0000 A	14306	Tamil Devotional - Amman	L.R.Easwari		50	2005
0000 A	14307	Tamil Devotional - Amman	Mahanadhi Shobana		50	2005
0000 A	14308	Tamil Devotional - Amman	Veeramani Daasan		50	2005
0000 A	14309	Tamil Devotional - Amman	Malgudi Shubaa		50	2005
0000 A	14310	Tamil Devotional - Amman	P.Susheela		50	2005
0000A	14311	Tamil Devotional - Murugan	T.M.Soundarajan		50	2005
0000 A	14312	Tamil Devotional - Murugan	L.R.easwari		50	2005
0000 A	14313	Tamil Devotional - Murugan	M.S.Viswanathan		50	2005
0000 A	14314	Tamil Devotional - Murugan	T.M.Soundarajan		50	2005
0000 A	14315	Tamil Devotional - Amman	L.R.Easwari		50	2005
0000 A	14316	Tamil Devotional - Amman	L.R.Easwari		50	2005
0000 A	14317	Tamil Devotional - Amman	T.M.Soundarajan		50	2005
0000 A	14318	Tamil Devotional - Amman	Rajkumar Bharathi		50	2005
0000 A	14319	Tamil Devotional - Amman	Chitra, Vijayalakshmi		50	2005
0000 A	14320	Tamil Devotional - Amman	Chitra, Vijayalakshmi		50	2005
0000 A	14321	Tamil Devotional - Amman	Lalitha Sagari		50	2005
0000 A	14322	Tamil Devotional - Amman	Harini		50	2005
0000 A	14323	Tamil Devotional - Murugan	T.M.Soundarajan		50	2005
0000 A	14324	Tamil Devotional - Murugan	T.M.Soundarajan		50	2005

0000 A	14325	Tamil Devotional - Murugan	Pushpavanam Kuppuswamy			50	2005
0000 A	14326	Tamil Devotional - Murugan	K.Veeramani			50	2005
0000 A	14327	Tamil Devotional - Murugan	P.Susheela			50	2005
0000 A	14328	Tamil Devotional - Ganapathy	Raja raja Cholan			50	2005
0000 A	14329	Tamil Devotional - Murugan	T.M.Soundarajan			50	2005
0000 A	14330	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars			200	2005
0000 A	14331	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars			200	2005
0000 A	14332	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars			200	2005
0000 A	14333	Sanskrit Recital	various Artistes			200	2005
0000 A	14334	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars			200	2005
0000 A	14335	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars			200	2005
0000 A	14336	Tamil Devotional - Meenakshi	K.Veeramani			50	2005
0000 A	14337	Tamil Devotional - Sivan	Unni Krishnan			50	2005
0000 A	14338	Tamil Devotional - Balaji	Shuba,Chitra Alamelu			50	2005
0000 A	14339	Childrens Songs	S.Aishwarya			100	2005
0000A	14340	Childrens Songs	S.Aishwarya			100	2005
0000 A	14341	Childrens Songs	S.Aishwarya			100	2005
0000 A	14342	Childrens Songs	S.Aishwarya			100	2005
0000 A	14343	Tamil Devotional - Murugan	Chitra & Alamelu			50	2005
0000 A	14344	tamil Devotional - balaji	Malgudi Shubaa			50	2005
0000 A	14345	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars			200	2005
0000 A	14346	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars			200	2005
0000 A	14347	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars			200	2005
0000 A	14348	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars			200	2005
0000 A	14349	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars			200	2005
0000 A	14350	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars			200	2005
0000 A	14351	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars			200	2005
0000 A	14352	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars			200	2005
0000 A	14353	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars			200	2005
0000 A	14354	Music Therapy	Vamanan			200	2005
0000 A	14355	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars			200	2005
0000 A	14356	Music Therapy	Dr.T.Mythili - Apollo Hospital, Chennai			200	2005
0000 A	14357	Music Therapy	Dr.T.Mythili - Apollo Hospital, Chennai			200	2005
0000 A	14358	Music Therapy	Dr.T.Mythili - Apollo Hospital, Chennai			200	2005
0000 A	14359	Tamil Devotional - Krishna	Balaji,Shankar,Uma,Radha			50	2005
0000 A	14360	Tamil Devotional - Balaji	Vani jayaram			50	2005
0000 A	14361	Tamil Devotional - Balaji	Parthasarathy			50	2005
0000 A	14362	Tamil Devotional - Balaji	Veeramani kannan			50	2005
0000 A	14363	Tamil Devotional - Murugan	S.Alamelu & S.Pushpa			50	2005
0000 A	14364	Tamil Devotional - Murugan	Shevugan Chetti			50	2005
0000 A	14365	Tamil Devotional - Balaji	Mano,Sindhu			50	2005
0000 A	14366	Tamil devotional - Amman	l.r.Easwari			50	2005
0000 A	14367	Tamil devotional - Amman	l.R.Easwari			50	2005
0000 A	14368	Tamil devotional - Amman	P.Susheela			50	2005
0000A	14369	Tamil devotional - Amman	Vani jayaram			50	2005
0000 A	14370	Tamil Devotional - Balaji	T.M.Soundarajan			50	2005
0000 A	14371	Tamil devotional - Amman	l.R.Easwari			50	2005
0000 A	14372	Tamil devotional - Amman	l.R.Easwari			50	2005
0000 A	14373	Music Therapy	Vamanan			200	2005
0000 A	14374	Tamil Devotional - Ayyappan	Various Artistes			50	2005
0000 A	14375	Tamil Devotional - Ayyappan	Sirkazhi Sivachidambaram			50	2005
0000 A	14376	Tamil Devotional - Ayyappan	K.S.raju			50	2005
0000 A	14377	Tamil Devotional - Ayyappan	L.R.easwari			50	2005
0000 A	14378	Tamil Devotional - Ayyappan	l.R.Easwari			50	2005
0000 A	14379	Tamil Devotional - Ayyappan	l.r.Easwari			50	2005
0000 A	14380	Tamil Devotional - Ayyappan	K.Veeramani			50	2005
0000 A	14381	Tamil Devotional - Ayyappan	Veeramani Raju			50	2005

0000 A	14382	Tamil Devotional - Ayyappan	Sandhya Rajagopal		50	2005
0000 A	14383	Tamil Devotional - Ayyappan	Sirkazhi Sivachidambaram		50	2005
0000 A	14384	Tamil Devotional - Ayyappan	Vamanan		50	2005
0000 A	14385	Tamil Pop	Manikkavinayagam		100	2005
0000 A	14386	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		600	2005
0000 A	14387	Tamil Devotional - Andal	K.Veeramani - radha		50	2005
0000 A	14388	Childrens Songs	Sanjeetha Thangarajan		100	2006
0000 A	14389	Sanskrit Recital	MLV, Thiagarajan/Prema		200	2006
0000 A	14390	Sanskrit Recital	Vedavalli, Thiagarajan, MLV, SPB		200	2006
0000 A	14391	Sanskrit Recital	Nithyashree,SPB, Thiagarajan		200	2006
0000 A	14392	Sanskrit Recital	Sudha, Thiagarajan, Prema Unnikrishna		200	2006
0000 A	14393	Sanskrit Recital	Prema Rengarajan, Sagarika Sridhar		200	2006
0000 A	14394	Childrens Songs	Sanjeetha Thangarajan		100	2006
0000 A	14395	Childrens Songs	Sanjeetha Thangarajan		100	2006
0000 A	14396	Music Therapy	Vamanan		200	2006
0000 A	14397	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2006
0000A	14398	Childrens Songs	Sanjeetha Thangarajan		100	2006
0000 A	14399	Childrens Songs	Sanjeetha Thangarajan		100	2006
0000 A	14400	Dance	Sudharani Raghupathy		200	2006
0000 A	14401	Dance	Sudharani Raghupathy		200	2006
0000 A	14402	Classical Instrumental Violin	GJR Krishnan/Vijayalakshmi		200	2006
0000 A	14403	Hindustani Instrumental	Pandit Manilal Nag/Sankha Chateerjee		200	2006
0000 A	14404	Hindustani Instrumental	Sankha Chateerjee, Madhuri Chattopady		200	2006
0000 A	14405	Classical Instrumental	Various Artists		200	2006
0000 A	14406	Classical Instrumental	Various Artists		200	2006
0000 A	14407	Instrumental	T.Joseph Vijay		200	2006
0000 A	14408	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2006
0000 A	14409	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2006
0000 A	14410	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2006
0000 A	14411	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2006
0000 A	14412	Classical Vocal	Nandhini Anand		200	2006
0000 A	14413	Classical Vocal	Nandhini Anand		200	2006
0000 A	14414	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2006
0000 A	14415	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2006
0000 A	14416	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2006
0000 A	14417	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2006
0000 A	14418	Childrens Songs	Sanjeetha Thangarajan		100	2006
0000 A	14419	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2006
0000 A	14420	Instrumental & Vocal	Various Artists		200	2006
0000 A	14421	Music Therapy	Dr.T.Mythili - Apollo Hospital, Chennai		200	2006
0000 A	14422	Music Therapy	Dr.T.Mythili - Apollo Hospital, Chennai		200	2006
0000 A	14423	Music Therapy	Dr.T.Mythili - Apollo Hospital, Chennai		200	2006
0000 A	14424	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2006
0000 A	14425	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2006
0000 A	14426	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2006
0000A	14427	Classical Vocal	Balasai, Kalpana Venkat, Sivaramakrishnarao		200	2006
0000 A	14428	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2006
0000 A	14429	Music Therapy - Instrumental	Vamanan		200	2006
0000 A	14430	Classica Instrumental	Vamanan & Ramamurthy		200	2007
0000 A	14431	Sanskrit Recital	Sudha Ragunathan		250	2007
0000 A	14432	Vocal	Dri.Chithra Ramakrishnan		200	2007
0000 A	14433	Sanskrit Recital	Mrs.Prema Rangarajan		200	2007
0000 A	14434	Nursery Rhymes for Kids	Shuba Suresh Kailaash		100	2007
0000 A	14435	Dance	Sudharani Raghupathy		200	2007
0000 A	14436	Classical Instruemental - Flute	B.V.Balasai		200	2007

0000 A	14437	Classical Instruemental - Flute	B.V.Balasai		200	2007
0000 A	14438	Classical Instruemental - Flute	B.V.Balasai		200	2007
0000 A	14439	Music Therapy - Instrumental	Vamanan		200	2007
0000 A	14440	Music Therapy - Instrumental	Vamanan		200	2007
0000 A	14441	Tamil Devotional - Amman Songs	P.Susheela		50	2007
0000 A	14442	Tamil Devotional - Hanuman Songs	Balakrishna Sastrigal		50	2007
0000 A	14443	Tamil Devotional - Murugan Songs	Kirupananda Variyar		50	2007
0000 A	14444	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2007
0000 A	14445	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2007
0000 A	14446	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2007
0000 A	14447	Bharatnatyam Dance	Shrekala Bharath		200	2007
0000 A	14448	Bharatnatyam Dance	Shrekala Bharath		200	2007
0000 A	14449	Chakra Meditation - Instrumental	Vamanan		200	2007
0000 A	14450	Chakra Meditation - Instrumental	Vamanan		200	2007
0000 A	14451	Birthday Songs Instrumental	T.joseph Vijay		200	2007
0000 A	14452	Kuchupudi Dance	Srekala Bharath		200	2007
0000 A	14453	Hindi Devotional	Ritika Sahni		200	2007
0000 A	14454	Nursery Rhymes for kids	T.Joseph Vijay		100	2007
0000 A	14455	Chakra Meditation - Instrumental	Vamanan		200	2007
0000A	14456	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2008
0000 A	14457	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2008
0000 A	14458	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2008
0000 A	14459	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2008
0000 A	14460	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2008
0000 A	14461	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2008
0000 A	14462	Music Therapy - Instrumental	T.Joseph Vijay		200	2008
0000 A	14463	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2008
0000 A	14464	Chakra Meditation - Instrumental	Vamanan		200	2008
0000 A	14465	Chakra Meditation - Instrumental	Vamanan		200	2008
0000 A	14466	Chakra Meditation - Instrumental	Vamanan		200	2008
0000 A	14467	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2008
0000 A	14468	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2008
0000 A	14469	Chakra Meditation - Instrumental	Vamanan		200	2008
0000 A	14470	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2008
0000 A	14471	Sanskrit Recital	Ganesha Gayathri Mantra Repetition		125	2008
0000 A	14472	Sanskrit Recital	Hanuman Gayathri Mantra Repetition		125	2008
0000 A	14473	Sanskrit Recital	Krishna Gayathri Mantra Repetition		125	2008
0000 A	14474	Sanskrit Recital	Lakshmi Gayathri Mantra Repetition		125	2008
0000 A	14475	Sanskrit Recital	Saraswathri Gayathri Mantra Repetition		125	2008
0000 A	14476	Sanskrit Recital	Kubera Gayathri Mantra Repetition		125	2008
0000 A	14477	Sanskrit Recital	Navagraha Gayathri Mantra Repetition		125	2008
0000 A	14478	Sanskrit Recital	Vaastu Gayathri Mantra Repetition		125	2008
0000 A	14479	Sanskrit Recital	Shiva Gayathri Mantra Repetition		125	2008
0000 A	14480	Sanskrit Recital	Kaali Gayathri Mantra Repetition		125	2008
0000 A	14481	Sanskrit Recital	Mrytunjaya Gayathri Mantra Repetition		125	2008
0000 A	14482	Sanskrit Recital	Chanting		125	2008
0000 A	14483	Sanskrit Recital	Gayathri mantra for Pregnancy		125	2008
0000 A	14484	Sanskrit Recital	Chants for ayurveda		200	2008
0000A	14485	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2008
0000 A	14486	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2008
0000 A	14487	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2008
0000 A	14488	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2008
0000 A	14489	Instrumental Music	Various Instruments		200	2008
0000 A	14490	Instrumental Music	Various Instruments		200	2008

0000 A	14491	Tamil devotional	Sirkazhi Sivachidambaram		50	2008
0000 A	14492	Instrumental Music	Various Instruments		200	2009
0000 A	14493	Sanskrit Recital	Prema Rengarajan		200	2009
0000 A	14494	Instrumental Music	Various Artists		200	2009
0000 A	14495	Instrumental Music	Various Artists		200	2009
0000 A	14496	Music Therapy	Dr.T.Mythili - Apollo Hospital, Chennai		200	2009
0000 A	14497	Instrumental Music	Pavin mani		200	2009
0000 A	14498	Instrumental Music	Pavin mani		200	2009
0000 A	14499	Instrumental Music	joseph Vijay		200	2009
0000 A	14500	Music Therapy	Dr.T.Mythili - Apollo Hospital, Chennai		200	2009
0000 A	14501	Music Therapy	Dr.T.Mythili - Apollo Hospital, Chennai		200	2009
0000 A	14502	Instrumental Music	joseph Vijay		200	2009
0000 A	14503	Sanskrit Recital	Prof Thiagarajan & Sanskrit Scholars		200	2009
0000 A	14504	Sanskrit Recital	Prof Thiagarajan & Sanskrit Scholars		200	2009
0000 A	14505	Sanskrit Recital	Prof Thiagarajan & Sanskrit Scholars		200	2009
0000 A	14506	Sanskrit Recital	Prof Thiagarajan & Sanskrit Scholars		200	2009
0000 A	14507	Sanskrit Recital	Prof Thiagarajan & Sanskrit Scholars		200	2009
0000 A	14508	Sanskrit Recital	Prof Thiagarajan & Sanskrit Scholars		200	2009
0000 A	14509	Sanskrit Recital	Prof Thiagarajan & Sanskrit Scholars		200	2009
0000 A	14510	Sanskrit Recital	Prof Thiagarajan & Sanskrit Scholars		200	2009
0000 A	14511	Sanskrit Recital	Prof Thiagarajan & Sanskrit Scholars		200	2009
0000 A	14512	Sanskrit Recital	Prof Thiagarajan & Sanskrit Scholars		200	2009
0000 A	14513	Sanskrit Recital	Prof Thiagarajan & Sanskrit Scholars		200	2009
0000A	14514	Sanskrit Recital	Prof Thiagarajan & Sanskrit Scholars		200	2009
0000 A	14515	Instrumental Music	joseph Vijay		100	2009
0000 A	14516	Instrumental Music	joseph Vijay		100	2009
0000 A	14517	Sanskrit Recital	Vamanan		200	2009
0000 A	14518	Instrumental Music	Joseph Vijay		100	2009
0000 A	14519	Instrumental Music	Joseph Vijay		100	2009
0000 A	14520	Instrumental Music	Joseph Vijay		100	2009
0000 A	14521	Instrumental Music	Joseph Vijay		100	2009
0000 A	14522	Instrumental Music	Saashwathi Prabhu		200	2009
0000 A	14523	Instrumental Music	Joseph Vijay		100	2009
0000 A	14524	Instrumental Music	Joseph Vijay		100	2009
0000 A	14525	Sanskrit Recital	Prof Thiagarajan & Sanskrit Scholars		200	2009
0000 A	14526	Instrumental Music	Joseph Vijay		100	2009
0000 A	14527	Instrumental Music	Joseph Vijay		100	2009
0000 A	14528	Instrumental Music + Vocals	Saashwathi Prabhu		200	2009
0000 A	14529	Instrumental Music	Joseph Vijay		100	2009
0000 A	14530	Instrumental Music	Joseph Vijay		100	2009
0000 A	14531	Instrumental Music	Joseph Vijay		100	2009
0000 A	14532	Instrumental Music	Joseph Vijay		100	2009
0000 A	14533	Instrumental Music	Joseph Vijay		100	2010
0000 A	14534	Instrumental Music	Joseph Vijay		100	2010
0000 A	14535	Vocals	Joseph Vijay		100	2010
0000 A	14536	Vocals	Joseph Vijay		100	2010
0000 A	14537	Instrumental Music	Joseph Vijay		200	2010
0000 A	14538	Instrumental Music	Joseph Vijay		200	2010
0000 A	14539	Vocals	Saashwathi Prabhu		200	2010
0000 A	14540	Instrumental Music	Joseph Vijay		200	2010
0000 A	14541	Instrumental Music	Joseph Vijay		200	2010
0000 A	14542	Instrumental Music	Joseph Vijay		200	2010

0000A	14543	Instrumental Music	Joseph Vijay		200	2010
0000 A	14544	Ayyappan Songs	Various Artists		50	2010
0000 A	14545	Instrumental Music	Saashwathi Prabhu		200	2011
0000 A	14546	Instrumental Music	Joseph Vijay		200	2011
0000 A	14547	Classical Music	Sandeep Narayan		200	2011
0000 A	14548	Instrumental Music	B.Sivaramakrishna Rao		200	2011
0000 A	14549	Instrumental Music	B.Sivaramakrishna Rao		200	2011
0000 A	14550	Instrumental Music	B.Sivaramakrishna Rao		200	2011
0000 A	14551	Instrumental Music	B.Sivaramakrishna Rao		200	2011
0000 A	14552	Instrumental Music	B.Sivaramakrishna Rao		200	2011
0000 A	14553	Instrumental Music	B.Sivaramakrishna Rao		200	2011
0000 A	14554	Instrumental Music	B.Sivaramakrishna Rao		200	2011
0000 A	14555	Vocals	Joseph Vijay		100	2011
0000 A	14556	Vocals	Joseph Vijay		100	2011
0000 A	14557	Vocal	Dr.Ananda Balayogi Bhavanani		200	2011
0000 A	14558	Ring tones	Ring tones		49	2011
0000 A	14559	Instrumental Music	Joseph Vijay		200	2011
0000 A	14560	Instrumental Music	Joseph Vijay		200	2011
0000 A	14561	Instrumental Music	Aadithyan Titus		200	2011
0000 A	14562	Sanskrit Recital	Veeramani Kannan		200	2011
0000 A	14563	Instrumental Music	Aadithyan Titus		200	2011
0000 A	14564	Instrumental Music	B.Sivaramakrishna Rao		200	2011
0000 A	14565	Instrumental Music	B.Sivaramakrishna Rao		200	2011
0000 A	14566	Instrumental Music	Joseph Vijay		200	2011
0000 A	14567	Instrumental Music	Joseph Vijay		200	2011
0000 A	14568	Instrumental Music	Joseph Vijay		200	2011
0000 A	14569	Instrumental Music	Aadithyan Titus		200	2011
0000 A	14570	Instrumental Music	Aadithyan Titus		200	2011
0000 A	14571	Instrumental Music	Joseph Vijay		200	2011
0000A	14572	Instrumental Music	Joseph Vijay		200	2011
0000 A	14573	Instrumental Music	Aadithyan Titus		200	2011
0000 A	14574	Instrumental Music	Joseph Vijay		200	2011
0000 A	14575	Instrumental Music	B.Sivaramakrishna Rao		200	2011
0000 A	14576	Instrumental Music	Aadithyan Titus		200	2011
0000 A	14577	Instrumental Music	Aadithyan Titus		200	2011
0000 A	14578	Instrumental Music	Aadithyan Titus		200	2011
0000 A	14579	Instrumental Music	Joseph Vijay		200	2011
0000 A	14580	Instrumental Music	Saashwathi Prabhu		200	2011
0000 A	14581	Instrumental Music	Aadithyan Titus		200	2011
0000 A	14582	Instrumental Music	B.Sivaramakrishna Rao		200	2011
0000 A	14583	Instrumental Music	Joseph Vijay		200	2011
0000 A	14584	Instrumental Music	Joseph Vijay		200	2011
0000 A	14585	Instrumental Music	Aadithyan Titus		200	2011
0000 A	14586	Vocal	Charulatha mani		200	2011
0000 A	14587	Instrumental	B.Sivaramakrishna Rao		200	2012
0000 A	14588	Tam.Devotional	Malgudi Shubaa		50	2004
0000 A	14589	Instrumental Music	Joseph Vijay		200	2011
0000 A	14590	Instrumental Music	B.Sivaramakrishna Rao		200	2014
0000 A	14591	Instrumental Music	B.Sivaramakrishna Rao		200	2014
0000 A	14592	Instrumental Music	B.Sivaramakrishna Rao		200	2014
0000 A	14593	Instrumental Music	B.Sivaramakrishna Rao		200	2014
0000 A	14594	Instrumental Music	B.Sivaramakrishna Rao		200	2014
0000 A	14595	Sanskrit Recital	Veeramani Kannan		200	2014
0000 A	14596	Instrumental Music			200	2014
0000 A	14597	Instrumental Music	Sivaramakrishna Rao. Chandrajith		200	2014
0000 A	14598	Instrumental Music			200	2014
0000 A	14599	Instrumental Music			200	2014

0000 A	14600	Instrumental Music			200	2014
0000 A	14601	Instrumental Music			200	2014
0000 A	14602	Instrumental Music			200	2014
0000 A	14603	Instrumental Music			200	2014
0000 A	14604	Instrumental Music			200	2014
0000 A	14605	Instrumental Music			200	2015
0000 A	14606	Instrumental Music			200	2015
0000 A	14607	Cl.Inst-Violin/Veena/Mandolin/Nadaswaram/Flute	E.Gaayathri/N.Ramani/U.srinivas/Kadri Gopalnath, M.v.Gopalakrishnan/Dr.Sheikh Chinna Moulana/Kunnakudi Vaidyanathan		200	2005
0000 A	14608	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2005
0000 A	14609	Classical Vocal	M.L.Vasanthakumari/Sudha Ragunathan/Balamuralikrishna/ Maharajapuram Santhanam		200	2005
0000 A	14610	Sanskrit Recital	Vedavalli and others		200	2005
0000 A	14611	Tamil Devotional - Amman	L.R.Easwari, Subha,Vani Jeyaram		100	2005
0000 A	14612	Tamil Devotional - Amman	L.R.Easwari,Vani Jeyaram, Subha		100	2005
0000 A	14613	Instrumental	Various Artists		200	2005
0000 A	14614	Instrumental	Various Artists		200	2005
0000 A	14615	Tamil Devotional - Ganpathy	Various Artists		100	2005
0000 A	14616	Tamil Devotional - Murugan	Various Artists		100	2005
0000 A	14617	Classical Vocal	M.L.V & Sudha Ragunathan		200	2005
0000 A	14618	Classical Vocal	MLV,Sudha,Sowmya, Nithyashree		200	2005
0000 A	14619	Folk	T.K.S.Natarajan		125	2005
0000 A	14620	Tamil Devotional - Ayyappan	Various Artists		100	2005
0000 A	14621	Classical Instrumental	Various Artists		200	2005
0000A	14622	Sanskrit Recital	S.P.Balasubramaniam		200	2005
0000 A	14623	Classical Inst. - Nadaswaram	Various Artists		200	2005
0000 A	14624	Classical Instrumental	Various Artists		200	2005
0000 A	14625	Tamil Devotional - Ayyappan	Various Artists		100	2005
0000 A	14626	Tamil Devotional - Amman	Various Artists		100	2006
0000 A	14627	Sanskrit Devotional - Amman	Various Artists		100	2006
0000 A	14628	Tamil Devotional - Murugan	Various Artists		100	2006
0000 A	14629	Tamil Devotional - Murugan	Various Artists		100	2006
0000 A	14630	Tamil Pop Songs	Subha, E.Gaayathri,Adithyan, Chira		100	2006
0000 A	14631	Tamil Devotional - Balaji	Various Artists		100	2006
0000 A	14632	Tamil Devotioanl - Amman	Various Artists		100	2006
0000 A	14633	Tamil Devotional - Ayyappan	Various Artists		100	2006
0000 A	14634	Classical Vocal & Instrumental	Sudha,Bombay Sisters, N.Ramani,T.V.G		200	2006
0000 A	14635	Muslim Devotional Songs	E.M.Haniffa		100	2006
0000 A	14636	Stories and Childrens Songs	P.Susheela,TMS, Sivasankari,Sankaracharya		200	2006
0000 A	14637	Tamil Devotional - Ayyappan	Various Artists		100	2006
0000 A	14638	Tamil Devotional - Ayyappan	Various Artists		100	2006
0000 A	14639	Tamil Devotional - Ayyappan	Various Artists		100	2006
0000 A	14640	Muslim Devotional Songs	E.M.Haniffa		100	2006
0000 A	14641	Muslim Devotional Songs	E.M.Haniffa		100	2006
0000 A	14642	Muslim Devotional Songs	E.M.Haniffa		100	2006
0000 A	14643	Tamil Devotional Songs	Various Artists		100	2006
0000 A	14644	Tamil Devotional Songs	Various Artists		100	2006
0000 A	14645	Tamil Devotional Songs	Various Artists		100	2006
0000 A	14646	Tamil Devotional Songs	Various Artists		100	2006
0000 A	14647	Tamil Devotional Songs	Various Artists		100	2006
0000 A	14648	Tamil Devotional Songs	Various Artists		100	2006
0000 A	14649	Tamil Devotional Songs	Various Artists		100	2006
0000 A	14650	Tamil Devotional Songs	Various Artists		100	2006
0000A	14651	Tamil Devotional Songs	Various Artists		100	2006

0000 A	14652	Tamil Devotional Songs	Various Artists		100	2006
0000 A	14653	Tamil Devotional Songs	Various Artists		100	2006
0000 A	14654	Tamil Devotional Songs	Various Artists		100	2006
0000 A	14655	Tamil Devotional Songs	Various Artists		100	2006
0000 A	14656	Classical Instrumental	Various Artists		200	2006
0000 A	14657	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2007
0000 A	14658	Classical Vocal	Prema Renarajan		200	2007
0000 A	14659	Classical Vocal	Prema Renarajan		200	2007
0000 A	14660	Classical Instrumental	Various Artists		200	2007
0000 A	14661	Classical Instrumental	Dr.Sheikh Chinna Moulana		200	2007
0000 A	14662	Classical Instrumental	Kunnakudi Vaidyanathan		200	2007
0000 A	14663	Classical Instrumental	E.gaayathri		200	2007
0000 A	14664	Classical Vocal/Instrumental	Sudha Ragunathan/T.e.Palaniswamy		200	2008
0000 A	14665	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2007
0000 A	14666	Sanskrit Recital	Sanskrit Scholars		200	2007
0000 A	14667	Bharatnatyam Vocal	Sudha Ragunathan/Sudharani Raghupathy		200	2008
0000 A	14668	Cl.Inst-Flute/Violin	Kunnakudi/Srinivas/Pichumani iyer		200	2000
0000 A	14669	Classical Instrumental	N.Ramani/Chittoor Venkatesan		200	2000
0000 A	14670	Classical Vocal	Sudha/Bombay Sisters/T.V.G		200	2000
0000 A	14671	Meditation DVD	Aum Chanting by Sudha Ragunathan		250	2005
0000 A	14672	Tirupathi Balaji VCD	Sabskrit Recital by Sanskri Scholars		300	2005
0000 A	14673	108 Gayathri's Video Shoot	Sanskrit Recital by Sanskrit Scholars		300	2005
0000 A	14674	Slokas for Children	Sanskrit Recital by Sanskrit Scholars		300	2005
0000 A	14675	Shots of Hanuman at diff places	Sanskrit Recital by Sanskrit Scholars		300	2005
0000 A	14676	Gayathri shot at diff places	Sanskrit Recital by Sanskrit Scholars		300	2005
0000 A	14677	Ganapathi Shots	Sanskrit Recital by Sanskrit Scholars		300	2005
0000 A	14678	Shoot of Sri Lalitha and pooja	Sanskrit Recital by Sanskrit Scholars		300	
0000 A	14679	Lalitha shot at diff places	Sudha Ragunathan		300	2005
0000A	14680	Pranayama shot at Pondy	Ananda Ashramam at Pondicherry		300	2005
0000 A	14681	Satyanarayana shot in Andhra	Sanskrit Recital by Sanskrit Scholars		300	2006
0000 A	14682	Bharatnatyam Dance Shot	Sudharani Raghupaty		300	2006
0000 A	14683	Shot at Sri Ramakrishna Mutt	Students of Sri Ramakrishna Math		350	2006
0000 A	14684	Yoga shot at ICYER Pondy	Ananda Ashramam at Pondicherry		350	2006
0000 A	14685	Yoga shot at ICYER Pondy	Ananda Ashramam at Pondicherry		350	2006
0000 A	14686	Animation Short Stories	Short stories from Mahabaratha		150	2006
0000 A	14687	Animation Short Stories	Short stories from Mahabaratha		150	2006
0000 A	14688	Yoga shot at ICYER Pondy	Ananda Ashramam at Pondicherry		350	2006
0000 A	14689	Yoga shot at ICYER Pondy	Ananda Ashramam at Pondicherry		350	2006
0000 A	14690	Bharatnatyam Dance Shot	Sudharani Raghupaty & Bharathalaya		350	2006
0000 A	14691	Bharatnatyam Dance Shot	Sudharani Raghupaty & Bharathalaya		350	2006
0000 A	14692	Animation Short Stories	Six Short Stories of Hanuman		150	2006
0000 A	14693	Animation Short Stories	Eight stories of Krishna		150	2006
0000 A	14694	Animation Short Stories	Six moral stories from Jataka tales		150	2006
0000 A	14695	Animation Short Stories	Short stories from Mahabaratha		150	2006
0000 A	14696	Bharatnatyam Dance Shot	Sudharani Raghupaty		350	2006
0000 A	14697	Bharatnatyam Dance Shot	Sudharani Raghupaty		350	2006
0000 A	14698	Live at Alliance Francaise	Balasai, Sivaramakrishna Rao		350	2006
0000 A	14699	Animation Short Stories	Short stories from Mahabaratha		150	2006
0000 A	14700	Nursery Rhymes Animation	Aishwarya		150	2007

0000 A	14701	Nursery Rhymes Animation	Aishwarya		150	2007
0000 A	14702	Nursery Rhymes Animation	Aishwarya		150	2007
0000 A	14703	Nursery Rhymes Animation	Aishwarya		150	2007
0000 A	14704	Animation Short Stories	Short stories of Tenali Raman		150	2007
0000 A	14705	Yoga shot at ICYER Pondy	Ananda Ashramam at Pondicherry		350	2007
0000 A	14706	Animation Short Stories	Short stories from Mahabaratha		150	2007
0000 A	14707	Animation Short Stories	Tales from Panchatantra		150	2007
0000 A	14708	Animation Short Stories	Short stories from Mahabaratha		150	2007
0000A	14709	Animation Short Stories	Short Stories of Akbar and Birbal		150	2007
0000 A	14710	Animation Short Stories	Short Stories of Sita & Lav Kush		150	2007
0000 A	14711	Animation Short Stories	Short Stories of Vishnu & lakshmi		150	2007
0000 A	14712	Shot at Sri Ramakrishna Mutt	Students of Sri Ramakrishna Math		150	2006
0000 A	14713	Pranayama shot at Pondy	Ananda Ashramam at Pondicherry		150	2007
0000 A	14714	Bharatnatyam Dance	Shrekala Bharath		350	2007
0000 A	14715	Bharatnatyam Dance	Shrekala Bharath		350	2007
0000 A	14716	Kuchupudi Dance	Srekala Bharath		350	2007
0000 A	14717	Animation Short Stories	Short stories from Mahabaratha		150	2007
0000 A	14718	Yoga shot at ICYER Pondy	Ananda Ashramam at Pondicherry		350	2007
0000 A	14719	Animation Short Stories	Balakandam		150	2007
0000 A	14720	Animation Short Stories	Aranya Kandam Vol.1 and Vol.2		150	2007
0000 A	14721	Animation Short Stories	Aranya Kandam		150	2007
0000 A	14722	Animation Short Stories	Aranya Kandam		150	2007
0000 A	14723	Animation Short Stories	Aranya Kandam		150	2007
0000 A	14724	Animation Short Stories	Aranya Kandam		150	2007
0000 A	14725	Animation Short Stories	Short stories from Shiv Purana		150	2007
0000 A	14726	Live shoot of Sitar Teaching.	Sivaramakrishnan		350	2007
0000 A	14727	Live shoot of Tabla Teaching.	Anand Ramanujam		350	2007
0000 A	14728	Live shoot of Mridangam Teaching	Mridangam Teaching		350	2007
0000 A	14729	Nursery Rhymes for Kids	Shuba Suresh Kailaash		150	2008
0000 A	14730	Animation Short Stories	Animated Stories of Sai Baba		300	2007
0000 A	14731	Animation Short Stories	Animated Stories of Harishchandra		150	2008
0000 A	14732	Animation Short Stories	Animated Stories of Vivekananda		150	2008
0000 A	14733	Bharatnatyam Dance	Anirudha and Suharani Raghupathy		350	2008
0000 A	14734	Bharatnatyam Dance	Anirudha and Suharani Raghupathy		350	2008
0000 A	14735	Animation Short Stories	Animated Stories of Shirdi Saibaba		150	2008
0000 A	14736	Animation Short Stories	Animated Stories of Mullah Nassiruddin		150	2008
0000 A	14737	Animation Short Stories	Animated Stories of Lord Ganesha		150	2008
0000A	14738	Animation Short Stories	Animated Short Stories		150	2008
0000 A	14739	Animation Short Stories	Animated Short Stories		150	2008
0000 A	14740	Animation Short Stories	Animated Short Stories		150	2008
0000 A	14741	Animation Short Stories	Animated Short Stories		150	2008
0000 A	14742	Live shooting of Flute Teaching	Flute Teaching		350	2008
0000 A	14743	Live Shooting of Guitar Teaching	Guitar Teaching		350	2008
0000 A	14744	Live Shooting of Mridungam teaching.	Harmonium Teaching		350	2008
0000 A	14745	Live shooting of temples in tamilnadu	Vamanan		200	2008
0000 A	14746	Yoga shot at ICYER Pondy	Ananda Ashramam at Pondicherry		350	2007
0000 A	14747	Bharatnatyam Dance	Anirudha and Suharani Raghupathy		350	2007
0000 A	14748	Bharatnatyam Dance	Anirudha and Suharani Raghupathy		350	2007
0000 A	14749	Bharatnatyam Dance	Anirudha and Suharani Raghupathy		350	2007
0000 A	14750	Animation Short Stories	Short stories from Mahabaratha		150	2007

0000 A	14751	Animation Short Stories	Short stories from Mahabaratha		150	2007
0000 A	14752	Animation Short Stories	Short stories from Mahabaratha		150	2007
0000 A	14753	Animation Short Stories	Short stories from Mahabaratha		150	2007
0000 A	14754	Animation Short Stories	Short stories from Mahabaratha		150	2007
0000 A	14755	Animation Short Stories	Six moral stories from Jataka tales		150	2008
0000 A	14756	Animation Short Stories	Short stories from Mahabaratha		150	2008
0000 A	14757	Animation Short Stories	Short stories of Ghatotkacha and Kumbakaran		150	2008
0000 A	14758	Shooting of Lord Shiva and Temples	Lord Shiva and Temples of Lord Shiva		200	2008
0000 A	14759	Animated Short Stories	Stories from tales of Panchatantra		150	2008
0000 A	14760	Animated Short Stories	Jhansi Rani, Tippu Sultan, Prithviraj, Sivaji		150	2008
0000 A	14761	Animated Short Stories	Short animted stories		150	2008
0000 A	14762	Animated Short Stories	Short animted stories		150	2008
0000 A	14763	Animated Short Stories	Short animted stories		150	2008
0000 A	14764	Animated Short Stories	Short animted stories		150	2008
0000 A	14765	Animated Short Stories	Short animted stories		150	2008
0000 A	14766	Bharatanatyam Dance	Krishnaswamy Associates		350	2008
0000A	14767	Animated Short Stories	Short animted stories		150	2008
0000 A	14768	Bharatnatyam Dance - Learn	Shrekala Bharath		350	2008
0000 A	14769	Bharatnatyam Dance - Learn	Shrekala Bharath		350	2008
0000 A	14770	Bharatnatyam Dance - Learn	Shrekala Bharath		350	2008
0000 A	14771	Bharatnatyam Dance - Learn	Shrekala Bharath		350	2008
0000 A	14772	Yoga shot at ICYER Pondy	Ananda Ashramam at Pondicherry		350	2008
0000 A	14773	Yoga shot at ICYER Pondy	Ananda Ashramam at Pondicherry		350	2008
0000 A	14774	Yoga shot at ICYER Pondy	Ananda Ashramam at Pondicherry		350	2008
0000 A	14775	Yoga shot at ICYER Pondy	Ananda Ashramam at Pondicherry		350	2008
0000 A	14776	Yoga shot at ICYER Pondy	Ananda Ashramam at Pondicherry		350	2008
0000 A	14777	Animated Short Stories	Short animted stories		150	2008
0000 A	14778	Animated Short Stories	Short animted stories		150	2008
0000 A	14779	Animated Short Stories	Short animted stories		150	2008
0000 A	14780	Animated Short Stories	Short animted stories		150	2008
0000 A	14781	Animated Short Stories	Short animted stories		150	2008
0000 A	14782	Animated Short Stories	Short animted stories		150	2008
0000 A	14783	Animated Short Stories	Short animted stories		150	2008
0000 A	14784	Bharatanatyam Dance	Krishnaswamy Associates		350	2008
0000 A	14785	Bharatanatyam Dance	Krishnaswamy Associates		350	2008
0000 A	14786	Bharatanatyam Dance	Krishnaswamy Associates		350	2008
0000 A	14787	Bharatanatyam Dance	Krishnaswamy Associates		350	2008
0000 A	14788	Bharatanatyam Dance	Krishnaswamy Associates		350	2008
0000 A	14789	Bharatanatyam Dance	Krishnaswamy Associates		350	2008
0000 A	14790	Bharatanatyam Dance	Krishnaswamy Associates		350	2008
0000 A	14791	Bharatanatyam Dance	Krishnaswamy Associates		350	2008
0000 A	14792	Bharatanatyam Dance	Krishnaswamy Associates		350	2008
0000 A	14793	Animated Short Stories	Short animted stories		150	209
0000 A	14794	Animated Short Stories	Short animted stories		150	2009
0000 A	14795	Animated Short Stories	Short animted stories		150	2009
0000A	14796	Animated Short Stories	Short animted stories		150	2009
0000 A	14797	Animated Short Stories	Short animted stories		150	2009
0000 A	14798	Animated Short Stories	Short animted stories		150	2009
0000 A	14799	Animated Short Storie	Short animted stories		150	2009
0000 A	14800	Animated Short Storie	Short animted stories		150	2009
0000 A	14801	Animated Short Storie	Short animted stories		150	2009
0000 A	14802	Bharatanatyam Dance	Krishnaswamy Associates		350	2009
0000 A	14803	Bharatanatyam Dance	Krishnaswamy Associates		350	2009

0000 A	14804	Bharatanatyam Dance	Krishnaswamy Associates		350	2009
0000 A	14805	Bharatanatyam Dance	Krishnaswamy Associates		350	2009
0000 A	14806	Bharatanatyam Dance	Krishnaswamy Associates		350	2009
0000 A	14807	Bharatanatyam Dance	Krishnaswamy Associates		350	2009
0000 A	14808	Shooting of Gods and Goddesses	Vamanan		150	2009
0000 A	14809	Live Shooting of the Tabla Teaching			350	2009
0000 A	14810	Live Shooting of the Tabla Teaching			350	2009
0000A	14811	Live Shooting of the Keyboard Teaching			350	2009
0000 A	14812	Animated Short Storie	Short animted stories		150	2009
0000 A	14813	Animated Short Storie	Short animted stories		150	2009
0000 A	14814	Animated Short Storie	Short animted stories		150	2009
0000 A	14815	Live Shooting of the Saxophone Teaching			350	2009
0000 A	14816	Live Shooting of the Saxophone Teaching			350	2009
0000 A	14817	Live Shooting of the Ghatam Teaching			350	2009
0000 A	14818	Live Shooting of Ethnic Instruments			350	2009
0000 A	14819	Live Shooting of Ethnic Instruments			350	2009
0000 A	14820	Live Shooting of Ethnic Instruments			350	2009
0000 A	14821	Yoga shot at ICYER Pondy	Ananda Ashramam at Pondicherry		350	2009
0000 A	14822	Yoga shot at ICYER Pondy	Ananda Ashramam at Pondicherry		350	2009
0000 A	14823	Yoga shot at ICYER Pondy	Ananda Ashramam at Pondicherry		350	2009
0000 A	14824	Animated Short Stories	Short animted stories		150	2009
0000 A	14825	Animated Short Stories	Short animted stories		150	2010
0000 A	14826	Animated Short Stories	Short animted stories		150	2010
0000 A	14827	Animated Short Stories	Learn numbers, time and multiplication.		150	2010
0000 A	14828	Animated Short Stories	Learn animals		150	2010
0000 A	14829	Animated Short Stories	Learn numbers, time and multiplication.		150	2010
0000 A	14830	Animated Short Stories	Learn colours		150	2010
0000 A	14831	Animated Short Stories	Lullabies		150	2010
0000 A	14832	Animated Short Stories	Learn Alphabets and colours		150	2010
0000 A	14833	Animated Short Stories	Learn Alphabets and colours		150	2010
0000 A	14834	Animated Short Stories	Learn Alphabets and colours		150	2010
0000 A	14835	Cooking reciepes for diabetes	Cooking reciepes for diabetes		200	2010
0000 A	14836	Cooking reciepes for weight loss	Cooking reciepes for weight loss		200	2010
0000 A	14837	Cooking reciepes for heart diseases	Cooking reciepes for heart diseases		200	2010
0000 A	14838	Animated Short Stories	Lullabies		150	2010
0000 A	14839	Animated Short Stories	Party Songs animated		150	2010
0000A	14840	Animated Short Stories	Party Songs animated		150	2010
0000 A	14841	Golden Temple - Amritsar	Golden Temple - Amritsar		200	2010
0000 A	14842	Live shooting of learning the veena	E.Gaayathri		350	2010
0000 A	14843	Live shooting of learning the veena	E.Gaayathri		350	2010
0000 A	14844	Live shooting of learning the violin	Kalpana Venkat		350	2010
0000 A	14845	Live shooting of learning the mandolin	U.P.Raju		350	2010
0000 A	14846	Live shooting of learning the guitar	Joseph Vijay		350	2010
0000 A	14847	Live shooting of learning the piano	Sandhya V.Kumar		350	2010
0000 A	14848	Live shooting of learning the drums	Muralikrishna		350	2010
0000 A	14849	Live shooting of learning the sitar	Sivaramakrishna rao		350	2010
0000 A	14850	Animated Short Stories	Animated Short Stories		200	2010
0000 A	14851	Ayurvedic home Remedies	Ayurvedic home Remedies		200	2010
0000 A	14852	Ayurvedic home Remedies	Ayurvedic home Remedies		200	2010
0000 A	14853	Ayurvedic home Remedies	Ayurvedic home Remedies		200	2010
0000 A	14854	Ayurvedic home Remedies	Ayurvedic home Remedies		200	2010
0000 A	14855	Ayurvedic home Remedies	Ayurvedic home Remedies		200	2010
0000 A	14856	Ayurvedic home Remedies	Ayurvedic home Remedies		200	2010
0000 A	14857	Ayurvedic home Remedies	Ayurvedic home Remedies		200	2010

0000 A	14858	Ayurvedic home Remedies	Ayurvedic home Remedies		200	2010
0000 A	14859	Animated Short Stories	Animated Short Stories		150	2010
0000 A	14860	Live Shooting of Foot Reflexology	Live Shooting of Foot Reflexology		200	2011
0000 A	14861	Live Shooting of Thai Massage	Live Shooting of Thai Massage		200	2011
0000 A	14862	Live Shooting of Srilankan Cooking	Live Shooting of Srilankan Cooking		150	2011
0000 A	14863	Animated Nursery Rhymes	Animated Nursery Rhymes		150	2011
0000 A	14864	Live Shooting of Srilankan Cooking	Live Shooting of Srilankan Cooking		150	2011
0000 A	14865	Documentary	Documentary		200	2011
0000 A	14866	Learn to sing carnatic vocal	Sowmya		350	2011
0000 A	14867	Learn to sing carnatic vocal	Sowmya		350	2011
0000 A	14868	Learn to Sing Hindustani Vocal - 1	Dr.Ramdeshpande		350	2011
0000A	14869	Learn to Sing Hindustani Vocal - 2	Dr.Ramdeshpande		350	2011
0000 A	14870	Dance Basic Lessons	Srekala Bharath		350	2011
0000 A	14871	Dance Basic Lessons	Srekala Bharath		350	2011
0000 A	14872	Dance Basic Lessons	Srekala Bharath		350	2011
0000 A	14873	Dance Basic Lessons	Srekala Bharath		350	2011
0000 A	14874	Education Series	Children Encyclopedia		200	2012
0000 A	14875	Education Series	Children Encyclopedia		200	2012
0000 A	14876	Education Series	Children Encyclopedia		200	2012
0000 A	14877	Education Series	Children Encyclopedia		200	2012
0000 A	14878	Yoga shot at ICYER Pondy	Ananda Ashramam at Pondicherry		350	2012
0000 A	14879	Dance Basic Lessons	Pali Chandra		350	2012
0000 A	14880	Dance Basic Lessons	Gopika Varma		350	2012
0000 A	14881	Education Series	Children Encyclopedia		200	2012
0000 A	14882	Education Series	Children Encyclopedia		200	2012
0000 A	14883	Documentary	Live Shooting at Varanasi		200	2012
0000 A	14884	Documentary	Live Shooting at Khajuraho		200	2012
0000 A	14885	Learn to sing Carnatic Vocal	Dr.M.Balamuralikrisna		350	2012
0000 A	14886	Learn to sing Carnatic Vocal	Charulatha Mani		350	2014
0000 A	14887	Dance Basic Lessons	Ramya Tirumala			
0000 A	14888	Aum Colour Meditatio	Aum chanting by Sudha Ragunathan		150	2005
0000 A	14889	Devotional vinayak vcd	Sanskrit Scholars		150	2005
0000 A	14890	Devotional venkatesa vcd	Sanskrit Scholars		150	2005
0000 A	14891	Devotional sivan vcd	Sanskrit Scholars		150	2005
0000 A	14892	Pranayama shot at pondy	Ananda Ashramam at Pondicherry		100	2005
0000 A	14893	Devotional satyanarayana vcd	Sanskrit Scholars		150	2005
0000 A	14894	Devotional slokas for kids	Sanskrit Scholars		150	2005
0000 A	14895	Animated stories of arjuna	Animated stories of Mahabaratha		100	2006
0000 A	14896	Animted stories of karna	Animated stories of Mahabaratha		100	2006
0000 A	14897	Bharatnatyam dance	Sudharani Raghupaty & Bharathalaya		150	2006
0000A	14898	Animated stories of bhishma	Animated stories of Mahabaratha		100	2006
0000 A	14899	Animated stories of drona	Animated stories of Mahabaratha		100	2006
0000 A	14900	Yoga shot at ramakrishnamutt	Students of Sri Ramakrishna Mutt		200	2006
0000 A	14901	Yoga shot at ICYER Pondy	Ananda Ashramam at Pondicherry		200	2006
0000 A	14902	Yoga shot at ICYER Pondy	Ananda Ashramam at Pondicherry		200	2006
0000 A	14903	Yoga shot at ICYER Pondy	Ananda Ashramam at Pondicherry		200	2006
0000 A	14904	Yoga shot at ICYER Pondy	Ananda Ashramam at Pondicherry		150	2006
0000 A	14905	Bharatnatyam Dance Shot	Sudharani Raghupaty & Bharathalaya		250	2006
0000 A	14906	Bharatnatyam Dance Shot	Sudharani Raghupaty & Bharathalaya		150	2006
0000 A	14907	Animation Short Stories	Six Short Stories of Hanuman		150	2006
0000 A	14908	Animation Short Stories	Four Short Stories		100	2006

0000 A	14909	Animation Short Stories	Four Short Stories		100	2006
0000 A	14910	Animation Short Stories	Six short stories from Jataka Tales		100	2006
0000 A	14911	Animation Short Stories	Six short stories from Jataka Tales		100	2006
0000 A	14912	Animated stories of Bhima	Animated stories of Mahabaratha		100	2006
0000 A	14913	Animated stories of Ekalavya	Animated stories of Mahabaratha		100	2006
0000 A	14914	Bharatnatyam dance	Sudharani Raghupaty & Bharathalaya		150	2006
0000 A	14915	Bharatnatyam dance	Sudharani Raghupaty & Bharathalaya		150	2006
0000 A	14916	Animation Short Stories	Short stories from Mahabaratha		100	2006
0000 A	14917	Animation Short Stories	Short stories from Mahabaratha		100	2007
0000 A	14918	Animation Short Stories	Short Stories of Tenali Raman		100	2007
0000 A	14919	Animation Short Stories	Short Stories of Tenali Raman		100	2007
0000 A	14920	Animation Short Stories	Short stories from Mahabaratha		100	2007
0000 A	14921	Animation Short Stories	Short stories from Mahabaratha		100	2007
0000 A	14922	Animation Short Stories	Short stories from Panchatantra		100	2007
0000 A	14923	Animation Short Stories	Short stories from Panchatantra		100	2007
0000 A	14924	Animation Short Stories	Short stories from Mahabaratha		100	2007
0000 A	14925	Animation Short Stories	Short stories from Mahabaratha		100	2007
0000 A	14926	Animation Short Stories	Short stories of Akbar and Birbal		100	2007
0000A	14927	Animation Short Stories	Short stories of Akbar and Birbal		100	2007
0000 A	14928	Animation Short Stories	Short stories from Ramayana		100	2007
0000 A	14929	Animation Short Stories	Short stories from Ramayana		100	2007
0000 A	14930	Animation Short Stories	Short stories of Lord Vishnu		100	2007
0000 A	14931	Animation Short Stories	Short stories of Goddess Lakshmi		100	2007
0000 A	14932	Bharatnatyam Dance	Shrekala Bharath		150	2007
0000 A	14933	Bharatnatyam Dance	Shrekala Bharath		150	2007
0000 A	14934	Kuchupudi Dance	Srekala Bharath		150	2007
0000 A	14935	Animation Short Stories	Short stories from Mahabaratha		100	2007
0000 A	14936	Yoga shot at ICYER Pondy	Ananda Ashramam at Pondicherry		150	2007
0000 A	14937	Yoga shot at ICYER Pondy	Ananda Ashramam at Pondicherry		150	2007
0000 A	14938	Animation Short Stories	Balakandam		100	2007
0000 A	14939	Animation Short Stories	Aranya Kandam		100	2007
0000 A	14940	Animation Short Stories	Kishkinda Kandam		100	2007
0000 A	14941	Animation Short Stories	Sundara Kandam		100	2007
0000 A	14942	Animation Short Stories	Yuddha Kandam		100	2007
0000 A	14943	Animation Short Stories	Uttara Kandam		100	2007
0000 A	14944	Animation Short Stories	Animated stories from Shiv Purana		100	2007
0000 A	14945	Animation Short Stories	Animated stories from Shiv Purana		100	2007
0000 A	14946	Live shoot of Sitar Teaching.	Sivaramakrishnan		150	2007
0000 A	14947	Live shoot of Tabla Teaching.	Anand Ramanujam		150	2007
0000 A	14948	Live shoot of Mridangam			150	2007
0000 A	14949	Animation Short Stories	Balakandam - in tamil		100	2007
0000 A	14950	Animation Short Stories	Aranya Kandam - in tamil		100	2007
0000 A	14951	Animation Short Stories	Kishkinda Kandam - in tamil		100	2007
0000 A	14952	Animation Short Stories	Sundara Kandam in tamil		100	2007
0000 A	14953	Animation Short Stories	Yuddha Kandam - in tamil		100	2007
0000 A	14954	Animation Short Stories	Uttara Kandam - in tamil		100	2007
0000 A	14955	Animation Short Stories	Animated Stories of Sai Baba		100	2007
0000A	14956	Animation Short Stories	Animated Stories of Harishchandra		100	2007
0000 A	14957	Animation Short Stories	Animated Stories of Vivekananda		100	2007

0000 A	14958	Bharatnatyam dance	Sudharani Raghupaty & Bharathalaya		150	2007
0000 A	14959	Bharatnatyam dance	Sudharani Raghupaty & Bharathalaya		150	2007
0000 A	14960	Animation Short Stories	Animated Stories of Mullah Nassiruddin		100	2008
0000 A	14961	Animation Short Stories	Animated Stories of Lord Ganesha		100	2008
0000 A	14962	Animation Short Stories	Animated Short Stories		100	2008
0000 A	14963	Animation Short Stories	Animated Short Stories		100	2008
0000 A	14964	Live shooting of Flute Teaching			150	2008
0000 A	14965	Live Shooting of Guitar Teaching			150	2008
0000 A	14966	Live Shooting of Mridungam teaching.			150	2008
0000 A	14967	Yoga shot at ICYER Pondy	Ananda Ashramam at Pondicherry		150	2008
0000 A	14968	Bharatnatyam Dance	Anirudha and Suharani Raghupathy		150	2008
0000 A	14969	Bharatnatyam Dance	Anirudha and Suharani Raghupathy		150	2008
0000 A	14970	Bharatnatyam Dance	Anirudha and Suharani Raghupathy		150	2008
0000 A	14971	Live shooting of temples in tamilnadu	Vamanan		100	2008
0000 A	14972	Animation Short Stories	Short stories from Panchatantra		100	2007
0000 A	14973	Animation Short Stories	Animated Stories of Lord Ganesha		100	2008
0000 A	14974	Animation Short Stories	Short stories from Panchatantra		100	2007
0000 A	14975	Animation Short Stories	Animated Short Stories		100	2008
0000 A	14976	Animation Short Stories	Animated Short Stories		100	2008
0000 A	14977	Animation Short Stories	Animated Short Stories		100	2008
0000 A	14978	Animation Short Stories	Animated Short Stories		100	2008
0000 A	14979	Animation Short Stories	Animated Short Stories		100	2008
0000 A	14980	Animation Short Stories	Animated Short Stories		100	2008
0000 A	14981	Animation Short Stories	Animated Short Stories		100	2008
0000 A	14982	Animation Short Stories	Animated Short Stories		100	2008
0000 A	14983	Animation Short Stories	Animated Short Stories		100	2008
0000 A	14984	Animation Short Stories	Animated Short Stories		100	2008
0000A	14985	Animation Short Stories	Animated Short Stories		100	2008
0000 A	14986	Animation Short Stories	Animated Short Stories		100	2008
0000 A	14987	Animation Short Stories	Animated Short Stories		100	2008
0000 A	14988	Animation Short Stories	Animated Short Stories		100	2008
0000 A	14989	Animated Short Stories	Animated Short Stories		100	2008
0000 A	14990	Animated Short Stories	Animated Short Stories		100	2008
0000 A	14991	Animated Short Stories	Animated Short Stories		100	2008
0000 A	14992	Animated Short Stories	Animated Short Stories		100	2008
0000 A	14993	Animated Short Stories	Animated Short Stories		100	2008
0000 A	14994	Bharatanatyam Dance	Krishnaswamy Associates		150	2008
0000 A	14995	Bharatanatyam Dance	Krishnaswamy Associates		150	2008
0000 A	14996	Bharatanatyam Dance	Krishnaswamy Associates		150	2008
0000 A	14997	Bharatanatyam Dance	Krishnaswamy Associates		150	2008
0000 A	14998	Bharatnatyam Dance - Learn	Shrekala Bharath		150	2008
0000 A	14999	Bharatnatyam Dance - Learn	Shrekala Bharath		150	2008
0000 A	15000	Bharatnatyam Dance - Learn	Shrekala Bharath		150	2008
0000 A	15001	Bharatnatyam Dance - Learn	Shrekala Bharath		150	2008
0000 A	15002	Yoga shot at ICYER Pondy	Ananda Ashramam at Pondicherry		150	2008
0000 A	15003	Yoga shot at ICYER Pondy	Ananda Ashramam at Pondicherry		150	2008
0000 A	15004	Yoga shot at ICYER Pondy	Ananda Ashramam at Pondicherry		150	2008
0000 A	15005	Yoga shot at ICYER Pondy	Ananda Ashramam at Pondicherry		150	2008
0000 A	15006	Yoga shot at ICYER Pondy	Ananda Ashramam at Pondicherry		150	2008
0000 A	15007	Bharatanatyam Dance	Krishnaswamy Associates		150	2008
0000 A	15008	Bharatanatyam Dance	Krishnaswamy Associates		150	2008
0000 A	15009	Bharatanatyam Dance	Krishnaswamy Associates		150	2008

0000 A	15010	Bharatanatyam Dance	Krishnaswamy Associates		150	2008
0000 A	15011	Bharatanatyam Dance	Krishnaswamy Associates		150	2008
0000 A	15012	Bharatanatyam Dance	Krishnaswamy Associates		150	2008
0000 A	15013	SANSKRIT RECITAL				
0000A	15014	Free book with text and	VARIOUS ARTISTS - SANSKRIT SCHOLARS			
0000 A	15015	translation by Dr. Annie besant			600	
0000 A	15016	SANSKRIT RECITAL				
0000 A	15017	Free 20 Incense cones with stand				
0000 A	15018		VARIOUS ARTISTS - SANSKRIT SCHOLARS		400	
0000 A	15019	SANSKRIT RECITAL				
0000 A	15020	Free 10 incense cone & 3 candles	VARIOUS ARTISTS - SANSKRIT SCHOLARS			
0000 A	15021	SANSKRIT RECITAL				
0000 A	15022	Gem stone painting.	VARIOUS ARTISTS - SANSKRIT SCHOLARS		300	
0000 A	15023	SANSKRIT RECITAL				
0000 A	15024	Free Soundarya Lahari Book	DR.M.L.VASANTHAKUMARI		250	
0000 A	15025	with translation				
0000 A	15026	SOUNDARYA LAHARI	DR.M.L.VASANTHAKUMARI			
0000 A	15027	SRI LALITHA SAHASRANAMAM	SUDHA RAGUNATHAN		400	
0000 A	15028	CLASSICAL VOCAL	SUDHA RAGUNATHAN			
0000 A	15029	MAGIC VOICE OF SUDHA	SUDHA RAGUNATHAN		400	
0000 A	15030	MARRIAGE SONGS	SUDHA RAGUNATHAN			
0000 A	15031	MARRIAGE SONGS - NADASWA	T.E.PALANISWAMY		400	
0000 A	15032	NADASWARAM	DR.SHEIKH CHINNA MOULANA			
0000 A	15033	NADASWARAM	JAYASHANKAR & VALAYAPATTI		400	
0000 A	15034	SAXOPHONE	KADRI GOPALNATH			
0000 A	15035	SAXOPHONE	KADRI GOPALNATH		400	
0000 A	15036	SAXOPHONE	KADRI GOPALNATH			
0000 A	15037	SAXOPHONE	KADRI GOPALNATH		400	
0000 A	15038	SAXOPHONE	KADRI GOPALNATH			
0000 A	15039	SAXOPHONE	KADRI GOPALNATH		400	
0000 A	15040	CLASSICAL VOCAL	DR.M.L.VASANTHAKUMARI			
0000 A	15041	GOLDEN GREATS	DR.M.L.VASANTHAKUMARI		400	
0000 A	15042	CLASSICAL MUSIC INSTRUMENTAL	VARIOUS ARTISTS			
0000A	15043	CLASSICAL MUSIC INSTRUMENTAL	VARIOUS ARTISTS		400	
0000 A	15044	NADA VINODAM	KUNNAKUDI.R.VAIDYANAT HAN			
0000 A	15045	VIOLIN	KUNNAKUDI.R.VAIDYANAT HAN		400	
0000 A	15046	MANDOLIN MELODIES	U.SRINIVAS			
0000 A	15047	MANDOLIN.	U.SRINIVAS		400	
0000 A	15048	GEMS OF THYAGARAJA	DR.M.BALAMURALIKRISHN A			
0000 A	15049	DR.M.BALAMURALIRKSHNA VOCAL	DR.M.BALAMURALIKRISHN A		400	
0000 A	15050	SWARA SANGAMAM	SUDHA RAGUNATHAN			
0000 A	15051	VASANTHASUDHA	DR.M.L.VASANTHAKUMARI		400	
0000 A	15052	VEENA THARANGINI	VEENA.E.GAAYATHRI			
0000 A	15053	PANCHARATHNA KRITHIS	VEENA.E.GAAYATHRI		400	
0000 A	15054	MEDITATION MUSIC	VAMANAN			
0000 A	15055	MUSIC FOR MEDITATION	AADITHYAN		400	
0000 A	15056	GEMS OF THYAGARAJA ON NADAS	T.E.PALANISWAMY			
0000 A	15057	GEMS OF THYAGARAJA VOCAL	VARIOUS ARTISTS		400	
0000 A	15058	VEENA VANDHANAM	VEENA.E.GAAYATHRI			
0000 A	15059	SRI MADHAVA	VEENA.E.GAAYATHRI		400	
0000 A	15060	MANTRAS FOR MEDITATION - I	SANSKRIT SCHOLARS			
0000 A	15061	MANTRAS FOR MEDITATION - II	SANSKRIT SCHOLARS		400	
0000 A	15062	CHANTS AND MANTRAS	SANSKRIT SCHOLARS			

0000 A	15063	SACRED SOUNDS - MANTRAS	SANSKRIT SCHOLARS		400	
0000 A	15064	ANCIENT CHANTS	SANSKRIT SCHOLARS			
0000 A	15065	POWER OF ANCIENT SANSKRIT	SANSKRIT SCHOLARS		400	
0000 A	15066	MANTRAS				
0000 A	15067	CLASSICAL MUSIC INSTRUMENTAL	E.GAAYATHRI, U.SRINIVAS, KADRI			
0000 A	15068	SAXOPHONE, VEENA, NADASWARA	GOPALNATH, T.V.GOPALAKRISHNAN,			
0000 A	15069	VIOLIN, MANDOLIN, MRIDANGAM	KUNNAKUDI.R.VAIDYANATHAN		1000	
0000 A	15070	वैदिक विचार	चितरंजन सावंत	प्रभात प्रकाशन	250.00	
0000 A	15071	पौराणिक बाल कथाएं	मुकेश 'नादान'	प्रभात प्रकाशन	200.00	
0000A	15072	पुराणों की कथाएं	हरीश शर्मा	प्रभात प्रकाशन	300.00	
0000 A	15073	आचार्य चाणक्य की कहानियां	वैदेह	प्रभात प्रकाशन	200.00	
0000 A	15074	पंचतंत्र की कहानियां	श्यामजी वर्मा	प्रभात प्रकाशन	250.00	
0000 A	15075	हितोपदेश की कहानियां	श्यामजी वर्मा	प्रभात प्रकाशन	200.00	
0000 A	15076	जैन धर्म की कहानियां	ध्रुव कुमार	प्रभात प्रकाशन	200.00	
0000 A	15077	बौद्ध धर्म की कहानियां	मोजेज माइकेल	प्रभात प्रकाशन	200.00	
0000 A	15078	विक्रम–बेताल की कथाएं	पूजा शर्मा	प्रभात प्रकाशन	200.00	
0000 A	15079	बाइबिल की कहानियां	जॉन विल्सन	प्रभात प्रकाशन	175.00	
0000 A	15080	हिन्दू मैथोलोजी क्विज बुक	पंकज दिक्षित	प्रभात प्रकाशन	250.00	
0000 A	15081	1000 इतिहास प्रश्नोत्तरी	सचिन सिंहल	प्रभात प्रकाशन	200.00	
0000 A	15082	दीक्षा की भारतीय परंपराएं–1	चंद्रमौलि मणि त्रिपाठी	प्रभात प्रकाशन	300.00	
0000 A	15083	दीक्षा की भारतीय परंपराएं–2	चंद्रमौलि मणि त्रिपाठी	प्रभात प्रकाशन	300.00	
0000 A	15084	हिन्दू चर्मकार जाति	डॉ० विजय सोनकर शास्त्री	प्रभात प्रकाशन	500.00	
0000 A	15085	हिन्दू वाल्मीकि जाति	डॉ० विजय सोनकर शास्त्री	प्रभात प्रकाशन	500.00	
0000 A	15086	हिन्दू खटिक जाति	डॉ० विजय सोनकर शास्त्री	प्रभात प्रकाशन	500.00	
0000 A	15087	सभ्यताओं के संघर्ष में भारत कहां	देवेन्द्र स्वरूप	प्रभात प्रकाशन	400.00	
0000 A	15088	यह संविधान हमारा या अंग्रेजों का	देवेन्द्र स्वरूप	प्रभात प्रकाशन	200.00	
0000 A	15089	अयोध्या का सच	देवेन्द्र स्वरूप	प्रभात प्रकाशन	250.00	
0000 A	15090	जातिविहीन समाज का सपना	देवेन्द्र स्वरूप	प्रभात प्रकाशन	300.00	
0000 A	15091	संघ, राजनीति और मीडिया	देवेन्द्र स्वरूप	प्रभात प्रकाशन	300.00	
0000 A	15092	संघ : बीज से वृक्ष तक	देवेन्द्र स्वरूप	प्रभात प्रकाशन	400.00	
0000 A	15093	शिवाजी व सुराज	अनिल माधव दवे	प्रभात प्रकाशन	500.00	
0000 A	15094	भारत : एक आहत सभ्यता	वी.एस. नायपॉल	प्रभात प्रकाशन	200.00	
0000 A	15095	रामचरितमानस : नाट्य रूप	प्रमोद कुमार अग्रवाल	प्रभात प्रकाशन	700.00	
0000 A	15096	रामायण के पात्र	दिनकर जोशी	प्रभात प्रकाशन	225.00	
0000 A	15097	महाभारत के पात्र भाग – 1	जगत नारायण द्विवेदी	प्रभात प्रकाशन	225.00	
0000 A	15098	महाभारत के पात्र भाग – 2	जगत नारायण द्विवेदी	प्रभात प्रकाशन	225.00	
0000 A	15099	रामायण के 51 प्रेरक प्रसंग	दाजी पणीशंकर	प्रभात प्रकाशन	250.00	
0000 A	15100	जीवन गीता	देवमुनि शुक्ल	प्रभात प्रकाशन	250.00	
0000 A	15101	महाभारत में मातृ–वंदना	दिनकर जोशी	प्रभात प्रकाशन	200.00	
0000 A	15102	महाभारत में पितृ–वंदना	दिनकर जोशी	प्रभात प्रकाशन	200.00	
0000 A	15103	हिन्दुत्व एवं राष्ट्रीय पुनरुत्तीन	सुब्रह्मण्यम स्वामी	प्रभात प्रकाशन	300.00	
0000 A	15104	1000 रामायण प्रश्नोत्तरी	राजेन्द्र प्रताप सिंह	प्रभात प्रकाशन	200.00	
0000 A	15105	1000 महाभारत प्रश्नोत्तरी	राजेन्द्र प्रताप सिंह	प्रभात प्रकाशन	200.00	
0000 A	15106	रामायण की कहानियां	हरीश शर्मा	प्रभात प्रकाशन	250.00	
0000 A	15107	महाभारत की कहानियां	हरीश शर्मा	प्रभात प्रकाशन	300.00	
0000 A	15108	सरल गीता	महेश शर्मा	प्रभात प्रकाशन	250.00	
0000A	15109	सरल रामायण	शंकर बाम	प्रभात प्रकाशन	250.00	
0000 A	15110	सरल महाभारत	शंकर बाम	प्रभात प्रकाशन	200.00	
0000 A	15111	रामायण की कहानियां	हरीश शर्मा	प्रभात प्रकाशन	250.00	
0000 A	15112	महाभारत की कहानियां	हरीश शर्मा	प्रभात प्रकाशन	300.00	
0000 A	15113	रवीन्द्र रामायण	रवीन्द्र जैन	प्रभात प्रकाशन	750.00	
0000 A	15114	संस्कार रामायण	डॉ० विनोद बाला अरुण	प्रभात प्रकाशन	400.00	
0000 A	15115	Ramayana the hymns of Himalaya	Akhilesh Gumashta	प्रभात प्रकाशन	900.00	
0000 A	15116	History quiz book	Sachin Singhal	प्रभात प्रकाशन	250.00	
0000 A	15117	The India They Saw, Vol. 1	Sandhya Jain	प्रभात प्रकाशन	750.00	
0000 A	15118	The India They Saw, Vol. 2	Meenakshi Jain	प्रभात प्रकाशन	750.00	
0000 A	15119	The India They Saw, Vol. 3	Meenakshi Jain	प्रभात प्रकाशन	750.00	

0000 A	15120	The India They Saw, Vol. 4	Meenakshi Jain	प्रभात प्रकाशन	750.00	
0000 A	15121	साहित्य, शिक्षा और संस्कृति	राजेन्द्र प्रसाद	प्रभात प्रकाशन	250.00	
0000 A	15122	शुद्ध मन की ओर	परम पावन दलाई लामा	प्रभात प्रकाशन	150.00	
0000 A	15123	भारतीय संस्कृति की रूपरेखा	बाबू गुलाबराय	प्रभात प्रकाशन	200.00	
0000 A	15124	भारतीय संस्कृति के आधार	विद्यानिवास मिश्र	प्रभात प्रकाशन	200.00	
0000 A	15125	भारतीय संस्कृति	नरेन्द्र मोहन	प्रभात प्रकाशन	400.00	
0000 A	15126	हिन्दुत्व	नरेन्द्र मोहन	प्रभात प्रकाशन	400.00	
0000 A	15127	हिन्दुत्व : एक जीवन शैली	कलराज मिश्र	प्रभात प्रकाशन	300.00	
0000 A	15128	हनुमान गाथा	अशोक नारायण	प्रभात प्रकाशन	400.00	
0000 A	15129	मानस में नारी	राजेन्द्र अरुण	प्रभात प्रकाशन	300.00	
0000 A	15130	अथ कैकेयी कथा	राजेन्द्र अरुण	प्रभात प्रकाशन	250.00	
0000 A	15131	तजु संसय भजु राम	राजेन्द्र अरुण	प्रभात प्रकाशन	300.00	
0000 A	15132	रघुकुल रीति सदा...	राजेन्द्र अरुण	प्रभात प्रकाशन	300.00	
0000 A	15133	जग जननि जानकी	राजेन्द्र अरुण	प्रभात प्रकाशन	250.00	
0000 A	15134	रोम रोम में राम	राजेन्द्र अरुण	प्रभात प्रकाशन	250.00	
0000 A	15135	हरि कथा अनंता	राजेन्द्र अरुण	प्रभात प्रकाशन	300.00	
0000 A	15136	भरत गुन गाथा	राजेन्द्र अरुण	प्रभात प्रकाशन	300.00	
0000 A	15137	रामकथा में नैतिक मूल्य	विनोद बाला अरुण	प्रभात प्रकाशन	500.00	
0000A	15138	स्तुति सुमन	विनोद बाला अरुण	प्रभात प्रकाशन	300.00	
0000 A	15139	माता वैष्णो देवी	विद्या सागर शर्मा	प्रभात प्रकाशन	250.00	
0000 A	15140	महाभारत का धर्मसंकट	सूर्यकांत बाली	प्रभात प्रकाशन	300.00	
0000 A	15141	देवी–देवताओं के रहस्य	देवदत्त पटनायक	प्रभात प्रकाशन	250.00	
0000 A	15142	कैलास मानसरोवर	सुभद्रा राठौर	प्रभात प्रकाशन	900.00	
0000 A	15143	अपनी संस्कृति	मा.गो. वैद्य	प्रभात प्रकाशन	150.00	
0000 A	15144	भागवत की कथाएं	श्रीमती मनुहरि पाठक	प्रभात प्रकाशन	300.00	
0000 A	15145	मनुस्मृति	रामचंद्र वर्मा शास्त्री	प्रभात प्रकाशन	500.00	
0000 A	15146	गीत गोविन्द	जयदेव	प्रभात प्रकाशन	250.00	
0000 A	15147	सरस्वती वंदना शतक	मायाराम 'पतंग'	प्रभात प्रकाशन	250.00	
0000 A	15148	सविस्तार हिन्दी गीता	रत्नाकर नराले	प्रभात प्रकाशन	200.00	
0000 A	15149	गीता दर्शन भाग – 1	रत्नाकर नराले	प्रभात प्रकाशन	500.00	
0000 A	15150	गीता दर्शन भाग – 2	रत्नाकर नराले	प्रभात प्रकाशन	500.00	
0000 A	15151	गीता का शब्दकोश	रत्नाकर नराले	प्रभात प्रकाशन	500.00	
0000 A	15152	भागवत की कथाएं	श्रीमती मनुहरि पाठक	प्रभात प्रकाशन	300.00	
0000 A	15153	कुरल काव्य	प्रज्ञा श्रमण मुनि अमित सागर	प्रभात प्रकाशन	350.00	
0000 A	15154	संस्कृति से निकलती राहें	पं. रामनरेश कुशवाहा	प्रभात प्रकाशन	150.00	
0000 A	15155	भारत के पवित्र तीर्थस्थल	नारायण भक्त	प्रभात प्रकाशन	300.00	
0000 A	15156	श्रीहरि नाम महिमा	श्रीमती विद्या विंदु सिंह	प्रभात प्रकाशन	175.00	
0000 A	15157	अंक प्रतीक कोश	आचार्य निशांतकेतु	प्रभात प्रकाशन	400.00	
0000 A	15158	सांस्कृतिक प्रतीक कोश	शोभनाथ पाठक	प्रभात प्रकाशन	400.00	
0000 A	15159	सिख गुरु गाथा	जगजीत सिंह	प्रभात प्रकाशन	250.00	
0000 A	15160	सरल गुरु ग्रंथ साहिब एवं सिख धर्म	जगजीत सिंह	प्रभात प्रकाशन	250.00	
0000 A	15161	भारतीय पर्व एवं त्योहार	श्रीमती राजेश्वरी शांडिल्य	प्रभात प्रकाशन	400.00	
0000 A	15162	भगवद्गीता के अनमोल मोती	जी. के. वार्ष्णेय	प्रभात प्रकाशन	150.00	
0000 A	15163	हिन्दू देवी–देवता	के.के. त्रिपाठी	प्रभात प्रकाशन	350.00	
0000 A	15164	हिन्दू धर्म के सोलह संस्कार	डॉ० सच्चिदानंद शुक्ल	प्रभात प्रकाशन	150.00	
0000 A	15165	अष्टावक्र गीता	स्वामी प्रखर प्रज्ञानंद	प्रभात प्रकाशन	175.00	
0000 A	15166	पूरब के झरोखे	नरोत्तम पांडेय/अंगेश पांडेय	प्रभात प्रकाशन	175.00	
0000A	15167	जाहिराम पद नेह	नरोत्तम पांडेय	प्रभात प्रकाशन	200.00	
0000 A	15168	भारतीय संस्कार	डॉ० इंदु वीरेंद्रा	प्रभात प्रकाशन	150.00	
0000 A	15169	1000 भारतीय संस्कृति प्रश्नोत्तरी	राजेन्द्र प्रताप सिंह	प्रभात प्रकाशन	250.00	
0000 A	15170	1000 हिन्दू धर्म प्रश्नोत्तरी	पंकज दीक्षित	प्रभात प्रकाशन	175.00	
0000 A	15171	हिन्दू धर्म विश्व कोश	महेश शर्मा	प्रभात प्रकाशन	600.00	
0000 A	15172	भारतीय जीवन मूल्य	श्रीमती कामिनी कामायनी	प्रभात प्रकाशन	250.00	
0000 A	15173	शिव की महिमा	निशा वर्मा	प्रभात प्रकाशन	175.00	
0000 A	15174	बाल गणेश	मुकेश 'नादान'	प्रभात प्रकाशन	175.00	
0000 A	15175	बाल हनुमान	मुकेश 'नादान'	प्रभात प्रकाशन	175.00	

0000 A	15176	बाल कृष्ण	निरुपमा	प्रभात प्रकाशन	175.00	
0000 A	15177	बाल राम	निरुपमा	प्रभात प्रकाशन	175.00	
0000 A	15178	नीति और रामचरित	हिमांशु पाठक	प्रभात प्रकाशन	300.00	
0000 A	15179	कर्दलीबन : एक अनुभूति	प्रो. क्षितिज पाटुकले	प्रभात प्रकाशन	300.00	
0000 A	15180	शत्रुघ्न चरित	रवीन्द्र शुक्ल	प्रभात प्रकाशन	600.00	
0000 A	15181	अवधी लोक साहित्य में प्रकृति पूजा	विद्या विंदु सिंह	प्रभात प्रकाशन	300.00	
0000 A	15182	प्रयाग महाकुंभ	पंकज विशेष	प्रभात प्रकाशन	195.00	
0000 A	15183	रामकथा में नैतिक मूल्य	विनोद बाला अरुण	प्रभात प्रकाशन	500.00	
0000 A	15184	गीता ज्ञानसागर	सुनील वाजपेयी	प्रभात प्रकाशन	200.00	
0000 A	15185	भगवद्‌गीता–काव्य	मूलचंद्र पाठक	प्रभात प्रकाशन	200.00	
0000 A	15186	कुंभ आस्था का प्रतीक	संजय चतुर्वेदी	प्रभात प्रकाशन	250.00	
0000 A	15187	राधा की पाती, कृष्ण के नाम	प्रमोद कुमार अग्रवाल	प्रभात प्रकाशन	175.00	
0000 A	15188	शुभ विवाह	रजनी बोरड़	प्रभात प्रकाशन	500.00	
0000 A	15189	ईश्वर कहां गया?	डॉ० रामसिंह	प्रभात प्रकाशन	175.00	
0000 A	15190	Rama : The lord of decorum	Rajendra Arun	प्रभात प्रकाशन	400.00	
0000 A	15191	Sita : The divine mother	Rajendra Arun	प्रभात प्रकाशन	400.00	
0000 A	15192	Hanuman : Ocean of devotion	Rajendra Arun	प्रभात प्रकाशन	400.00	
0000 A	15193	Bharata selfless soul	Rajendra Arun	प्रभात प्रकाशन	400.00	
0000 A	15194	Dasharath : Man of words	Rajendra Arun	प्रभात प्रकाशन	400.00	
0000 A	15195	Kardaliban	Kshitij Patukale	प्रभात प्रकाशन	300.00	
0000A	15196	Sanskara Ramayan	Dr. Vinod Bala Arun	प्रभात प्रकाशन	400.00	
0000 A	15197	Shubh Vivah	Rajni Borar	प्रभात प्रकाशन	500.00	
0000 A	15198	उपनिषदों की कथाएं	हरीश शर्मा	प्रभात प्रकाशन	300.00	
0000 A	15199	रघुवंश की कथाएं	के.के. कृष्णन नंबूतिरी	प्रभात प्रकाशन	200.00	
0000 A	15200	वेदों की कथाएं	हरीश शर्मा	प्रभात प्रकाशन	300.00	
0000 A	15201	पुराणों की कथाएं	हरीश शर्मा	प्रभात प्रकाशन	300.00	
0000 A	15202	घरेलू आयुर्वेदिक नुस्खे	डॉ० सुरेश पोरवाल	प्रभात प्रकाशन	175.00	
0000 A	15203	जड़ी–बूटियों का संसार	दीनानाथ तिवारी	प्रभात प्रकाशन	400.00	
0000 A	15204	औषधीय वनस्पतियां	धनंजय ज. देशपांडे	प्रभात प्रकाशन	250.00	
0000 A	15205	ज्योतिष और आकृति विज्ञान	भोजराज द्विवेदी	प्रभात प्रकाशन	200.00	
0000 A	15206	अंक ज्योतिष	आचार्य वादरायण	प्रभात प्रकाशन	250.00	
0000 A	15207	संपूर्ण पंचांग ज्ञान	सत्य प्रकाश द्विवेदी	प्रभात प्रकाशन	250.00	
0000 A	15208	आधुनिक ज्योतिष	रघुनंदन प्रसाद गौड़	प्रभात प्रकाशन	400.00	
0000 A	15209	भारतीय ज्योतिष विज्ञान	रवीन्द्र कुमार दुबे	प्रभात प्रकाशन	200.00	
0000 A	15210	आर्यसमाज का इतिहास	पं. इन्द्र विद्यावाचस्पति	आर्य प्रकाशन	600.00	
0000A	15211	बंदीघर के विचित्र अनुभव	स्वामी श्रद्धानन्द सरस्वती	आर्य प्रकाशन	35.00	
0000 A	15212	मूर्तिपूजा या ईश्वरोपासना	मदन रहेगा	आर्य प्रकाशन	60.00	
0000 A	15213	मेरे पिता (स्वामी श्रद्धानन्द)	पं. इन्द्र विद्यावाचस्पति	आर्य प्रकाशन	90.00	
0000 A	15214	मनुस्मृति	पं. तुलसी राम स्वामी	आर्य प्रकाशन	250.00	
0000 A	15215	श्रीमद्भगवद्‌गीता	पं. तुलसी राम स्वामी	आर्य प्रकाशन	60.00	
0000 A	15216	छत्रपति शिवाजी	लाला लाजपत राय	आर्य प्रकाशन	60.00	
0000 A	15217	आर्य समाज	लाला लाजपत राय	आर्य प्रकाशन	100.00	
0000 A	15218	वेद रहस्य	महात्मा नारायण स्वामी	आर्य प्रकाशन	50.00	
0000 A	15219	एकादशोपनिषद्	महात्मा नारायण स्वामी	आर्य प्रकाशन	400.00	
0000 A	15220	मृत्यु और परलोक	महात्मा नारायण स्वामी	आर्य प्रकाशन	75.00	
0000 A	15221	योग रहस्य	महात्मा नारायण स्वामी	आर्य प्रकाशन	50.00	
0000 A	15222	मृत्यु रहस्य	महात्मा नारायण स्वामी	आर्य प्रकाशन	50.00	
0000 A	15223	भवन भास्कर तथा भाग्य वास्तुशास्त्र	विजय कुमार बहल	आर्य प्रकाशन	50.00	
0000 A	15224	आजादी के दीवाने	डॉ० अशोक आर्य	आर्य प्रकाशन	60.00	
0000 A	15225	देशभक्त महिलाएं	डॉ० अशोक आर्य	आर्य प्रकाशन	35.00	
0000 A	15226	वैदिक सोलह संस्कार	डॉ० अशोक आर्य	आर्य प्रकाशन	25.00	
0000 A	15227	हम अंडा मांस क्यों न खाएं	आचार्य आर्य नरेश	आर्य प्रकाशन	40.00	
0000 A	15228	मृत्यु के पश्चात्	आचार्य आर्य नरेश	आर्य प्रकाशन	15.00	
0000 A	15229	नारी राख या चिंगारी	आचार्य आर्य नरेश	आर्य प्रकाशन	25.00	
0000 A	15230	वैदिक मनोविज्ञान परिचय	आचार्य आर्य नरेश	आर्य प्रकाशन	45.00	
0000 A	15231	विश्व की..... एक अत्याचार	आचार्य आर्य नरेश	आर्य प्रकाशन	45.00	
0000 A	15232	वैदिक मैरिज प्रोडक्टर	डॉ० रूप किशोर शास्त्री	आर्य प्रकाशन	15.00	
0000 A	15233	विरजानन्द चरित	देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय	आर्य प्रकाशन	60.00	

0000 A	15234	सत्यार्थ प्रकाश	स्वा. वेदानन्द तीर्थ	आर्य प्रकाशन	400.00	
0000 A	15235	आर्योद्देश्यरत्नमाला व्यवहारभानू	महर्षि दयानन्द सरस्वती	आर्य प्रकाशन	30.00	
0000 A	15236	आर्याभिविनय	महर्षि दयानन्द सरस्वती	आर्य प्रकाशन	40.00	
0000 A	15237	उपदेश मंजरी	महर्षि दयानन्द सरस्वती	आर्य प्रकाशन	30.00	
0000 A	15238	अथ पंचमहायज्ञविधि	महर्षि दयानन्द सरस्वती	आर्य प्रकाशन	30.00	
0000 A	15239	संस्कार विधि	महर्षि दयानन्द सरस्वती	आर्य प्रकाशन	100.00	
0000A	15240	युग–प्रवर्तक स्वामी दयानन्द	लाला लाजपत राय	आर्य प्रकाशन	100.00	
0000 A	15241	योगीराज कृष्ण	लाला लाजपत राय	आर्य प्रकाशन	100.00	
0000 A	15242	पं. गुरुदत्त विद्यार्थी जीवन और कार्य	लाला लाजपत राय	आर्य प्रकाशन	80.00	
0000 A	15243	दयानन्द सूक्ति मुक्तावली	डॉ० भवानीलाल भारतीय	आर्य प्रकाशन	25.00	
0000 A	15244	आर्य समाज के दस नियम	डॉ० भवानीलाल भारतीय	आर्य प्रकाशन	15.00	
0000 A	15245	पं. श्यामजी कृष्ण वर्मा	डॉ० भवानीलाल भारतीय	आर्य प्रकाशन	70.00	
0000 A	15246	भारतवर्षीय मतमतान्तर समीक्षा	डॉ० भवानीलाल भारतीय	आर्य प्रकाशन	60.00	
0000 A	15247	दयानन्द सूक्ति मुक्तावली	डॉ० भवानीलाल भारतीय	आर्य प्रकाशन	30.00	
0000 A	15248	महर्षि दयानन्द हिन्दी साहित्यकारों की दृष्टि में	डॉ० भवानीलाल भारतीय	आर्य प्रकाशन	30.00	
0000 A	15249	भारत की अवनति के सात कारण	स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती	आर्य प्रकाशन	30.00	
0000 A	15250	भर्तृहरि शतकम्	स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती	आर्य प्रकाशन	40.00	
0000 A	15251	श्री सत्यनारायण व्रत कथा	स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती	आर्य प्रकाशन	10.00	
0000 A	15252	उपासना और मूर्तिपूजा	स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती	आर्य प्रकाशन	15.00	
0000 A	15253	अमर सेनानी स्वामी श्रद्धानन्द	स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती	आर्य प्रकाशन	20.00	
0000 A	15254	सत्यार्थ भास्कर, दो भाग	स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती	आर्य प्रकाशन	800.00	
0000 A	15255	स्वराज्य दर्शन	स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती	आर्य प्रकाशन	10.00	
0000 A	15256	आर्यसमाज की स्थापना किसने? कब? क्यों की	स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती	आर्य प्रकाशन	10.00	
0000 A	15257	आर्यों का आदि देश और उनकी सभ्यता	स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती	आर्य प्रकाशन	120.00	
0000 A	15258	भारत भाग्य विधाता दयानन्द	स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती	आर्य प्रकाशन	25.00	
0000 A	15259	पथिक भजन संग्रह, भाग – 1	पं. सत्यपाल पथिक	आर्य प्रकाशन	50.00	
0000 A	15260	पथिक भजन संग्रह, भाग – 2	पं. सत्यपाल पथिक	आर्य प्रकाशन	100.00	
0000 A	15261	महर्षि दयानन्द जीवन गाथा	पं. सत्यपाल पथिक	आर्य प्रकाशन	50.00	
0000 A	15262	महर्षि दयानन्द गुणगान	पं. सत्यपाल पथिक	आर्य प्रकाशन	10.00	
0000 A	15263	सत्यार्थ प्रकाश एक अध्ययन	गंगा प्रसाद उपाध्याय	आर्य प्रकाशन	20.00	
0000 A	15264	आस्तिकवाद	पं. गंगाप्रसाद उपाध्याय	आर्य प्रकाशन	130.00	
0000 A	15265	मैं और मेरा भगवान	पं. गंगाप्रसाद उपाध्याय	आर्य प्रकाशन	25.00	
0000 A	15266	राष्ट्रनिर्माता स्वामी दयानन्द	पं. गंगाप्रसाद उपाध्याय	आर्य प्रकाशन	20.00	
0000 A	15267	सनातन धर्म	पं. गंगाप्रसाद उपाध्याय	आर्य प्रकाशन	25.00	
0000 A	15268	उपदेश सप्तक	पं. गंगाप्रसाद उपाध्याय	आर्य प्रकाशन	15.00	
0000A	15269	लाइट ऑफ ट्रुथ	पं. गंगाप्रसाद उपाध्याय	आर्य प्रकाशन	400.00	
0000 A	15270	संध्या क्या? क्यों? कैसे?	पं. गंगाप्रसाद उपाध्याय	आर्य प्रकाशन	35.00	
0000 A	15271	विवाह और विवाहित जीवन	पं. गंगाप्रसाद उपाध्याय	आर्य प्रकाशन	30.00	
0000 A	15272	जीवात्मा	पं. गंगाप्रसाद उपाध्याय	आर्य प्रकाशन	45.00	
0000 A	15273	वैदिक प्रवचन	श्री सुरेश चन्द्र वेदालंकार	आर्य प्रकाशन	150.00	
0000 A	15274	नारी भक्ति शक्ति	श्री सुरेश चन्द्र वेदालंकार	आर्य प्रकाशन	10.00	
0000 A	15275	धर्म का मर्म	श्री सुरेश चन्द्र वेदालंकार	आर्य प्रकाशन	10.00	
0000 A	15276	मन बूढ़ा तो तन बूढ़ा	श्री सुरेश चन्द्र वेदालंकार	आर्य प्रकाशन	50.00	
0000 A	15277	हम आर्य बनें	श्री सुरेश चन्द्र वेदालंकार	आर्य प्रकाशन	10.00	
0000 A	15278	उपनिषदों के अनुठे उपदेश	श्री सुरेश चन्द्र वेदालंकार	आर्य प्रकाशन	20.00	
0000 A	15279	गृहस्थ जीवन	श्री सुरेश चन्द्र वेदालंकार	आर्य प्रकाशन	20.00	
0000 A	15280	दुर्गुण दूर भगाइए	श्री सुरेश चन्द्र वेदालंकार	आर्य प्रकाशन	20.00	

0000 A	15281	ब्रह्म स्तोत्र	स्वामी अमृतानन्द सरस्वती	आर्य प्रकाशन	6.00	
0000 A	15282	ओंकार स्रोत	स्वामी अमृतानन्द सरस्वती	आर्य प्रकाशन	3.00	
0000 A	15283	महर्षि दयानन्द सरस्वती	नरेन्द्र कुमार	आर्य प्रकाशन	10.00	
0000 A	15284	अमर शहीद स्वामी श्रद्धानन्द	नरेन्द्र कुमार	आर्य प्रकाशन	10.00	
0000 A	15285	सरदार पटेल	नरेन्द्र कुमार	आर्य प्रकाशन	10.00	
0000 A	15286	वीर सावरकर	नरेन्द्र कुमार	आर्य प्रकाशन	10.00	
0000 A	15287	बाल गंगाधर तिलक	नरेन्द्र कुमार	आर्य प्रकाशन	10.00	
0000 A	15288	क्रांतिदूत महर्षि दयानन्द	गणेश भगत	आर्य प्रकाशन	25.00	
0000 A	15289	व्यवहारभानु प्रश्नोत्तरी	कुमारी कंचन आर्या	आर्य प्रकाशन	50.00	
0000 A	15290	अमर शहीदों का गाथाएं	संकलन – संजीव आर्य	आर्य प्रकाशन	40.00	
0000 A	15291	योगी का आत्मचरित्र	आचार्य भद्रकाम वर्णी	आर्य प्रकाशन	125.00	
0000 A	15292	वैदिक धर्म का स्वरूप	प्रो. रामविचार एम. ए.	आर्य प्रकाशन	60.00	
0000 A	15293	नशा नाश की निशानी	आचार्य नन्दकिशोर	आर्य प्रकाशन	5.00	
0000 A	15294	चतुर्वेद शतकम्	स्वामी अच्युतानन्द	आर्य प्रकाशन	45.00	
0000 A	15295	पर्वपद्धति	पं. भवानी प्रसाद	आर्य प्रकाशन	45.00	
0000 A	15296	वैदिक वैवाहिकीयम्	डॉ० रूप किशोर शास्त्री	आर्य प्रकाशन	10.00	
0000 A	15297	श्रीमद्दयानन्द प्रकाश	स्वामी सत्यानन्द	आर्य प्रकाशन	300.00	
0000A	15298	स्वाध्याय संदीप	स्वामी वेदानन्द तीर्थ	आर्य प्रकाशन	80.00	
0000 A	15299	सत्यार्थ प्रकाश	स्वामी वेदानन्द तीर्थ	आर्य प्रकाशन	400.00	
0000 A	15300	प्राकृतिक चिकित्सा	स्वामी योगानन्द योगाचार्य	आर्य प्रकाशन	20.00	
0000 A	15301	वैदिक विनय	आचार्य अभयदेव	आर्य प्रकाशन	200.00	
0000 A	15302	अपने स्वरूप की पहचान	महात्मा चैतन्यमुनि	आर्य प्रकाशन	15.00	
0000 A	15303	सुखी गृहस्थ हेतु कुछ महत्वपूर्ण सूत्र	महात्मा चैतन्यमुनि	आर्य प्रकाशन	30.00	
0000 A	15304	उपासना और मूर्तिपूजा	स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती	आर्य प्रकाशन	20.00	
0000 A	15305	ऋषि तर्पण	अभिमन्यु खुल्लर	आर्य प्रकाशन	25.00	
0000 A	15306	ऋषि अर्पण	अभिमन्यु खुल्लर	आर्य प्रकाशन	125.00	
0000 A	15307	अनन्त की ओर	डॉ० सुरेन्द्र कुमार शर्मा	आर्य प्रकाशन	30.00	
0000 A	15308	प्रार्थना प्रबोध	ओमप्रकाश शास्त्री	आर्य प्रकाशन	25.00	
0000 A	15309	चतुर्वेदामृत रस	मांगे राम आर्य	आर्य प्रकाशन	40.00	
0000 A	15310	सत्यधर्म प्रकाश	डॉ० कृष्ण गोपाल 'आर्यसेवक'	आर्य प्रकाशन	60.00	
0000 A	15311	अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द	रघुनाथ प्रसाद पाठक	आर्य प्रकाशन	10.00	
0000 A	15312	दिव्य दयानन्द	क्षितीश वेदालंकार	आर्य प्रकाशन	30.00	
0000 A	15313	ऋषि दयानन्द वचनामृत	पं. देवव्रत धर्मेन्दु	आर्य प्रकाशन	12.00	
0000 A	15314	वेद संदेश	पं. देवव्रत धर्मेन्दु	आर्य प्रकाशन	15.00	
0000 A	15315	गायत्री गौरव		आर्य प्रकाशन	5.00	
0000 A	15316	दा ग्रेट गायत्री		आर्य प्रकाशन	5.00	
0000 A	15317	महर्षि दयानन्द के मत में मनुष्य		आर्य प्रकाशन	10.00	
0000 A	15318	योगीराज दयानन्द	महेन्द्र कुमार शास्त्री	आर्य प्रकाशन	30.00	
0000 A	15319	चाणक्य नीति	महेन्द्र कुमार शास्त्री	आर्य प्रकाशन	20.00	
0000 A	15320	दिव्य दयानन्द	क्षितिज वेदालंकार	आर्य प्रकाशन	30.00	
0000 A	15321	दैनिक सत्संग प्रकाश	पं. देवव्रत धर्मेन्दु	आर्य प्रकाशन	12.00	
0000 A	15322	गुरुदत्त लेखावली	पं. गुरुदत्त विद्यार्थी	आर्य प्रकाशन	100.00	
0000 A	15323	आत्मकथा पं. बिस्मिल	रामप्रसाद बिस्मिल	आर्य प्रकाशन	30.00	
0000 A	15324	महर्षि दयानन्द जीवन चरित्र	पं. लेखराम	आर्य प्रकाशन	250.00	
0000 A	15325	ज्योतिर्मय	टी.एल. वासवाणी	आर्य प्रकाशन	15.00	
0000 A	15326	इन्द्रधनुष	प्रो. उत्तम चन्द्रशेखर	आर्य प्रकाशन	20.00	
0000A	15327	दयानन्द दिग्विजयम्	पं. अखिलानन्द शर्मा	आर्य प्रकाशन	175.00	
0000 A	15328	धरती का महामानव	राजेन्द्र जिज्ञासु	आर्य प्रकाशन	8.00	
0000 A	15329	रक्तसाक्षी पं. लेखराम	राजेन्द्र जिज्ञासु	आर्य प्रकाशन	100.00	
0000 A	15330	सिर पर चोटी और गले में जनेऊ का वैज्ञानिक रहस्य	डॉ० गंगा शरण आर्य	आर्य प्रकाशन	40.00	
0000 A	15331	वैदिक काव्य प्रकाश	पं. नन्दलाल निर्भय	आर्य प्रकाशन	60.00	
0000 A	15332	प्रभु–भक्ति गीत मंजरी	सत्यानन्द आर्य	आर्य प्रकाशन	60.00	
0000 A	15333	दो बहनों की बातें	सत्य प्रकाशन मथुरा	आर्य प्रकाशन	30.00	
0000 A	15334	दो मित्रों की बातें	सत्य प्रकाशन मथुरा	आर्य प्रकाशन	30.00	
0000 A	15335	नित्य कर्म विधि	सत्य प्रकाशन मथुरा	आर्य प्रकाशन	30.00	

0000 A	15336	उमर का पंछी	कंचन कुमार	आर्य प्रकाशन	15.00	
0000 A	15337	ऋषि के तराने	कंचन कुमार	आर्य प्रकाशन	25.00	
0000 A	15338	प्रार्थना सुमन	कंचन कुमार	आर्य प्रकाशन	60.00	
0000 A	15339	हास्यमेव जयते	कंचन कुमार	आर्य प्रकाशन	25.00	
0000 A	15340	प्रेरक प्रसंग	कंचन कुमार	आर्य प्रकाशन	25.00	
0000 A	15341	विरजानन्द चरित	देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय	आर्य प्रकाशन	60.00	
0000 A	15342	महर्षि दयानन्द चरित	देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय	आर्य प्रकाशन	350.00	
0000 A	15343	आदर्श सुधारक दयानन्द	देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय	आर्य प्रकाशन	15.00	
0000 A	15344	क्रांतिदूत महर्षि दयानन्द	गणेश भगत	आर्य प्रकाशन	25.00	
0000 A	15345	लोकोत्तर दृष्टा सावरकर	हरिभाऊ देसाई	आर्य प्रकाशन	25.00	
0000 A	15346	महामना सावरकर	हरिभाऊ देसाई	आर्य प्रकाशन	25.00	
0000 A	15347	अमर सेनानी सावरकर	शिवकुमार गोयल	आर्य प्रकाशन	40.00	
0000 A	15348	गुरुदत्त लेखावली	पं. गुरुदत्त विद्यार्थी	आर्य प्रकाशन	100.00	
0000 A	15349	महर्षि दयानन्द जीवन चरित्र	पं. लेखराम	आर्य प्रकाशन	400.00	
0000 A	15350	कर्म एवं कर्मफल मीमांसा	सतीश आर्य	आर्य प्रकाशन	175.00	
0000 A	15351	पातंजल योगदर्शन	सतीश आर्य	आर्य प्रकाशन	300.00	
0000 A	15352	गांधी हत्या क्यों और कैसे?	नाथूराम गोड़से	आर्य प्रकाशन	250.00	
0000 A	15353	वेद मंजरी	पं. रामनाथ वेदालंकार	आर्य प्रकाशन	125.00	
0000 A	15354	ऋग्वेद ज्योति	पं. रामनाथ वेदालंकार	आर्य प्रकाशन	150.00	
0000 A	15355	शतपथ ब्राह्मण	स्वामी समर्पणानन्द सरस्वती	आर्य प्रकाशन	800.00	
0000A	15356	श्रीमद्भगवद्गीता	स्वामी समर्पणानन्द सरस्वती	आर्य प्रकाशन	125.00	
0000 A	15357	उपहार सर्वस्व	स्वामी दीक्षानन्द सरस्वती	आर्य प्रकाशन	20.00	
0000 A	15358	नाम सर्वस्व	स्वामी दीक्षानन्द सरस्वती	आर्य प्रकाशन	15.00	
0000 A	15359	अग्निहोत्र सर्वस्व	स्वामी दीक्षानन्द सरस्वती	आर्य प्रकाशन	50.00	
0000 A	15360	वैदिक कर्मकाण्ड पद्धति	स्वामी दीक्षानन्द सरस्वती	आर्य प्रकाशन	20.00	
0000 A	15361	योगेश्वर कृष्ण	पं. चमूपति एम.ए.	आर्य प्रकाशन	95.00	
0000 A	15362	वैदिक दर्शन	पं. चमूपति एम.ए.	आर्य प्रकाशन	30.00	
0000 A	15363	वैदिक स्वर्ग	पं. चमूपति एम.ए.	आर्य प्रकाशन	50.00	
0000 A	15364	श्रुति सौरभ	पं. शिवकुमार शास्त्री	आर्य प्रकाशन	150.00	
0000 A	15365	अभिनव भजनांजलि	आचार्य चन्द्रशेखर शास्त्री	आर्य प्रकाशन	20.00	
0000 A	15366	प्रेरणा के फूल	आचार्य चन्द्रशेखर शास्त्री	आर्य प्रकाशन	12.00	
0000 A	15367	सरस भजन	आचार्य चन्द्रशेखर शास्त्री	आर्य प्रकाशन	10.00	
0000 A	15368	मनन कर मन मेरे	आचार्य चन्द्रशेखर शास्त्री	आर्य प्रकाशन	15.00	
0000 A	15369	मिट गई चिन्ता सारी	आचार्य चन्द्रशेखर शास्त्री	आर्य प्रकाशन	60.00	
0000 A	15370	गायत्री महिमा	आचार्य चन्द्रशेखर शास्त्री	आर्य प्रकाशन	5.00	
0000 A	15371	आराधना	आचार्य चन्द्रशेखर शास्त्री	आर्य प्रकाशन	15.00	
0000 A	15372	यज्ञालोक	आचार्य चन्द्रशेखर शास्त्री	आर्य प्रकाशन	50.00	
0000 A	15373	महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान	आचार्य चन्द्रशेखर शास्त्री	आर्य प्रकाशन	5.00	
0000 A	15374	आहार विहार	आचार्य चन्द्रशेखर शास्त्री	आर्य प्रकाशन	4.00	
0000 A	15375	स्वदेशी चिकित्सा सार	डॉ० अजीत मेहता	आर्य प्रकाशन	120.00	
0000 A	15376	स्वदेशी चिकित्सा के चमत्कार	डॉ० अजीत मेहता	आर्य प्रकाशन	60.00	
0000 A	15377	सूर्य किरण चिकित्सा पद्धति	डॉ० अजीत मेहता	आर्य प्रकाशन	30.00	
0000 A	15378	अमृत पान	महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती कृत	आर्य प्रकाशन	65.00	
0000 A	15379	आनन्द गायत्री कथा	महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती कृत	आर्य प्रकाशन	30.00	
0000 A	15380	शंकर और दयानन्द	महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती कृत	आर्य प्रकाशन	18.00	
0000 A	15381	सत्यनारायण व्रत कथा	महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती कृत	आर्य प्रकाशन	20.00	
0000 A	15382	उपनिषदों का संदेश	महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती कृत	आर्य प्रकाशन	35.00	
0000 A	15383	मानव और मानवता	महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती कृत	आर्य प्रकाशन	65.00	
0000 A	15384	यह धन किसका है?	महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती कृत	आर्य प्रकाशन	35.00	
0000A	15385	दो रास्ते	महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती कृत	आर्य प्रकाशन	30.00	

0000 A	15386	तत्वज्ञान	महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती कृत	आर्य प्रकाशन	35.00	
0000 A	15387	प्रभु भक्ति	महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती कृत	आर्य प्रकाशन	30.00	
0000 A	15388	सुखी गृहस्थ	महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती कृत	आर्य प्रकाशन	20.00	
0000 A	15389	एक ही रास्ता	महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती कृत	आर्य प्रकाशन	35.00	
0000 A	15390	मानव जीवन गाथा	महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती कृत	आर्य प्रकाशन	30.00	
0000 A	15391	भक्त और भगवान	महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती कृत	आर्य प्रकाशन	30.00	
0000 A	15392	घोर घने जंगल में	महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती कृत	आर्य प्रकाशन	35.00	
0000 A	15393	प्रभु मिलन की राह	महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती कृत	आर्य प्रकाशन	35.00	
0000 A	15394	बोध कथाएं	महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती कृत	आर्य प्रकाशन	35.00	
0000 A	15395	दुनिया में रहना किस तरह	महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती कृत	आर्य प्रकाशन	35.00	
0000 A	15396	प्रभु–दर्शन	महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती कृत	आर्य प्रकाशन	35.00	
0000 A	15397	महामंत्र	महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती कृत	आर्य प्रकाशन	30.00	
0000 A	15398	त्यागमयी देवियां	महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती कृत	आर्य प्रकाशन	25.00	
0000 A	15399	मां	महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती कृत	आर्य प्रकाशन	10.00	
0000 A	15400	यज्ञ–प्रसाद	महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती कृत	आर्य प्रकाशन	15.00	
0000 A	15401	हरिद्वार का प्रसाद	महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती कृत	आर्य प्रकाशन	7.00	
0000 A	15402	महात्मा आनन्द स्वामी	महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती कृत	आर्य प्रकाशन	40.00	
0000 A	15403	मोपला	वीर सावरकर साहित्य	आर्य प्रकाशन	40.00	
0000 A	15404	गोमान्तक	वीर सावरकर साहित्य	आर्य प्रकाशन	40.00	
0000 A	15405	प्रतिशोध	वीर सावरकर साहित्य	आर्य प्रकाशन	40.00	
0000 A	15406	हिन्दुत्व के पांच प्राण	वीर सावरकर साहित्य	आर्य प्रकाशन	40.00	
0000 A	15407	हिन्दुत्व	वीर सावरकर साहित्य	आर्य प्रकाशन	40.00	
0000 A	15408	महाभारत	स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती	आर्य प्रकाशन	900.00	
0000 A	15409	वाल्मीकि रामायण	स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती	आर्य प्रकाशन	375.00	
0000 A	15410	षड्दर्शनम्	स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती	आर्य प्रकाशन	250.00	
0000 A	15411	विदुरनीति	स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती	आर्य प्रकाशन	90.00	
0000 A	15412	ब्रह्मचर्य गौरव	स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती	आर्य प्रकाशन	25.00	
0000 A	15413	कुछ करो कुछ बनो	स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती	आर्य प्रकाशन	30.00	
0000A	15414	आदर्श परिवार	स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती	आर्य प्रकाशन	35.00	
0000 A	15415	वैदिक विवाह पद्धति	स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती	आर्य प्रकाशन	50.00	
0000 A	15416	सामवेद शतकम्	स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती	आर्य प्रकाशन	18.00	

0000 A	15417	ऋग्वेद शतकम्	स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती	आर्य प्रकाशन	18.00	
0000 A	15418	यजुर्वेद शतकम्	स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती	आर्य प्रकाशन	18.00	
0000 A	15419	अथर्ववेद शतकम्	स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती	आर्य प्रकाशन	18.00	
0000 A	15420	दिव्य औषधियां	स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती	आर्य प्रकाशन	65.00	
0000 A	15421	चमत्कारी औषधियां	स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती	आर्य प्रकाशन	65.00	
0000 A	15422	घरेलु औषधियां	स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती	आर्य प्रकाशन	65.00	
0000 A	15423	दिव्य रसायनः गोमूत्र	स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती	आर्य प्रकाशन	8.00	
0000 A	15424	एकादशोपनिषद्	सत्यव्रत सिद्धांतालंकार	आर्य प्रकाशन	310.00	
0000 A	15425	संस्कार चन्द्रिका	सत्यव्रत सिद्धांतालंकार	आर्य प्रकाशन	230.00	
0000 A	15426	उपनिषद् प्रकाश	सत्यव्रत सिद्धांतालंकार	आर्य प्रकाशन	190.00	
0000 A	15427	श्रीमद्भगवद्गीता	सत्यव्रत सिद्धांतालंकार	आर्य प्रकाशन	245.00	
0000 A	15428	चतुर्वेद गंगा लहरी	सत्यव्रत सिद्धांतालंकार	आर्य प्रकाशन	185.00	
0000 A	15429	वेद मंत्रों के देवता	वैद्य गुरुदत्त	आर्य प्रकाशन	60.00	
0000 A	15430	वेद और वैदिक काल	वैद्य गुरुदत्त	आर्य प्रकाशन	45.00	
0000 A	15431	वेद प्रवेशिका	वैद्य गुरुदत्त	आर्य प्रकाशन	80.00	
0000 A	15432	यजुर्वेद और गृहस्थ धर्म	वैद्य गुरुदत्त	आर्य प्रकाशन	50.00	
0000 A	15433	सृष्टि रचना	वैद्य गुरुदत्त	आर्य प्रकाशन	60.00	
0000 A	15434	प्रश्न ऐतरेय उपनिषद्	वैद्य गुरुदत्त	आर्य प्रकाशन	40.00	
0000 A	15435	तैत्तिरीय उपनिषद्	वैद्य गुरुदत्त	आर्य प्रकाशन	40.00	
0000 A	15436	ईश केन कठ उपनिषद्	वैद्य गुरुदत्त	आर्य प्रकाशन	50.00	
0000 A	15437	मुण्डक माण्डूक्य	वैद्य गुरुदत्त	आर्य प्रकाशन	45.00	
0000 A	15438	ब्रह्मसूत्र – 1	वैद्य गुरुदत्त	आर्य प्रकाशन	170.00	
0000 A	15439	ब्रह्मसूत्र – 2	वैद्य गुरुदत्त	आर्य प्रकाशन	130.00	
0000 A	15440	श्रीमद्भगवद्गीता	वैद्य गुरुदत्त	आर्य प्रकाशन	150.00	
0000 A	15441	श्रीमद्भगवद्गीता	वैद्य गुरुदत्त	आर्य प्रकाशन	125.00	
0000 A	15442	नवदर्शन परिचय	वैद्य गुरुदत्त	आर्य प्रकाशन	40.00	
0000A	15443	धर्म तथा समाजवाद	वैद्य गुरुदत्त	आर्य प्रकाशन	55.00	
0000 A	15444	भारत गांधी नेहरू की छाया में	वैद्य गुरुदत्त	आर्य प्रकाशन	95.00	
0000 A	15445	वर्तमान दुर्व्यवस्था का समाधान	वैद्य गुरुदत्त	आर्य प्रकाशन	40.00	
0000 A	15446	हिन्दू राष्ट	वैद्य गुरुदत्त	आर्य प्रकाशन	40.00	
0000 A	15447	मैं हिन्दू हूँ	वैद्य गुरुदत्त	आर्य प्रकाशन	40.00	
0000 A	15448	भाव और भावना	वैद्य गुरुदत्त	आर्य प्रकाशन	50.00	
0000 A	15449	राष्ट्र राज्य और संविधान	वैद्य गुरुदत्त	आर्य प्रकाशन	35.00	
0000 A	15450	सायंस और वेद	वैद्य गुरुदत्त	आर्य प्रकाशन	40.00	
0000 A	15451	वेदों में सोम	वैद्य गुरुदत्त	आर्य प्रकाशन	25.00	
0000 A	15452	वेदों में इन्द्र	वैद्य गुरुदत्त	आर्य प्रकाशन	25.00	
0000 A	15453	विश्वदेवा	वैद्य गुरुदत्त	आर्य प्रकाशन	50.00	
0000 A	15454	विज्ञान और विज्ञान	वैद्य गुरुदत्त	आर्य प्रकाशन	60.00	
0000 A	15455	सांख्य दर्शन	वैद्य गुरुदत्त	आर्य प्रकाशन	220.00	
0000 A	15456	न्याय दर्शन	वैद्य गुरुदत्त	आर्य प्रकाशन	220.00	
0000 A	15457	अद्वैत मीमांसा	वैद्य गुरुदत्त	आर्य प्रकाशन	45.00	
0000 A	15458	हमारी संस्कृति धरोहर	वैद्य गुरुदत्त	आर्य प्रकाशन	150.00	
0000 A	15459	स्व अस्तित्व की रक्षा 1	वैद्य गुरुदत्त	आर्य प्रकाशन	40.00	
0000 A	15460	स्व अस्तित्व की रक्षा 2	वैद्य गुरुदत्त	आर्य प्रकाशन	40.00	
0000 A	15461	इतिहास में भारतीय परंपराएं भारत का संक्षिप्त इतिहास	वैद्य गुरुदत्त	आर्य प्रकाशन	125.00	
0000 A	15462	सृष्टि रचना से रामोदय तक	वैद्य गुरुदत्त	आर्य प्रकाशन	125.00	
0000 A	15463	हिन्दुत्व की यात्रा	वैद्य गुरुदत्त	आर्य प्रकाशन	50.00	
0000 A	15464	अंतिम यात्रा	वैद्य गुरुदत्त	आर्य प्रकाशन	30.00	
0000 A	15465	खण्डहर बोल रहे हैं भाग – 1 से 3	वैद्य गुरुदत्त	आर्य प्रकाशन	250.00	
0000 A	15466	गंगा की धारा	वैद्य गुरुदत्त	आर्य प्रकाशन	350.00	

0000 A	15467	धर्मवीर हकीकत राय	वैद्य गुरुदत्त	आर्य प्रकाशन	30.00	
0000 A	15468	जमाना बदल गया	वैद्य गुरुदत्त	आर्य प्रकाशन	600.00	
0000 A	15469	देश की हत्या	वैद्य गुरुदत्त	आर्य प्रकाशन	100.00	
0000 A	15470	दो लहरों की टक्कर	वैद्य गुरुदत्त	आर्य प्रकाशन	450.00	
0000 A	15471	अमृत मंथन राम कथा 1	वैद्य गुरुदत्त	आर्य प्रकाशन	35.00	
0000A	15472	परंपरा राम कथा 2	वैद्य गुरुदत्त	आर्य प्रकाशन	70.00	
0000 A	15473	अग्नि परीक्षा राम कथा 3	वैद्य गुरुदत्त	आर्य प्रकाशन	35.00	
0000 A	15474	अवतरण	वैद्य गुरुदत्त	आर्य प्रकाशन	60.00	
0000 A	15475	परित्राणाय साधूनाम	वैद्य गुरुदत्त	आर्य प्रकाशन	395.00	
0000 A	15476	विश्वासघात	वैद्य गुरुदत्त	आर्य प्रकाशन	100.00	
0000 A	15477	वीर पूजा	वैद्य गुरुदत्त	आर्य प्रकाशन	40.00	
0000 A	15478	श्रीराम	वैद्य गुरुदत्त	आर्य प्रकाशन	25.00	
0000 A	15479	महाभारत	वैद्य गुरुदत्त	आर्य प्रकाशन	60.00	
0000 A	15480	संभवामि युगे–2	वैद्य गुरुदत्त	आर्य प्रकाशन	50.00	
0000 A	15481	आरोग्य सौंदर्य तथा दीर्घायुष्य	श्री पी. एन. ओक	आर्य प्रकाशन	50.00	
0000 A	15482	फल ज्योतिष	श्री पी. एन. ओक	आर्य प्रकाशन	70.00	
0000 A	15483	हास्यपद अंग्रेजी भाषा	श्री पी. एन. ओक	आर्य प्रकाशन	60.00	
0000 A	15484	क्रिश्चयनीटी कृष्णनीति है	श्री पी. एन. ओक	आर्य प्रकाशन	75.00	
0000 A	15485	वैदिक विश्वराष्ट्र का इतिहास भाग – 1, 2, 3, 4	श्री पी. एन. ओक	आर्य प्रकाशन	340.00	
0000 A	15486	भारत में मुस्लिम सुलतान भाग – 1, 2	श्री पी. एन. ओक	आर्य प्रकाशन	150.00	
0000 A	15487	कौन कहता है अकबर महान था?	श्री पी. एन. ओक	आर्य प्रकाशन	95.00	
0000 A	15488	दिल्ली का लालकिला लाल कोट है	श्री पी. एन. ओक	आर्य प्रकाशन	75.00	
0000 A	15489	आगरा का लालकिला हिन्दू भवन है	श्री पी. एन. ओक	आर्य प्रकाशन	65.00	
0000 A	15490	भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें	श्री पी. एन. ओक	आर्य प्रकाशन	95.00	
0000 A	15491	लखनऊ के इमामबाड़े हिन्दू राजभवन	श्री पी. एन. ओक	आर्य प्रकाशन	60.00	
0000 A	15492	फतेहपुर सीकरी एक हिन्दू नगर	श्री पी. एन. ओक	आर्य प्रकाशन	75.00	
0000 A	15493	ताजमहल मंदिर भवन है	श्री पी. एन. ओक	आर्य प्रकाशन	95.00	
0000 A	15494	विश्व इतिहास के विलुप्त अध्याय	श्री पी. एन. ओक	आर्य प्रकाशन	65.00	
0000 A	15495	ताजमहल तेजोमहालय शिव मंदिर है	श्री पी. एन. ओक	आर्य प्रकाशन	30.00	
0000 A	15496	Some bluders of Indian historical research	श्री पी. एन. ओक	आर्य प्रकाशन	250.00	
0000 A	15497	Agra redfort is a hindu building	श्री पी. एन. ओक	आर्य प्रकाशन	75.00	
0000A	15498	एकादशोपनिषद्	डॉ० सत्यव्रत सिद्धांतालंकार	आर्य प्रकाशन	275.00	
0000 A	15499	उपनिषद् प्रकाश	डॉ० सत्यव्रत सिद्धांतालंकार	आर्य प्रकाशन	175.00	
0000 A	15500	श्रीमद्भगवद्गीता	डॉ० सत्यव्रत सिद्धांतालंकार	आर्य प्रकाशन	210.00	
0000 A	15501	संस्कार चन्द्रिका	डॉ० सत्यव्रत सिद्धांतालंकार	आर्य प्रकाशन	190.00	
0000 A	15502	बुढ़ापे से जवानी की ओर	डॉ० सत्यव्रत सिद्धांतालंकार	आर्य प्रकाशन	155.00	
0000 A	15503	होमियोपैथिक चिकित्सा	डॉ० सत्यव्रत सिद्धांतालंकार	आर्य प्रकाशन	215.00	
0000 A	15504	होमियोपैथिक चित्रण	डॉ० सत्यव्रत सिद्धांतालंकार	आर्य प्रकाशन	215.00	
0000 A	15505	होमियोपैथी का क ख ग	डॉ० सत्यव्रत सिद्धांतालंकार	आर्य प्रकाशन	155.00	
0000 A	15506	वैदिक संस्कृति के मूलतत्व	डॉ० सत्यव्रत सिद्धांतालंकार	आर्य प्रकाशन	140.00	
0000 A	15507	चतुर्वेद गंगा लहरी	डॉ० सत्यव्रत सिद्धांतालंकार	आर्य प्रकाशन	185.00	
0000 A	15508	मां और बच्चा	डॉ० सत्यव्रत सिद्धांतालंकार	आर्य प्रकाशन	75.00	
0000 A	15509	मेरी नानी की कहानियां	डॉ० सत्यव्रत सिद्धांतालंकार	आर्य प्रकाशन	115.00	
0000 A	15510	Vedic vision translation of sanskrit chandrika	डॉ० सत्यव्रत सिद्धांतालंकार	आर्य प्रकाशन	285.00	
0000 A	15511	From old age to youth through yoga	डॉ० सत्यव्रत सिद्धांतालंकार	आर्य प्रकाशन	160.00	
0000 A	15512	मनुस्मृति	पं. सुरेन्द्र कुमार	आर्य प्रकाशन	250.00	
0000 A	15513	विशुद्ध मनुस्मृति	पं. सुरेन्द्र कुमार	आर्य प्रकाशन	150.00	
0000 A	15514	महर्षि दयानन्द वर्णित	पं. सुरेन्द्र कुमार	आर्य प्रकाशन	150.00	
0000 A	15515	शिक्षा पद्धति	पं. सुरेन्द्र कुमार	आर्य प्रकाशन	150.00	
0000 A	15516	शिष्टाचार एवं नैतिक शिक्षा शिशु	दिल्ली सभा प्रकाशन	आर्य प्रकाशन	40.00	
0000 A	15517	शिष्टाचार एवं नैतिक शिक्षा भाग 1 से 4	दिल्ली सभा प्रकाशन	आर्य प्रकाशन	25.00	
0000 A	15518	शिष्टाचार एवं नैतिक शिक्षा भाग 5 से 8	दिल्ली सभा प्रकाशन	आर्य प्रकाशन	30.00	

0000 A	15519	शिष्टाचार एवं नैतिक शिक्षा भाग 9 से 12	दिल्ली सभा प्रकाशन	आर्य प्रकाशन	35.00	
0000 A	15520	सुखी जीवन	दिल्ली सभा प्रकाशन	आर्य प्रकाशन	40.00	
0000 A	15521	सुखी गृहस्थ	दिल्ली सभा प्रकाशन	आर्य प्रकाशन	40.00	
0000 A	15522	सुखी परिवार	दिल्ली सभा प्रकाशन	आर्य प्रकाशन	25.00	
0000 A	15523	आचार शिक्षा	दिल्ली सभा प्रकाशन	आर्य प्रकाशन	35.00	
0000 A	15524	नीति शिक्षा	दिल्ली सभा प्रकाशन	आर्य प्रकाशन	30.00	
0000 A	15525	वेदों में नारी	दिल्ली सभा प्रकाशन	आर्य प्रकाशन	30.00	
0000 A	15526	सुखी समाज	दिल्ली सभा प्रकाशन	आर्य प्रकाशन	35.00	
0000A	15527	वैदिक मनोविज्ञान	दिल्ली सभा प्रकाशन	आर्य प्रकाशन	35.00	
0000 A	15528	यजुर्वेद सुभाषितावली	दिल्ली सभा प्रकाशन	आर्य प्रकाशन	25.00	
0000 A	15529	सामवेद सुभाषितावली	दिल्ली सभा प्रकाशन	आर्य प्रकाशन	25.00	
0000 A	15530	अथर्ववेद सुभाषितावली	दिल्ली सभा प्रकाशन	आर्य प्रकाशन	55.00	
0000 A	15531	ऋग्वेद सुभाषितावली	दिल्ली सभा प्रकाशन	आर्य प्रकाशन	75.00	
0000 A	15532	वेदों में विज्ञान	दिल्ली सभा प्रकाशन	आर्य प्रकाशन	300.00	
0000 A	15533	वेदों में आयुर्वेद	दिल्ली सभा प्रकाशन	आर्य प्रकाशन	300.00	
0000 A	15534	The essence of the vedas	दिल्ली सभा प्रकाशन	आर्य प्रकाशन	250.00	
0000 A	15535	Acritical study of atharvveeds	दिल्ली सभा प्रकाशन	आर्य प्रकाशन	300.00	
0000 A	15536	औषध दर्शन हिन्दी	स्वामी रामदेव जी महाराज	आर्य प्रकाशन	30.00	
0000 A	15537	औषध दर्शन अंग्रेजी	स्वामी रामदेव जी महाराज	आर्य प्रकाशन	50.00	
0000 A	15538	प्रणायाम रहस्य हिन्दी	स्वामी रामदेव जी महाराज	आर्य प्रकाशन	30.00	
0000 A	15539	प्रणायाम रहस्य अंग्रेजी	स्वामी रामदेव जी महाराज	आर्य प्रकाशन	50.00	
0000 A	15540	योग साधना एवं योग चिकित्सा रहस्य हिन्दी	स्वामी रामदेव जी महाराज	आर्य प्रकाशन	125.00	
0000 A	15541	योग साधना एवं योग चिकित्सा रहस्य अंगेजी	स्वामी रामदेव जी महाराज	आर्य प्रकाशन	125.00	
0000 A	15542	वैदिक नित्यकर्म विधि	स्वामी रामदेव जी महाराज	आर्य प्रकाशन	25.00	
0000 A	15543	आयुर्वेद जड़ी बूटी रहस्य	स्वामी रामदेव जी महाराज	आर्य प्रकाशन	350.00	
0000 A	15544	दिव्य, औषधीय, सुगंधित एवं सौन्दर्यकरण पौधे	स्वामी रामदेव जी महाराज	आर्य प्रकाशन	25.00	
0000 A	15545	योग दर्शन	स्वामी रामदेव जी महाराज	आर्य प्रकाशन	50.00	
0000 A	15546	अंधविश्वास निर्मूलन	श्री मदन रहेजा	आर्य प्रकाशन	95.00	
0000 A	15547	शंका समाधान	श्री मदन रहेजा	आर्य प्रकाशन	50.00	
0000 A	15548	मूर्तिपूजा या ईश्वरोपासना	श्री मदन रहेजा	आर्य प्रकाशन	60.00	
0000 A	15549	ऋग्वेद : एक सरल परिचय	डॉ० भवानीलाल भारतीय	आर्य प्रकाशन	50.00	
0000 A	15550	यजुर्वेद : एक सरल परिचय	डॉ० भवानीलाल भारतीय	आर्य प्रकाशन	50.00	
0000 A	15551	सामवेद : एक सरल परिचय	डॉ० भवानीलाल भारतीय	आर्य प्रकाशन	50.00	
0000 A	15552	अथर्ववेद : एक सरल परिचय	डॉ० भवानीलाल भारतीय	आर्य प्रकाशन	50.00	
0000 A	15553	श्रीकृष्ण चरित	डॉ० भवानीलाल भारतीय	आर्य प्रकाशन	150.00	
0000 A	15554	ओंकार निर्णय	सत्यधर्म प्रकाशन	आर्य प्रकाशन	30.00	
0000 A	15555	आदर्श वीरांगनाएं	सत्यधर्म प्रकाशन	आर्य प्रकाशन	40.00	
0000A	15556	दो बहनों की बातें	सत्यधर्म प्रकाशन	आर्य प्रकाशन	60.00	
0000 A	15557	ईश्वर ने दुनिया क्यों बनाई?	सत्यधर्म प्रकाशन	आर्य प्रकाशन	55.00	
0000 A	15558	पाकिस्तान विष वृक्ष	सत्यधर्म प्रकाशन	आर्य प्रकाशन	55.00	
0000 A	15559	अध्यात्म रोगों की चिकित्सा	सत्यधर्म प्रकाशन	आर्य प्रकाशन	65.00	
0000 A	15560	गांधी वध	सत्यधर्म प्रकाशन	आर्य प्रकाशन	60.00	
0000 A	15561	यज्ञ पद्धति मीमांसा	सत्यधर्म प्रकाशन	आर्य प्रकाशन	65.00	
0000 A	15562	मुक्ति का सच्चा स्वरूप	सत्यधर्म प्रकाशन	आर्य प्रकाशन	35.00	
0000 A	15563	ब्रह्मचर्य विज्ञान	सत्यधर्म प्रकाशन	आर्य प्रकाशन	70.00	
0000 A	15564	उपनिषद् प्रकाश	सत्यधर्म प्रकाशन	आर्य प्रकाशन	150.00	
0000 A	15565	ईश्वर का सच्चा स्वरूप	सत्यधर्म प्रकाशन	आर्य प्रकाशन	50.00	
0000 A	15566	लेखराम	सत्यधर्म प्रकाशन	आर्य प्रकाशन	45.00	
0000 A	15567	उपनिषद् प्रकाश भाग – 2	सत्यधर्म प्रकाशन	आर्य प्रकाशन	100.00	
0000 A	15568	कर्म गृहस्थ	सत्यधर्म प्रकाशन	आर्य प्रकाशन	225.00	
0000 A	15569	सर्वनाश मेरा जन्मसिद्ध अधिकार	सत्यधर्म प्रकाशन	आर्य प्रकाशन	160.00	
0000 A	15570	आग और पानी	सत्यधर्म प्रकाशन	आर्य प्रकाशन	200.00	
0000 A	15571	यज्ञ चिकित्सा	सत्यधर्म प्रकाशन	आर्य प्रकाशन	110.00	
0000 A	15572	कांग्रेस की मुस्लिम पोषक नीति	सत्यधर्म प्रकाशन	आर्य प्रकाशन	160.00	

0000 A	15573	भजन संगीत सागर	सत्यधर्म प्रकाशन	आर्य प्रकाशन	160.00	
0000 A	15574	कर्म व्यवस्था	सत्यधर्म प्रकाशन	आर्य प्रकाशन	130.00	
0000 A	15575	चाणक्य और चन्द्रगुप्त	सत्यधर्म प्रकाशन	आर्य प्रकाशन	110.00	
0000 A	15576	मीमांसा प्रदीप	सत्यधर्म प्रकाशन	आर्य प्रकाशन	220.00	
0000 A	15577	वेद प्रवचन	सत्यधर्म प्रकाशन	आर्य प्रकाशन	220.00	
0000 A	15578	अमात्य चाणक्य	सत्यधर्म प्रकाशन	आर्य प्रकाशन	110.00	
0000 A	15579	बंदा वीर वैरागी	सत्यधर्म प्रकाशन	आर्य प्रकाशन	210.00	
0000 A	15580	मुक्ति का मार्ग	सत्यधर्म प्रकाशन	आर्य प्रकाशन	90.00	
0000 A	15581	हेमचन्द्र विक्रमादित्य	सत्यधर्म प्रकाशन	आर्य प्रकाशन	125.00	
0000 A	15582	वैदिक इतिहासार्थ निर्णय	सत्यधर्म प्रकाशन	आर्य प्रकाशन	300.00	
0000 A	15583	भगवान एकलिंग	सत्यधर्म प्रकाशन	आर्य प्रकाशन	95.00	
0000 A	15584	वैराग्य शतक	सत्यधर्म प्रकाशन	आर्य प्रकाशन	125.00	
0000A	15585	आखिर जीत हमारी	सत्यधर्म प्रकाशन	आर्य प्रकाशन	85.00	
0000 A	15586	सन्मार्ग दर्शन	सत्यधर्म प्रकाशन	आर्य प्रकाशन	200.00	
0000 A	15587	महर्षि दयानन्द सरस्वती जीवन	सत्यधर्म प्रकाशन	आर्य प्रकाशन	50.00	
0000 A	15588	मनुस्मृति के स्वर्णाक्षर	ठाकुर विक्रम सिंह	आर्य प्रकाशन	200.00	
0000 A	15589	आर्यसमाज के भीम महात्मा लटूर सिंह	ठाकुर विक्रम सिंह	आर्य प्रकाशन	50.00	
0000 A	15590	महाभारत की कथाएं	अशोक कौशिक	आर्य प्रकाशन	100.00	
0000 A	15591	क्रांति की चिंगारियां	अशोक कौशिक	आर्य प्रकाशन	200.00	
0000 A	15592	हमारे स्वतंत्रता सेनानी	जगतराम आर्य	आर्य प्रकाशन	40.00	
0000 A	15593	सफलता का रहस्य	जगतराम आर्य	आर्य प्रकाशन	40.00	
0000 A	15594	चरित्र बल	जगतराम आर्य	आर्य प्रकाशन	30.00	
0000 A	15595	एकता निर्भयता और सदाचार	जगतराम आर्य	आर्य प्रकाशन	40.00	
0000 A	15596	गुरु : साक्षात् परं ब्रह्म	पं. वेद प्रकाश शास्त्री	आर्य प्रकाशन	50.00	
0000 A	15597	मेरा करवाचौथ का व्रत	पं. वेद प्रकाश शास्त्री	आर्य प्रकाशन	50.00	
0000 A	15598	वैदिक संपत्ति	पं. रघुनन्दन शर्मा	आर्य प्रकाशन	400.00	
0000 A	15599	याज्ञिक आचार संहिता	पं. वीरसेन वेदश्रमी	आर्य प्रकाशन	75.00	
0000 A	15600	वैदिक संपदा	पं. वीरसेन वेदश्रमी	आर्य प्रकाशन	300.00	
0000 A	15601	योग और स्वास्थ्य	आचार्य भद्रसेन	आर्य प्रकाशन	75.00	
0000 A	15602	ओंकार निर्णय	पं. शिवशंकर शर्मा	आर्य प्रकाशन	30.00	
0000 A	15603	सांख्य दर्शन	स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती	आर्य प्रकाशन	130.00	
0000 A	15604	न्याय दर्शन	स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती	आर्य प्रकाशन	160.00	
0000 A	15605	वैशेषिक दर्शन	स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती	आर्य प्रकाशन	160.00	
0000 A	15606	वेदांत दर्शन	स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती	आर्य प्रकाशन	150.00	
0000 A	15607	कर्म रस्य	महात्मा नारायण स्वामी	आर्य प्रकाशन	200.00	
0000 A	15608	आर्य नित्यकर्म विधि एवं पर्व पद्धति	नरेन्द कुमार	आर्य प्रकाशन	100.00	
0000A	15609	Sanskar vidhi	M. Dayanand Saraswati	आर्य प्रकाशन	100.00	
0000 A	15610	Rigvedadi Bhashya Bhumika	M. Dayanand Saraswati	आर्य प्रकाशन	150.00	
0000 A	15611	रामकृष्ण परमहंस	रोमाँ रोलाँ	लोकभारती प्रकाशन	275.00	
0000A	15612	विवेकानन्द	रोमाँ रोलाँ	लोकभारती प्रकाशन	175.00	
0000 A	15613	उत्तरयोगी (श्री अरविन्द : जीवन और दर्शन)	शिवप्रसाद सिंह	लोकभारती प्रकाशन	450.00	
0000 A	15614	महर्षि दयानन्द	यदुवंश सहाय	लोकभारती प्रकाशन	300.00	
0000A	15615	चैतन्य महाप्रभु	अमृतलाल नागर	लोकभारती प्रकाशन	175.00	
0000 A	15616	आदि शंकराचार्य	जयराम मिश्र	लोकभारती प्रकाशन	390.00	
0000 A	15617	गुरु नानकदेव : जीवन और दर्शन	जयराम मिश्र	लोकभारती प्रकाशन	350.00	
0000A	15618	मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम : जीवन और दर्शन	जयराम मिश्र	लोकभारती प्रकाशन	350.00	
0000 A	15619	श्री रामभक्त शक्तिपुंज हनुमान	जयराम मिश्र	लोकभारती प्रकाशन	300.00	
0000 A	15620	तुलसी के हनुमान	श्रीराम मेहरोत्रा	लोकभारती प्रकाशन	600.00	
0000A	15621	लीला पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण	जयराम मिश्र	लोकभारती प्रकाशन	395.00	
0000 A	15622	स्वामी रामतीर्थ : जीवन और दर्शन	जयराम मिश्र	लोकभारती प्रकाशन	500.00	
0000 A	15623	नानक वाणी	जयराम मिश्र	लोकभारती प्रकाशन	950.00	
0000A	15624	श्रीरामचरितमानस (लोकभारती टीका)	योगेन्द्र प्रताप सिंह	लोकभारती प्रकाशन	1000.00	

0000 A	15625	विनय पत्रिका (सटीक)	योगेन्द्र प्रताप सिंह	लोकभारती प्रकाशन	595.00	
0000 A	15626	प्रथम सोपान श्रीरामचरितमानस (बाल काण्ड)	योगेन्द्र प्रताप सिंह	लोकभारती प्रकाशन	395.00	
0000A	15627	द्वितीय सोपान श्रीरामचरितमानस (अयोध्या काण्ड)	योगेन्द्र प्रताप सिंह	लोकभारती प्रकाशन	495.00	
0000 A	15628	सप्तम सोपान श्रीरामचरितमानस (उत्तर काण्ड)	योगेन्द्र प्रताप सिंह	लोकभारती प्रकाशन	195.00	
0000 A	15629	पंचम सोपान श्रीरामचरितमानस (सुन्दर काण्ड)	योगेन्द्र प्रताप सिंह	लोकभारती प्रकाशन	125.00	
0000A	15630	षष्ठ सोपान श्रीरामचरितमानस (लंका काण्ड)	योगेन्द्र प्रताप सिंह	लोकभारती प्रकाशन	325.00	
0000 A	15631	रामकथा इन इंडियन लैंग्वेज	योगेन्द्र प्रताप सिंह	लोकभारती प्रकाशन	600.00	
0000 A	15632	लीला और भक्तिरस	योगेन्द्र प्रताप सिंह	लोकभारती प्रकाशन	350.00	
0000A	15633	लीला रामायण	भानुशंकर मेहता	लोकभारती प्रकाशन	550.00	
0000 A	15634	कर्म संन्यासी कृष्ण	झुन्नीलाल वर्मा	लोकभारती प्रकाशन	600.00	
0000 A	15635	Ramcharitmanas : Ocean of Science	S.P. Gautam	लोकभारती प्रकाशन	550.00	
0000A	15636	उभय प्रबोधक रामायण	भगवतीप्रसाद मिश्र	लोकभारती प्रकाशन	125.00	
0000 A	15637	चित्त बसें महावीर (तीर्थंकर महावीर : जीवन और दर्शन)	प्रो. प्रेम सुमन जैन	लोकभारती प्रकाशन	150.00	
0000 A	15638	भगवान महावीर एवं जैन दर्शन	महावीर सरन जैन	लोकभारती प्रकाशन	375.00	
0000A	15639	शिरडी साईं बाबा : दिव्य महिमा	गणपतिचन्द्र गुप्त	लोकभारती प्रकाशन	190.00	
0000 A	15640	श्रीसत्य साईं बाबा (व्यक्तित्व और संदेश)	गणपतिचन्द्र गुप्त	लोकभारती प्रकाशन	275.00	
0000 A	15641	स्वामी राम : जीवन और दर्शन	र.श. केलकर	लोकभारती प्रकाशन	350.00	
0000A	15642	मानवपुत्रा ईसा : जीवन और दर्शन	डॉ. रघुवंश	लोकभारती प्रकाशन	300.00	
0000 A	15643	आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष	मधुरिमा सिंह	लोकभारती प्रकाशन	300.00	
0000 A	15644	ब्रह्म, जीव, जगत और माया	राजदेव सिंह	लोकभारती प्रकाशन	100.00	
0000A	15645	ईश्वर, स्वतंत्राता और अमरत्व	श्यामाकशोर सेठ, नीलिमा मिश्रा	लोकभारती प्रकाशन	450.00	
0000 A	15646	भारतीय धर्म व्यवस्था	वाचस्पति गैरोला	लोकभारती प्रकाशन	–	
0000 A	15647	ज्ञान और कर्म *(ईशावास्य–अनुवचन)*	विष्णुकान्त शास्त्री	लोकभारती प्रकाशन	325.00	
0000A	15648	भक्ति और शरणागति	विष्णुकान्त शास्त्री	लोकभारती प्रकाशन	195.00	
0000 A	15649	हिन्दुओं के व्रत, पर्व और त्यौहार	रामप्रताप त्रिपाठी शास्त्री	लोकभारती प्रकाशन	350.00	
0000 A	15650	उपनिषद् की कहानियाँ	रामप्रताप त्रिपाठी शास्त्री	लोकभारती प्रकाशन	300.00	
0000A	15651	सुबोध उपनिषत्सार	पुरुषोत्तम शास्त्री फड़के	लोकभारती प्रकाशन	100.00	
0000 A	15652	भक्ति सिद्धान्त	आशा गुप्त	लोकभारती प्रकाशन	300.00	
0000 A	15653	तीर्थों में तीर्थराज प्रयाग	श्रीप्रकाश	लोकभारती प्रकाशन	250.00	
0000A	15654	महातीर्थ के अन्तिम यात्री (ल्हासा–कैलाशनाथ–मानसरोवर)	बिमल दे	लोकभारती प्रकाशन	375.00	
0000 A	15655	हरि मन्दिर	हरनाम दास सहराई	लोकभारती प्रकाशन	250.00	
0000 A	15656	सहज गीता	अरविन्द कुमार	राधाकृष्ण प्रकाशन	200.00	
0000A	15657	योग वासिष्ठ	रूपां. : डॉ. बदरीनाथ कपूर	राधाकृष्ण प्रकाशन	500.00	
0000 A	15658	रामायनी : लक्षमन जी की सत्त परीक्षा	विजय चौरसिया	राधाकृष्ण प्रकाशन	300.00	
0000 A	15659	प्रेम से जपा करूँ	आदर्श अग्रवाल	राधाकृष्ण प्रकाशन	250.00	
0000A	15660	भज ले मेरे मन	आदर्श अग्रवाल	राधाकृष्ण प्रकाशन	250.00	
0000 A	15661	Jan Granthawali Part III	O.P. Sharma, M.L.	Rashtriya Sanskrit Sansthan		
0000 A	15662	Maharashi Kula	MM. G.S.	Rashtriya Sanskrit Sansthan		
0000 A	15663	Vaibhava Part – I	Chaturvedi	Rashtriya Sanskrit Sansthan		
0000 A	15664	Maharashi Kula	Pradyumna Sharma	Rashtriya Sanskrit Sansthan		
0000 A	15665	Vaibhava Part – II		Rashtriya Sanskrit Sansthan		
0000 A	15666	Pathyaswasti	S.D. Swami	Rashtriya Sanskrit Sansthan		
0000 A	15667	Mantra Bhagawata	Dr. Shraddha	Rashtriya Sanskrit Sansthan		

0000 A	15668		Kumari Chouhan	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15669	Madhusudan Ojha ki	Dr. Fateh Singh &	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000A	15670	Saraswat Sadhna	Dr. Govind Ram	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15671		Charora	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15672	Ukti Ratnakar	Muni Jinavijaya	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15673	Shabdaratna Pradipa	Dr. H.P. Shastri	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15674	Ekaksharanama Kosh	Muni Ramanik	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15675	Sangraha	Vijaya	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15676	Sayaniya Nirukti Kosha	Dr. D.B.	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15677		Kshirsagar	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15678	Vastu Ratna Kosha	Dr. Priyabala Shah	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15679	Raj. Hindi Sankshipt	Padmashri Sitaram	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15680	Shabda Kosha Vol. I	Lalas	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15681	Raj. Hindi Sankshipt	"	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15682	Shabda Kosha Vol. II		Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15683	Agama Rahasya Vol-I	Gangadhar	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15684		Dwivedi	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15685	Agama Rahasya Vol-II	Gangadhar	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15686		Dwivedi	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15687	Sankhyayana Tantra	L.N. Goswami	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15688	Simha Siddhant Sindhu	"	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15689	Pt. I		Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15690	Simha Siddhant Sindhu	"	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15691	Pt. II		Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15692	Simha Siddhant Sindhu	"	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15693	Pt. III		Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15694	Bala Tantra	Vishnu Dutta	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15695		Purohit	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15696	Vritta Mauktika	M. Vinayasagar	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15697	Svyanbhu chhanda	Prof. H.D.	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15698		Velankar	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000A	15699	Vrittajati Samuchaya	"	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15700	Kavidarpana	"	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15701	Vrittamuktavali	"	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15702	Tripura Bharati	Muni Jinavijaya	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15703	Laghustava Satika		Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15704	Durga Pushpanjali	G.D. Dwivedi	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15705	Shri Bhuwaneshwari	Pt. Gopal Narayana	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15706	Mahastotra	Bahura	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15707	Chandi Shataka	Gopal Narayana	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15708		Bahura	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15709	Rajasthan ke Nath	Dr.D.B.Kshirsagar	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15710	Sampraday Aur Sahitya	Dr. Navalkrishna	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15711	Jogpradipaka	Dr. M.L. Gharote	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15712	Pramana Manjari	Pattabhiram	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15713		Shashtri	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15714	Tarka Sangraha	Dr. Jitendra Jetley	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15715	Padartha Ratna	Muni Jinvijaya	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15716	Manjusha		Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15717	Buddhi-Vilasa	Dr. Padma Dhar	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15718		Pathak	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15719	Samadarshi Acharya	Tr. Shanti Lal Jain	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15720	Haribhadra Suri		Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15721	Shakuna Pradipa	G.N. Bahura	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15722	Ratnaparikshadi Sapta	A.C. Nahata B.L.	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15723	Grantha Sangraha	Nahata	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15724	Bala Shiksha Vyakarana	Muni Jinavijaya	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15725	Prakritananda	Muni Jinavijaya	Rashtriya Sanskrit Sansthan	

0000 A	15726	Karaka-	Dr. H.P. Shastri	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15727	Sambandhodhyota		Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000A	15728	Chandra Vyakaran	Bechardas Jivaraj	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15729		Doshi	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15730	Vritti Dipika	Purushottam	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15731		Sharma	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15732	Rasa Dirghika	Pt. Gopal Narayan	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15733		Bahura	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15734	Kavya Prakash with	Prof. Rasiklal C.	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15735	Samketa tika Vol - I	Parikh	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15736	Kavya Prakash with	"	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15737	Samketa tika Vol – II		Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15738	Kavi Kaustubha	Dr. Fateh Singh	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15739	Govindanand Ghan	Dr. Moti Lal Gupta	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15740	Rasa Makarand	Dr. D.B.	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15741		Kshirsagar	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15742	Yantra Raja Rachana	Kedarnath Jyotrvid	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15743	Pundarika Granthawali	Vaidya	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15744		Buddhiprakash	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15745		Acharya	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15746	Sura Tarang	Dr. D.B.	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15747		Kshirsagar & Dr. M.M.S. Mathur	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15748	Nritya Ratna Kosha	Prof. R.C. Parikh &	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15749	Vol – I	Dr. Priyabala Shah	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15750	Nritya Ratna Kosha	Prof. R.C. Parikh	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15751	Vol – II		Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15752	Pathyaratna Kosh	Pt. G.N. Bahura	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15753	Nritta Sangraha	Dr. Priyabala Shah	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15754	Rathora ri khyat (Hindi	Kailash Dan &	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15755	Anuvad)	Pushpendra Singh	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15756	Rajasthan ka Etihasik	O.P. Sharma &	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000A	15757	Sanskrit Sahitya	B.K. Singh	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15758	Rajasthan ke Etihasik	Dr. D.B.	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15759	Gadhya Sahitya	Kshirsagar & O.P. Sharma	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15760	Bankidas Ri Khyata	Prof. N.D. Swami	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15761	Muhata Nainasi Ri	Badriprasad	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15762	Khyata Vol – I (Reprint)	Sakaria	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15763	Muhata Nainasi Ri	"	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15764	Khyata Vol – II (Reprint)		Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15765	Muhata Nainasi Ri	"	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15766	Khyata Vol – III (Reprint)		Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15767	Muhata Nainasi Ri	"	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15768	Khyata Vol – IV		Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15769	Marwar-ra-paragana-ri	Dr. N.S. Bhati	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15770	Vigat Vol - I		Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15771	Marwar-ra-paragana-ri	"	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15772	Vigat Vol - II		Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15773	Marwar-ra-paragana-ri	"	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15774	Vigat Vol - III		Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15775	Pashchimi Bharat Ki	(Tr.) Pt.G.N.	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15776	Yatra	Bahura	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15777	Sva-Jivani	O.L. Menaria	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15778	Devi Charita Vol – I	H.C. Chaturvedi	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15779	Devi Charita Vol – II	H.C. Chaturvedi	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15780	Rajasthan Men Sanskrit	(Tr.) B.D. Trivedi	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000A	15781	Sahitya Ki Khoj		Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15782	Rathoda Vamsha ri	Dr. Fateh Singh	Rashtriya Sanskrit Sansthan	

0000 A	15783	Vigat & Vamshawali		Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000A	15784	Maharaja Man Singh Ri	Dr. Narayan Singh	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15785	Khyat	Bhati	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15786	Maharaja Takhat Singh	Dr. Narayan Singh	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000A	15787	Ri Khyat	Bhati	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15788	Sindhu Ghati Ki Lipi	Dr. Fateh Singh	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15789	men Brahmanon aur		Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000A	15790	Upanishadon Ke Pratika		Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15791	Rajasthan ke Etihasik	O.P.Sharma,	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15792	Bhasha Kavya	Dr.Vasumati Sharma& Dr. Govind Ram Charora	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000A	15793	Rajasthan Ka Sant	Dr.Vasumati	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15794	Sahitya	Sharma, Dr. Kamal	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15795		Kishor Sankhla	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000A	15796	Sant Kavi Rajjaba	Dr. Vrajalal	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15797		Sharma	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15798	Matsya Pradesh Ki	Dr. M.L. Gupta	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000A	15799	Hindi Sahitya Ko Den		Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15800	Part I	Muni Jinavijaya	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15801	(Jodhpur collection)		Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000A	15802	PartII (A)	"	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15803	(Jodhpur collection)		Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15804	PartII (B)	"	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000A	15805	(Jodhpur collection)		Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15806	PartII (C)	"	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15807	(Jaipur collection)		Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000A	15808	PartIII (A)	"	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15809	(Jodhpur collection)		Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15810	PartIII (B)	"	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000A	15811	(Jodhpur collection)		Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15812	Part IV	"	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15813	(Jodhpur collection)		Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000A	15814	Part V	O.P. Sharma	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15815	(Jodhpur collection)		Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15816	Part VI	R.N. Saraswat	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000A	15817	(Jodhpur collection)		Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15818	Part VII	M. Vinayasagar &	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15819	(Jodhpur collection)	Dr. D.B. Kshirsagar	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000A	15820	Part VIII	D.N. Sharma &	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15821	(Jodhpur collection)	T.D. Joshi	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15822	Part IX	M. Vinayasagar &	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000A	15823	(Jodhpur collection)	Dr. D.B. Kshirsagar	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15824	Part X	Dr. D.B.	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15825	(Chittorgarh collection)	Kshirsagar and	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000A	15826		Swaroop Narayan	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15827		Sharma	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15828	Part XI	M. Vinayasagar &	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000A	15829	(Jiapur collection)	Jamanalal Baldwa	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15830	Part XII	Dr. B.M. Jawalia	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15831	(Udaipur collection)		Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000A	15832	Part XIII	Bhuramal Yati	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15833	(Bikaner collection)		Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15834	Part XIV	D.N. Sharma	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15835	(Jodhpur collection)		Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15836	Part XV	D.N. Sharma	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15837	(Jodhpur collection)		Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15838	Part XVII	D.N. Sharma	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15839	(Jodhpur collection)		Rashtriya Sanskrit Sansthan	

0000 A	15840	Manuscript Part XIX	Dr. D.B.	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15841	(Chittorgarh collection)	Kshirsagar	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000A	15842	Part XVI	O.P. Sharma &	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15843	(Jodhpur collection)	B.K. Singh	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15844	Part XX	Bhuramal Yati	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15845	(Bikaner collection)		Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15846	Part XVIII	Vinayasagar &	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15847	(Jaipur collection)	Jamanalal Baldwa	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15848	Part XXI	O.L. Menaria,	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15849	(Alwar collection)	Vinayasagar & V.M. Sharma	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15850	Part XXII	B.M. Jawalia	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15851	Part XXIII	Bhuramal Yati &	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15852	(Bikaner collection)	Ratanlal Kamad	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15853	Part XXIV	D.N. Sharma	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15854	(Jodhpur collection)		Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15855	Part XXV	N.L. Trivedi &	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15856	(Kota collection)	O.P. Sharma	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15857	Part XXVI	Bhuramal Yati &	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15858	(Bikaner collection)	K.L. Vishnoi	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15859	Part XXVII	Dr. Usha Goswami	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15860	(Bikaner Collection)		Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15861	part XXVIII	-	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15862	(Bharatpur Collection)		Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15863	Part I	G.N. Bahura	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15864	(Jodhpur collection)		Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15865	Part II	"	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15866	(Jodhpur collection)		Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15867	Derashri Collection	P.D. Pathak	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15868	Part I	Dr. P.L. Menaria	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15869	(Jodhpur collection)		Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15870	Part II	Dr. P.L. Menaria	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000A	15871	(Jodhpur collection)		Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15872	Part III	O.L. Menaria	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15873	(Jodhpur collection)		Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15874	Part IV	O.L. Menaria	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15875	(Jodhpur collection)		Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15876	Part V	O.L. Menaria &	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15877	(Jaipur collection)	Vinayasagar	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15878	Part VI (Jaipur	O.L. Menaria &	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15879	collection)	Vinayasagar	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15880	Vidyabhushan Grantha	G.N. Bahura &	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15881	Suchi (Jaipur collection)	L.N. Goswami	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15882	Manuscript Part VIII	Dr. D.B.	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15883	(Chittorgarh collection)	Kshirsagar & B.K. Singh	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15884	Part XI	Dr. S. Sharma	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15885	(Jodhpur collection)		Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15886	Part X Derashri	Dr. B.M. Jawalia &	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15887	(Udaipur collection)	Dr. D.B. Kshirsagar	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15888	Part IX	Dr. R.K. Jatav	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15889	(Alwar collection)		Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15890	Part VII	O.P. Sharma &	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15891	(Jodhpur collection)	M.L. Acharya	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15892	Part XII	R.N. Purohit	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15893	(Chittorgarh collection)		Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15894	Manuscript Part XIII	Dr. B.M. Jawalia	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15895	(Udaipur collection)	& Dr. D.B. Kshirsagar	Rashtriya Sanskrit Sansthan	
0000 A	15896	Part XIV	Dr. Ramkishan,	Rashtriya Sanskrit Sansthan	

0000 A	15897	(Bharatpur collection)	Dr. Vinodkumar, Dr. Devkumar	Rashtriya Sanskrit Sansthan		
0000 A	15898	Part XV	Smt. Kalawati	Rashtriya Sanskrit Sansthan		
0000 A	15899	(Jodhpur Collection)	Mathur	Rashtriya Sanskrit Sansthan		
0000A	15900	Part XVI	Dr. Govind Ram	Rashtriya Sanskrit Sansthan		
0000 A	15901	(Jodhpur Collection)	Charora	Rashtriya Sanskrit Sansthan		
0000 A	15902	Part XVII	Dr. K.L. Vishnoi	Rashtriya Sanskrit Sansthan		
0000 A	15903	(Bikaner Collection)		Rashtriya Sanskrit Sansthan		
0000 A	15904	Part XVIII	Dr. K.L. Vishnoi	Rashtriya Sanskrit Sansthan		
0000 A	15905	(Bikaner Collection)		Rashtriya Sanskrit Sansthan		
0000 A	15906	Part XIX	Dr. Govind Ram	Rashtriya Sanskrit Sansthan		
0000 A	15907	(Jodhpur Collection)	Charora	Rashtriya Sanskrit Sansthan		
0000 A	15908	Part XX	Dr. K.L. Vishnoi	Rashtriya Sanskrit Sansthan		
0000 A	15909	(Bikaner Collection)		Rashtriya Sanskrit Sansthan		
0000 A	15910	Part XXI	Khyali Ram Meena	Rashtriya Sanskrit Sansthan		
0000 A	15911	(Kota Collection)		Rashtriya Sanskrit Sansthan		
0000 A	15912	Part XXII	B.K. Singh	Rashtriya Sanskrit Sansthan		
0000 A	15913	(Jodhpur Collection)		Rashtriya Sanskrit Sansthan		
0000 A	15914	Part XXIV	K.L. Vishnoi	Rashtriya Sanskrit Sansthan		
0000 A	15915	(Bikaner Collection)		Rashtriya Sanskrit Sansthan		
0000 A	15916	Vol. I Year I		Rashtriya Sanskrit Sansthan		
0000 A	15917	Vol. II & III (combined)		Rashtriya Sanskrit Sansthan		
0000 A	15918	Vol. I Year I		Rashtriya Sanskrit Sansthan		
0000 A	15919	Vol. II Year II		Rashtriya Sanskrit Sansthan		
0000 A	15920	Vol. III Year III		Rashtriya Sanskrit Sansthan		
0000 A	15921	Vol. IV-V Year IV-V		Rashtriya Sanskrit Sansthan		
0000 A	15922	JAN-Granthavali		Rashtriya Sanskrit Sansthan		
0000 A	15923	Ayurved Ke Pyayog		Rashtriya Sanskrit Sansthan		
0000 A	15924	Siddh Nuskhe		Rashtriya Sanskrit Sansthan		
0000 A	15925	SIDHITRAYI		Chaukhambha Sansk	Rs 125	
0000 A	15926	SRIMADBHAGVADGITA (ANUKA	SWAMI PRAKHAR PRAGYANAND SARASWATI	Chaukhambha Sansk	Rs 525	
0000 A	15927	MIMANSANYAYAPRAKASA	A.CHINNASWAMI SASTRI	Chaukhambha Sansk	Rs 125	
0000 A	15928	TANDYAMAHABRAMHAN-I	A.CHINNASWAMI SASTRI	Chaukhambha Sansk	Rs 487.50	
0000A	15929	TANDYAMAHABHRAHMANA-II	A.CHINNASWAMI SASTRI	Chaukhambha Sansk	Rs 487.50	
0000 A	15930	TANDYAMAHABHRAHMANA-I-I	A.CHINNASWAMI SASTRI	Chaukhambha Sansk	Rs 975	
0000 A	15931	KUMARSAMBHVAM COMPLETE	ACARYA SESARAJ SARMA		Rs 495	
0000 A	15932	CHAPIYATRIKONGANITAM	ACHYUTANANDA JHA	Chaukhambha Sansk	Rs 65	
0000 A	15933	KAMA SAMUHA	AMAL SHIB PATHAK	Chaukhambha Public	Rs 395	
0000 A	15934	SUSRUTA SAMHITA-I	AMBIKADATTA SASTRI	Chaukhambha Sansk	Rs 525	
0000 A	15935	SUSRUTA SAMHITA-I-II complete	AMBIKADATTA SASTRI	Chaukhambha Sansk	Rs 1020	
0000 A	15936	SUSRUTA SAMHITA-II	AMBIKADATTA SASTRI	Chaukhambha Sansk	Rs 495	
0000 A	15937	SRADDHAVIVEKA	ANANTARAM DOGRA SASTRI	Chaukhambha Sansk	Rs 75	
0000 A	15938	SULBASUTRAM of KATYAYANA	ANANTARAM DOGRA SASTRI	Chaukhambha Sansk	Rs 75	
0000 A	15939	ALANKARASEKHARA	ANANTARAM SASTRY	Chaukhambha Sansk	Rs 25	
0000 A	15940	NATYA-SHASTRA- I-IV - DELUX	BABULAL SHUKLA SASTRY	Chaukhambha Sansk	Rs 3000	
0000 A	15941	NATYA SASTRA-I	BABULAL SUKLA	Chaukhambha Sansk	Rs 750	
0000 A	15942	NATYA SASTRA-II	BABULAL SUKLA	Chaukhambha Sansk	Rs 750	
0000 A	15943	NATYA SASTRA-III	BABULAL SUKLA	Chaukhambha Sansk	Rs 750	

0000 A	15944	NATYA SASTRA-IV	BABULAL SUKLA	Chaukhambha Sansk	Rs 750	
0000 A	15945	NATYA SASTRAM- I-II VOL.	BABULAL SUKLA	Chaukhambha Sansk	Rs 55	
0000 A	15946	THE CHANDRAKALA NATIKA	BABULAL SUKLA	Chaukhambha Sansk	Rs 55	
0000 A	15947	YOGASUTRA	BALADEVA MISRA	Chaukhambha Sansk	Rs 75	
0000 A	15948	VAIYAKARANA-SIDDHANTA-KA	BALAKRISNA PANCHOLI	Chaukhambha Sansk	Rs 725	
0000 A	15949	VAIYAKARANA-SIDDHANTA-KA	BALAKRISNA PANCHOLI	Chaukhambha Sansk	Rs 155	
0000 A	15950	VAIYAKARANA-SIDDHANTA-KA	BALAKRISNA PANCHOLI	Chaukhambha Sansk	Rs 155	
0000 A	15951	VAIYAKARANA-SIDDHANTA-KA	BALAKRISNA PANCHOLI	Chaukhambha Sansk	Rs 155	
0000 A	15952	VAIYAKARANA-SIDDHANTA-KA	BALAKRISNA PANCHOLI	Chaukhambha Sansk	Rs 260	
0000A	15953	NAGANANDA NATAKA	BALDEVA UPADHYAYA	Chaukhambha Sansk	Rs 50	
0000 A	15954	SIDDHANTASIROMANI	BAPU DEVA SASTRI	Chaukhambha Sansk	Rs 175	
0000 A	15955	SANKCHEPSHARIRKAM	BHAU SASTRI VAJHE	Chaukhambha Sansk	Rs 100	
0000A	15956	RAGHUVANSA MAHAKAVYA -I	BRAHMA SANKARA MISRA	Chaukhambha Sansk	Rs 20	
0000 A	15957	RAGHUVANSA MAHAKAVYA-II	BRAHMA SANKARA MISRA	Chaukhambha Sansk	Rs 20	
0000 A	15958	RAGHUVANSA MAHAKAVYA-II	BRAHMA SANKARA MISRA	Chaukhambha Sansk	Rs 20	
0000A	15959	RAGHUVANSA MAHAKAVYA-IV	BRAHMA SANKARA MISRA	Chaukhambha Sansk	Rs 20	
0000 A	15960	RAGHUVANSA MAHAKAVYA-V	BRAHMA SANKARA MISRA	Chaukhambha Sansk	Rs 20	
0000 A	15961	MEDINIKOSA	JAGANNATH SAS TRI HOSHING	Chaukhambha Sansk	Rs 145	
0000A	15962	MADHAVA NIDANA	BRAHMASANKRA SASTRI	Chaukhambha Sansk	Rs 410	
0000 A	15963	CAURAPANCASIKA	BRAJESACHANDRA SRIVASTAVA	Chaukhambha Sansk	Rs 85	
0000 A	15964	THE VOICE OF VERDICT	BRAJKISOR SWAIN	Chaukhambha Public	Rs 395	
0000A	15965	DASAVATARCARITAM	BUDHI SARMA	Chaukhambha Sansk	Rs 125	
0000 A	15966	VANAUSADHI CHANDRODAYA-	CHANDRARAJA BHANDARI	Chaukhambha Sansk	Rs 575	
0000 A	15967	VANAUSADHI CHANDRODAYA-	CHANDRARAJA BHANDARI	Chaukhambha Sansk	Rs 575	
0000A	15968	VANAUSADHI CHANDRODAYA-	CHANDRARAJA BHANDARI	Chaukhambha Sansk	Rs 1150	
0000 A	15969	NYAYABINDU	CHANDRASEKARA SASTRI	Chaukhambha Sansk	Rs 75	
0000 A	15970	DASARUPAKAM	CHARANATIRTHA MAHARAJA	Chaukhambha Sansk	Rs 95	
0000A	15971	MEGHADUTA	CHARANATIRTHA MAHARAJA	Chaukhambha Sansk	Rs 175	
0000 A	15972	AN INTRODUCTION TO NIGHAN	D.S.LUCAS	Chaukhambha Sansk	Rs 250	
0000 A	15973	SHAKTIVADA	DAMODAR SHASTRI	Chaukhambha Sansk	Rs 375	
0000A	15974	RASAMRITAM	DAMODER JOSI	Chaukhambha Sansk	Rs 275	
0000 A	15975	AVACHHEDAKATVANIRUKTI	DATTATREYA SASTRI	Chaukhambha Sansk	Rs 150	
0000 A	15976	KAMASUTRA	DEVADUTTA SASTRI	Chaukhambha Sansk	Rs 425	
0000A	15977	BHAMATI- I-II VOL Set	DHUNDHIRAJA SASTRI	Chaukhambha Sansk	Rs 650	
0000 A	15978	BHAMATI-I	DHUNDHIRAJA SASTRI	Chaukhambha Sansk	Rs 375	
0000 A	15979	BHAMATI-II	PT. DHUNDIRAJ SHASTRI	Chaukhambha Sansk	Rs 275	
0000A	15980	BRAHMASUTRA SANKARABHAS	DHUNDHIRAJA SASTRI	Chaukhambha Sansk	Rs 450	
0000 A	15981	BRAHMASUYRA SANKARABHA	DHUNDHIRAJA SASTRI	Chaukhambha Sansk	Rs 450	
0000 A	15982	LAGHUSIDHANTAKAUMUDI	DINANATH TIVARI	Chaukhambha Sansk	Rs 195	
0000A	15983	JATAKALANKARA	DINANATHA JHA	Chaukhambha Sansk	Rs 55	
0000 A	15984	AYURVEDA TVCHA ROGA VIJN	DIVAKAR OJHA	Chaukhambha Sansk	Rs 75	

0000 A	15985	SAMUDRIK VIDYA (HASTREKHAO EVAM ANGLAKSHANO KA SAMPOORNA VIVECHAN)	DR. ABHA YAGYASENI	Chaukhambha Sansk	Rs 65	
0000A	15986	DAIVAGYABHARANAM	DR. CHANDRAMAULI UPADHYAY	Chaukhambha Sansk	Rs 275	
0000 A	15987	GOL VIMARSH	DR. CHANDRAMAULI UPADHYAY	Chaukhambha Sansk	Rs 55	
0000 A	15988	MUHURT MANJARI	DR. CHANDRAMAULI UPADHYAY	Chaukhambha Sansk	Rs 55	
0000A	15989	PRASHNA-VIMARSH	DR. CHANDRAMAULI UPADHYAY	Chaukhambha Sansk	Rs 55	
0000 A	15990	SAMAGRA JIVAN JINE KI NAI KA	DR. DHRENDRA PRASAD JAUHARI	Chaukhambha Sansk	Rs 95	
0000 A	15991	VYAVAHAR AYURVEDA OR VII	DR. HARISHCHANDRA GUPTA	Chaukhambha Sansk	Rs 495	
0000A	15992	NAISADHCHARITAM– VI-X SAR	DR. KESHAVRAV MUSALGAWAKAR & RAJESHWAR SHASTRI MUS	Chaukhambha Sansk	Rs 150	
0000 A	15993	KALIDAS-MIMANSA	DR. KESHAVRAV MUSALGAWAKAR & RAJESHWAR SHASTRI MUSALGAWAKAR	Chaukhambha Sansk	Rs 525	
0000 A	15994	BHARTIYA KUNDALINI GANITA	DR. KRISHNKANT PANDEY	Chaukhambha Sansk	Rs 125	
0000A	15995	GOLIYAREKHAGANITAM	DR. KRISHNKANT PANDEY	Chaukhambha Sansk	Rs 55	
0000 A	15996	SAHITYADARPAN (I-II CANTOS)	DR. MADHAVJANARDANRATATE	Chaukhambha Sansk	Rs 65	
0000 A	15997	RASENDRASAR SANGRAHA	DR. P. SURESH	Chaukhambha Sansk	Rs 1500	
0000A	15998	ARTHSANGRAH	DR. R. S. MUSALGAVAKAR	Chaukhambha Sansk	Rs 295	
0000 A	15999	SRI YOGCHINTAMANI EVAM VY	DR. RAJESHWAR SHASTRI MUSALGAWKAR & PT. SHEKHAR SH	Chaukhambha Sansk	Rs 395	
0000 A	16000	VIVA IN RACHANA SAREERA	DR.P.K.MOHARANA	Chaukhambha Public	Rs 150	
0000A	16001	HYMNS OF THE RGVEDA IN THE	F. MAX MULLER	Chaukhambha Sansk	Rs 2100	
0000 A	16002	HYMS OF THE RIGVEDA - I Vol.	F. MAX MULLER	Chaukhambha Sansk	Rs 1050	
0000 A	16003	HYMS OF THE RIGVEDA -II Vol.	F. MAX MULLER	Chaukhambha Sansk	Rs 1050	
0000A	16004	A GUIDE TO AYURVEDIC COMP	G.P. RAO	Chaukhambha Sansk	Rs 250	
0000 A	16005	A GUIDE TO AYURVEDIC COMP	G.P. RAO	Chaukhambha Sansk	Rs 425	
0000 A	16006	A GUIDE TO AYURVEDICCOMPT	G.P. RAO	Chaukhambha Sansk	Rs 675	
0000 A	16007	A TEXT BOOK OF BHAISAJYAKA	G.P. RAO	Chaukhambha Public	Rs 695	
0000 A	16008	MODEL PAPERS FOR AYURVED	G.P. RAO	Chaukhambha Sansk	Rs 300	
0000 A	16009	DOCTOR-PATIENT RELATIONSH	G.S.LAVEKAR	Chaukhambha Sansk	Rs 95	
0000A	16010	SALYA-VIJNAN	G.S.LAVEKAR	Chaukhambha Sansk	Rs 175	
0000 A	16011	HINDI SANKHYADARSAN	GAJANANA SASTRI	Chaukhambha Sansk	Rs 695	
0000 A	16012	SAMKHYA-TATTVA-KAUMUDI	GAJANANA SASTRI	Chaukhambha Sansk	Rs 395	
0000 A	16013	VAIDIK SAHITYA KA ITIHAS	GAJANANA SASTRI	Chaukhambha Sansk	Rs 450	
0000 A	16014	NARPATIJAYACARYASVARODY	GANESHADATTA PATHAKA	Chaukhambha Sansk	Rs 255	
0000 A	16015	GADANIGRAHA-I	GANGA SAHAYA PANDEYA	Chaukhambha Sansk	Rs 275	
0000 A	16016	GADANIGRAHA-II	GANGA SAHAYA PANDEYA	Chaukhambha Sansk	Rs 575	
0000 A	16017	GADANIGRAHA-III	GANGA SAHAYA PANDEYA	Chaukhambha Sansk	Rs 575	
0000 A	16018	GADANIGRAHA-I-III Vol. Set	GANGA SAHAYA PANDEYA	Chaukhambha Sansk	Rs 1425	
0000 A	16019	KRTYASARASAMUCHCHAYA	GANGADHARA MISRA	Chaukhambha Sansk	Rs 175	
0000 A	16020	ABHIJNANA-SAKUNTALAM	GANGASAGAR RAI	Chaukhambha Sansk	Rs 325	
0000 A	16021	ABHIJYANSHAKUNTALAM - CH	GANGASAGAR RAI	Chaukhambha Sansk	Rs 15	

0000 A	16022	HARAVIJAYAM - Ist CANTOS	GANGASAGAR RAI	Chaukhambha Sansk	Rs 15
0000 A	16023	MUDRARAKASAS NATAKAM	GANGASAGAR RAI	Chaukhambha Sansk	Rs 125
0000 A	16024	SANSKRT KE PRAMUKHA NATA	GANGASAGAR RAI	Chaukhambha Sansk	Rs 275
0000 A	16025	VASAVADATTA	GANGASAGAR RAI	Chaukhambha Sansk	Rs 75
0000 A	16026	VENISANHARA-NATAKAM	GANGASAGAR RAI	Chaukhambha Sansk	Rs 95
0000 A	16027	SIDHANT KAUMUDI	GIRIJADATTA TRIPATHI	Chaukhambha Sansk	Rs 35
0000 A	16028	LAGHUSABDENDUSEKHAR I	GOPAL SASTRI NENE	Chaukhambha Sansk	Rs 750
0000 A	16029	LAGHUSABDENDUSEKHAR II	GOPALA SASTRI NENE	Chaukhambha Sansk	Rs 750
0000 A	16030	SIDDHANTA KAUMUDI - Ist CAN	GOPALA SASTRI NENE	Chaukhambha Sansk	Rs 25
0000 A	16031	VAGVALLABHA	GOSVAMI DAMODARA SASTRI	Chaukhambha Sansk	Rs 150
0000 A	16032	NAMALINGANUSASANA NAM O	HARGOVIND SASTRY	Chaukhambha Sansk	Rs 450
0000 A	16033	RAGHUVANSA	HARGOVIND SASTRY	Chaukhambha Sansk	Rs 145
0000 A	16034	MATHURIPANCHALAKSNI	HARIHARA SASTRI	Chaukhambha Sansk	Rs 50
0000 A	16035	VAIYAKARANABHUSANASARA	HARIVALLABHA SASTRI	Chaukhambha Sansk	Rs 575
0000 A	16036	CATURVARGACINTAMANI (1-4	HEMADRI	Chaukhambha Sansk	Rs 11000
0000 A	16037	CATURVARGACINTAMANI-I	HEMADRI	Chaukhambha Sansk	Rs 2000
0000 A	16038	CATURVARGACINTAMANI-II	HEMADRI	Chaukhambha Sansk	Rs 1500
0000A	16039	CATURVARGACINTAMANI-III	HEMADRI	Chaukhambha Sansk	Rs 1500
0000 A	16040	CATURVARGACINTAMANI-IV	HEMADRI	Chaukhambha Sansk	Rs 1500
0000 A	16041	CATURVARGACINTAMANI-V	HEMADRI	Chaukhambha Sansk	Rs 1500
0000 A	16042	CATURVARGACINTAMANI-VI	HEMADRI	Chaukhambha Sansk	Rs 1500
0000 A	16043	CATURVARGACINTAMANI-VII	HEMADRI	Chaukhambha Sansk	Rs 1500
0000 A	16044	CAKRADATTA	INDRADEVA TRIPATI	Chaukhambha Sansk	Rs 175
0000 A	16045	RASARATNASMUCCHYA	INDRADEVA TRIPATI	Chaukhambha Sansk	Rs 675
0000 A	16046	VAIDYRATANAM	INDRADEVA TRIPATI	Chaukhambha Sansk	Rs 135
0000 A	16047	VYADHI NIGRAHA	INDRADEVA TRIPATI	Chaukhambha Sansk	Rs 75
0000 A	16048	FAKKIKAPRAKASH	INNDRADUTT SHARMA	Chaukhambha Sansk	Rs 325
0000 A	16049	ANEKARTHASAGRAHA	JAGANNATH SASTRI	Chaukhambha Sansk	Rs 125
0000 A	16050	PRAKRTA PRAKASH	JAGANNATH SASTRI	Chaukhambha Sansk	Rs 225
0000 A	16051	GATHASAPTASATI	JAGANNATHA PATHAKA	Chaukhambha Sansk	Rs 325
0000 A	16052	AYURVEDA CHIKITSA SUTRA	JAGDEESHA PRASAD SARMA	Chaukhambha Sansk	Rs 225
0000 A	16053	MADHUMEHA PARICHAYA	JAYANT DEOPUJARI	Chaukhambha Sansk	Rs 95
0000 A	16054	MUSIC DANCE AND MUSICAL IN	K.KUSUMA BAI	Chaukhambha Sansk	Rs 200
0000 A	16055	PRAKRTA-VYAKARANA	K.V. APTE	Chaukhambha Sansk	Rs 200
0000 A	16056	GUNARATNAMALA	KAILASAPATI PANDEY	Chaukhambha Sansk	Rs 750
0000 A	16057	SMARTA-YAJNADIPIKA	KAILASH CHANDRA DUBE	Chaukhambha Sansk	Rs 95
0000 A	16058	JATAK PARIJAT	KAPILESVARA SASTRI	Chaukhambha Sansk	Rs 495
0000 A	16059	PANCHIKARANAM	KAMESHWAR NATH MISHRA	Chaukhambha Sansk	Rs 125
0000 A	16060	JYOTISA SASTRIA CINTAN KE K	KAMESVAR UPADHYAYA	Chaukhambha Sansk	Rs 95
0000 A	16061	PARASARI-HORA	KAMESVAR UPADHYAYA	Chaukhambha Sansk	Rs 50
0000 A	16062	SRUTABODHA	KANAKA LALA THAKUR	Chaukhambha Sansk	Rs 50
0000 A	16063	ASTANGA HRDAYAM OF VAGBH	KANJIV LOCHAN	Chaukhambha Public	Rs 495
0000 A	16064	AYURVEDIC THESAURUS	KANJIV LOCHAN	Chaukhambha Public	Rs 250
0000 A	16065	BHAISAJYARATNAVALI I-III vol.	KANJIV LOCHAN	Chaukhambha Sansk	Rs 2925
0000 A	16066	BHAISAJYARATNAVALI-I	KANJIV LOCHAN	Chaukhambha Sansk	Rs 975
0000 A	16067	BHAISAJYARATNAVALI-II	KANJIV LOCHAN	Chaukhambha Sansk	Rs 975
0000A	16068	BHAISAJYARATNAVALI-III	KANJIV LOCHAN	Chaukhambha Sansk	Rs 975
0000 A	16069	DIETARY RULES & PROHIBITION	KANJIV LOCHAN	Chaukhambha Sansk	Rs 275

0000 A	16070	ILLUSTRATIONS ON AYURVEDI	KANJIV LOCHAN	Chaukhambha Public	Rs 325
0000 A	16071	MEDICINE OF EARLY INDIA	KANJIV LOCHAN	Chaukhambha Sansk	Rs 225
0000 A	16072	SUSRUTA SAMHITA DARPANA	KANJIV LOCHAN	Chaukhambha Public	Rs 95
0000 A	16073	UTTARRAMCHARITAM- KHSTR(	KAPILDEV GIRI	Chaukhambha Sansk	Rs 12
0000 A	16074	UTTARARAMACARITAM	KAPILDEVA GIRI	Chaukhambha Sansk	Rs 135
0000 A	16075	KAVYAPRAKASAH (COMPLETE)	KAPILDEVA GIRI	Chaukhambha Sansk	Rs 595
0000 A	16076	SAONDARANANDA-MAHAKAVY	KARUNASANKAR DUBE	Chaukhambha Sansk	Rs 75
0000 A	16077	CARAKA SAMHITA-I	KASHINATH SASTRI	Chaukhambha Sansk	Rs 450
0000 A	16078	CARAKA SAMHITA-II	KASHINATH SASTRI	Chaukhambha Sansk	Rs 400
0000 A	16079	CHARAKA SAMHITA-I-II Complet	KASHINATH SASTRI	Chaukhambha Sansk	Rs 850
0000 A	16080	MEGHDUTA	KEDARA NATH SHARMA	Chaukhambha Sansk	Rs 55
0000 A	16081	VRTTRATNAKARA	KEDARA NATH SHARMA	Chaukhambha Sansk	Rs 20
0000 A	16082	ELEMENTS OF RESEARCH METH	KESABCANDRA DASH	Chaukhambha Sansk	Rs 195
0000 A	16083	HARSACARITAM	KESAVARAO MUSALGAVAKAR	Chaukhambha Sansk	Rs 245
0000 A	16084	HARSACARITAM-I	KESAVARAO MUSALGAVAKAR	Chaukhambha Sansk	Rs 25
0000 A	16085	HARSACARITAM-I-II	KESAVARAO MUSALGAVAKAR	Chaukhambha Sansk	Rs 40
0000 A	16086	HARSACARITAM-I-IV	KESAVARAO MUSALGAVAKAR	Chaukhambha Sansk	Rs 60
0000 A	16087	HARSACARITAM-III	KESAVARAO MUSALGAVAKAR	Chaukhambha Sansk	Rs 45
0000 A	16088	HARSACARITAM-V	KESAVARAO MUSALGAVAKAR	Chaukhambha Sansk	Rs 25
0000 A	16089	LAGHUSABDENDUSEKHARA	KHUDDI JHA	Chaukhambha Sansk	Rs 225
0000 A	16090	VYAKARANBHUSANSAR	KHUDDI JHA	Chaukhambha Sansk	Rs 50
0000 A	16091	SAHITYA DARPAN- I PARICHED	KRISNA MOHANA SASTRI	Chaukhambha Sansk	Rs 25
0000 A	16092	SAHITYA DARPAN- VI	KRISNA MOHANA SASTRI	Chaukhambha Sansk	Rs 50
0000 A	16093	SAHITYADARPANA - complete	KRISNA MOHANA SASTRI	Chaukhambha Sansk	Rs 475
0000 A	16094	SAHITYADARPANA-I-VI	KRISNA MOHANA SASTRI	Chaukhambha Sansk	Rs 275
0000 A	16095	SAHITYADARPANA-VII-X	KRISNA MOHANA SASTRI	Chaukhambha Sansk	Rs 200
0000 A	16096	GUDHARTHATATTVALOKA	LAKSMINATH JHA	Chaukhambha Sansk	Rs 225
0000A	16097	VYASA-SUBHASITA-SAMGRAHA	LUDWIK STERNBACH	Chaukhambha Sansk	Rs 225
0000 A	16098	PANCATANTRA (APARIKSHITAK	MADHAV N. JOSHI	Chaukhambha Sansk	Rs 75
0000 A	16099	JIVANMUKTIVIVEKA	MAHAPRABHULAL GOSWAMI	Chaukhambha Sansk	Rs 175
0000 A	16100	PATANJAL YOGASUTRAM	MAHAPRABHULAL GOSWAMI	Chaukhambha Sansk	Rs 125
0000 A	16101	MATHEMATICS IN AYURVEDA	MRS. S.A. GOKHALE	Chaukhambha Public	Rs 195
0000 A	16102	LATYAYANA SRAUTA SUTRA	MUKUNDA JHA	Chaukhambha Sansk	Rs 150
0000 A	16103	MANTRARTHA DIPIKA	MUKUNDA JHA	Chaukhambha Sansk	Rs 115
0000 A	16104	KATHBODHA	MUKUNDALAL SASTRY	Chaukhambha Sansk	Rs 50
0000 A	16105	AITAREYABRAHMANAM	MULA	Chaukhambha Sansk	Rs 125
0000 A	16106	SUKLA YAJURVEDA MADHYAN	MULA	Chaukhambha Sansk	Rs 275
0000 A	16107	SUKLA YAJURVEDA MADHYAN	MULA	Chaukhambha Sansk	Rs 295
0000 A	16108	SUKLAYAJURVEDAMADHYANA	NDNIYA SAMHITA-GUTI	Chaukhambha Sansk	Rs 95
0000 A	16109	MAHIMNA STOTRA	NARAYAN PATI SHARMA	Chaukhambha Sansk	Rs 175
0000 A	16110	AMARKOSA OR NAMALINGANU	NARAYAN RAM ACARYA	Chaukhambha Sansk	Rs 115
0000 A	16111	SUBHASITATRINSATI	NARAYAN RAM ACARYA	Chaukhambha Sansk	Rs 95
0000 A	16112	NYAYASIDDHANTAMUKTAVAL	NARAYAN SASTRI	Chaukhambha Sansk	Rs 595
0000 A	16113	TRIPURARAHASYA MAHATMYA	NARAYAN SASTRI	Chaukhambha Sansk	Rs 400

0000 A	16114	SARASVATA VYAKARANA-I-II	NAVAKISORA KARA	Chaukhambha Sansk	Rs 250
0000 A	16115	SARSVATA-VYAKARANA-I	NAVAKISORA KARA	Chaukhambha Sansk	Rs 100
0000 A	16116	SARSVATA-VYAKARANA-II	NAVAKISORA KARA	Chaukhambha Sansk	Rs 150
0000 A	16117	SIDDHANTACHANDRIKA-I	NAVAKISORA KARA	Chaukhambha Sansk	Rs 100
0000 A	16118	SIDDHANTACHANDRIKA-I-II	NAVAKISORA KARA	Chaukhambha Sansk	Rs 250
0000 A	16119	SIDDHANTACHANDRIKA-II	NAVAKISORA KARA	Chaukhambha Sansk	Rs 150
0000 A	16120	KHANDANA-KHANDA-KHADYA	NAVIKANTA JHA	Chaukhambha Sansk	Rs 375
0000 A	16121	ANTYAKARMADIPAKA	NITYANANDA	Chaukhambha Sansk	Rs 95
0000 A	16122	KATIYESTIDIPAKA	NITYANANDA	Chaukhambha Sansk	Rs 95
0000 A	16123	VARSAKRTYADIPAKA, KALANI	NITYANANDA	Chaukhambha Sansk	Rs 200
0000 A	16124	HAND BOOK OF AYURVEDIC MI	O.P.GUPTA	Chaukhambha Sansk	Rs 225
0000 A	16125	AYURVEDIYA VIKRTI VIJNANA	P.S. BYADGI	Chaukhambha Public	Rs 595
0000A	16126	AYURVEDYA VIKRUTI VIJNANA	P.S. BYADGI	Chaukhambha Public	Rs 655
0000 A	16127	YOGASUTRA (SIX COMMENTAR	PATANJALI	Chaukhambha Sansk	Rs 150
0000 A	16128	PARASHAR SMRITI	PT. DAMODAR DUTT MISRA ‘PRASOON’	Chaukhambha Sansk	Rs 75
0000 A	16129	JAGADISHI VYADHIKARANAM	PT. DHUNDIRAJ SHASTRI	Chaukhambha Sansk	Rs 375
0000 A	16130	VAISESIKADARSANAM	PT. DHUNDIRAJ SHASTRI	Chaukhambha Sansk	Rs 425
0000 A	16131	VAISHESHIKDARSHANAM	PT. DHUNDIRAJ SHASTRI	Chaukhambha Sansk	Rs 25
0000 A	16132	DHWANYALOK	PT. PATTABHIRAM SHASTRI	Chaukhambha Sansk	Rs 495
0000 A	16133	PRAUDHAMANORAMA (AVYAY	PT. SADA SIVA SARMA SASTRI	Chaukhambha Sansk	Rs 495
0000 A	16134	PRAUDHAMANORMA (TATPURU	SADASHIV SHARMA	Chaukhambha Sansk	Rs 495
0000 A	16135	VAKROKTIJIVITAM (COMPLETE	RADHESYAMA MISRA	Chaukhambha Sansk	Rs 275
0000 A	16136	VAKROKTIJIVITAM-I	RADHESYAMA MISRA	Chaukhambha Sansk	Rs 95
0000 A	16137	VAKROKTIJIVITAM-I-II	RADHESYAMA MISRA	Chaukhambha Sansk	Rs 145
0000 A	16138	VAKROKTIJIVITAM-II	RADHESYAMA MISRA	Chaukhambha Sansk	Rs 50
0000 A	16139	SHBD DSHATU CHANDRIKA	RAJESHWAR SHASTRI MUSALGAWAKAR	Chaukhambha Sansk	Rs 595
0000 A	16140	SUKRANITI	RAJESVARA SASTRI DRAVID	Chaukhambha Sansk	Rs 250
0000A	16141	DHATUROOP KAUMUDUI	RAJESVARADATTA SASTRI	Chaukhambha Sansk	Rs 695
0000 A	16142	NAISADHIYACARITAM -I-V	RAJESVARADATTA SASTRI	Chaukhambha Sansk	Rs 145
0000 A	16143	NAISADHIYACARITAM -VI-X	RAJESVARADATTA SASTRI	Chaukhambha Sansk	Rs 150
0000 A	16144	NAISADHIYACARITAM-I-III	RAJESVARADATTA SASTRI	Chaukhambha Sansk	Rs 125
0000 A	16145	NAISADHIYACARITAM-II	RAJESVARADATTA SASTRI	Chaukhambha Sansk	Rs 35
0000 A	16146	NAISADHIYACARITAM-III	RAJESVARADATTA SASTRI	Chaukhambha Sansk	Rs 35
0000 A	16147	NAISADHIYACARITAM-IV	RAJESVARADATTA SASTRI	Chaukhambha Sansk	Rs 35
0000 A	16148	NAISADHIYACARITAM-V	RAJANARAYANA SASTRI	Chaukhambha Sansk	Rs 35
0000 A	16149	NAISADHIYACHARITAM-I	RAJESVARADATTA SASTRI	Chaukhambha Sansk	Rs 55
0000 A	16150	RATNAVALI NATIKA	RAJESVARADATTA SASTRI	Chaukhambha Sansk	Rs 85
0000 A	16151	TARKASANGRHA	RAJESVARADATTA SASTRI	Chaukhambha Sansk	Rs 55
0000 A	16152	VIKRAMANKADEVACARITAM (	RAJESVARADATTA SASTRI	Chaukhambha Sansk	Rs 40
0000 A	16153	VAKYAPADIYAM (BRAHMA-KA	RAM GOVIND SUKLA	Chaukhambha Sansk	Rs 95
0000 A	16154	BRAHADDEVATA (COMPLETE)	RAM KUMAR RAI	Chaukhambha Sansk	Rs 275
0000 A	16155	BRHADDEVATA -I-II	RAM KUMAR RAI	Chaukhambha Sansk	Rs 40
0000 A	16156	KRTITATTVA SAMGRAHA	RAMACHANDRA JHA	Chaukhambha Sansk	Rs 100
0000 A	16157	PAUROHITYAKARMASARA	RAMAKANTA SHARMA	Chaukhambha Sansk	Rs 50

0000 A	16158	RAGHAVANAISADHIYAM	RAMAKUBERA SASTRI	Chaukhambha Sansk	Rs 75
0000 A	16159	NALACATITRAM	RAMAPATI MISRA	Chaukhambha Sansk	Rs 75
0000 A	16160	GARUDAPURANA	RAMASANKARA BHATTACHARYA	Chaukhambha Sansk	Rs 425
0000 A	16161	LAGHUSANGRHA	RAMCANDRA PATHAK	Chaukhambha Sansk	Rs 75
0000 A	16162	MUHURTA CHINTAMANI (PIYUS	RAMCANDRA PATHAK	Chaukhambha Sansk	Rs 250
0000 A	16163	PHALITA SANGRAHA	RAMCANDRA PATHAK	Chaukhambha Sansk	Rs 75
0000 A	16164	SIGHRABODHA	RAMCANDRA PATHAK	Chaukhambha Sansk	Rs 55
0000 A	16165	TAJIKA NILKANTHI	RAMCHANDRA PATHAK	Chaukhambha Sansk	Rs 395
0000 A	16166	VAIDYAKA PARIBHASA PRADEI	RAMCHANDRA REDDY	Chaukhambha Sansk	Rs 175
0000 A	16167	PRINCIPLES & PRACTICES OF A	DR. S. GOPAL	Chaukhambha Sansk	Rs 325
0000 A	16168	PARIBHASENDUSEKHARA	SADASHIV SHARMA	Chaukhambha Sansk	Rs 155
0000 A	16169	TARKASAMGRAHAH	SATKARI S. VANGIYA	Chaukhambha Sansk	Rs 495
0000A	16170	DRAVYAGUNA SUTRAM	SATYADEVA DUBE	Chaukhambha Sansk	Rs 150
0000 A	16171	KASYAPA SAMHITA OR VRDDH	SATYAPALA BHISAGACHARYA	Chaukhambha Sansk	Rs 895
0000 A	16172	SATPANCASIKA	SATYENDRA PRASAD MISRA	Chaukhambha Sansk	Rs 55
0000 A	16173	YOGA AND AYURVEDA	SATYENDRA PRASAD MISRA	Chaukhambha Sansk	Rs 225
0000 A	16174	KUMARSABHAVAM - IV	SHESRAJ SHARMA	Chaukhambha Sansk	Rs 25
0000 A	16175	KUMARSAMBHAVAM - I	SHESRAJ SHARMA	Chaukhambha Sansk	Rs 25
0000 A	16176	KUMARSAMBHAVAM - II	SHESRAJ SHARMA	Chaukhambha Sansk	Rs 25
0000 A	16177	KUMARSAMBHAVAM - III	SHESRAJ SHARMA	Chaukhambha Sansk	Rs 25
0000 A	16178	KUMARSAMBHAVAM - V	SHESRAJ SHARMA	Chaukhambha Sansk	Rs 30
0000 A	16179	KARMAKAND PRADIP- [CLOTH]	ANNA SHASTRI MORE	Chaukhambha Sansk	Rs 275
0000 A	16180	KARMAKAND PRADIP- PATRAK	ANNA SHASTRI MORE	Chaukhambha Sansk	Rs 250
0000 A	16181	JAGADISI PAKSATA	SIVADATTA MISRA	Chaukhambha Sansk	Rs 175
0000 A	16182	VYAPTIPANCHAKARAHASYA A	SIVADATTA MISRA	Chaukhambha Sansk	Rs 75
0000 A	16183	VAIYAKARANA-SIDDHANTA-LA	SOBHAPATI UPADHYAYA	Chaukhambha Sansk	Rs 475
0000 A	16184	CHHANDAH KAUMUDI	SRI NARAYAN SASTRI	Chaukhambha Sansk	Rs 25
0000 A	16185	SUSRUT SAMHITA	SRIDALHANACHARYA	Chaukhambha Sansk	Rs 595
0000 A	16186	GOBHILAGRHYASUTRA	SUDHAKARA MALVIYA	Chaukhambha Sansk	Rs 325
0000 A	16187	THE ATHARVAVEDA AND THE (	SURYAKANTA	Chaukhambha Sansk	Rs 525
0000 A	16188	AITREYOPANISHAD	SWAMI PRAKHAR PRAGYANAND SARASWATI	Chaukhambha Sansk	Rs 25
0000 A	16189	BRAMHASUTRA (VEDANTA DAI	SWAMI PRAKHAR PRAGYANAND SARASWATI	Chaukhambha Sansk	Rs 495
0000 A	16190	ISAVASYOPANISHAD	SWAMI PRAKHAR PRAGYANAND SARASWATI	Chaukhambha Sansk	Rs 25
0000 A	16191	ISHADINAVOPANISHAD	SWAMI PRAKHAR PRAGYANAND SARASWATI	Chaukhambha Sansk	Rs 595
0000 A	16192	KATHOPANISHAD	SWAMI PRAKHAR PRAGYANAND SARASWATI	Chaukhambha Sansk	Rs 55
0000 A	16193	KENOPANISHAD	SWAMI PRAKHAR PRAGYANAND SARASWATI	Chaukhambha Sansk	Rs 25
0000 A	16194	KUNDALINI SADHANA (AMRIT I	SWAMI PRAKHAR PRAGYANAND SARASWATI	Chaukhambha Sansk	Rs 95

0000 A	16195	MANDUKYOPANISHAD	SWAMI PRAKHAR PRAGYANAND SARASWATI	Chaukhambha Sansk	Rs 25
0000 A	16196	MUNDAKOPANISHAD	SWAMI PRAKHAR PRAGYANAND SARASWATI	Chaukhambha Sansk	Rs 55
0000 A	16197	NARAD BHAKTISUTRA	SWAMI PRAKHAR PRAGYANAND SARASWATI	Chaukhambha Sansk	Rs 75
0000 A	16198	PRAN CHIKITSA (ADHYATMIK U	SWAMI PRAKHAR PRAGYANAND SARASWATI	Chaukhambha Sansk	Rs 175
0000A	16199	PRASHNOPANISHAD	SWAMI PRAKHAR PRAGYANAND SARASWATI	Chaukhambha Sansk	Rs 55
0000 A	16200	SHWETASHWAROPANISHAD	SWAMI PRAKHAR PRAGYANAND SARASWATI	Chaukhambha Sansk	Rs 55
0000 A	16201	TAITIRIYOPANISHAD	SWAMI PRAKHAR PRAGYANAND SARASWATI	Chaukhambha Sansk	Rs 45
0000 A	16202	VIVEK-CHUDAMANI - HINDI AN	SWAMI PRAKHAR PRAGYANAND SARASWATI	Chaukhambha Sansk	Rs 495
0000 A	16203	YANTRA MANTRA SHAKTI	SWAMI PRAKHAR PRAGYANAND SARASWATI	Chaukhambha Sansk	Rs 85
0000 A	16204	YOGVASISTHA-SAR	SWAMI PRAKHAR PRAGYANAND SARASWATI	Chaukhambha Sansk	Rs 95
0000 A	16205	GAYATRI TANTRA	TARAKANATH BHATTACHARYA	Chaukhambha Sansk	Rs 65
0000 A	16206	SRI SWAMI VIVEKANAND CHAR	TRYAMBAK BHANDARAKARA	Chaukhambha Sansk	Rs 100
0000 A	16207	SIDDHANTABINDU	TRYAMBAKARAMA SASTRI	Chaukhambha Sansk	Rs 495
0000 A	16208	AGADA TANTRA	U.R.SEKHAR NAMBURI	Chaukhambha Sansk	Rs 495
0000 A	16209	APASTAMBA DHARMA SUTRA	UMESHA CHANDRA PANDEYA	Chaukhambha Sansk	Rs 275
0000 A	16210	GAUTAMAB DHARMA SUTRANI	UMESHA CHANDRA PANDEYA	Chaukhambha Sansk	Rs 495
0000 A	16211	YAJNAVALKYASMRTI (ACHARA	UMESHA CHANDRA PANDEYA	Chaukhambha Sansk	Rs 65
0000 A	16212	YAJNAVALKYASMRTI (VYAVAI	UMESHA CHANDRA PANDEYA	Chaukhambha Sansk	Rs 235
0000 A	16213	YAJNAVALKYASMRTI (COMPLE	UMESHA CHANDRA PANDEYA	Chaukhambha Sansk	Rs 595
0000 A	16214	ASTANG HRIDAYAM - HEMADR	VAIDYA HARISHASTRI PARADKAR	Chaukhambha Sansk	Rs 595
0000 A	16215	SNEHANA THERAPY IN AYURVI	VAIDYA VASANT C. PATIL	Chaukhambha Public	Rs 195
0000 A	16216	TARKA PRAKARANA	VAMACHARANA BHATTACHARYA	Chaukhambha Sansk	Rs 35
0000 A	16217	CHAMPU-RAMAYANA	VASUDEVA LAKSMANA SASTRI	Chaukhambha Sansk	Rs 195
0000 A	16218	AYURVEDIYA PANCHAKARMA	VIJAY KUMAR RAI	Chaukhambha Public	Rs 295
0000 A	16219	PREMARASAYANA	VISNUPRASAD BHANDARI	Chaukhambha Sansk	Rs 65
0000 A	16220	NARADASMRTI	VRJAKISORA SWAIN	Chaukhambha Sansk	Rs 150
0000 A	16221	JANAKIHARANAM (CANTOS I-II	YADUNANDANA MISRA	Chaukhambha Sansk	Rs 65
0000 A	16222	AYURVEDIYA KRIYA SARIRA (T	YOGESH CHANDRA MISRA	Chaukhambha Public	Rs 595
0000 A	16223	AYURVEDIYA KRIYA SARIRA (A	DR. YOGESH CHANDRA MISHR	Chaukhambha Public	Rs 695

0000 A	16224	PADARTHA VIJNANA	YOGESH CHANDRA MISRA	Chaukhambha Sansk	Rs 575
0000 A	16225	KAMASARA OF KAMDEVA	AMAL SHIB PATHAK	Chaukhambha Public	RS 95
0000 A	16226	SRINGAR KAVYA	AMAL SHIB PATHAK	Chaukhambha Public	Rs 95
0000 A	16227	THE CEREMONY OF SACRED TH	DR. BRAJA KISHORE SWAIN	Chaukhambha Public	Rs 275
0000A	16228	KAUMARABHRTYA- UPDATED	DR. DINESH K.S.	Chaukhambha Public	Rs 695
0000 A	16229	PRECISE NOTES & MCQ'S ON AC	DR. G. ATULKUMAR	Chaukhambha Public	Rs 195
0000 A	16230	ENCYCLOPAEDIC DICTIONARY	DR. KANJIV LOCHAN & DR. P.S. BYADAGI	Chaukhambha Public	Rs 2995
0000 A	16231	RECENT ADVANCES IN KSARAS	DR. MARTHA BHASKAR RAO	Chaukhambha Public	Rs 495
0000 A	16232	AYURVED PRAVESH PARIKSHA	DR. NIRANJAN SARRAF & DR. VANDANA SARRAF	Chaukhambha Public	Rs 495
0000 A	16233	108 DIVINE NAMES OF DHANVA	DR. P. RAM MANOHAR	Chaukhambha Public	Rs 145
0000 A	16234	PRACTICAL GUIDE TO DRAVYA	DR. P. Y. ANSARY	Chaukhambha Public	Rs 275
0000 A	16235	KALAZAR IN AYURVEDA	DR. P.S. BYADGI	Chaukhambha Public	Rs 495
0000 A	16236	A TEXT BOOK OF DRAVYAGUN	DR. PRAKASH L. HEGDE & DR. HARINI A.	Chaukhambha Public	Rs 595
0000 A	16237	HEALTHY HEALING FOR BETTE	DR. SANDEEP SHAH	Chaukhambha Public	Rs 65
0000 A	16238	PRAKRITI AT A GLANCE	DR. SANDEEP SHAH	Chaukhambha Public	Rs 65
0000 A	16239	CARAKA SAMHITA : AT A GLAN	DR. T. PRASANNA KUMAR	Chaukhambha Public	Rs 145
0000 A	16240	VYAVAHARAYURVEDA AND VI	DR. U R. SEKHAR NAMBURI	Chaukhambha Public	Rs 495
0000 A	16241	SWASTHVRITT VIJYAN - HINDI	DR. VIJAY KR. RAI	Chaukhambha Public	Rs 595
0000 A	16242	VAAT VYADHI CHIKITSA VIJNA	DR. VINOD KUMAR SINGH	Chaukhambha Public	Rs 115
0000 A	16243	BHASAJYA KALPANA VIJNANA	G.P. RAO	Chaukhambha Public	Rs 495
0000 A	16244	SWASTHYA SAR	VAIDYA SANDEEP SHAH	Chaukhambha Public	Rs 65
0000 A	16245	AYURVEDIC PHARMACOLOGY & THERAPEUTIC USES OF MEDICINAL PLANTS - DRAVYAGUNAVIGNYAN	VAIDYA V. M. GOGTE	Chaukhambha Public	Rs 1500
0000 A	16246	A COMPREHENSIVE GUIDE ON (	VAIDYA VASANT C. PATIL	Chaukhambha Public	Rs 225
0000 A	16247	AGAD TANTRA - HINDI	Dr. Nitin Sharma	Chaukhambha Public	Rs 425
0000 A	16248	NATYALOCHANAM OF TRILOCA	AMAL SHIB PATHAK	Chaukhambha Public	Rs 395
0000 A	16249	Nagara Sarvaswa of Padmasri (An 11th/Cen. Treatise of Kama Sastra) Text with Eng. Translation.	AMAL SHIB PATHAK	Chaukhambha Public	soon
0000 A	16250	JANMKUNDALI - GRAHYOGPHA	PT. CHARAPANI BHATT	Chaukhambha Sansk	Rs 195
0000 A	16251	Practical Hand book of Rasashastra & Bhaisajyakalpana	Dr Bharat J. Rathi	Chaukhambha Public	Rs 495
0000 A	16252	A Text Book of Shalakya Tantra - Vol.-I (Netra Roga)	Dr. Adikanda Biswal & Dr. Rausmita Rautray	Chaukhambha Public	Rs 595
0000 A	16253	A TEXT BOOK OF SHALAKYA TANTRA VOL- II (ENT & HEAD DISORDERS)	Dr. Adikanda Biswal & Dr. Rausmita Rautray	Chaukhambha Public	Rs 675
0000 A	16254	SRIMADBHAGVADGITA - ANUKARNIYA SAR TATWA	Dr. Keshavrao Sadashivshastri Musalgaokar	Chaukhambha Sansk	Rs 695
0000 A	16255	TARK-SAMGRAHA 'TARK MIMANSA HINDI TIKA'	DR RAJESWAR SASTRI MUSALGAOKAR	Chaukhambha Sansk	Rs 395
0000 A	16256	PRINCIPLE & PRACTICE OF PANCHAKARMA-4th Edition	Dr, Vasant C. Patil	Chaukhambha Public	Rs 795
0000A	16257	A TEXT BOOK OF KAYACHIKITSA - VOL.-I	DR. P.S. BYADGI & Dr. A,K. Pandey	Chaukhambha Public	Rs 595
0000 A	16258	A TEXT BOOK OF KAYA CHIKITSA - VOL.-II	DR. P.S. BYADGI & Dr. A,K. Pandey	Chaukhambha Public	Rs 795
0000 A	16259	HEMORRHOIDS AN AYURVEDIC TEXTUAL CONCORDANCE FROM ASTANG HRIDAYAM	Dr. SUJITHRA RAM MANOHAR	Chaukhambha Public	Rs 275
0000 A	16260	M.C.Q.'S ON ASTANGAHRIDAYAM (SUTRA STHANA)	DR. MANISHA G. DHUNGAV	Chaukhambha Public	Rs 95
0000 A	16261	SHARANGDHAR SAMHITA 'ADHAMALA TIKA'	PARASHURAM SHASTRI	Chaukhambha Public	Rs 395
0000 A	16262	Sarangadhara Samhita of Sarangadharacharya. Sanskrit Text with English Translation	Dr. G. Prabhakar Rao	Chaukhambha Public	Rs 695
0000 A	16263	RITUSAMHARAM	Dr. Rajkumar Upadhyay	Chaukhambha Sansk	Rs 85

0000 A	16264	TANTRA ME AYURVEDA	S.N. Khandelwal	Chaukhambha Sansk	Press
0000 A	16265	VIKRAMOVARSHIYAM	DR. GANGA SAGAR RAI	Chaukhambha Sansk	Rs 295
0000 A	16266	AYURVEDIYA KRIYA SHARIRA - Vol.- I - HINDI	PROF. DR. YOGESH CHANDRA MISHRA	Chaukhambha Public	Rs 795
0000 A	16267	ASHTANGAHRIDAYA PRASHNAWALI	DR MAMATA MITTAL & DR. RAKESH GUPTA	Chaukhambha Public	Rs 195
0000 A	16268	AYURVEIDYA STRIROAGA-VIJNANA (A TEXT BOOK OF AYURVEDIC GYNAECOLOGY)	DR. A. SULOCHANA	Chaukhambha Public	Rs 595
0000 A	16269	101 Hit Films Of Indian Cinema Eng	Renu Saran	Diamond Books	195
0000 A	16270	101 Questions About Sex & Their An	Brijesh Kumar	Diamond Books	35
0000 A	16271	108 Income Tax Mantras For Tax Sev	Subhash Lakhotia	Diamond Books	250
0000 A	16272	108 Investment Mantras (E) English(	Subhash Lakhotia	Diamond Books	125
0000 A	16273	108 Pearls Of wisdom English(PB)	Raghu Korrapati	Diamond Books	250
0000 A	16274	201 Diet Tips For Heart Patients (En	Bimal Chhajer	Diamond Books	150
0000 A	16275	201 Tips For Blood Pressure (English	Bimal Chhajer	Diamond Books	150
0000 A	16276	201 Tips For Diabetes Patients (Engl	Bimal Chhajer	Diamond Books	150
0000 A	16277	201 Tips For Gas Or Acidity English	Bimal Chhajer	Diamond Books	150
0000 A	16278	201 Tips For Loosing Weight (Englis	Bimal Chhajer	Diamond Books	150
0000 A	16279	2012 Universal Doom Or New Age?	Kamal Radha Krishan Srimali	Diamond Books	95
0000 A	16280	2030 Stories of Tommorow (E) Engli	Dayanand Gupta	Diamond Books	75
0000 A	16281	3500 Names For Babies (E) English(	Mahesh Dutt Sharma	Diamond Books	60
0000 A	16282	351 Effective Letters For Every Occa	Ayushma Sharma	Diamond Books	125
0000 A	16283	51 Children Winners Of National Bra	Renu Saran	Diamond Books	75
0000 A	16284	60 Ways To Overcome Terrorism & I	Sunil Prabhakar	Diamond Books	95
0000 A	16285	751 Vegetarian Super Cook Book PB	Neera Kumar	Diamond Books	200
0000A	16286	88 Pearls PB English	Krishan Murari	Diamond Books	150
0000 A	16287	A Beacon Of Hope For The Childless	Satish Goel	Diamond Books	60
0000 A	16288	A Bit Of Love & Small Revolution E	Pankaj Singh	Diamond Books	100
0000 A	16289	A Complete Guide To Biochemic Re	S K Sharma	Diamond Books	75
0000 A	16290	A Complete Guide To Homeopathic I	S K Sharma	Diamond Books	150
0000 A	16291	A Guide To Network Marketing Engl	Surya Sinha	Diamond Books	100
0000 A	16292	A Guide To Tax Planning Lower You	R N Lakhotia	Diamond Books	100
0000 A	16293	A Lustful Arson Grihadaha English(P	Sharat Chandra Chattopadhyay	Diamond Books	150
0000 A	16294	A New Vision Of History English(PB	R N Vyas	Diamond Books	150
0000 A	16295	A Royal Fling Hardly Royal English(	A Varma	Diamond Books	100
0000 A	16296	A Splash Of Love English(PB)	Rajiv Ranjan	Diamond Books	100
0000 A	16297	A Very Special Wish HB English	Varios	Diamond Books	475
0000 A	16298	A whiff of fragrance English(PB)	Ashok Upadhaya	Diamond Books	100
0000 A	16299	A+ Manager DNA Decoded English(	Raghu Korrapati	Diamond Books	150
0000 A	16300	Aage bado Swami Vivekanand PB E	Ramesh Pokhriyal Nishank	Diamond Books	50
0000 A	16301	Abhigyan Shakuntalam English(PB)	Kalidas	Diamond Books	95
0000 A	16302	Abhimanyu English(PB)	B K Chaturvedi	Diamond Books	20
0000 A	16303	Accupuncture And Acupressure Guid	Satish Goel	Diamond Books	150
0000 A	16304	Accupuncture Guide English(PB)	Satish Goel	Diamond Books	75
0000 A	16305	Actually Theres No Problem English	B S Tirtha Maharaj	Diamond Books	400
0000 A	16306	Actually Theres No Problem English	B S Tirtha Maharaj	Diamond Books	200
0000 A	16307	Add Inches English(PB)	S K Sharma	Diamond Books	60
0000 A	16308	Advanced Ephemeries English(PB)	Kewal Anand Joshi	Diamond Books	150
0000 A	16309	Advanced Sudoku English(PB)	Naresh Mohan Lal Sood	Diamond Books	75
0000 A	16310	Adventures With Evil Spirits English	Joseph J Ghosh	Diamond Books	80
0000 A	16311	Aesop Educative Stories English(PB)	Prakash Mannu	Diamond Books	35
0000 A	16312	Aesop Entertaining Stories English(P	Prakash Mannu	Diamond Books	35
0000 A	16313	Aesop Inspiring Stories English(PB)	Prakash Mannu	Diamond Books	35
0000 A	16314	Aesop Interesting Stories English(PB	Prakash Mannu	Diamond Books	35
0000A	16315	Aesop The Best Stories English(HB)	Prakash Mannu	Diamond Books	175
0000 A	16316	After All You Are My Destiny PB En	Satya Pal Chandra	Diamond Books	125
0000 A	16317	Agni Purana English(PB)	B K Chaturvedi	Diamond Books	95
0000 A	16318	Ailet (Guide) PB English	Arvind Mohan Dwivedi	Diamond Books	400

0000 A	16319	Ailet (PTP) PB English	Arvind Mohan Dwivedi	Diamond Books	150
0000 A	16320	Aim High For Bigger Win English(P	Tarun Engineer	Diamond Books	125
0000 A	16321	Akbar Birbal English(HB)	Rachna Bhola Yamini	Diamond Books	175
0000 A	16322	Akbar Birbal Jokes 1 English(PB)	B K Chaturvedi	Diamond Books	20
0000 A	16323	Akbar Birbal Jokes 2 English(PB)	B K Chaturvedi	Diamond Books	20
0000 A	16324	Akbar Birbal Jokes 4 English(PB)	B K Chaturvedi	Diamond Books	20
0000 A	16325	Akhilesh Yadav English(PB)	Yagya Dutt Sharma	Diamond Books	150
0000 A	16326	All About Female Sexual Disorders E	Satish Goel	Diamond Books	45
0000 A	16327	All In One PB English		Diamond Books	80
0000 A	16328	All The Secrets Of Palmistry English	Dayanand Verma	Diamond Books	195
0000 A	16329	Allah To Zen English(PB)	Chetan Unmani	Diamond Books	150
0000 A	16330	Allergy English(PB)	Bimal Chhajer	Diamond Books	50
0000 A	16331	Ambani And Ambani English(PB)	Tarun Engineer	Diamond Books	95
0000 A	16332	An Encounter with Pakistan Reality E	Satish Verma	Diamond Books	300
0000 A	16333	An Eternal Love Story PB English	Amit Khan	Diamond Books	125
0000 A	16334	And Miles To Go Before I Sleep PB	Saurabh Kumar Roy	Diamond Books	175
0000 A	16335	And The Flowers Showered English(	Osho	Diamond Books	250
0000 A	16336	And The Reason is You English(PB)	Upasana Gupta	Diamond Books	125
0000 A	16337	Angel Of Love And Life PB English	Prabhakar Singh	Diamond Books	100
0000 A	16338	Anger English(PB)	Bimal Chhajer	Diamond Books	50
0000 A	16339	Animals Colouring & Activity Book English(PB)		Diamond Books	25
0000 A	16340	Anna Hazare English(PB)	Prateeksha M Tiwari	Diamond Books	95
0000 A	16341	Anti Hindus English (PB)	Prafull Goradia	Diamond Books	150
0000 A	16342	Anti Social English(PB)	Sumer Chand	Diamond Books	150
0000 A	16343	Antioxidants The Wonder Food Eng	Bimal Chhajer	Diamond Books	50
0000A	16344	APJ Abdul Kalam English(PB)	Renu Saran	Diamond Books	30
0000 A	16345	APJ. Abdul Kalam English(PB)	Renu Saran	Diamond Books	40
0000 A	16346	Arabian Night 1 English (PB)		Diamond Books	35
0000 A	16347	Arabian Night 2 English (PB)		Diamond Books	35
0000 A	16348	Arabian Night 3 English (PB)		Diamond Books	35
0000 A	16349	Arabian Night 4 English (PB)		Diamond Books	35
0000 A	16350	Arabian Night English (HB)	Prakash Manu	Diamond Books	175
0000 A	16351	Are you the one for me (E) English(P	Chital Mehta	Diamond Books	100
0000 A	16352	Aroma Therapy English(PB)	Shiv Sharma	Diamond Books	95
0000 A	16353	Arvind Kejriwal PB English	Arvind Mohan Dwivedi	Diamond Books	125
0000 A	16354	Asatyam @ Satyam English(PB)	Anand Kumar	Diamond Books	95
0000 A	16355	Assistant In United India Insurance (	Vikas Doon	Diamond Books	130
0000 A	16356	Assistant Loco Pilot and Technician (	Arvind Mohan Dwivedi	Diamond Books	200
0000 A	16357	Assistant Loco Pilot And Technician	Arvind Mohan Dwivedi	Diamond Books	115
0000 A	16358	Asthmaallergies (Causes & Cure) En	Shiv Sharma	Diamond Books	95
0000 A	16359	Astrology And Wealth English(PB)	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	125
0000 A	16360	Astrology The Third Eye Of The Ved	Gopal Das Neeraj	Diamond Books	95
0000 A	16361	At The Feet Of The Master (Manal R	Madabusi Sabramaniam	Diamond Books	195
0000 A	16362	Atharveda English(PB)	Rajbali Pandey	Diamond Books	125
0000 A	16363	Attractive Bindiyan English(PB)	Vandana Gang	Diamond Books	40
0000 A	16364	Aura A Spectrum Of Colors English(	Jasnita Walia	Diamond Books	45
0000 A	16365	Aushadh Darshan English(PB)	Ramdev	Diamond Books	50
0000 A	16366	Ayodhya War & Peace English(PB)	Sri Sri Ravishankar Ji	Diamond Books	200
0000 A	16367	Ayurvedic Treatment For Common D	Vipul Rao	Diamond Books	150
0000 A	16368	Ayurvediya Garbhsanskar English (P	Abhay Kulkarni	Diamond Books	275
0000 A	16369	Baba Ramdev Resurgence of now ind	K.C. Mahendru	Diamond Books	295
0000 A	16370	Back Pain English(PB)	Bimal Chhajer	Diamond Books	50
0000 A	16371	Backache (Spondylitis Cervical Arthr	Nistha	Diamond Books	125
0000 A	16372	Bad Shayari Sms English(PB)	Kuldeep Saluja	Diamond Books	20
0000A	16373	Bauls The Dancing Mystics English(I	Osho	Diamond Books	95
0000 A	16374	Bauls the Mystics Of Celebration Eng	Osho	Diamond Books	95
0000 A	16375	Bauls The Seekers Of The Path Engli	Osho	Diamond Books	95
0000 A	16376	Bauls The Singing Mystics English(P	Osho	Diamond Books	95

0000 A	16377	Be Oceanic English(PB)	Osho	Diamond Books	95
0000 A	16378	Be Smart Know Your Income Tax 20	R N Lakhotia	Diamond Books	150
0000 A	16379	Be Young & Healthy For 100 Years I	Pushpa Khurana	Diamond Books	75
0000 A	16380	Be Your Own Astrologer Ascendant	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	150
0000 A	16381	Be Your Own Astrologer Ascendant	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	150
0000 A	16382	Be Your Own Astrologer Ascendant	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	150
0000 A	16383	Be Your Own Astrologer Ascendant	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	150
0000 A	16384	Be Your Own Astrologer Ascendant	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	150
0000 A	16385	Be Your Own Astrologer Ascendant	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	150
0000 A	16386	Be Your Own Astrologer Ascendant	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	150
0000 A	16387	Be Your Own Astrologer Ascendant	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	150
0000 A	16388	Be Your Own Doctor English(PB)	Kanta Gupta	Diamond Books	75
0000 A	16389	Beat The Academic Exam The Smart	Sunil Vaid	Diamond Books	50
0000 A	16390	Beat The Entrance Exam The Smart V	Sunil Vaid	Diamond Books	50
0000 A	16391	Beloved Osho English(PB)	Ageh Bharti	Diamond Books	150
0000 A	16392	Beyond The Enlightenment PB Engli	Osho	Diamond Books	495
0000 A	16393	Bhagat Singh English(PB)	Simran	Diamond Books	30
0000 A	16394	Bhagat Singh English(PB)	Bhawan Singh Rana	Diamond Books	95
0000 A	16395	Bhajan Lokgeet Or Aartiyan English(PB)		Diamond Books	150
0000 A	16396	Bharat ki Aasha Narender Modi PB E	Manish Kumar	Diamond Books	50
0000 A	16397	Bharat Ratna Madan Mohan Malviya	Swati Upadhaya	Diamond Books	30
0000 A	16398	Bhavishya Purana English(PB)	B K Chaturvedi	Diamond Books	95
0000 A	16399	Big and Little HB English	Ana Martin Larranaga	Diamond Books	250
0000 A	16400	Big Boss English(PB)	MVP	Diamond Books	100
0000 A	16401	Bikes Beers And A Babe English PB	Junaid A Tagala	Diamond Books	100
0000A	16402	Billoo and Wonder PB English	Pran	Diamond Books	35
0000 A	16403	Billoo Coconut Tree PB English	Pran	Diamond Books	50
0000 A	16404	Billoo Digest 1 PB English	Pran	Diamond Books	100
0000 A	16405	Billoo Digest -2 PB English	Pran	Diamond Books	100
0000 A	16406	Billoo Ki Girlfriend PB English	Pran	Diamond Books	50
0000 A	16407	Billoo Short Break PB English	Pran	Diamond Books	35
0000 A	16408	Binayak Sen Animy & Friends Englis	Arvind Kumar	Diamond Books	125
0000 A	16409	Birbals Wit English(PB)		Diamond Books	35
0000 A	16410	Birthday Gift PB English	Alok Chaudhary	Diamond Books	250
0000 A	16411	Blessed Days With Osho (English PE	Ageh Bharti	Diamond Books	200
0000 A	16412	Blessings Of Love PB English	Prabhakar Singh	Diamond Books	0
0000 A	16413	Bloody Merit Scholars English(PB)	Amitabh Kumar	Diamond Books	100
0000 A	16414	Body Language (E) English(PB)	Jagdish Sharma	Diamond Books	125
0000 A	16415	Book Of Love English(PB)	Mariya Shaws	Diamond Books	150
0000 A	16416	Brahamvevart Purana English(PB)	B K Chaturvedi	Diamond Books	75
0000 A	16417	Breakfast for the Soul English(PB)	Subhash Lakhotia	Diamond Books	150
0000 A	16418	Breakfast Specialties English(PB)	Neera Verma	Diamond Books	50
0000 A	16419	Breeze From A Distant Land PB Eng	Aruna Sitesh	Diamond Books	150
0000 A	16420	Buddha The Manifestation Of Silenc	Sri Sri Ravishankar Ji	Diamond Books	99
0000 A	16421	Buddhism (Teachings Of Buddha) E	Manan Sharma	Diamond Books	150
0000 A	16422	Building A Nation (Essays On India)	Yogesh Atal	Diamond Books	95
0000 A	16423	Building Construction English(PB)	Kuldeep Saluja	Diamond Books	95
0000 A	16424	By Lantern Light English(HB)	Cat Weatherill & Alison Edgson	Diamond Books	425
0000 A	16425	By the Light of The Silvery M English(HB)		Diamond Books	299
0000 A	16426	Care After English (PB)	Bimal Chhajer	Diamond Books	50
0000 A	16427	Cartoon Colouring Book 1 PB English		Diamond Books	35
0000 A	16428	Cartoon Colouring Book 2 PB English		Diamond Books	35
0000 A	16429	Cartoon Colouring Book 3 PB English		Diamond Books	35
0000 A	16430	Cartoon Colouring Book 4 PB English		Diamond Books	35
0000A	16431	Causes & Cure Of Blood Pressure En	Satish Goel	Diamond Books	75
0000 A	16432	Causes & Cure Of Heart Ailments En	Satish Goel	Diamond Books	60
0000 A	16433	Causes & Cure Of Stress (Migraine &	Shiv Sharma	Diamond Books	95

0000 A	16434	Causes & Possible Prevention Of Ast	Brijesh Kumar	Diamond Books	45
0000 A	16435	Causes Cure & Prevention Of Childr	Rajeev Sharma	Diamond Books	95
0000 A	16436	Causes Cure & Prevention Of High B	M K Gupta	Diamond Books	95
0000 A	16437	Causes Cure & Prevention Of Nervou	Shiv Sharma	Diamond Books	95
0000 A	16438	Cc Cuddly Bunny Cloth English(HB)		Diamond Books	159
0000 A	16439	Cc Cuddly Kitten Cloth English(HB)		Diamond Books	159
0000 A	16440	Cc Cuddly Puppy Cloth English(HB)		Diamond Books	159
0000 A	16441	Cc Jolly Snowman Cloth English(HB)		Diamond Books	159
0000 A	16442	CCC Course On Computer Concept PB English		Diamond Books	190
0000 A	16443	CCC Course On Computer Concepts	Arvind Mohan Dwivedi	Diamond Books	70
0000 A	16444	Cervical Spondylosis English(PB)	Bimal Chhajer	Diamond Books	50
0000 A	16445	Chacha Chaudhary & Mr. X English	Pran	Diamond Books	50
0000 A	16446	Chacha Chaudhary and Prof Bad PB	Pran	Diamond Books	50
0000 A	16447	Chacha Chaudhary Big Head Comics	Pran	Diamond Books	35
0000 A	16448	Chacha Chaudhary Digest -1 PB Eng	Pran	Diamond Books	100
0000 A	16449	Chacha Chaudhary Digest -2 PB Eng	Pran	Diamond Books	100
0000 A	16450	Chacha Chaudhary Digest -3 PB Eng	Pran	Diamond Books	100
0000 A	16451	Chacha Chaudhary Digest -4 PB Eng	Pran	Diamond Books	100
0000 A	16452	Chacha Chaudhary Fack Currency PB	Pran	Diamond Books	35
0000 A	16453	Chacha Chaudhary Football World C	Pran	Diamond Books	35
0000 A	16454	Chacha Nehru English(PB)		Diamond Books	15
0000 A	16455	Chakmak Shayri Sms English(PB)	Kuldeep Saluja	Diamond Books	20
0000 A	16456	Chalisa Sangreh (Including Aarties In Roman) English(PB)		Diamond Books	95
0000 A	16457	Chanakya English(PB)	B K Chaturvedi	Diamond Books	95
0000 A	16458	Chanakya English(PB)	Renu Saran	Diamond Books	30
0000 A	16459	Chanakya English(PB)	Renu Saran	Diamond Books	40
0000A	16460	Chanakya Neeti English(PB)	B K Chaturvedi	Diamond Books	150
0000 A	16461	Chanakya The Great PB English	Rajeshwar Mishra	Diamond Books	250
0000 A	16462	Chandra Shekhar Azad (An Immortal	Bhawan Singh Rana	Diamond Books	95
0000 A	16463	Change Your Name Change Your Fa	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	150
0000 A	16464	Channelizing self for success English	Kapil Kakar	Diamond Books	125
0000 A	16465	Chatrapati Shayari Sms English(PB)	Kuldeep Saluja	Diamond Books	20
0000 A	16466	Cheiros Astrology English(PB)	Cheiro	Diamond Books	150
0000 A	16467	Cheiros Numerology English(PB)	Cheiro	Diamond Books	95
0000 A	16468	Cherios Astro Numerology & Your S	Cheiro	Diamond Books	150
0000 A	16469	Chess For Pleasure English(PB)	B R Kishore	Diamond Books	60
0000 A	16470	Chhatrapati Shivaji English(PB)	Bhawan Singh Rana	Diamond Books	95
0000 A	16471	Children Development English(PB)	Hare Ram Singh	Diamond Books	150
0000 A	16472	Chilly Shayari Sms English(PB)	Kuldeep Saluja	Diamond Books	20
0000 A	16473	Chinese Cook Book English(PB)	Neera Verma	Diamond Books	35
0000 A	16474	Cholestrol & Fats English(PB)	Bimal Chhajer	Diamond Books	50
0000A	16475	Choose Your Career English(PB)	Renu Saran	Diamond Books	125
0000 A	16476	Christmas Stencils HB English	Maria Maddocks	Diamond Books	280
0000 A	16477	Christmas With You HB English	Julia Hubery & Sophy Williams	Diamond Books	500
0000 A	16478	CISF Constable PB ENGLISH	Vikas Doon	Diamond Books	200
0000 A	16479	CISF Contable PTP PB English	Vikas Doon	Diamond Books	80
0000 A	16480	Clat (PTP) PB English	Arvind Mohan Dwivedi	Diamond Books	180
0000 A	16481	Click Clock Crocodiles Back	Goellebrei demy	Diamond Books	175
0000 A	16482	Come On Get Set Go English(PB)	Sailesh Lodha	Diamond Books	195
0000 A	16483	Command Your Destiny PB English	Ashok Gupta	Diamond Books	175
0000 A	16484	Commercial Vaastu English(PB)	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	200
0000 A	16485	Common Diseases & Urinary System	S K Sharma	Diamond Books	95
0000 A	16486	Common Diseases Of Women Englis	Renu Gupta	Diamond Books	95
0000 A	16487	Common English Error English(PB)	Rewa Bhasin	Diamond Books	150
0000 A	16488	Common Law Admision Test PB Eng	Arvind Mohan Dwivedi	Diamond Books	415
0000 A	16489	Commonwealth Games 2010 English	Rajiv Tiwari	Diamond Books	125
0000 A	16490	Complete Beautician Course English	Renu Gupta	Diamond Books	95

0000 A	16491	Complete Personality Development C	Surya Sinha	Diamond Books	150
0000 A	16492	Comprehensive Definicional Gloffry	Arvind Mohan Dwivedi	Diamond Books	99
0000 A	16493	Comprehensive Vaastu English(PB)	Gopal Sharma	Diamond Books	150
0000 A	16494	Computer Programming And Operati	Shashank Johri	Diamond Books	60
0000 A	16495	Constipation English(PB)	Bimal Chhajer	Diamond Books	50
0000 A	16496	Corporal Punishment In School PB E	Parminder Singh Bullar	Diamond Books	195
0000 A	16497	Corporate Guru Dhirubhai Ambani E	Prateeksha M Tiwari	Diamond Books	125
0000 A	16498	Crazy Shayari Sms English(PB)	Kuldeep Saluja	Diamond Books	20
0000 A	16499	Creation Srishti Vignana English(PB	Sri Sri Ravishankar Ji	Diamond Books	200
0000 A	16500	Crispy Jokes (English PB)	G C Goyal	Diamond Books	60
0000 A	16501	Crossing The Line English Pb	Aabhas K Maldahiyar	Diamond Books	100
0000 A	16502	CTET Class I-V (Guide) Primary Section PB English		Diamond Books	370
0000 A	16503	CTET Class I-V (Practice Test Papers) Primary Section PB Englis		Diamond Books	130
0000A	16504	CTET Class VI-VIII (Practice Test Papers) Science & Maths PB I		Diamond Books	130
0000 A	16505	CTET Class VI-VIII (Practice Test Papers) Social Studies PB Eng		Diamond Books	130
0000 A	16506	Cuddly Cuffs Cluck English(HB)		Diamond Books	159
0000 A	16507	Cuddly Cuffs Hee Haw English(HB)		Diamond Books	159
0000 A	16508	Cuddly Cuffs Moo English(HB)		Diamond Books	159
0000 A	16509	Cure Diabetes English(PB)	Bimal Chhajer	Diamond Books	50
0000 A	16510	Current Affairs English Magazine PB		Diamond Books	20
0000 A	16511	Current Affairs Mennual 2015		Diamond Books	200
0000 A	16512	Daily Prayer English(PB)	Vipul Rao	Diamond Books	40
0000 A	16513	Daisys Fairy Flowers English(HB)		Diamond Books	159
0000 A	16514	Damiel Black English(PB)	Kevin	Diamond Books	100
0000 A	16515	Dancing to Your Hearts Desire Engli	Lakshmi Hichkad	Diamond Books	100
0000 A	16516	Dare To Dream Dare To Excel Englis	Harikrishan Devsare	Diamond Books	95
0000 A	16517	Davids Dream Team Zinis All English(HB)		Diamond Books	375
0000 A	16518	Dayanand Saraswati English(PB)	Simran	Diamond Books	30
0000 A	16519	Deewano Ki Shayari Sms English(PB	Kuldeep Saluja	Diamond Books	20
0000 A	16520	Delhi A Travel Guide English(PB)	Rajiv Tiwari	Diamond Books	125
0000 A	16521	Delicious Indian Sweets English(PB)	Neera Verma	Diamond Books	50
0000 A	16522	Delighting Jokes English(PB)	G C Goyal	Diamond Books	60
0000 A	16523	Delighting Tales Of Tenalirama Engl	Giriraj Sharan Agarwal	Diamond Books	25
0000 A	16524	Depression English(PB)	Bimal Chhajer	Diamond Books	50
0000 A	16525	Devi Bhagwat Purana English(PB)	B K Chaturvedi	Diamond Books	95
0000 A	16526	Devi's Tantra PB English	Azima V Rosciano	Diamond Books	250
0000 A	16527	Dhyan Yog (English PB)	Dayanand Verma	Diamond Books	60
0000 A	16528	Diabities Type 1 & 2 PB English	Biswaroop Roy Choudhray	Diamond Books	150
0000 A	16529	Diamond Angloa Assamese Pocket I	H Dihingia	Diamond Books	75
0000 A	16530	Diamond Annual Horoscop 2015 PB	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	250
0000 A	16531	Diamond Annual Horoscope 2012 Er	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	195
0000 A	16532	Diamond Annual Horoscope 2013 Er	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	195
0000A	16533	Diamond Assamese Learning & Spea	Debajit Saikia	Diamond Books	50
0000 A	16534	Diamond Bangla Dictionaries PB En	Sumana Chakraborty	Diamond Books	195
0000 A	16535	Diamond Body Building Course Eng	Manoj Kumar	Diamond Books	95
0000 A	16536	Diamond Easy Sudoku English(PB)	Naresh Mohan Lal Sood	Diamond Books	60
0000 A	16537	Diamond English English Dictionary	Renu Saran	Diamond Books	99
0000 A	16538	Diamond English English Hindi Dict	Baljit Singh	Diamond Books	250
0000 A	16539	Diamond Gem English Dictionary Er	Baljit Singh	Diamond Books	70
0000 A	16540	Diamond History Quiz Book English	Anuj Goswami	Diamond Books	125
0000 A	16541	Diamond Horoscope 2015 (Aquarius	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	50
0000 A	16542	Diamond Horoscope 2015 (Aries) En	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	50
0000 A	16543	Diamond Horoscope 2015 (Cancer) E	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	50
0000 A	16544	Diamond Horoscope 2015 (Capricorn	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	50
0000 A	16545	Diamond Horoscope 2015 (Gemini) I	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	50
0000 A	16546	Diamond Horoscope 2015 (Pisces) P	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	50
0000 A	16547	Diamond Horoscope 2015 (Scorpio)	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	50

0000 A	16548	Diamond Horoscope 2015 (Taurus) E	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	50
0000 A	16549	Diamond Horoscope 2015 PB (Leo)	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	50
0000 A	16550	Diamond Horoscope 2015 PB (Libra	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	50
0000 A	16551	Diamond Horoscope 2015 PB (Sagitt	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	50
0000 A	16552	Diamond Horoscope 2015 PB (Virgo	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	50
0000 A	16553	Diamond Mini English English Hindi	Baljit Singh	Diamond Books	95
0000 A	16554	Diamond Pocket Dictionary English(PB)		Diamond Books	40
0000 A	16555	Did She Love Me English(PB)	Jyormoy Mazumdar	Diamond Books	100
0000 A	16556	Diet For Healthy Heart English(PB)	Bimal Chhajer	Diamond Books	50
0000 A	16557	Diet Management Guide English(PB)	Rajeev Sharma	Diamond Books	195
0000 A	16558	Dirty Bertie Pants English(PB)	David Roberts	Diamond Books	99
0000 A	16559	Dirty Bertie Worms	David Roberts	Diamond Books	99
0000 A	16560	Discovery Of Independent India Engl	Joginder Singh	Diamond Books	195
0000 A	16561	Diseases Of Digestive System Englisl	Shiv Sharma	Diamond Books	95
0000A	16562	Diseases Of Respiratory Tract (Nose	Nistha	Diamond Books	95
0000 A	16563	Divine Revelations Of A Sai Devotee	Satya Pal Ruhela	Diamond Books	95
0000 A	16564	Donald Duck And The Cellular Chase Issue XVIII English(PB)		Diamond Books	25
0000 A	16565	Donald Duck And The Telemystery Issue XIX English(PB)		Diamond Books	25
0000 A	16566	Donald Duck Digest I English(PB)		Diamond Books	90
0000 A	16567	Donald Duck Issue I English(PB)		Diamond Books	25
0000 A	16568	Donald Duck Issue II English(PB)		Diamond Books	25
0000 A	16569	Donald Duck Issue III English(PB)		Diamond Books	25
0000 A	16570	Donald Duck Issue IV English(PB)		Diamond Books	25
0000 A	16571	Donald Duck Issue IX English(PB)		Diamond Books	25
0000 A	16572	Donald Duck Issue V English(PB)		Diamond Books	25
0000 A	16573	Donald Duck Issue VI English(PB)		Diamond Books	25
0000 A	16574	Donald Duck Issue VII English(PB)		Diamond Books	25
0000 A	16575	Donald Duck Issue VIII English(PB)		Diamond Books	25
0000 A	16576	Donald Duck Issue X English(PB)		Diamond Books	25
0000 A	16577	Donald Duck Issue XI English(PB)		Diamond Books	25
0000 A	16578	Donald Duck Issue XII English(PB)		Diamond Books	25
0000 A	16579	Donald Duck Issue XIII English(PB)		Diamond Books	25
0000 A	16580	Donald Duck Issue XIV English(PB)		Diamond Books	25
0000 A	16581	Donald Duck Issue XV English(PB)		Diamond Books	25
0000 A	16582	Donald Duck Issue XVI English(PB)		Diamond Books	25
0000 A	16583	Donald Duck Issue XVII English(PB)		Diamond Books	25
0000 A	16584	Donald Duck Issue XXII English(PB)		Diamond Books	25
0000 A	16585	Dont Wake the Lion HB English	Anna Claybourne	Diamond Books	375
0000 A	16586	Double Your Growth PB English	Vivek Bindra	Diamond Books	150
0000 A	16587	Dr Sunil Jogis Badhai Bhare Sms En	Sunil Jogi	Diamond Books	15
0000 A	16588	Dr Sunil Jogis Chahat Bhare Sms En	Sunil Jogi	Diamond Books	15
0000 A	16589	Dr Sunil Jogis Eahsas Bhare Sms Eng	Sunil Jogi	Diamond Books	15
0000 A	16590	Dr Sunil Jogis Mohabbat Bhare Sms	Sunil Jogi	Diamond Books	15
0000A	16591	Dr Sunil Jogis Pyaar Bhare Sms Engl	Sunil Jogi	Diamond Books	20
0000 A	16592	Dr Sunil Jogis Shayari Bhare Sms En	Sunil Jogi	Diamond Books	20
0000 A	16593	Dr Sunil Jogis Thahakon Bhare Sms	Sunil Jogi	Diamond Books	15
0000 A	16594	Dr Sunil Jogis Vyangya Bhare Sms E	Sunil Jogi	Diamond Books	15
0000 A	16595	Dr. Radhakrishnan English(PB)	Renu Saran	Diamond Books	30
0000 A	16596	Dr. Radhakrishnan English(PB)	Renu Saran	Diamond Books	40
0000 A	16597	Dragon and Fire Hard English(PB)	Abhishek Chaudhary	Diamond Books	100
0000 A	16598	Dreams Are Worth Chasing English(	Alok Bhattacharya	Diamond Books	100
0000 A	16599	Dressing Room English(PB)	Abhishek Dubey	Diamond Books	195
0000 A	16600	DSSSB/AIIMS Staff Nurse PTP PB I	Vikas Doon	Diamond Books	100
0000 A	16601	Dubai On Wheels English(PB)	Shamlal Puri	Diamond Books	100
0000 A	16602	Durgesh Nandani English(PB)	Bankim Chandra Chattopadhyay	Diamond Books	95
0000 A	16603	Dying at 19 English(PB)	Alokita Sharma	Diamond Books	100
0000 A	16604	Dynamic Business Letter Writing En	B R Kishore	Diamond Books	95

0000 A	16605	Dynamic Memory 100% Success In I	Tarun Chakrabroty	Diamond Books	95
0000 A	16606	Dynamic Memory Advance Dtp Cou	Davinder Singh Minhas	Diamond Books	225
0000 A	16607	Dynamic Memory Common Error In	Tarun Chakrabroty	Diamond Books	110
0000 A	16608	Dynamic Memory Computer Course	Biswaroop Roy Choudhray	Diamond Books	350
0000 A	16609	Dynamic Memory Computer Course	Biswaroop Roy Choudhray	Diamond Books	275
0000 A	16610	Dynamic Memory Computer Diction	Tarun Chakrabroty	Diamond Books	110
0000 A	16611	Dynamic Memory Computer Hardwa	Davinder Singh Minhas	Diamond Books	150
0000 A	16612	Dynamic Memory Computer Made E	Davinder Singh Minhas	Diamond Books	150
0000 A	16613	Dynamic Memory Create Your Own	Davinder Singh Minhas	Diamond Books	110
0000 A	16614	Dynamic Memory Essay & Letter Wi	Mamta Chaturvedi	Diamond Books	75
0000 A	16615	Dynamic Memory Essay & Letter Wi	Mamta Chaturvedi	Diamond Books	75
0000 A	16616	Dynamic Memory Essay Letter & Pa	Mamta Chaturvedi	Diamond Books	95
0000 A	16617	Dynamic Memory Golden Book Of P	Ayushma Sharma	Diamond Books	125
0000 A	16618	Dynamic Memory How To Succeed I	Tarun Chakrabroty	Diamond Books	95
0000 A	16619	Dynamic Memory Internet & Email E	Davinder Singh Minhas	Diamond Books	110
0000A	16620	Dynamic Memory Internet Dictionery	Tarun Chakrabroty	Diamond Books	110
0000 A	16621	Dynamic Memory M S Access Englis	Davinder Singh Minhas	Diamond Books	60
0000 A	16622	Dynamic Memory M S Excel 2010 E	Davinder Singh Minhas	Diamond Books	60
0000 A	16623	Dynamic Memory M S Word 2010 E	Davinder Singh Minhas	Diamond Books	60
0000 A	16624	Dynamic Memory Magic Tricks Engl	Tarun Chakrabroty	Diamond Books	95
0000 A	16625	Dynamic Memory Methods (E) Engl	Biswaroop Roy Choudhray	Diamond Books	150
0000 A	16626	Dynamic Memory Microsoft Office 2	Davinder Singh Minhas	Diamond Books	150
0000 A	16627	Dynamic Memory Modern Paragraph	Rewa Bhasin	Diamond Books	75
0000 A	16628	Dynamic Memory Modern Paragraph	Rewa Bhasin	Diamond Books	75
0000 A	16629	Dynamic Memory Modern Paragraph	Rewa Bhasin	Diamond Books	75
0000 A	16630	Dynamic Memory Perfect Spoken En	Tarun Chakrabroty	Diamond Books	110
0000 A	16631	Dynamic Memory Practical English E	Renu Saran	Diamond Books	95
0000 A	16632	Dynamic Memory Self Letter Draftin	Biswaroop Roy Choudhray	Diamond Books	160
0000 A	16633	Dynamic Memory Success In Exams	Vijay Anand	Diamond Books	75
0000 A	16634	Dynamic Memory Sure Success In In	Tarun Chakrabroty	Diamond Books	125
0000 A	16635	Dynamic Memory Synonyms & Anto	Tarun Chakrabroty	Diamond Books	125
0000 A	16636	Dynamic Memory Top Essays For Co	Renu Saran	Diamond Books	150
0000 A	16637	Dynamic Memory Windows 98/Xp &	Davinder Singh Minhas	Diamond Books	110
0000 A	16638	Dynamic Memory Windows Vista &	Davinder Singh Minhas	Diamond Books	200
0000 A	16639	Early Bird : 123 Sea HB English	Julie Fletcher	Diamond Books	250
0000 A	16640	Early Bird : Cuddle,Cuddle, Little Fr	Julie Fletcher	Diamond Books	250
0000 A	16641	Early Bird : Hop in the Garden HB E	Julie Fletcher	Diamond Books	250
0000 A	16642	Early Bird : Jungle Colours HB Engl	Julie Fletcher	Diamond Books	250
0000 A	16643	Early Bird : Tweet,Tweet in The Tree	Julie Fletcher	Diamond Books	250
0000 A	16644	Earthy Tones (English HB)	Gurudyal Singh	Diamond Books	195
0000 A	16645	Earthy Tones (English PB)	Gurudyal Singh	Diamond Books	95
0000 A	16646	Easy Guide To Feng Shui English(PB	Rekha Kale	Diamond Books	95
0000 A	16647	Easy Guide To Reiki English(PB)	Rekha Kale	Diamond Books	125
0000 A	16648	Easy Guide To Relationship Building	Rekha Kale	Diamond Books	95
0000A	16649	Ecstasy The Language Of Existence	Osho	Diamond Books	95
0000 A	16650	Education A Reflection Of Life Engli	Sudarshan Ji	Diamond Books	100
0000 A	16651	Educative Jatak Tales English(PB)	Pratibha Kasturiya	Diamond Books	35
0000 A	16652	Educative Tales Of Bible English(PB)		Diamond Books	35
0000 A	16653	Educative Tales Of Panchtantra Engl	Pratibha Kasturia	Diamond Books	35
0000 A	16654	Ek Bharat Shresht Bharat English PB	Pradeep Pandit	Diamond Books	250
0000 A	16655	Ek Onkar Satnam English(HB)	Narinder Nirchhal	Diamond Books	395
0000 A	16656	Eklavya (Children Biography) PB En	Renu Saran	Diamond Books	30
0000 A	16657	Eklavya English(PB)	B K Chaturvedi	Diamond Books	20
0000 A	16658	English Grammer For School PB Eng	Pradeep Rohilla	Diamond Books	200
0000 A	16659	Enhance Your Sexual Potency Englis	Brijesh Kumar	Diamond Books	35

0000 A	16660	Enhance Your Vocalburay English(P	Rewa Bhasin	Diamond Books	150
0000 A	16661	Enlightenment An Inside Story PB E	Sadguru	Diamond Books	225
0000 A	16662	Entertaining Jatak Tales English(PB)	Pratibha Kasturiya	Diamond Books	35
0000 A	16663	Entertaining Tales From Tenalirama	Giriraj Sharan Agarwal	Diamond Books	25
0000 A	16664	Entertaining Tales Of Hitopdesh Eng	Pratibha Kasturiya	Diamond Books	35
0000 A	16665	Entertaining Tales Of Panchtantra En	Pratibha Kasturia	Diamond Books	35
0000 A	16666	Entertaining Tales Of Tenalirama En	Pratibha Kasturiya	Diamond Books	35
0000 A	16667	Entertaining Tales Of Vikram Betal E	Pratibha Kasturiya	Diamond Books	35
0000 A	16668	Essenge Of Vedas English(PB)	B R Kishore	Diamond Books	250
0000 A	16669	Eternal Celebration English(PB)	Osho	Diamond Books	95
0000 A	16670	Everyday Complete Letter Writing (E	B R Kishore	Diamond Books	75
0000 A	16671	Exercise Management Guide English	Rajeev Sharma	Diamond Books	150
0000 A	16672	Exrcise Constable & Lady Exrcise Constable (West Bengal Police		Diamond Books	200
0000 A	16673	Eyecare (Better Eyesight Without Gl	Shiv Sharma	Diamond Books	95
0000 A	16674	Facts Compendium PB English		Diamond Books	110
0000 A	16675	Fairy Tales Colouring & Activity Book English(PB)		Diamond Books	25
0000 A	16676	Fall In Love With Your Wife English	Prashant Sagar Rao	Diamond Books	50
0000 A	16677	Family Homeopathic Guide English(	S K Sharma	Diamond Books	95
0000A	16678	Family Planning & Birth Control Eng	Satish Goel	Diamond Books	45
0000 A	16679	Famous Indian Women English(PB)	Renu Saran	Diamond Books	125
0000 A	16680	Fasts & Festivals Of India English(P	Manish Verma	Diamond Books	95
0000 A	16681	Fengshui Chinese Vaastu For Better	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	195
0000 A	16682	Festival Of India 2 English(HB)	Priyanka	Diamond Books	300
0000 A	16683	Festivals Of India Baisakhi English(PB)		Diamond Books	40
0000 A	16684	Festivals Of India Chirsmas English(PB)		Diamond Books	40
0000 A	16685	Festivals Of India Diwali English(PB)		Diamond Books	50
0000 A	16686	Festivals Of India Durga Puja English(PB)		Diamond Books	40
0000 A	16687	Festivals Of India Dussehra English(PB)		Diamond Books	40
0000 A	16688	Festivals Of India Eid English(PB)		Diamond Books	40
0000 A	16689	Festivals Of India Ganesh Chaturthi English(PB)		Diamond Books	40
0000 A	16690	Festivals Of India Guru Parv English(PB)		Diamond Books	40
0000 A	16691	Festivals Of India Holi English(PB)		Diamond Books	40
0000 A	16692	Festivals Of India Krishan Janamastami English(PB)		Diamond Books	40
0000 A	16693	Festivals Of India Navratra English(PB)		Diamond Books	50
0000 A	16694	Festivals Of India Onam English(PB)		Diamond Books	40
0000 A	16695	Festivals Of India Pongal English(PB)		Diamond Books	40
0000 A	16696	Fidgety Fish(PB)	Ruth Galloway	Diamond Books	199
0000 A	16697	Film Actors English(PB)	Renu Saran	Diamond Books	195
0000 A	16698	Film Actresses English(PB)	Renu Saran	Diamond Books	195
0000 A	16699	Filmi Non Filmi Songs (With Their N	Mamta Chaturvedi	Diamond Books	250
0000 A	16700	First Aid Guide English(PB)	Rajeev Sharma	Diamond Books	75
0000 A	16701	Five Cheeky Monkeys (Sound Book) English(HB)		Diamond Books	280
0000 A	16702	Five Tumbling Tigers HB English	Debbie Tarbett	Diamond Books	280
0000 A	16703	Fixer English(PB)	Sunil Vaid	Diamond Books	150
0000 A	16704	Flash Point (English PB)	Mainak Dhar	Diamond Books	195
0000 A	16705	Fly Without Wings English(PB)	Osho	Diamond Books	95
0000 A	16706	Flying High English(PB)	Abhishek Singh Khatwal	Diamond Books	100
0000A	16707	Folk Tales Of Andhra Pradesh Englis	Rachna Bhola Yamini	Diamond Books	25
0000 A	16708	Folk Tales Of Assam English(PB)	Rachna Bhola Yamini	Diamond Books	25
0000 A	16709	Folk Tales Of Jammu & Kashmir Eng	Rachna Bhola Yamini	Diamond Books	25
0000 A	16710	Folk Tales Of Jharkhand English(PB)	Rachna Bhola Yamini	Diamond Books	25
0000 A	16711	Folk Tales Of Karnataka English(PB)	Rachna Bhola Yamini	Diamond Books	25
0000 A	16712	Folk Tales Of Manipur English(PB)	Rachna Bhola Yamini	Diamond Books	25
0000 A	16713	Folk Tales Of Tamilnadu English(PB	Rachna Bhola Yamini	Diamond Books	25
0000 A	16714	Folk Tales Of Tripura English(PB)	Rachna Bhola Yamini	Diamond Books	25
0000 A	16715	Folk Tales Of Uttranchal English(PB	Rachna Bhola Yamini	Diamond Books	25
0000 A	16716	Food For Good Health English(PB)	S K Sharma	Diamond Books	150
0000 A	16717	For A Better Tomorrow (How To Ma	Joginder Singh	Diamond Books	150

0000 A	16718	For You My Love English(PB)	Ashok Upadhaya	Diamond Books	100
0000 A	16719	For Your Beautiful Dreams English(I	Satya Pal Ruhela	Diamond Books	100
0000 A	16720	Foreingners Who Loved & Served In	K C Brahmachary	Diamond Books	150
0000 A	16721	Freedom Struggle Of 1857 English(P	Renu Saran	Diamond Books	95
0000 A	16722	Friends Forever PB English	Gail Yerrill	Diamond Books	425
0000 A	16723	From Pocket Money Of Professional	Vivek Bindra	Diamond Books	200
0000 A	16724	From The Heart To Heart PB English	Rajesh Chetan	Diamond Books	100
0000 A	16725	Fuzzy-Wuzzy Bugs HB English	Paul Bright & Jack Tickle	Diamond Books	425
0000 A	16726	Gajanan English(PB)	S P Bansal	Diamond Books	75
0000 A	16727	Gandhi And Management English(PE	Praveen Shukla	Diamond Books	95
0000 A	16728	Garuda Purana (E) English(PB)	B K Chaturvedi	Diamond Books	95
0000 A	16729	Gas Acidity & Heartburn English(PB	Bimal Chhajer	Diamond Books	50
0000 A	16730	Gautam Buddha (The Spiritual Light	Suresh Narain Mathur	Diamond Books	295
0000 A	16731	Gautam Budha PB English	Renu Saran	Diamond Books	40
0000 A	16732	Geetanjali (E) English(PB)	Ravindranath Tagore	Diamond Books	75
0000 A	16733	Gems Power English(PB)	V K Sharma	Diamond Books	150
0000 A	16734	Geography Quiz Book English(PB)	Anuj Goswami	Diamond Books	95
0000 A	16735	Glory Of Freedom (Sufis The People	Osho	Diamond Books	250
0000A	16736	Glory Of Indian Culture English(PB)	Giriraj Shah	Diamond Books	195
0000 A	16737	God (English PB)	Veda Bharti	Diamond Books	200
0000 A	16738	Goddess Durga English(PB)	O P Jha	Diamond Books	30
0000 A	16739	Gods And Goddesses Of India (E) En	Kailash Nath Seth	Diamond Books	150
0000 A	16740	Gods On Trial And Other Stories Eng	Gulzar Singh Sandhu	Diamond Books	95
0000 A	16741	Gods Toolbox How God Answers Pra	Jiliyana Reymond	Diamond Books	95
0000 A	16742	Golden angle & the darkness of midn	Satyapal Chandra	Diamond Books	100
0000 A	16743	Golden Key To Become Super Rich I	Subhash Lakhotia	Diamond Books	175
0000 A	16744	Golden Sutra Of Success English(PB	Gopal Sharma	Diamond Books	95
0000 A	16745	Goodby By Pass Surgery Welcome N	Bimal Chhajer	Diamond Books	495
0000 A	16746	Goodness Killed Me English(PB)	Ashish Dutt Sharma	Diamond Books	100
0000 A	16747	Gora English(PB)	Ravindranath Tagore	Diamond Books	195
0000 A	16748	Grandma`S Home Tips English(PB)	Rajeev Sharma	Diamond Books	95
0000 A	16749	Grandpa And Grandma'S Stories Eng	Geetika Goyal	Diamond Books	150
0000 A	16750	Great Indian Culture English(PB)	Rachna Bhola Yamini	Diamond Books	25
0000 A	16751	Great Indian Personalities (E) Englis	Renu Saran	Diamond Books	150
0000 A	16752	Great Personalities Of The World En	Renu Saran	Diamond Books	175
0000 A	16753	Great Words Win Hearts English(PB	Ujjawal Patni	Diamond Books	195
0000 A	16754	Grehlakshmi 201 Mehandi Design 1	Manish Verma	Diamond Books	20
0000 A	16755	Grehlakshmi 201 Mehandi Design 2	Manish Verma	Diamond Books	20
0000 A	16756	Grehlakshmi 201 Mehndi Design 5 E	Manish Verma	Diamond Books	20
0000 A	16757	Grehlakshmi 261 Mehandi And Tato	Manish Verma	Diamond Books	20
0000 A	16758	Grehlakshmi 301 Mehandi Design 3	Manish Verma	Diamond Books	20
0000 A	16759	Grehlakshmi Nel Art Design PB Hindi		Diamond Books	25
0000 A	16760	Gujrati Cook Book English(PB)	Neera Verma	Diamond Books	35
0000 A	16761	Gulistaan (Garden Of Flower) Englis	Sheikh	Diamond Books	100
0000 A	16762	Guru Nanak Dev English(PB)	Giriraj Sharan Agarwal	Diamond Books	95
0000 A	16763	Hair Care (Prevention Of Dandruff &	Renu Gupta	Diamond Books	95
0000 A	16764	Handbook On Diabetes (E) English(	Shalini Chakraborty	Diamond Books	75
0000A	16765	Hanuman Big Book Of Mask English(PB)		Diamond Books	60
0000 A	16766	Hanuman Book Of Alphabets English(PB)		Diamond Books	60
0000 A	16767	Hanuman Book Of Numbers English(PB)		Diamond Books	60
0000 A	16768	Hanuman English(PB)		Diamond Books	35
0000 A	16769	Hanuman First Picture Word Book English(HB)		Diamond Books	150
0000 A	16770	Hanuman Fun And Games Sticker Fun Book English(PB)		Diamond Books	60
0000 A	16771	Hanuman Fun Faces Sticker Book English(PB)		Diamond Books	60
0000 A	16772	Hanuman Origami Paper Craft English(PB)		Diamond Books	60
0000 A	16773	Hanuman Story Collection (4 Incredible Stories) English(HB)		Diamond Books	175
0000 A	16774	Hanuman The Big Book Origami Paper Craft English(PB)		Diamond Books	60
0000 A	16775	Hanuman The Birthday Party English(PB)		Diamond Books	50

0000 A	16776	Hanuman The Complete Story Book English(PB)		Diamond Books	60
0000 A	16777	Hanuman The Cricket Match English(PB)		Diamond Books	50
0000 A	16778	Hanuman The Seven Wonders Of The World English(PB)		Diamond Books	50
0000 A	16779	Have Guts … The Untiring Truth En	Jaswin Jassi	Diamond Books	95
0000 A	16780	Heal Without Pill English(PB)	Biswaroop Roy Choudhray	Diamond Books	250
0000 A	16781	Healing Through Yoga English(PB)	Sunil Singh	Diamond Books	75
0000 A	16782	Healthy Cooking EnglishPB)	Bimal Chhajer	Diamond Books	50
0000 A	16783	Healthy Heart PB English	Bimal Chhajer	Diamond Books	50
0000 A	16784	Heart Attack English(PB)	Bimal Chhajer	Diamond Books	50
0000 A	16785	Heart Mafia PB English	Biswaroop Roy Choudhray	Diamond Books	150
0000 A	16786	Heart To Heart (With Heart Specialis	Vishnu Jain	Diamond Books	125
0000 A	16787	Her Flight To The Love Nest English	Kuldeep Sing Bedi	Diamond Books	100
0000 A	16788	Herbal Cure For Common Diseases E	Vipul Rao	Diamond Books	95
0000 A	16789	Here And Now English(PB)	OSHO	Diamond Books	95
0000 A	16790	Hi Fi Shayari Sms English(PB)	Kuldeep Saluja	Diamond Books	20
0000 A	16791	Hidden Ocean PB English	Shree Adheesh	Diamond Books	250
0000 A	16792	High Blood Pressure PB English	Bimal Chhajer	Diamond Books	50
0000 A	16793	High School Love English(PB)	Chocoholic Shadow	Diamond Books	100
0000A	16794	Higher The Risk Greater The Success	Tarun Engineer	Diamond Books	150
0000 A	16795	Hilarious Jokes English(PB)	G C Goyal	Diamond Books	60
0000 A	16796	Himalayan Pilgrimage Gateway To T	Surojit Mahalanobis	Diamond Books	395
0000 A	16797	Hindu Dharma English(PB)	M K Gandhi	Diamond Books	75
0000 A	16798	Hindu Gods And Goddesses English(	Suresh Narain Mathur	Diamond Books	395
0000 A	16799	Hindu Masjids (English PB)	Prafull Goradia	Diamond Books	195
0000 A	16800	Hindu Traditions And Beliefs A Scie	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	300
0000 A	16801	Hindu Vrat Kathayen English(PB)		Diamond Books	50
0000 A	16802	Hinduism English(PB)	B R Kishore	Diamond Books	125
0000 A	16803	History of Indian Cinema English(PB	Renu Saran	Diamond Books	250
0000 A	16804	Hitopdesh English(HB)	Rachna Bhola Yamini	Diamond Books	175
0000 A	16805	Holiday Colouring Book PB English		Diamond Books	35
0000 A	16806	Honey English(PB)	Tina Nolan	Diamond Books	99
0000 A	16807	Hot Shayari Sms English(PB)	Kuldeep Saluja	Diamond Books	20
0000 A	16808	How Stars Influence Our Destiny En	Dayanand Verma	Diamond Books	75
0000A	16809	How To Achieve Your Goal PB Engl	Joginder Singh	Diamond Books	150
0000 A	16810	How to Be A Successfull Insurance A	Ashok Goyal	Diamond Books	95
0000 A	16811	How To Become A Millionaire PB E	Subhash Lakhotia	Diamond Books	100
0000 A	16812	How To Excel When Chips Are Dow	Joginder Singh	Diamond Books	95
0000 A	16813	How To Loose The Last 5 Kilos Eng	Namita Jain	Diamond Books	150
0000 A	16814	How To Multiply Your Money In Sh	Dinkar Kumar	Diamond Books	75
0000 A	16815	How To Pass Learner'S Licence Test	Kailash C Bhal	Diamond Books	50
0000 A	16816	How To Play Cricket English(PB)	B K Chaturvedi	Diamond Books	20
0000 A	16817	How To Play Flute & Shehnai Englis	Mamta Chaturvedi	Diamond Books	60
0000 A	16818	How To Play Flute & Shehnai Englis	Mamta Chaturvedi	Diamond Books	45
0000 A	16819	How To Play Guitar English(PB)	Mamta Chaturvedi	Diamond Books	60
0000 A	16820	How To Play Harmonium & Synthes	Mamta Chaturvedi	Diamond Books	95
0000 A	16821	How To Play Sitar English(PB)	Mamta Chaturvedi	Diamond Books	60
0000 A	16822	How To Receive Sri Sathya Sai Baba	Satya Pal Ruhela	Diamond Books	150
0000 A	16823	How To Save Income Tax Through L	Subhash Lakhotia	Diamond Books	175
0000 A	16824	How To Succeed In Life English(PB)	Joginder Singh	Diamond Books	150
0000 A	16825	HTET PB English	Vikas Doon	Diamond Books	115
0000 A	16826	Human in Khakhi English(PB)	Ashok Kumar	Diamond Books	140
0000 A	16827	Human Rights Perspective Plan For 2	Giriraj Shah	Diamond Books	195
0000 A	16828	Humour Of Birbal PB English	Anindra Roy	Diamond Books	125
0000 A	16829	Hypnotism English(PB)	Vipul Rao	Diamond Books	95
0000 A	16830	I Am The Gate English(PB)	Osho	Diamond Books	250
0000 A	16831	I Dont Want To go To Bed	Tim Warnes	Diamond Books	199
0000 A	16832	I Loved A Street Woman (PB) Englis	Nitin Khare	Diamond Books	125

0000 A	16833	I Say Unto You (Vol I) English(PB)	Osho	Diamond Books	250
0000 A	16834	I Say Unto You (Vol II) English(PB)	Osho	Diamond Books	250
0000 A	16835	I Won't Mind (Loving You For Ever)	Asif Seraj	Diamond Books	125
0000 A	16836	IBPS Clerk Grade Exam (Practise Test Paper) PB English		Diamond Books	180
0000 A	16837	IBPS Clerk Grade Exam PB English		Diamond Books	320
0000A	16838	IBPS CWE PO/MT (PTP) PB Englis	Vikas Doon	Diamond Books	115
0000 A	16839	IBPS CWE RRB PB ENGLISH	Vikas Doon	Diamond Books	200
0000 A	16840	IBPS IT Specialist Officer 2014 PB English		Diamond Books	100
0000 A	16841	IBPS Probationary officer & manage	Prerna badoni	Diamond Books	380
0000 A	16842	IBPS Probationery Officers (12 Practice Papers) PB English		Diamond Books	190
0000 A	16843	IBPS Regional Rural Bank (Officers) 10 Practice Test Papers PB		Diamond Books	175
0000 A	16844	IBPS Regional Rural Bank Office Assistants (12 Practice Papers)		Diamond Books	185
0000 A	16845	IBPS Regional Rural Bank Officer (CWE) (Scale I,II & III) Guide		Diamond Books	425
0000 A	16846	IBPS Regional Rural Banks OA (Multipurpose) Exam (CWE) Eng		Diamond Books	375
0000 A	16847	Ignou B.ed Practice Test Paper PB English		Diamond Books	125
0000 A	16848	Illusion In Air English(PB)	Soumyashri Debasish	Diamond Books	100
0000 A	16849	Illustrated Classic Series Oliver Twis	Charles Dickens	Diamond Books	40
0000 A	16850	Illustrated Classics Series Black Beau	Anna Sewell	Diamond Books	40
0000 A	16851	Illustrated Classics Series David Copperfield English(PB)		Diamond Books	40
0000 A	16852	Illustrated Classics Series Great Expectations English(PB)		Diamond Books	40
0000 A	16853	Illustrated Classics Series Kidnapped	Robert Louis Stevenson	Diamond Books	40
0000 A	16854	Illustrated Classics Series Pride And Prejudice English(PB)		Diamond Books	40
0000 A	16855	Illustrated Classics Series The Adventures Of Robinson Crusoe E		Diamond Books	40
0000 A	16856	Illustrated Classics Series The Call Of The Wild English(PB)		Diamond Books	40
0000 A	16857	Illustrated Classics Series The Count Of Monte Cristo English(PB		Diamond Books	40
0000 A	16858	Illustrated Classics Series The Time M	H G Wells	Diamond Books	40
0000 A	16859	Illustrated Classics Series Treasure Island English(PB)		Diamond Books	40
0000 A	16860	Illustrated World Classics 20000 Lea	Jules Verne	Diamond Books	40
0000 A	16861	Illustrated World Classics A Christma	Charles Dickens	Diamond Books	40
0000 A	16862	Illustrated World Classics A Connect	Mark Twain	Diamond Books	50
0000 A	16863	Illustrated World Classics A Journey	Jonathan Swift	Diamond Books	40
0000 A	16864	Illustrated World Classics A Tale of T	Charles Dickens	Diamond Books	40
0000 A	16865	Illustrated World Classics Around Th	Jules Verne	Diamond Books	40
0000 A	16866	Illustrated World Classics Ben Hur E	Lew Wallace	Diamond Books	40
0000A	16867	Illustrated World Classics Frankenste	Mary Shelly	Diamond Books	50
0000 A	16868	Illustrated World Classics Gullivers T	Jonathan Swift	Diamond Books	40
0000 A	16869	Illustrated World Classics Ivanhoe	Walter Scott	Diamond Books	40
0000 A	16870	Illustrated World Classics Jane Eyre	Charlotte Brontë	Diamond Books	40
0000 A	16871	Illustrated World Classics King Solor	H Rider Haggard	Diamond Books	40
0000 A	16872	Illustrated World Classics Moby Dick	Herman Melville	Diamond Books	40
0000 A	16873	Illustrated World Classics The Adven	Howard Pyle	Diamond Books	50
0000 A	16874	Illustrated World Classics The Adven	Mark Twain	Diamond Books	50
0000 A	16875	Illustrated World Classics The Hound	Arthur Conan Doyle	Diamond Books	50
0000 A	16876	Illustrated World Classics The Last C	James Fenimore Cooper	Diamond Books	40
0000 A	16877	Illustrated World Classics The Mayor	Thomas Hardy	Diamond Books	40
0000 A	16878	Illustrated World Classics The Mill o	George Eliot	Diamond Books	40
0000 A	16879	Illustrated World Classics The Nutcra	E T A Hoffman	Diamond Books	40
0000 A	16880	Illustrated World Classics The Prince	Mark Twain	Diamond Books	40
0000 A	16881	Illustrated World Classics The Prison	Anthony Hope	Diamond Books	50
0000 A	16882	Illustrated World Classics The Scarle	Baroness Emma Orczy	Diamond Books	40
0000 A	16883	Illustrated World Classics The Tale o	Johanna Spyri	Diamond Books	40
0000 A	16884	Illustrated World Classics The Three	Alexandre Dumas	Diamond Books	40
0000 A	16885	Illustrated World Classics The Wizar	L F Baum	Diamond Books	50
0000 A	16886	Impossible Possible (E) English(PB)	Biswaroop Roy Choudhray	Diamond Books	150
0000 A	16887	Improve Your Health With Apple Gu	Rajeev Sharma	Diamond Books	50
0000 A	16888	Improve Your Health With Basil & M	Rajeev Sharma	Diamond Books	50
0000 A	16889	Improve Your Health With Carrot Ra	Rajeev Sharma	Diamond Books	50

0000 A	16890	Improve Your Health With Dairy Pro	Rajeev Sharma	Diamond Books	50
0000 A	16891	Improve Your Health With Dry Fruit	Rajeev Sharma	Diamond Books	50
0000 A	16892	Improve Your Health With Fruits & I	Rajeev Sharma	Diamond Books	50
0000 A	16893	Improve Your Health With Garlic On	Rajeev Sharma	Diamond Books	50
0000 A	16894	Improve Your Health With Honey En	Rajeev Sharma	Diamond Books	50
0000 A	16895	Improve Your Health With Lemon &	Rajeev Sharma	Diamond Books	50
0000A	16896	Improve Your Health With Papaya B	Rajeev Sharma	Diamond Books	50
0000 A	16897	Improve Your Health With Spices En	Rajeev Sharma	Diamond Books	50
0000 A	16898	Improve Your Health With Trees & P	Rajeev Sharma	Diamond Books	50
0000 A	16899	Improve Your Health With Vegetable	Rajeev Sharma	Diamond Books	50
0000 A	16900	Improve Your Health With Watersun	Rajeev Sharma	Diamond Books	50
0000 A	16901	Improve Your Health With Wheatgra	Rajeev Sharma	Diamond Books	50
0000 A	16902	In Love Or In Roller Coster PB Engli	Vithika	Diamond Books	125
0000 A	16903	In The Name of Love English(PB)	Nitya Prakash	Diamond Books	100
0000 A	16904	India Book Of Record 2014 PB Engl	Biswaroop Roy Choudhray	Diamond Books	395
0000 A	16905	India Book Of Records 2011 English	Biswaroop Roy Choudhray	Diamond Books	250
0000 A	16906	India Book Of Records 2012 (E) Eng	Biswaroop Roy Choudhray	Diamond Books	295
0000 A	16907	India Book Of Records 2013 English	Biswaroop Roy Choudhray	Diamond Books	395
0000 A	16908	India Book Of Records-2015 HB Eng	Biswaroop Roy Choudhray	Diamond Books	750
0000 A	16909	India Book Of Records-2015 PB Eng	Biswaroop Roy Choudhray	Diamond Books	450
0000 A	16910	India Of My Dream English(PB)	M K Gandhi	Diamond Books	150
0000 A	16911	India of swami vivekanand dreams (E	Himanshu shekhar	Diamond Books	150
0000 A	16912	Indian Air Force-Airman Group-Y PI	Arvind Mohan Dwivedi	Diamond Books	185
0000 A	16913	Indian Airports (Shocking Ground Re	K R Wadhwaney	Diamond Books	195
0000 A	16914	Indian Microwave Cook Book (E) E	Tehlina Kaul	Diamond Books	125
0000 A	16915	Indian Sudoku English(PB)	Naresh Mohan Lal Sood	Diamond Books	60
0000 A	16916	Indira Gandhi English(PB)	Meena Agarwal	Diamond Books	95
0000 A	16917	Indira Gandhi English(PB)	Renu Saran	Diamond Books	30
0000 A	16918	Industry & Business English(PB)	Kuldeep Saluja	Diamond Books	75
0000 A	16919	Infond Memory Of Myself English(P	Kunal Chowdhary	Diamond Books	100
0000 A	16920	Infond Memory Of Myself English(P	Kunal Chowdhary	Diamond Books	195
0000 A	16921	Initiation (Ram Katha) English(PB)	Narender Kohli	Diamond Books	150
0000 A	16922	Inner Journey I English(PB)	Yogi Pilot Baba	Diamond Books	250
0000 A	16923	Inner Journey II English(PB)	Yogi Pilot Baba	Diamond Books	250
0000 A	16924	Inside Outside (Translation Of Ghare	Ravindranath Tagore	Diamond Books	95
0000A	16925	Inspiring Jataka Tales English(PB)	Pratibha Kasturiya	Diamond Books	35
0000 A	16926	Inspiring Tales Of Panchtantra Englis	Pratibha Kasturia	Diamond Books	35
0000 A	16927	Inspiring Tales Of Vikram Betal Eng	Pratibha Kasturiya	Diamond Books	35
0000 A	16928	Interesting Jatak Tales English(PB)	Pratibha Kasturiya	Diamond Books	35
0000 A	16929	Interesting Tales Of Bible English(PB)		Diamond Books	35
0000 A	16930	Interesting Tales Of Birbal English(PB)		Diamond Books	35
0000 A	16931	Interesting Tales Of Hitopdesh Englis	Pratibha Kasturiya	Diamond Books	35
0000 A	16932	Interesting Tales Of Panchtantra Eng	Pratibha Kasturia	Diamond Books	35
0000 A	16933	Interesting Tales Of Tenalirama Engl	Pratibha Kasturiya	Diamond Books	35
0000 A	16934	Invisible Confidence Visible Faith En	Sirshree	Diamond Books	125
0000 A	16935	Invisible Doctor English(PB)	Biswaroop Roy Choudhray	Diamond Books	150
0000 A	16936	Iron Man Activity Book English(PB)		Diamond Books	50
0000 A	16937	Ishwar Chandra Vidyasagar English(	B K Chaturvedi	Diamond Books	30
0000 A	16938	It's All B'coz Of You PB English	Noelle Nams	Diamond Books	125
0000 A	16939	Jasmins Fairy Bubbles English(HB)		Diamond Books	159
0000 A	16940	Jataka Tales English(HB)	Pratibha Kasturiya	Diamond Books	175
0000 A	16941	Jataka Tales English(PB)	Ambika Prashad Sharma	Diamond Books	95
0000 A	16942	Jawaharlal Nehru English(PB)	Renu Saran	Diamond Books	30

0000 A	16943	JEE (Mains) Joint Entrance Exam 20	Arvind Mohan Dwivedi	Diamond Books	180
0000 A	16944	Jigsaw Farm (BB) HB English		Diamond Books	325
0000 A	16945	Jigsaw Jungle (BB) HB English	Julie Fletcher	Diamond Books	325
0000 A	16946	Jokes For All English(PB)	Gopi A Tejwani	Diamond Books	95
0000 A	16947	Jokes Of Joginder Singh English(PB)	Joginder Singh	Diamond Books	95
0000 A	16948	Jokes Of Joginder Singh Partii Englis	Joginder Singh	Diamond Books	95
0000 A	16949	Jokes Of Mulla Nasruddin (English P	Giriraj Sharan Agarwal	Diamond Books	20
0000 A	16950	Jokes Of Sheikh Chilli English(PB)	Giriraj Sharan Agarwal	Diamond Books	25
0000 A	16951	Jokes Of Tenalirama English(PB)	Giriraj Sharan Agarwal	Diamond Books	25
0000 A	16952	Journey of the Phoenix	Rajinder Singh	Diamond Books	0
0000 A	16953	Joy Of Sharing PB English	Subhash Lakhotia	Diamond Books	150
0000A	16954	Juice Therapy For Better Health Engl	Ashok Gupta	Diamond Books	95
0000 A	16955	Juicy Shayari Sms English(PB)	Kuldeep Saluja	Diamond Books	20
0000 A	16956	Jumbo Colouring Book 1 PB English		Diamond Books	100
0000 A	16957	Jumbo Colouring Book 2 English		Diamond Books	100
0000 A	16958	Jumbo Colouring Book 3		Diamond Books	100
0000 A	16959	Jumbo Colouring Book 4		Diamond Books	100
0000 A	16960	Jumbo Colouring Book 5		Diamond Books	100
0000 A	16961	Jumbo English(PB)		Diamond Books	40
0000 A	16962	Jungle Friends (BB) English(HB)		Diamond Books	425
0000 A	16963	Just Mushroom English(PB)	Komal Taneja	Diamond Books	100
0000 A	16964	Jyoti Meditation for Childern	Rajinder Singh	Diamond Books	200
0000 A	16965	Kadve Pravachan PB English	Muni Sri Tarun Sagar Ji Maharaj	Diamond Books	195
0000 A	16966	Kailash Mansarover English(PB)	Yogi Pilot Baba	Diamond Books	250
0000 A	16967	Kailash Satyarthi PB English	Kritika Bhardwaj, Ashok K. Sharma	Diamond Books	125
0000 A	16968	Kakuro Challange(The Ultimate Cros	Shab Puzzler Media	Diamond Books	75
0000 A	16969	Kakuro(The All New Brain Teaser) E	Shab Puzzler Media	Diamond Books	75
0000 A	16970	Kakuro(The Ultimate Test Of Your C	Shab Puzzler Media	Diamond Books	75
0000 A	16971	Kalki Purana English(PB)	B K Chaturvedi	Diamond Books	95
0000 A	16972	Kamasutra HB English		Diamond Books	125
0000 A	16973	Kapaal Kundla English(PB)	Bankim Chandra Chattopadhyay	Diamond Books	95
0000 A	16974	Karamyogi Swami Vivekanand PB E	Ramesh Pokhriyal	Diamond Books	50
0000 A	16975	Katju Follies (English PB)	Raj Gopal Katju	Diamond Books	60
0000 A	16976	Katju Nuggets (English PB)	Raj Gopal Katju	Diamond Books	95
0000 A	16977	Kautilaya Arthshashtra English(PB)	B K Chaturvedi	Diamond Books	95
0000 A	16978	KENDRIYA VADHYALAYA Sanga	Vikas Doon	Diamond Books	115
0000 A	16979	KG Colouring Book PB English		Diamond Books	35
0000 A	16980	Kingdom Of Shiva PB English	Shivkishen	Diamond Books	595
0000 A	16981	Kiran Bedi Making Of The Top Cop	Kiran Bedi	Diamond Books	150
0000 A	16982	Kiran Bedi Making Of The Top Cop	Kiran Bedi	Diamond Books	50
0000A	16983	Kiran Bedi The Women Of Substance	Sidhart Iyer	Diamond Books	125
0000 A	16984	Knee Pain English(PB)	Bimal Chhajer	Diamond Books	50
0000 A	16985	Know Your Horoscope Yourself Eng	Kaulacharya Jagdishanand Tirth	Diamond Books	95
0000 A	16986	Koffee With Karan English(PB)	Karan Johar	Diamond Books	395
0000 A	16987	Koorma Puran English(PB)	Vinay	Diamond Books	95
0000 A	16988	Krishna Absolute Joy English(PB)	Sri Sri Ravishankar Ji	Diamond Books	99
0000 A	16989	Krishna English(PB)		Diamond Books	40
0000 A	16990	Ladies Health Guide English(PB)	Nistha	Diamond Books	95
0000 A	16991	Ladies Slimming Course English(PB)	Satish Goel	Diamond Books	110
0000 A	16992	Lakshya PB English	Subhash Lakhotia	Diamond Books	150
0000 A	16993	Lal Kitab (E) English(PB)	Radha Krishna Srimali	Diamond Books	150
0000 A	16994	Language Of The Hand English(PB)	Cheiro	Diamond Books	125
0000 A	16995	Latest Shayari Sms English(PB)	Kuldeep Saluja	Diamond Books	20
0000 A	16996	Laughter Is My Message English(PB	Osho	Diamond Books	95
0000 A	16997	Laughter The Best Meditation Englis	Inderjeet Singh	Diamond Books	95

0000 A	16998	Learn Assamese Through English In	Krishna Gopal Vikal	Diamond Books	100
0000 A	16999	Learn Bengali In 30 Days Through E	Sameer Dey	Diamond Books	95
0000 A	17000	Learn English In 30 Days Through A	B R Kishore	Diamond Books	35
0000 A	17001	Learn English In 30 Days Through A	B R Kishore	Diamond Books	75
0000 A	17002	Learn English In 30 Days Through B	Sameer Dey	Diamond Books	50
0000 A	17003	Learn English In 30 Days Through B	B R Kishore	Diamond Books	75
0000 A	17004	Learn English In 30 Days Through K	B R Kishore	Diamond Books	95
0000 A	17005	Learn English In 30 Days Through K	B R Kishore	Diamond Books	75
0000 A	17006	Learn English In 30 Days Through M	B R Kishore	Diamond Books	95
0000 A	17007	Learn English In 30 Days Through T	B R Kishore	Diamond Books	95
0000 A	17008	Learn English In 30 Days Through T	B R Kishore	Diamond Books	60
0000 A	17009	Learn French In 30 Days Through En	Bhavna Chopra	Diamond Books	125
0000 A	17010	Learn Gujarati In 30 Days Through E	Krishna Gopal Vikal	Diamond Books	75
0000 A	17011	Learn Hindi In 30 Days Through Eng	Krishna Gopal Vikal	Diamond Books	150
0000A	17012	Learn How To Reverse Heart Disease	Bimal Chhajer	Diamond Books	50
0000 A	17013	Learn In 30 Days English Grammar T	B R Kishore	Diamond Books	80
0000 A	17014	Learn Kannada In 30 Days Through I	Krishna Gopal Vikal	Diamond Books	95
0000 A	17015	Learn Malayalam In 30 Days Throug	Krishna Gopal Vikal	Diamond Books	95
0000 A	17016	Learn Marathi In 30 Days Through E	Krishna Gopal Vikal	Diamond Books	125
0000 A	17017	Learn Tamil In 30 Days Through Eng	Krishna Gopal Vikal	Diamond Books	95
0000 A	17018	Learn Telugu In 30 Days Through En	Krishna Gopal Vikal	Diamond Books	95
0000 A	17019	Learn To Say I Love You English(PE	Surya Sinha	Diamond Books	150
0000 A	17020	Learn To Slap Your Child (E) Englis	Sunil Vaid	Diamond Books	150
0000 A	17021	Let Us Make Life A Celebration HB	Sudarshan Ji	Diamond Books	600
0000 A	17022	Lets Learn From Stories English(PB)	Ramesh Pokhriyal	Diamond Books	30
0000 A	17023	Leucoderma English(PB)	Ramji Gupta	Diamond Books	100
0000 A	17024	Life A Song A Dance English(PB)	Osho	Diamond Books	95
0000 A	17025	Life As I See English(PB)	Joginder Singh	Diamond Books	125
0000 A	17026	Life Profile & Biography Of Buddha	Shiv Sharma	Diamond Books	150
0000 A	17027	Linga Purana English(PB)	B K Chaturvedi	Diamond Books	95
0000 A	17028	Little Fox in the woods HB English	Mike Berry	Diamond Books	280
0000 A	17029	Live For India PB English	Anshu Pathak	Diamond Books	150
0000 A	17030	Lives on The Brink English(PB)	Anu Peshawaria	Diamond Books	250
0000 A	17031	Living Healthy With Asthma English	Bimal Chhajer	Diamond Books	50
0000 A	17032	Living With Menopause English(PB)	Narendra Teotia	Diamond Books	45
0000 A	17033	LOC (Life Of College) (E) English(P	Sumit Vijay	Diamond Books	100
0000 A	17034	Lord Buddha (Children Biography) P	Renu Saran	Diamond Books	30
0000 A	17035	Lord Buddha English(PB)	B R Kishore	Diamond Books	15
0000 A	17036	Lord Hanuman And His Art Of Effici	Sunil Jogi	Diamond Books	100
0000 A	17037	Lord Hanumana PB English	Simran Kaur	Diamond Books	80
0000 A	17038	Lord Krisha And His Leadership PB	Krishan Murrari Soni	Diamond Books	150
0000 A	17039	Lord Krishna (Children Biography) P	Renu Saran	Diamond Books	30
0000 A	17040	Lord Krishna English(PB)	B R Kishore	Diamond Books	20
0000A	17041	Lord Krishna PB English	Simran Kaur	Diamond Books	80
0000 A	17042	Lord Mahavira (Children Biography)	Renu Saran	Diamond Books	30
0000 A	17043	Lord Rama & Hanumna two in One H	Simran Kaur	Diamond Books	175
0000 A	17044	Lord Rama (Children Biography) PB	Renu Saran	Diamond Books	30
0000 A	17045	Lord Rama English(PB)	S P Bansal	Diamond Books	95
0000 A	17046	Lord Rama PB Englsh	Simran Kaur	Diamond Books	80
0000 A	17047	Lord Shiva & Krishna two in One HE	Simran kaur	Diamond Books	175
0000 A	17048	Lord Shiva English(PB)	O P Jha	Diamond Books	30
0000 A	17049	Lord Shiva English(PB)	Dr. B.R.Kishore	Diamond Books	15
0000 A	17050	Lord Shiva PB English	O P Jha	Diamond Books	80
0000 A	17051	Love & The Circle Of Six English PE	Avishek Das	Diamond Books	100
0000 A	17052	Love @ Internet (E) English(PB)	Rajeev Ranjan	Diamond Books	100
0000 A	17053	Love All PB English	Manish Sharma	Diamond Books	125
0000 A	17054	Love And Meditation English(PB)	Osho	Diamond Books	95
0000 A	17055	Love Destination Unknown English(I	Vicky R	Diamond Books	100

0000 A	17056	Love Happens So Does A Breakup E	Saurav S	Diamond Books	100
0000 A	17057	Love In A Time Machine English(PB	Minoo	Diamond Books	100
0000 A	17058	Love is where your heart is English(I	Alok Bhattacharya	Diamond Books	100
0000 A	17059	Love Letters for you (E) English(PB)		Diamond Books	60
0000 A	17060	Love Pride Paradox & Prophecy Eng	Soumyashri Debasish	Diamond Books	100
0000 A	17061	Love Sex & Marriage English(PB)	K Sohail Bette Davis	Diamond Books	150
0000 A	17062	Love Song For Osho English(PB)	Anand Devika	Diamond Books	100
0000 A	17063	Love Whispers English(PB)	Swami Rana	Diamond Books	150
0000 A	17064	Lucky Boy English(PB)	Seema Seth	Diamond Books	100
0000 A	17065	Mad Shayari Sms English(PB)	Kuldeep Saluja	Diamond Books	20
0000 A	17066	Magic Of Love English PB	Vicky Pagaria	Diamond Books	100
0000 A	17067	Magic Of Numbers A Guide To Num	V K Sharma	Diamond Books	195
0000 A	17068	Mahabharata English(PB)	B R Kishore	Diamond Books	125
0000 A	17069	Mahanayak Narendra Modi PB Engli	Kumar Pankaj	Diamond Books	150
0000A	17070	Maharana Pratap English(PB)	Bhawan Singh Rana	Diamond Books	95
0000 A	17071	Maharana Pratap English(PB)	Simran	Diamond Books	30
0000 A	17072	Mahatma Gandhi English(PB)	Renu Saran	Diamond Books	30
0000 A	17073	Mahatma Gandhi English(PB)	Renu Saran	Diamond Books	40
0000 A	17074	Make Me Your Friend English(PB)	Sunil Mohan Gera	Diamond Books	100
0000 A	17075	Makeover For Leftover English(PB)	Komal Taneja	Diamond Books	100
0000 A	17076	Management And Corporate Guru Cl	Himanshu Shekhar	Diamond Books	150
0000 A	17077	Management Guru Bhagwan Shri Ra	Sunil Jogi	Diamond Books	300
0000 A	17078	Management Guru Bhagwan Shri Ra	Sunil Jogi	Diamond Books	95
0000 A	17079	Management Guru Ganesha English(	B K Chandra Shekhar	Diamond Books	150
0000 A	17080	Management Guru Lord Krishna Eng	O P Jha	Diamond Books	150
0000 A	17081	Management Guru Narendra Modi Pl	Himanshu Shekhar	Diamond Books	175
0000 A	17082	Management Guru Professro Laloos I	Sunil Jogi	Diamond Books	150
0000 A	17083	Management through Folk Wisdom E	C L Dadhich	Diamond Books	100
0000 A	17084	Manorama English(PB)	Prem chand	Diamond Books	100
0000 A	17085	Markandeya Purana English(PB)	B K Chaturvedi	Diamond Books	75
0000 A	17086	Market Day Mini Library HB English	Tomislav Zlatic	Diamond Books	250
0000 A	17087	Marlons Mean Machine / Katies Cutom Kart (HB) English		Diamond Books	375
0000 A	17088	Marriage & Career English(PB)	Kuldeep Saluja	Diamond Books	75
0000 A	17089	Marriage & Prostitution English(PB)	Arastu Prabhakar	Diamond Books	95
0000 A	17090	Massage For Good Health English(Pl	Rajeev Sharma	Diamond Books	95
0000 A	17091	Math Challenge Lavel 1 English(PB)	James Riley	Diamond Books	95
0000 A	17092	Mathematical Puzzles And Brain Tw	B K Chaturvedi	Diamond Books	95
0000 A	17093	Mathematics Quiz Book English(PB)	Anuj Goswami	Diamond Books	95
0000 A	17094	Maths III 6+ English(PB)		Diamond Books	60
0000 A	17095	Maths IV 7+ English(PB)		Diamond Books	60
0000 A	17096	Maths V 8+ English(PB)		Diamond Books	60
0000 A	17097	Mathura brindaban the Mystical Land	F S Growse	Diamond Books	550
0000 A	17098	Matsya Puran English(PB)	Vinay	Diamond Books	95
0000A	17099	Max Flash Mission 1 Game On Engli	Jonny Zucker	Diamond Books	99
0000 A	17100	Max Flash Mission 2 Super Sonic En	Jonny Zucker	Diamond Books	99
0000 A	17101	Meditation The Art Of Ecstasy Engli	Osho	Diamond Books	250
0000 A	17102	Meditation And The Art Of Dying En	Veda Bharti	Diamond Books	200
0000 A	17103	Meditation Yoga English(PB)	Bhagwan Dev	Diamond Books	95
0000 A	17104	Meeting The Ultimate English(PB)	Osho	Diamond Books	95
0000 A	17105	Meghalaya Police Commando & Con	Arvind Mohan Dwivedi	Diamond Books	195
0000 A	17106	Memory Mind & Body English(PB)	Biswaroop Roy Choudhray	Diamond Books	195
0000 A	17107	Memory Techniques For Science Stu	Neerja Roy Choudhary	Diamond Books	95
0000 A	17108	Memory Unlimited (E) English(PB)	Biswaroop Roy Choudhray	Diamond Books	150
0000 A	17109	Merlin English(PB)	Tina Nolan	Diamond Books	99
0000 A	17110	Message Of The Darshan (E) English	B B Paliwal	Diamond Books	150
0000 A	17111	Message Of The Puranas English(PB	B B Paliwal	Diamond Books	150
0000 A	17112	Message Of The Vedas English(PB)	B B Paliwal	Diamond Books	150

0000 A	17113	Messiah Of Poor Mother Teresa Engl	B K Chaturvedi	Diamond Books	95
0000 A	17114	Mickey Mouse And The Impossible Letter Issue XIX English(PB)		Diamond Books	25
0000 A	17115	Mickey Mouse And The Unbravle Captain Courageous Issue XVI		Diamond Books	25
0000 A	17116	Mickey Mouse Digest I English(PB)		Diamond Books	90
0000 A	17117	Mickey Mouse Issue I English(PB)		Diamond Books	25
0000 A	17118	Mickey Mouse Issue III English(PB)		Diamond Books	25
0000 A	17119	Mickey Mouse Issue IV English(PB)		Diamond Books	25
0000 A	17120	Mickey Mouse Issue IX English(PB)		Diamond Books	25
0000 A	17121	Mickey Mouse Issue V English(PB)		Diamond Books	25
0000 A	17122	Mickey Mouse Issue VI English(PB)		Diamond Books	25
0000 A	17123	Mickey Mouse Issue VII English(PB)		Diamond Books	25
0000 A	17124	Mickey Mouse Issue VIII English(PB)		Diamond Books	25
0000 A	17125	Mickey Mouse Issue X English(PB)		Diamond Books	25
0000 A	17126	Mickey Mouse Issue XI English(PB)		Diamond Books	25
0000 A	17127	Mickey Mouse Issue XII English(PB)		Diamond Books	25
0000A	17128	Mickey Mouse Issue XIII English(PB)		Diamond Books	25
0000 A	17129	Mickey Mouse Issue XIV English(PB)		Diamond Books	25
0000 A	17130	Mickey Mouse Issue XV English(PB)		Diamond Books	25
0000 A	17131	Mickey Mouse Issue XVI English(PB)		Diamond Books	25
0000 A	17132	Midnight Shayari Sms English(PB)	Kuldeep Saluja	Diamond Books	20
0000 A	17133	Mind Body Spirit & You English(PB	Kapil Kakkar	Diamond Books	150
0000 A	17134	Mini Machines (Mini Library) HB En	James Croft	Diamond Books	250
0000 A	17135	Miracles Of Health & Happiness Eng	Subhash Lakhotia	Diamond Books	150
0000 A	17136	Mirror Mirror On The Wall English(I	Roopa Somasundaran	Diamond Books	100
0000 A	17137	Mom Says Get Married English(PB)	Himanshu Modi	Diamond Books	100
0000 A	17138	Monuments Of India English(PB)	Renu Saran	Diamond Books	125
0000 A	17139	Moral Stories of Bible English(HB)		Diamond Books	175
0000 A	17140	Moral Tales From Panchtantra Englis	Giriraj Sharan Agarwal	Diamond Books	35
0000 A	17141	Mother Teresa English(PB)	Renu Saran	Diamond Books	30
0000 A	17142	Mother Teresa English(PB)	Renu Saran	Diamond Books	40
0000A	17143	Mouthteeth & Ear Nose Throat Disor	Rajeev Sharma	Diamond Books	95
0000 A	17144	Mudra Vigyan English(PB)	Rajni Kant Upadhayay	Diamond Books	75
0000 A	17145	Mughlai Cook Book English(PB)	Neera Verma	Diamond Books	45
0000 A	17146	Mumbai Kiski & Other Articles Engl	Prem Chand Sahajwala	Diamond Books	100
0000 A	17147	Munshi Premchand English(PB)	Rekha Sigi	Diamond Books	95
0000 A	17148	Muslim Leagues Unfinished Agenda	Prafull Goradia	Diamond Books	150
0000 A	17149	Mutual Funds-Ladder To Wealth Cre	Vivek K Negi	Diamond Books	125
0000 A	17150	My Cute ABC Picture Dictionary PB English		Diamond Books	60
0000 A	17151	My Dance With A Madman English(	Anand Subhuti	Diamond Books	150
0000 A	17152	My Experiment With Truth An Autol	M K Gandhi	Diamond Books	250
0000 A	17153	My First Board Book of ABC HB English		Diamond Books	80
0000 A	17154	My First Book of ABC PB English		Diamond Books	60
0000 A	17155	My First Book of Numbers 1-100 PB English		Diamond Books	60
0000 A	17156	My First Christmas HB English	Stephen Barker	Diamond Books	375
0000 A	17157	My Life Is For You English(PB)	Satyapal Chandra	Diamond Books	100
0000 A	17158	My Life With Osho PB English	Azima V. Rosciano	Diamond Books	350
0000 A	17159	My Little Box of Bedtime Rhymes PI	Sanja Rescek	Diamond Books	250
0000 A	17160	My Little Night Light English(HB)		Diamond Books	299
0000 A	17161	Mysterious Whisper English(PB)	Arastu Prabhakar	Diamond Books	95
0000 A	17162	Mystique Of The Enligtenment Soul	Anjani Kumar Singh	Diamond Books	100
0000 A	17163	Naadi Predictions English(PB)	Shashi Kant Oak	Diamond Books	250
0000 A	17164	Namo Mantra Of Narender Modi (En	Kumar Pankaj	Diamond Books	150
0000 A	17165	Nandan Nilekani English(PB)	Rajiv Tiwari	Diamond Books	95
0000 A	17166	Narada Purana English(PB)	B K Chaturvedi	Diamond Books	75
0000 A	17167	Narayana Murthy English(PB)	Renu Sharan	Diamond Books	95
0000 A	17168	Narendra Modi English(PB)		Diamond Books	30
0000 A	17169	Natural Healing With Reiki (For Stre	Sukhdeepak Malwai	Diamond Books	100
0000 A	17170	Naturopathy (The Nature'S Way Of H	Jasnita Walia	Diamond Books	45

0000 A	17171	Naturopathy For Better Health Englis	Ashok Gupta	Diamond Books	95
0000A	17172	Naughty Shayari Sms English(PB)	Kuldeep Saluja	Diamond Books	20
0000 A	17173	Navrattan Bodh Katha English(PB)	Kirit Bhai	Diamond Books	95
0000 A	17174	NDA/NA Practise Test Paper PB Eng	Arvind Mohan Dwivedi	Diamond Books	280
0000 A	17175	Neelkanth English(PB)	Purnima Mazumdar	Diamond Books	95
0000 A	17176	Neo Reiki English(PB)	Veet Sankalpo	Diamond Books	150
0000 A	17177	New Dimensions Of K P Astrology E	Arastu Prabhakar	Diamond Books	150
0000 A	17178	New Kamasutra Sex Management Gu	Rajeev Sharma	Diamond Books	175
0000 A	17179	Nirmala English(PB)	Prem chand	Diamond Books	110
0000 A	17180	Nirvana The Last Nightmare English	Osho	Diamond Books	250
0000 A	17181	No Dream Too Big PB English	Joginder Singh	Diamond Books	150
0000 A	17182	Nobel Prize Winner-Malala PB Engli	Kritika Bhardwaj, Ashok K. Sharma	Diamond Books	125
0000 A	17183	Nobel Prize Winners Of The World E	Rachna Bhola Yamini	Diamond Books	200
0000 A	17184	Non Vegetarian Cook Book (E) Eng	Tehlina Kaul	Diamond Books	100
0000 A	17185	Non Vegetarian Cook Book English(	Neera Verma	Diamond Books	45
0000 A	17186	Nothing Is Impossible English(PB)	Joginder Singh	Diamond Books	150
0000 A	17187	Obesity Management English(PB)	Bimal Chhajer	Diamond Books	50
0000 A	17188	Objection Your Honour(All You Wa	Nishant Kashyap	Diamond Books	95
0000 A	17189	Objective GK 2016 PB English	Vikas Doon	Diamond Books	150
0000 A	17190	Occult Lines On The Hand English(P	V K Sharma	Diamond Books	150
0000 A	17191	On & Behind The Indian Cinema Eng	J K Bajaj	Diamond Books	250
0000 A	17192	On the Wings of Love & Sacrifice En	Swami Vivek Bharti	Diamond Books	200
0000 A	17193	One Earth One Humanity English(PB	Osho	Diamond Books	95
0000 A	17194	One Liner & Quotes faceBook Englis	Abhinav Chhajer	Diamond Books	50
0000 A	17195	One Liners PB English	Abhinav Chhabra	Diamond Books	100
0000 A	17196	One Sided It's Not But It Was PB En	Nitish & Sumit	Diamond Books	125
0000 A	17197	Oneness With God English(PB)	M K Spencer Yogi	Diamond Books	100
0000 A	17198	Oops! I Fell In Don's Daughter Engli	Piyush Nayak	Diamond Books	100
0000 A	17199	Osho My Love English(PB)	Chaman Lal Bharti	Diamond Books	25
0000 A	17200	Osho Upnishad English(PB)	Osho	Diamond Books	495
0000A	17201	Our Environmental Challenges & So	R S Shrivasatva	Diamond Books	350
0000 A	17202	Padma Purana English(PB)	Vinay	Diamond Books	75
0000 A	17203	Pakistan Short Stories English(PB)	Fakhar Zaman	Diamond Books	195
0000 A	17204	Panchtantra English (HB)	Rachna Bhola Yamini	Diamond Books	175
0000 A	17205	Paneer Hungama English(PB)	Neena Puri	Diamond Books	50
0000 A	17206	Paneer Khazana English(PB)	Neena Puri	Diamond Books	50
0000 A	17207	Paneer Magaic English(PB)	Neena Puri	Diamond Books	50
0000 A	17208	Parinita English(PB)	Sharat Chandra Chattopadhyay	Diamond Books	100
0000 A	17209	Party Stencils HB English	Maria Maddocks	Diamond Books	280
0000 A	17210	Party Time Shayari Sms English(PB)	Kuldeep Saluja	Diamond Books	20
0000 A	17211	Passage Through India English (PB)	Raghu Korrapati	Diamond Books	150
0000 A	17212	Past Life (A Mysterious Reality) Eng	Rekha Kale	Diamond Books	100
0000 A	17213	Patyala Down The Throat English(PB	Chandraprakash Mohata	Diamond Books	100
0000 A	17214	Peaces To Peace English(PB)	Radhika Nagrath	Diamond Books	125
0000 A	17215	Perfect Mantras For Succeeding In N	Surya Sinha	Diamond Books	150
0000 A	17216	Perfect Spoken English English(PB)	Rewa Bhasin	Diamond Books	150
0000 A	17217	Perfect Success Mantras English(PB)	Ramesh Pokhriyal	Diamond Books	125
0000 A	17218	Pickles Chutnies & Jems English(PB	Neera Verma	Diamond Books	45
0000 A	17219	Pilgrimage Centers Of India English(	Brajesh Kumar	Diamond Books	175
0000 A	17220	Pinki Aur Muchaad Singh PB Englis	Pran	Diamond Books	50
0000 A	17221	Pinki Digest-1 PB English	Pran	Diamond Books	100
0000 A	17222	Pinki Digest-2 PB English	Pran	Diamond Books	100
0000 A	17223	Pinki Gennie PB English	Pran	Diamond Books	50
0000 A	17224	Pinki Laptop PB English	Pran	Diamond Books	35
0000 A	17225	Pinki World Tour PB English	Pran	Diamond Books	35
0000 A	17226	Pinki's Height PB English	Pran	Diamond Books	35
0000 A	17227	Play And Win Kaun Banega Crorepati English(PB)-2		Diamond Books	150

0000 A	17228	Please Mom Its My Life English(PB)	Jaideep Singh Chadha	Diamond Books	125
0000 A	17229	Plot English(PB)	Kuldeep Saluja	Diamond Books	75
0000A	17230	Poisonous Roots English(PB)	Roop Narain Sonker	Diamond Books	60
0000 A	17231	Postal Department Postal Assistante PB English		Diamond Books	115
0000 A	17232	Power Learning English Magazine PB		Diamond Books	30
0000 A	17233	Power Of Positive Thinking English(	G D Buddhiraja	Diamond Books	150
0000 A	17234	Power Of Vaastu & Fengshui PB Eng	Gopal Sharma	Diamond Books	295
0000 A	17235	Power Thinking English(PB)	Ujjawal Patni	Diamond Books	195
0000 A	17236	Power To Write Your Own Destiny E	Ashokindu	Diamond Books	100
0000 A	17237	Practical Parenting Tips (E) English(	Vicky Lansky	Diamond Books	150
0000 A	17238	Practical Vaastu Shastra (E) English	Satyanand	Diamond Books	150
0000 A	17239	Prahlad The Ace Devotee English(PE	B K Chaturvedi	Diamond Books	20
0000 A	17240	Pranab Mukherjee English (PB)	Sudarshan Bhatia	Diamond Books	125
0000 A	17241	Pranayam Kundalini & Hathyoga Eng	Bhagwan Dev	Diamond Books	95
0000 A	17242	Prans Billoo Big Copy Colour Sticker Activity Book English(PB)		Diamond Books	40
0000 A	17243	Prans Billoo Super Copy Colour Sticker Activity Book English(P		Diamond Books	40
0000 A	17244	Prans Chacha Chaudhary Amazing Copy Colour Sticker Activity		Diamond Books	40
0000 A	17245	Prans Chacha Chaudhary Book Of Masks English(PB)		Diamond Books	40
0000 A	17246	Prans Chacha Chaudhary Easy Copy Colour Sticker Activity Bool		Diamond Books	40
0000 A	17247	Prans Pinki Big Copy Colour Sticker Activity Book English(PB)		Diamond Books	40
0000 A	17248	Prans Pinki Cute Copy Colour Sticker Activity Book English(PB)		Diamond Books	40
0000 A	17249	Prans Sabu Crazy Copy Colour Sticker Activity Book English(PB		Diamond Books	40
0000 A	17250	Prans Sabu Ultimate Copy Colour Sticker Activity Book English(		Diamond Books	40
0000 A	17251	Pregnancy & Child Care (E) English(	Satish Goel	Diamond Books	125
0000 A	17252	Pregnancy & Child Care English(PB)	Brijesh Kumar	Diamond Books	50
0000 A	17253	Pride Of The Nation Dr A P J Abdul	Mahesh Dutt Sharma	Diamond Books	95
0000 A	17254	Primary Teachers Eligibility Test Exa	Arvind Mohan Dwivedi	Diamond Books	135
0000 A	17255	Princess Firoza PB English	Purushotam Pomal	Diamond Books	175
0000 A	17256	Punjabi Cook Book English(PB)	Neera Verma	Diamond Books	35
0000 A	17257	Pyramid Vaastu Sheer Cheating Engl	Kuldeep Saluja	Diamond Books	150
0000 A	17258	Quick Kitty Party Delights English(P	Komal Taneja	Diamond Books	100
0000A	17259	Quiet (PB)	Paul Bright	Diamond Books	199
0000 A	17260	Quiet Talks With The Master English	Satya Pal Ruhela	Diamond Books	60
0000 A	17261	Rabindranath Tagore English(PB)	Simran	Diamond Books	30
0000 A	17262	Rabindranath Tagore English(PB)	Renu Saran	Diamond Books	40
0000 A	17263	Railway Recruitment Cell Group d E	Lali Kumari	Diamond Books	160
0000 A	17264	Railway Recruitment Cell Group d Exam (Practice Test Papers) P		Diamond Books	110
0000 A	17265	Rainbow In Dew Drops English(PB)	Anshu Pathak	Diamond Books	100
0000 A	17266	RAJASTHAN Teacher Eligibility Tes	Vikas Doon	Diamond Books	115
0000 A	17267	Rajiv Gandhi English(PB)	Renu Saran	Diamond Books	30
0000 A	17268	Ram Krishna Paramhansa English(PE	B R Kishore	Diamond Books	95
0000 A	17269	Ramanujacharyas Bhavarth Ratnakar	Arastu Prabhakar	Diamond Books	150
0000 A	17270	Ramayana English(PB)	B R Kishore	Diamond Books	125
0000 A	17271	Rang Bhoomi English(PB)	Prem chand	Diamond Books	195
0000 A	17272	Rani Laxmibai English(PB)	Renu Saran	Diamond Books	30
0000 A	17273	Rani Of Jhansi (E) English(PB)	Bhawan Singh Rana	Diamond Books	95
0000 A	17274	Rani Of Jhansi English(HB)	Bhawan Singh Rana	Diamond Books	300
0000 A	17275	Rare Messages From Shri Shirdi Sai	M K Spencer	Diamond Books	60
0000 A	17276	Raseeli Shayari Sms English(PB)	Kuldeep Saluja	Diamond Books	20
0000 A	17277	Ratan Tata English(PB)	Prateeksha M Tiwari	Diamond Books	150
0000 A	17278	RBI Assistant Recruitment Exam (12	Practice Test Paper) English	Diamond Books	150
0000 A	17279	Read & Learn Astrology English(PB)	B K Chaturvedi	Diamond Books	45
0000 A	17280	Read & Learn Numerology English(F	B K Chaturvedi	Diamond Books	45
0000 A	17281	Read & Learn Palmistry English(PB)	B K Chaturvedi	Diamond Books	45
0000 A	17282	Recruitment Of Assistants In New India Assurance Company Ltd.		Diamond Books	185
0000 A	17283	Recruitment of Primary Teachers Exam 2014 PB English		Diamond Books	135
0000 A	17284	Rejuvenate With Kundalini Mantra Y	L R Chowdhary	Diamond Books	95
0000 A	17285	Religions Of The World Gurus Philo	Giriraj Shah	Diamond Books	195

0000 A	17286	Religions Of The World Gurus Philo	Giriraj Shah	Diamond Books	195
0000 A	17287	Religious Basis Of Hindu Beliefs Eng	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	95
0000A	17288	Remedial Vaastushastra English(HB)	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	400
0000 A	17289	Remedial Vaastushastra English(PB)	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	200
0000 A	17290	Renowned Devotees Of Sai Baba PB	O P Jha	Diamond Books	110
0000 A	17291	Requirement Of Assistant Station Master TT Train Clark (Practice		Diamond Books	125
0000 A	17292	Rest In Pieces English(PB)	Ruzbeh N Bharucha	Diamond Books	95
0000 A	17293	Return Of Hanuman English(PB)		Diamond Books	35
0000 A	17294	Rice Cook Book English(PB)	Neera Verma	Diamond Books	125
0000 A	17295	Rigveda (E) English(PB)	Rajbali Pandey	Diamond Books	125
0000 A	17296	Ring Ring English(HB)		Diamond Books	159
0000 A	17297	Rishi Ram Ram English(PB)	M K Spencer	Diamond Books	100
0000 A	17298	Round and Round Jigsaw Garden & Toy English(HB)		Diamond Books	399
0000 A	17299	Round and Round Jigsaw Sea & Toy English(HB)		Diamond Books	399
0000 A	17300	Round and Round: Jigsaw Farm & Toy English(HB)		Diamond Books	399
0000 A	17301	RRB Exam-2015 (PTP) PB English	Vikas Doon, Sanjay Kumar	Diamond Books	80
0000 A	17302	RRB Staff Nurse PB English		Diamond Books	100
0000 A	17303	Rudraksh Therapy English(PB)	B D Sharma	Diamond Books	95
0000 A	17304	Rules Of Various Sports English(PB)	Sanjay Bhola Dheer	Diamond Books	95
0000 A	17305	Running Around In Circles English(P	Kunal Chowdhary	Diamond Books	195
0000 A	17306	Sai Grace And Recent Predictions En	Satya Pal Ruhela	Diamond Books	95
0000 A	17307	Saina Nehwal PB English	Renu Saran	Diamond Books	125
0000 A	17308	sakaratmak soch Swami Vivekanand	Ramesh Pokhriyal Nishank	Diamond Books	50
0000 A	17309	Sampuran Vaastu Shastra English(PB	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	200
0000 A	17310	Samveda English(PB)	Rajbali Pandey	Diamond Books	95
0000 A	17311	Sanskar Vidhi (Arya Samaj) English(	Bhagwan Dev	Diamond Books	250
0000 A	17312	Santas Day Cloth English(HB)		Diamond Books	159
0000 A	17313	Santa's Special Letter HB English	Josephine Collins	Diamond Books	425
0000 A	17314	Saral English Grammar PB English	Pradeep Rohila	Diamond Books	225
0000 A	17315	Sardar Patel PB English	Simran	Diamond Books	30
0000 A	17316	Sardar Patel PB English	Renu Saran	Diamond Books	150
0000A	17317	Say Cheese All The Way English(PB	Komal Taneja	Diamond Books	100
0000 A	17318	SBI ASSTT Manager (Systems) PB E	Arvind Mohan Dwivedi	Diamond Books	100
0000 A	17319	SBI Clerk Grade Exam (15-Practice Test Paper) English (PB)		Diamond Books	200
0000 A	17320	SBI Clerk Grade Exam Guide English (PB)		Diamond Books	350
0000 A	17321	SBI Probationary Officer Guide PB English		Diamond Books	525
0000 A	17322	SBI Probationery Officers (12 Practic	Arvind Mohan Dwivedi	Diamond Books	290
0000 A	17323	Scandals Controversies & World Cup	K R Wadhwaney	Diamond Books	195
0000 A	17324	Science Of Mind Simplified English(	B K Chandra Shekhar	Diamond Books	150
0000 A	17325	Science Quiz Book English(PB)	Anuj Goswami	Diamond Books	95
0000 A	17326	Scientific Basis Of Hindu Beliefs Eng	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	125
0000 A	17327	scientific Method To Top Every Exam	Biswaroop Roy Choudhray	Diamond Books	110
0000 A	17328	SCT Police Constables And Fireman (Andrapradesh Police) Engli		Diamond Books	250
0000 A	17329	Sea Animal Colouring & Activity Book English(PB)		Diamond Books	25
0000 A	17330	Sea Friends English(HB)	Anna Claybourne & Jo Moon	Diamond Books	425
0000 A	17331	Search For The Royal Traitor English	Varun Sehgal	Diamond Books	100
0000 A	17332	Secrects Of Business Success English	Ram Kailash Gupta	Diamond Books	110
0000 A	17333	Secret Of Disciplehood English(PB)	Osho	Diamond Books	95
0000 A	17334	Secrets Of Success English(PB)	Tarun Engineer	Diamond Books	150
0000 A	17335	Secrets Of Success Through Bhagwa	Kapil Kakkar	Diamond Books	110
0000 A	17336	Secrets Of Super Success English(PB	Subhash Lakhotia	Diamond Books	125
0000 A	17337	Selected Gujarati Short Stories Englis	Rajendra Awasthi	Diamond Books	95
0000 A	17338	Selected Hindi Short Stories English(	Rajendra Awasthi	Diamond Books	125
0000 A	17339	Selected Malayalam Short Stories En	Rajendra Awasthi	Diamond Books	95
0000 A	17340	Selected Punjabi Short Stories Englis	Rajendra Awasthi	Diamond Books	95
0000 A	17341	Selected Tamil Short Stories English(	Rajendra Awasthi	Diamond Books	95

0000 A	17342	Self Confidence Gate Way To Succes	Ram Kailash Gupta	Diamond Books	125
0000 A	17343	Sense Of Humour Of Birbal English(	Prakash Mannu	Diamond Books	35
0000 A	17344	Sense Of Humour Of Tenalirama Eng	Pratibha Kasturiya	Diamond Books	35
0000 A	17345	Sex A New Concept English(PB)	Dayanand Verma	Diamond Books	75
0000A	17346	Sex For Adolescents English(PB)	Brijesh Kumar	Diamond Books	35
0000 A	17347	Sex For All English(PB)	Satish Goel	Diamond Books	95
0000 A	17348	Shadows A love Story English(PB)	Niranjan Tasneem	Diamond Books	100
0000 A	17349	Shadows In Cages (Mother & Child I	Ruzbeh N Bharucha	Diamond Books	225
0000 A	17350	Shape Of The Hand English(PB)	V K Sharma	Diamond Books	95
0000 A	17351	Shape Your Personality PB English	CD Semwal	Diamond Books	125
0000 A	17352	She Fell In Love English(PB)	Rajinder Singh	Diamond Books	100
0000 A	17353	Shirdi Sai Baba (Children Biography	O P Jha	Diamond Books	30
0000 A	17354	Shirdi Sai Baba Life Philosophy And	O P Jha	Diamond Books	150
0000 A	17355	Shirdi Sai Baba PB English	O P Jha	Diamond Books	80
0000 A	17356	Shirdi Sai The Supreme English(PB)	Satya Pal Ruhela	Diamond Books	95
0000 A	17357	Shiv Abhishek Pujan English(PB)	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	40
0000 A	17358	Shiv Purana English(PB)	B K Chaturvedi	Diamond Books	95
0000 A	17359	Shrawan Kumar (The Worthy Son) E	B K Chaturvedi	Diamond Books	20
0000 A	17360	Shree Sai Nath Mananam English(PB	B V N Swami	Diamond Books	50
0000 A	17361	Shri Gaytari Chalisa (Roman) English(PB)		Diamond Books	10
0000 A	17362	Shri Guruji Golwalkar English(PB)	Mahesh Dutt Sharma	Diamond Books	95
0000 A	17363	Shri Hanuman Chalisa (Roman) Engl	B K Chaturvedi	Diamond Books	60
0000 A	17364	Shri Sai Baba Chants English(PB)	Purushottama Nanda	Diamond Books	100
0000 A	17365	Shri Satya Narayana Vrat Katha (English And Hindi) English(PB)		Diamond Books	25
0000 A	17366	Shri Shiv Chalisa (Roman) English(PB)		Diamond Books	10
0000 A	17367	Shrimad Bhagvad Gita Krishna The C	Ramesh Tiwari	Diamond Books	175
0000 A	17368	Shunya PB English	Varun Sehgal	Diamond Books	125
0000 A	17369	Silence Behind Noise PB ENGLISH	Sanjay Kumar Verma	Diamond Books	250
0000 A	17370	Silly Shayari Sms English(PB)	Kuldeep Saluja	Diamond Books	20
0000 A	17371	Simply Beautiful Home English(PB)	Anshu Pathak	Diamond Books	295
0000 A	17372	Siya Seth Dicide To Die English(PB)	Sneha Mehta	Diamond Books	100
0000 A	17373	Skanda Purana English(PB)	Vinay	Diamond Books	95
0000 A	17374	Skin Care English(PB)	Renu Gupta	Diamond Books	125
0000A	17375	Slices From A Life English(PB)	Abhimanyu Unnaut	Diamond Books	125
0000 A	17376	Social Sciences (The Indian Scene) E	Yogesh Atal	Diamond Books	95
0000 A	17377	Sonar Gaon PB English	Nilendu Sen	Diamond Books	150
0000 A	17378	Soul Of Jainism English(PB)	Shiv Sharma	Diamond Books	125
0000 A	17379	Soul@Universe Com English(HB)	Pandit Atre	Diamond Books	200
0000 A	17380	Soul@Universe Com English(PB)	Pandit Atre	Diamond Books	75
0000 A	17381	Soups Cook Book English(PB)	Neera Verma	Diamond Books	45
0000 A	17382	Soya Everyday English(PB)	Komal Taneja	Diamond Books	100
0000 A	17383	Spark Of The Divine English(PB)	Rajinder Singh	Diamond Books	200
0000 A	17384	Speed Palmistry With Memory Tips I	Biswaroop Roy Choudhray	Diamond Books	95
0000 A	17385	Spicy Shayari Sms English(PB)	Kuldeep Saluja	Diamond Books	20
0000 A	17386	Spiritual Fitness English(PB)	Nency Mramor	Diamond Books	95
0000 A	17387	Spiritualism In Day To Day Life Eng	R N Lakhotia	Diamond Books	50
0000 A	17388	Sports Scare	H P Siingh Rishi	Diamond Books	110
0000 A	17389	Spring Stencils HB English	Maria Maddocks	Diamond Books	280
0000 A	17390	Sri Aurobindo English(PB)	Simran	Diamond Books	30
0000 A	17391	Sri Aurobindo English(PB)	Purnima Mazumdar	Diamond Books	75
0000 A	17392	Sri Krishna The Ascetic English(PB)	Rekha Sigi	Diamond Books	95
0000 A	17393	Sri Ram Charit Manas English(PB)	S P Ojha	Diamond Books	125
0000 A	17394	Sri Ramakrishna Paramhansa (Childr	Renu Saran	Diamond Books	30
0000 A	17395	Sri Sai Science of Vaastu English(PB	Gopal Sharma	Diamond Books	195
0000 A	17396	Sri Sai Science Of Vaastu English(PI	Gopal Sharma	Diamond Books	195
0000 A	17397	Sri Sathya Sai Baba English(PB)	Satya Pal Ruhela	Diamond Books	95
0000 A	17398	Sri Shirdi Sai Bhajanmala In Roman	Satya Pal Ruhela	Diamond Books	50

0000 A	17399	Sri Sri As I Know Him English(PB)	Sri Sri Ravishankar Ji	Diamond Books	149
0000 A	17400	Srikanta English(PB)	Sharat Chandra Chattopadhyay	Diamond Books	150
0000 A	17401	SSC CAPFS PTP PB English	Vikas Doon	Diamond Books	80
0000 A	17402	SSC Combined Graduate Level (12 Practice Test Paper) PB Engli		Diamond Books	200
0000 A	17403	SSC Combined Graduate Level (Tier 1) PB English		Diamond Books	400
0000A	17404	SSC Combined Higher Secondary Level - 2015 PB English		Diamond Books	290
0000 A	17405	SSC Combined Higher Secondary Level - Practice Test Papers PE		Diamond Books	150
0000 A	17406	SSC Combined Higher Secondary Level - PTP 2015 PB English		Diamond Books	150
0000 A	17407	SSC Constable Recruitment Exam PB English		Diamond Books	210
0000 A	17408	SSC Multi Tasking Practice Test Paper PB English Envelope		Diamond Books	125
0000 A	17409	SSC Multitasking (12 Practice Test Paper) PB English		Diamond Books	100
0000 A	17410	SSC Stenographer Grade C & D 2014 (Practice Test Paper) PB E		Diamond Books	150
0000 A	17411	SSC Stenographer Grade C & D 2014 GUIDE PB English		Diamond Books	225
0000 A	17412	Staff Nurse (ANM/GNM) PTP PB E	Vikas Doon	Diamond Books	100
0000 A	17413	Steel King Lakshmi Mittal English(P	Prateeksha M Tiwari	Diamond Books	95
0000 A	17414	Stop Loosing Start Winning PB Engl	Ashu Dutt	Diamond Books	150
0000 A	17415	Stories From Hitopadesh English(PB	Purnima Mazumdar	Diamond Books	60
0000 A	17416	Stories From Panchtantra English(PB	Purnima Mazumdar	Diamond Books	95
0000 A	17417	Stories From Panchtantra I English(P	B K Chaturvedi	Diamond Books	20
0000 A	17418	Stories That Enlighten You English (	JPS Jolly	Diamond Books	150
0000 A	17419	Stress PB English	Bimal Chhajer	Diamond Books	50
0000 A	17420	Stroke Paralysis English(PB)	Bimal Chhajer	Diamond Books	50
0000 A	17421	Study Of Omens English(PB)	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	95
0000 A	17422	Study Of Pencil Shading Animal 1 (E	Shivasheesh Sharma	Diamond Books	60
0000 A	17423	Subhash Chandra Bose English(PB)	Renu Saran	Diamond Books	40
0000 A	17424	Subodha Stotra Ratna Sangrahah English(PB)		Diamond Books	95
0000 A	17425	Success Is Not By Chance (E) Englis	Ashokindu	Diamond Books	125
0000 A	17426	Success Mantra English(PB)	Joginder Singh	Diamond Books	150
0000 A	17427	Sudoku For Pleasure English(PB)	Naresh Mohan Lal Sood	Diamond Books	60
0000 A	17428	Sudoku Gems English(PB)	Naresh Mohan Lal Sood	Diamond Books	60
0000 A	17429	Sudoku Is Fun English(PB)	Naresh Mohan Lal Sood	Diamond Books	75
0000 A	17430	Sudoku Island English(PB)	Naresh Mohan Lal Sood	Diamond Books	60
0000 A	17431	Sudoku Magic English(PB)	Naresh Mohan Lal Sood	Diamond Books	60
0000 A	17432	Sudoku Pearls English(PB)	Naresh Mohan Lal Sood	Diamond Books	60
0000A	17433	Sudoku Treasure English(PB)	Naresh Mohan Lal Sood	Diamond Books	60
0000 A	17434	Sudoku Whichcraft English(PB)	Naresh Mohan Lal Sood	Diamond Books	60
0000 A	17435	Sufi The Invisible Man Of The Unde	Abid Surti	Diamond Books	150
0000 A	17436	Sukhwant Kalsi's Cartoon Book Engl	Sukhwant Kalsi	Diamond Books	95
0000 A	17437	Superhit Shayari Sms English(PB)	Kuldeep Saluja	Diamond Books	20
0000 A	17438	Surya Chikitsa English(PB)	Satyanand	Diamond Books	125
0000 A	17439	Swami Vivekanand A Biography Eng	Asha Prasad	Diamond Books	195
0000 A	17440	Swami Vivekanand English(PB)	Simran	Diamond Books	30
0000 A	17441	Swami Vivekananda in Chicago PB E	Ramesh Pokhriyal Nishank	Diamond Books	50
0000 A	17442	Take Your Dream Job English(PB)	Yograj Negi	Diamond Books	125
0000 A	17443	Tales From The Mahabharat English(	B K Chaturvedi	Diamond Books	125
0000 A	17444	Tales From The Puranas English(PB)	Mahesh Dutt Sharma	Diamond Books	125
0000 A	17445	Tales From The Ramayan English(PE	Meena Agarwal	Diamond Books	125
0000 A	17446	Tales From The Upanishads English(	Mahesh Dutt Sharma	Diamond Books	125
0000 A	17447	Tales From The Vedas And Other Sc	B K Chaturvedi	Diamond Books	125
0000 A	17448	Tales Of Krishna English(HB)	Narayan Sharma	Diamond Books	350
0000 A	17449	Tales Of Krishna English(PB)	Narayan Sharma	Diamond Books	125
0000 A	17450	Tantra Vision An Invitation To Silen	Osho	Diamond Books	95
0000 A	17451	Tantric Transformation English(PB)	Osho	Diamond Books	295
0000 A	17452	Teachings And Philosophy Of Buddh	Udit Sharma	Diamond Books	150
0000 A	17453	Ten on the Bus English(HB)		Diamond Books	299
0000 A	17454	Tenaliram English(HB)		Diamond Books	175
0000 A	17455	Tenaliramas Jokes 1 English(PB)	B K Chaturvedi	Diamond Books	20

0000 A	17456	Tenaliramas Jokes 2 English(PB)	B K Chaturvedi	Diamond Books	20
0000 A	17457	Tenaliramas Wit English(PB)	Pratibha Kasturiya	Diamond Books	35
0000 A	17458	Tense For Life English(PB)	Anand Satyarthi	Diamond Books	100
0000 A	17459	That Hardly Happens To Someone E	Rajesh Singh	Diamond Books	100
0000 A	17460	The 4th Idiot English(PB)	Biswaroop Roy Choudhray	Diamond Books	150
0000 A	17461	The 7th Semester English(PB)	Priyam Kumar	Diamond Books	100
0000A	17462	The Anatomy Of Computer Virus En	Sahil Khan	Diamond Books	150
0000 A	17463	The Architect Of Modern India Dr B	Mahesh Ambedkar	Diamond Books	95
0000 A	17464	The Art Of Living Osho Quotes To E	Osho	Diamond Books	250
0000 A	17465	The Aspirants English(PB)	Yadam Ram Kumar	Diamond Books	100
0000 A	17466	The Astrological Analysis Of Earth Q	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	60
0000 A	17467	The Autobiography Of Benjamin Fra	Benjamin Franklin	Diamond Books	150
0000 A	17468	The Awesome Challenge Of Aids En	Pushpa Khurana	Diamond Books	60
0000 A	17469	The Best Of Vikram Betal English(P	Pratibha Kasturiya	Diamond Books	35
0000 A	17470	The Bhagvadgita English(PB)	M K Gandhi	Diamond Books	195
0000 A	17471	The Bitter Truths Of Network Marke	Ujjawal Patni	Diamond Books	125
0000 A	17472	The Black Snow English(PB)		Diamond Books	100
0000 A	17473	The Business Of Good People Englis	Raghu Korrapati	Diamond Books	150
0000 A	17474	The Busy Little Train English(HB)		Diamond Books	375
0000 A	17475	The Busy Red Tractor English(HB)		Diamond Books	375
0000 A	17476	The Carnival Of Peace Kumbh Teert	Radhika Nagrath	Diamond Books	3000
0000A	17477	The Centre Of The Cyclone English(	Osho	Diamond Books	95
0000 A	17478	The Crazy Indian And Other Stories	Krishan Murrari Soni	Diamond Books	150
0000 A	17479	The Creeping Shadow English(PB)	Rajendra Awasthi	Diamond Books	95
0000 A	17480	The Crunching Munching Caterpillar	Sheridan Cain Jack Tickle	Diamond Books	199
0000 A	17481	The Death Of A Passport English(PB	Iqbal Ramoowalia	Diamond Books	150
0000 A	17482	The Dirt On Breaking Up English(PB	Justin Lookadoo	Diamond Books	150
0000 A	17483	The Dirt On Dating English(PB)	Justin Lookadoo	Diamond Books	150
0000 A	17484	The Dirt On Drugs English(PB)	Justin Lookadoo	Diamond Books	150
0000 A	17485	The Dirt On Sex English(PB)	Justin Lookadoo	Diamond Books	150
0000 A	17486	The Divine Melody English(PB)	Osho	Diamond Books	250
0000 A	17487	The Eternal Sai English(PB)	S Maneey	Diamond Books	40
0000 A	17488	The Excellence In You English(PB)	Giriraj Shah	Diamond Books	150
0000 A	17489	The Fairies Of Starshine Meadow (D	Kate Bloom	Diamond Books	99
0000 A	17490	The Fairies Of Starshine Meadow (R	Kate Bloom	Diamond Books	99
0000 A	17491	The First Woman President Of India	Kumar Pankaj	Diamond Books	95
0000 A	17492	The Great Challenge English(PB)	Osho	Diamond Books	250
0000 A	17493	The Great Entrepreneurs Of India En	Renu Saran	Diamond Books	150
0000 A	17494	The Green Revolution English(PB)	Komal Taneja	Diamond Books	100
0000 A	17495	The Haunted Park PB English	Eknoor Singh Arora	Diamond Books	125
0000 A	17496	The Holy Geeta English(HB)	Malayaj Garg	Diamond Books	3000
0000 A	17497	The Immortal Fakir Of Shirdi Englis	Satya Pal Ruhela	Diamond Books	150
0000 A	17498	The Immortal Philosopher Of India S	Meena Agarwal	Diamond Books	95
0000 A	17499	The Incredible Hulk Colouring Book English(PB)		Diamond Books	40
0000 A	17500	The Incredible Hulk Sticker Book English(PB)		Diamond Books	50
0000 A	17501	The Initiative English(PB)	Vikram Gadewal	Diamond Books	100
0000 A	17502	The Inward Journey In Osho'S Guida	Anand Urmila	Diamond Books	75
0000 A	17503	The Jungle Jive English(HB)		Diamond Books	349
0000 A	17504	The Karma Of Beauty English(PB)	Sangeeta Mehta	Diamond Books	120
0000 A	17505	The Kings Mascot	Rajinder Singh	Diamond Books	40
0000A	17506	The Last Goal English(PB)	Surender Mohan Pathak	Diamond Books	100
0000 A	17507	The Light English (PB)	Devam	Diamond Books	100
0000 A	17508	The Light HB English	Devam	Diamond Books	200
0000 A	17509	The Magic Blanket English(HB)		Diamond Books	250
0000 A	17510	The Magic Box English(HB)	Richard Morgan	Diamond Books	250
0000 A	17511	The Magic Little Sleigh English(HB)		Diamond Books	375
0000 A	17512	The Mahabharata English(PB)	Story By- Arpita Barua	Diamond Books	75

0000 A	17513	The Making Of Mahatma (A Biograp	Anuradha Ray	Diamond Books	95
0000 A	17514	The Mall English(PB)	Saroj Rathi	Diamond Books	100
0000 A	17515	The Mannual Of Sex And Tantra Eng	B R Kishore	Diamond Books	95
0000 A	17516	The Martyr Bhagat Singh Experimen	Kuldip Nayyar	Diamond Books	100
0000 A	17517	The Master Is A Mirror English(PB)	Osho	Diamond Books	95
0000 A	17518	The Miracle Man sri Satya Sai Baba I	B K Chaturvedi	Diamond Books	75
0000 A	17519	The Monkey With Bright Blue Bottar	Nick Schon	Diamond Books	175
0000 A	17520	The Monster Counting Book HB Eng	Kate Daubney	Diamond Books	425
0000 A	17521	The Mystery Beyond Mind English(F	Osho	Diamond Books	95
0000 A	17522	The Mystique Of Gems & Stones Eng	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	250
0000 A	17523	The New Migrant English(PB)	Joginder Singh Kanwal	Diamond Books	150
0000 A	17524	The New Palmistry English(PB)	Judith Hipskind	Diamond Books	250
0000 A	17525	The Noisy Noisy Farm HB English	Stephanie Stansbie	Diamond Books	500
0000 A	17526	The One A Tale Of An Amazing Spir	Narayan Arvind	Diamond Books	195
0000 A	17527	The Opportunity Rama Katha II Engl	Narender Kohli	Diamond Books	150
0000 A	17528	The paradise never lost English(PB)	Pramod bharti	Diamond Books	150
0000 A	17529	The Pathway To Addiction Recovery	Neil Paul	Diamond Books	150
0000 A	17530	The Power Of Mantra & The Mystery	Pandit Rajmani Tigunati	Diamond Books	175
0000 A	17531	The Power of Thoughts English(PB)	Tarun Engineer	Diamond Books	150
0000 A	17532	The Psychology Of The Esoteric Eng	Osho	Diamond Books	250
0000 A	17533	The Radio Jockey Hand Book Englis	Simran Kohli	Diamond Books	195
0000 A	17534	The Ramayana English(PB)		Diamond Books	40
0000A	17535	The Revolutionary Subhash English(	Giriraj Sharan Agarwal	Diamond Books	100
0000 A	17536	The Rise Of Kundalini English(PB)	Dietmar Kraemer	Diamond Books	100
0000 A	17537	The Royal Way (Sufi The People Of	Osho	Diamond Books	250
0000 A	17538	The Saffron Book English(PB)	Prafull Goradia	Diamond Books	150
0000 A	17539	The Secret Of Happiness English(PB	Jas Mand	Diamond Books	195
0000 A	17540	The Story Of Rama (A Mythological	Narender Kumar Sinha	Diamond Books	250
0000 A	17541	The Supreme Mother Goddess Durga	B K Chaturvedi	Diamond Books	95
0000 A	17542	The Tantra Experience English(PB)	Osho	Diamond Books	295
0000 A	17543	The Three Little Pigs HB English	Jenny Arthur	Diamond Books	475
0000 A	17544	The Ultimate Kakuro(Are You Game	Shab Puzzler Media	Diamond Books	75
0000 A	17545	The Unofficial Joke Book Of Advanc	Kuldeep Saluja	Diamond Books	60
0000 A	17546	The Unofficial Joke Book Of Afghan	Kuldeep Saluja	Diamond Books	60
0000 A	17547	The Unofficial Joke Book Of Amster	Kuldeep Saluja	Diamond Books	20
0000 A	17548	The Unofficial Joke Book Of Austral	Kuldeep Saluja	Diamond Books	60
0000 A	17549	The Unofficial Joke Book Of Belgiur	Kuldeep Saluja	Diamond Books	60
0000 A	17550	The Unofficial Joke Book Of Berlin S	Kuldeep Saluja	Diamond Books	20
0000 A	17551	The Unofficial Joke Book Of Birthda	Kuldeep Saluja	Diamond Books	20
0000 A	17552	The Unofficial Joke Book Of Brazil I	Kuldeep Saluja	Diamond Books	60
0000 A	17553	The Unofficial Joke Book Of Canada	Kuldeep Saluja	Diamond Books	60
0000 A	17554	The Unofficial Joke Book Of Chiki S	Kuldeep Saluja	Diamond Books	20
0000 A	17555	The Unofficial Joke Book Of Classic	Kuldeep Saluja	Diamond Books	20
0000 A	17556	The Unofficial Joke Book Of Crazy S	Kuldeep Saluja	Diamond Books	20
0000 A	17557	The Unofficial Joke Book Of Fantast	Kuldeep Saluja	Diamond Books	20
0000 A	17558	The Unofficial Joke Book Of Foolish	Kuldeep Saluja	Diamond Books	20
0000 A	17559	The Unofficial Joke Book Of Friends	Kuldeep Saluja	Diamond Books	20
0000 A	17560	The Unofficial Joke Book Of Good M	Kuldeep Saluja	Diamond Books	20
0000 A	17561	The Unofficial Joke Book Of Good N	Kuldeep Saluja	Diamond Books	20
0000 A	17562	The Unofficial Joke Book Of Hawai I	Kuldeep Saluja	Diamond Books	60
0000 A	17563	The Unofficial Joke Book Of Holland	Kuldeep Saluja	Diamond Books	60
0000A	17564	The Unofficial Joke Book Of Hong K	Kuldeep Saluja	Diamond Books	60
0000 A	17565	The Unofficial Joke Book Of India E	Kuldeep Saluja	Diamond Books	60
0000 A	17566	The Unofficial Joke Book Of Internet	Kuldeep Saluja	Diamond Books	60
0000 A	17567	The Unofficial Joke Book Of Jamaica	Kuldeep Saluja	Diamond Books	60
0000 A	17568	The Unofficial Joke Book Of Japan E	Kuldeep Saluja	Diamond Books	60
0000 A	17569	The Unofficial Joke Book Of Lachile	Kuldeep Saluja	Diamond Books	20
0000 A	17570	The Unofficial Joke Book Of Las Ve	Kuldeep Saluja	Diamond Books	20

0000 A	17571	The Unofficial Joke Book Of London	Kuldeep Saluja	Diamond Books	20
0000 A	17572	The Unofficial Joke Book Of Love S	Kuldeep Saluja	Diamond Books	20
0000 A	17573	The Unofficial Joke Book Of Lubhav	Kuldeep Saluja	Diamond Books	20
0000 A	17574	The Unofficial Joke Book Of Malays	Kuldeep Saluja	Diamond Books	60
0000 A	17575	The Unofficial Joke Book Of Manbh	Kuldeep Saluja	Diamond Books	20
0000 A	17576	The Unofficial Joke Book Of Mancha	Kuldeep Saluja	Diamond Books	20
0000 A	17577	The Unofficial Joke Book Of Melbou	Kuldeep Saluja	Diamond Books	60
0000 A	17578	The Unofficial Joke Book Of Mind B	Kuldeep Saluja	Diamond Books	20
0000 A	17579	The Unofficial Joke Book Of Moscov	Kuldeep Saluja	Diamond Books	20
0000 A	17580	The Unofficial Joke Book Of Mulla N	Kuldeep Saluja	Diamond Books	60
0000 A	17581	The Unofficial Joke Book Of Natkhat	Kuldeep Saluja	Diamond Books	20
0000 A	17582	The Unofficial Joke Book Of Naught	Kuldeep Saluja	Diamond Books	20
0000 A	17583	The Unofficial Joke Book Of New Sr	Kuldeep Saluja	Diamond Books	60
0000 A	17584	The Unofficial Joke Book Of New Y	Kuldeep Saluja	Diamond Books	60
0000 A	17585	The Unofficial Joke Book Of New Ze	Kuldeep Saluja	Diamond Books	60
0000 A	17586	The Unofficial Joke Book Of Pakista	Kuldeep Saluja	Diamond Books	60
0000 A	17587	The Unofficial Joke Book Of Paris S	Kuldeep Saluja	Diamond Books	20
0000 A	17588	The Unofficial Joke Book Of Patiala	Kuldeep Saluja	Diamond Books	60
0000 A	17589	The Unofficial Joke Book Of Pyare S	Kuldeep Saluja	Diamond Books	20
0000 A	17590	The Unofficial Joke Book Of Rapchi	Kuldeep Saluja	Diamond Books	20
0000 A	17591	The Unofficial Joke Book Of Rome S	Kuldeep Saluja	Diamond Books	20
0000 A	17592	The Unofficial Joke Book Of Sharart	Kuldeep Saluja	Diamond Books	20
0000A	17593	The Unofficial Joke Book Of Sharmi	Kuldeep Saluja	Diamond Books	20
0000 A	17594	The Unofficial Joke Book Of Sheikh	Kuldeep Saluja	Diamond Books	60
0000 A	17595	The Unofficial Joke Book Of Silly Sr	Kuldeep Saluja	Diamond Books	20
0000 A	17596	The Unofficial Joke Book Of Singap	Kuldeep Saluja	Diamond Books	60
0000 A	17597	The Unofficial Joke Book Of Some M	Kuldeep Saluja	Diamond Books	20
0000 A	17598	The Unofficial Joke Book Of Sri Lan	Kuldeep Saluja	Diamond Books	60
0000 A	17599	The Unofficial Joke Book Of Switzer	Kuldeep Saluja	Diamond Books	60
0000 A	17600	The Unofficial Joke Book Of Sydney	Kuldeep Saluja	Diamond Books	60
0000 A	17601	The Unofficial Joke Book Of Thailan	Kuldeep Saluja	Diamond Books	60
0000 A	17602	The Unofficial Joke Book Of Uk Eng	Kuldeep Saluja	Diamond Books	60
0000 A	17603	The Unofficial Joke Book Of Valenti	Kuldeep Saluja	Diamond Books	20
0000 A	17604	The Very Friendly Firefly HB Englis	Jack Tickle	Diamond Books	375
0000 A	17605	The Very Greedy Bee	Jack Tickle	Diamond Books	175
0000 A	17606	The Very Merry Mice HB English	Jack Tickle	Diamond Books	425
0000 A	17607	The Very Noisy Night Gift Box HB E	Diana Hendry	Diamond Books	450
0000 A	17608	The Very Smiley Snowman HB Engl	Jack Tickle	Diamond Books	425
0000 A	17609	The Very Snowy Christmas HB Engl	Diana Hendry	Diamond Books	375
0000 A	17610	The Volcano (A Novel On Indian Pa	Swaran Chandan	Diamond Books	195
0000 A	17611	The Yogasara Upanishad English(PB	Sri Sri Ravishankar Ji	Diamond Books	79
0000 A	17612	There Is Never A Last Time For Engl	Vishwajeet Singh & Indresh Kumar	Diamond Books	100
0000 A	17613	Think And How To Grow Rich (E) E	Napoleon Hill	Diamond Books	125
0000 A	17614	Think Big Become Big English(PB)	Tarun Engineer	Diamond Books	175
0000 A	17615	Third Earth And Other Short Stories	Aruna Sitesh	Diamond Books	150
0000 A	17616	Thrilling Jokes English(PB)	G C Goyal	Diamond Books	60
0000 A	17617	Thus Spake Buddha English(PB)	Anurag Sharma	Diamond Books	150
0000 A	17618	Thus Spake Sri Shridi Sai Baba Engl	B Uma Maheshwara Rao	Diamond Books	40
0000 A	17619	Thus Spoke English(PB)	Shooyo Ji	Diamond Books	95
0000 A	17620	Tick Tock English(HB)		Diamond Books	159
0000 A	17621	Tickling Shayari Sms English(PB)	Kuldeep Saluja	Diamond Books	20
0000A	17622	Till We Meet Again PB English	Leema Dhar	Diamond Books	150
0000 A	17623	Time Management English(PB)	Rekha Vyas	Diamond Books	150
0000 A	17624	Tips & Tricks Excel 2010 English(PI	Davinder Singh Minhas	Diamond Books	150
0000 A	17625	Tips & Tricks Windows 7 English(PI	Davinder Singh Minhas	Diamond Books	150
0000 A	17626	Tips & Tricks Word 2010 English(PI	Davinder Singh Minhas	Diamond Books	150
0000 A	17627	Tips For Success (E) English(PB)	Sunil Jogi	Diamond Books	150

0000 A	17628	Tips Of Property PB English	Subhash Lakhotia R N Lakhotia	Diamond Books	150
0000 A	17629	Toppers Top Tips PB English	JPS Jolly	Diamond Books	150
0000 A	17630	Touched By Fire English(PB)	Pandit Rajmani Tigunati	Diamond Books	295
0000 A	17631	Tourist Centers Of India English(PB)	B K Chaturvedi	Diamond Books	95
0000 A	17632	Trading Fundamentals English(PB)	Vivek K Negi	Diamond Books	150
0000 A	17633	Triangles Of terror English(PB)	Shyam Lal Puri	Diamond Books	100
0000 A	17634	Triple Eclipse Of 2009 English(PB)	Sri Sri Ravishankar Ji	Diamond Books	200
0000 A	17635	Triplen English(PB)	Raj Kumar Kohli	Diamond Books	195
0000 A	17636	Triumph at Tsunami PB English	V K Jain	Diamond Books	220
0000 A	17637	Trust Hardwork Not Distiny English(	Ramesh Pokhriyal	Diamond Books	150
0000 A	17638	Tubby Finds A Blue Balloon (3) English(PB)		Diamond Books	35
0000 A	17639	Tubby Is Honest (5) English(PB)		Diamond Books	35
0000 A	17640	Tubby Is Lost (12) English(PB)		Diamond Books	35
0000 A	17641	Tubby Learns Greediness Is Harmful (2) English(PB)		Diamond Books	35
0000 A	17642	Tubby Learns Not To Fight (8) English(PB)		Diamond Books	35
0000 A	17643	Tubby Learns To Be Careful (7) English(PB)		Diamond Books	35
0000 A	17644	Tubby Learns To Clean (4) English(PB)		Diamond Books	35
0000 A	17645	Tubby Learns To Remember (11) English(PB)		Diamond Books	35
0000 A	17646	Tubby Learns to Share (6) English(PB)		Diamond Books	35
0000 A	17647	Tubby Loves To Draw (9) English(PB)		Diamond Books	35
0000 A	17648	Tubby Loves To Go To School (1) English(PB)		Diamond Books	35
0000 A	17649	Tubby Tells Truth (10) English(PB)		Diamond Books	35
0000 A	17650	Tubbys Bed Time Story PB English		Diamond Books	60
0000A	17651	Tubbys Big Colouring Book English(PB)		Diamond Books	80
0000 A	17652	Tubbys Capital & Small Writing Book PB English		Diamond Books	60
0000 A	17653	Tubbys Capital Writing Book English(PB)		Diamond Books	60
0000 A	17654	Tubbys Classic Tales Aladdin & The Magic Lamp English(PB)		Diamond Books	50
0000 A	17655	Tubbys Classic Tales Alice In Wonderland English(PB)		Diamond Books	40
0000 A	17656	Tubbys Classic Tales Cinderella English(PB)		Diamond Books	50
0000 A	17657	Tubbys Classic Tales Goldilocks And The Three Bears English(P		Diamond Books	50
0000 A	17658	Tubbys Classic Tales Hansel And Gretel English(PB)		Diamond Books	50
0000 A	17659	Tubbys Classic Tales Hare And The Tortoise English(PB)		Diamond Books	40
0000 A	17660	Tubbys Classic Tales Little Red Riding Hood English(PB)		Diamond Books	50
0000 A	17661	Tubbys Classic Tales Pinocchio English(PB)		Diamond Books	50
0000 A	17662	Tubbys Classic Tales Rapunzel English(PB)		Diamond Books	50
0000 A	17663	Tubbys Classic Tales Snow White And The Seven Divraps Englis		Diamond Books	50
0000 A	17664	Tubbys Classic Tales The Jungle Book English(PB)		Diamond Books	40
0000 A	17665	Tubbys Colouring Book Of Bollywood Actors English(PB)		Diamond Books	20
0000 A	17666	Tubbys Colouring Book Of Cricketers English(PB)		Diamond Books	20
0000 A	17667	Tubbys Colouring Book Of Dances Of India English(PB)		Diamond Books	20
0000 A	17668	Tubbys Colouring Book Of Festival Of India English(PB)		Diamond Books	20
0000 A	17669	Tubbys Colouring Book Of Ganesha English(PB)		Diamond Books	20
0000 A	17670	Tubbys Colouring Book Of Gods & Goddesses English(PB)		Diamond Books	20
0000 A	17671	Tubbys Colouring Book Of Great Personalities English(PB)		Diamond Books	20
0000 A	17672	Tubbys Colouring Book Of Hanuman English(PB)		Diamond Books	20
0000 A	17673	Tubbys Colouring Book Of Krishna English(PB)		Diamond Books	20
0000 A	17674	Tubbys Colouring Book Of Shiva English(PB)		Diamond Books	20
0000 A	17675	Tubbys Colouring Book Of Tourist Places English(PB)		Diamond Books	20
0000 A	17676	Tubbys Cursive Writing Book 1 English(PB)		Diamond Books	50
0000 A	17677	Tubbys Cursive Writing Book 2 PB English		Diamond Books	60
0000 A	17678	Tubbys Cursive Writing Book 3 PB English		Diamond Books	60
0000 A	17679	Tubbys Cursive Writing Book 4 PB English		Diamond Books	60
0000A	17680	Tubbys Cursive Writing Book 5 PB E	Priyanka	Diamond Books	60
0000 A	17681	Tubbys Cut & Paste Chart Book Actions English(PB)		Diamond Books	12
0000 A	17682	Tubbys Cut & Paste Chart Book Alphabet A To Z English(PB)		Diamond Books	25
0000 A	17683	Tubbys Cut & Paste Chart Book Amphibians & Reptiles English(		Diamond Books	12
0000 A	17684	Tubbys Cut & Paste Chart Book Balanced Diet & Vitamin Chart I		Diamond Books	12

0000 A	17685	Tubbys Cut & Paste Chart Book Birds English(PB)		Diamond Books	12
0000 A	17686	Tubbys Cut & Paste Chart Book Cereals Pulses & Spices English(		Diamond Books	12
0000 A	17687	Tubbys Cut & Paste Chart Book Cloths English(PB)		Diamond Books	12
0000 A	17688	Tubbys Cut & Paste Chart Book Colours & Shapes English(PB)		Diamond Books	12
0000 A	17689	Tubbys Cut & Paste Chart Book Computer Parts English(PB)		Diamond Books	12
0000 A	17690	Tubbys Cut & Paste Chart Book Domestic Animals & Pets Englis		Diamond Books	12
0000 A	17691	Tubbys Cut & Paste Chart Book Electrical Appliances English(PE		Diamond Books	12
0000 A	17692	Tubbys Cut & Paste Chart Book Festivals Of India English(PB)		Diamond Books	12
0000 A	17693	Tubbys Cut & Paste Chart Book Fish English(PB)		Diamond Books	12
0000 A	17694	Tubbys Cut & Paste Chart Book Flags English(PB)		Diamond Books	12
0000 A	17695	Tubbys Cut & Paste Chart Book Flowers English(PB)		Diamond Books	12
0000 A	17696	Tubbys Cut & Paste Chart Book Freedom Fighters English(PB)		Diamond Books	12
0000 A	17697	Tubbys Cut & Paste Chart Book Fruits English(PB)		Diamond Books	12
0000 A	17698	Tubbys Cut & Paste Chart Book Good Manners English(PB)		Diamond Books	12
0000 A	17699	Tubbys Cut & Paste Chart Book Human Body English(PB)		Diamond Books	12
0000 A	17700	Tubbys Cut & Paste Chart Book Indian Cricketrs English(PB)		Diamond Books	12
0000 A	17701	Tubbys Cut & Paste Chart Book Insects English(PB)		Diamond Books	12
0000 A	17702	Tubbys Cut & Paste Chart Book Kitchen Articles English(PB)		Diamond Books	12
0000 A	17703	Tubbys Cut & Paste Chart Book Monuments Of India English(PB		Diamond Books	12
0000 A	17704	Tubbys Cut & Paste Chart Book Non Vegetarian Dishes English(I		Diamond Books	12
0000 A	17705	Tubbys Cut & Paste Chart Book Numbers English(PB)		Diamond Books	12
0000 A	17706	Tubbys Cut & Paste Chart Book Olympic Games English(PB)		Diamond Books	12
0000 A	17707	Tubbys Cut & Paste Chart Book Plants & Trees English(PB)		Diamond Books	12
0000 A	17708	Tubbys Cut & Paste Chart Book Sea Animals English(PB)		Diamond Books	12
0000A	17709	Tubbys Cut & Paste Chart Book Vegetables English(PB)		Diamond Books	12
0000 A	17710	Tubbys Cut & Paste Chart Book Vegetarian Dishes English(PB)		Diamond Books	12
0000 A	17711	Tubbys Cut & Paste Chart Book Vehicles English(PB)		Diamond Books	12
0000 A	17712	Tubbys Cut & Paste Chart Book Wild Animals English(PB)		Diamond Books	12
0000 A	17713	Tubbys First Book Of 1 To 20 Numb	Pramod Negi	Diamond Books	60
0000 A	17714	Tubbys First Book Of Abc English(PB)		Diamond Books	35
0000 A	17715	Tubbys First Book Of Abc English(P	Pramod Negi	Diamond Books	60
0000 A	17716	Tubbys First Book Of Alphabets Colour Book English(PB)		Diamond Books	40
0000 A	17717	Tubbys First Book Of Amazing Circus Colouring Book English(P		Diamond Books	30
0000 A	17718	Tubbys First Book Of Animals Colour Books English(PB)		Diamond Books	30
0000 A	17719	Tubbys First Book Of Animals English(PB)		Diamond Books	60
0000 A	17720	Tubbys First Book Of Birds Colour Book English(PB)		Diamond Books	35
0000 A	17721	Tubbys First Book Of Birds English(PB)		Diamond Books	35
0000 A	17722	Tubbys First Book Of Colours & Sh	Pramod Negi	Diamond Books	60
0000 A	17723	Tubbys First Book Of Flags English(PB)		Diamond Books	20
0000 A	17724	Tubbys First Book Of Flowers Colour Book English(PB)		Diamond Books	30
0000 A	17725	Tubbys First Book Of Flowers English(PB)		Diamond Books	35
0000 A	17726	Tubbys First Book Of Fruits & Veget	Pramod Negi	Diamond Books	60
0000 A	17727	Tubbys First Book Of Fruits Colour Book English(PB)		Diamond Books	30
0000 A	17728	Tubbys First Book Of Fruits English(PB)		Diamond Books	35
0000 A	17729	Tubbys First Book Of Fun Beach Colour Book English(PB)		Diamond Books	30
0000 A	17730	Tubbys First Book Of Fun With Colo	Preschool Books	Diamond Books	25
0000 A	17731	Tubbys First Book Of Fun With Colour II English(PB)		Diamond Books	30
0000 A	17732	Tubbys First Book Of Fun With Colour III English(PB)		Diamond Books	30
0000 A	17733	Tubbys First Book Of Fun With Colour Iv English(PB)		Diamond Books	30
0000 A	17734	Tubbys First Book Of My Pets Colour Book English(PB)		Diamond Books	30
0000 A	17735	Tubbys First Book Of Numbers English(PB)		Diamond Books	35
0000 A	17736	Tubbys First Book Of Nursery Rhymes English(PB)		Diamond Books	20
0000 A	17737	Tubbys First Book Of Nursery Rhym	Santosh Anand	Diamond Books	60
0000A	17738	Tubbys First Book Of Sea Animals English(PB)		Diamond Books	20
0000 A	17739	Tubbys First Book Of Shapes & Colors English(PB)		Diamond Books	20
0000 A	17740	Tubbys First Book Of Toys Colour Book English(PB)		Diamond Books	35
0000 A	17741	Tubbys First Book Of Vegetable English(PB)		Diamond Books	20
0000 A	17742	Tubbys First Book Of Vegetables Colour Book English(PB)		Diamond Books	30

0000 A	17743	Tubbys First Book Of Vehicles Colour Book English(PB)		Diamond Books	30
0000 A	17744	Tubbys First Book Of Vehicles English(PB)		Diamond Books	20
0000 A	17745	Tubbys First Book Of Wild Animals English(PB)		Diamond Books	20
0000 A	17746	Tubbys First Book Of Writing (Capit	Pramod Negi	Diamond Books	60
0000 A	17747	Tubbys First Book Of Writing Capital Cursive English(PB)		Diamond Books	40
0000 A	17748	Tubbys First Book Of Writing Small Cursive English(PB)		Diamond Books	60
0000 A	17749	Tubbys Jumbo Colouring Book English(PB)		Diamond Books	80
0000 A	17750	Tubbys Learning Numbers 1 To 20 English(PB)		Diamond Books	35
0000 A	17751	Tubbys Learning Numbers 1 To 50 E	Priyanka	Diamond Books	70
0000 A	17752	Tubbys Nursery Rhymes 1 PB Englis	Priyanka	Diamond Books	50
0000 A	17753	Tubbys Nursery Rhymes 2 PB Englis	Priyanka	Diamond Books	50
0000 A	17754	Tubbys Play With Dot To Dot English(PB)		Diamond Books	40
0000 A	17755	Tubbys Play With Dot To Dot-2 English(PB)		Diamond Books	40
0000 A	17756	Tubbys Play With Play With Fun Puzzle Find The Difference En		Diamond Books	40
0000 A	17757	Tubbys Play With Play With Fun Puzzle Find The Difference-2 E		Diamond Books	40
0000 A	17758	Tubbys Play With Play With Maze Fun English(PB)		Diamond Books	40
0000 A	17759	Tubbys Play With Play With Maze Fun-2 English(PB)		Diamond Books	40
0000 A	17760	Tubbys Small Writing Book English(PB)		Diamond Books	40
0000 A	17761	Tubbys Wiped & Clean Four In One (English) PB		Diamond Books	80
0000 A	17762	Turn Your Creative Spark Into A Fla	Joginder Singh	Diamond Books	95
0000 A	17763	Turning In English(PB)	Osho	Diamond Books	50
0000 A	17764	Turning In English(PB)	Osho	Diamond Books	95
0000 A	17765	Universality Of Buddha English(PB)	Shiv Sharma	Diamond Books	150
0000 A	17766	Unlock The Door to Success English	Ashok Jain	Diamond Books	125
0000A	17767	Unveiling The Secrets Of Reiki Engli	Madabusi Sabramaniam	Diamond Books	195
0000 A	17768	Validated Management Practices Eng	Raghu Korrapati	Diamond Books	495
0000 A	17769	Varaha Purana English(PB)	B K Chaturvedi	Diamond Books	95
0000 A	17770	Vatsyanana Kamasutra (E) English(P	B R Kishore	Diamond Books	125
0000 A	17771	Vayu Puran English(PB)	B B Paliwal	Diamond Books	95
0000 A	17772	Vedanta : Seven Steps To Samadhi P	Osho	Diamond Books	395
0000 A	17773	Vedanta An Art Of Dying English(PI	Osho	Diamond Books	95
0000 A	17774	Vedanta The First Star In The Evenir	Osho	Diamond Books	95
0000 A	17775	Vedanta The Supreme Of Knowledge	Osho	Diamond Books	95
0000 A	17776	Veer Hanuman (Children Biography)	Renu Saran	Diamond Books	30
0000 A	17777	Veer Shivaji English(PB)	Simran	Diamond Books	30
0000 A	17778	Veer Shivaji English(PB)	Renu Saran	Diamond Books	40
0000 A	17779	Veer Vinayak Damodar Savarkar (Ar	Bhawan Singh Rana	Diamond Books	95
0000 A	17780	Veg Oriental Cook Book English(PB	Komal Taneja	Diamond Books	100
0000 A	17781	Vegetarian Cook Book English(PB)	Tehlina Kaul	Diamond Books	100
0000 A	17782	Vegetarianism English(PB)	Bimal Chhajer	Diamond Books	50
0000 A	17783	Vegetarianism In Day To Day Life E	R N Lakhotia	Diamond Books	50
0000 A	17784	Vehicle Colouring & Activity Book English(PB)		Diamond Books	25
0000 A	17785	Vikram Betal English(HB)	Pratibha Kasturiya	Diamond Books	175
0000 A	17786	Vishnu Purana English(PB)	B K Chaturvedi	Diamond Books	95
0000 A	17787	Vitamins For Natural Healing Englis	G C Goyal	Diamond Books	95
0000 A	17788	Vocabulary @ 100 Words/Hr Englisl	Biswaroop Roy Choudhray	Diamond Books	150
0000 A	17789	Walking For Better Health English(P	Satish Goel	Diamond Books	95
0000 A	17790	Walking The Path English(PB)	Sri Sri Ravishankar Ji	Diamond Books	179
0000 A	17791	Walking With You In The Shades Of	Deepak Yadav	Diamond Books	125
0000 A	17792	Wanda's Washing Machine English(I	Anna McQuinn & Jan McCafferty	Diamond Books	375
0000 A	17793	We'll Meet Again (Serendipity Fate &	Anshu Pathak	Diamond Books	100
0000 A	17794	West Bengal GK 2015 English	Tarun Chakraborty	Diamond Books	130
0000 A	17795	West Bengal Police Recruitment Board, Kolkata Excise Constable		Diamond Books	225
0000A	17796	West Bengal SSC (Guide) PB English		Diamond Books	215
0000 A	17797	West Bengal SSC (Practice Test Paper) PB English		Diamond Books	100
0000 A	17798	West bengal SSC Sub Inspector Of F	Arvind Mohan Dwivedi	Diamond Books	175
0000 A	17799	West Bengal Staff Selection Commission Kolkata Recruitment of		Diamond Books	225

0000 A	17800	West Bengal TET (VI-VIII) Maths &	Sumana Chakraborti	Diamond Books	135
0000 A	17801	West Bengal TET (VI-VIII) Social S	Sumana Chakraborti	Diamond Books	135
0000 A	17802	When A Jilted Woman Hits Back Eng	Rajinder Singh	Diamond Books	100
0000 A	17803	When Bugsie Ran Away From Home	Shuchi Naum	Diamond Books	250
0000 A	17804	When Rahul Met Sunshine English(P	Seema Seth	Diamond Books	95
0000 A	17805	When The Sky Is Fallin English(PB)	Hemant rana shah	Diamond Books	100
0000 A	17806	Where Monsoon Never Ends English	M Pothen	Diamond Books	150
0000 A	17807	Where Whale Went English(HB)		Diamond Books	280
0000 A	17808	Who Am I English(PB)	Dalip Kaur Tiwana	Diamond Books	100
0000 A	17809	Whos Hiding In The Forest English(I	Debbie Tarbett	Diamond Books	250
0000 A	17810	Why Are We Still Like This Only En	Jaideep Singh Chadha	Diamond Books	150
0000A	17811	Why Does My Child Misbehave Eng	Sunil Vaid	Diamond Books	100
0000 A	17812	Why Doesn't My Child Eat English(I	Sunil Vaid	Diamond Books	100
0000 A	17813	Why Network Marketing English(PB	Surya Sinha	Diamond Books	150
0000 A	17814	Why We Fight English(PB)	Pandit Rajmani Tigunati	Diamond Books	150
0000 A	17815	Why Women Are What They Are En	Swati Lodha	Diamond Books	195
0000 A	17816	Windows To The World Religions E	Suresh Narain Mathur	Diamond Books	495
0000 A	17817	Winners And Losers English(PB)	Ujjawal Patni	Diamond Books	175
0000 A	17818	Wisdom For The New Millenniunm I	Sri Sri Ravishankar Ji	Diamond Books	149
0000 A	17819	Wits Of Tenalirama English(PB)	Giriraj Sharan Agarwal	Diamond Books	25
0000 A	17820	Womens Desire PB English	Satya Pal Chandra	Diamond Books	100
0000 A	17821	Wonderful Plays To Educate Childre	Prakash Manu	Diamond Books	150
0000 A	17822	Wonders Of Magneto Therapy Englis	S K Sharma	Diamond Books	125
0000 A	17823	Wonders Of Numbers English(PB)	Gopal Sharma	Diamond Books	75
0000 A	17824	Wonders Of The World English(PB)	Renu Saran	Diamond Books	100
0000 A	17825	Work Experience Education English(	Satyapal Ruhela	Diamond Books	95
0000 A	17826	World Famous Scientists English(PB	Renu Saran	Diamond Books	150
0000 A	17827	World Famous Women English(PB)	Renu Saran	Diamond Books	125
0000 A	17828	Worship Of Sri Sathya Sai Baba Eng	Sushila Devi Ruhela	Diamond Books	50
0000 A	17829	Yajurveda English(PB)	Rajbali Pandey	Diamond Books	95
0000 A	17830	Yantra Mantra Tantra And Occult Sc	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	195
0000 A	17831	Yes i have been to hell English(PB)	Junaid	Diamond Books	100
0000 A	17832	Yes You Can (E) English(PB)	Harikrishan Devsare	Diamond Books	95
0000 A	17833	Yoga For Better Health English(PB)	Bhagwan Dev	Diamond Books	95
0000 A	17834	Yoga For Reversal Of Heart Disease	Bimal Chhajer	Diamond Books	395
0000 A	17835	Yoga Moving To The Center English	Osho	Diamond Books	250
0000 A	17836	Yoga The Ever Present Flower Englis	Osho	Diamond Books	250
0000 A	17837	Yogic & Saatvik Diet English(PB)	Komal Taneja	Diamond Books	100
0000 A	17838	You Are The One For Someone PB E	Shriyut Kumar Sribastava	Diamond Books	125
0000 A	17839	You Ask He Answers English(HB)	B S Tirtha Maharaj	Diamond Books	400
0000A	17840	You Ask He Answers English(PB)	B S Tirtha Maharaj	Diamond Books	200
0000 A	17841	You Turn India English(PB)	Sri Sri Ravishankar Ji	Diamond Books	300
0000 A	17842	Your Money My Advice PB English	Subhash Lakhotia	Diamond Books	175
0000 A	17843	Youth Icons Of India English(PB)	Kumar Pankaj	Diamond Books	95
0000 A	17844	Zen The Art Of Enlightenment Englis	Osho	Diamond Books	250
0000 A	17845	Zero Oil 151 Snackes Namkeen Engl	Bimal Chhajer	Diamond Books	150
0000 A	17846	Zero Oil Cook Book English(PB)	Bimal Chhajer	Diamond Books	150
0000 A	17847	Zero Oil South Indian Cook Book (E	Bimal Chhajer	Diamond Books	150
0000 A	17848	Zero Oil Sweets Book English(PB)	Bimal Chhajer	Diamond Books	160
0000 A	17849	Zero Oil Thali (A Complete Meal Wi	Bimal Chhajer	Diamond Books	150
0000 A	17850	All In One Hindi & English PB Hindi & English		Diamond Books	80
0000 A	17851	Be An Achiever(Vijai Bhav) English	K G Varshney	Diamond Books	125
0000 A	17852	Diamond English Hindi Beginners D	Giriraj Sharan Agarwal	Diamond Books	120
0000 A	17853	Ganga Talao Chalisa (English & Hindi PB)		Diamond Books	10
0000 A	17854	Kali Poojan English & Hindi(PB)	Vinay Singhal	Diamond Books	95
0000 A	17855	Learn & Speak 15 Indian Languages	Prabhakar Machhve	Diamond Books	95
0000 A	17856	Panchayati Raj In India HB Hindi &	Babu Aditya Prasad	Diamond Books	999
0000 A	17857	Sanatan Pooja Vidhi English & Hind	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	150

0000 A	17858	Shri Durga Chalisa English & Hindi(PB)		Diamond Books	10
0000 A	17859	The Ramayana English & Hindi(PB)		Diamond Books	40
0000 A	17860	Tubbys Cut & Paste Vitamins Chart English & Hindi(PB)		Diamond Books	10
0000 A	17861	Tubbys Wiped & Clean Four In One (H+E) PB		Diamond Books	80
0000 A	17862	101 Rashtra Geet (H) Hindi(PB)	Sunil Jogi	Diamond Books	95
0000 A	17863	108 Investment Mantras (H) Hindi(H	Subhash Lakhotia	Diamond Books	300
0000 A	17864	108 Investment Mantras (H) Hindi(P	Subhash Lakhotia	Diamond Books	100
0000 A	17865	18 Brand Astra (H) Hindi(PB)	Jagdeep Kapoor	Diamond Books	95
0000 A	17866	18 Varsh Ki Ladki (H) Hindi(PB)	Nimai Bhattacharya	Diamond Books	60
0000 A	17867	201 tips for gas or acidity PB Hindi	Dr. Bimal chhajer	Diamond Books	125
0000 A	17868	201 Tips For High Bloodpressure Co	Bimal Chhajer	Diamond Books	150
0000A	17869	2012 Universal Doom Or New Age?	Ashok Kumar Sharma	Diamond Books	95
0000 A	17870	21 Kahaniyan Manto HB Hindi	Manto	Diamond Books	450
0000 A	17871	21 Kahaniyan Manto PB Hindi	Manto	Diamond Books	150
0000 A	17872	21 Shreshth Kahaniyan Amarkant (H	Amarkant	Diamond Books	110
0000 A	17873	21 Shreshth Kahaniyan Girirajsharan	Giriraj Sharan Agarwal	Diamond Books	95
0000 A	17874	21 Shreshth Kahaniyan Manmohan S	Manmohan Saral	Diamond Books	95
0000 A	17875	21 Shreshth Kahaniyan Prem Chand	Prem Chand	Diamond Books	95
0000 A	17876	21 shreshth Kahaniyan Ramesh Pokh	Ramesh Pokhriyal	Diamond Books	150
0000 A	17877	21 Shreshth Kahaniyan Usha Mahaja	Usha Mahajan	Diamond Books	95
0000 A	17878	21 Shreshtha Kahaniyan Chitra Mudg	Chitra Mudgal	Diamond Books	125
0000 A	17879	21 Shreshtha Kahaniyan Yadvendra S	Yadvendra Sharma Chandra	Diamond Books	95
0000 A	17880	21 Shresth Kahaniyan Mannu Bhand	Mannu Bhandari	Diamond Books	150
0000 A	17881	21 Shresth Kahaniyan Pranav Kumar	Pranav Kumar Vandhopadhyay	Diamond Books	110
0000 A	17882	21 shresth Kahaniyan Ramesh Pokhri	Ramesh Pokhriyal Nishank	Diamond Books	450
0000 A	17883	21 shresth Kahaniyan Sharatchandra	Sharatchandra	Diamond Books	450
0000 A	17884	21 shresth Kahaniyan Sharatchandra	Sharatchandra	Diamond Books	150
0000 A	17885	21 shresth Kahaniyan Vishnu Prabha	Vishnu Prabhakar	Diamond Books	450
0000 A	17886	21 shresth Kahaniyan Vishnu Prabha	Vishnu Prabhakar	Diamond Books	150
0000 A	17887	21 Tamil Kahaniyan Madhu Dhawan	Madhu Dhawan	Diamond Books	95
0000 A	17888	21Shreshtha Kahaniyan Abid Surti (H	Abid Surti	Diamond Books	95
0000 A	17889	21Shreshtha Kahaniyan Maheep Sing	Maheep Singh	Diamond Books	95
0000 A	17890	22 Yards (H) Hindi(PB)	Tuhin A Sinha	Diamond Books	95
0000 A	17891	24 Brand Mantra (H) Hindi(PB)	Jagdeep Kapoor	Diamond Books	95
0000 A	17892	24 Tirthankar (H) Hindi(PB)	Harsha Jain	Diamond Books	60
0000 A	17893	2G Spectrum (H) Hindi(PB)	Joginder Singh	Diamond Books	125
0000 A	17894	30 Din Mein Angrezi Seekhiye (H) H	B R Kishore	Diamond Books	60
0000 A	17895	30 Din Mein Hindi Sikhe (H) Hindi(I	Kusum Vir	Diamond Books	95
0000 A	17896	30 Din Mein Safal Stock Market Inve	Ashu Dutt	Diamond Books	100
0000 A	17897	4 Saptah Mein vajan Ghatayen Hindi	Namita Jain	Diamond Books	125
0000A	17898	51 Gazlen (H) Hindi(PB)	Ramdarash Mishra	Diamond Books	75
0000 A	17899	51 Shakti Peeth Tirth PB Hindi	Suresh Kumar Singh	Diamond Books	125
0000 A	17900	51 Shresth Vangya Rachnay Ravinda	Ravindarnah Tyagi	Diamond Books	400
0000 A	17901	51 Shresth Vangya Rachnay Ravinda	Ravindarnah Tyagi	Diamond Books	150
0000 A	17902	51 Shresth Vyang Rachnayen Dmoda	Damodar Dikshit	Diamond Books	125
0000 A	17903	51 Shresth Vyang Rachnayen Gajend	Gajendra Tiwari	Diamond Books	125
0000 A	17904	51 Shresth Vyang Rachnayen Gopal	Gopal Chatutvedi	Diamond Books	125
0000 A	17905	51 Shresth Vyang Rachnayen Hari Jo	Hari Joshi	Diamond Books	95
0000 A	17906	51 Shresth Vyang Rachnayen Jawaha	Jawahar Chaudhary	Diamond Books	125
0000 A	17907	51 Shresth Vyang Rachnayen Mahesl	Mahesh Chandra Dwivedi	Diamond Books	95
0000 A	17908	51 Shresth Vyang Rachnayen Prem J	Prem Janamjai	Diamond Books	125
0000 A	17909	51 Shresth Vyang Rachnayen Rekha	Rekha Vyas	Diamond Books	95
0000 A	17910	51 Shresth Vyang Rachnayen Sarojan	Sarojani Preetam	Diamond Books	300
0000 A	17911	51 Shresth Vyang Rachnayen Sarojan	Sarojani Pritam	Diamond Books	125
0000 A	17912	51 Shresth Vyang Rachnayen Vinod	Vinodshankar Shukla	Diamond Books	125
0000 A	17913	51 Vyanga Rachnayein (Harish Nawa	Harish Nawal	Diamond Books	450
0000 A	17914	6.9 Richter Scale (H) Hindi(PB)	Sanjay Sinha	Diamond Books	150

0000 A	17915	751 Super Cook Book PB Hindi	Neera Kumar	Diamond Books	200
0000 A	17916	9 Brand Shastra (H) Hindi(PB)	Jagdeep kapoor	Diamond Books	95
0000 A	17917	A Humsukhan (H) Hindi(PB)	Antar Jadish Nissar	Diamond Books	75
0000 A	17918	A Ji Suniye (H) Hindi(PB)	Ashok Chakradhar	Diamond Books	100
0000 A	17919	Aacharya Srisudarshan Ka Sakal Bra	Satyendra Suman	Diamond Books	95
0000 A	17920	Aadhunik Bharat Ke Nirmata Jawaha	Satyendra Chaturvedi	Diamond Books	300
0000 A	17921	Aadhunik Bharat Ke Nirmata Jawaha	Satyendra Chaturvedi	Diamond Books	75
0000 A	17922	Aadhunik Feng Shui (H) Hindi(PB)	Gopal Sharma	Diamond Books	95
0000 A	17923	Aadhunik Santo ki Aadhyatamik Yat	Shashi Kant Sadaiv	Diamond Books	250
0000 A	17924	Aadhyatmik Moti (Jagrat Jeewan Ke	Rajinder Singh	Diamond Books	100
0000 A	17925	Aage Badho (H) Hindi(PB)	Swett Marden	Diamond Books	75
0000 A	17926	Aage bado Swami Vivekanand PB H	Ramesh Pokhriyal Nishank	Diamond Books	50
0000A	17927	Aage Bado HB Hindi	Swett Marden	Diamond Books	250
0000 A	17928	Aaj Ka Chanakya Management Guru	Rakesh Gupta	Diamond Books	125
0000 A	17929	Aaj Ka Iran Kranti Aur Asha Ki Dast	Shirin Abadi	Diamond Books	150
0000 A	17930	Aaj Sthir Hai Jwaar (H) Hindi(PB)	Satyendra Srivastav	Diamond Books	60
0000 A	17931	Aakash Bhar Anand (H) Hindi(PB)	Osho	Diamond Books	60
0000 A	17932	Aakhiri 5 Kilo Kaise Ghatayein PB H	Namita Jain	Diamond Books	125
0000 A	17933	Aalok Path PB Hindi	Jughraj Sethia	Diamond Books	125
0000 A	17934	Aane Wale Kal Ki Kahaniyan (H) Hi	Dayanand Verma	Diamond Books	60
0000 A	17935	Aangan Se Aasman Tak (Persiddh Bh	Renu Saran	Diamond Books	95
0000 A	17936	Aankh Ki Kirkiri (H) Hindi(PB)	Ravindranath Tagore	Diamond Books	95
0000 A	17937	Aankhen Ek Anmol Vardan (H) Hind	Rajeev Sharma	Diamond Books	75
0000 A	17938	Aankho Ki Drashiti (H) Hindi(PB)	Hari Om Gupta	Diamond Books	50
0000 A	17939	Aao Hum Jeena Seekhen (H) Hindi(P	Yuvacharya Mahasarman	Diamond Books	40
0000 A	17940	Aao Jeevan Mein Rang Bharen (H) H	Vinod K Gupta	Diamond Books	95
0000 A	17941	Aao Sikhen Khaniyon Se (H) Hindi(I	Ramesh Pokhriyal	Diamond Books	30
0000 A	17942	Aap Aur Apka Vyahar PB Hindi	Surya Sinha	Diamond Books	110
0000 A	17943	Aap Bhi Ban Sakte Hain Genius (H)	Arpna Majumdar	Diamond Books	100
0000 A	17944	Aap Bhi Safal Ho Sakte Hain (H) Hi	Joginder Singh	Diamond Books	250
0000 A	17945	Aap Bhi Safal Ho Sakte Hain (H) Hi	Joginder Singh	Diamond Books	125
0000 A	17946	Aap Kya Nahin Kar Sakte (H) Hindi(	Swett Marden	Diamond Books	75
0000 A	17947	Aap Kya Nahin Kar Sakte HB Hindi	Swett Marden	Diamond Books	250
0000 A	17948	Aarthik Patrakarita PB Hindi	Himanshu Shekhar	Diamond Books	150
0000 A	17949	Aas Paas Ki Laghu Kahaniyan Hindi	Krishna Murari Soni	Diamond Books	100
0000 A	17950	Aashiqon Ki Shayari Sms (H) Hindi(	Kuldeep Saluja	Diamond Books	15
0000 A	17951	Aasmaan Ko Chhoo Lo (H) Hindi(PE	A G Krishnamurthy	Diamond Books	75
0000 A	17952	Aasoo Aur Hashi (H) Hindi(PB)	Sudhir Gupta	Diamond Books	60
0000 A	17953	Aastha Ek Shakti PB Hindi	Rajkumar	Diamond Books	140
0000 A	17954	Aatam Pooja Upnishad Part-I (H) Hi	Osho	Diamond Books	250
0000 A	17955	Aatam Pooja Upnishad Part-II (H) H	Osho	Diamond Books	250
0000A	17956	Aatambodh Hindi (PB)	Devam	Diamond Books	100
0000 A	17957	Aathato Bhakti Jigayasa Bhag 2 (H) I	Osho	Diamond Books	450
0000 A	17958	Aatma Ke Liye Amrit (H) Hindi(PB)	Subhash Lakhotia	Diamond Books	100
0000 A	17959	Aatmvishwas Kaise Prapt Karien (H)	Anant Pai	Diamond Books	40
0000 A	17960	Aatmvishwas Ki Poonji (H) Hindi(PI	Swett Marden	Diamond Books	75
0000 A	17961	Aatmvishwas Safalta Ka Aadhar (H)	Ram Kailash Gupta	Diamond Books	400
0000 A	17962	Aatmvishwas Safalta Ka Aadhar (H)	Ram Kailash Gupta	Diamond Books	150
0000 A	17963	Aatmvishwas Safalta Ka Dwar (H) H	Sirshree	Diamond Books	150
0000 A	17964	Ab Bhi Waqt Hai Sambhal E Nawjaw	Sudarshan Ji	Diamond Books	95
0000 A	17965	Abhigyan Shakuntalam (H) Hindi(PE	Ashok Kaushik	Diamond Books	95
0000 A	17966	Abhimanyuanat Ki Aarambhik Kahar	Abhimanyu Unnaut	Diamond Books	60
0000 A	17967	Abhyudaya Ram Katha-I (H) Hindi(F	Narender Kohli	Diamond Books	350
0000 A	17968	Abhyudaya Ram Katha-II (H) Hindi(	Narender Kohli	Diamond Books	350
0000 A	17969	Accupressure Guide (H) Hindi(PB)	Satish Goel	Diamond Books	95
0000 A	17970	Accupuncture And Acupressure Guid	Satish Goel	Diamond Books	150
0000 A	17971	Accupuncture Guide (H) Hindi(PB)	Satish Goel	Diamond Books	50
0000 A	17972	Acharya Sudarshan Ka Anant Jivan F	Satyendra Kumar Singh	Diamond Books	95

0000 A	17973	Adbhut Satya (H) Hindi(PB)	Vandna Girdhar	Diamond Books	100
0000 A	17974	Adbhut Unnav PB Hindi	Vrijesh Pathak	Diamond Books	99
0000 A	17975	Adhinasth Krishi Seva Varg-3 PB Hi	Neelam Sharma	Diamond Books	145
0000 A	17976	Adhunik Patrakarita (H) Hindi(PB)	Ashok Kumar Sharma	Diamond Books	95
0000 A	17977	Adhure Indradhanush (H) Hindi(PB)	Parmod Bharti	Diamond Books	150
0000 A	17978	Aesop Ki Anokhi Kahaniya Hindi(HI	Prakash Mannu	Diamond Books	175
0000 A	17979	Aesop Ki Kahaniyan PB Hindi	Prakash Manu	Diamond Books	150
0000 A	17980	Aesop Ki Khaniyan HB Hindi		Diamond Books	450
0000 A	17981	Aesop Ki Manoranjak Kahaniya Hind	Prakash Mannu	Diamond Books	35
0000 A	17982	Aesop Ki Prerak Kahaniya Hindi (PB	Prakash Mannu	Diamond Books	35
0000 A	17983	Aesop Ki Rochak Kahaniya Hindi (P	Prakash Mannu	Diamond Books	25
0000 A	17984	Aesop Ki Shikshprad Kahaniya Hind	Prakash Mannu	Diamond Books	35
0000A	17985	Agar Thaan Lijiye (H) Hindi(PB)	Harikrishan Devsare	Diamond Books	125
0000 A	17986	Agni Puran (H) Hindi(PB)	Vinay	Diamond Books	95
0000 A	17987	Ahinsha (H) Hindi(PB)	Osho	Diamond Books	30
0000 A	17988	Aisi Karni Kar Chalo (H) Hindi(PB)	Sudarshan Ji	Diamond Books	150
0000 A	17989	Ajab Anokhi Kishar Kahaniyan PB H	Prakash Manu	Diamond Books	150
0000 A	17990	Ajab Anokhi Kishor Kahaniyan HB I	Prakash Manu	Diamond Books	450
0000 A	17991	Ajahu Chet Ganwar PB Hindi New	Osho	Diamond Books	395
0000 A	17992	Ajay Jadeja (H) Hindi(PB)	Rajshekhar Mishra	Diamond Books	40
0000 A	17993	Akath Kahani Prem Ki PB Hindi	Osho	Diamond Books	200
0000 A	17994	Akbar Birbal (H) Hindi(HB)	Rachna Bhola Yamini	Diamond Books	175
0000 A	17995	Akbar Birbal Vinod (H) Hindi(PB)	Giriraj Sharan Agarwal	Diamond Books	95
0000 A	17996	Akhilesh Yadav Hindi(PB)	Yagya Dutt Sharma	Diamond Books	125
0000 A	17997	Akkar Bakkar Ho Ho Ho (H) Hindi(F	Ajay Janamjai	Diamond Books	60
0000 A	17998	Alakh Niranjan (H) Hindi(PB)	Kavi Shusk	Diamond Books	100
0000 A	17999	Alif Laila Urf f Hazar Dastan Hindi (	Prakash Manu	Diamond Books	175
0000 A	18000	Alif Laila Urf Hazar Dastan (H) Hind	Giriraj Sharan Agarwal	Diamond Books	125
0000 A	18001	Alif Laila Urf Hazar Dastan 1 Hindi (PB)		Diamond Books	35
0000 A	18002	Alif Laila Urf Hazar Dastan 2 Hindi (PB)		Diamond Books	35
0000 A	18003	Alif Laila Urf Hazar Dastan 3 Hindi (PB)		Diamond Books	35
0000 A	18004	Alif Laila Urf Hazar Dastan 4 Hindi (PB)		Diamond Books	35
0000 A	18005	Alif Laila Urf Hazar Dastan Hindi (H	Giriraj Sharan Agarwal	Diamond Books	250
0000 A	18006	Allah Gavah Hai (H) Hindi(PB)	Ageh Bharti	Diamond Books	100
0000 A	18007	Allergy (H) Hindi(PB)	Bimal Chhajer	Diamond Books	40
0000 A	18008	Allergy And Asthma Ka Upchar (H)	Rajeev Sharma	Diamond Books	60
0000 A	18009	Alok Kiran PB Hindi	Jugraj Sethia	Diamond Books	125
0000 A	18010	Amar Sangeet Ka Divya Samssparsh	Ramdev	Diamond Books	95
0000 A	18011	Ambani And Ambani (H) Hindi(PB)	Tarun Engineer	Diamond Books	95
0000 A	18012	Amir Banne Ke 55 Achuk Mantra (H	M K Majumdar	Diamond Books	100
0000 A	18013	Amitabh Se Abhishek Tak (H) Hindi(	Tarun Engineer	Diamond Books	95
0000A	18014	Amrit Ki Disha (H) Hindi(PB)	Osho	Diamond Books	95
0000 A	18015	Amrit Vani Hindi (PB)	Arun Malhotra	Diamond Books	20
0000 A	18016	Amrit Vani (H) Hindi(PB)	Giriraj Sharan Agarwal	Diamond Books	125
0000 A	18017	Anahad (H) Hindi(PB)	Rajesh Reddy	Diamond Books	95
0000 A	18018	Anandmath (H) Hindi(PB)	Bankim Chandra Chattopadhyay	Diamond Books	95
0000 A	18019	Anasakti Yoga (H) Hindi(PB)	M K Gandhi	Diamond Books	75
0000 A	18020	Andha Gayak Hindi(PB)	Prakash Manu	Diamond Books	35
0000 A	18021	Andhkar Se Prakash Ki Aur (H) Hind	Ageh Bharti	Diamond Books	40
0000 A	18022	Anger Management (H) Hindi(PB)	Swati Y Bhave	Diamond Books	125
0000 A	18023	Anko Ka Adbhut Sansar (H) Hindi(P	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	195
0000 A	18024	Anko Ka Chamatkar (H) Hindi(PB)	V K Sharma	Diamond Books	150
0000 A	18025	Anmol Moti (H) Hindi(PB)	Pooja Sharma	Diamond Books	60
0000 A	18026	Anmol Vachan Hindi (HB)	Anand Bodhisatv	Diamond Books	50
0000 A	18027	Anmol Vachan Hindi(PB)	Anand Bodhisatv	Diamond Books	95
0000 A	18028	Anna Hazare (H) Hindi(PB)	Prateeksha M Tiwari	Diamond Books	95
0000 A	18029	Anna Ki Jung (H) Hindi(PB)	Sudarshan Ji	Diamond Books	125

0000 A	18030	Antar Agni (Bhagwat Gita Ka Manov	Osho	Diamond Books	200
0000 A	18031	Antyeshti Karma Paddhati (H) Hindi(	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	75
0000 A	18032	Anubhut Yantra Mantra Tantra Aur T	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	150
0000 A	18033	Anupam Mehandi (H) Hindi(PB)	Neera Verma	Diamond Books	20
0000 A	18034	Anything For You Mam (H) Hindi(P	Tushar Raheja	Diamond Books	110
0000 A	18035	APJ Abdul Kalam (H) Hindi(PB)	Renu Saran	Diamond Books	30
0000 A	18036	APJ Abdul Kalam (H) Hindi(PB)	Renu Saran	Diamond Books	40
0000 A	18037	Apne Aapko Pahcaniye (H) Hindi(PB	Swett Marden	Diamond Books	75
0000 A	18038	Apne Aapko Pehchaniye HB Hindi	Swett Marden	Diamond Books	250
0000 A	18039	Apne Bachche Ko Safal Kaise Banay	Anand Kulshreshtha	Diamond Books	95
0000 A	18040	Apne Bachchon Ko Shresht Kaise Ba	Tarun Chakrabroty	Diamond Books	150
0000 A	18041	Apni Janam Patri Swavam Padhe Ka	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	150
0000 A	18042	Apni Janam Patri Swavam Padhe Ku	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	150
0000A	18043	Apni Janam Patri Swavam Padhe Me	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	150
0000 A	18044	Apni Janam Patri Swavam Padhe Sin	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	150
0000 A	18045	Apni Janam Patri Swavam Padhe Tu	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	150
0000 A	18046	Apni Janam Patri Swavam Padhe Vr	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	150
0000 A	18047	Apni Janam Patri Swayam Padhe Dh	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	125
0000 A	18048	Apni Janam Patri Swayam Padhe Ka	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	150
0000 A	18049	Apni Janam Patri Swayam Padhe Ma	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	150
0000 A	18050	Apni Janam Patri Swayam Padhe Me	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	150
0000 A	18051	Apni Janam Patri Swayam Padhe Ve	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	150
0000 A	18052	Apni Janampatri Aap Banayen (H) H	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	75
0000 A	18053	Apni Janampatri Swam Padhein (H) I	Jagdish Sharma	Diamond Books	95
0000 A	18054	Apni Santan Ko Chanta Marna Sikhe	Sunil Vaid	Diamond Books	175
0000 A	18055	Arvind Kejriwal PB Hindi	Arvind Mohan Dwivedi	Diamond Books	100
0000 A	18056	Asambhav Sambhav (Hindi HB)	Biswaroop Roy Choudhray	Diamond Books	250
0000 A	18057	Asatyam @ Satyam (Hindi PB)	Anand Kumar	Diamond Books	95
0000 A	18058	Ashok Chakardhar Ki Vyang Chetna	Dr. Praveen Shukla	Diamond Books	600
0000 A	18059	Ashtavakra Gita Hindi (PB)	Govind Singh	Diamond Books	50
0000 A	18060	Ashtavakra Mahageeta Bhag I Mukti	Osho	Diamond Books	250
0000 A	18061	Ashtavakra Mahageeta Bhag I Mukti	Osho	Diamond Books	200
0000 A	18062	Ashtavakra Mahageeta Bhag II Dukh	Osho	Diamond Books	300
0000 A	18063	Ashtavakra Mahageeta Bhag II Dukh	Osho	Diamond Books	250
0000 A	18064	Ashtavakra Mahageeta Bhag III Jo H	Osho	Diamond Books	300
0000 A	18065	Ashtavakra Mahageeta Bhag IV Saha	Osho	Diamond Books	250
0000 A	18066	Ashtavakra Mahageeta Bhag- IV Sah	Osho	Diamond Books	250
0000 A	18067	Ashtavakra Mahageeta Bhag IX Anu	Osho	Diamond Books	250
0000 A	18068	Ashtavakra Mahageeta Bhag V Sanna	Osho	Diamond Books	250
0000 A	18069	Ashtavakra Mahageeta Bhag VI Na S	Osho	Diamond Books	250
0000 A	18070	Ashtavakra Mahageeta Bhag VII San	Osho	Diamond Books	250
0000 A	18071	Ashtavakra Mahageeta Bhag- VII Sa	Osho	Diamond Books	250
0000A	18072	Ashtavakra Mahageeta Bhag VIII Su	Osho	Diamond Books	250
0000 A	18073	Ashtavakra Mahageeta Bhag- VIII Su	Osho	Diamond Books	250
0000 A	18074	Ashtavakra Mahageeta Bhag-III Jo H	Osho	Diamond Books	250
0000 A	18075	Ashtavakra Mahageeta Bhag-IX Anu	Osho	Diamond Books	200
0000 A	18076	Ashtavakra Mahageeta Bhag-V Sanna	Osho	Diamond Books	200
0000 A	18077	Ashtavakra Mahageeta Bhag-VI Na S	Osho	Diamond Books	200
0000 A	18078	Ashvikrti Mein Utha Hath (H) Hindi(	Osho	Diamond Books	60
0000 A	18079	Assam Ke Lok Kathayen Evam Prash	Rachna Bhola Yamini	Diamond Books	25
0000 A	18080	Assistant Loco Pilot And Technician	Arvind Mohan Dwivedi	Diamond Books	200
0000 A	18081	Assistant Loco Pilot And Technician	Arvind Mohan Dwivedi	Diamond Books	115
0000 A	18082	Asthma PB Hindi	Bimal Chhajer	Diamond Books	50
0000 A	18083	Astitva Ki Yatra (H) Hindi(PB)	Ram Niwas Bharti	Diamond Books	150
0000 A	18084	Atal Udgar HB HINDI	Rakesh Gupta	Diamond Books	500
0000 A	18085	Atal Udgar PB Hindi	Rakesh Gupta	Diamond Books	250
0000 A	18086	Ataulla Khan Ke Ghazlein (H) Hindi(	Mahesh Dutt Sharma	Diamond Books	40

0000 A	18087	Ath Shri Mushkaye Namah Hindi (PI	Rajesh Arora	Diamond Books	150
0000 A	18088	Atharved (H) Hindi(PB)	Raj Bahadur Pandey	Diamond Books	95
0000 A	18089	Avaidh Rishtey (H) Hindi(PB)	Nimai Bhattacharya	Diamond Books	60
0000 A	18090	Avasar Bita Jaye (H) Hindi(PB)	Swett Marden	Diamond Books	75
0000 A	18091	Ayurvedic Aushadiyan (H) Hindi(PB	Vipul Rao	Diamond Books	150
0000 A	18092	Baadlon Se Salaam Leta Hoon (H) H	Gopal Das Neeraj	Diamond Books	95
0000 A	18093	Baap Re Baap (H) Hindi(PB)	Pradeep Choube	Diamond Books	95
0000 A	18094	Baba Ramdev Ke Sapno Ka Bharat (I	K C Mahendru	Diamond Books	150
0000 A	18095	Baba Ramdev Ke Sapno Ka Bharat (I	K C Mahendru	Diamond Books	150
0000 A	18096	Bacchan Yatri Agnipath Ka (H) Hind	Gopal Das Neeraj	Diamond Books	60
0000 A	18097	Bachcha Log Taali Bajao (H) Hindi(I	Aalok Kumar Satpute	Diamond Books	100
0000 A	18098	Bachcho Ko Seekh Dene Wali 51 Ka	Prakash Manu	Diamond Books	450
0000 A	18099	Bachcho Ko Seekh Dene Wali 51 Ka	Prakash Manu	Diamond Books	150
0000 A	18100	Bachchon Ka Panchtantra HB Hindi	Prakash Manu	Diamond Books	450
0000A	18101	Bachchon Ka Panchtantra PB Hindi	Prakash Manu	Diamond Books	150
0000 A	18102	Bachchon Ke Anokhe Hasya Natak H	Prakash Manu	Diamond Books	400
0000 A	18103	Bachchon Ke Anupam Natak (Hindi	Giriraj Sharan Agarwal	Diamond Books	200
0000 A	18104	Bachchon Ke Hasya Natak (H) Hindi	Giriraj Sharan Agarwal	Diamond Books	200
0000 A	18105	Bachchon Ke Rang Rangeely Natak I	Prakash Manu	Diamond Books	400
0000 A	18106	Bachchon Ke Rochak Natak (H) Hin	Giriraj Sharan Agarwal	Diamond Books	200
0000 A	18107	Bachchon Ke Rochak Natak (H) Hin	Giriraj Sharan Agarwal	Diamond Books	95
0000 A	18108	Bachchon Ke Shikshaprad Natak (H)	Giriraj Sharan Agarwal	Diamond Books	200
0000 A	18109	Bachchon Ke Shikshaprad Natak Hin	Giriraj Sharan Agarwal	Diamond Books	125
0000 A	18110	Bachchon Ke Shreshth Samajik Nata	Prakash Manu	Diamond Books	125
0000 A	18111	Bachchon Ke Shreshth Samajik Nata	Prakash Manu	Diamond Books	450
0000 A	18112	Bachchon Ke Sunder Naam (H) Hind	Mahesh Dutt Sharma	Diamond Books	40
0000 A	18113	Bachchon Ke Uttam Natak (Hindi HI	Giriraj Sharan Agarwal	Diamond Books	200
0000 A	18114	Bachchon Ki 51 Hasya Kathayen (H)	Prakash Manu	Diamond Books	125
0000 A	18115	Bachchon Ki Bhaavpurna Parivarik K	Prakash Manu	Diamond Books	150
0000 A	18116	Bachchon Ki Jaatak Kathayen PB Hi	Prakash Manu	Diamond Books	150
0000 A	18117	Bachchon Ki Jatak Kahaniyan HB Hi	Prakash Manu	Diamond Books	450
0000 A	18118	Bachchon Ki Mahatvapoorna Parivarik Kahaniyan HB Hindi		Diamond Books	450
0000 A	18119	Bachchon Ki Safalta Mein Sahayak K	Anant Pai	Diamond Books	40
0000 A	18120	Bachchon Ko Seekh Dete Anokhe Na	Prakash Mannu	Diamond Books	125
0000 A	18121	Bachchon Ko Seekh Dete Anokhe Na	Prakash Manu	Diamond Books	400
0000 A	18122	Bachchon Ko Sex Ki Shiksha Kaise I	Rajeev Sharma	Diamond Books	250
0000 A	18123	Bachhe Huye Vyanjan Se Bane Naye	Komal Taneja	Diamond Books	100
0000 A	18124	Bad Shayari Sms (H) Hindi(PB)	Kuldeep Saluja	Diamond Books	15
0000 A	18125	Bada Lakshya Badi Jeet Hindi(HB)	Tarun Engineer	Diamond Books	300
0000 A	18126	Bada Socho Bada Bano (H) Hindi(PI	Tarun Engineer	Diamond Books	175
0000 A	18127	Bade Bado Ke Utpat (H) Hindi(PB)	Surender Sharma	Diamond Books	125
0000 A	18128	Bade Ghar Ki Beti (Mansarovar 7-8)	Prem Chand	Diamond Books	175
0000 A	18129	Bade Sapno Ka Bada Jadu (H) Hindi	S Vaishvik	Diamond Books	125
0000A	18130	Bahar E Shayari (H) Hindi(PB)	Kuldeep Saluja	Diamond Books	15
0000 A	18131	Bahatar Saal Ka Bacha (H) Hindi(HB	Abid Surti	Diamond Books	300
0000 A	18132	Bahatar Saal Ka Bacha (H) Hindi(PB	Abid Surti	Diamond Books	95
0000 A	18133	Bahuterae Hai Ghat (H) Hindi(PB)	Osho	Diamond Books	60
0000 A	18134	Baithak Jari Hai Hindi(PB)	Antar Jagdish	Diamond Books	100
0000 A	18135	Bal Rog (H) Hindi(PB)	Hari Om Gupta	Diamond Books	50
0000 A	18136	Bangla Ki Shrestha Kahaniyan (H) H	Vaasu Bhattacharya	Diamond Books	150
0000 A	18137	Barack Obama (H) Hindi(PB)	Rajiv Tiwari	Diamond Books	95
0000 A	18138	Beet Gaya So Beet Gaya (H) Hindi(P	Maharaji	Diamond Books	60
0000 A	18139	Behti Nadi PB Hindi	Devender Gupta	Diamond Books	100
0000 A	18140	Beirada Nazar Unse Takra Gai (H) H	Gyan Bhed	Diamond Books	150
0000 A	18141	Beton Wali Vidhwa & Other Stories	Prem Chand	Diamond Books	125
0000 A	18142	Bhagat Singh (H) Hindi(PB)	Renu Saran	Diamond Books	30
0000 A	18143	Bhagwad Geeta (Part-3) Hindi (PB)	Paramhansa Nityanand	Diamond Books	350
0000 A	18144	Bhagwan Satya Shree Sai Ka Adhbhu	Adha Prasad Tripathi	Diamond Books	40

0000A	18145	Bhagwan Shiv (H) Hindi(PB)	O P Jha	Diamond Books	30
0000 A	18146	Bhagwan Shri Ganesh Hindi(PB)		Diamond Books	30
0000 A	18147	Bhagwan Shri Ganesh Hindi(PB)	O P Jha	Diamond Books	30
0000 A	18148	Bhagwatgita Se Sikhe Safalta Ke Sut	Kapil Kakkar	Diamond Books	125
0000 A	18149	Bhagya Ke Rahasya (H) Hindi(PB)	Ramprakash Trivedi	Diamond Books	150
0000 A	18150	Bhagye Par Nahi Parishram Par Vish	Ramesh Pokhriyal	Diamond Books	300
0000 A	18151	Bhagye Par Nahi Parishram Par Vish	Ramesh Pokhriyal	Diamond Books	150
0000 A	18152	Bhairava Upasana (H) Hindi(PB)	Radha Krishna Srimali	Diamond Books	95
0000 A	18153	Bhakti Sutra (H) Hindi(HB)	Osho	Diamond Books	450
0000 A	18154	Bhanvar (H) Hindi(PB)	Raj Kumar Kohli	Diamond Books	75
0000 A	18155	Bharat Ek Anuthi Sampada (H) Hind	Osho	Diamond Books	95
0000 A	18156	Bharat Ka Swadhinta Sangram (H) H	Avdesh Kumar Chaturvedi	Diamond Books	100
0000 A	18157	Bharat Ke 51 Yug Pravartak Vaigyan	Prakash Manu	Diamond Books	125
0000 A	18158	Bharat Ke 51 Yugpravartak Vaigyani	Prakash Manu	Diamond Books	400
0000 A	18159	Bharat Ke Amar Krantikari Chandra	Meena Agarwal	Diamond Books	95
0000 A	18160	Bharat Ke Amar Krantikari Gopal Kr	Avdesh Kumar Chaturvedi	Diamond Books	60
0000 A	18161	Bharat Ke Amar Krantikari Ram Pras	Bhawan Singh Rana	Diamond Books	95
0000 A	18162	Bharat Ke Amar Krantikari Shahid B	Bhawan Singh Rana	Diamond Books	95
0000 A	18163	Bharat Ke Amar Manishi Swami Viv	Bhawan Singh Rana	Diamond Books	95
0000 A	18164	Bharat Ke Amar Senani Nana Sahab	Bhawan Singh Rana	Diamond Books	95
0000 A	18165	Bharat ke Mahan Amar Krantikari M	Avdesh Kumar Chaturvedi	Diamond Books	75
0000 A	18166	Bharat Ke Mahan Swatantrata Senani	Ashok Kaushik	Diamond Books	95
0000 A	18167	Bharat Ke Rashtrapati (HB) Hindi	Renu Saran	Diamond Books	100
0000 A	18168	Bharat Ke Rashtrapati (H) PB	Renu Saran	Diamond Books	100
0000 A	18169	Bharat Ke Tyohar 1 Hindi(HB)	Priyanka	Diamond Books	300
0000 A	18170	Bharat Ke Tyohar 2 (H) Hindi(HB)	Priyanka	Diamond Books	300
0000 A	18171	Bharat Ke Tyohar Baisakhi (H) Hindi(PB)		Diamond Books	40
0000 A	18172	Bharat Ke Tyohar Christmas (H) Hindi(PB)		Diamond Books	50
0000 A	18173	Bharat Ke Tyohar Dashara (H) Hindi(PB)		Diamond Books	40
0000A	18174	Bharat Ke Tyohar Deepawali (H) Hindi(PB)		Diamond Books	50
0000 A	18175	Bharat Ke Tyohar Durga Puja (H) Hindi(PB)		Diamond Books	40
0000 A	18176	Bharat Ke Tyohar Eid (H) Hindi(PB)		Diamond Books	40
0000 A	18177	Bharat Ke Tyohar Ganesh Chaturthi (H) Hindi(PB)		Diamond Books	40
0000 A	18178	Bharat Ke Tyohar Holi (H) Hindi(PB)		Diamond Books	40
0000 A	18179	Bharat Ke Tyohar Janmashtmi (H) Hindi(PB)		Diamond Books	50
0000 A	18180	Bharat Ke Tyohar Navratr (H) Hindi(PB)		Diamond Books	50
0000 A	18181	Bharat Ke Tyohar Onam (H) Hindi(PB)		Diamond Books	40
0000 A	18182	Bharat Ke Tyohar Pongal (H) Hindi(PB)		Diamond Books	40
0000 A	18183	Bharat Ke Tyohar Rakshabandhan (H) Hindi(PB)		Diamond Books	50
0000 A	18184	Bharat ki Aasha Narender Modi PB H	Manish Kumar	Diamond Books	50
0000 A	18185	Bharat Ki Aitihasik Jhalak (H) Hindi	Radha Swami	Diamond Books	95
0000 A	18186	Bharat Ki Lok Kathaye Hindi (PB)	Giriraj Sharan Agarwal	Diamond Books	125
0000 A	18187	Bharat Ki Pratham Mahila Rashtpati	Kumar Pankaj	Diamond Books	200
0000 A	18188	Bharat Ki Pratham Mahila Rashtpati	Kumar Pankaj	Diamond Books	95
0000 A	18189	Bharat Ratna Sachin Hindi (PB)	Vimal Kumar	Diamond Books	150
0000 A	18190	Bhartiya Gaurav Ke Baal Natak (H) H	Giriraj Sharan Agarwal	Diamond Books	200
0000 A	18191	Bhartiya Gaurav Ke Baal Natak Hind	Giriraj Sharan Agarwal	Diamond Books	95
0000 A	18192	Bhartiya Jyotish (H) Hindi(PB)	Radha Krishna Srimali	Diamond Books	60
0000 A	18193	Bhartiya Police Jaisa Maine Dekha (H	Kiran Bedi	Diamond Books	95
0000 A	18194	Bhav Ganga (H) Hindi(PB)	Uma Sharma	Diamond Books	100
0000 A	18195	Bhavishaya Puran (H) Hindi(PB)	Vinay	Diamond Books	95
0000 A	18196	Bhavna Ke Bhojpatro Par Osho (H) H	Vikal Gautam	Diamond Books	150
0000 A	18197	Bhawna Ke Swar Hindi(PB)	Rajesh Salav	Diamond Books	100
0000 A	18198	Bhay Se Mukti (H) Hindi(PB)	Nityanand	Diamond Books	175
0000 A	18199	Bhaya Mukt Jiwan (H) Hindi(PB)	Osho	Diamond Books	30
0000 A	18200	Bhitar Ka Aakash (H) Hindi(PB)	Sri Sri Ravishankar Ji	Diamond Books	79
0000 A	18201	Bhitar Ka Diya (H) Hindi(PB)	Osho	Diamond Books	60
0000 A	18202	Bhoj Sanhita Briahaspati Khand (H)	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	200

0000A	18203	Bhoj Sanhita Buddh Khand (H) Hind	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	200
0000 A	18204	Bhoj Sanhita Chandra Khand (H) Hi	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	200
0000 A	18205	Bhoj Sanhita Ketu Khand (H) Hindi(	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	200
0000 A	18206	Bhoj Sanhita Mangal Khand (H) Hin	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	200
0000 A	18207	Bhoj Sanhita Rahu Khand (H) Hindi(	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	200
0000 A	18208	Bhoj Sanhita Shukra Khand (H) Hind	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	200
0000 A	18209	Bhoj Sanhita Surya Khand (H) Hindi	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	200
0000 A	18210	Bhojan Dwara Swasthya Aur Rogon	S K Sharma	Diamond Books	95
0000 A	18211	Bhole Bhale (H) Hindi(PB)	Ashok Chakradhar	Diamond Books	100
0000 A	18212	Bhookamp Ke Jyotishiya Bishleswan	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	40
0000 A	18213	Bhrigu Sanhita (H) Hindi(PB)	Radha Krishna Srimali	Diamond Books	150
0000 A	18214	Bible Ki Anokhi Kahaniyan HB Hind	Prakash Manu	Diamond Books	450
0000 A	18215	Bible Ki Anokhi Kahaniyan PB Hind	Prakash Manu	Diamond Books	150
0000 A	18216	Bible Ki Kahaniya Hindi(HB)		Diamond Books	175
0000 A	18217	Bible Ki Manoranjak Kahaniyan Hindi(PB)		Diamond Books	30
0000 A	18218	Bible Ki Prerak Kahaniyan Hindi(PB)		Diamond Books	30
0000 A	18219	Bible Ki Rochak Kahaniyan Hindi(PB)		Diamond Books	30
0000 A	18220	Bible Ki Shikshaprad Kahaniyan Hindi(PB)		Diamond Books	30
0000 A	18221	Bihar GK PB Hindi		Diamond Books	80
0000 A	18222	Bihar Police Constable PB Hindi	Arvind Mohan Dwivedi	Diamond Books	120
0000 A	18223	Bihar SSC Exam-2015 PB Hindi		Diamond Books	195
0000 A	18224	Bihari Satsai PB Hindi	Bihari Satsai	Diamond Books	100
0000 A	18225	Billoo and Wonder PB Hindi	Pran	Diamond Books	35
0000 A	18226	Billoo Badhshah Joke Book (H) Hind	Kuldeep Saluja	Diamond Books	50
0000 A	18227	Billoo Captain of Cricket PB Hindi	Pran	Diamond Books	35
0000 A	18228	Billoo Coconut Tree PB Hindi	Pran	Diamond Books	50
0000 A	18229	Billoo Digest -1 PB Hindi	Pran	Diamond Books	100
0000 A	18230	Billoo Digest -2 PB Hindi	Pran	Diamond Books	100
0000 A	18231	Billoo Ki Girlfriend PB Hindi	Pran	Diamond Books	50
0000A	18232	Billoo Short Break PB Hindi	Pran	Diamond Books	35
0000 A	18233	Bindo Ka Ladka (H) Hindi(PB)	Sharat Chandra Chattopadhyay	Diamond Books	75
0000 A	18234	Biraj Bahu (H) Hindi(PB)	Sharat Chandra Chattopadhyay	Diamond Books	95
0000 A	18235	Birbal Ka Haas Parihaas (H) Hindi(PB)		Diamond Books	25
0000 A	18236	Birbal Ki Rochak Kahaniyan (H) Hindi(PB)		Diamond Books	35
0000 A	18237	Birbal Ki Sughbugh (H) Hindi(PB)		Diamond Books	35
0000 A	18238	Blood Pressure Karan Aur Ilaj (H) H	Satish Goel	Diamond Books	95
0000 A	18239	Bloody Merit Scholars (H) Hindi(PB	Amitabh Kumar	Diamond Books	100
0000 A	18240	Board Pariksha Mein Safal Kaise Ho	Sunil Vaid	Diamond Books	50
0000 A	18241	Body Building Course Hindi (PB)	Manoj Kumar	Diamond Books	95
0000 A	18242	Body Language (H) Hindi(PB)	Jagdish Sharma	Diamond Books	100
0000 A	18243	Bolgappe (H) Hindi(PB)	Ashok Chakradhar	Diamond Books	100
0000 A	18244	Brahma Puran (H) Hindi(PB)	Vinay	Diamond Books	95
0000 A	18245	Brahmavaivart Puran (H) Hindi(PB)	Vinay	Diamond Books	60
0000 A	18246	Brahmgyan Ka Yatharth (H) Hindi(P	Dayanand Verma	Diamond Books	50
0000 A	18247	Bujhe Birla Koi(Kabir Vani) (H) Hin	Osho	Diamond Books	95
0000 A	18248	Bujhte Diye Ki Law (H) Hindi(PB)	Pankaj Dhwan	Diamond Books	250
0000 A	18249	Bukhar Ko Kahe Alvida (H) Hindi(P	Hari Om Gupta	Diamond Books	50
0000 A	18250	Buland Iradon Se sapne Sach Karein	Tarun Engineer	Diamond Books	150
0000 A	18251	Cancer Hindi(PB)	Hari Om Gupta	Diamond Books	50
0000 A	18252	Cancer Karan Aur Nivaran Hindi(PB	Satish Goel	Diamond Books	95
0000 A	18253	Care After 50 PB Hindi	Bimal Chhajer	Diamond Books	50
0000 A	18254	CCC Course On Computer Concept PB Hindi		Diamond Books	190
0000 A	18255	CCC Course On Computer Concepts (Practice Test Papers) PB Hi		Diamond Books	70
0000 A	18256	Cervical Spondylosis PB Hindi	Bimal Chhajer	Diamond Books	50
0000 A	18257	Chacha Chaudhary & Mr. X PB Hind	Pran	Diamond Books	50
0000 A	18258	Chacha Chaudhary and Prof Bad PB	Pran	Diamond Books	50
0000 A	18259	Chacha Chaudhary Big Head Comics	Pran	Diamond Books	35

0000 A	18260	Chacha Chaudhary Digest -1 PB Hin	Pran	Diamond Books	100
0000A	18261	Chacha Chaudhary Digest -2 PB Hin	Pran	Diamond Books	100
0000 A	18262	Chacha Chaudhary Digest -3 PB Hin	Pran	Diamond Books	100
0000 A	18263	Chacha Chaudhary Digest -4 PB Hin	Pran	Diamond Books	100
0000 A	18264	Chacha Chaudhary Fack Currency PI	Pran	Diamond Books	35
0000 A	18265	Chacha Chaudhary Football World C	Pran	Diamond Books	35
0000 A	18266	Chahakti Shayari Sms Hindi(PB)	Kuldeep Saluja	Diamond Books	15
0000 A	18267	Chaho Sab Kuch Chaho Hindi(PB)	Sadguru	Diamond Books	175
0000 A	18268	Chakmak Shayri Sms Hindi(PB)	Kuldeep Saluja	Diamond Books	15
0000 A	18269	Chal Gai Hindi(PB)	Shail Chaturvedi	Diamond Books	95
0000 A	18270	Chal Hansa Us Desh (H) Hindi(PB)	Osho	Diamond Books	50
0000 A	18271	Chal Osho Ke Gaon Mein Hindi(PB)	Gyan Bhed	Diamond Books	150
0000 A	18272	Chamatkari Hastrekhayeen (H) Hindi	V K Sharma	Diamond Books	150
0000 A	18273	Chamatkari Jyotish (H) Hindi(PB)	V K Sharma	Diamond Books	200
0000 A	18274	Chamatkari Ratan (H) Hindi(PB)	V K Sharma	Diamond Books	150
0000 A	18275	Chamatkari Vaastu (H) Hindi(PB)	V K Sharma	Diamond Books	150
0000 A	18276	Chanakya Aur Chandragupt Hindi(PI	Rajendra Pandey	Diamond Books	95
0000 A	18277	Chanakya Hindi(PB)	Renu Saran	Diamond Books	30
0000 A	18278	Chanakya Hindi(PB)	Renu Saran	Diamond Books	40
0000 A	18279	Chanakya Neeti (H) Hindi(PB)	Ashwini Parashar	Diamond Books	110
0000 A	18280	Chanakya Sutra Hindi(PB)	Bhawan Singh Rana	Diamond Books	75
0000 A	18281	Chandrakanta Hindi(HB)	Devki Nandan Khatri	Diamond Books	300
0000 A	18282	Chandrakanta Hindi(PB)	Devki Nandan Khatri	Diamond Books	150
0000 A	18283	Chandrakanta Santati Part I Hindi(HI	Devki Nandan Khatri	Diamond Books	300
0000 A	18284	Chandrakanta Santati Part I Hindi(PE	Devki Nandan Khatri	Diamond Books	95
0000 A	18285	Chandrakanta Santati Part II Hindi(H	Devki Nandan Khatri	Diamond Books	300
0000 A	18286	Chandrakanta Santati Part III Hindi(I	Devki Nandan Khatri	Diamond Books	95
0000 A	18287	Chandrakanta Satnati Part III Hindi(I	Devki Nandan Khatri	Diamond Books	300
0000 A	18288	Chandrakanta Satnati Part IV Hindi(I	Devki Nandan Khatri	Diamond Books	300
0000 A	18289	Chandrakanta Satnati Part V Hindi(H	Devki Nandan Khatri	Diamond Books	300
0000A	18290	Chandrakanta Satnati Part VI Hindi(I	Devki Nandan Khatri	Diamond Books	300
0000 A	18291	Chandranath Hindi(PB)	Sharat Chandra Chattopadhyay	Diamond Books	75
0000 A	18292	Charam Rog Hindi(PB)	Hari Om Gupta	Diamond Books	50
0000 A	18293	Charitraheen (H) Hindi(PB)	Sharat Chandra Chattopadhyay	Diamond Books	150
0000 A	18294	Chatrapati Shayari Sms Hindi(PB)	Kuldeep Saluja	Diamond Books	15
0000 A	18295	Chawal Ke Vyanjan Hindi(PB)	Neera Verma	Diamond Books	60
0000 A	18296	Cheese Ke Swadist Vyanjan Hindi(P	Komal Taneja	Diamond Books	100
0000 A	18297	Cheiro Nakshatra Vigyan Hindi(PB)	Cheiro	Diamond Books	95
0000 A	18298	Cheiro Ank Vigyan Hindi(PB)	Cheiro	Diamond Books	95
0000 A	18299	Chetna Ke Pankh Hindi(PB)	Satya Vedant	Diamond Books	100
0000 A	18300	Chhatisgarh Ki Anokhi Lok Kathaye	Prakash Manu	Diamond Books	70
0000 A	18301	Chhatisgarh Ki Kahaniyan (Hindi PB	Aparna Anand	Diamond Books	20
0000 A	18302	Chhatisgarh Ki Kathayen (Hindi PB)	Aparna Anand	Diamond Books	20
0000 A	18303	Chhatisgarh Ki Lok Kathayen (Hindi	Aparna Anand	Diamond Books	20
0000 A	18304	Chhatisgarh Ki Lok Sanskriti (Hindi	Aparna Anand	Diamond Books	20
0000 A	18305	Chhatisgarh Ki Manoranjak Lok Kat	Prakash Manu	Diamond Books	70
0000 A	18306	Chhatisgarh Ki Rochak Lok Kathaye	Prakash Manu	Diamond Books	70
0000 A	18307	Chhatisgarh Ki Sarvashresht Lok Kat	Prakash Manu	Diamond Books	450
0000 A	18308	Chhatisgarh Ki Sarvashresht Lok Kat	Prakash Manu	Diamond Books	150
0000 A	18309	Chhatisgarh Lok Sanskriti Kala Aur S	Prakash Manu	Diamond Books	80
0000 A	18310	Chhatrapati Shivaji Hindi PB	Renu Saran	Diamond Books	40
0000 A	18311	Chhatrapati Shivaji Hindi(PB)	Bhawan Singh Rana	Diamond Books	95
0000 A	18312	Chhattisgarh Swasthya Seva Mission	Arvind Mohan Dwivedi	Diamond Books	235
0000 A	18313	Chhoot Na Jaye Dagariya Hindi(HB)	Sudarshan Ji	Diamond Books	125
0000 A	18314	Chidiya Ko Mil Gaya Moti	Prakash Manu	Diamond Books	35
0000 A	18315	Chili Shayari Sms Hindi(PB)	Kuldeep Saluja	Diamond Books	15
0000 A	18316	Chinese Vayanjan Hindi(PB)	Neera Verma	Diamond Books	50

0000 A	18317	Chingari Jo Jindagi Badal De Hindi(I	P S Rathore	Diamond Books	125
0000 A	18318	Chinnamasta Evam Tripurbharvi Tan	Radha Krishna Srimali	Diamond Books	75
0000A	18319	Chinta Chhodo Sukh Se Jeeyo HB H	Swett Marden	Diamond Books	250
0000 A	18320	Cholesterol & Fats PB Hindi	Bimal Chhajer	Diamond Books	50
0000 A	18321	Chota Bhim Issue-1 (Kahan Hai Bhim	Rajeev chilka	Diamond Books	60
0000 A	18322	Chota Bhim Issue-10 (Balshali Raksh	Rajiv Chilka	Diamond Books	60
0000 A	18323	Chota Bhim Issue-11 (Dusre Grah Ka	Rajeev Chikla	Diamond Books	60
0000 A	18324	Chota Bhim Issue-12 (Jadugar Harry)	Rajiv Chilka	Diamond Books	60
0000 A	18325	Chota Bhim Issue-13 (Einstein) PB H	Rajeev Chilka	Diamond Books	50
0000 A	18326	Chota Bhim Issue-14 (Udne Wala Ka	Rajiv Chilaka	Diamond Books	50
0000 A	18327	Chota Bhim Issue-2 (Baban Sher) PB	Rajeev Chilka	Diamond Books	60
0000 A	18328	Chota Bhim Issue-3 (Samundari Rajk	Rajeev Chikla	Diamond Books	60
0000 A	18329	Chota Bhim Issue-4 (Lakadhara) PB	Rajeev Chikla	Diamond Books	60
0000 A	18330	Chota Bhim Issue-5 (Pagal Magarma	Rajeev Chikla	Diamond Books	60
0000 A	18331	Chota Bhim Issue-6 (Dholakpur Mein	Rajeev Chikla	Diamond Books	60
0000 A	18332	Chota Bhim Issue-7 (Samurai Sam) P	Rajeev Chikla	Diamond Books	60
0000 A	18333	Chota Bhim Issue-8 (Bolne Wala Tot	Rajeev Chikla	Diamond Books	60
0000 A	18334	Chota Bhim Issue-9 (Sona Braham B	Rajeev Chikla	Diamond Books	60
0000 A	18335	Chubhatey Kadve Pravachan (Hindi I	Surya Sinha	Diamond Books	110
0000 A	18336	Chuhe Aur Aadmi Mein Fark Hindi(I	Sarojani Preetam	Diamond Books	75
0000 A	18337	Chumbak Chiktisa (H) Hindi(PB)	S K Sharma	Diamond Books	95
0000 A	18338	Chuna Hai Aasman Hindi(PB)	Kumar Pankaj	Diamond Books	95
0000 A	18339	Chunautiyon Ko Chunautiyaan PB H	JOGINDER SINGH	Diamond Books	150
0000 A	18340	Chunav Loktantra Aur Media Hindi(I	Mamta Tiwari	Diamond Books	95
0000 A	18341	Chutile Jokes Hindi(PB)	Kuldeep Saluja	Diamond Books	40
0000 A	18342	Chutili Chikotiyan Hindi(PB)	Madhup Pandey	Diamond Books	100
0000 A	18343	Chutputkule Hindi(PB)	Ashok Chakradhar	Diamond Books	100
0000 A	18344	CISF Constable PB HINDI	Vikas Doon	Diamond Books	200
0000 A	18345	CISF Constable PTP PB HINDI	Vikas Doon	Diamond Books	80
0000 A	18346	Clinton Ke Prem Prasang (Hindi PB)	Mahesh Dutt Sharma	Diamond Books	40
0000 A	18347	Clinton Lewinsky Scandal (Hindi PB	Ashok Kumar Sharma	Diamond Books	40
0000A	18348	Coma Hindi(PB)	Pramod Kumar Jha	Diamond Books	150
0000 A	18349	Commercial Vaastu Hindi(PB)	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	125
0000 A	18350	Commercial Vaastu Hindi(PB)	Parasmal	Diamond Books	95
0000 A	18351	Commonwealth Games 2010 Hindi(P	Rajiv Tiwari	Diamond Books	125
0000 A	18352	Complete Personality Development C	Surya Sinha	Diamond Books	150
0000 A	18353	Computer Programming And Operati	Shashank Johri	Diamond Books	50
0000 A	18354	Cricket Ka Mahanayak Sachin Hindi	Rajshekhar Mishra	Diamond Books	375
0000 A	18355	Cricket Ka Mahanayak Sachin Hindi	Rajshekhar Mishra	Diamond Books	95
0000 A	18356	Cricket Kaise Khelen Hindi(PB)	Charan Pal Singh Sobti	Diamond Books	75
0000 A	18357	Cricket Ke Romanchak Prasang (Hin	Vikas Luthra	Diamond Books	40
0000 A	18358	Cricket Sabse Bada Fraud PB Hindi	Atul Kumar	Diamond Books	150
0000 A	18359	Crime Reporter Kaise Bane ? Hindi(I	M K Majumdar	Diamond Books	75
0000 A	18360	CTET Class I-V (Guide) Primary Section PB Hindi		Diamond Books	370
0000 A	18361	CTET Class I-V (Practice Test Papers) Primary Section PB Hindi		Diamond Books	130
0000 A	18362	CTET Class VI-VIII (Practice Test Papers) Science & Maths PB I		Diamond Books	130
0000 A	18363	CTET Class VI-VIII (Practice Test Papers) Social Studies PB Hin		Diamond Books	130
0000 A	18364	Daak Vibhag PTP PB Hindi	Arvind Mohan Dwivedi	Diamond Books	115
0000 A	18365	Daal Par Khili Titali Hindi(PB)	Ashok Chakradhar	Diamond Books	95
0000 A	18366	Dabbewale Hindi(PB)	Pundit Shrinivas	Diamond Books	95
0000 A	18367	Dada Dadi Ki Kahaniyan Hindi(PB)	Geetika Goyal	Diamond Books	125
0000 A	18368	Dadi Maa Ke Gharelu Nuskhe Hindi(	Rajeev Sharma	Diamond Books	125
0000 A	18369	Daffodil Jal Rahe Hai HB Hind	Mirdula Garg	Diamond Books	400
0000 A	18370	Daffodil Jal Rahe Hai PB Hindi	Mirdula Garg	Diamond Books	110
0000 A	18371	Dairy Ke Panne Hindi(PB)	Ageh Bharti	Diamond Books	60
0000 A	18372	Dalit Samaj Ke Pitamah Dr Bhimrao	Sunil Jogi	Diamond Books	75
0000 A	18373	Dampatya Maitri Hindi(PB)	Sudarshan Ji	Diamond Books	95
0000 A	18374	Danke Ki Chot Per Sharaphat Hindi(	Tarshem Gujral	Diamond Books	60

0000 A	18375	Dar Se Aage Badho Dar Ke Baad Hi	Ashokindu	Diamond Books	125
0000 A	18376	Dard Chamakta Hai Hindi(PB)	Muzzafar Warsi	Diamond Books	75
0000A	18377	Dard E Dil Shayari Sms Hindi(PB)	Kuldeep Saluja	Diamond Books	15
0000 A	18378	Dard Ki Katran Hindi(PB)	Shashi Kant Sadaiv	Diamond Books	75
0000 A	18379	Dareeche PB Hindi	Suresh Neerav	Diamond Books	150
0000 A	18380	Das Guru Hindi(PB)	Gurpreet Singh	Diamond Books	60
0000 A	18381	Das Mahavidhayae Saadhna Rahasya	Radha Krishna Srimali	Diamond Books	295
0000 A	18382	Dashafal Darpan Hindi(PB)	Radha Krishna Srimali	Diamond Books	95
0000 A	18383	Daulat Ki Tijori Guptisagar Ki Theor	Tarun Engineer	Diamond Books	150
0000 A	18384	Dayanand Saraswati Hindi(PB)	Renu Saran	Diamond Books	30
0000 A	18385	Days Of My Bachelor Hood And Am	Sachin Jain	Diamond Books	100
0000 A	18386	Deen Dayal Upadhyay Hindi(PB)	Harish Dutt Sharma	Diamond Books	95
0000 A	18387	Deendayal Upadhyay HB Hindi	Mahesh Sharma	Diamond Books	300
0000 A	18388	Deepawali Hindi(PB)	Kamal Radha Krishan Srimali	Diamond Books	60
0000 A	18389	Deewane Galib Hindi(PB)	Noor Nabi Abbassi	Diamond Books	125
0000 A	18390	Deewano Ki Shayari Sms Hindi(PB)	Kuldeep Saluja	Diamond Books	15
0000 A	18391	Delhi A Touriste Guide Hindi(PB)	Rajiv Tiwari	Diamond Books	125
0000 A	18392	Delhi A Travel Guide Hindi(PB)	Rajiv Tiwari	Diamond Books	125
0000 A	18393	Dena Pavana Hindi(PB)	Sharat Chandra Chattopadhyay	Diamond Books	95
0000 A	18394	Depression Hindi(PB)	Bimal Chhajer	Diamond Books	40
0000 A	18395	Deshbhakt Shayam HB Hindi	Nishantketu	Diamond Books	800
0000 A	18396	Dev Lok Mein Thekedari Hindi(PB)	Akash Sharma	Diamond Books	95
0000 A	18397	Devam PB Hindi	Anand Vishws	Diamond Books	100
0000 A	18398	Devdas (H) Hindi(PB)	Sharat Chandra Chattopadhyay	Diamond Books	95
0000 A	18399	Devi Bhagwat Puran Hindi(PB)	Vinay	Diamond Books	95
0000 A	18400	Devi Chowdharani Hindi(PB)	Bankim Chandra Chattopadhyay	Diamond Books	95
0000 A	18401	Devi Devtaon Ki Chamatkarik Katha	Narayan Sharma	Diamond Books	95
0000 A	18402	Dhadkati Shayri Sms Hindi(PB)	Kuldeep Saluja	Diamond Books	15
0000 A	18403	Dhan Ka Nivesh Kaise Karein Hindi(	Dinkar Kumar	Diamond Books	100
0000 A	18404	Dhanurdhari Ram PB Hindi	Nishantketu	Diamond Books	500
0000 A	18405	Dharam Banam Mazhab Hindi(PB)	Shankar Saran	Diamond Books	95
0000A	18406	Dharm Aur Rajneeti (H) Hindi(PB)	Osho	Diamond Books	60
0000 A	18407	Dharti Ki Beti PB Hindi	Prakash Manu	Diamond Books	35
0000 A	18408	Dhirubhai Ambani Hindi(PB)	Renu Saran	Diamond Books	35
0000 A	18409	Dhirubhaism (H) Hindi(PB)	A G Krishnamurthy	Diamond Books	100
0000 A	18410	Dhoomawati Eam Bagalamookhi Tan	Radha Krishna Srimali	Diamond Books	95
0000 A	18411	Dhoop Bhi Chhaon Bhi Hindi(PB)	Sadhvi Pramukha Kanakprapha	Diamond Books	100
0000 A	18412	Dhoop ka Chehra Bashir Badr ki Gha	Bashir Badr	Diamond Books	95
0000 A	18413	Dhoop Ka Kaha HB Hindi	Prarthna Pandit	Diamond Books	200
0000 A	18414	Dhuaanki Aas Ka Safar HB Hindi	Prakash Sohail	Diamond Books	600
0000 A	18415	Dhyan Ka Vastavik Swaroop Hindi(P	Anandmurti Guru Maa	Diamond Books	30
0000 A	18416	Dhyan Kya Hai (H) Hindi(PB)	Osho	Diamond Books	95
0000 A	18417	Dhyan Prem Ki Chao Mein Hindi(PB	Gyan Bhed	Diamond Books	150
0000 A	18418	Dhyan Sutra Hindi(PB)	Osho	Diamond Books	110
0000 A	18419	Diabetes PB Hindi	Bimal Chhajer	Diamond Books	50
0000 A	18420	Diabities Type 1 & 2 PB Hindi	Biswaroop Roy Choudhray	Diamond Books	150
0000 A	18421	Diamond Beauty Guide Hindi(PB)	Asha Pran	Diamond Books	75
0000 A	18422	Diamond Guitar Guide Hindi(PB)	Ram Garg	Diamond Books	60
0000 A	18423	Diamond Hindi English & English E	Baljit Singh	Diamond Books	350
0000 A	18424	Diamond Hindi English Dictionary H	Giriraj Sharan Agarwal	Diamond Books	350
0000 A	18425	Diamond Hindi English Dictionary H	Giriraj Sharan Agarwal	Diamond Books	150
0000 A	18426	Diamond Hindi English Dictionery (l	Giriraj Sharan Agarwal	Diamond Books	75
0000 A	18427	Diamond Hindi Samantar Kosh Hind	Giriraj Sharan Agarwal	Diamond Books	250
0000 A	18428	Diamond Hindi Vayakaran Evam Rac	Giriraj Sharan Agarwal	Diamond Books	125

0000 A	18429	Diamond Homeopathic Guide Hindi	S Chauhan	Diamond Books	350
0000 A	18430	Diamond Homeopathic Guide Hindi(	S Chauhan	Diamond Books	110
0000 A	18431	Diamond Ladies Health Guide Hindi	Usha Rai Verma	Diamond Books	125
0000 A	18432	Diamond Mini Hindi Shabdkosh Hin	Giriraj Sharan Agarwal	Diamond Books	75
0000 A	18433	Diamond Nibandh Evem Patra Lekha	Giriraj Sharan Agarwal	Diamond Books	95
0000 A	18434	Diamond Nibhandh Evam Patralekha	Giriraj Sharan Agarwal	Diamond Books	95
0000A	18435	Diamond Prashnottari Hindi(PB)	Anuj Goswami	Diamond Books	60
0000 A	18436	Diamond Rashiphal 2015 Dhanu PB	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	40
0000 A	18437	Diamond Rashiphal 2015 Kanya PB	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	40
0000 A	18438	Diamond Rashiphal 2015 Kark PB H	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	40
0000 A	18439	Diamond Rashiphal 2015 Kumbh PB	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	40
0000 A	18440	Diamond Rashiphal 2015 Makar PB	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	40
0000 A	18441	Diamond Rashiphal 2015 Meen PB H	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	40
0000 A	18442	Diamond Rashiphal 2015 Mesh PB H	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	40
0000 A	18443	Diamond Rashiphal 2015 MithunPB	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	40
0000 A	18444	Diamond Rashiphal 2015 Singh PB H	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	40
0000 A	18445	Diamond Rashiphal 2015 Tula PB Hi	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	40
0000 A	18446	Diamond Rashiphal 2015 Vraschik P	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	40
0000 A	18447	Diamond Rashiphal 2015 Vrshabh PI	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	40
0000 A	18448	Diamond Saral Hindi Nibandh (Prath	Giriraj Sharan Agarwal	Diamond Books	60
0000 A	18449	Diamond Varschik Rashiphal 2015 P	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	225
0000 A	18450	Diamond Vyavaharik Hindi Shabdko	Giriraj Sharan Agarwal	Diamond Books	150
0000 A	18451	Dil Ki Baat Kisse kahe aur kaise PB I	Subhash Lakhotia	Diamond Books	150
0000 A	18452	Dildar E Shayari Hindi(PB)	Kuldeep Saluja	Diamond Books	15
0000 A	18453	Din Divangat Huye(Geet) Hindi(PB)	Kunwar Baichain	Diamond Books	75
0000 A	18454	Divya Aabha Mandal Hindi(PB)	Mahesh Dutt Sharma	Diamond Books	75
0000 A	18455	Divya Chingari Hindi(PB)	Rajinder Singh	Diamond Books	125
0000 A	18456	Divya Sai Sandesh Hindi(PB)	Satya Pal Ruhela	Diamond Books	60
0000 A	18457	Diya Tale Andhera HB Hindi	Osho	Diamond Books	450
0000 A	18458	Do Bailon Ki Katha PB Hindi	Prem Chand	Diamond Books	50
0000 A	18459	Do Kadam Budhtave Ki Aur Hindi(P	Sri Sri Ravishankar Ji	Diamond Books	79
0000 A	18460	Donald Duck Aur Cellular Ka Picha Issue XVIII Hindi(PB)		Diamond Books	25
0000 A	18461	Donald Duck Aur Telemystery Issue XIX Hindi(PB)		Diamond Books	25
0000 A	18462	Donald Duck Issue II Hindi(PB)		Diamond Books	25
0000 A	18463	Donald Duck Issue III Hindi(PB)		Diamond Books	25
0000A	18464	Donald Duck Issue IV Hindi(PB)		Diamond Books	25
0000 A	18465	Donald Duck Issue IX Hindi(PB)		Diamond Books	25
0000 A	18466	Donald Duck Issue VI Hindi(PB)		Diamond Books	25
0000 A	18467	Donald Duck Issue XIII Hindi(PB)		Diamond Books	25
0000 A	18468	Donald Duck Issue XXII Hindi(PB)		Diamond Books	25
0000 A	18469	Doosra Banbaas(Kaifi Aazmi Ki Gaz	Suresh Kumar	Diamond Books	95
0000 A	18470	Dr Keshav Hedgewar Hindi(PB)	Harish Dutt Sharma	Diamond Books	95
0000 A	18471	Dr Sunil Jogi Ke Ahasas Bhare Sms I	Sunil Jogi	Diamond Books	15
0000 A	18472	Dr Sunil Jogi Ke Badhai Bhare Sms I	Sunil Jogi	Diamond Books	15
0000 A	18473	Dr Sunil Jogi Ke Chahat Bhare Sms I	Sunil Jogi	Diamond Books	15
0000 A	18474	Dr Sunil Jogi Ke Mohabbat Bhare Sr	Sunil Jogi	Diamond Books	15
0000 A	18475	Dr Sunil Jogi Ke Pyar Bhare Sms Hi	Sonil Jogi	Diamond Books	15
0000 A	18476	Dr Sunil Jogi Ke Shayari Bhare Sms	Sonil Jogi	Diamond Books	15
0000 A	18477	Dr Sunil Jogi Ke Thahakon Bhare Sr	Sunil Jogi	Diamond Books	15
0000 A	18478	Dr Sunil Jogi Ke Vayang Bhare Sms	Sunil Jogi	Diamond Books	15
0000A	18479	Dr. Radhakrishnan Hindi(PB)	Renu Saran	Diamond Books	30
0000 A	18480	Dr. Radhakrishnan Hindi(PB)	Renu Saran	Diamond Books	40
0000 A	18481	Dragon and Fire Hard Hindi(PB)	Abhisek Choudhary	Diamond Books	100
0000 A	18482	DSSSB/AIIMS Staff Nurse (PTP) PE	Lali Kumari, Abdhesh, Shabnam	Diamond Books	100
0000 A	18483	DSSSB/AIIMS Staff Nurse PB Hindi	Lali Kumari, Abdhesh, Shabnam	Diamond Books	250
0000 A	18484	Dubte Suraj Ka Ishq Hindi(PB)	Prem Janamjai	Diamond Books	75
0000 A	18485	Durga Upasana Hindi(PB)	Radha Krishna Srimali	Diamond Books	50

0000 A	18486	Durgesh Nandani Hindi(PB)	Bankim Chandra Chattopadhyay	Diamond Books	95
0000 A	18487	Dutta Hindi(PB)	Sharat Chandra Chattopadhyay	Diamond Books	60
0000 A	18488	Dynamic Memory Advance Dtp Cour	Davinder Singh Minhas	Diamond Books	200
0000 A	18489	Dynamic Memory Apni Website Sway Tayar Karein Hindi(PB)		Diamond Books	125
0000 A	18490	Dynamic Memory Computer Course	Biswaroop Roy Choudhray	Diamond Books	350
0000 A	18491	Dynamic Memory Computer Course	Biswaroop Roy Choudhray	Diamond Books	275
0000 A	18492	Dynamic Memory English Speaking	Biswaroop Roy Choudhray	Diamond Books	225
0000 A	18493	Dynamic Memory Group Discussion	Tarun Chakrabroty	Diamond Books	150
0000 A	18494	Dynamic Memory Hindi Se Bangla S	Tarun Chakrabroty	Diamond Books	125
0000 A	18495	Dynamic Memory Internet & Email H	Davinder Singh Minhas	Diamond Books	110
0000 A	18496	Dynamic Memory Interview Mein Sa	Tarun Chakrabroty	Diamond Books	110
0000 A	18497	Dynamic Memory Methods (H) Hind	Biswaroop Roy Choudhray	Diamond Books	150
0000 A	18498	Dynamic Memory Pariksha Mein 100	Tarun Chakrabroty	Diamond Books	200
0000 A	18499	Dynamic Memory Pariksha Mein 100	Tarun Chakrabroty	Diamond Books	75
0000 A	18500	Dynamic Memory Tally 9 1 Hindi(PB	Tarun Chakrabroty	Diamond Books	110
0000 A	18501	Dynamic Memory Windows Vista &	Davinder Singh Minhas	Diamond Books	200
0000 A	18502	E Samunder Kabhi Utar Mujhme Hin	Shahid Meer	Diamond Books	95
0000 A	18503	Eidgaha PB Hindi	Prem Chand	Diamond Books	50
0000 A	18504	Ek Aur Lal Tikon Hindi(PB)	Narender Kohli	Diamond Books	50
0000 A	18505	Ek Aur Lohiya Mulayam Singh Hind	Sunil Jogi	Diamond Books	95
0000 A	18506	Ek Baat Aur HB Hindi	Manju	Diamond Books	300
0000 A	18507	Ek Bharat Shresth Bharat PB Hindi	Pradeep Pandit	Diamond Books	250
0000A	18508	Ek Dariya Khwab Main(Alam Khursh	Suresh Kumar	Diamond Books	75
0000 A	18509	Ek Ek Kadam (H) Hindi(PB)	Osho	Diamond Books	60
0000 A	18510	Ek Fakkar Masiha Osho Part 1 Hindi	Gyan Bhed	Diamond Books	250
0000 A	18511	Ek Fakkar Masiha Osho Part 2 Hindi	Gyan Bhed	Diamond Books	250
0000 A	18512	Ek Fakkar Masiha Osho Part 3 Hindi	Gyan Bhed	Diamond Books	250
0000 A	18513	Ek Fakkar Masiha Osho Part 4 Hindi	Gyan Bhed	Diamond Books	250
0000 A	18514	Ek Fakkar Masiha Osho Part 5 Hindi	Gyan Bhed	Diamond Books	200
0000 A	18515	Ek Fakkar Masiha Osho Part 6 Hindi	Gyan Bhed	Diamond Books	250
0000 A	18516	Ek Fakkar Masiha Osho Part 7 Hindi	Gyan Bhed	Diamond Books	250
0000 A	18517	Ek Fakkar Masiha Osho Part 8 Hindi	Gyan Bhed	Diamond Books	250
0000 A	18518	Ek Fakkar Masiha Osho Part 9 Hindi	Gyan Bhed	Diamond Books	250
0000 A	18519	Ek Geet Zindagi HB Hindi	Prarthna Pandit	Diamond Books	300
0000 A	18520	Ek Kadam Rakhkar To Dekh Hindi(P	Sudarshan Ji	Diamond Books	95
0000 A	18521	Ek Mati Do Adhyaye Hindi(PB)	Vinod Nand Jha	Diamond Books	95
0000 A	18522	Ek matr Samasya (H) Hindi(PB)	Osho	Diamond Books	30
0000 A	18523	Ek Matre Upai Jaago (H) Hindi(PB)	Osho	Diamond Books	95
0000 A	18524	Ek Nurse Ki Dairy Hindi(PB)	Nimai Bhattacharya	Diamond Books	60
0000 A	18525	Ek Onkar Satnam (H) Hindi(PB)	Osho	Diamond Books	275
0000 A	18526	Ek Osho Shishya Ki Antaryatra Hind	Ageh Bharti	Diamond Books	40
0000 A	18527	Ek Pukar Meri Awaz Hindi(PB)	Jyoti	Diamond Books	110
0000 A	18528	Ek Saadhe Sab Sadhe (H) Hindi(PB)	Osho	Diamond Books	60
0000 A	18529	Ek Se Badkar Ek Hindi(PB)	A G Krishnamurthy	Diamond Books	95
0000 A	18530	Ek Sufi Ke Sannidhay Main Hindi(PB	Damini Uniyal	Diamond Books	40
0000 A	18531	Ekkisavin Sadi Mein Adhayatma Hin	Sri Om	Diamond Books	100
0000 A	18532	Expert Kehta Hai Hindi(PB)	Dinesh Kushwaha	Diamond Books	125
0000 A	18533	Fadakati Shayri Sms Hindi(PB)	Kuldeep Saluja	Diamond Books	15
0000 A	18534	Faiz Aur Adam Ki Shayri Hindi(PB)	Amar Dehlavi	Diamond Books	50
0000 A	18535	Fakirana Andaz HB Hindi	O P Jha	Diamond Books	400
0000 A	18536	Fakirana Andaz Hindi PB	O P Jha	Diamond Books	150
0000A	18537	Fal sabji meve Masale Swasthya Ke I	Rajeev Sharma	Diamond Books	95
0000 A	18538	Falit Jyotish Ke Rahasya Hindi(PB)	Ramprakash Trivedi	Diamond Books	195
0000 A	18539	False 30 Din Mein Angreji Sikhen PI	B R Kishore	Diamond Books	60

0000 A	18540	Feature Lekhan Hindi(PB)	Sanjay Srivastav	Diamond Books	75
0000 A	18541	Feng Shui Parshanotari Hindi(PB)	Jagdish Sharma	Diamond Books	60
0000 A	18542	Fengshui Ka Jaharvad Hindi(PB)	Rajesh Tiwari	Diamond Books	95
0000 A	18543	Fifty Shades Darker PB Hindi	E L James	Diamond Books	250
0000 A	18544	Fifty Shades Of Freed PB hindi	E L Jems	Diamond Books	250
0000 A	18545	Fifty Shades Of Grey Hindi (PB)	E L James	Diamond Books	250
0000 A	18546	Filhal Itna Hee Hindi(PB)	Arun Jaimini	Diamond Books	75
0000 A	18547	Film Reporting Kaise Kare Hindi(PB	M K Majumdar	Diamond Books	95
0000 A	18548	Filmi Prashnotari Hindi(PB)	Ganga Prasad Sharma	Diamond Books	50
0000 A	18549	First Aid (Prathmik Chikitsa) Hindi(I	Rajeev Sharma	Diamond Books	95
0000 A	18550	Fractured Love PB Hindi	Kuldeep Chaubey	Diamond Books	125
0000 A	18551	Fusion Prashnottari Hindi(PB)	Anuj Goswami	Diamond Books	60
0000 A	18552	Gadhou Ka Khula Adhiveshan Hindi	Premkishore Patakha	Diamond Books	95
0000 A	18553	Gajal Meri Ibadat Hai Hindi(PB)	Manik Varma	Diamond Books	95
0000 A	18554	Galatfahmi Hindi(PB)	Nimai Bhattacharya	Diamond Books	60
0000 A	18555	Galti Kiski Bhag 1 Hindi(PB)	Kiran Bedi	Diamond Books	125
0000 A	18556	Galti Kiski Bhag 2 Hindi(PB)	Kiran Bedi	Diamond Books	125
0000 A	18557	Gandhi Aur Gandhigiri Hindi(PB)	Praveen Shukla	Diamond Books	95
0000 A	18558	Gandhi Par Punarvichar (H) Hindi(P	Osho	Diamond Books	50
0000 A	18559	Ganesh Puran Hindi(PB)	Vinay	Diamond Books	95
0000 A	18560	Ganesh Shankar Vidhyarthi Hindi(PI	Bhawan Singh Rana	Diamond Books	150
0000 A	18561	Ganesh Smiridhi Ke Bhagwan Hindi(	Arpita Barua	Diamond Books	40
0000 A	18562	Ganesh Upshana Aur Sadhna Hindi(I	Radha Krishna Srimali	Diamond Books	100
0000 A	18563	Gao Darshan Hindi(PB)	Shankar Lal Joshi	Diamond Books	75
0000 A	18564	Garibon Ki Masiha Mother Teresa H	Mahesh Dutt Sharma	Diamond Books	95
0000 A	18565	Garuda Ji Ke Sawal Hindi(PB)	Kirit Bhai	Diamond Books	50
0000A	18566	Gas Acidty Evam Sine Mein Jalan Hi	Bimal Chhajer	Diamond Books	50
0000 A	18567	Gauravshali Jeevan Kaise Jiyen Hind	Vinod K Gupta	Diamond Books	75
0000 A	18568	Gautam Buddha Prashnotari Hindi(P	Shamsher Ahmad Khan	Diamond Books	40
0000 A	18569	Gautam Budha PB Hindi	Renu Gupta	Diamond Books	40
0000 A	18570	Gavah No Teen Hindi(PB)	Vimal Mitra	Diamond Books	50
0000 A	18571	Gayatri Upasana Hindi(PB)	Radha Krishna Srimali	Diamond Books	95
0000 A	18572	Gayatri Vaibhav Hindi(PB)	Jaydev Hasija Vanprasthi	Diamond Books	75
0000 A	18573	Gazlein Sarhad Paar Se Hindi(PB)	Suresh Kumar	Diamond Books	75
0000 A	18574	Geet Hamare Desh ke Hindi(PB)	Pramod Layatu	Diamond Books	25
0000 A	18575	Geet Jo Gaye Nahin Hindi(PB)	Gopal Das Neeraj	Diamond Books	95
0000 A	18576	Geeta Aur Sri Krishna PB Hindi	Budhiprakash Vajpayee	Diamond Books	350
0000 A	18577	Geeta Mata Hindi(PB)	M K Gandhi	Diamond Books	150
0000 A	18578	Geeta Rahasya Hindi(HB)	Bal Gangadhar Tilak	Diamond Books	395
0000 A	18579	Geeta Rahasya Hindi(PB)	Bal Gangadhar Tilak	Diamond Books	395
0000 A	18580	Geetanjali (H) Hindi(PB)	Ravindranath Tagore	Diamond Books	95
0000 A	18581	Gehrae Pani Paith Hindi(PB)	Osho	Diamond Books	100
0000 A	18582	Gehu ke Jwar Hindi(PB)	Biswaroop Roy Choudhray	Diamond Books	175
0000 A	18583	Ghagh Aur Bhaddari Ki Kahawatein	Devnarayan Diwedi	Diamond Books	75
0000 A	18584	Ghar Aur Bahar Hindi(PB)	Ravindranath Tagore	Diamond Books	95
0000 A	18585	Gharelu Bagvani Hindi(PB)	Shashikala Shahi	Diamond Books	75
0000 A	18586	Gharelu Ilaj Hindi(PB)	Vipul Rao	Diamond Books	95
0000 A	18587	Gharelu Nushkho Ka Khazana Hindi	Rajeev Sharma	Diamond Books	100
0000 A	18588	Ghat Ka Patthar Hindi(PB)	Gulshan Nanda	Diamond Books	60
0000 A	18589	Ghazal Samrat Jagjit Singh Ki Ghaza	Edited	Diamond Books	125
0000 A	18590	Ghutane Ka Dard Hindi(PB)	Bimal Chhajer	Diamond Books	50
0000 A	18591	Godan Hindi(HB)	Prem Chand	Diamond Books	300
0000 A	18592	Godan Hindi(PB)	Prem Chand	Diamond Books	175
0000 A	18593	Goddess Durga Hindi(PB)	O P Jha	Diamond Books	30
0000 A	18594	Gora Hindi(HB)	Ravindranath Tagore	Diamond Books	450
0000A	18595	Gora Hindi(PB)	Ravindranath Tagore	Diamond Books	150
0000 A	18596	Gram Swarajya Hindi(PB)	M K Gandhi	Diamond Books	125

0000 A	18597	Greha Nakshatro Dwara Bhagya Nirn	Dayanand Verma	Diamond Books	60
0000 A	18598	Grehadah Hindi(PB)	Sharat Chandra Chattopadhyay	Diamond Books	100
0000 A	18599	Grehgochar Siddhant Hindi(PB)	Mohan Bhai D Patel	Diamond Books	60
0000 A	18600	Grehlakshmi 101 Aakarshak Bunai D	Manish Verma	Diamond Books	25
0000 A	18601	Grehlakshmi 101 Aakarshak Bunai D	Manish Verma	Diamond Books	25
0000 A	18602	Grehlakshmi 101 Aakarshak Bunai D	Manish Verma	Diamond Books	25
0000 A	18603	Grehlakshmi 101 Aakarshak Bunai D	Manish Verma	Diamond Books	25
0000 A	18604	GrehlakshmI 101 Akarshak Bunai Design 3 Hindi (PB)		Diamond Books	25
0000 A	18605	Grehlakshmi 101 Baby Knitting Design & Accesories (Bunai-7) P		Diamond Books	25
0000 A	18606	Grehlakshmi 101 Best Vegetarian Recepies Hindi (PB)		Diamond Books	25
0000 A	18607	Grehlakshmi 101 Bunai Design For Teenagers (Bunai-8) PB Hind		Diamond Books	25
0000 A	18608	Grehlakshmi 101 Bunai Designes 2 H	Manish Verma	Diamond Books	25
0000 A	18609	Grehlakshmi 101 Chef Vegetarian Re	Manish Verma	Diamond Books	25
0000 A	18610	Grehlakshmi 111 Lazeez Vyanjan Hindi(PB)		Diamond Books	25
0000 A	18611	Grehlakshmi 111 Nonveg Recipes Hi	Manish Verma	Diamond Books	25
0000 A	18612	Grehlakshmi 121 Summer Fashion D	Manish Verma	Diamond Books	25
0000 A	18613	Grehlakshmi 161 Achar Murabbe Au	Manish Verma	Diamond Books	25
0000 A	18614	Grehlakshmi 161 Aloo & Paneer Rcp	Manish Verma	Diamond Books	25
0000 A	18615	Grehlakshmi 161 Chaat Pakori Hindi	Manish Verma	Diamond Books	25
0000 A	18616	Grehlakshmi 161 Cheese Recipes PB Hindi		Diamond Books	25
0000 A	18617	Grehlakshmi 161 Chiken and Egg Re	Manish Verma	Diamond Books	25
0000 A	18618	Grehlakshmi 161 Chinese Recipes Hi	Manish Verma	Diamond Books	20
0000 A	18619	Grehlakshmi 161 Healthy Husband T	Manish Verma	Diamond Books	25
0000 A	18620	Grehlakshmi 161 Homemade ice-crea	Sangeeta Anand	Diamond Books	25
0000 A	18621	Grehlakshmi 161 Kids Tifin And Par	Manish Verma	Diamond Books	25
0000 A	18622	Grehlakshmi 161 Kitty Party Recipe	Manish Verma	Diamond Books	25
0000 A	18623	GrehlakshmI 161 Macaroni Pasta No	Manish Kumar	Diamond Books	25
0000A	18624	Grehlakshmi 161 Mango Recipies Hi	Manish Verma	Diamond Books	20
0000 A	18625	Grehlakshmi 161 Microwave Recipie	Manish Verma	Diamond Books	25
0000 A	18626	Grehlakshmi 161 Pressure Cooker Re	Manish Verma	Diamond Books	25
0000 A	18627	Grehlakshmi 161 Rooh Afzai Recipie	Manish Verma	Diamond Books	20
0000 A	18628	Grehlakshmi 161 Shakahari Vyanjan	Manish Verma	Diamond Books	25
0000 A	18629	Grehlakshmi 161 Sindhi Gujrati Raja	Manish Verma	Diamond Books	25
0000 A	18630	Grehlakshmi 161 Soups Salads And S	Manish Verma	Diamond Books	25
0000 A	18631	Grehlakshmi 161 South Indian Recep	Sangeeta Anand	Diamond Books	25
0000 A	18632	Grehlakshmi 161 Soya Mashroom Oriental Cook Book PB Hindi		Diamond Books	30
0000 A	18633	Grehlakshmi 161 Super Breakfast Hi	Manish Verma	Diamond Books	25
0000 A	18634	Grehlakshmi 161 Swadisht Mishthan	Manish Verma	Diamond Books	25
0000 A	18635	GrehlakshmI 161 Zero Oil Recipes H	Manish Verma	Diamond Books	25
0000 A	18636	Grehlakshmi 201 Aakarshak Mehandi Design 18 PB Hindi		Diamond Books	25
0000 A	18637	Grehlakshmi 201 Arebian Mehndi De	Manish Verma	Diamond Books	25
0000 A	18638	Grehlakshmi 201 Bridal Mehndi Des	Manish Verma	Diamond Books	25
0000 A	18639	Grehlakshmi 201 Bridal Mehndi Des	Manish Verma	Diamond Books	25
0000 A	18640	Grehlakshmi 201 Bridal Mehndi Des	Dushyant Chauhan	Diamond Books	25
0000 A	18641	Grehlakshmi 201 Dilkash Mehandi-19 PB Hindi		Diamond Books	25
0000 A	18642	Grehlakshmi 201 Dulhan Mehandi Design -20 (PB) Hindi		Diamond Books	25
0000 A	18643	Grehlakshmi 201 Festival Mehndi Designes Hindi(PB)		Diamond Books	25
0000 A	18644	Grehlakshmi 201 Manmohak Mehandi Design 17 PB Hindi		Diamond Books	25
0000 A	18645	Grehlakshmi 201 Mehandi Design 2	Manish Verma	Diamond Books	25
0000 A	18646	Grehlakshmi 201 Mehandi Design 3	Manish Verma	Diamond Books	25
0000 A	18647	Grehlakshmi 201 Mehandi Design-1	Manish Verma	Diamond Books	25
0000 A	18648	Grehlakshmi 201 Mehndi Design 5 H	Manish Verma	Diamond Books	25
0000 A	18649	Grehlakshmi 201 Mehndi Design 6 H	Manish Verma	Diamond Books	25
0000 A	18650	Grehlakshmi 201 Mehndi Design 7 H	Msnish Verma	Diamond Books	25
0000 A	18651	Grehlakshmi 201 Mehndi Design 8 H	Manish Verma	Diamond Books	25
0000 A	18652	Grehlakshmi 201 Mehndi Design 9 H	Manish Verma	Diamond Books	25
0000A	18653	Grehlakshmi 201 Stylish Mehndi Des	Manish Verma	Diamond Books	25

0000 A	18654	Grehlakshmi 201 Stylish Mehndi Des	Manish Verma	Diamond Books	25
0000 A	18655	Grehlakshmi 261 Mehandi And Tato	Manish Verma	Diamond Books	25
0000 A	18656	Grehlakshmi 261 Rangoli Design Hi	Manish Verma	Diamond Books	25
0000 A	18657	Grehlakshmi 500+ Hair Care Tips Hi	Manish Verma	Diamond Books	20
0000 A	18658	Grehlakshmi 700+Skin Care Tips Hi	Manish Verma	Diamond Books	25
0000 A	18659	Grehlakshmi Baniye Best Parents (H)	Renu Saran	Diamond Books	25
0000 A	18660	Grehlakshmi Beauty Guide Hindi(PB	Manish Verma	Diamond Books	25
0000 A	18661	Grehlakshmi Best Disigners Braidal Collection PB (Hindi)		Diamond Books	25
0000 A	18662	Grehlakshmi Bridal Beauty (Booklet) PB Hindi		Diamond Books	25
0000 A	18663	Grehlakshmi Chanakya Neeti Hindi(I	Manish Verma	Diamond Books	20
0000 A	18664	Grehlakshmi Cool Makeup Trends Hindi PB		Diamond Books	25
0000 A	18665	Grehlakshmi Dadi Maa Ke 700 Gharelu Nuskhe Hindi (PB)		Diamond Books	25
0000 A	18666	Grehlakshmi Delhi Ka Khana Khaza	Manish Verma	Diamond Books	25
0000 A	18667	GrehlakshmI Dhan Aur Sukh Simridhi Ki Devi Hindi (PB)		Diamond Books	20
0000 A	18668	GrehlakshmI Durga Evam Navratra K	Manish Verma	Diamond Books	20
0000 A	18669	Grehlakshmi Kahana Kazana 101 Lajawab Recepies Hindi (PB)		Diamond Books	25
0000 A	18670	Grehlakshmi Kya Kare Jab Maa Bane ? Hindi (PB)		Diamond Books	25
0000 A	18671	Grehlakshmi Meggi bhuna Mashala I	Manish Verma	Diamond Books	20
0000 A	18672	Grehlakshmi Sex Ke Anchhuye Pahelu Hindi (PB)		Diamond Books	25
0000 A	18673	Grehlakshmi Summer Magic Hindi (I	Manish Verma	Diamond Books	20
0000 A	18674	Grehlakshmi Trendy Bridal Jewellery	Manish Verma	Diamond Books	25
0000 A	18675	Grehlakshmi Vrat Ke Vyanjan Hindi	Manish Verma	Diamond Books	25
0000 A	18676	Guide To Indian Premier League Hin	Rakesh Pandey	Diamond Books	95
0000 A	18677	GUJ Swasthya Seva Mission Staff Nu	Arvind Mohan Dwivedi	Diamond Books	235
0000 A	18678	Guldasta Hindi(PB)	Rishi Vansh	Diamond Books	75
0000 A	18679	Gungunati Shayari Sms Hindi(PB)	Kuldeep Saluja	Diamond Books	15
0000 A	18680	Gurda Aur Mutrsansthan Ke Rog Hin	Rajeev Sharma	Diamond Books	95
0000 A	18681	Guru Hi Mukti Data Hindi(PB)	Sri Krishna Nand Ji Maharaj	Diamond Books	250
0000A	18682	Guru Nanak Dev Hindi(PB)	Renu Saran	Diamond Books	30
0000 A	18683	Guru Nanak Dev Hindi(PB)	Giriraj Sharan Agarwal	Diamond Books	95
0000 A	18684	Guru partap Sadh Ki Sangati (H) Hi	Osho	Diamond Books	200
0000 A	18685	Gurudev Rabindranath Tagore Hindi	Maheshwar Mishra	Diamond Books	95
0000 A	18686	Guruji Dungarmal Kaushik Ki Pran S	Chhatrapal Singh	Diamond Books	95
0000 A	18687	Gyan Ka Jharna PB Hindi	R K Dogra	Diamond Books	150
0000 A	18688	Gyan Vigyan Ki Aashcharyajanak Ka	Prakash Manu	Diamond Books	125
0000 A	18689	Gyarah Nukkad Natak Hindi(HB)	Giriraj Sharan Agarwal	Diamond Books	200
0000 A	18690	Gyarah Nukkad Natak Hindi(PB)	Giriraj Sharan Agarwal	Diamond Books	95
0000 A	18691	Haar Ke Baad Hi Jeet Hai Hindi(PB)	Joginder Singh	Diamond Books	110
0000 A	18692	Half Girlfriend (H)	Chetan Bhagat	Diamond Books	176
0000 A	18693	Hamne Chhua Aakash (Mahan Bhart	Renu Saran	Diamond Books	95
0000 A	18694	Hansa Hansa Ke Maroonga Hindi(PE	Mahendra Ajnabi	Diamond Books	75
0000 A	18695	Hanse Khele Na Karein Man Bhang (	Osho	Diamond Books	95
0000 A	18696	Hansi Ke Anar Daane Hindi(PB)	Sunil Jogi	Diamond Books	95
0000 A	18697	Hansi Ke Golgappe Hindi(PB)	Sunil Jogi	Diamond Books	75
0000 A	18698	Hansi Khel Nahin Hindi(PB)	Ved Prakash Ved	Diamond Books	75
0000 A	18699	Hanso Aur Mar Jaao Hindi(PB)	Ashok Chakradhar	Diamond Books	100
0000 A	18700	Hanste Hanste Kaise Jiyen Hindi(PB)	Swett Marden	Diamond Books	75
0000 A	18701	Hanstehanste Kaise Jeeyan HB Hindi	Swett Marden	Diamond Books	250
0000 A	18702	Hanuman Hindi(PB)		Diamond Books	35
0000 A	18703	Hanuman Tantra Sadhna Hindi(PB)	Radha Krishna Srimali	Diamond Books	150
0000 A	18704	Hanumanji Ka Kushal Prabandhan H	Sunil Jogi	Diamond Books	300
0000 A	18705	Hanumanji Ka Kushal Prabandhan H	Sunil Jogi	Diamond Books	100
0000 A	18706	Haqlana Aur Aapka Bachha Question	Sajiv Adlakha	Diamond Books	40
0000 A	18707	Har Hal Me Khush Hai Hindi(PB)	Praveen Shukla	Diamond Books	75
0000 A	18708	Har Tasveer Adhuri Hindi(PB)	Mehtab Haider Nakavi	Diamond Books	75
0000 A	18709	Hara Samundar Gopi Chander Hindi(	Ajay Janamjai	Diamond Books	80
0000 A	18710	Harayana GK Hindi	Vikas Doon	Diamond Books	80

0000A	18711	Hardyaghat Aur Raktchap Hindi(PB)	Hari Om Gupta	Diamond Books	50
0000 A	18712	Hardyaghat Hindi(PB)	Bimal Chhajer	Diamond Books	50
0000 A	18713	Hari Subziyon Ke Vyanjan Hindi(PB	Komal Taneja	Diamond Books	100
0000 A	18714	Harivansh Puran Hindi(PB)	Vinay	Diamond Books	95
0000 A	18715	Haryana Ke Jan Jeewan Ki Kahaniya	Kunvar Raisingh Chauhan	Diamond Books	25
0000 A	18716	Haryana Ki Lok Kathayen Hindi(PB)	Kunvar Raisingh Chauhan	Diamond Books	30
0000 A	18717	Hasaye Ja Pyare Hindi(PB)	Gemini Hariyanavi	Diamond Books	95
0000 A	18718	Hasiba Kheliba Dhariba Dhyanam (I	Osho	Diamond Books	95
0000 A	18719	Hastaakshar Vigyan Hindi(PB)	Jagdish Sharma	Diamond Books	75
0000 A	18720	Hastrekha Aur Premvivah Hindi(PB)	Cheiro	Diamond Books	50
0000 A	18721	Hath Ki Banavat Hindi(PB)	V K Sharma	Diamond Books	125
0000 A	18722	Healthy Cooking PB Hindi	Bimal Chhajer	Diamond Books	50
0000 A	18723	Healthy Heart PB Hindi	Bimal Chhajer	Diamond Books	50
0000 A	18724	Heart Mafia PB Hindi	Biswaroop Roy Choudhray	Diamond Books	150
0000 A	18725	Heera (Jyotish Aur Ratna) Hindi(PB)	Jagdish Sharma	Diamond Books	50
0000 A	18726	Hello Charles Hindi(PB)	Rekha Agarwal	Diamond Books	100
0000 A	18727	Hi Fi Shayari Sms Hindi(PB)	Kuldeep Saluja	Diamond Books	15
0000 A	18728	High Blood Pressure PB Hindi	Bimal Chhajer	Diamond Books	50
0000 A	18729	Himmat Hai Hindi(PB)	Kiran Bedi	Diamond Books	250
0000 A	18730	Hind Ki Shaan (H) Hindi(PB)	Bekal Utsahi	Diamond Books	100
0000 A	18731	Hindi English Teacher PB Hindi	Renu Saran	Diamond Books	100
0000 A	18732	Hindi Ke Muktak Aur Rubaiyan Hind	Sunil Jogi	Diamond Books	100
0000 A	18733	Hindu Aur Hindutva Hindi PB	Ila Kumar	Diamond Books	99
0000 A	18734	Hindu Manyataon Ka Dharmik Adha	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	95
0000 A	18735	Hindu Manyataon Ka Vaigyanik Aad	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	110
0000 A	18736	Hindu Nishane Par Hindi(PB)	Subramaniam Swami	Diamond Books	95
0000 A	18737	Hindu Vivah Evam Yagopavit Sansk	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	100
0000 A	18738	Hindutatva Hindi(PB)	Rachna Bhola Yamini	Diamond Books	60
0000 A	18739	Hinsa Kaisi Kaisi (Hindi HB)	Nishtar Khanquahi	Diamond Books	150
0000A	18740	Hinsa Kaisi Kaisi (Hindi PB)	Nishtar Khanquahi	Diamond Books	75
0000 A	18741	Hirdaya Rog Se Mukti Ke Saral Upay	Vishnu Jain	Diamond Books	95
0000 A	18742	Hirdaya Rogiyon Ke Liye Sanjivani I	Bimal Chhajer	Diamond Books	50
0000 A	18743	Hit Filmi Geet 1934 To 1960 Part I H	Kumud Rastogi	Diamond Books	95
0000 A	18744	Hit Filmi Geet 1961 To 1970 Part II I	Kumud Rastogi	Diamond Books	50
0000 A	18745	Hit Filmi Geet 1971 To 1980 Part III	Kumud Rastogi	Diamond Books	95
0000 A	18746	Hit Filmi Geet 1981 To 1984 Part Iv	Kumud Rastogi	Diamond Books	95
0000 A	18747	Hit Filmi Geet 1985 To 1991 Part V	Mahesh Dutt Sharma	Diamond Books	95
0000 A	18748	Hit Filmi Geet 1992 To 1996 Part VI	Mahesh Dutt Sharma	Diamond Books	50
0000 A	18749	Hit Filmi Geet 2003 To 2006 Part VI	Gajendra Singh	Diamond Books	50
0000 A	18750	Hit Filmi Geet 2006 To 2007 Part IX	Mahesh Dutt Sharma	Diamond Books	50
0000 A	18751	Hit Filmi Geet 2008 To 2009 Part X	Mahesh Dutt Sharma	Diamond Books	50
0000 A	18752	Hitopadesh Ki Manoranjak Kahaniya	Pratibha Kasturiya	Diamond Books	35
0000 A	18753	Hitopadesh Ki Prerak Kahaniyan Hin	Pratibha Kasturiya	Diamond Books	35
0000 A	18754	Hitopadesh Ki Shikshaprad Kahaniya	Pratibha Kasturiya	Diamond Books	35
0000 A	18755	Hitopdesh (H) Hindi(PB)	Ashok Kaushik	Diamond Books	95
0000 A	18756	Hitopdesh Hindi(HB)	Rachna Bhola Yamini	Diamond Books	175
0000 A	18757	Hitopdesh Ki Rochak Kahaniya Hind	Pratibha Kasturiya	Diamond Books	35
0000 A	18758	Home Beautician Course (Ghar Mein	Jyoti Rajiv	Diamond Books	95
0000 A	18759	Honi Hoye So Hoye (Kabir Vani) (H	Osho	Diamond Books	75
0000 A	18760	Honi Hoye So Hoye (Kabir Vani) (H	Osho	Diamond Books	200
0000 A	18761	Hori Dohavali Hindi(HB)	Rajkumar Sachaan 'Hori'	Diamond Books	300
0000 A	18762	Hori Dohavali Hindi(PB)	Rajkumar Sachan Hori	Diamond Books	95
0000 A	18763	Hospital Se Zinda Kaise Lote PB Hin	Biswaroop Roy Choudhray	Diamond Books	95
0000 A	18764	HR Swasthya Seva Mission Staff Nu	Arvind Mohan Dwivedi	Diamond Books	235
0000 A	18765	Hridaya Rogiyon Ke Liye 201 Ahaar	Bimal Chhajer	Diamond Books	125
0000 A	18766	HSSC Clerk Grade Pariksha 2014 (P	Arvind Mohan Dwivedi	Diamond Books	150
0000 A	18767	HSSC Clerk Grade Pariksha 2014 PB	Arvind Mohan Dwivedi	Diamond Books	290

0000 A	18768	HSSC Stenographer (Practise Test P	Arvind Mohan Dwivedi	Diamond Books	150
0000A	18769	HSSC Stenographer (Guide) PB Hind	Arvind Mohan Dwivedi	Diamond Books	220
0000 A	18770	HTET BAAL VIKAS AND SHIKSH	Vikas Doon	Diamond Books	115
0000 A	18771	HTET Environmental Studies Title P	Vikas Doon	Diamond Books	55
0000 A	18772	HTET PB Hindi	Vikas Doon	Diamond Books	115
0000 A	18773	Hum Honge Kamyaab Hindi(PB)	Gopal Sharma	Diamond Books	110
0000 A	18774	Hungama Hai Kyon Barpa Hindi(PB)	Prem Nishith	Diamond Books	75
0000 A	18775	I Am Sorry PB Hindi	Ghanshyam Aggarwal	Diamond Books	150
0000 A	18776	IBPS Clerk Grade Exam (Practise Test Paper) PB Hindi		Diamond Books	180
0000 A	18777	IBPS Clerk Grade Exam PB Hindi		Diamond Books	310
0000 A	18778	IBPS CWE PO/MT (PTP) PB Hindi	Vikas Doon	Diamond Books	115
0000 A	18779	IBPS CWE RRB PB HINDI	Vikas Doon	Diamond Books	200
0000 A	18780	IBPS Krishi Adhikari Guide & Practi	Neelam Sharma	Diamond Books	99
0000 A	18781	IBPS Probationary Officer Evam Prabandhan Prashishu (Po & Mt		Diamond Books	370
0000 A	18782	IBPS Probationery Officers (12 Practice Test Papers) PB Hindi		Diamond Books	190
0000 A	18783	IBPS Regional Rural Bank (Officers) 10 Practice Test Papers PB		Diamond Books	185
0000 A	18784	IBPS Regional Rural Bank Office Assistants (12 Practice Papers)		Diamond Books	185
0000 A	18785	IBPS Regional Rural Bank Officer (CWE) (Scale I,II & III) Guide		Diamond Books	405
0000 A	18786	IBPS Regional Rural Banks OA (Multipurpose) Exam (CWE) Hin		Diamond Books	375
0000 A	18787	ICE Cream Ki Kahani PB Hindi	Prakash Manu	Diamond Books	35
0000 A	18788	Ignou B.ed Practice Test Paper PB Hindi		Diamond Books	125
0000 A	18789	India Book Of Records 2011 Hindi(P	Biswaroop Roy Choudhray	Diamond Books	195
0000 A	18790	India Book Of Records 2012 Hindi(P	Biswaroop Roy Choudhray	Diamond Books	250
0000 A	18791	Indian Air Force (Group-Y) Guide C	Arvind Mohan Dwivedi	Diamond Books	185
0000 A	18792	Indian Microwave Cook Book (H) H	Tehlina Kaul	Diamond Books	100
0000 A	18793	Indira Gandhi HB Hindi	Meena Agarwal	Diamond Books	300
0000 A	18794	Indira Gandhi Hindi(PB)	Meena Agarwal	Diamond Books	95
0000 A	18795	Indira Gandhi Hindi(PB)		Diamond Books	30
0000 A	18796	Indrajal Magic Tricks Hindi(PB)	Jadugar - Samrath Ashok	Diamond Books	95
0000 A	18797	Intelligence Bureau PB Hindi	Vikas Doon	Diamond Books	100
0000A	18798	Invisible Doctor Hindi(PB)	B K Chandra Shekhar	Diamond Books	150
0000 A	18799	Irshya Se Mukti Hindi(PB)	Nityanand	Diamond Books	175
0000 A	18800	Ishquia Shayari Sms Hindi(PB)	Kuldeep Saluja	Diamond Books	15
0000 A	18801	Ishwar Ka Doosra Naam Hai Maa Hi	Tarun Engineer	Diamond Books	95
0000 A	18802	Ishwar Ki Aur Hindi(PB)	Nency Mramor	Diamond Books	75
0000 A	18803	Ishwar Se Kya Prathnao Se Jawab M	Jiliyana Reymond	Diamond Books	75
0000 A	18804	Isliye Baudam Ji Isliye Hindi(PB)	Ashok Chakradhar	Diamond Books	100
0000 A	18805	Istri Rogon Ki Sahaj Chikitsa (Dadi M	Rajeev Sharma	Diamond Books	95
0000 A	18806	ITBPF Tally Cumunication Cader (11-Practice Test Pepers) Hindi		Diamond Books	60
0000 A	18807	J P Jaisa Maine Dekha Hindi(HB)	Amlesh Raju	Diamond Books	500
0000 A	18808	Jaago Jiwan Jagran Ki Bela Hindi(PB	Shooyo Ji	Diamond Books	95
0000 A	18809	Jaane Kitni Aankhe Hindi (HB)	Rajendra Awasthi	Diamond Books	450
0000 A	18810	Jaane Kitni Aankhe PB Hindi	Rajendra Awasthi	Diamond Books	150
0000 A	18811	Jaat Hamari Brahm Hai (H) Hindi(P	Osho	Diamond Books	60
0000 A	18812	Jab Raha Na Koi Chara Hindi(PB)	Ashok Chakradhar	Diamond Books	95
0000A	18813	Jadui Shayari Sms Hindi(PB)	Kuldeep Saluja	Diamond Books	15
0000 A	18814	Jahrili jaren Hindi(PB)	Roop Narain Sonker	Diamond Books	50
0000 A	18815	Jaikara Sheran Wali Ka Mata Ki Bhe	Sajan Peshawari	Diamond Books	75
0000 A	18816	Jal Mein Kamal (Bhagwat Gita Ka M	Osho	Diamond Books	200
0000 A	18817	Jalti Chhattan Hindi(PB)	Gulshan Nanda	Diamond Books	60
0000 A	18818	Jam Gaya Suraj Hindi(PB)	Abhimanyu Unnaut	Diamond Books	75
0000 A	18819	Jammu Kashmir Ki Lokkathayen Eva	Rachna Bhola Yamini	Diamond Books	25
0000 A	18820	Jane Kya Tapke Hindi(PB)	Ashok Chakradhar	Diamond Books	95
0000 A	18821	Jannayak Rahul Gandhi PB Hindi	Rakesh Pandey	Diamond Books	295
0000 A	18822	Jansakhya Visphot (H) Hindi(PB)	Osho	Diamond Books	95
0000 A	18823	Jansampark Hindi(PB)	Amit Kumar	Diamond Books	95
0000 A	18824	Jatak Kathayen Hindi(HB)	Pratibha Kasturiya	Diamond Books	175

0000 A	18825	Jatak Kathayen Hindi(PB)	Bhawan Singh Rana	Diamond Books	125
0000 A	18826	Jawahar Navodaya Vidyalaya (Practice Test Papers) PB Hindi		Diamond Books	100
0000 A	18827	Jawahar Navodaya Vidyalaya Pravesh Pariksha Hindi (PB)		Diamond Books	160
0000 A	18828	Jawaharlal Nehru Hindi(PB)	Renu Saran	Diamond Books	30
0000 A	18829	Jeene Ka Saahas (H) Hindi(PB)	Rajiv	Diamond Books	100
0000 A	18830	Jeet Lo khwabon ko PB Hindi	Joginder Singh	Diamond Books	150
0000 A	18831	Jeet Sako To Jeet Lo Hindi(PB)	Harikrishan Devsare	Diamond Books	125
0000 A	18832	Jeet Ya Haar Raho Tayaar Hindi (PB	Ujjawal Patni	Diamond Books	199
0000 A	18833	Jeevan Amrit (H) Hindi(PB)	Osho	Diamond Books	200
0000 A	18834	Jeevan Aur Marityu (H) Hindi(PB)	Osho	Diamond Books	30
0000 A	18835	Jeevan Aur Vayavhar (H) Hindi(PB)	Swett Marden	Diamond Books	75
0000 A	18836	Jeevan Aur Vyavhar HB Hindi	Swett Marden	Diamond Books	250
0000 A	18837	Jeevan Ek Yagyashala HB Hindi	Nishantketu	Diamond Books	300
0000 A	18838	Jeevan Jine Ki Kala PB Hindi	Anand Satyarthi	Diamond Books	100
0000 A	18839	Jeevan Ke Prerak (H) Hindi(PB)	Surya Sinha	Diamond Books	150
0000 A	18840	Jeevan Ke Prerak Hindi(HB)	Surya Sinha	Diamond Books	300
0000 A	18841	Jeevan Ke Rang Osho Ke Sang Hindi	Ageh Bharti	Diamond Books	60
0000A	18842	Jeevan Kranti (H) Hindi(PB)	Osho	Diamond Books	60
0000 A	18843	Jeevan Mein Anand Hindi(PB)	Jas Mand	Diamond Books	95
0000 A	18844	Jeevan Mein Safal Kaise Ho Hindi(P	Vinod K Gupta	Diamond Books	60
0000 A	18845	Jeevan Sangeet (H) Hindi(PB)	Osho	Diamond Books	95
0000 A	18846	Jeevan Sthagit Hai Hindi (PB)	Parmod Bharti	Diamond Books	150
0000 A	18847	Jeevit Mandir (H) Hindi(PB)	Osho	Diamond Books	60
0000 A	18848	Jhansi Ki Rani Laxmi Bai Hindi (HB	Bhawan Singh Rana	Diamond Books	300
0000 A	18849	Jharkhand Andolan Ke Masiha Bino	Rajkishore Mehato	Diamond Books	50
0000 A	18850	Jharkhand Ki Lok Kathayen Evam Pr	Rachna Bhola Yamini	Diamond Books	25
0000 A	18851	Jhuk Aaye Badriya Sawan Ki (H) Hi	Osho	Diamond Books	60
0000 A	18852	Jin Khoja Tin Paaiyan Gahre Pani Pa	Osho	Diamond Books	500
0000 A	18853	Jindagi Ki Kahani Hindi(PB)	Maharaji	Diamond Books	60
0000 A	18854	Jism Ke Chhilake Hindi(PB)	Nishantketu	Diamond Books	150
0000 A	18855	Jitna Bada Jokhim Utni Badi Safalta	Tarun Engineer	Diamond Books	150
0000 A	18856	Jiwan Ke Vividha Rang Hindi(PB)	Sudarshan Ji	Diamond Books	60
0000 A	18857	Jiwan Ko Sunder Kaise Banayen Hin	Sudarshan Ji	Diamond Books	60
0000 A	18858	Jiwan Safal Kaise Banaye Hindi(PB)	Sudarshan Ji	Diamond Books	60
0000 A	18859	JKD Swasthya Seva Mission Staff Nu	Arvind Mohan Dwivedi	Diamond Books	235
0000 A	18860	Jo Kare So Joker Hindi(PB)	Ashok Chakradhar	Diamond Books	100
0000 A	18861	Jo Kuch Bhi Tha Darmiyan PB Hindi	Dinesh Gupta	Diamond Books	100
0000 A	18862	Jogi Bhajanamrit Hindi(PB)	Sunil Jogi	Diamond Books	75
0000 A	18863	Jotahi Jot Samaani (Kabir Vani) (H)	Osho	Diamond Books	95
0000 A	18864	Judo Jodo Aur Jeeto (Network Marke	Ujjawal Patni	Diamond Books	225
0000 A	18865	Juicey Shayari Sms Hindi(PB)	Kuldeep Saluja	Diamond Books	15
0000 A	18866	Jumbo Hindi(PB)		Diamond Books	40
0000 A	18867	Jungle Janwar Aur Aadmi Hindi(PB)	Nishantketu	Diamond Books	150
0000 A	18868	Just Mushroom Hindi(PB)	Komal Taneja	Diamond Books	100
0000 A	18869	Jyo Ki Tyo Dhari Dinhi Chadariya (I	Osho	Diamond Books	200
0000 A	18870	Jyotish Aur Aayusaya Yog Hindi(PB	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	95
0000A	18871	Jyotish Aur Dhan Yog Hindi(PB)	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	95
0000 A	18872	Jyotish Aur Laxmi Yog Kanya Lagan	Kamal Radha Krishan Srimali	Diamond Books	125
0000 A	18873	Jyotish Aur Laxmi Yog Makar Lagan	Kamal Radha Krishan Srimali	Diamond Books	125
0000 A	18874	Jyotish Aur Laxmi Yog Meen Laganp	Kamal Radha Krishan Srimali	Diamond Books	125
0000 A	18875	Jyotish Aur Rajyog Hindi(PB)	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	95
0000 A	18876	Jyotish Aur Ratan Hindi(PB)	Radha Krishna Srimali	Diamond Books	95
0000 A	18877	Jyotish Aur Rog Vichar Hindi(PB)	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	95
0000 A	18878	Jyotish Aur Santan Yog Hindi(PB)	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	95
0000 A	18879	Jyotish Aur Vivah Yog Hindi(PB)	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	95
0000 A	18880	Jyotish Fhaldeepika Hindi(PB)	Mohan Bhai D Patel	Diamond Books	60

0000 A	18881	Jyotish Ke Rahasya Hindi(PB)	Ramprakash Dwivedi	Diamond Books	150
0000 A	18882	Jyotish Mein Bhawan Vahan Aur Kir	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	95
0000 A	18883	Jyotish Prashnotari Hindi(PB)	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	75
0000 A	18884	Jyotish Sikhiyae Hindi(PB)	Radha Krishna Srimali	Diamond Books	175
0000 A	18885	Jyotish Tatva Vivek Hindi(PB)	Ramesh Upadhyay	Diamond Books	125
0000 A	18886	Jyotish Vigyan PB Hindi	Osho	Diamond Books	60
0000 A	18887	Ka Sovae Din Rain (H) Hindi(PB) N	Osho	Diamond Books	200
0000 A	18888	Kaal Chintan Aatmbodh Hindi(HB)	Rajendra Awasthi	Diamond Books	500
0000 A	18889	Kaal Chintan Aatmbodh Hindi(PB)	Rajendra Awasthi	Diamond Books	150
0000 A	18890	Kaal Chintan Aatmchintan Hindi(HB	Rajendra Awasthi	Diamond Books	500
0000 A	18891	Kaal Chintan Aatmchintan Hindi(PB	Rajendra Awasthi	Diamond Books	150
0000 A	18892	Kaal Chintan Aatmlochan Hindi(HB)	Rajendra Awasthi	Diamond Books	500
0000 A	18893	Kaal Chintan Aatmlochan Hindi(PB)	Rajendra Awasthi	Diamond Books	150
0000 A	18894	Kaal Chintan Antarman (H) Hindi(PI	Rajendra Awasthi	Diamond Books	150
0000 A	18895	Kaal Chintan Antarman Hindi(HB)	Rajendra Awasthi	Diamond Books	500
0000 A	18896	Kaal Chintan Anubhuti Hindi(HB)	Rajendra Awasthi	Diamond Books	500
0000 A	18897	Kaal Chintan Anubhuti Hindi(PB)	Rajendra Awasthi	Diamond Books	150
0000 A	18898	Kaal Chintan Atmamanthan Hindi(H	Rajendra Awasthi	Diamond Books	500
0000 A	18899	Kaal Chintan Atmamanthan Hindi(PI	Rajendra Awasthi	Diamond Books	150
0000A	18900	Kaal Ke Haath Kamniya Hindi(PB)	Maharaji	Diamond Books	60
0000 A	18901	Kaam Urja Ko Samjho Hindi(PB)	Anandmurti Guru Maa	Diamond Books	50
0000 A	18902	Kab Tak Sahoge Hindi(HB)	Ajay Lal	Diamond Books	400
0000 A	18903	Kabul Ka Kitab Wala Hindi(PB)	Arvind Kumar	Diamond Books	150
0000 A	18904	Kabz Aur Swash Ke Rog Hindi(PB)	Hari Om Gupta	Diamond Books	50
0000 A	18905	Kabz Hindi(PB)	Bimal Chhajer	Diamond Books	40
0000 A	18906	Kache Rasto Ka Safar Hindi(PB)	Ramdarash Mishra	Diamond Books	95
0000 A	18907	Kadve Pravachan PB Hindi	Muni Sri Tarun Sagar Ji Maharaj	Diamond Books	195
0000 A	18908	Kahai Kabir Diwana PB Hindi	Osho	Diamond Books	250
0000 A	18909	Kahan Shuru Kahan Khatam PB Hind	Dwarika Prasad Agarwal	Diamond Books	125
0000 A	18910	Kahan We Kahan Ye Hindi(HB)	Praveen Shukla	Diamond Books	200
0000 A	18911	Kahan We Kahan Ye Hindi(PB)	Praveen Shukla	Diamond Books	75
0000 A	18912	Kahaniya Bolti Hai Hindi (PB)	Surya Sinha	Diamond Books	125
0000 A	18913	Kahaniyan Jo Genius Banaye PB Hin	J P S Jolly	Diamond Books	150
0000 A	18914	Kahaniyan Jo Jeena Sikhayen Hindi (	Jolly Uncle	Diamond Books	450
0000 A	18915	Kahaniyan Jo Jeena Sikhayen Hindi (	Jolly Uncle	Diamond Books	125
0000 A	18916	Kahaniyan Jo Raah Dikhaye Hindi (F	J P S JOLLY	Diamond Books	125
0000 A	18917	Kahe Kabir Main Poora Paya PB Hin	Osho	Diamond Books	250
0000 A	18918	Kahen Kabir Kuchch Udham Kije Hi	Sri Krishana Nand Ji Maharaj	Diamond Books	200
0000 A	18919	Kahkashan Ka Safar Hindi(PB)	Suresh Kumar	Diamond Books	75
0000 A	18920	Kailash Satyarthi (PB) Hindi	Kritika Bhardwaj, Ashok K. Sharma	Diamond Books	125
0000 A	18921	Kaisa Ho Sakta Hai Shubh Bhavisaya	Acharya Mahapragya	Diamond Books	100
0000 A	18922	Kaisa Hoga Aapka Jeevan Sathi Hind	Kamal Radha Krishan Srimali	Diamond Books	75
0000 A	18923	Kaise Jeeten Kaun Banega Crorpati I	Anuj Goswami	Diamond Books	60
0000 A	18924	Kaise Kare Rango Se Upchar Hindi (	Ted Andrews	Diamond Books	250
0000 A	18925	Kaise Kare Rango Se Upchar Hindi(F	Ted Andrews	Diamond Books	95
0000 A	18926	Kaka Ki Pholjhariyan Hindi(PB)	Kaka Hathrasi	Diamond Books	95
0000 A	18927	Kakke Ke Chchake Hindi(PB)	Kaka Hathrasi	Diamond Books	95
0000 A	18928	Kali Pujan Aur Chandi Paath Hindi(F	Vinay Singhal	Diamond Books	95
0000A	18929	Kalidas Ke Natak Hindi(PB)	Ashok Kaushik	Diamond Books	150
0000 A	18930	Kaliyug Ke Ved Vyas Munshi Prem (	Maheshwar Mishra	Diamond Books	75
0000 A	18931	Kalki Puran Hindi(PB)	Vinay	Diamond Books	95
0000 A	18932	Kalsarpyog Shanti Aur Ghat Vivah P	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	125
0000 A	18933	Kam Bhav Ki Nai Vyakhya Hindi(PE	Dayanand Verma	Diamond Books	95
0000 A	18934	Kamar Dard Hindi(PB)	Hari Om Gupta	Diamond Books	50
0000 A	18935	Kamar Dard Hindi(PB)	Bimal Chhajer	Diamond Books	40

0000 A	18936	Kamar Dard Karan Aur Nivaran Hind	Nishtha	Diamond Books	95
0000 A	18937	Kamayani Hindi(PB)	Jai Shankar Prasad	Diamond Books	95
0000 A	18938	Kamyab Beema Agent Kaise Bane H	Ashok Goyal	Diamond Books	125
0000 A	18939	Kamyabi Kaise (Come On Get Set Go	Sailesh Lodha	Diamond Books	150
0000 A	18940	Kan Naak Gala Evam Sirdard Hindi(	Hari Om Gupta	Diamond Books	50
0000 A	18941	Kanooni Salah Hindi(PB)	Dinkar Kumar	Diamond Books	95
0000 A	18942	Kapaal Kundla Hindi(PB)	Bankim Chandra Chattopadhyay	Diamond Books	75
0000 A	18943	Karam Bada Ya Bhagya Hindi(PB)	Sanjay Sharma	Diamond Books	95
0000 A	18944	Karambhumi Hindi(HB)	Prem Chand	Diamond Books	300
0000 A	18945	Karambhumi Hindi(PB)	Prem Chand	Diamond Books	150
0000 A	18946	Karamyog (Bhagwat Gita Ka Manovi	Osho	Diamond Books	200
0000 A	18947	Karamyog (Bhagwat Gita Ka Manovi	Osho	Diamond Books	200
0000 A	18948	Karamyogi Swami Vivekanand PB H	Ramesh Pokhriyal	Diamond Books	50
0000 A	18949	Karate Kya Hai Aur Ise Kyon Seekhe	Bhupender singh	Diamond Books	120
0000 A	18950	Karmat Jujharu Aur Shishak Mahila I	Sidhart Ayyar	Diamond Books	125
0000 A	18951	Karmatma Aur Karma Ka Sidhant Hi	Tejguru Sarshree Tejparkhizi	Diamond Books	95
0000 A	18952	Karodpati Se Arabpati Kaise Bane (H	Subhash Lakhotia	Diamond Books	150
0000 A	18953	Karyasthal Par Bhawanatmak Buddhi	Dalip Singh	Diamond Books	125
0000 A	18954	Kashi Hindu Vishvavidyalaya Staff N	Arvind Mohan Dwivedi	Diamond Books	100
0000 A	18955	Kashi Hindu Vishvavidyalaya Staff N	Arvind Mohan Dwivedi	Diamond Books	250
0000 A	18956	Kashinath Hindi(PB)	Sharat Chandra Chattopadhyay	Diamond Books	95
0000 A	18957	Kashmir Ke Antheen Jung PB Hindi	Satish Verma	Diamond Books	250
0000A	18958	Kasturi Kundal Basai PB Hindi	Osho	Diamond Books	250
0000 A	18959	Kath Sarit Sagar Hindi(PB)	Bhawan Singh Rana	Diamond Books	95
0000 A	18960	Katju Ji Batayin Hindi(PB)	Raj Gopal Katju	Diamond Books	75
0000 A	18961	Kaun Hai Guru PB Hindi	Shashi Kant Sadaiv	Diamond Books	150
0000 A	18962	Kaun Hai Osho Hindi(PB)	Shashi Kant Sadaiv	Diamond Books	250
0000 A	18963	Kautilaya Arthshashtra Hindi(PB)	Ashok Kaushik	Diamond Books	95
0000 A	18964	Kavya Aur Kala Tatha Anya Nibandh	Jai Shankar Prasad	Diamond Books	40
0000 A	18965	Kayakalp Hindi(PB)	Prem Chand	Diamond Books	175
0000 A	18966	Kele Ka Chhilka Hindi(PB)	Prem Kishore Patakha	Diamond Books	75
0000 A	18967	KENDRIYA VADHYALAYA Sanga	Vikas Doon	Diamond Books	115
0000 A	18968	Khawab Farosh(Ahmed Fraj Ki Shay	Ahmed Faraz	Diamond Books	95
0000 A	18969	Khel Patrakarita Hindi(HB)	Rajshekhar Mishra	Diamond Books	200
0000 A	18970	Khel Patrakarita Hindi(PB)	Rajshekhar Mishra	Diamond Books	60
0000 A	18971	Khidkiyaan Hindi(PB)	Ashok Chakradhar	Diamond Books	75
0000 A	18972	Khud Badlein Apni Kismat Hindi(PB	Ashokindu	Diamond Books	125
0000 A	18973	Khud Badlen Apni Kismat Hindi(HB	Ashokindu	Diamond Books	300
0000 A	18974	Khul Kar Khao Fir Bhi Vajan Ghatao	Pooja Makhija	Diamond Books	225
0000 A	18975	Khule Dimag Ki Taqat PB Hindi	Lokesh Sharma	Diamond Books	100
0000 A	18976	Kiran Bedi Kaise Bani Top Cop (Inte	Kiran Bedi	Diamond Books	150
0000 A	18977	Kiran Bedi Kaise Bani Top Cop PB H	Kiran Bedi	Diamond Books	50
0000 A	18978	Kishore Ke Hit Filmi Geet Hindi(PB)	Kumud Rastogi	Diamond Books	100
0000 A	18979	Koi Deewana Kahta Hai Hindi(HB)	Kumar Vishwas	Diamond Books	500
0000 A	18980	Koi Deewana Kahta Hai Hindi(PB)	Kumar Vishwas	Diamond Books	99
0000 A	18981	Kranti Ka Masiha Dr. Binayak Sen H	Arvind Kumar	Diamond Books	100
0000 A	18982	Kranti Sutra (H) Hindi(PB)	Osho	Diamond Books	95
0000 A	18983	Krantiveer Subhash Hindi(PB)	Giriraj Sharan Agarwal	Diamond Books	95
0000 A	18984	Krishan Jigyasa Khoj Uplabhadhi (H	Osho	Diamond Books	95
0000 A	18985	Krishan Aur Hasta Hua Dharam (H)	Osho	Diamond Books	95
0000 A	18986	Krishan Guru Bhi Sakha Bhi (H) Hin	Osho	Diamond Books	95
0000A	18987	Krishan Leela Ki Kathayen Hindi(PB	Narayan Sharma	Diamond Books	95
0000 A	18988	Krishna Se Prashna HB Hindi	Sumedh Gawendy	Diamond Books	300
0000 A	18989	Krodh Se Karuna Ki Aur Hindi(PB)	Anandmurti Guru Maa	Diamond Books	50
0000 A	18990	Kshitij Hindi(PB)	Parmod Bharti	Diamond Books	150
0000 A	18991	Kuch Kaha Kuch Likha Baki Phir Kabhi Hindi(HB)		Diamond Books	300

0000 A	18992	Kuchh Pani Kuchh Aag Hindi(PB)	Naresh Shandilya	Diamond Books	60
0000 A	18993	Kuchh Vichar Hindi(PB)	Prem Chand	Diamond Books	95
0000 A	18994	Kundilini Aur Samadhi Hindi(PB)	Gyan Bhed	Diamond Books	250
0000 A	18995	Kurma Puran Hindi(PB)	Vinay	Diamond Books	95
0000 A	18996	Kurukshetra Geetawali Hindi(HB)	Commander Vinay Singh	Diamond Books	300
0000 A	18997	Kya Aap Aamir Banana Chahate Hai	Tarun Engineer	Diamond Books	150
0000 A	18998	Kya Hai Network Marketing Jaaniyen	Surya Sinha	Diamond Books	150
0000 A	18999	Kya Kahate Hain Puran Hindi(PB)	Mahesh Dutt Sharma	Diamond Books	125
0000 A	19000	Kya Kahte Hai Upnishad Hindi(PB)	Mahesh Dutt Sharma	Diamond Books	125
0000 A	19001	Kya Kahte Hain Ved Hindi(PB)	Mahesh Dutt Sharma	Diamond Books	75
0000 A	19002	Kya Kare Jab Maa Bane (H) Hindi(P	Haidi Markof	Diamond Books	295
0000 A	19003	Kya Karein Doosre Varsh Mein PB H	Haidi Markof	Diamond Books	295
0000 A	19004	Kya Karen Jab Maa Banna Chahen P	Haidi Markof	Diamond Books	295
0000 A	19005	Kya Karen Pratham Varsh Mein PB I	Haidi Markof	Diamond Books	450
0000 A	19006	Kya Khayen Jab Maa Bane Hindi (PI	Haidi Markof	Diamond Books	295
0000 A	19007	Kya Khoya Kya Paya Hindi(PB)	Sudarshan Ji	Diamond Books	60
0000 A	19008	Kya Mera Kya Tera(Kabir Vani) (H)	Osho	Diamond Books	95
0000 A	19009	Kyon Mera Bachcha Ashisht Vyvhar	Sunil Vaid	Diamond Books	100
0000 A	19010	Kyon Mera Bachcha Khana Nahi Kh	Sunil Vaid	Diamond Books	100
0000 A	19011	Kyunki Main Murga Hoon Hindi(PB	Rajkumar Sachan Hori	Diamond Books	95
0000 A	19012	Ladies Sangeet Hindi(PB)	Ganga Prasad Sharma	Diamond Books	95
0000 A	19013	Lafzon Ki Ghatayen Bekal Utsahi Ki	Bekal Utsahi	Diamond Books	75
0000 A	19014	Lajawab Birbal Hindi(PB)		Diamond Books	35
0000 A	19015	Lajili Shayri Sms Hindi(PB)	Kuldeep Saluja	Diamond Books	15
0000A	19016	Lakshmi Tantra Sadhna Hindi(PB)	Radha Krishna Srimali	Diamond Books	125
0000 A	19017	Lakshmi Upasana Hindi(PB)	Radha Krishna Srimali	Diamond Books	50
0000 A	19018	Lakshya (Shani Chalisa) HB Hindi	Bhimsain	Diamond Books	400
0000 A	19019	Lakshya Jindagi Ka Hindi(PB)	Subhash Lakhotia	Diamond Books	125
0000 A	19020	Lal Bahadur Shastri Hindi(HB)	Sunil Jogi	Diamond Books	300
0000 A	19021	Lal Bahadur Shastri Hindi(PB)	Sunil Jogi	Diamond Books	75
0000 A	19022	Lal Kitab Hindi(PB)	Radha Krishna Srimali	Diamond Books	150
0000 A	19023	Lal Passina Hindi(PB)	Abhimanyu Unnaut	Diamond Books	395
0000 A	19024	Lala Lajpat Rai Hindi(PB)	Meena Agarwal	Diamond Books	95
0000 A	19025	Lali Mere Lal Ki (H) Hindi(PB)	Osho	Diamond Books	60
0000 A	19026	Lamhon Ka Ghar	Shashi Narayan Swadheen	Diamond Books	300
0000 A	19027	Lata Ke Hit Filmi Geet Hindi(PB)	Kumud Rastogi	Diamond Books	100
0000 A	19028	Latest Shayari Sms Hindi(PB)	Kuldeep Saluja	Diamond Books	15
0000 A	19029	Laxmi Pravesh Kaise Ho Hindi(PB)	Gopal Sharma	Diamond Books	95
0000 A	19030	Learn Hindi In 30 Days Through Telugu Hindi(PB)		Diamond Books	100
0000 A	19031	Life Is After All Life Hindi(PB)	Aastik Bhatt	Diamond Books	95
0000 A	19032	Ling Puran Hindi(PB)	Vinay	Diamond Books	95
0000 A	19033	Lingashtkam Hindi(PB)	Kirit Bhai	Diamond Books	150
0000 A	19034	Lokgeet (Punjabi Marvari Hindu Viv	Leelavati Bansal	Diamond Books	125
0000 A	19035	Lokmanya Bal Gangadhar Tilak Hind	Meena Agarwal	Diamond Books	95
0000 A	19036	Lord Hanumana PB Hindi	Simran Kaur	Diamond Books	80
0000 A	19037	Lord Krishna PB Hindi	Simran Kaur	Diamond Books	80
0000 A	19038	Lord Rama & Hanumna two in One I	Simran Kaur	Diamond Books	175
0000 A	19039	Lord Rama PB Hindi	Simran Kaur	Diamond Books	80
0000 A	19040	Lord Shiva & Krishna two in One HI	Simran Kaur	Diamond Books	175
0000 A	19041	Lord Shiva PB Hindi	O P Jha	Diamond Books	80
0000 A	19042	Love In A Time Machine Hindi(PB)	Minoo	Diamond Books	95
0000 A	19043	Love Sex Aur Marriage Hindi(PB)	K Sohail Bette Davis	Diamond Books	95
0000 A	19044	Maa Durga Hindi(PB)		Diamond Books	35
0000A	19045	Maa Durga Ke Rahasya PB Hindi	Kamal Kishor	Diamond Books	125
0000 A	19046	Maa Hi Hai Bhagwan Hindi(PB)	Sunil Jogi	Diamond Books	95
0000 A	19047	Madhumeh Hindi(PB)	Shalini Chakraborty	Diamond Books	75
0000 A	19048	Madhumeh Karan Aur Ilaz Hindi(PB	Rajeev Sharma	Diamond Books	95
0000 A	19049	Madhumeh Rogiyon Ke Liye 201 Tip	Bimal Chhajer	Diamond Books	150

0000 A	19050	Magic Fun Book PB Hindi		Diamond Books	25
0000 A	19051	Magic No.2 Hindi(PB)	Ivor Uchial	Diamond Books	25
0000 A	19052	Maha Pragya Ke Amrit Vachan Hind	Naresh Shandilya	Diamond Books	95
0000 A	19053	Mahabharat Ki Kathayein Hindi(PB)	Mahesh Dutt Sharma	Diamond Books	110
0000 A	19054	Mahabharata Hindi(PB)		Diamond Books	75
0000 A	19055	Mahakali Evam Tara Tanatrik Sadhan	Radha Krishna Srimali	Diamond Books	95
0000 A	19056	Mahal Jhopdi Hindi(PB)	Satyanarayan Vijay Vibhakar	Diamond Books	95
0000 A	19057	Mahalakshmi Pujan Aur Deepotsav H	Lekhraj Dwivedi	Diamond Books	50
0000 A	19058	Mahamatya Chanakya Hindi(PB)	Ashwini Parashar	Diamond Books	95
0000 A	19059	Mahan Chanakya Jivani Aur Samgra	Rajeshwar Mishra	Diamond Books	400
0000 A	19060	Mahan Chanakya Jivani Aur Samgra	Rajeshwar Mishra	Diamond Books	195
0000 A	19061	Mahanagar (Punjabi Ki Kahaniyan) H	S Balwant	Diamond Books	60
0000 A	19062	Maharana Pratap Hindi(PB)	Bhawan Singh Rana	Diamond Books	100
0000 A	19063	Maharana Pratap Hindi(PB)		Diamond Books	30
0000 A	19064	Maharshi Aurobind Hindi(PB)	Renu Saran	Diamond Books	30
0000 A	19065	Mahatma Gandhi Hindi(PB)	Renu Saran	Diamond Books	30
0000 A	19066	Mahatma Gandhi Hindi(PB)	Renu Saran	Diamond Books	40
0000 A	19067	Mahatma Gandhi Jeevni Aur Jeevan I	Prakash Nagaich	Diamond Books	95
0000 A	19068	Mahaveer Vani No 1 Hindi(HB)	Osho	Diamond Books	500
0000 A	19069	Mahaveer Vani No 2 Hindi(HB)	Osho	Diamond Books	500
0000 A	19070	Mahila Shashaktikaran HB Hindi	Inderaj Singh	Diamond Books	500
0000 A	19071	Mahilayen Bulandi Ki Aur Hindi(PB	Seema Goswami	Diamond Books	140
0000 A	19072	Main Dharamikta Sikhata Hoon Dhar	Osho	Diamond Books	75
0000 A	19073	Main Kehta Ankhan Dekhi (H) Hind	Osho	Diamond Books	60
0000A	19074	Main Kyon Aaya Tha Hindi (PB)	Shashi Kant Sadaiv	Diamond Books	200
0000 A	19075	Main Mirtyu Sikhata Hoon Hindi(PB	Osho	Diamond Books	250
0000 A	19076	Main Upasthit Hoon Yahan Hindi(PE	Balkrishan Garg	Diamond Books	95
0000 A	19077	Majedar Jokes Hindi(PB)	Mahesh Dutt Sharma	Diamond Books	25
0000 A	19078	Majedar Shayari Sms Hindi(PB)	Kuldeep Saluja	Diamond Books	15
0000 A	19079	Majhli Didi Hindi (HB)	Sharat Chandra Chattopadhyay	Diamond Books	75
0000 A	19080	Majhli Didi Hindi(PB)	Sharat Chandra Chattopadhyay	Diamond Books	95
0000 A	19081	Man Ka Manovigyan Hindi(PB)	B K Chandra Shekhar	Diamond Books	125
0000 A	19082	Man Ka Meet Hindi(PB)	Mariya Shaws	Diamond Books	95
0000 A	19083	Man Ke Jeete Jeet PB Hindi	Surya Sinha	Diamond Books	110
0000 A	19084	Man Ke Kitne Pass Hindi(PB)	Saroj Maloo	Diamond Books	100
0000 A	19085	Man Ki Baat Hindi(PB)		Diamond Books	40
0000 A	19086	Man Mast Hua Hindi(PB)	Alhad Bikaneri	Diamond Books	95
0000 A	19087	Man Se Azad Hindi(PB)	Anandmurti Guru Maa	Diamond Books	30
0000 A	19088	Management & Corporate Guru Chan	Himanshu Shekhar	Diamond Books	125
0000 A	19089	Management Guru Bhagwan Shri Kri	O P Jha	Diamond Books	125
0000 A	19090	Management Guru Bhagwan Shri Ra	Sunil Jogi	Diamond Books	300
0000 A	19091	Management Guru Bhagwan Shri Ra	Sunil Jogi	Diamond Books	110
0000 A	19092	Management Guru Ganesha Hindi(H	B K Chandra Shekhar	Diamond Books	300
0000 A	19093	Management Guru Ganesha Hindi(PI	B K Chandra Shekhar	Diamond Books	150
0000 A	19094	Management Guru Narendra Modi Pl	Himanshu Shekhar	Diamond Books	175
0000 A	19095	Management Guru Prof Laloo Ki Rai	Sunil Jogi	Diamond Books	95
0000 A	19096	Management ke Mool Mantra PB Hin	Shashi Kant Sadaiv	Diamond Books	125
0000 A	19097	Manavta Ka Ekmatr Mitra Shani Hin	Ajay Bhambi	Diamond Books	75
0000 A	19098	Manchahi Santan Ladka Ya Ladki Ka	Surendra Pal Sharma	Diamond Books	95
0000 A	19099	Mandir Wahi Banayenge Magar Kyo	Brajgopal Rai Chanchal	Diamond Books	95
0000 A	19100	Manglik Dosh Karan Va Nivaran Hin	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	110
0000 A	19101	Manikya (Jyotish Aur Ratna) Hindi(F	Jagdish Sharma	Diamond Books	50
0000 A	19102	Manipur Ki Lok Kathayen Evam Pras	Rachna Bhola Yamini	Diamond Books	25
0000A	19103	Manmath Bhavnaon Ka Prabandhan	Pawan Sharma	Diamond Books	150
0000 A	19104	Mann Ki Ankhen Khol Hindi(PB)	Sudarshan Ji	Diamond Books	150
0000 A	19105	Manorama Hindi(PB)	Prem Chand	Diamond Books	95

0000 A	19106	Manoranjak Jatak Kathayen Hindi(PI	Pratibha Kasturiya	Diamond Books	35
0000 A	19107	Mansarovar II Hindi(HB)	Prem Chand	Diamond Books	300
0000 A	19108	Mansarovar III Hindi(HB)	Prem Chand	Diamond Books	300
0000 A	19109	Mansarovar IV Hindi(HB)	Prem Chand	Diamond Books	300
0000 A	19110	Mansarovar Ke Kauwe Hindi(PB)	Surender Sharma	Diamond Books	95
0000 A	19111	Mansarovar V Hindi(HB)	Prem Chand	Diamond Books	300
0000 A	19112	Mansarovar VII Hindi(HB)	Prem Chand	Diamond Books	300
0000 A	19113	Mansarovar VIII Hindi(HB)	Prem Chand	Diamond Books	300
0000 A	19114	Mansarover VI Hindi(HB)	Prem Chand	Diamond Books	300
0000 A	19115	Manto Ke Behtareen Afsane Hindi(P	Saadat Ali Hasan Manto	Diamond Books	150
0000 A	19116	Mantra Shakti Se Kamna Siddhi Hind	Radha Krishna Srimali	Diamond Books	95
0000 A	19117	Mantra Shakti Se Rog Nivaran Hindi	Radha Krishna Srimali	Diamond Books	95
0000 A	19118	Manu Aur Shraddha PB Hindi	Nishantketu	Diamond Books	300
0000 A	19119	Manusmriti Hindi(PB)	Triloki Nath Chaturvedi	Diamond Books	95
0000 A	19120	Markandey Puran Hindi(PB)	Vinay	Diamond Books	95
0000 A	19121	Maryada Purshottam Sri Ram Hindi(	Ashwini Parashar	Diamond Books	60
0000 A	19122	Massage Therapy Hindi(PB)	Rajeev Sharma	Diamond Books	75
0000 A	19123	Mast Shayari Sms Hindi(PB)	Kuldeep Saluja	Diamond Books	15
0000 A	19124	Matangi Aur Kamla Tantrik Sadhana	Radha Krishna Srimali	Diamond Books	60
0000 A	19125	Matsaya Puran Hindi(PB)	Vinay	Diamond Books	95
0000 A	19126	Matunga Jungle Ki 51 Acharaj Bhari	Prakash Manu	Diamond Books	100
0000 A	19127	Mausam Ate Jate Hain(Nida Fazli Ki	Suresh Kumar	Diamond Books	100
0000 A	19128	Mausamon Ki Hawayen Hindi(PB)	Suresh Kumar	Diamond Books	75
0000 A	19129	Media Ka Badalta Charitra Hindi(HB	Himanshu Shekhar	Diamond Books	300
0000 A	19130	Media Ka Badalta Charitra Hindi(PB	Himanshu Shekhar	Diamond Books	125
0000 A	19131	Medicin Aur Meditesan Hindi(PB)	Osho	Diamond Books	30
0000A	19132	Meera Jiwani v sahitya Hindi(PB)	Giriraj Sharan Agarwal	Diamond Books	95
0000 A	19133	Meera Ke Prabhu Girdhar Nagar(Me	Osho	Diamond Books	95
0000 A	19134	Mehandi Se Shrinagar Hindi(PB)	Neera Verma	Diamond Books	20
0000 A	19135	Mehboob Ki Shayari Sms Hindi(PB)	Kuldeep Saluja	Diamond Books	15
0000 A	19136	Mehfil A Shayari Sms Hindi(PB)	Kuldeep Saluja	Diamond Books	15
0000 A	19137	Memory Mind & Body Hindi (PB)	Biswaroop Roy Choudhray	Diamond Books	175
0000 A	19138	Memory Techniquesvigyan Ke Vidya	Neerja Roy Choudhary	Diamond Books	95
0000 A	19139	Memory Unlimited Hindi(PB)	Biswaroop Roy Choudhray	Diamond Books	150
0000 A	19140	Mera Haryana Hindi(PB)	Manju Sharma	Diamond Books	60
0000 A	19141	Mera Jiwan Aone Hindi(PB)	Kaka Hathrasi	Diamond Books	125
0000 A	19142	Mera Mujh Mein Kuchh Nahin PB H	Osho	Diamond Books	250
0000 A	19143	Mercidiese Ghode Banam 800 CC G	Alok Puranik	Diamond Books	125
0000 A	19144	Mere Ikyavan Vyangya Hindi(PB)	Giriraj Sharan Agarwal	Diamond Books	95
0000 A	19145	Mere Jeevan Ke Anubhav PB Hindi	Girish Pankaj	Diamond Books	125
0000 A	19146	Mere Priya Aatman Hindi(PB)	P C Bagmar	Diamond Books	125
0000A	19147	Mere Sapno Ka Bharat Hindi(PB)	M K Gandhi	Diamond Books	150
0000 A	19148	Mere To Girdhar Gopal(Meera Vani)	Osho	Diamond Books	95
0000 A	19149	Meri 51 Vyangya Rachnayeen Jaimni	JAIMNI HARIYANVI	Diamond Books	150
0000 A	19150	Meri 51 Vyangya Rachnayein (Jaimn	Jaimni Hariyanvi	Diamond Books	450
0000 A	19151	Meri 51Vyang Rachnayen (Girish Pa	Girish Pankaj	Diamond Books	75
0000 A	19152	Meri Aankhon Mein Mohbbat Ke Ma	Dinesh Gupta	Diamond Books	100
0000 A	19153	Meri Partinidhi Vyang Rachnayen P	Suresh Neerav	Diamond Books	150
0000 A	19154	Meri Pukar Sun Lena HB Hindi	Sudarshan Ji	Diamond Books	400
0000 A	19155	Meri Rajnishpuram Yatra Hindi(PB)	Ageh Bharti	Diamond Books	50
0000 A	19156	Meri Vyangya Kavitayen Hindi(PB)	Udbhrant	Diamond Books	75
0000 A	19157	Mickey Mouse Aur Mushkilo Se Bhara Patra Issue XIX Hindi(PB		Diamond Books	25
0000 A	19158	Mickey Mouse Aur Sahasi Captan Issue XVIII Hindi(PB)		Diamond Books	25
0000 A	19159	Mickey Mouse Issue II Hindi(PB)		Diamond Books	25
0000 A	19160	Mickey Mouse Issue IV Hindi(PB)		Diamond Books	25
0000 A	19161	Mickey Mouse Issue V Hindi(PB)		Diamond Books	25
0000 A	19162	Mickey Mouse Issue VI Hindi(PB)		Diamond Books	25

0000 A	19163	Mickey Mouse Issue VIII Hindi(PB)		Diamond Books	25
0000 A	19164	Mickey Mouse Issue XV Hindi(PB)		Diamond Books	25
0000 A	19165	Mickey Mouse Issue XXII Hindi(PB)		Diamond Books	25
0000 A	19166	Midnight Joks Hindi(PB)	Kuldeep saluja	Diamond Books	40
0000 A	19167	Midnight Shyari Sms Hindi(PB)	Kuldeep Saluja	Diamond Books	15
0000 A	19168	Milta Rahoonga Khwab Main (Shahr	Suresh Kumar	Diamond Books	300
0000 A	19169	Milta Rahoonga Khwab Main (Shahr	Suresh Kumar	Diamond Books	95
0000 A	19170	Mind Positive Life Positive Hindi (P	Joginder Singh	Diamond Books	125
0000 A	19171	Minua Aur Dampua Ke Karname Hin	V Raghunathan	Diamond Books	40
0000 A	19172	Minua Aur Dampua Ke Kartoot Hind	V Raghunathan	Diamond Books	40
0000 A	19173	Mir Aur Dard Ki Shayare Hindi(PB)	Amar Dehlavi	Diamond Books	50
0000 A	19174	Mithi Mirchiyan Hindi(PB)	Madhup Pandey	Diamond Books	100
0000 A	19175	Mitti Ke Diye Hindi(PB)	Osho	Diamond Books	60
0000A	19176	Mobile Ke Jadugar Hindi(PB)	Akhil Chandra	Diamond Books	75
0000 A	19177	Modern Panchtantra Hindi(PB)	Manjit Singh	Diamond Books	60
0000 A	19178	Mohra Tatha Anaya Kahaniyan Hind	Aalok Kumar Satpute	Diamond Books	75
0000 A	19179	Moon Par Honeymoon Hindi(PB)	Jemini Hariyanvi	Diamond Books	125
0000 A	19180	Moonga (Jyotish Aur Ratna) Hindi(P	Jagdish Sharma	Diamond Books	50
0000 A	19181	Motapa (Obesity) PB Hindi	Bimal Chhajer	Diamond Books	50
0000 A	19182	Motape Se Mukti Ke Liye 201 Tips H	Bimal Chhajer	Diamond Books	300
0000 A	19183	Motape Se Mukti Ke Liye 201 Tips H	Bimal Chhajer	Diamond Books	150
0000 A	19184	Mother Teresa Hindi(PB)	Rachna Bhola Yamini	Diamond Books	30
0000 A	19185	Mother Teresa Hindi(PB)	Renu Saran	Diamond Books	40
0000 A	19186	Moti (Jyotish Aur Ratna) Hindi(PB)	Jagdish Sharma	Diamond Books	50
0000 A	19187	Moun Sangeet Hindi(PB)	Osho	Diamond Books	95
0000 A	19188	MP Lekhpal PB Hindi	Vikas Doon	Diamond Books	80
0000 A	19189	MP Platoon Commander PB HINDI	Vikas Doon	Diamond Books	200
0000 A	19190	MP Samanya Gyan PB Hindi	Arvind Mohan Dwivedi	Diamond Books	85
0000 A	19191	Mrinalini Hindi(PB)	Bankim Chandra Chattopadhyay	Diamond Books	60
0000 A	19192	Mrityu Ek Kalpna Hai Hindi(PB)	Sadguru	Diamond Books	50
0000 A	19193	Mudde Aur Darshti Kone Hindi(HB)	Kiran Bedi	Diamond Books	600
0000 A	19194	Mudde Aur Darshti Kone Hindi(PB)	Kiran Bedi	Diamond Books	250
0000 A	19195	Mudra Vigyan Hindi(PB)	Rajni Kant Upadhayay	Diamond Books	75
0000 A	19196	Mughlai Vayanjan Hindi(PB)	Neera Verma	Diamond Books	35
0000 A	19197	Muh Daat Naak Kaan Va Gala Ke Ro	Rajeev Sharma	Diamond Books	60
0000 A	19198	Mukesh Ke Hit Filmi Geet Hindi(PB	Kumud Rastogi	Diamond Books	100
0000 A	19199	Mukhakriti Vigyan Hindi(PB)	Nitendra Sharma	Diamond Books	95
0000 A	19200	Mulayam Singh Yadav Chintan Aur V	Ashok Kumar Sharma	Diamond Books	300
0000 A	19201	Mullah Nasruddin Hindi (HB)	Giriraj Sharan Agarwal	Diamond Books	125
0000 A	19202	Mullah Nasruddin Hindi(PB)	Giriraj Sharan Agarwal	Diamond Books	125
0000 A	19203	Mumbai Mohabbat Aur Tanhai Hindi	Rajeev paul	Diamond Books	150
0000 A	19204	Muskan Ek Pavitra Uphar Hindi(PB)	Sri Sri Ravishankar Ji	Diamond Books	10
0000A	19205	Muskurati Shayari Sms Hindi(PB)	Kuldeep Saluja	Diamond Books	15
0000 A	19206	Mutual Funds Ladder To Wealth Cre	Vivek Negi	Diamond Books	100
0000 A	19207	My Unknown Future PB Hindi	Shivam Tiwari	Diamond Books	125
0000 A	19208	Na Kahna Seekhen (H) Hindi(PB)	Renu Saran	Diamond Books	125
0000 A	19209	Naam Badliye Bhagya Badliye Hindi	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	125
0000 A	19210	Naam Sumir Man Bavre PB Hindi N	Osho	Diamond Books	200
0000 A	19211	Naari Jo Hai So Kyon? Hindi(PB)	Swati Lodha	Diamond Books	150
0000 A	19212	Nadi Granth Bhavisya Hindi(PB)	Shashi Kant Oak	Diamond Books	175
0000 A	19213	Nahi Ram Bin Thaaon HB Hindi	Osho	Diamond Books	350
0000 A	19214	Nai Kranti Ki Rooprekha Hindi(PB)	Osho	Diamond Books	60
0000 A	19215	Nakshatra Faldeepika Hindi(PB)	Mohan Bhai D Patel	Diamond Books	60
0000 A	19216	Nana Nani Ki Kahaniyan Hindi(PB)	Geetika Goyal	Diamond Books	95
0000 A	19217	Nange Paaon PB Hindi	Brijesh Pathak	Diamond Books	125
0000 A	19218	Nanhe Pankh Ki Unchi Udan Hindi(P	Ajay Janamjai	Diamond Books	80
0000 A	19219	Narad Puran Hindi(PB)	Vinay	Diamond Books	60

0000 A	19220	Narender Modi Ka Namo Mantra PB	Kumar Pankaj	Diamond Books	125
0000 A	19221	Narendra Modi Hindi(PB)		Diamond Books	30
0000 A	19222	Natkhat Sms Hindi(PB)	Kuldeep Saluja	Diamond Books	15
0000 A	19223	Naughty Shyari Sms Hindi(PB)	Kuldeep Saluja	Diamond Books	15
0000 A	19224	Naveentam Ghatna Chakra PB Hindi		Diamond Books	200
0000 A	19225	Naveentam Hindi Path Padarshika PI	Kessen Budhoo	Diamond Books	200
0000 A	19226	Navratri Hindi(PB)	Kamal Radha Krishan Srimali	Diamond Books	60
0000 A	19227	Naya Aayam Hindi(HB)	Abhimanyu Unnaut	Diamond Books	300
0000 A	19228	Naya Aayam Hindi(PB)	Abhimanyu Unnaut	Diamond Books	150
0000 A	19229	Naye Bharat Ke Nirmata Lal Krishan	Mahesh Dutt Sharma	Diamond Books	200
0000 A	19230	Naye Bharat Ke Nirmata Lal Krishan	Mahesh Dutt Sharma	Diamond Books	75
0000 A	19231	Naye Samaj Ki Khoj Hindi(PB)	Osho	Diamond Books	50
0000 A	19232	Neel Gagan Ki Aur Hindi(PB)	Hariraj Singh Noor	Diamond Books	95
0000 A	19233	Neelam (Jyotish Aur Ratna) Hindi(PI	Jagdish Sharma	Diamond Books	50
0000A	19234	Neelkanth Hindi(PB)	Gulshan Nanda	Diamond Books	100
0000 A	19235	Nelsan Mandela Hindi(HB)	Satya Prakash Bansal	Diamond Books	40
0000 A	19236	Nelsan Mandela Jaisa Netrityu Hindi	Arvind Kumar	Diamond Books	100
0000 A	19237	Netritva Aur Prashasan Jaisa Maine I	Kiran Bedi	Diamond Books	125
0000 A	19238	Network Marketing Dosti Aur Vyapa	A S Faiz	Diamond Books	95
0000 A	19239	Network Marketing Kitna Sach Kitna	Ujjawal Patni	Diamond Books	150
0000 A	19240	Network marketing Sawal Aapke jaw	Surya Sinha	Diamond Books	150
0000 A	19241	Nirmal Anand Hindi(PB)	Rajendra Somani	Diamond Books	250
0000 A	19242	Nirmala Hindi(PB)	Prem Chand	Diamond Books	95
0000 A	19243	Nobel Prize Winner-Malala PB Hind	Kritika Bhardwaj, Ashok K. Sharma	Diamond Books	125
0000 A	19244	Non Vegetarian Cook Book Hindi(PI	Tehlina Kaul	Diamond Books	75
0000 A	19245	Nyay & Other Stories PB Hiindi	Prem Chand	Diamond Books	125
0000 A	19246	Om Mani Pad Human Hindi(PB)	Osho	Diamond Books	50
0000 A	19247	One Life Is Not Enough (HB) Hindi	K Natwar Singh	Diamond Books	450
0000 A	19248	One Life Is Not Enough PB Hindi	K Natwar Singh	Diamond Books	295
0000 A	19249	One Minute Memory Mind Manager	Biswaroop Roy Choudhray	Diamond Books	200
0000 A	19250	One Minute Memory Mind Manager	Biswaroop Roy Choudhray	Diamond Books	75
0000 A	19251	Operation Pradhanmantri PB Hindi	Ujjawal Patni	Diamond Books	100
0000 A	19252	Osama Ka Annt Hindi(PB)	Raj Kumar Singh	Diamond Books	95
0000 A	19253	Osho Dhyan Aur Utsav Ke Rishi Hin	Osho	Diamond Books	200
0000 A	19254	Osho Dhyan Yog Hindi(PB)	Osho	Diamond Books	175
0000 A	19255	Osho Diary Ke Darpan Mein Hindi(P	Arvind Kumar	Diamond Books	150
0000 A	19256	Osho Ek Mahprarambh Hindi(PB)	Ageh Bharti	Diamond Books	60
0000 A	19257	Osho Gatha Hindi(PB)	Ageh Bharti	Diamond Books	40
0000 A	19258	Osho Hi Osho Hindi(PB)	Gyan Bhed	Diamond Books	150
0000 A	19259	Osho Ke Aas Paas Hindi(PB)	Ageh Bharti	Diamond Books	100
0000 A	19260	Osho Ke Sang Kuch Anmol Shan Hi	Ageh Bharti	Diamond Books	35
0000 A	19261	Osho Ki Madhushala Me Bachhan H	Ageh Bharti	Diamond Books	40
0000 A	19262	Osho Maikhane Ke Ye Deewane Rin	Gyan Bhed	Diamond Books	150
0000A	19263	Osho Prem Ghata Barsi Hindi(PB)	Raja Bharti	Diamond Books	50
0000 A	19264	Osho Ras Barse Hindi(PB)	Gyan Bhed	Diamond Books	150
0000 A	19265	Osho Rash Bhijyo Hindi(PB)	Ageh Bharti	Diamond Books	95
0000 A	19266	Osho Shishya Ki Daastan Kavita Ki J	Ageh Bharti	Diamond Books	150
0000 A	19267	Paanch Absurd Upanyas Hindi(PB)	Narender Kohli	Diamond Books	50
0000 A	19268	Padam Puran Hindi(PB)	Vinay	Diamond Books	60
0000 A	19269	Palmistry Ke Goodh Rahasya Hindi(I	Dayanand Verma	Diamond Books	150
0000 A	19270	Panch Parmeshwar PB Hindi	Prem Chand	Diamond Books	50
0000 A	19271	Panchtantra Hindi (HB)	Rachna Bhola Yamini	Diamond Books	175
0000 A	19272	Panchtantra Ke Anokhe Natak HB Hi	Prakash Manu	Diamond Books	450
0000 A	19273	Panchtantra Ke Anokhe Natak PB Hi	Prakash Manu	Diamond Books	150
0000 A	19274	Panchtantra Ki Kahaniyan Hindi(PB)	Ashok Kaushik	Diamond Books	95

0000 A	19275	Panchtantra Ki Manoranjak Kahaniya	Pratibha Kasturia	Diamond Books	35
0000 A	19276	Panchtantra Ki Prarak Kahaniyan Hi	Giriraj Sharan Agarwal	Diamond Books	30
0000 A	19277	Panchtantra Ki Prerak Kahaniyan Vo	Pratibha Kasturia	Diamond Books	35
0000 A	19278	Panchtantra Ki Rochak Kahaniya Vo	Pratibha Kasturia	Diamond Books	35
0000 A	19279	Panchtantra Ki Shikshaprad Kahaniya	Giriraj Sharan Agarwal	Diamond Books	35
0000 A	19280	Panchtantra Ki Shikshaprad Kahaniya	Pratibha Kasturia	Diamond Books	35
0000 A	19281	Pankaj Udhas Ki Ghazlen Hindi(PB)	Mahesh Dutt Sharma	Diamond Books	40
0000 A	19282	Panna (Jyotish Aur Ratna) Hindi(PB)	Jagdish Sharma	Diamond Books	50
0000 A	19283	Panwoae Tale Bhavishya Hindi(PB)	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	150
0000 A	19284	Parampara Hindi(PB)	Narender Kumar Sinha	Diamond Books	150
0000 A	19285	Parikrama Uttrakhand Hindi(PB)	Giriraj Shah	Diamond Books	150
0000 A	19286	Parinita Hindi(PB)	Sharat Chandra Chattopadhyay	Diamond Books	95
0000 A	19287	Pariyon Ki 51 Manmohak Kahaniyan	Prakash Manu	Diamond Books	300
0000 A	19288	Pariyon Ki 51 Manmohak Kahaniyan	Prakash Manu	Diamond Books	150
0000 A	19289	Parmanu Gatha Hindi(PB)	Sunil Jogi	Diamond Books	95
0000 A	19290	Party Time Shayari Sms Hindi(PB)	Kudeep Saluja	Diamond Books	15
0000 A	19291	Paryavaran aur aasan mahavinash Hi	Guruji Ved Prakash	Diamond Books	300
0000A	19292	Paryavaran Ki Anoothi Kahaniyan P	Prakash Manu	Diamond Books	175
0000 A	19293	Paryawaran Dasha Aur Disha Hindi(	Giriraj Sharan Agarwal	Diamond Books	150
0000 A	19294	Paschim Ke Teen Rang Hindi(PB)	Dayanand Verma	Diamond Books	30
0000 A	19295	Patanjalya Yog Darshan Hindi(PB)	Kirit Bhai	Diamond Books	50
0000 A	19296	Path Ke Davedar Hindi(PB)	Sharat Chandra Chattopadhyay	Diamond Books	125
0000 A	19297	Patheya Hindi(PB)	Osho	Diamond Books	95
0000 A	19298	Pati Patni Aur Sukhi Pariwar Hindi(P	A Madhvan	Diamond Books	95
0000 A	19299	Pati Patni Ke Jokes Hindi(PB)	Mahesh Dutt Sharma	Diamond Books	30
0000 A	19300	Patjhad ke Hare Hare Patte Hindi(PB	Sudarshan Ji	Diamond Books	95
0000 A	19301	Patnjali Yog Sutra 1 (H HB) Hindi(H	Osho	Diamond Books	450
0000 A	19302	Patnjali Yog Sutra 1 (H) Hindi	Osho	Diamond Books	400
0000 A	19303	Patnjali Yog Sutra 2 (H HB) Hindi(H	Osho	Diamond Books	450
0000 A	19304	Patnjali Yog Sutra 2 (H) Hindi	Osho	Diamond Books	400
0000 A	19305	Patnjali Yog Sutra 3 (H HB) Hindi(H	Osho	Diamond Books	450
0000 A	19306	Patnjali Yog Sutra 3 (H) Hindi(PB)	Osho	Diamond Books	400
0000 A	19307	Patnjali Yog Sutra 4 (H HB) Hindi(H	Osho	Diamond Books	450
0000 A	19308	Patnjali Yog Sutra 4 (H) Hindi(PB)	Osho	Diamond Books	400
0000 A	19309	Patnjali Yog Sutra 5 (H HB) Hindi(H	Osho	Diamond Books	500
0000 A	19310	Patnjali Yog Sutra 5 (H) Hindi(PB)	Osho	Diamond Books	400
0000 A	19311	Patra Aur Patrakarita Hindi(PB)	Rachna Bhola Yamini	Diamond Books	95
0000 A	19312	Patra Hi Nahi Bachchan Mitra Hai H	Udbhrant	Diamond Books	150
0000 A	19313	Pavitra Hindu Dharmagranth Hindi(P	Satyajit	Diamond Books	100
0000 A	19314	Pehla Lakchay Tay Karain Hindi(PB)	Joginder Singh	Diamond Books	125
0000 A	19315	Pet Evam Pathari Ke Rog Hindi(PB)	Hari Om Gupta	Diamond Books	50
0000 A	19316	Pet Ke Rog Kaaran Aur Upchaar Hin	Rajeev Sharma	Diamond Books	125
0000 A	19317	Phool Khile Chaman Chaman Hindi(	Chaman Lal Chaman	Diamond Books	100
0000 A	19318	Pighalti Shila Hindi(HB)	Veena Vij Udit	Diamond Books	200
0000 A	19319	Pinki Aur Muchaad Singh PB Hindi	Pran	Diamond Books	50
0000 A	19320	Pinki Digest-1 PB Hindi	Pran	Diamond Books	100
0000A	19321	Pinki Digest-2 PB Hindi	Pran	Diamond Books	100
0000 A	19322	Pinki Fun Day PB Hindi	Pran	Diamond Books	50
0000 A	19323	Pinki Laptop PB Hindi	Pran	Diamond Books	35
0000 A	19324	Pinki World Tour PB Hindi	Pran	Diamond Books	35
0000 A	19325	Pinki's Height PB Hindi	Pran	Diamond Books	35
0000 A	19326	Play And Win Kaun Banega Crorepati Hindi(PB)-2		Diamond Books	150
0000 A	19327	Poonjigat Labh Par Kar Kaise Bacha	Subhash Lakhotia	Diamond Books	150
0000 A	19328	Positive Thinking Hi Safalta Ka Sutr	Joginder Singh	Diamond Books	300
0000 A	19329	Positive Thinking Hi Safalta Ka Sutr	Joginder Singh	Diamond Books	175
0000 A	19330	Postal Department (Postal Assistance	Kusum Lata, Ajay Riyal	Diamond Books	235
0000 A	19331	Power Learning Hindi Magazine PB		Diamond Books	30

0000 A	19332	Power Of Positive Thinking Hindi (P	Tarun Engineer	Diamond Books	175
0000 A	19333	Power Thinking Hindi(PB)	Ujjawal Patni	Diamond Books	195
0000 A	19334	Prabhavshali Logon ki 12 aadten aur	Tarun Engineer	Diamond Books	250
0000 A	19335	Prabhu Ki Paghdandiya Hindi(PB)	Osho	Diamond Books	95
0000 A	19336	Prabhu Mandir Yah Deh Ri Hindi(PE	Osho	Diamond Books	75
0000 A	19337	Prachya Jyotish Ke Rahasya Tatha D	Susshant Raj	Diamond Books	200
0000 A	19338	Pradushan Mukt Paryavaran Hindi(P	Rachna Bhola Yamini	Diamond Books	60
0000 A	19339	Pragyan Purush Pandit Suresh Neera	Suresh Neerav	Diamond Books	450
0000 A	19340	Pragyavenu Hindi(PB)	Udbhrant	Diamond Books	95
0000 A	19341	Prahari O Desh Ke Hindi(PB)	Udbhrant	Diamond Books	75
0000 A	19342	Prakhar Rashtra Vadi Raj Neta Atal I	Mahesh Sharma	Diamond Books	400
0000 A	19343	Prakhar Rashtra Vadi Raj Neta Atal I	Mahesh Sharma	Diamond Books	150
0000 A	19344	Prakriti Dwara Swasthya Gehoon Ki	Rajeev Sharma	Diamond Books	50
0000 A	19345	Prakriti Dwara Swasthya Surya Mitti	Rajeev Sharma	Diamond Books	30
0000 A	19346	Prakritik Chikitsa Hindi(PB)	Satish Goel	Diamond Books	50
0000 A	19347	Pranab Mukherjee PB Hindi	Pranabh Mukherjee	Diamond Books	295
0000 A	19348	Pranayam Kundaline Aur Hatyoga Hi	Bhagwan Dev	Diamond Books	95
0000 A	19349	Prashan Aapke Uttar Sai Ke Hindi(P	Sushil Bharti	Diamond Books	50
0000A	19350	Prashan Jyotish Hindi(PB)	Radha Krishna Srimali	Diamond Books	95
0000 A	19351	Pratangira Sampooran Prayog Hindi(	Ramesh Dwivedi	Diamond Books	95
0000 A	19352	Pratigaya Hindi(HB)	Prem Chand	Diamond Books	200
0000 A	19353	Pratigaya Hindi(PB)	Prem Chand	Diamond Books	95
0000 A	19354	Pravesh Pariksha Mein Safal Kaise H	Sunil Vaid	Diamond Books	50
0000 A	19355	Prayas PB Hindi	Hemant Rana	Diamond Books	60
0000 A	19356	Preksha Dhyan Se Hriday Rog Ka Up	Bimal Chhajer	Diamond Books	195
0000 A	19357	Prem Aur Vivah Hindi(PB)	Osho	Diamond Books	30
0000 A	19358	Prem Chand Ki Shresht Bhawanapur	Prem Chand	Diamond Books	95
0000 A	19359	Prem Ka Arth Hindi Hindi(PB)	Osho	Diamond Books	30
0000 A	19360	Prem Patra Hindi(PB)	Bhawan Singh Rana	Diamond Books	40
0000 A	19361	Prem Prasang Hindi(PB)	Upender Kumar	Diamond Books	40
0000 A	19362	Premaashram (H) Hindi(PB)	Prem Chand	Diamond Books	195
0000 A	19363	Premchand Karam Bhoomi (Abhyas	Giriraj Sharan Agarwal	Diamond Books	50
0000 A	19364	Premchand Karam Bhoomi Sanchchi	Prem Chand	Diamond Books	85
0000 A	19365	Premchand Ki Amar Kahaniyan (Abh	Prem Chand	Diamond Books	60
0000 A	19366	Premchand Ki Amar Kahaniyan Hind	Giriraj Sharan Agarwal	Diamond Books	75
0000 A	19367	Premchand Ki Kahanion Per Aadhari	Giriraj Sharan Agarwal	Diamond Books	95
0000 A	19368	Premchand Ki Kahanion Per Aadhari	Giriraj Sharan Agarwal	Diamond Books	200
0000 A	19369	Premchand Ki Sarvashreshta Kahaniy	Prem Chand	Diamond Books	95
0000 A	19370	Premchand Ki Sugam Kahaniya Hind	Giriraj Sharan Agarwal	Diamond Books	85
0000 A	19371	Premchand Ki Sugam Kahaniyan (Ab	Giriraj Sharan Agarwal	Diamond Books	75
0000 A	19372	Premchand Vardaan (Abhyas Pustika	Giriraj Sharan Agarwal	Diamond Books	60
0000 A	19373	Premrang Ras Odh Chadria Hindi(PE	Osho	Diamond Books	200
0000 A	19374	Prerak Jatak Kathayen Hindi(PB)	Pratibha Kasturiya	Diamond Books	35
0000 A	19375	Preranamurti Narendra Modi PB Hindi		Diamond Books	35
0000 A	19376	Property Kaise Khariden Aur Bechen	R N Lakhotia	Diamond Books	125
0000 A	19377	Pukhraj (Jyotish Aur Ratna) Hindi(P	Jagdish Sharma	Diamond Books	50
0000 A	19378	Punjabi Vyanjan Hindi(PB)	Neera Verma	Diamond Books	50
0000A	19379	Purano Ki Kathayen Hindi(PB)	Mahesh Dutt Sharma	Diamond Books	110
0000 A	19380	Purush Aur Sex Hindi(PB)	Hari Om Gupta	Diamond Books	50
0000 A	19381	Pyas Ko Pehchano Hindi(PB)	Maharaji	Diamond Books	60
0000 A	19382	Pyasa Sach Hindi(PB)	Vandna Girdhar	Diamond Books	100
0000 A	19383	Pyramid Evam Mandir Vaastu Hindi(	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	150
0000 A	19384	Pyramid Shakti Evam Vaastu Hindi(I	Gopal Sharma	Diamond Books	110
0000 A	19385	Pyramid Vaastu Sirf Dhokha Hindi(P	Kuldeep Saluja	Diamond Books	150
0000 A	19386	Qutab Minar Hindu Vaidhshala Hind	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	50
0000 A	19387	Raag Asawari Hindi(PB)	Nimai Bhattacharya	Diamond Books	60
0000 A	19388	Raah Ke Phool (Hindi PB)	Sadguru	Diamond Books	150
0000 A	19389	Rabindranath Tagore Hindi(PB)	Simran	Diamond Books	30

0000 A	19390	Rabindranath Tagore Hindi(PB)	Renu Saran	Diamond Books	40
0000 A	19391	Radio Jockeying Hindi(PB)	Rakesh Pragya	Diamond Books	75
0000 A	19392	Rafi Ke Hit Filmi Geet Hindi(PB)	Kumud Rastogi	Diamond Books	100
0000 A	19393	Raghuvansh Hindi(PB)	Mahakavi Kalidas	Diamond Books	95
0000 A	19394	Rahasyamayi Himvadiyan Hindi(PB)	Chakardhar Semval	Diamond Books	150
0000 A	19395	Rahim Ke Dohe	Rajender Pandey	Diamond Books	100
0000 A	19396	Rahim Ke Dohe HB Hindi	Swami Ananad	Diamond Books	300
0000 A	19397	Rahu Ketu Avam Grahan Vichar Hin	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	110
0000 A	19398	Raidas Vani Jeevni Va Sahitya Hindi	Rachna Bhola Yamini	Diamond Books	95
0000 A	19399	Railway Recruitment Cell Group d E	Arvind Mohan Dwivedi	Diamond Books	160
0000 A	19400	Railway Recruitment Cell Group-D Exam (Practice Test Papers) H		Diamond Books	110
0000 A	19401	Raj Bhasa Vyavahar Hindi(PB)	Kusum Vir	Diamond Books	95
0000 A	19402	Raj Singh Aur Rajmohan Ki Estree H	Bankim Chandra Chattopadhyay	Diamond Books	95
0000 A	19403	Rajasthan Patvari PB Hindi	Vikas Doon	Diamond Books	80
0000 A	19404	Rajasthan Police Constable Practice Test Paper PB Hindi		Diamond Books	65
0000 A	19405	Rajasthan Samanaya Gyan PB Hindi	Arvind Mohan Dwivedi	Diamond Books	85
0000 A	19406	RAJASTHAN Teacher Eligibility Te	Vikas Doon	Diamond Books	115
0000 A	19407	RAJASTHAN Teacher Eligibility Te	Vikas Doon	Diamond Books	115
0000A	19408	Raji Hai Teri Raja Mein Hindi(PB)	Anandmurti Guru Maa	Diamond Books	30
0000 A	19409	Rajim Kumbha PB Hindi		Diamond Books	2000
0000 A	19410	Rajiv Gandhi Hindi(PB)	Renu Saran	Diamond Books	30
0000 A	19411	Rajiv Gandhi Ke Sapno Ka Bharat H	Jagdish Piyush	Diamond Books	400
0000 A	19412	Rajiv Gandhi Ke Sapno Ka Bharat H	Jagdish Piyush	Diamond Books	150
0000 A	19413	Rajiv Ratan Gandhi Hindi(PB)	Meena Agarwal	Diamond Books	95
0000 A	19414	Rajni Hindi(PB)	Bankim Chandra Chattopadhyay	Diamond Books	95
0000 A	19415	Ram Ke Path Par Hindi(PB)	Lallan Prashad Vyas	Diamond Books	95
0000 A	19416	Ram Krishna Paramhansa Hindi(PB)	Ashok Kaushik	Diamond Books	95
0000 A	19417	Ram Naam Nij Aushadhi(Ddauvani)	Osho	Diamond Books	95
0000 A	19418	Ram Naam Ras Peeje(Meera Vani) H	Osho	Diamond Books	95
0000 A	19419	Ram Prasad Bismil Hindi(HB)	Bhawan Singh Rana	Diamond Books	200
0000 A	19420	Ram Se Kharo Hai Kaun Hindi(PB)	Pradeep Sharma Duttatrya	Diamond Books	75
0000 A	19421	Ramal Vigyan Hindi(PB)	Radha Krishna Srimali	Diamond Books	95
0000 A	19422	Ramsetu Hindi(PB)	Subramaniam Swami	Diamond Books	95
0000 A	19423	Rang bhoomi Hindi(HB)	Munshi Premchand	Diamond Books	400
0000 A	19424	Rang Bhoomi Hindi(PB)	Prem Chand	Diamond Books	250
0000 A	19425	Rang Jama Lo Hindi(PB)	Ashok Chakradhar	Diamond Books	75
0000 A	19426	Rang Rangeele Punjabi Geet Hindi(PB)		Diamond Books	100
0000 A	19427	Rangeeli Shayari Sms Hindi(PB)	Kuldeep Saluja	Diamond Books	15
0000 A	19428	Rani Laxmi Bai Hindi(PB)		Diamond Books	30
0000 A	19429	Rasbhari Shayari Sms Hindi(PB)	Kuldeep Saluja	Diamond Books	15
0000 A	19430	Rasdhar Hindi(PB)	Anandmurti Guru Maa	Diamond Books	50
0000 A	19431	Rashtra Gaurav Ratan Tata (H) Hindi	Prateeksha M Tiwari	Diamond Books	95
0000 A	19432	Rashtra Sadhna Ke Swar Hindi(PB)		Diamond Books	25
0000 A	19433	Rashtriya Filmi Geet Hindi(PB)		Diamond Books	40
0000 A	19434	Rasik Shayari Sms Hindi(PB)	Kuldeep Saluja	Diamond Books	15
0000 A	19435	Ratishringara Sannyassaar Hindi(PB)	Nishantketu	Diamond Books	95
0000 A	19436	Ratno Ka Rahasyamay Sansar Hindi(	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	200
0000A	19437	Ravindarnath Ki Kahaniyan I Hindi(I	Ravindranath Tagore	Diamond Books	95
0000 A	19438	Rayeshkhana Hindi(PB)	Ahmed Nadeem	Diamond Books	95
0000 A	19439	RBI Assistant Bharti Pariksha (12 Practice Test Paper) Hindi (PB		Diamond Books	140
0000 A	19440	Recruitment Of Assistants In New India Assurance Company Ltd.		Diamond Books	175
0000 A	19441	Red Saree HB Hindi	Javier Maro	Diamond Books	595
0000 A	19442	Red Saree PB Hindi	JAVIER MORO	Diamond Books	350
0000 A	19443	Reiki (Swasth Sukhi Avam Sampoora	Rajni Kant Upadhayay	Diamond Books	95
0000 A	19444	Rekhaon Ka Rahasyamaya Sansar Hi	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	295
0000 A	19445	Remedial Vaastushastra Hindi(PB)	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	150
0000 A	19446	Reporting Samachar Kya Hai Hindi(I	Kumar Pankaj	Diamond Books	95

0000 A	19447	Ret Ki Rabab Hindi (PB)	Antar Jagdish	Diamond Books	125
0000 A	19448	Return Of Hanuman Hindi(PB)		Diamond Books	35
0000 A	19449	Rigveda (H) Hindi(PB)	Raj Bahadur Pandey	Diamond Books	95
0000 A	19450	Rochak Jatak Kathayen Hindi(PB)	Pratibha Kasturiya	Diamond Books	35
0000 A	19451	Roshani Ke Gharonde Hindi(PB)	Bashir Badr	Diamond Books	95
0000 A	19452	Roshini Bankar Jiyo Hindi(PB)	Giriraj Sharan Agarwal	Diamond Books	60
0000 A	19453	RPF & RPSF Constable Guide PB Hindi		Diamond Books	190
0000 A	19454	RPF & RPSF Constable PTP PB Hindi		Diamond Books	85
0000 A	19455	RPSC-Rajasthan Lok Sewa Aayog PI	Vikas Doon	Diamond Books	100
0000 A	19456	RRB Exam 2015 PB Hindi		Diamond Books	80
0000 A	19457	RRB-2015 Staff Nurse (Upcharika) 2	Lali Kumari	Diamond Books	100
0000 A	19458	RRB-2015 Staff Nurse (Upcharika) C	Lali Kumari	Diamond Books	250
0000 A	19459	Rudraksh upasana Hindi(PB)	Ganesh singh	Diamond Books	50
0000 A	19460	Rupantran Jeewan ka PB Hindi	Saroj Maloo	Diamond Books	125
0000 A	19461	Saadh Satnami Mat Hindi(PB)	Vijai Phool Sadh Satnami	Diamond Books	75
0000 A	19462	Saajan Ki Mehandi Hindi(PB)	Neera Verma	Diamond Books	20
0000 A	19463	Sab Milti Rehna Hindi(HB)	Ashok Chakradhar	Diamond Books	200
0000 A	19464	Sab Milti Rehna Hindi(PB)	Ashok Chakradhar	Diamond Books	95
0000 A	19465	Sab Sambhav Hai Hindi(PB)	Shashi Kant Sadaiv	Diamond Books	95
0000A	19466	Sabad Bhaya Ujiyala (Gorakh Wani)	Osho	Diamond Books	60
0000 A	19467	Sachche Sadhak Ke Liye 4 Hindi(PB	Sri Sri Ravishankar Ji	Diamond Books	69
0000 A	19468	Sachche Sadhak Ke Liye 6 Hindi(PB	Sri Sri Ravishankar Ji	Diamond Books	69
0000 A	19469	Sachche Sadhak Ke Liye 7 Hindi(PB	Sri Sri Ravishankar Ji	Diamond Books	69
0000 A	19470	Sadhna Ke Ayam Hindi(PB)	Osho	Diamond Books	60
0000 A	19471	Sadhna Path Mag.	Manish Verma	Diamond Books	30
0000 A	19472	Safal Jeevan Ke 201 Gyan Sutra Hind	Sunil Jogi	Diamond Books	95
0000 A	19473	Safal Jivan Ke Rahasya Hindi(PB)	Rakesh Gupta	Diamond Books	95
0000 A	19474	Safal Jivan Main Ankon Ka Mahatwa	Gopal Sharma	Diamond Books	75
0000 A	19475	Safal Kaise Banein Hindi(PB)	Anant Pai	Diamond Books	40
0000 A	19476	Safal Prabandhan Ke Sutra Hindi(PB	Vijay Joshi	Diamond Books	95
0000 A	19477	Safal Prabandhan Ki Pahli Shart Tea	Vijay Joshi	Diamond Books	95
0000 A	19478	Safal Vakta Safal Vyakti (H) Hindi(P	Ujjawal Patni	Diamond Books	195
0000 A	19479	Safalta Aapki Mutthi Mein Hindi(PB	Joginder Singh	Diamond Books	150
0000 A	19480	Safalta Ka Jadoo Hindi(HB)	Joginder Singh	Diamond Books	300
0000A	19481	Safalta Ka Jadoo Hindi(PB)	Joginder Singh	Diamond Books	125
0000 A	19482	Safalta Ka Rahasya Hindi(PB)	Swett Marden	Diamond Books	75
0000 A	19483	Safalta Ke 41 Mantra Hindi(PB)	Harikrishan Devsare	Diamond Books	150
0000 A	19484	Safalta Ke Achook Mantra Hindi(PB	Ramesh Pokhriyal	Diamond Books	110
0000 A	19485	Safalta Ke Sopan HB Hindi	Swett Marden	Diamond Books	250
0000 A	19486	Safalta Ke Sopan Hindi(PB)	Swett Marden	Diamond Books	75
0000 A	19487	Safalta Ke Sutra Hindi(PB)	Kapil Kakkar	Diamond Books	75
0000 A	19488	Safalta Ki Kunji HB Hindi	Swett Marden	Diamond Books	250
0000 A	19489	Safalta Ki Kunji Hindi(PB)	Swett Marden	Diamond Books	75
0000 A	19490	Safalta Ki Nai Takneek PB Hindi	Rajshekhar Mishra	Diamond Books	125
0000 A	19491	Safalta ki or 10 Aasaan Kadam	Deepak Behal	Diamond Books	170
0000 A	19492	Safalta Ki Vaigyanik Taknik Hindi(P	Biswaroop Roy Choudhray	Diamond Books	110
0000 A	19493	Safalta Paane Ki 8 Shaktiyan Hindi(P	Shishir	Diamond Books	125
0000 A	19494	Safaltam Kaptan Dhoni Hindi(PB)	Amit Kumar	Diamond Books	100
0000 A	19495	Safar Badalon Ka (Yatra Vritant) Hin	Kunwar Baichain	Diamond Books	100
0000 A	19496	Safar Saath Saal Ka Hindi(PB)	Ajay Janamjai	Diamond Books	195
0000 A	19497	Sahab Bathroom Main Hain Hindi (P	Aas Karan Atal	Diamond Books	125
0000 A	19498	Sahaj Prathna Ke Sutra Hindi(PB)	Anandmurti Guru Maa	Diamond Books	30
0000 A	19499	Sahayak Station Master TT Train Clark, booking (Practice Test Pa		Diamond Books	125
0000 A	19500	Sai Baba Aur Unki Shirdi Hindi(PB)	O P Jha	Diamond Books	100
0000 A	19501	Sai Baba ke Parsidh Bhakt Hindi(PB	O P Jha	Diamond Books	95
0000 A	19502	Sai Bhajan Mala Hindi(PB)	Acharya Purushottam Ananda	Diamond Books	100
0000 A	19503	Sai Sarita Hindi(PB)	Sushil Bharti	Diamond Books	70

0000 A	19504	Sai Sharnam Gachhami Hindi(PB)	Adha Prasad Tripathi	Diamond Books	50
0000 A	19505	Sai Sri Ke Adbhut Devdoot Hindi(PE	Sushil Bharti	Diamond Books	60
0000 A	19506	sakaratmak soch Swami Vivekanand	Ramesh Pokhriyal Nishank	Diamond Books	50
0000 A	19507	Sakratmak Vichron Ka Jaadu Hindi(I	Surya Sinha	Diamond Books	125
0000 A	19508	Sakshatkar (Interview) Hindi(PB)	Kumar Pankaj	Diamond Books	95
0000 A	19509	Sakshi Krishan Aur Raslila Hindi(PB	Osho	Diamond Books	95
0000A	19510	Salakho Ki Parchahiya Hindi(PB)	Ruzbeh N Bharucha	Diamond Books	95
0000 A	19511	Samachar Patra Prabandhan Aur Pras	Kumar Pankaj	Diamond Books	95
0000 A	19512	Samagra Siksha Hindi(PB)	Sudarshan Ji	Diamond Books	60
0000 A	19513	Samajik Samta Ke Agradoot Babu Ja	Sunil Jogi	Diamond Books	400
0000 A	19514	Samajik Samta Ke Agradoot Babu Ja	Sunil Jogi	Diamond Books	125
0000 A	19515	Samanya Hindi Evam Sanchipt Vyak	Vikas Doon	Diamond Books	220
0000 A	19516	Samarth Bharat PB Hindi	Pankaj Singh	Diamond Books	400
0000 A	19517	Sambandho Ki Madhur Paribhasha H	Rekha Kale	Diamond Books	60
0000 A	19518	Sambhog Se Samadhi Ki Aur (Sampu	Osho	Diamond Books	275
0000 A	19519	Sambhog Se Samadhi Ki Aur (Simiti	Osho	Diamond Books	295
0000 A	19520	Sambhog Se Samadhi Ki Aur Hindi(I	Osho	Diamond Books	400
0000 A	19521	Sambhog Se Samadhi Ki Aur Part I H	Osho	Diamond Books	60
0000 A	19522	Sambhog Se Samadhi Ki Aur-II Yuv	Osho	Diamond Books	60
0000 A	19523	Sambhog Se Samadhi Ki Aur-III Nar	Osho	Diamond Books	60
0000 A	19524	Sambhog Se Samadhi Ki Aur-IV Jeev	Osho	Diamond Books	60
0000 A	19525	Sampadan Kala The Art Of Editing I	Rajshekhar Mishra	Diamond Books	95
0000 A	19526	Samrat Prithavi Raj Chauhan Hindi(I	Raghuvir Singh Rajput	Diamond Books	75
0000 A	19527	Samveda Hindi(PB)	Raj Bahadur Pandey	Diamond Books	95
0000 A	19528	Sanatan Satya (Bhagwat Gita Ka Mar	Osho	Diamond Books	200
0000 A	19529	Sanatan Yaksh Prashan Hindi(PB)	Nishantketu	Diamond Books	95
0000 A	19530	Sangat Sadhu Ki Hindi(PB)	Patrick Levy	Diamond Books	295
0000 A	19531	Sangharsh Se Sikhar Tak Hindi(HB)	Joginder Singh	Diamond Books	300
0000 A	19532	Sangram Hindi(PB)	Prem Chand	Diamond Books	95
0000 A	19533	Sankhya Darshan Hindi(PB)	Vinay	Diamond Books	75
0000 A	19534	Sankhyatmak Abhiruchi & Aankdo K	Subodh Kumar	Diamond Books	250
0000 A	19535	Sankibai Shankri Hindi(PB)	Sarojani Preetam	Diamond Books	60
0000 A	19536	Sanskritik Prashnotri Hindi(PB)	Arpita Gandhi	Diamond Books	20
0000 A	19537	Sant Kabeer Hindi(PB)	Giriraj Sharan Agarwal	Diamond Books	95
0000 A	19538	Sant Tulsidaas Aur Unka Sahitya HB	Swami Anand	Diamond Books	300
0000A	19539	Sant Tulsidas Aur Inka Sahitya PB H	Swami Anand Kulshreshtha	Diamond Books	100
0000 A	19540	Sapandan Hindi(PB)	Ageh Bharti	Diamond Books	60
0000 A	19541	Sapne Dekhne Ka Sahas Hindi(PB)	Anjali Hajarika	Diamond Books	110
0000 A	19542	Sapno Ka Sahar Hindi(PB)	Seema Seth	Diamond Books	95
0000 A	19543	Saral Geeta Saar PB Hindi	Avdesh Bihari Mathue	Diamond Books	12
0000 A	19544	Saral Jyotish PB Hindi	Ramesh Dwivedi	Diamond Books	150
0000 A	19545	Sardar Patel PB Hindi	Renu Saran	Diamond Books	30
0000 A	19546	Sardar Patel Hindi(PB)	Meena Agarwal	Diamond Books	125
0000 A	19547	Sargarbhit Samsamayiki Hindi Magazine PB		Diamond Books	20
0000 A	19548	Sarson Ke Jude Mein Tesu ke Phool	Bekal Utsahi	Diamond Books	75
0000 A	19549	Sarswati Upasana Hindi(PB)	Radha Krishna Srimali	Diamond Books	50
0000 A	19550	Saswar Rudrabhishek Prayog Hindi(I	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	100
0000 A	19551	Sat Bhase Raidas (Raidas Ki Vani) H	Osho	Diamond Books	95
0000 A	19552	Satya Hi Ishwar Hai Hindi(PB)	M K Gandhi	Diamond Books	75
0000 A	19553	Satya Ke Prayog (Abridged) Hindi(P	M K Gandhi	Diamond Books	95
0000 A	19554	Satya Ke Prayog Hindi(PB)	M K Gandhi	Diamond Books	195
0000 A	19555	Satya Ki Vijay Rajiv Gandhi Ki Haty	D R Karthykeyan	Diamond Books	150
0000 A	19556	Satyagreh (Mansarovar 3-4) PB Hind	Prem Chand	Diamond Books	175
0000 A	19557	Saundrya Aur Swasthya Hindi(PB)	Hari Om Gupta	Diamond Books	50
0000 A	19558	SBI Clerk Grade Exam (15-Practice Test Paper) Hindi (PB)		Diamond Books	200
0000 A	19559	SBI Lipik (Clerk) Grade Pariksha (Guide) Hindi (PB)		Diamond Books	350
0000 A	19560	SBI Probationery Officers (12 Practic	Arvind Mohan Dwivedi	Diamond Books	265

0000 A	19561	Secrects Of Business Success Hindi(I	Ram Kailash Gupta	Diamond Books	300
0000 A	19562	Secrects Of Business Success Hindi(I	Ram Kailash Gupta	Diamond Books	125
0000 A	19563	Secrets Of Success (H) Hindi(PB)	Tarun Engineer	Diamond Books	125
0000 A	19564	Secrets Of Super Success Hindi(HB)	Subhash Lakhotia	Diamond Books	300
0000 A	19565	Secrets Of Super Success Hindi(PB)	Subhash Lakhotia	Diamond Books	125
0000 A	19566	Seemaye Toot Gayee Hindi(PB)	Nimai Bhattacharya	Diamond Books	60
0000 A	19567	Seva Sadan Hindi(PB)	Prem Chand	Diamond Books	150
0000A	19568	Sex Aur Pati Patni Hindi(PB)	Satish Goel	Diamond Books	95
0000 A	19569	Sex Paap Nahi Hai Hindi(PB)	Chandarmoli	Diamond Books	40
0000 A	19570	Shabar Mantra Hindi(PB)	Ramesh Dwivedi	Diamond Books	95
0000 A	19571	Shabd bhi bolte hain PB Hindi	Sudarshan maharaj	Diamond Books	125
0000 A	19572	Shad Aur Akhtar Ki Shayari Hindi(P	Amar Dehlavi	Diamond Books	50
0000 A	19573	Shahid Bhagat Singh ! Kranti Mein E	Kuldip Nayyar	Diamond Books	95
0000 A	19574	Shakahaar Hindi(PB)	Bimal Chhajer	Diamond Books	40
0000 A	19575	Shakeel Aur Kateel Ki Shayari Hindi	Amar Dehlavi	Diamond Books	50
0000 A	19576	Sham Ki Barisen Hindi(PB)	Suresh Kumar	Diamond Books	95
0000 A	19577	Shama Erumi Hindi(PB)	Anandmurti Guru Maa	Diamond Books	30
0000 A	19578	Shani Upasana Hindi(PB)	Radha Krishna Srimali	Diamond Books	50
0000 A	19579	Shani Upchaar Hindi (PB)	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	110
0000 A	19580	Share Bazar Mein Kamyabi Kaise Ha	Dinkar Kumar	Diamond Books	75
0000 A	19581	Share Bazar Teji Mandi & Satta Marl	Kewal Anand Joshi	Diamond Books	195
0000 A	19582	Sharir Man Santulan Hindi(PB)	Osho	Diamond Books	30
0000 A	19583	Sharir Sarvang Lakshan Hindi(PB)	Radha Krishna Srimali	Diamond Books	60
0000 A	19584	Shat Panchashika Hindi(PB)	Lekhraj Dwivedi	Diamond Books	150
0000 A	19585	Shatakveer Sachin Hindi(PB)	Rajshekhar Mishra	Diamond Books	125
0000 A	19586	Shatranj Kaise Khelen Hindi(PB)	Prakash Nagaich	Diamond Books	95
0000 A	19587	Shatranj Ke Khiladi PB Hindi	Prem Chand	Diamond Books	50
0000 A	19588	Shaurya Aur Balidan Ki Amar Kahan	Prakash Manu	Diamond Books	450
0000 A	19589	Shaurya Aur Balidan Ki Amar Kahan	Prakash Manu	Diamond Books	150
0000 A	19590	Shayar Bemisal Shayari Bakamal Par	Pavan Kumar	Diamond Books	150
0000 A	19591	Shayar Bemisal Shayari Bakamal Par	Pavan Kumar	Diamond Books	150
0000 A	19592	Sheikh Chilli Ke Latife Hindi (HB)	Giriraj Sharan Agarwal	Diamond Books	250
0000 A	19593	Sheikh Chilli Ke Latife Hindi(PB)	Giriraj Sharan Agarwal	Diamond Books	25
0000 A	19594	Shekh Farid Vani Hindi(PB)	Rachna Bhola Yamini	Diamond Books	95
0000 A	19595	Sherestha Rochak Kathaye Aladdin Aur Jadui Chirag Hindi(PB)		Diamond Books	40
0000 A	19596	Sherestha Rochak Kathaye Jungle Book Hindi(PB)		Diamond Books	40
0000A	19597	Sherestha Rochak Kathaye Kachua Aur Khargosh Hindi(PB)		Diamond Books	40
0000 A	19598	Sherestha Rochak Kathayen Hansel Aur Gretel Hindi(PB)		Diamond Books	40
0000 A	19599	Shesh Parichay Hindi(PB)	Sharat Chandra Chattopadhyay	Diamond Books	110
0000 A	19600	Shesh Prashan Hindi (HB)	Sharat Chandra Chattopadhyay	Diamond Books	500
0000 A	19601	Shesh Prashan Hindi(PB)	Sharat Chandra Chattopadhyay	Diamond Books	125
0000 A	19602	Shikhar Par Pahunchne ke 108 gyan s	Raghu Korrapati	Diamond Books	200
0000 A	19603	Shiksha Aur Jagran Hindi(PB)	Osho	Diamond Books	60
0000 A	19604	Shiksha Aur Vidroh Hindi(PB)	Osho	Diamond Books	60
0000 A	19605	Shiksha Mein Sampoorna Gunwatta I	Marmar Mukhopadhyay	Diamond Books	495
0000 A	19606	Shiksha Naye Prayog Hindi(PB)	Osho	Diamond Books	150
0000 A	19607	Shiksha Osho Ki Drishti Mein Hindi(	Anand Vairagya	Diamond Books	195
0000 A	19608	Shikshaprad Jatak Kathayen Hindi(P	Pratibha Kasturiya	Diamond Books	35
0000 A	19609	Shila Dixit Vikas Ki Prateek Hindi(P	Tarun Engineer	Diamond Books	75
0000 A	19610	Shirdi Ke Sai Baba Hindi(PB)	Prakash Nagaich	Diamond Books	95
0000 A	19611	Shirdi Sai Baba Jeevan Darshan Aur	O P Jha	Diamond Books	95
0000 A	19612	Shirdi Sai Baba PB Hindi	O P Jha	Diamond Books	80
0000 A	19613	Shiv Puran (H) Hindi(PB)	Vinay	Diamond Books	95
0000 A	19614	Shiv Sutra Hindi (PB)	Devam	Diamond Books	100
0000 A	19615	Shiv Sutra Hindi(HB)	Osho	Diamond Books	300
0000 A	19616	Shiv Upasana Hindi(PB)	Radha Krishna Srimali	Diamond Books	60

0000 A	19617	Shodashi Aur Bhuwaneshwari Tantri	Radha Krishna Srimali	Diamond Books	95
0000 A	19618	Shreshth Kaun? Hindi(PB)	Osho	Diamond Books	30
0000 A	19619	Shri Gurujee Golvalkar Hindi(HB)	Harish Dutt Sharma	Diamond Books	300
0000 A	19620	Shri Gurujee Golvalkar Hindi(PB)	Harish Dutt Sharma	Diamond Books	95
0000 A	19621	Shri Krishan Shri Satya Sai Hindi(PB	Jandhyala Suman Babu	Diamond Books	60
0000 A	19622	Shri Madhurashtakam Hindi(PB)	Kirit Bhai	Diamond Books	75
0000 A	19623	Shri Ram Krishna Bhaktamrit Charitr	Paramhansa Ram Mangal Das	Diamond Books	50
0000 A	19624	Shri Sai Avtar Trimurti Hindi(PB)	Satya Pal Ruhela	Diamond Books	50
0000 A	19625	Shri Sai Geetayan Hindi (PB)	Chakor Aajgaonkar	Diamond Books	40
0000A	19626	Shri Shirdi Sai Baba Ke Sang Mera J	Satya Pal Ruhela	Diamond Books	30
0000 A	19627	Shri Shirdi Sai Bhajan Sangrah Hind	Sushila Devi Ruhela	Diamond Books	40
0000 A	19628	Shrimad Bhagvadgita (Mini) Hindi(P	Dayanand Verma	Diamond Books	25
0000 A	19629	Shrimad Bhagwad Geeta (Adhunik V	Dayanand Verma	Diamond Books	150
0000 A	19630	Shrimad Bhagwat Puran Hindi(PB)	Vinay	Diamond Books	75
0000 A	19631	Shubada Hindi(PB)	Sharat Chandra Chattopadhyay	Diamond Books	95
0000 A	19632	Shunyata Hai Mahamukti Hindi(PB)	Osho	Diamond Books	95
0000 A	19633	Shyama Prasad Mukherjee Hindi(PB	Harish Dutt Sharma	Diamond Books	95
0000 A	19634	Shyama Prashad Mukherjee HB Hind	Mahesh Sharma	Diamond Books	300
0000 A	19635	Sidhi Saadi Baatein PB Hindi	Rajesh Chetan	Diamond Books	100
0000 A	19636	Sikhen Jeevan Jeene Ki Kala Hindi(P	Shashi Kant Sadaiv	Diamond Books	125
0000 A	19637	Sikhiyen Hardya Rog Se Mukti Ke U	Bimal Chhajer	Diamond Books	50
0000 A	19638	Sili Shayari Sms Hindi(PB)	Kuldeep Saluja	Diamond Books	15
0000 A	19639	Sitaram Hindi(PB)	Bankim Chandra Chattopadhyay	Diamond Books	75
0000 A	19640	Skanda Purana Hindi(PB)	Vinay	Diamond Books	60
0000 A	19641	Skandgupt Hindi(PB)	Jai Shankar Prasad	Diamond Books	110
0000 A	19642	Smaran Shakti Kaise Badhayen Hind	Anant Pai	Diamond Books	50
0000 A	19643	Smritiyon Mein Roos Hindi(HB)	Shikha Varshney	Diamond Books	300
0000 A	19644	So To Hai Hindi(HB)	Ashok Chakradhar	Diamond Books	200
0000 A	19645	Soch Badlo Safalta Paao (PB) Hindi	Joginder Singh	Diamond Books	150
0000 A	19646	Society Jokes Hindi(PB)	Kuldeep Saluja	Diamond Books	40
0000 A	19647	Sonagachi Ki Champa Hindi(HB)	Nimai Bhattacharya	Diamond Books	120
0000 A	19648	Sonia Gandhi Hindi (PB)	Mahesh Dutt Sharma	Diamond Books	95
0000 A	19649	Sonia Gandhi Rajneeti Ki Pawitra Ga	Jagdish Piyush	Diamond Books	150
0000 A	19650	Soordas Aur Unka Sahitya HB Hindi	Swami Anand	Diamond Books	300
0000 A	19651	Soordas Aur Unka Sahitya PB Hindi	Swami Anand Kulshreshtha	Diamond Books	100
0000 A	19652	Soya Everyday Hindi(PB)	Komal Taneja	Diamond Books	100
0000 A	19653	Spicy Shayari Sms Hindi(PB)	Kuldeep Saluja	Diamond Books	15
0000 A	19654	Squatting With Diginity Hindi(HB)	Kumar Alok	Diamond Books	500
0000A	19655	Srasti Se Srasta Tak Hindi(PB)	Sadguru	Diamond Books	50
0000 A	19656	Sri Balyogi Ke Sanindhay Mein Hind	Nilesh Soni	Diamond Books	20
0000 A	19657	Sri Sathya Sai Avtar Aur Sri Nar Nar	Adha Prasad Tripathi	Diamond Books	30
0000 A	19658	Sri Shankar Maharaj Adbhut Charitra Va Amuly Updesh Hindi(P		Diamond Books	70
0000 A	19659	Sri Shirdi Sai Bhajan mala Hindi(PB)	Sushila Devi Ruhela	Diamond Books	10
0000 A	19660	Srikanta Hindi(PB)	Sharat Chandra Chattopadhyay	Diamond Books	150
0000 A	19661	Srimad Bhagwadgeeta Hindi(PB)	Kirit Bhai	Diamond Books	95
0000 A	19662	SSB Constable Driver (10-Practice Test Papers) Hindi (PB)		Diamond Books	65
0000 A	19663	SSB Tally Cumunication Cader (10-Practice Test Pepers) Hindi (I		Diamond Books	80
0000 A	19664	SSC Capfs-15 PTP PB HINDI	Vikas Doon	Diamond Books	80
0000 A	19665	SSC Combined Higher Secondary Level - 2015 PB Hindi		Diamond Books	290
0000 A	19666	SSC Combined Higher Secondary Level - PTP 2015 PB Hindi		Diamond Books	150
0000 A	19667	SSC Constable Bharti Pariksha PB Hindi		Diamond Books	200
0000 A	19668	SSC Multi Tasking Practice test Paper PB Hindi Envelope		Diamond Books	125
0000 A	19669	SSC Multitasking (12 Practice Test Paper) PB Hindi		Diamond Books	100
0000 A	19670	SSC Sanyukt Snatak Star Pariksha (12 Practice Set paper) PB Hin		Diamond Books	200
0000 A	19671	SSC Sanyukt Snatak Star Pariksha (Tier-I) PB Hindi		Diamond Books	400

0000 A	19672	SSC Stenographer (Aashulipik) Grade C & D 2014 (Practice Test		Diamond Books	150
0000 A	19673	SSC Stenographer (Aashulipik) Grade C & D 2014 Guide PB Hin		Diamond Books	215
0000 A	19674	Staff Nurse & Parachikitsa (DELHI)(	Arvind Mohan Dwivedi	Diamond Books	315
0000 A	19675	Staff Nurse (Upcharika/ANM/GNM) Guide PB Hindi		Diamond Books	300
0000 A	19676	Staff Nurse (Upcharika/ANM/GNM)	Lali Kumari & Avdhesh	Diamond Books	100
0000 A	19677	Staff Nurse And Parachikitsa Staff (C	Arvind Mohan Dwivedi	Diamond Books	95
0000 A	19678	Staff Nurse And Parachikitsa Staff (H	Arvind Mohan Dwivedi	Diamond Books	95
0000 A	19679	Staff Nurse And Parachikitsa staff (Jh	Arvind mohan Dwivedi	Diamond Books	95
0000 A	19680	Staff Nurse And Parachikitsa Staff (U	Arvind Mohan Dwivedi	Diamond Books	95
0000 A	19681	Staff Nurse NRHM Rajasthan PB Hindi		Diamond Books	320
0000 A	19682	Steel King Lakshmi Mittal (H) Hindi	Prateeksha M Tiwari	Diamond Books	95
0000 A	19683	Steve Jobs	I M Rajaswi	Diamond Books	75
0000A	19684	Stock Market Mein Safalta Ke Tips P	Ashu Dutt	Diamond Books	100
0000 A	19685	Stotra Shakti Hindi(PB)	Radha Krishna Srimali	Diamond Books	95
0000 A	19686	Stress Management Guide Hindi(PB)	Bimal Chhajer	Diamond Books	125
0000 A	19687	Stress PB Hindi	Bimal Chhajer	Diamond Books	50
0000 A	19688	Stri Ki Kuch Ankahi Hindi(PB)	Shashi Kant Sadaiv	Diamond Books	75
0000 A	19689	Stri Shakti Hindi(HB)	S Madhwan	Diamond Books	300
0000 A	19690	Stri Shakti Hindi(PB)	S Madhwan	Diamond Books	100
0000 A	19691	Stri Shakti Jaisa Maine Dekha Hindi(	Kiran Bedi	Diamond Books	125
0000 A	19692	Stroke Paralysis Hindi(PB)	Bimal Chhajer	Diamond Books	50
0000 A	19693	Subah Hindi(PB)	Ramavtar Bairwa	Diamond Books	95
0000 A	19694	Subhash Chandra Bose Hindi(PB)	Rachna Bhola Yamini	Diamond Books	30
0000 A	19695	Subhash Chandra Bose Hindi(PB)	Renu Saran	Diamond Books	40
0000 A	19696	Suchana Ka Adhikar Adhinium Hind	Rajender Pandey	Diamond Books	100
0000 A	19697	Sudarshan Ramayan Sangeetmay Srin	Sudarshan Ji	Diamond Books	1001
0000 A	19698	Sufi Sant Amir Khusro Aur Unki Sha	Swami Anand	Diamond Books	300
0000 A	19699	Sufi Sant Amir Khusro va Unki Shay	Amir Khusro	Diamond Books	175
0000 A	19700	Sufi Sant Bulleshah Aur Unka Sahity	Swami Anand	Diamond Books	600
0000 A	19701	Sufi Sant Bulleshah Aur Unki Shayar	Bulle Shah	Diamond Books	150
0000 A	19702	Sugam Tantragam Hindi(PB)	Nishantketu	Diamond Books	200
0000 A	19703	Sugam Vaastu Shastra Hindi(PB)	Gopal Sharma	Diamond Books	95
0000 A	19704	Sukhi Bharwan Rasedar Subjiyan Ka	Neera Verma	Diamond Books	100
0000 A	19705	Sunhare Kal Ki Aur Hindi(PB)	Joginder Singh	Diamond Books	150
0000 A	19706	Suni Suni Aave Hansi PB HINDI	Sanjay Jhala	Diamond Books	125
0000 A	19707	Suno Bhai Sadho PB Hindi	Osho	Diamond Books	250
0000 A	19708	Surya Chikitsa Cromotherepy Hindi(	Hari Om Gupta	Diamond Books	125
0000 A	19709	Swadist Soup Hindi(PB)	Neera Verma	Diamond Books	60
0000 A	19710	Swami Vivekanand Ek Jeevni Hindi(	Asha Prasad	Diamond Books	175
0000 A	19711	Swami Vivekanand Hindi(PB)	Renu Saran	Diamond Books	30
0000 A	19712	Swami Vivekanand Hindi(PB)	Renu Saran	Diamond Books	35
0000A	19713	Swami Vivekanand Hindi(PB)	Renu Saran	Diamond Books	40
0000 A	19714	Swami Vivekanand Ke Sapno Ka Bh	Himanshu Shekhar	Diamond Books	150
0000 A	19715	Swami Vivekananda in Chicago PB I	Ramesh Pokhriyal Nishank	Diamond Books	50
0000 A	19716	Swamutra Chikitsa Hindi(PB)	S K Sharma	Diamond Books	95
0000 A	19717	Swapan Jyotish Hindi(PB)	Radha Krishna Srimali	Diamond Books	95
0000 A	19718	Swarnim Bharat Hindi(PB)	Osho	Diamond Books	60
0000 A	19719	Swarodaya Tantra Hindi(PB)	Jagdish Sharma	Diamond Books	95
0000 A	19720	Swasth Hardya Ke Liye Ahar Hindi(I	Bimal Chhajer	Diamond Books	50
0000 A	19721	Swatantra Patrakarita Hindi(PB)	M K Majumdar	Diamond Books	95
0000 A	19722	Swayam Ko Aur Dusro Ko Pehchana	Shashi Kant Sadaiv	Diamond Books	300
0000 A	19723	Swayam Ko Aur Dusro Ko Pehchana	Shashi Kant Sadaiv	Diamond Books	125
0000 A	19724	Tamasha Hindi(PB)	Ashok Chakradhar	Diamond Books	100
0000 A	19725	Tanav Chhodo Zindagi Sanwaro PB I	Subhash Lakhotia	Diamond Books	95
0000 A	19726	Tandav (Kalsarpyog Ka Vaigyanik V	Rajesh Tiwari	Diamond Books	75
0000 A	19727	Tantia Tope Hindi (PB)	Bhawan Singh Rana	Diamond Books	95
0000 A	19728	Tantra Rahasya Hindi(PB)	Radha Krishna Srimali	Diamond Books	95
0000 A	19729	Tantra Shakti Aur Sadhana Hindi(PB	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	125

0000 A	19730	Tantropaithy Hindi(PB)	R P Upadhyay	Diamond Books	150
0000 A	19731	Tao Upnishad 2 Hindi(HB)	Osho	Diamond Books	450
0000 A	19732	Tapasya Hindi(PB)	Ashapurana Devi	Diamond Books	95
0000 A	19733	Tarange Hindi(HB)	Shanti Sharma	Diamond Books	300
0000 A	19734	Tashnkam Hindi(HB)	Anurag Hitkari	Diamond Books	300
0000 A	19735	Tathya Sankalan 2015 PB Hindi		Diamond Books	110
0000 A	19736	Teen Fitness Guide Hindi(PB)	Namita Jain	Diamond Books	125
0000 A	19737	Tees Hazari Court Delhii PB Hindi	Vikas Doon	Diamond Books	165
0000 A	19738	Tenaliram Hindi(HB)		Diamond Books	175
0000 A	19739	Tenaliram Ka Haas Parihas (Jr Diamond) Hindi(PB)		Diamond Books	25
0000 A	19740	Tenaliram Ke Rochak Kahaniyan(Fu	Giriraj Sharan Agarwal	Diamond Books	25
0000 A	19741	Tenaliram Ke Rochak Kahaniyan(Jr Diamond) Hindi(PB)		Diamond Books	35
0000A	19742	Tenaliram Ki Manoranjak Kahaniyan	Giriraj Sharan Agarwal	Diamond Books	35
0000 A	19743	Tenaliram Ki Manoranjak Kahaniyan(Jr Diamond) Hindi(PB)		Diamond Books	25
0000 A	19744	Tenaliram Ki Sugh Bugh (Jr Diamond) Hindi(PB)		Diamond Books	25
0000 A	19745	Tenaliram Ki Sujh Bujh Hindi(PB)	Giriraj Sharan Agarwal	Diamond Books	75
0000 A	19746	Tere Saath Ki Aadat PB Hindi	Shashi Kant Sadaiv	Diamond Books	100
0000 A	19747	Thahaka Express HB Hindi	Mahesh Garg	Diamond Books	250
0000 A	19748	Thahaka Express PB Hindi	Mahesh Garg	Diamond Books	125
0000 A	19749	Thakur Ka Kuan (Mansarovar 1-2) H	Prem Chand	Diamond Books	175
0000 A	19750	Thal Main Baal Hindi(PB)	R D N Srivastava	Diamond Books	95
0000 A	19751	That Hardly Happens To Someone H	Rajesh Singh	Diamond Books	100
0000 A	19752	The 3 Mistake Of My Life (H) Hindi(	Chetan Bhagat	Diamond Books	150
0000 A	19753	The 4th Idiot Hindi(PB)	Biswaroop Roy Choudhray	Diamond Books	150
0000 A	19754	The Comeback Hindi(PB)	Suhas Mantri	Diamond Books	95
0000 A	19755	Thoda Sa Roomani Ho Lein Hum Hi	Navab Shahabadi	Diamond Books	125
0000 A	19756	Time Management Hindi(PB)	Rekha Vyas	Diamond Books	150
0000 A	19757	Tips & Tricks Excel 2010 Hindi(PB)	Davinder Singh Minhas	Diamond Books	150
0000 A	19758	Tips & Tricks Windows 7 Hindi(PB)	Davinder Singh Minhas	Diamond Books	150
0000 A	19759	Tips & Tricks Word 2010 Hindi(PB)	Davinder Singh Minhas	Diamond Books	110
0000 A	19760	Tips Of Success Hindi(PB)	Sunil Jogi	Diamond Books	125
0000 A	19761	Toppers Ke Top Tips PB Hindi	JPS Jolly	Diamond Books	150
0000 A	19762	Tota Maina Hindi(PB)	Ambika Prashad Sharma	Diamond Books	50
0000 A	19763	Trashna Hindi(PB)	Osho	Diamond Books	30
0000 A	19764	Tripura Ke Lokkathayen Evam Prash	Rachna Bhola Yamini	Diamond Books	25
0000 A	19765	Tu Daal Daal Main Paat Paat Hindi(F	Sanjay Jhala	Diamond Books	75
0000 A	19766	Tubbys Baal Geet PB Hindi	Priyanka	Diamond Books	35
0000 A	19767	Tubbys Cut & Paste Chart Book Ka Kha Ga Varanmala Hindi(PB		Diamond Books	25
0000 A	19768	Tubbys Geeton Ki Phoolwari PB Hin	Priyanka	Diamond Books	35
0000 A	19769	Tubbys Hindi Baal Geet PB Hindi	Priyanka	Diamond Books	35
0000 A	19770	Tubbys Hindi Varanmala Hindi(PB)		Diamond Books	50
0000A	19771	Tubbys Suno Kahani Dadi Se PB Hindi		Diamond Books	60
0000 A	19772	Tufan E Sagar Hindi(PB)	Jagdish Godara Sagar	Diamond Books	95
0000 A	19773	Tukda Tukda Yeh Zindagi Hindi(PB)	Naresh Shandilya	Diamond Books	75
0000 A	19774	Tutta Abhiman Hindi(PB)	Yadvendra Sharma Chandra	Diamond Books	110
0000 A	19775	Twacha Rog Karan Aur Nivaran Hin	Rajeev Sharma	Diamond Books	125
0000 A	19776	Udasiyon Se Ghira Chand (Gazlen) H	Suresh Kumar	Diamond Books	95
0000 A	19777	Udiyo Pankh Pasaar(Prasnotar) Hind	Osho	Diamond Books	200
0000 A	19778	Ujalon Ki Pariyan (Bashir Badr Ki G	Suresh Kumar	Diamond Books	100
0000 A	19779	Ujla Sach	Vandna Girdhar	Diamond Books	100
0000 A	19780	Uma Kahun Main Anubhav Apna Hi	Sri Krishna Nand Ji Maharaj	Diamond Books	150
0000 A	19781	Ummeden Jindagi Hai HB Hindi	Prem Bhardwaj	Diamond Books	300
0000 A	19782	Unnati Ki Rahe Hindi(PB)	Swett Marden	Diamond Books	75
0000 A	19783	Unnati Ki Rraahen HB Hindi	Swett Marden	Diamond Books	250
0000 A	19784	UP Adhinasth sewa Chayan Ayog 3467 Kanisht Sahayak PTP PB		Diamond Books	80
0000 A	19785	UP B.ed Sanyukt Pravesh Pariksha (C	Arvind Mohan Dwivedi	Diamond Books	130

0000 A	19786	UP B.ed Sanyukt Pravesh Pariksha (I	Arvind Moha Dwivedi	Diamond Books	130
0000 A	19787	UP B.ed Sanyukt Pravesh Pariksha (S	Arvind Mohan Dwivedi	Diamond Books	130
0000 A	19788	UP GK Text PB Hindi	Arvind Mohan Dwivedi	Diamond Books	50
0000 A	19789	UP Lekhpal Bharti Pariksha (Practice Paper - 12) Hindi (PB)		Diamond Books	75
0000 A	19790	UP Lekhpal Bharti Pariksha Hindi (PB)		Diamond Books	160
0000 A	19791	UP Objective GK PB Hindi	Arvind Mohan Dwivedi	Diamond Books	65
0000 A	19792	UP Police (Upniikshak Mukhya Bhar	Arvind Mohan Dwivedi	Diamond Books	180
0000 A	19793	UP Police Aarkshi (Constable) Bharti Priksha (11-Practice Test P		Diamond Books	65
0000 A	19794	UP Police Aarkshi (Constable) Hindi (PB)		Diamond Books	200
0000 A	19795	UP Police Computer Operator Hindi (PB)		Diamond Books	175
0000 A	19796	UP RAJASVA LEKHPAL AND CH	Vikas Doon	Diamond Books	41
0000 A	19797	UP RAJASVA LEKHPAL AND CH	Vikas Doon	Diamond Books	21
0000 A	19798	UP RAJASVA LEKHPAL AND CH	Vikas Doon	Diamond Books	18
0000 A	19799	UP RAJASVA LEKHPAL AND CH	Vikas Doon	Diamond Books	31
0000A	19800	UP RAJASVA LEKHPAL-GUIDE P	Vikas Doon	Diamond Books	200
0000 A	19801	UP RAJASVA LEKHPAL-PTP PB I	Vikas Doon	Diamond Books	75
0000 A	19802	UP TET Environmental Studies PB H	Vikas Doon	Diamond Books	55
0000 A	19803	Upchar Ki Shaja Pravreti Hindi(PB)	David Servan Schriever	Diamond Books	150
0000 A	19804	UPPSC-PTP Hindi PB	Vikas Doon	Diamond Books	110
0000 A	19805	UPTET First Paper I-V PB Hindi	Lali Kumari	Diamond Books	150
0000 A	19806	UPTET Second Paper (VI-VIII Scien	Lali Kumari	Diamond Books	150
0000 A	19807	UPTET Second Paper (VI-VIII Socia	Lali Kumari	Diamond Books	150
0000 A	19808	Us Nazar Ne Kya Se Kya Bana Diya	Gyan Bhed	Diamond Books	195
0000 A	19809	Usi Ki Yeh Sharab Hindi(PB)	Prem Nishith	Diamond Books	60
0000 A	19810	Uttardayitav Hindi(PB)	Osho	Diamond Books	30
0000 A	19811	Uttrakhand Mein Aadhyatmik Paryat	Sarita Shah	Diamond Books	150
0000 A	19812	Vaad vivad Pratiyogita Hindi(PB)	Giriraj Sharan Agarwal	Diamond Books	60
0000 A	19813	Vaaris Tatha Anya Kahaniya Hindi(P	Ramchandra Bhave	Diamond Books	75
0000 A	19814	Vaastav Mein PB Hindi	Shailja Kaushal	Diamond Books	150
0000A	19815	Vaastu Dosh Aur Nivaran Hindi(PB)	Parasmal	Diamond Books	125
0000 A	19816	Vaastu Dwara Khushhal Jeevan Ke 1	Parasmal	Diamond Books	95
0000 A	19817	Vaastu Feng Shui Antrik Saj Sajja Hi	Kuldeep Saluja	Diamond Books	50
0000 A	19818	Vaastu Feng Shui Bhawan Nirman H	Kuldeep Saluja	Diamond Books	60
0000 A	19819	Vaastu Feng Shui Flat & Office Hind	Kuldeep Saluja	Diamond Books	60
0000 A	19820	Vaastu Feng Shui Udog Aur Vyapar	Kuldeep Saluja	Diamond Books	60
0000 A	19821	Vaastu Jignasayan Evam Samadhan I	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	125
0000 A	19822	Vaidik Ganit Geeta Hindi(PB)	Kailash Nath Nemani	Diamond Books	110
0000 A	19823	Vaikalpik Chikitsa Hindi(PB)	R S Vivek	Diamond Books	100
0000 A	19824	Varah Puran Hindi(PB)	Vinay	Diamond Books	95
0000 A	19825	Vardan Hindi(HB)	Prem Chand	Diamond Books	200
0000 A	19826	Vardan Hindi(PB)	Prem Chand	Diamond Books	95
0000 A	19827	Vardan Sanchipat Sanskaran Hindi(P	Prem Chand	Diamond Books	75
0000 A	19828	Vardhavastha Hindi(PB)	Hari Om Gupta	Diamond Books	50
0000 A	19829	Vastunisht Samanya Gyan PB Hindi		Diamond Books	150
0000 A	19830	Vayanjan Kuchh Naye Kuchh Purane	Shobha Kher	Diamond Books	100
0000 A	19831	Vayu Puran Hindi(PB)	Vinay	Diamond Books	95
0000 A	19832	Ve Dono Ek Hi The (Hindi PB)	RITU SINGHAL	Diamond Books	100
0000 A	19833	Ved Aur Svasamved HB Hindi	Budhi Prakash Bajpai	Diamond Books	600
0000 A	19834	Ved Aur Svasamved PB Hindi	Budhi Prakash Bajpai	Diamond Books	250
0000 A	19835	Vedant Darshan Hindi(PB)	Vinay	Diamond Books	75
0000 A	19836	Vedon Ki Kathayen Hindi (HB)	Mahesh Sharma	Diamond Books	350
0000 A	19837	Vedon Ki Kathayen Hindi(PB)	Mahesh Dutt Sharma	Diamond Books	110
0000 A	19838	Veer Savarkar Hindi(HB)	Bhawan Singh Rana	Diamond Books	200
0000 A	19839	Veg Oriental Cook Book Hindi(PB)	Komal Taneja	Diamond Books	100
0000 A	19840	Vegetarian Cook Book Hindi(PB)	Tehlina Kaul	Diamond Books	110
0000 A	19841	Veh Kahan Hai Hindi(PB)	Narender Kohli	Diamond Books	75
0000 A	19842	Vibhinna Khelon Ke Niyam Hindi(P	Sanjay Bhola Dheer	Diamond Books	110
0000 A	19843	Vichar Kranti Hindi(PB)	Osho	Diamond Books	60

0000A	19844	Vicharon Ke Phool Hindi(PB)	Ageh Bharti	Diamond Books	40
0000 A	19845	Vicharon Ko Badalna Sikhen Hindi(I	Acharya Mahapragya	Diamond Books	350
0000 A	19846	Vidur Niti Hindi(PB)	Kirit Bhai Ji	Diamond Books	125
0000 A	19847	Vidur Niti Hindi(PB)	Ashwini Parashar	Diamond Books	125
0000 A	19848	Vigyan Aur Adhyatmikta Hindi(PB)	Sri Sri Ravishankar Ji	Diamond Books	10
0000 A	19849	Vigyan Prashnottari Hindi(PB)	Sushila Sharma	Diamond Books	125
0000 A	19850	Vikas Ka Nayak Nitish Kumar Hindi	Kuldeep Saluja	Diamond Books	200
0000 A	19851	Vikas Ka Nayak Nitish Kumar Hindi	Kumar Pankaj	Diamond Books	75
0000 A	19852	Vikas Ka Paath HB Hindi	Swett Marden	Diamond Books	250
0000 A	19853	Vikas Ka Path Hindi(PB)	Swett Marden	Diamond Books	75
0000 A	19854	Vikram Aur Betal Hindi(HB)	Pratibha Kasturiya	Diamond Books	175
0000 A	19855	Vikram Betal Ki Manoranjak Kahani	Pratibha Kasturiya	Diamond Books	25
0000 A	19856	Vikram Betal Ki Prerak Kahaniya Hi	Pratibha Kasturiya	Diamond Books	25
0000 A	19857	Vikram Betal Ki Rochak Kahaniya H	Pratibha Kasturiya	Diamond Books	25
0000 A	19858	Vikram Betal Ki Shresth kahaniya Hi	Pratibha Kasturiya	Diamond Books	25
0000 A	19859	Vinod Priya Prabhu Hindi(PB)	Sri Sri Ravishankar Ji	Diamond Books	79
0000 A	19860	Vipradas Hindi(PB)	Sharat Chandra Chattopadhyay	Diamond Books	125
0000 A	19861	Vish Viriksh Hindi(PB)	Bankim Chandra Chattopadhyay	Diamond Books	95
0000 A	19862	Vishnu Puran Hindi(PB)	Vinay	Diamond Books	95
0000 A	19863	Vishv Presidh Nobel Purskar Vijeta I	Prateeksha M Tiwari	Diamond Books	150
0000 A	19864	Vishv Presidh Vaktitva (H) Hindi(PB	Renu Saran	Diamond Books	110
0000 A	19865	Vishv Samajvad Ke Poshak Lohiya H	Sunil Jogi	Diamond Books	400
0000 A	19866	Vishv Samajvad Ke Poshak Lohiya H	Sunil Jogi	Diamond Books	150
0000 A	19867	Vishwa Prasidh Vaigyanik HB Hindi	Renu Saran	Diamond Books	500
0000 A	19868	Vishwa Prasidh Vaigyanik PB Hindi	Renu Saran	Diamond Books	195
0000 A	19869	Vitamin Evam Khaniz Lavan Hindi (	Rajeev Sharma	Diamond Books	250
0000 A	19870	Vitamin Evam Khaniz Lavan Hindi(I	Rajeev Sharma	Diamond Books	95
0000 A	19871	Vivah Mein Badha Hindi(PB)	Kamal Radha Krishan Srimali	Diamond Books	110
0000 A	19872	Vivah Uphaar Hindi(PB)	T C Anand	Diamond Books	60
0000A	19873	Vivek Drishti Hindi(PB)	Poonam Chand Rateria Rishiputra	Diamond Books	20
0000 A	19874	Vrihad Bhrigu Sanhita Hindi (PB)	Kamal Radha Krishan Srimali	Diamond Books	400
0000 A	19875	Vrihad Vatsayayan Kamsutra Hindi(I	Satish Goel	Diamond Books	110
0000 A	19876	Vyakhatamak GK 2015 PB Hindi	Arvind Mohan Dwivedi	Diamond Books	110
0000 A	19877	Vyanga Purana Hindi(PB)	Shyam Sunder Ghosh	Diamond Books	95
0000 A	19878	Vyangam Sarnam Gachchami Hindi(	Osho	Diamond Books	175
0000 A	19879	Vyavsaye Mein Prabandhan Gunwatt	Debashish Sarkar	Diamond Books	95
0000 A	19880	Wah Pataka Wah PB Hindi	Prem Kishor Pataka	Diamond Books	100
0000 A	19881	WBTET Class I-V Primary Section P	Vikas Doon	Diamond Books	135
0000 A	19882	WBTET Class VI-VIII Science & Ma	Vikas Doon	Diamond Books	135
0000 A	19883	Who Will Bell The Cat Hindi(HB)	Mohit Siddqi	Diamond Books	300
0000 A	19884	Who Will Bell The Cat Hindi(PB)	Mohit Siddqi	Diamond Books	150
0000 A	19885	Yaaro Shadi Mat Karna Hindi(PB)	Sunil Jogi	Diamond Books	100
0000 A	19886	Yajurveda Hindi(PB)	Raj Bahadur Pandey	Diamond Books	95
0000 A	19887	Yamraj On Arth Hindi(PB)	Ashok anjum	Diamond Books	60
0000 A	19888	Yantra Shakti Aur Sadhana Hindi(PB	Bhojraj Dwivedi	Diamond Books	150
0000 A	19889	Yantra Siddhi Hindi(PB)	Radha Krishna Srimali	Diamond Books	95
0000 A	19890	Ye Maikada Hai Maikada Hindi(PB)	Prem Nishith	Diamond Books	75
0000 A	19891	Ye Pathar Bolte Hain Hindi(PB)	Pranav Goswami	Diamond Books	100
0000 A	19892	Yeh Bhi Nahi Hindi(HB)	Maheep Singh	Diamond Books	500
0000 A	19893	Yeh Bhi Nahin Hindi (PB)	Maheep Singh	Diamond Books	150
0000 A	19894	Yeh Kya Ho Gaya Hindi(PB)	Tejender Sharma	Diamond Books	60
0000 A	19895	Yeh Sambhav Hai Hindi(PB)	Kiran Bedi	Diamond Books	250
0000 A	19896	Yog Dwara Hriday Rog Se Mukti PB	Bimal Chhajer	Diamond Books	195
0000 A	19897	Yog Purshon Ke Liye Hindi (HB)	Bhagwan Dev	Diamond Books	250
0000 A	19898	Yog Samagra Vigyan Hindi(PB)	Sanjeev Kashyap	Diamond Books	100

0000 A	19899	Yog Se Aryogya Tak (With Dvd) Hin	Yog Guru Sunil Singh	Diamond Books	150	
0000 A	19900	Yog Se Aryogya Tak Hindi(PB)	Yog Guru Sunil Singh	Diamond Books	75	
0000 A	19901	Yog Se Rog Nivaran Hindi(PB)	Bhagwan Dev	Diamond Books	95	
0000A	19902	Yog Striyon Ke Liye Hindi(PB)	Bhagwan Dev	Diamond Books	95	
0000 A	19903	Yogasan Aur Swasthaya Hindi(PB)	Bhagwan Dev	Diamond Books	95	
0000 A	19904	Yogik V Saatvik Ahar Hindi(PB)	Komal Taneja	Diamond Books	100	
0000 A	19905	Yogiraj Shrikrishna Hindi(PB)	Vinay	Diamond Books	75	
0000 A	19906	Yogsar Upanishad Hindi(PB)	Sri Sri Ravishankar Ji	Diamond Books	69	
0000 A	19907	Yon Hua Computer Ka Avishkar PB	Prakash Manu	Diamond Books	35	
0000 A	19908	Yudh Aur Shanti (Bhagwat Gita Ka M	Osho	Diamond Books	200	
0000 A	19909	Yug Pravartak Mahatama Budh Hind	Ashok Kaushik	Diamond Books	95	
0000 A	19910	Yugo Yugo Ke Masiah Sai Baba Hin	Ramkrishan Jajoo	Diamond Books	100	
0000 A	19911	Yugpurush Maharishi Dayanand Sara	Shashi Kant Sadaiv	Diamond Books	75	
0000 A	19912	Yuvak Aur Yon Hindi(PB)	Osho	Diamond Books	30	
0000 A	19913	Zafar Aur Dag Ki Shayri Hindi(PB)	Amar Dehlavi	Diamond Books	50	
0000 A	19914	Zen Heart Zen Sole Hindi(PB)	Swami Antar Jagdish	Diamond Books	95	
0000 A	19915	Zen Ki Ghoshna Hindi(PB)	Osho	Diamond Books	250	
0000 A	19916	Zero Oil 151 Nashte Namkeen Hindi	Bimal Chhajer	Diamond Books	150	
0000 A	19917	Zero Oil Cook Book Hindi(PB)	Bimal Chhajer	Diamond Books	150	
0000 A	19918	Zero Oil Mithayein Hindi (PB)	Bimal Chhajer	Diamond Books	150	
0000 A	19919	Zero Oil South Indian Cook Book Hi	Bimal Chhajer	Diamond Books	150	
0000 A	19920	Zero Oil Thali Hindi(PB)	Bimal Chhajer	Diamond Books	150	
0000 A	19921	Lok Rang : Haryanvi Jakdi Geet	Janardan Sharma	Satyam Publishing H	600.00	2015
0000 A	19922	Aaranyarodnam	Niranjan Mishr	Satyam Publishing H	100.00	2015
0000 A	19923	Baal Geet	Ramlala Tiwari	Satyam Publishing H	400.00	2015
0000 A	19924	Bhartiya Rastriya Suraksha avam Urja Paridrishya	Arun & Pankaj	Satyam Publishing H	1,000.00	2015
0000 A	19925	Bhartiya sanskrit ka dharmik swaroop avm vaigyanikta	Vibha Agnihotri	Satyam Publishing H	500.00	2015
0000 A	19926	Bhartiya Shiksha Padhati or Swami viveka nanda	Isamlal Karharia	Satyam Publishing H	700.00	2015
0000 A	19927	Bhojpuri Upanyas ek antaryatra	Niraj Kumar	Satyam Publishing H	500.00	2015
0000 A	19928	Baudh Darshan Avam Patanjal Acharshastra	Sadhna Mandal	Satyam Publishing H	700.00	2015
0000 A	19929	Contemporary Issues : A Legal Examination	Siya Ram Shukla	Satyam Publishing H	900.00	2015
0000 A	19930	Contemporary Philosophy (In 4 Volumes)	U.S. Bist	Satyam Publishing H	4,000.00	2015
0000A	19931	Cross Border Terrorism: Biggest threat to India's Security	Rajvir Singh	Satyam Publishing H	1,500.00	2015
0000 A	19932	Current Trends in Library & Information Science in Digital Era	Ashish, Sanjay & Basant	Satyam Publishing H	1,500.00	2015
0000 A	19933	Dard ke Sur mein Gata Hun	Naresh Kumar Udaas	Satyam Publishing H	400.00	2015
0000 A	19934	Dr. Jaggannath Jha Saraswataabhinandan Granth	Indranath Jha	Satyam Publishing H	1,500.00	2015
0000 A	19935	Dynamic of Mall Business in India	Rahul Ranjan Singh	Satyam Publishing H	995.00	2015
0000 A	19936	Ek Darshanik ki Chook	Raghvendra Narayana Singh	Satyam Publishing H	500.00	2015
0000 A	19937	Fir Kab Aaogi	Ramashankar Shrivastava	Satyam Publishing H	400.00	2015
0000 A	19938	Gatha Amar Raghunath ki	Surya Prakash Shukl	Satyam Publishing H	800.00	2015
0000 A	19939	Geetanjali : Ek Punah Path	Raghvendra Narayana Singh	Satyam Publishing H	700.00	2015
0000 A	19940	Hasi- Hasi Panva Khivailey Beimanva	Ramashankar Srivastava	Satyam Publishing H	400.00	2015
0000 A	19941	Hawaon ke Rukh Mod do	Kamlesh Sood	Satyam Publishing H	300.00	2015
0000 A	19942	Hindi Sanskrit Nibandhmanjari	Azad Mishr	Satyam Publishing H	1,500.00	2015
0000 A	19943	Human Rights : A Socio-Legal Prospectives	Siya Ram Shukla	Satyam Publishing H	900.00	2015
0000 A	19944	India's National Security & Energy Scenario	Arun & Dr. Pankaj	Satyam Publishing H	1,500.00	2015
0000 A	19945	Issai Missionariyon ka Janjatiya Sahitya	Nageshwar Singh	Satyam Publishing H	600.00	2015

0000 A	19946	JAWAHARLAL NEHRU - The First Indian Socialist Leader of Independent Indian	Kaur & Sharma	Satyam Publishing H	600.00	2015
0000 A	19947	Kalsurya	Sateesh Vimal	Satyam Publishing H	300.00	2015
0000 A	19948	Kamleshwar ke Katha Sahitya mein Nari	Reeta Devi	Satyam Publishing H	600.00	2015
0000 A	19949	Kasish	Aarti Bansal	Satyam Publishing H	150.00	2015
0000 A	19950	Katha-Mala	Sunita Kumari	Satyam Publishing H	75.00	2015
0000 A	19951	Krishi Majdoor ki Samajik, Arthik Sthiti	Ritu Kumari	Satyam Publishing H	700.00	2015
0000 A	19952	Maharshipatanjalkrit Mahabhashyashaya Lokiktam	Kiran Arya	Satyam Publishing H	150.00	2015
0000 A	19953	Mahila Atyachar, Shoshan avam Hinsa ke Pariprekshya mein Manvadhikar avam Media ki Bhumika	Pratibha Kumari Anand	Satyam Publishing H	900.00	2015
0000 A	19954	Manav Utkarsh avam Yougik Vidhiyan	Anuja Rawat	Satyam Publishing H	600.00	2015
0000 A	19955	Meri Lokpriya Kavitayein	Naresh kumar Udass	Satyam Publishing H	600.00	2015
0000 A	19956	Micro Finance & Public Sector Banks	Vindeshwari, Sanjay,Ajay Kumar	Satyam Publishing H	900.00	2015
0000 A	19957	Nagpuri Sahitya aur Isai Missionary	Nageshwar Singh	Satyam Publishing H	300.00	2015
0000 A	19958	Naxali Jeevan Aur Sangharsh	Prakash Kumar	Satyam Publishing H	400.00	2015
0000 A	19959	Nehru and His Contemporaries : Gandhi, Patel & Bose	Chauhan & Kaur	Satyam Publishing H	400.00	2015
0000A	19960	Patanjal Yog-sutra ke Aadharbhoot Tatva	Indrani	Satyam Publishing H	600.00	2015
0000 A	19961	Persian Gulf: A Quest for Oil & Power	Arun Kumar Dixit	Satyam Publishing H	700.00	2015
0000 A	19962	Prachin Bharat Mein Stri Shiksha : Dasha avam Disha	Mamta Dixit	Satyam Publishing H	600.00	2015
0000 A	19963	Prakrit Subhashit Sangrah Avam Agddatt-Madanmanjari Katha	Ramakant Prasad Srivastava	Satyam Publishing H	400.00	2015
0000 A	19964	Premchand ke Upanyaso mein Gandhivaad	Shashilata	Satyam Publishing H	400.00	2015
0000 A	19965	Professional Networking Sites for Buisness Development	Ankur Gautam	Satyam Publishing H	700.00	2015
0000 A	19966	Rachnakaron ki Srijansheelta	Ramnath Mehta	Satyam Publishing H	700.00	2015
0000 A	19967	Ramdarash Mishr ka Katha Sahitya aur Gramin Jeevan	Praveen Kumar	Satyam Publishing H	700.00	2015
0000 A	19968	Rashte Kabhi Khatm Nahi Hote	Raghvendra Narayana Singh	Satyam Publishing H	400.00	2015
0000 A	19969	Reflections on Some Recent Legal Issue	Siya Ram Shukla	Satyam Publishing H	900.00	2015
0000 A	19970	Research Methedology	U.S. Bist	Satyam Publishing H	700.00	2015
0000 A	19971	Roodan	Ramlala Tiwari	Satyam Publishing H	150.00	2015
0000 A	19972	Samagra Swasthya avam Yougik Vidhiyan	Anuja Rawat	Satyam Publishing H	600.00	2015
0000 A	19973	Sanskrit Anusandhan Manjari	Rajesh Singh	Satyam Publishing H	400.00	2015
0000 A	19974	Sanskrit Sahitya ki aadhunik pravritiyan	Kusum Bhooriya Dutt	Satyam Publishing H	900.00	2015
0000 A	19975	Sanskrit Vangmay mein Paryavaran Chintan	Rajesh Singh	Satyam Publishing H	700.00	2015
0000 A	19976	Saur Janjati mein Shiksha avam Swasthya	Neeraj Goswami	Satyam Publishing H	600.00	2015
0000 A	19977	Sharirik Shiksha	Deepak Singh Bhandari	Satyam Publishing H	400.00	2015
0000 A	19978	Shastriya Nibandh Manjusha	Azad Mishr	Satyam Publishing H	1,000.00	2015
0000 A	19979	Shriharshavirichitam : Naishdhiyacharitam	Niranjan Mishra	Satyam Publishing H	500.00	2015
0000 A	19980	Shrimadabhinavguptpadacharyakrit Vimbprativimbvaad	Saroj Kumar Shukl	Satyam Publishing H	300.00	2015
0000 A	19981	Shrishivaarprnamastu	Ashok Piryabandhu	Satyam Publishing H	400.00	2015
0000 A	19982	Udvikasiya Manav Vigyan	Vibha Agnihotri	Satyam Publishing H	900.00	2015
0000 A	19983	Ulgulan ki Aag	Hare Ram Tripathi	Satyam Publishing H	150.00	2015
0000 A	19984	Unnishvi Shatabadi mein Neel Sanskriti ka Vikas	Rakesh Tiwari	Satyam Publishing H	400.00	2015

0000 A	19985	Vallabhsuktiratnashatkam	Kiran Arya	Satyam Publishing H	150.00	2015
0000 A	19986	Vande Bhartam	Niranjan Mishr	Satyam Publishing H	100.00	2015
0000 A	19987	Vipran Prabandh (Marketing Management)	Bhrigunandan Singh	Satyam Publishing H	1,200.00	2015
0000 A	19988	Wakt ki Dhaar ko Dekho	Naresh kumar Udaas	Satyam Publishing H	400.00	2015
0000A	19989	World Trade Organization and Agricultural Trade in India	S. M. Hossain	Satyam Publishing H	900.00	2015
0000 A	19990	Yatrayein Ek Jeevan Anand	Kundan Singh Aswal	Satyam Publishing H	400.00	2015
0000 A	19991	Yoga and Working Woman	Anuja Rawat	Satyam Publishing H	700.00	2015
0000 A	19992	Abhyaranya: Prof. Sheeldhar Singh	Jitendra Kumar Singh	Satyam Publishing H	700.00	2014
0000 A	19993	Aupnishdic Adhyatam Vigyan	Iswar Bhardwaj	Satyam Publishing H	400.00	2014
0000 A	19994	Basic and Applied Pulmonary Physiology	Syed Amir Ahmad	Satyam Publishing H	700.00	2014
0000 A	19995	Bhartiya Avam Paschatya Kavyashastra	Mridul Joshi	Satyam Publishing H	800.00	2014
0000 A	19996	Bhartiya Navjagaran: Aarop Aur Pratyutar	Akhilesh Kumar	Satyam Publishing H	600.00	2014
0000 A	19997	Bhitar kee aag	Jitendra Nath Pathak	Satyam Publishing H	300.00	2014
0000 A	19998	Chat par Chand Aaya	B. P. Dubey	Satyam Publishing H	150.00	2014
0000 A	19999	Do Took	Sushil Upadhyay	Satyam Publishing H	300.00	2014
0000 A	20000	Dr. Lakshmishankar Mishr 'Nishank' ke Muktak Kavya	Syed Mahfooz Hasan Rizawi	Satyam Publishing H	150.00	2014
0000 A	20001	E. M. Forster's Novels: A study of Artistics Patterns	S. M. Rizwan Ahmad	Satyam Publishing H	700.00	2014
0000 A	20002	Economics of Dairy Cooperatives	Binay Kumar Singh	Satyam Publishing H	700.00	2014
0000 A	20003	Faeday Hi Faeday	Balendushekhar Tiwari	Satyam Publishing H	300.00	2014
0000 A	20004	Foundation of Food and Nutrition	Kiran Angra	Satyam Publishing H	700.00	2014
0000 A	20005	Godan: Ek Mahakavyatmak Upanyas	Jitendra Nath Pathak	Satyam Publishing H	400.00	2014
0000 A	20006	Harivansh Puran avam Jinsenpraneet Harivanshpuran	Siddhnath Khajuriya	Satyam Publishing H	700.00	2014
0000 A	20007	Haryana ke sango mein Nayak nayika Chitran	Meenakshi	Satyam Publishing H	700.00	2014
0000 A	20008	Hindu Avam Jain Kavyon mein Hanuman	Ramakant Prasad Srivastava	Satyam Publishing H	895.00	2014
0000 A	20009	Kathanjali	Madhuri Rajak	Satyam Publishing H	150.00	2014
0000 A	20010	Kavya Saurabham	Prakashchandra Pant	Satyam Publishing H	500.00	2014
0000 A	20011	Kchitiz ke us par	Usha Kalia	Satyam Publishing H	150.00	2014
0000 A	20012	Kchitiz ke us Par	Usha Kalia	Satyam Publishing H	150.00	2014
0000 A	20013	Kedarghati vidhwa Babhoov	Niranjan Mishr	Satyam Publishing H	150.00	2014
0000A	20014	Kyap: Sanrachna Dristi	Chitra	Satyam Publishing H	400.00	2014
0000 A	20015	Maa Aakash kitna Bada hai	Naresh kumar Udaas	Satyam Publishing H	150.00	2014
0000 A	20016	Madhukar Geetam	Ajad Mishra	Satyam Publishing H	500.00	2014
0000 A	20017	Minaron ka Desh	Jitendra Nath Pathak	Satyam Publishing H	300.00	2014
0000A	20018	Modernity and Post-Modernity Debate	Sanjay Kumar Shukla	Satyam Publishing H	700.00	2014
0000 A	20019	Mrityunjai Bharat aur Swami Vivekanand	Ramnath Mehta	Satyam Publishing H	500.00	2014
0000 A	20020	Nagpuri Muhavaron Aur Lokkoktiyoun ka Sahityayik avam Sanskritik Adhhyan	Ashok Kumar Mishra	Satyam Publishing H	600.00	2014
0000 A	20021	Naxalism: Issues, Challenges & Alternative Approaches	Arun Kumar Dixit	Satyam Publishing H	1,300.00	2014
0000 A	20022	Naxalwad: Muddey, Chunautiyan avam Vikalp	Arun & Pankaj	Satyam Publishing H	1,200.00	2014
0000 A	20023	Nutrition for the Family	Kiran Angra	Satyam Publishing H	700.00	2014
0000 A	20024	Pandit Jawaharlal Nehru: His Vision And Mind	Kiran Chauhan & Karamjeet Kaur	Satyam Publishing H	400.00	2014
0000 A	20025	Paryavaran Adhyayn	Ram Dayal Singh	Satyam Publishing H	795.00	2014
0000 A	20026	Paryavaran Pradushan ke Vividh Aayam avam Samadhan	Shyam Vriksha Maurya	Satyam Publishing H	500.00	2014
0000 A	20027	Patanjal Yog Sutra Ka Parichay aur Vaigyanik Adhyatma	Asim Kulshreshtha	Satyam Publishing H	700.00	2014

0000 A	20028	Prayogatmak Sharirik Manav Vigyan	Vibha Agnihotri	Satyam Publishing H	700.00	2014
0000 A	20029	Prof. Ajad Mishr ki Sanskrit Saparya	Ajad Mishra	Satyam Publishing H	700.00	2014
0000 A	20030	Rag Darbari (Punarmulankan)	Balendushekhar Tiwari	Satyam Publishing H	400.00	2014
0000 A	20031	Rastri	Azad Mishr	Satyam Publishing H	500.00	2014
0000 A	20032	Resource Wealth of Himachal Pradesh	Vinod Kumar & Pushpa Thakur	Satyam Publishing H	1,200.00	2014
0000 A	20033	Re-Visiting Nehru	Manpreet & Karamjeet	Satyam Publishing H	700.00	2014
0000 A	20034	Roshani Cheente Huye Shabd	Naresh Kumar Udass	Satyam Publishing H	400.00	2014
0000 A	20035	Rural Non -Farm Sector Employment		Satyam Publishing H	600.00	2014
0000 A	20036	Sanskrit ke Abhinav Rachnadharmi : Acharya Radhavallabh Tripathi	Kusum Bhuriya Dutta	Satyam Publishing H	700.00	2014
0000 A	20037	Sanskrit ke Arvachin Sahitya ke Vikas mein Pt. Premnayan Diwedi ka Yogdan	Risabh Bhardwaj	Satyam Publishing H	1,300.00	2014
0000 A	20038	Seeta : Ek Vishad Gatha	Jitendra Nath Pathak	Satyam Publishing H	300.00	2014
0000 A	20039	Shastra Mimansa	Vednarayan Chowdhary	Satyam Publishing H	500.00	2014
0000 A	20040	Shisupalvadh mai Alnkar Saundrya	Shivbuhsan Sanand Kumar	Satyam Publishing H	500.00	2014
0000 A	20041	Smrtiyon ke Angan Mae	Ramashankar Shrivastava	Satyam Publishing H	400.00	2014
0000 A	20042	Shrimadram Geeta	Sourya Narayan	Satyam Publishing H	400.00	2014
0000 A	20043	The Book of God	Raghavendra Narayan Singh	Satyam Publishing H	500.00	2014
0000 A	20044	The Ineligible Bachelors	Anupam Pathak	Satyam Publishing H	500.00	2014
0000 A	20045	The Relevance of Dr. B. R. Ambedkar's Economic Thoughts	Surendra Singh	Satyam Publishing H	500.00	2014
0000 A	20046	Tribal Development in Post Economic Reforms Period	Dilip Shah	Satyam Publishing H	1,995.00	2014
0000A	20047	Uday Prakash ki Kahaniyon mein Samaj	Reeta Devi	Satyam Publishing H	400.00	2014
0000 A	20048	Utakrist Vichar	Krishna Awasthi	Satyam Publishing H	200.00	2014
0000 A	20049	Vartman Bharat Chunautiyan Aur Sangharsh	Geeta Devi	Satyam Publishing H	400.00	2014
0000 A	20050	Ved, Yagya aur Paryavaran	Surya Narayan Gautam	Satyam Publishing H	500.00	2014
0000 A	20051	Vedon Mai Arthik Chintan	Mahaveer	Satyam Publishing H	500.00	2014
0000 A	20052	Vinayana's World-A story untold...	Vinayana Khurana	Satyam Publishing H	150.00	2014
0000 A	20053	Yog or Yogi	Anuja & Asim	Satyam Publishing H	700.00	2014
0000 A	20054	Nibandhatmak Kavya Prakash (set in 3 Volume)	Niranjan Mishra	Satyam Publishing H	1,500.00	2014
0000 A	20055	A Breif History of Indian Philosophy	Vinod Kumari	Satyam Publishing H	700.00	2013
0000 A	20056	Adhunik Sanskrit Sahitya mae Strotakavya	Ratnakar	Satyam Publishing H	795.00	2013
0000 A	20057	An Economic Study of Public Undertaking Government	Indu Sekhar Pandey	Satyam Publishing H	500.00	2013
0000 A	20058	An Orchard for Life	Raghvendra Narayana Singh	Satyam Publishing H	395.00	2013
0000 A	20059	Anchui Maa	Amar Trinotra	Satyam Publishing H	400.00	2013
0000 A	20060	Andhera Chubhata Hai	Raghvendra Narayana Singh	Satyam Publishing H	400.00	2013
0000 A	20061	Astha	Pramod Chaturvedi	Satyam Publishing H	300.00	2013
0000 A	20062	Atmonnati ke Das Vaidik Som avam Gurumantra Gayatri ki Divya Sadhna	Swami Shreyonand Videhyati	Satyam Publishing H	500.00	2013
0000 A	20063	Atoot Riste	Suresh Prakesh	Satyam Publishing H	400.00	2013
0000 A	20064	Awadhi Geet-Bahar	Suresh Prakash Shukla	Satyam Publishing H	400.00	2013
0000 A	20065	Bahut Jaroori Hai Roti	Suman Shekhar	Satyam Publishing H	400.00	2013
0000 A	20066	Bhartiya Bhasa Darshan	Vijaypal Shastri	Satyam Publishing H	300.00	2013
0000 A	20067	Bhartiya Darshan Samkalin Sandarbh	Bhuvneshwar Nath Ojha	Satyam Publishing H	895.00	2013
0000 A	20068	Bhartiya Sangeet Ke Badalte Parivesh Mein Naitik Mulya	Kiran & Indu	Satyam Publishing H	500.00	2013
0000 A	20069	Bhartiya Sanskriti Ki Aviral Dhara Shri Ganga	Mamta Singh	Satyam Publishing H	400.00	2013

0000 A	20070	Bhartiya Trarkshashtra (Indian Logistics)	Pravin Kumar Gupt	Satyam Publishing H	400.00	2013
0000 A	20071	Bhawaniprasad Mishra Ke Kavya Men Gandhiwadi Chetna Ka Shankhnad	Seema Rani	Satyam Publishing H	400.00	2013
0000 A	20072	Bindo	Amar Trinotra	Satyam Publishing H	400.00	2013
0000 A	20073	Botaldas Ke Bayan	Ramashankar Shrivastava	Satyam Publishing H	400.00	2013
0000 A	20074	Changing face of Rural Woman in Himachal Himalyas	Vijay Kumar Sharma	Satyam Publishing H	700.00	2013
0000 A	20075	Criticism on E.M. Forster : An Evaluation	Yamuna Prasad	Satyam Publishing H	995.00	2013
0000A	20076	Dakshin-Purva Asia ke Sath Bharat ke Vyaparik Sambandh	Nisha Singh	Satyam Publishing H	500.00	2013
0000 A	20077	Dalit Mahilayen	Renu Dewan	Satyam Publishing H	300.00	2013
0000 A	20078	Dharm Meemansa	Karuna	Satyam Publishing H	500.00	2013
0000 A	20079	Folk Inspiration in Contemporary Indian Art	Kiran Angra	Satyam Publishing H	700.00	2013
0000 A	20080	Geet Geeta	Mathura Dubey	Satyam Publishing H	300.00	2013
0000 A	20081	Gum Hoti Larkiyan	Suman Shekhar	Satyam Publishing H	400.00	2013
0000 A	20082	Gunjanmanjaree	Brijesh Kumar Shukla	Satyam Publishing H	150.00	2013
0000 A	20083	Gyan Jyoti Punj	Ashok Piryabandhu	Satyam Publishing H	400.00	2013
0000 A	20084	Haribhadrasoori Krit Vishantivanshika	Indu Kumari	Satyam Publishing H	495.00	2013
0000 A	20085	Hasya Vayang Katha Vatika	Suresh Prakash Shukla	Satyam Publishing H	400.00	2013
0000 A	20086	Hey Janmbhumi	Ashok Piryabandhu	Satyam Publishing H	400.00	2013
0000 A	20087	Hey Ram	Ashok Piryabandhu	Satyam Publishing H	400.00	2013
0000 A	20088	Hindi Ke Teeen Kahanikar Avam unki Kahaniya	Prakash Kumar	Satyam Publishing H	295.00	2013
0000 A	20089	Hindi Natak Aur Rangmanch mein Lok Tatva	Swami Pyari Kora	Satyam Publishing H	1,200.00	2013
0000 A	20090	Human Geography of Tribal Region	Shrimanta Mukhopadhyay	Satyam Publishing H	700.00	2013
0000 A	20091	I Will Sing Eternally	Raghvendra Narayana Singh	Satyam Publishing H	395.00	2013
0000 A	20092	Ikkesweeni Sadi main Mahila Rajnaitik Sashkatikarn	Smritaa	Satyam Publishing H	795.00	2013
0000 A	20093	Impact of Employment Generation Programmes on Rural Development	Shree Chandra Jha	Satyam Publishing H	700.00	2013
0000 A	20094	In Dino	Mridul Joshi	Satyam Publishing H	150.00	2013
0000 A	20095	Manavshastra Ka Parichay(Introduction to Anthropology)	Vibha Agnihotri	Satyam Publishing H	500.00	2013
0000 A	20096	Ishwar Udass Hai	Raghvendra Narayana Singh	Satyam Publishing H	200.00	2013
0000 A	20097	Jeevan Ke Das Sukh avam Unki Prapti ke Vaidik Upay	Surya Narayan Gautan	Satyam Publishing H	400.00	2013
0000 A	20098	Jeewan Ek Moteryan Hai	Heera Nandan	Satyam Publishing H	400.00	2013
0000 A	20099	Kalidas Ki Prem Bhavna	Shriram Tiwari	Satyam Publishing H	500.00	2013
0000 A	20100	Kathasagar	Krishna Chandra	Satyam Publishing H	150.00	2013
0000 A	20101	Kavivar Arsi Prasad Singh : Jeevan Aur Sahitya	Sheeldhar Prasad	Satyam Publishing H	600.00	2013
0000 A	20102	Kis Devta Ki Upasna Karein Ham	Raghvendra Narayana Singh	Satyam Publishing H	200.00	2013
0000 A	20103	Lahron ka Sangharsh	Jitendra Nath Pathak	Satyam Publishing H	300.00	2013
0000 A	20104	Lasra Kutain	Ramashankar Shrivastava	Satyam Publishing H	300.00	2013
0000 A	20105	Lautkar Nahi Jaungi	Naresh kumar Udaas	Satyam Publishing H	200.00	2013
0000 A	20106	Manavshastriya avam Samajshastriya Anusandhan	Vibha Agnihotri	Satyam Publishing H	895.00	2013
0000 A	20107	Parivahan avam Vipran Bhugoal	Ravindra Singh	Satyam Publishing H	995.00	2013
0000 A	20108	Parmeswar se Sakchatkar	Raghvendra Narayana Singh	Satyam Publishing H	795.00	2013
0000 A	20109	Pattern, Prospects and Problems of Development	Anita Sinha	Satyam Publishing H	795.00	2013
0000 A	20110	Physical Anthropology & Human Genetics	Aishwarya Awasthi	Satyam Publishing H	795.00	2013
0000 A	20111	Please Come to my Desk	Deepanjan Paul	Satyam Publishing H	150.00	2013

0000 A	20112	Pragatihashic Manav Shastra	Aishwarya Awasthi	Satyam Publishing H	500.00	2013
0000 A	20113	Pragatisheel Kavita aur Trilochan	Santdutt Sharma	Satyam Publishing H	795.00	2013
0000 A	20114	Pragatiwadi Bhavna Mein Arsi Prasad Singh ka Yogdan	Jitendra Kumar Singh	Satyam Publishing H	400.00	2013
0000 A	20115	Prayogatmak Bhautik Manav Vigyan	Vibha Agnihotri	Satyam Publishing H	500.00	2013
0000 A	20116	Rambriksh Benipuri ke Sahitya main Gramya Jeevan	Payal Kumari	Satyam Publishing H	400.00	2013
0000 A	20117	Rashmi Malhotra ka Kathamak Paridrishya	Rahul	Satyam Publishing H	400.00	2013
0000 A	20118	Saduktishatkam	Kriti Kapoor	Satyam Publishing H	300.00	2013
0000 A	20119	Sangeet Ka Chitra Kala va Murti Kala Par Prabhav (In 2 Vol).	Kaushal Kumari	Satyam Publishing H	3,500.00	2013
0000 A	20120	Sanskrit Sahitya mein Prayavaran	Ratna & Dutta	Satyam Publishing H	500.00	2013
0000 A	20121	Science of Folk Healing and Survival of Mountain Communities	Sushma Sharma	Satyam Publishing H	2,500.00	2013
0000 A	20122	Shades of Darkness (A Noval)	Raghvendra Narayana Singh	Satyam Publishing H	500.00	2013
0000 A	20123	Shrutimanjeeram	Brijesh Kumar Shukla	Satyam Publishing H	150.00	2013
0000 A	20124	Social Costs of Indian Railways	Shree Chandra Jha	Satyam Publishing H	500.00	2013
0000 A	20125	Shrijan Dharm avam Samiksha	Ram Nath Mehta	Satyam Publishing H	600.00	2013
0000A	20126	Shuddhadvet Vedant ka Anusheelan	Indu Kumari	Satyam Publishing H	600.00	2013
0000 A	20127	Swargiya Pandit Shri Sashikant Jha (Smritigrantha)	Sundar Narayan Jha	Satyam Publishing H	995.00	2013
0000 A	20128	The Direction of Central Loans To States	Ajay Kumar	Satyam Publishing H	700.00	2013
0000 A	20129	The Fog Called Life	Ritu Sinha	Satyam Publishing H	300.00	2013
0000 A	20130	Udas Dino ki Kavitayein	Naresh kumar Udaas	Satyam Publishing H	400.00	2013
0000 A	20131	Vaidik Gyan ki Divya Dhara	Swami Shreyonand Videhyati	Satyam Publishing H	500.00	2013
0000 A	20132	Vasant sa Khilkhilate Rahna	Kamlesh Sood	Satyam Publishing H	150.00	2013
0000 A	20133	Vayaharik Patrakarita	Susheel Upadhyay	Satyam Publishing H	400.00	2013
0000 A	20134	Vichobh	Raghvendra Narayana Singh	Satyam Publishing H	400.00	2013
0000 A	20135	Vignettes of Himachal Himalyas (In 2 Vol.)	Vinod & Vijay Kumar	Satyam Publishing H	2,500.00	2013
0000 A	20136	Yahan Tumhara Koi Nahi	Naresh kumar Udaas	Satyam Publishing H	200.00	2013
0000 A	20137	Aakashdeep	Naresh kumar Udaas	Satyam Publishing H	300.00	2012
0000 A	20138	An Introducation to Mathematical Concepts in Economics	Vindeshwari Prasad	Satyam Publishing H	600.00	2012
0000 A	20139	Ashes in the Fire	Syed Sarwar Hussain	Satyam Publishing H	500.00	2012
0000 A	20140	Bandron Ka Pariwar	Pramod Chaturvedi	Satyam Publishing H	200.00	2012
0000 A	20141	Bharat Ke Samudayeek Vikas Karyakram Ki Samasyayen avm Sambhavnayen	Gopal Prasad	Satyam Publishing H	700.00	2012
0000 A	20142	Bhartiya Sanjeet Ka Leekpeetta (Shastra Paksh va Kriyatmak Paksh ka Talmel) Kitna Sarthak	Kiran Angra and Vinita Sood	Satyam Publishing H	500.00	2012
0000 A	20143	Baudh Dharm avam Dalit Chetna	Shyamvriksha Maurya	Satyam Publishing H	400.00	2012
0000 A	20144	Dahshat	Raghvender Narayan Singh	Satyam Publishing H	300.00	2012
0000 A	20145	Dairy Co-operatives & Rural Poverty	Ram Pravesh Singh	Satyam Publishing H	500.00	2012
0000 A	20146	Dynamics of India's Export Performances	Neeraj Kumar Thakur	Satyam Publishing H	700.00	2012
0000 A	20147	Economics of Dairy Farming	G. S. Dokania	Satyam Publishing H	700.00	2012
0000 A	20148	Fizi Men Hindi Prachar Ka Itihas	Netaji Sharma	Satyam Publishing H	400.00	2012
0000 A	20149	Gaon Ke Sapuut	Dinesh Chandra Pandey	Satyam Publishing H	200.00	2012
0000 A	20150	Geeta Ki Prasangikta	Kaptan Singh	Satyam Publishing H	500.00	2012
0000 A	20151	Graham Greene	S. S. Senapati	Satyam Publishing H	500.00	2012
0000 A	20152	Grameen Sansthayein tatha Gramin Netritva	Arun Kumar	Satyam Publishing H	600.00	2012
0000 A	20153	Hastchhep Rashtradharm	Raghvendra Narayana Singh	Satyam Publishing H	300.00	2012

0000 A	20154	Hathyog Swaroop Avam Sadhna	Yogi Adityanath	Satyam Publishing H	300.00	2012
0000A	20155	India of Mahatma Gandhi's Dream	Kiran & Manpreet	Satyam Publishing H	500.00	2012
0000 A	20156	Indo-U.S. Relations	Arun Kumar Dixit	Satyam Publishing H	500.00	2012
0000 A	20157	Integrated Rural Development Programme	P.K. Singh	Satyam Publishing H	500.00	2012
0000 A	20158	Inter-Cast Relationships of Scheduled Castes in a Village	Santosh Kumari	Satyam Publishing H	300.00	2012
0000 A	20159	Inter-State Relations in Ancient India (200 BC to 700AD)	Jai Shankar Thakur	Satyam Publishing H	500.00	2012
0000 A	20160	Kalptaru Ban Jana tum	Suman Shekhar	Satyam Publishing H	150.00	2012
0000 A	20161	Kavita Ki Antaryatra	Mridul Joshi	Satyam Publishing H	400.00	2012
0000 A	20162	Leo Tolstoy	Geeta Gupta	Satyam Publishing H	395.00	2012
0000 A	20163	Mahatma Gandhi Ki Samajik Rajnaitik Avdharna	Rajesh Kumar	Satyam Publishing H	700.00	2012
0000 A	20164	Mahavrat	Suman Shekhar	Satyam Publishing H	300.00	2012
0000 A	20165	Mitti ka Makan	Raghvendra Narayana Singh	Satyam Publishing H	300.00	2012
0000 A	20166	Mrityu, Parlok avm Punarjanam Rahasya	Kundan Singh Aswal	Satyam Publishing H	400.00	2012
0000 A	20167	Muhurtchintamani	Shivlochan Jha	Satyam Publishing H	795.00	2012
0000 A	20168	Panchayat Ki Mahilayein	Renu Diwan	Satyam Publishing H	300.00	2012
0000 A	20169	Panchayati Raj Institution and Emerging Patterns of Women Leadership	Santosh Kumari	Satyam Publishing H	500.00	2012
0000 A	20170	Praman Meemansa	Amit kumar Mishra	Satyam Publishing H	500.00	2012
0000 A	20171	Prapanch Tantram	Subodh Singh	Satyam Publishing H	200.00	2012
0000 A	20172	Premchand Ke Shoshit Dalit Patron Ke Antervedana	Nageshwar Singh	Satyam Publishing H	500.00	2012
0000 A	20173	Prespective of Teaching of English in Multi-lingual Context	Kiran & Onika Dhamij	Satyam Publishing H	500.00	2012
0000 A	20174	Purusharth Ke Prateek Principal Hazarilal Yadav	Rahul	Satyam Publishing H	750.00	2012
0000 A	20175	Rach Do Amar Kahani	Ahok Priyabandhu	Satyam Publishing H	400.00	2012
0000 A	20176	Relevance of Nehru's Thought in Present Scenario	Kiran & Karamjeet	Satyam Publishing H	695.00	2012
0000 A	20177	Sahab Seet Par Nahi Hain	Ramashankar Srivastava	Satyam Publishing H	400.00	2012
0000 A	20178	Sanskrit Kavya Sahitya me Vivekananda	Susheel Pathak	Satyam Publishing H	795.00	2012
0000 A	20179	Silk Industry in India	Bibhuti Nath Jha	Satyam Publishing H	600.00	2012
0000 A	20180	Smritiyon Men Achar Mimansa	Usha Joshi	Satyam Publishing H	500.00	2012
0000 A	20181	Strings of Thoughts	Syed Shah Asghar Hussain	Satyam Publishing H	500.00	2012
0000 A	20182	The Escape and other Stories	Rajesh Kumar	Satyam Publishing H	300.00	2012
0000 A	20183	The Plays of T.S. Eliot	Anindita	Satyam Publishing H	500.00	2012
0000A	20184	The Sea Yonder	Mustapha Bouchareb	Satyam Publishing H	500.00	2012
0000 A	20185	Upnishdo Mein Samaj Darshan	Lalita Kumari	Satyam Publishing H	500.00	2012
0000 A	20186	Upnishdon Me Sanyasyog	Ishwar Bhardwaj	Satyam Publishing H	700.00	2012
0000 A	20187	*Patharon ke Sahar mein kho Gaya Gaon* (Urdu)		Satyam Publishing H	200.00	2012
0000 A	20188	Valmiki Ramayan Aur Ramcharitmanas	Mridul Joshi	Satyam Publishing H	500.00	2012
0000 A	20189	Vidyajyoti	Dinesh Chandra Pandey	Satyam Publishing H	400.00	2012
0000 A	20190	Vishnu Prabhakar : Viyaktitva Aur Krititva	Sudha Malhotra	Satyam Publishing H	700.00	2012
0000 A	20191	Voice from the Margin: The Dalit Face in The Indian English Novel	Rajesh Kumar	Satyam Publishing H	500.00	2012
0000 A	20192	Ye Bikharey Panne	Ramashankar Srivastava	Satyam Publishing H	300.00	2012
0000 A	20193	Atlai -Himalaya : Two Foundationa of Eurasia	Bansal, Gupta & Sergey	Satyam Publishing H	1,500.00	2012
0000 A	20194	Pooja, Upasna Ka Mahatva Aur Dharm Men Roodhiwad	Kundan Singh Aswal	Satyam Publishing H	400.00	2012
0000 A	20195	AAmod Trangini	Niranjan Mishra	Satyam Publishing H	500.00	2011

0000 A	20196	Acharya Hazari Prasad Diwedi Avm Pandit Ramchadra Shukla ke Sahityoitihas mein Sahityeitihasik Chintan	Reena Kumari	Satyam Publishing H	600.00	2011
0000 A	20197	Agyey ke Nari Charitron ka Manovaigyanik Vishleshan	Sunita Kumari	Satyam Publishing H	500.00	2011
0000 A	20198	Agyey Ki Kavya Bhasa Avam Shaili	Malati Sharma	Satyam Publishing H	500.00	2011
0000 A	20199	Andolan Ki Mahilayen	Renu Diwan	Satyam Publishing H	300.00	2011
0000 A	20200	Applied Practical Chemistry	R. K. Shukla	Satyam Publishing H	500.00	2011
0000 A	20201	Ath Gram Shatakam	Niranjan Mishra	Satyam Publishing H	50.00	2011
0000 A	20202	Atha Pramat Kavayam	Niranjan Mishra	Satyam Publishing H	50.00	2011
0000 A	20203	Bache Hote Hain Achhe	Naresh Kumar Udass	Satyam Publishing H	150.00	2011
0000 A	20204	Bhartiya Grameen Arthvyavastha: Addhyan avam Vishleshan	Ugramohan Jha & Rampravesh Singh	Satyam Publishing H	600.00	2011
0000 A	20205	Bhartiya Jeevan Drishti ke Mool Tatva	Priyanka	Satyam Publishing H	400.00	2011
0000 A	20206	Bhartiye avam Pagambari Dahrmo mein Amratva Ki Avdharna	Lalti Mehta	Satyam Publishing H	500.00	2011
0000 A	20207	Baudh Dharm Avam Jain Dharm mein Naitikta ki Avdharana	Bhuvneshwar Nath Ojha	Satyam Publishing H	500.00	2011
0000 A	20208	Despairing Voices	Syed Sarwar Hussain	Satyam Publishing H	500.00	2011
0000 A	20209	Diffrent Strokes	Shanker Dutt	Satyam Publishing H	500.00	2011
0000 A	20210	Glory Be To God	Raghvendra Narayana Singh	Satyam Publishing H	500.00	2011
0000 A	20211	Hamare Sapno ke Hatyare	Naresh Kumar Udass	Satyam Publishing H	200.00	2011
0000 A	20212	Hindi Shbadkosh Parampara mein Jharkhand ka yogdan	Lalita Kumari	Satyam Publishing H	700.00	2011
0000A	20213	Human Resource Management	Vinay kumar Deogharia	Satyam Publishing H	500.00	2011
0000 A	20214	Iya ki Khatoli	Ramashankar Shrivastava	Satyam Publishing H	300.00	2011
0000 A	20215	Jain Tatha Baudh Darshan mein Manavtavaad	Shashi Jha	Satyam Publishing H	500.00	2011
0000 A	20216	Kanto ki Bagiya	Mala Kumari Rana	Satyam Publishing H	200.00	2011
0000 A	20217	Kuch Gajalein, Kuch Geet Hamare	Sandeep	Satyam Publishing H	200.00	2011
0000 A	20218	Kundlini Yog	Rakesh Giri	Satyam Publishing H	300.00	2011
0000 A	20219	Kwhaishaen....A Young Love story	Vinay Niranjan (v@n)	Satyam Publishing H	150.00	2011
0000 A	20220	Maa	Rahul	Satyam Publishing H	150.00	2011
0000 A	20221	Maa Gaon Chorana Nahi Chahati	Naresh Kumar Udass	Satyam Publishing H	400.00	2011
0000 A	20222	Madhyakalin Hindi Kavya ki Samvedna	Avdhesh Kumar	Satyam Publishing H	500.00	2011
0000 A	20223	Manav Chetana	Ishwar Bharadwaj	Satyam Publishing H	600.00	2011
0000 A	20224	Modernization of Indian Villages	Parmanand Jha	Satyam Publishing H	500.00	2011
0000 A	20225	Nirala Ka Kavya Rag se Vidroh Tak	Avdhesh Kumar	Satyam Publishing H	250.00	2011
0000 A	20226	Panchayati Raj Vyavasth Avm Gramin Vikas	Satyendra Kumar	Satyam Publishing H	500.00	2011
0000 A	20227	Pariveshgat Sahityayik Sanskriti ka Anusheelan	Kavita Vihan	Satyam Publishing H	400.00	2011
0000 A	20228	Patharon ke Sahar mein kho Gaya Gaon (Hindi)	Kedar Singh	Satyam Publishing H	150.00	2011
0000 A	20229	Paul Stott and His India	Rajesh Kumar	Satyam Publishing H	795.00	2011
0000 A	20230	Philosophical Ideas of Wittgenstein	Tanooja Tiwari	Satyam Publishing H	500.00	2011
0000 A	20231	Practical Hand Book of Organic Chemistry	R. K. Shukla	Satyam Publishing H	500.00	2011
0000 A	20232	Pranayam	Harshvardhan Goswami	Satyam Publishing H	400.00	2011
0000 A	20233	Punarnirmanadhikarnam	Satyawan Kumar	Satyam Publishing H	500.00	2011
0000 A	20234	Purav Ki Aor	Subodh Singh	Satyam Publishing H	200.00	2011
0000 A	20235	Rick-Sukta Manjusha	Mahaveer	Satyam Publishing H	1,000.00	2011
0000 A	20236	Sanchipta Shrimadbhagvatam	Sujata	Satyam Publishing H	500.00	2011
0000 A	20237	Sanskarik Lokgeeton ka Shastriya Addhyan	Geeta Joshi	Satyam Publishing H	600.00	2011
0000 A	20238	Sanskrit Prabhavit Mahasuvi Avam Sirmori Lok Gathayein	Om Prakash Sharma	Satyam Publishing H	700.00	2011

0000 A	20239	Sathori Hindi Katha Sahitya Mein Dalit Vimarsha Ka Swaroop	Prakash Kumar	Satyam Publishing H	400.00	2011
0000 A	20240	Selected Topics in Molecular Spectroscopy	R. K. Shkla	Satyam Publishing H	500.00	2011
0000 A	20241	Shree Chatanaya Deo	Sujata	Satyam Publishing H	400.00	2011
0000A	20242	Smriti Ekagrata Par Pranayam Ka Prabhav	Brajesh Singh	Satyam Publishing H	500.00	2011
0000 A	20243	Soor Kavya mein Lok Sahitya	Madhuri Rajak	Satyam Publishing H	500.00	2011
0000 A	20244	Shri Rampanchali Aur Shri Ramkriti Mahakavya	Pampa Sen	Satyam Publishing H	700.00	2011
0000 A	20245	Sudhiyon ke Vrindavan	B.P.Dubey	Satyam Publishing H	200.00	2011
0000 A	20246	Swar Yoga	Ganesh & Anjana	Satyam Publishing H	300.00	2011
0000 A	20247	The Poetry of W.H. Auden	Raghvendra Narayana Singh	Satyam Publishing H	500.00	2011
0000 A	20248	The Political Unification of tribals in India	Emmanuel Barle s.j.	Satyam Publishing H	500.00	2011
0000 A	20249	Tulsi Vangmay Anttyakshari	Seeta Vimbra	Satyam Publishing H	400.00	2011
0000 A	20250	Vaidic Ugeen Samajic Arthic avam Dharmik Jeevan	Deepa Gupta	Satyam Publishing H	400.00	2011
0000 A	20251	Vede-manovigyan Meemansa	Rama Kumari	Satyam Publishing H	500.00	2011
0000 A	20252	Vyavsayik Sangathan : Prabandhan avam Prashashan	Bhrigunandan & Anuradha	Satyam Publishing H	995.00	2011
0000 A	20253	Women In Household Management of Tribal Economy	Sahgufta Yasmin	Satyam Publishing H	600.00	2011
0000 A	20254	Yog Avam Ayurveda	Pinki Bhanot	Satyam Publishing H	300.00	2011
0000 A	20255	Yoga Avam Ahar	Ganesh Shankar	Satyam Publishing H	400.00	2011
0000 A	20256	Yug Drashta Kavi Kabir	Avdhesh Kumar	Satyam Publishing H	250.00	2011
0000 A	20257	Shabd Nahi Hain Kavita	Shivdayal Singh	Satyam Publishing H	200.00	2011
0000 A	20258	Astitva ke Shashwat Ayam	Raghvendra Narayana Singh	Satyam Publishing H	500.00	2010
0000 A	20259	Avyay Purash Nirupan	Sundar Narayan Jha	Satyam Publishing H	250.00	2010
0000 A	20260	Azadi ki Mahilaye	Renu Diwan	Satyam Publishing H	250.00	2010
0000 A	20261	Bapu aur Uske Baad	Jitendra Nath Pathak	Satyam Publishing H	300.00	2010
0000 A	20262	Basics of Disaster Management (In 2 Vol)	Shrivastava & Archana	Satyam Publishing H	2,500.00	2010
0000 A	20263	Bhartiya Darshan mein Karm, Gyan aur Moksh	Rita Jha	Satyam Publishing H	450.00	2010
0000 A	20264	Bhartiya Sanskriti aur Lok Prateek	Mamta Singh	Satyam Publishing H	350.00	2010
0000 A	20265	Bhartiye Locktantra Ka Sankat Avam Locknayak Jaiprakash Narayana	Namita Prasad	Satyam Publishing H	500.00	2010
0000 A	20266	Chayavadi Kavya Aur Uske Kaviyo ka Avdaan	Bahadur & Aggarwal	Satyam Publishing H	350.00	2010
0000 A	20267	Concept of God (In Philosophical Theology)	Arun Narayan Bhandari	Satyam Publishing H	450.00	2010
0000 A	20268	Culture Ecology Interface	Pankaj Gupta	Satyam Publishing H	600.00	2010
0000 A	20269	Deep Raag	Nirmal Valiya	Satyam Publishing H	250.00	2010
0000 A	20270	Dharshanik Chintan Ker Vividh Ayam	Sanjay and Sucheta Shukla	Satyam Publishing H	500.00	2010
0000A	20271	Divya Vedamritam	Swami Shreyonand Videhyati	Satyam Publishing H	300.00	2010
0000 A	20272	E.M. Forster : The Women in his Novels	Debashis Mallik	Satyam Publishing H	500.00	2010
0000 A	20273	Feminism and Postcolonialism in Karupabai Satthianadhay	Smriti Singh	Satyam Publishing H	500.00	2010
0000 A	20274	Financial Management : A Study of Automobile in India	Sanjay Kumar Ghosh	Satyam Publishing H	500.00	2010
0000 A	20275	Gender Discrimination and Environment in 21st century	Jagdish Prasad Sharma	Satyam Publishing H	500.00	2010
0000 A	20276	Hindi Manovaigyanik Upanyason mein Asamanya Patra	Rama Kanta	Satyam Publishing H	500.00	2010
0000 A	20277	Hindi ke Anchalik Upanyason ki Sanskritik Chetna	Meltina Toppo	Satyam Publishing H	450.00	2010
0000 A	20278	Khushwant Singh- As a Novelist	Ranjan Kumar	Satyam Publishing H	500.00	2010
0000 A	20279	Kritarjuniya : Ekadash Sarg	Neelima Pathak	Satyam Publishing H	200.00	2010

0000 A	20280	Life Insurance Corporation of India Marketing and Business	Jagdish Prasad Sharma	Satyam Publishing H	750.00	2010
0000 A	20281	Mahangar Mein Awas Chayan ke Samajik, Sanskarik Nirdharak Tatva : Ek Addhyan	Ravindra Bansal	Satyam Publishing H	500.00	2010
0000 A	20282	Management of Consumers Co-Opratiatves	Shree Mohan & Sanjay	Satyam Publishing H	500.00	2010
0000 A	20283	Manavtavaad aur Rajvyavastha	Mayank Murari	Satyam Publishing H	600.00	2010
0000 A	20284	Nath Sampraday mein Yog ka Swaroop	Naresh Kumar Gharu	Satyam Publishing H	500.00	2010
0000 A	20285	Nirmal Valia Ke Kavya ke Vividh Aayam	Rahul	Satyam Publishing H	600.00	2010
0000 A	20286	Pahari tatha Maidani Kchetron mein Satat Shiksha	Shiv Kumar Sharma	Satyam Publishing H	500.00	2010
0000 A	20287	Patanjal Yogsutra Avam Vyasbhasya ka Achar Meemansiya Addhyan	Yogeshwar Dutt	Satyam Publishing H	600.00	2010
0000 A	20288	Paschatya Kavyanusheelan	mridul joshi	Satyam Publishing H	600.00	2010
0000 A	20289	Please Behave Yourself…	Raghvendra Narayana Singh	Satyam Publishing H	300.00	2010
0000 A	20290	Policies & Practices of Personal Management	B. N. Singh	Satyam Publishing H	500.00	2010
0000 A	20291	Postmodern Gandhi in Life and Literature	Muniba Sami	Satyam Publishing H	500.00	2010
0000 A	20292	Pragatiwadi Kaviyon ki Jeevan Drishti	Mansa Devi	Satyam Publishing H	450.00	2010
0000 A	20293	Prechand aur Gaban- Ek Punarmulyankan	Jitendra Nath Pathak	Satyam Publishing H	400.00	2010
0000 A	20294	Premchand ke Katha Sahitya mein Suktiyan	Niyati Kalp	Satyam Publishing H	700.00	2010
0000 A	20295	Radhakrishna's Philosphy of History	S. B. P. Mehta	Satyam Publishing H	500.00	2010
0000 A	20296	Ramayaniya Amritvindu	Vidya Sharda	Satyam Publishing H	695.00	2010
0000 A	20297	Rashtriya Samajik sahayata Karyakramo ka labhukon par Prabhav	Pratima Pathak	Satyam Publishing H	500.00	2010
0000 A	20298	Rashtriya Andolan aur Jharkhand ka Janjatiya Sangharsh	Bharti Jha	Satyam Publishing H	500.00	2010
0000 A	20299	Religious Identity and Prejudice	Renu Dewan	Satyam Publishing H	700.00	2010
0000A	20300	Resource Planning and Economic Development	S. K. Jha	Satyam Publishing H	500.00	2010
0000 A	20301	Rick-Sukta Sangraha	Sangeeta Vidyalankar	Satyam Publishing H	500.00	2010
0000 A	20302	Ruskin Bond Trends and Motifs	Achal Sinha	Satyam Publishing H	395.00	2010
0000 A	20303	Saral Yogasan	Ishwar Bhardwaj	Satyam Publishing H	200.00	2010
0000 A	20304	Shiksha Labdhayate Aavashyak Sanskarah	Veena Vishnoye	Satyam Publishing H	200.00	2010
0000 A	20305	Short Stories of R.K. Narayan : Themes and Techniques	Disha Sharma	Satyam Publishing H	700.00	2010
0000 A	20306	Snehil Shrijan : Shodh Sankalan Kala Ank	Mamta Singh	Satyam Publishing H	350.00	2010
0000 A	20307	The Plays of Sean 'O' Casey	Shalini Agarwal	Satyam Publishing H	500.00	2010
0000 A	20308	The Tribal Soldiers of Mahama Gandhi	Sushil Rajgarhia	Satyam Publishing H	500.00	2010
0000 A	20309	Women Empowerment and Globlisation	Jagdish Sharma	Satyam Publishing H	500.00	2010
0000 A	20310	Women Empowerment in Globalised 21st Century	S.K. Jha	Satyam Publishing H	800.00	2010
0000 A	20311	Yagya Padhhati	Madhu Chopra	Satyam Publishing H	150.00	2010
0000 A	20312	Nirala Sahitya ka Sanskritik Anusheelan	Ashok Kumar Tiwari	Satyam Publishing H	500.00	2010
0000 A	20313	Adwait Vedant (Siddhantbindu ke Aalok mein)	Shyamvriksha Morya	Satyam Publishing H	500.00	2009
0000 A	20314	Agricultural Finance and Commercial Banks	Sadanand Jha	Satyam Publishing H	500.00	2009
0000A	20315	Arvacheen Hindi Natya Vidha	Keerti Sharma	Satyam Publishing H	500.00	2009
0000 A	20316	Baudh Praman Mimansa	Vijaypal Shastri	Satyam Publishing H	250.00	2009

0000 A	20317	Dehradun ke Bhittichitron mein Daiviya Chintan	Varsha Sonker	Satyam Publishing H	500.00	2009
0000 A	20318	Dharohar	Mamta Singh	Satyam Publishing H	500.00	2009
0000 A	20319	Dynamics of Agricultural Development	U. G. Jha & Naresh Jha	Satyam Publishing H	500.00	2009
0000 A	20320	Economic Thoughts of Mahatma Gandhi	Purnima & Shobha	Satyam Publishing H	500.00	2009
0000 A	20321	Fictional Works of Bhabani Bhattacharya	Ashutosh Roy	Satyam Publishing H	495.00	2009
0000 A	20322	Hello! Mai Krishna Bol Raha hun…	Shyamvriksha Maurya	Satyam Publishing H	300.00	2009
0000 A	20323	Human Resource Management: For Public Sector Undertakings	Jayant Kumar Chakraborty	Satyam Publishing H	900.00	2009
0000 A	20324	Impact of Economic Reforms on Co-operative Movement in India	Ugra Mohan Jha	Satyam Publishing H	500.00	2009
0000 A	20325	Issues in Applied Ethics	Vinod Kumari	Satyam Publishing H	500.00	2009
0000 A	20326	Malin Basti Wasiyon ki Samajik avam Arthik Dashayein	Neelam, Meena &Deedar	Satyam Publishing H	450.00	2009
0000 A	20327	Management of Urinary Diseases-An Ayurvedic Approach	S.K. Joshi	Satyam Publishing H	250.00	2009
0000 A	20328	Manavta Aur Mulyaon Ka Charan	Mala Kumari Rana	Satyam Publishing H	150.00	2009
0000 A	20329	Myths and Symbols in Hindu Religion	Bhagawat Rana	Satyam Publishing H	750.00	2009
0000 A	20330	Pandit Deen Dayal Upadhyay ka Rajneetik Chintan	Vinod Chandra Pathak	Satyam Publishing H	600.00	2009
0000 A	20331	Parent Child Relationship and Intelligence Level of Children of Single Parent	Vikram Singh	Satyam Publishing H	500.00	2009
0000 A	20332	Paryavarn Avam Swasthya	Sunil Kumar Joshi	Satyam Publishing H	350.00	2009
0000 A	20333	Personality and Academic Achievements	Madhurima Verma	Satyam Publishing H	350.00	2009
0000 A	20334	Philosophical Reflections: Exploring Classical and Recent Issues	Sanjay Kumar Shukla	Satyam Publishing H	700.00	2009
0000 A	20335	Poverty Alleviation Programmes and Development	Amita Sinha	Satyam Publishing H	500.00	2009
0000 A	20336	Puran Prabhavi Himachali Lok Jeewan	Vidya Sharda	Satyam Publishing H	700.00	2009
0000 A	20337	Regional Inequalities and Fiscal Equalisation in India	Phanindra Kumar Singh	Satyam Publishing H	500.00	2009
0000 A	20338	Soordas Aur Bhartendu	Sunil Kumar Upadhyay	Satyam Publishing H	500.00	2009
0000 A	20339	Television Patrakarita	Shrikant Singh	Satyam Publishing H	650.00	2009
0000 A	20340	The Fiction of Toni Morrison : A Critical Study	Vishnu Kant	Satyam Publishing H	450.00	2009
0000 A	20341	Tulnatmak Dharm Avam Darshan	Shubhra	Satyam Publishing H	500.00	2009
0000 A	20342	Working Stastus of Employees of HEC	Shobha Datta Jha	Satyam Publishing H	500.00	2009
0000 A	20343	Madhumeh Prabandhan Ke liye Yog Avam Prakritik Chikitsa	Rajeev Rastogi	Satyam Publishing H	250.00	2009
0000A	20344	Bharat ke Pramukh Baudh Kendra	Danpal Singh	Satyam Publishing H	800.00	2008
0000 A	20345	Chatron mein Madak Dravyon ka Badhta Prayog avam Roktham	Meena, Neelam & Deedar	Satyam Publishing H	350.00	2008
0000 A	20346	Chitra Mudgal ke Katha Sahitya mein Yugin Chintan	Archana Mishra	Satyam Publishing H	200.00	2008
0000 A	20347	Chuppiyo ka Bayan (Payodhi ki Gazlen)	Laxminarayan 'Payodhi'	Satyam Publishing H	125.00	2008
0000 A	20348	Economics of Banana Plantation	Manindra Kumar Singh	Satyam Publishing H	450.00	2008
0000 A	20349	Gadhya Ke Do Rang	Ashok Priyadarshi	Satyam Publishing H	250.00	2008
0000 A	20350	Gadhyayan	Kamal Kumar Bose	Satyam Publishing H	50.00	2008
0000 A	20351	Geetarth Sangrha: Explanation And Discussion	U. S. Bist	Satyam Publishing H	495.00	2008
0000 A	20352	Globlisation and Gandhian : Approach to Rural Development	A.N. Choudhary	Satyam Publishing H	450.00	2008
0000 A	20353	Haryanvi Lok Geeton ka Paramparik Sambandh : Reet Tatha Geet	Rama Kanta	Satyam Publishing H	350.00	2008

0000 A	20354	Hindi Sahityotihas mein Pustkalayon ki Bhumika	Veena Jha	Satyam Publishing H	350.00	2008
0000 A	20355	J. Krishna Murti : Treatement of Violence	Asha Singh	Satyam Publishing H	250.00	2008
0000 A	20356	Jaishankar Prasad avam Mohan Rakesh ke Natakon mein Prativimbit Yugeen Samasyayein	Swami Pyari Kora	Satyam Publishing H	300.00	2008
0000 A	20357	Katiyeshtikdeepakah	Sundar Narayan Jha	Satyam Publishing H	350.00	2008
0000 A	20358	Kavyagandha	Shivnarayan	Satyam Publishing H	35.00	2008
0000 A	20359	Khetihar Majdooron ki Samajik, Arthik Dasha : Ek Addhyan	Daman Chandra Mishra	Satyam Publishing H	350.00	2008
0000 A	20360	Mahadevi Kavya Mein Prakritik Vimb	Champa Singh	Satyam Publishing H	500.00	2008
0000 A	20361	Meditation : The Key to Self Discover	Yogi Udai	Satyam Publishing H	350.00	2008
0000 A	20362	Natural Clamities in India	Mahendra Singh	Satyam Publishing H	400.00	2008
0000 A	20363	Novels of Toni Morrison : Man-Woman Relationship	Abdul Ahad	Satyam Publishing H	495.00	2008
0000 A	20364	Paryavaran Shiksha	Jasveer Singh Malik	Satyam Publishing H	500.00	2008
0000 A	20365	Patanjalyog -Nathyog: Parampara, Darshan, Sadhana Avam Vaishiatya	Bharti Singh	Satyam Publishing H	400.00	2008
0000 A	20366	Rashtriya Kavya Dhara ke Kavi Nishank	Savita Mohan	Satyam Publishing H	200.00	2008
0000 A	20367	Rekhi Sukhno ka Sagar	Amrit Prasad	Satyam Publishing H	350.00	2008
0000 A	20368	Rural Credit in India	Prakash Chandra Deogharia	Satyam Publishing H	450.00	2008
0000 A	20369	Samkaleen Hindi Kahani Ko Himachal Ka Yogdan	Jogindra Yadav	Satyam Publishing H	500.00	2008
0000 A	20370	Sankhya Yog Darshan	Sangeeta Vidyalankar	Satyam Publishing H	600.00	2008
0000 A	20371	Shabdo ke Kchitiz se	Mridul Joshi	Satyam Publishing H	300.00	2008
0000 A	20372	Upanyaskar Nagarjun	Asha Gautam	Satyam Publishing H	450.00	2008
0000A	20373	Vividha (Jeevan ka Sach)	Deepa Joshi	Satyam Publishing H	200.00	2008
0000 A	20374	Yashpal Ke Katha Sahitya Mein Nari Purush Sambandh	Shashibala Mishra	Satyam Publishing H	300.00	2008
0000 A	20375	Yoga and Moral Value	Ganesh & Nitin	Satyam Publishing H	695.00	2008
0000 A	20376	Contemporary Indian : An Economic Perspective	Srivastava & Archana	Satyam Publishing H	600.00	2008
0000 A	20377	Panchayati Raj and Mobilization of Weaker Section	Deoghariya & Ashok	Satyam Publishing H	450.00	2008
0000 A	20378	Upnishdon ke Swar	Madhu Chopra	Satyam Publishing H	300.00	2008
0000 A	20379	Aacharya Nand Dulare Bajpayee : Beesvi Sadi ke Sameekchak	Tanooja Chaudhary	Satyam Publishing H	250.00	2007
0000 A	20380	Bharat-Pakistan Samband : Ek Naveen Pariprekshya	Amit Kumar Singh	Satyam Publishing H	400.00	2007
0000 A	20381	Bhartiya Rastriya Andolan mein Lokmanya Baal Gangadhar Tilak ka Yogdaan	Sudha Kulshreshtha	Satyam Publishing H	500.00	2007
0000 A	20382	Computer Aur Media	Bhagvandev Pandey	Satyam Publishing H	350.00	2007
0000 A	20383	Contemporary of Afro-American Literature : A Study of Man and Society	Mani Sinha	Satyam Publishing H	395.00	2007
0000 A	20384	Dharmik Anusthano Me Prayukta Padpon ki Vaigyanik Aur Vivechan	Divakar Bebani	Satyam Publishing H	1,000.00	2007
0000 A	20385	Hum Ho Gaye Arth ki Talash mein	Mridul Joshi	Satyam Publishing H	200.00	2007
0000 A	20386	Hindi Prahasan Parampara aur Roop Vidhan	Rashmi Rekha Pandey	Satyam Publishing H	595.00	2007
0000 A	20387	Katha Bharati	Reeta & Bahadur	Satyam Publishing H	250.00	2007
0000 A	20388	Kumaouni Ka Bhasha Vaigyanik Addhyan	Bhavani Dutt Kandpal	Satyam Publishing H	1,200.00	2007
0000 A	20389	Mahabharat Men Sankhya Darshan	Meera Modi	Satyam Publishing H	400.00	2007
0000 A	20390	Mahadevi Verma ka Visheshan Vidhan	Sapna Pandey	Satyam Publishing H	350.00	2007
0000 A	20391	Mahamantra Gayatri Ki Divya Sadhana	Swami Shreyonand Videhyati	Satyam Publishing H	250.00	2007
0000 A	20392	Mental Health and Diabetes	Deepesh Chand Prasad	Satyam Publishing H	495.00	2007

0000 A	20393	Mujhe Chand Chuna Hain	Shyamvriksha Maurya	Satyam Publishing H	400.00	2007
0000 A	20394	Nibandhana	Mridul Joshi	Satyam Publishing H	300.00	2007
0000 A	20395	Patiyala Darbar ka Hindi Niti Sahitya	Neeraj Mohan	Satyam Publishing H	450.00	2007
0000 A	20396	Prachin Bharat mein Aarthik Sansthano ka Vikas	Deepa Gupta	Satyam Publishing H	450.00	2007
0000 A	20397	Role of Women Journalism in Socio - Political Field	Seema Verma	Satyam Publishing H	200.00	2007
0000 A	20398	Sanatan Dharm mein Hindu Muslim Ekta aur Gandhi	Rakesh & Naresh	Satyam Publishing H	795.00	2007
0000 A	20399	Sangeet Mimansa	Mridul Joshi	Satyam Publishing H	795.00	2007
0000 A	20400	Sathotter Hindi ke Mithkiye Khand kavyo ka Shilp Vidhan	Sugandh Pandey	Satyam Publishing H	500.00	2007
0000 A	20401	Vedic Yajna Therapy	Dinesh Chandra Shastri	Satyam Publishing H	300.00	2007
0000A	20402	Yagyavalkya Smriti ka Vyavharik avam Saidhantik Paksh	Rajeev Nayan	Satyam Publishing H	795.00	2007
0000 A	20403	Yog Jeevan Paddhati	Swami Muktanand puri ji	Satyam Publishing H	450.00	2007
0000 A	20404	Yoga Psychotherapy and Its Applications	Ganesh Shankar	Satyam Publishing H	300.00	2007
0000 A	20405	Nibandh Bharti	Jung Bahadur Pandey	Satyam Publishing H	100.00	2007
0000 A	20406	Aacharya Shankar aur Sant Kabir	Babita Maurya	Satyam Publishing H	500.00	2006
0000 A	20407	Adhunik Kavita ki Antaryatra	Tanooja Chaudhary	Satyam Publishing H	200.00	2006
0000 A	20408	Ashatang Yoga in Relation to Holistic Health	P.K. Mallappa & Ganesh	Satyam Publishing H	450.00	2006
0000 A	20409	Backward Caste Politics : A study of Socio-Political Mobilit	Jyotsna Sharma	Satyam Publishing H	450.00	2006
0000 A	20410	Bharat ke Samajik avam Dharmik Jeevan mein Arya Samaj ka Yogdaan	Madhu Chopra	Satyam Publishing H	450.00	2006
0000 A	20411	Bhartiya Addhyatmik Pristhab-Bhumi mein Gadhwali Lok Sangeet	Tushthi Maithani	Satyam Publishing H	795.00	2006
0000 A	20412	Jain Niti Avam Samaj Darshan	Pravin Kumar Gupt	Satyam Publishing H	500.00	2006
0000 A	20413	Jain Tatva Mimansa avam Syadvad	Pramod Kumar	Satyam Publishing H	200.00	2006
0000 A	20414	Lok Sangeet mein Seemavart Kchetro ka Yogdaan	Sunita Siwach	Satyam Publishing H	450.00	2006
0000 A	20415	Lokgeeton mein Naad Saundarya	Pushpa Sharma	Satyam Publishing H	500.00	2006
0000 A	20416	Purushmedhyagyasya Samikshatmakamadhyanam	Sunder Narayan Jha	Satyam Publishing H	425.00	2006
0000 A	20417	Rachnadharmita ke Vividh Aayam avam Madhya Pradesh	Tanooja Chaudhary	Satyam Publishing H	300.00	2006
0000 A	20418	Red Cross : A seed in Magnitude	K.N.P. Srivastava	Satyam Publishing H	795.00	2006
0000 A	20419	Samaj Darshan aur Rajneeti	Shyamvriksha Maurya	Satyam Publishing H	600.00	2006
0000 A	20420	Sanshay ki ek Raat : Parampara aur Aadhunikta	Alka Dhanpat	Satyam Publishing H	200.00	2006
0000 A	20421	Scientific Investigation of Yogic Practices	Usha Lohan	Satyam Publishing H	350.00	2006
0000 A	20422	Shabd Darshan	Sandhya Sati	Satyam Publishing H	400.00	2006
0000 A	20423	Ved Mimansa : Ek Parisheelan	Dinesh Chandra Shastri	Satyam Publishing H	300.00	2006
0000 A	20424	Yog Vigyan Pradeepika	Vijaypal Shastri	Satyam Publishing H	395.00	2006
0000 A	20425	Dramatic Theory and Practice of T.S. Eliot	K.S. Mishra	Satyam Publishing H	450.00	2006
0000 A	20426	Adwait Vedant avam Kashmir Saiv Adwaitvaad	Vishambhar Nath Dwivedi	Satyam Publishing H	300.00	2005
0000 A	20427	Anungunj	K.N.P. Srivastava	Satyam Publishing H	150.00	2005
0000 A	20428	Bharat mein Samoohgaan : Parampara avam Swaroop	Sashi Kaliya	Satyam Publishing H	500.00	2005
0000 A	20429	Bhartiya Loknrityon mein Haryan aur Rajasthan	Neeraj Mohan	Satyam Publishing H	500.00	2005
0000 A	20430	Bhartiya Lok Sangeet mein Haryana ka Yogdaan	Ramakanta	Satyam Publishing H	300.00	2005
0000A	20431	Bhisma Sahney : A Study of his Play	Sandhya Tripathi	Satyam Publishing H	300.00	2005
0000 A	20432	Buddhism and Symbol Worship	Sinha & Rakesh	Satyam Publishing H	350.00	2005
0000 A	20433	Conceptual Devlopment in Children	Rekha Sapra	Satyam Publishing H	300.00	2005
0000 A	20434	Electronic Media aur Baal Vikas	Yogesh Kumar Pandey	Satyam Publishing H	350.00	2005

0000 A	20435	Geetartha Sangraha	Shastri and Bharadwaj	Satyam Publishing H	700.00	2005
0000 A	20436	Hath Yoga for Human Health	Nitin & Ganesh	Satyam Publishing H	425.00	2005
0000 A	20437	Kavya Kunjam	Niranjan Mishra	Satyam Publishing H	250.00	2005
0000 A	20438	Krukkchetra ka Mithakiya Chintan	Renu Maheshwari	Satyam Publishing H	200.00	2005
0000 A	20439	Management and Redemption of Public Dept in India	Urmila Khanduri	Satyam Publishing H	400.00	2005
0000 A	20440	Mark Akenside- As a Pre-Romantic Poet	Sunil Kumar	Satyam Publishing H	395.00	2005
0000 A	20441	Mujhe Chand Chahiye	Seema Vaishya	Satyam Publishing H	250.00	2005
0000 A	20442	Patanjal Yog avam Nath Yog	Surakshit Goswami	Satyam Publishing H	600.00	2005
0000 A	20443	Population Problems : A Global Perspective	R.D. Sharma	Satyam Publishing H	250.00	2005
0000 A	20444	Prachin Bharat mein Dharmik Sahishurta	Rakesh Sharma	Satyam Publishing H	500.00	2005
0000 A	20445	Purano mein Shrishthi avam Pralaya	Krishna Chandra	Satyam Publishing H	350.00	2005
0000 A	20446	Pustakalaya aur Aadhunk Samaj	Mangeram, Ramchandra & Ajay Kumar Srivastava	Satyam Publishing H	250.00	2005
0000 A	20447	Revolution in the Philosophy of Edmund Husserl	Sanjay Kumar Shukla	Satyam Publishing H	700.00	2005
0000 A	20448	Trivikrambhattvirachic Madalasa Champu	Niranjan Mishra	Satyam Publishing H	500.00	2005
0000 A	20449	Tulsi Sahitya Mein Charitra Sambandhi Avdharana	Renu Maheshwari	Satyam Publishing H	450.00	2005
0000 A	20450	Uddhavgeeta Mein Bhaktiyog Darshan	Pramod Kumar Yogarthi	Satyam Publishing H	600.00	2005
0000 A	20451	Vaidik Upma Kosh	Dinesh Chandra Shastri	Satyam Publishing H	700.00	2005
0000 A	20452	Working Women & Care of the Aged	Poornima Jain	Satyam Publishing H	350.00	2005
0000 A	20453	Manas Manthan	K.N.P. Srivastva	Satyam Publishing H	700.00	2005
0000 A	20454	Adhyatama Siddhant	Trilok Chandra	Satyam Publishing H	150.00	2004
0000 A	20455	Janmadhyam Kanoon avam Uttardayitva	Shrikant Singh	Satyam Publishing H	350.00	2004
0000 A	20456	Mulk Raj Anand's Shorter Fiction : A Study of his Vision	R.V. Singh	Satyam Publishing H	495.00	2004
0000 A	20457	Poorva Sabarkar Charitam	Kunwar Narendra Pratap Singh	Satyam Publishing H	500.00	2004
0000 A	20458	Ramdarsh Mishr ke Upanyaso Ki Vaicharik Prishtha Bhumi	Seema Vaishya	Satyam Publishing H	450.00	2004
0000 A	20459	Sampreshan Pratiroop avam Siddhant	Shrikant Singh	Satyam Publishing H	450.00	2004
0000A	20460	James Mathew Barrie : Maker of Myth	Nirupama Sinha	Satyam Publishing H	300.00	2003
0000 A	20461	The Plays of Rabindra Nath Tagore	Beena Agarwal	Satyam Publishing H	395.00	2003
0000 A	20462	Regveda Samhita with the Padapatha & Sayana's Commentary	N.S. Sontakke, Dr. C.G. Kashikar	Vaidika Samshodhan	2,805.00	
0000 A	20463	Taittiriya Samhita of Bhatta Bhaskara and Sayana	N.S. Sontakke, Dr. T.N. Dharmadhikari	Vaidika Samshodhan	3,227.00	
0000 A	20464	Srautakosa-Sanskrit Section	C.G. Kashikar	Vaidika Samshodhan	1,105.00	
0000 A	20465	Avesta in Devanagari	M.F. Kanga, N.S. Sontakke	Vaidika Samshodhan	555.00	
0000 A	20466	Eighteen Principal Upanisads	V.P. Limaye, R.D. Vadekar	Vaidika Samshodhan	350.00	
0000 A	20467	Bharadvaja Srauta Sutra	C.G. Kashikar	Vaidika Samshodhan	650.00	
0000 A	20468	Rksukta-Vaijayanti	H.D. Velankar	Vaidika Samshodhan	790.00	
0000 A	20469	Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts	Dr. Bhagyalata Pataskar, Sunanda Abhyankar	Vaidika Samshodhan	1,869.00	
0000 A	20470	Katyayana Sulba Sutra	S.D. Khadilkar	Vaidika Samshodhan	100.00	
0000 A	20471	Geometry According to Sulba Sutra	Dr. R.P. Kulkarni	Vaidika Samshodhan	100.00	
0000 A	20472	Golden Jubilee Volume	Dr. T.N. Dharmadhikari	Vaidika Samshodhan	125.00	
0000 A	20473	Rgveda Sara by Vinoba Bhave	Dr. M.A. Mehendale	Vaidika Samshodhan	250.00	
0000 A	20474	Agnihotra	M.S. Parakhe	Vaidika Samshodhan	25.00	
0000 A	20475	Mimamsa Uddharana Kosa	Shriman Dhannalaji Agarwal	Vaidika Samshodhan	125.00	

0000 A	20476	Agnimile (in Marathi)	M.S. Parakhe	Vaidika Samshodhan	6.50	
0000 A	20477	Kanva Samhita	B.R. Sharma	Vaidika Samshodhan	1,311.00	
0000 A	20478	Avesta Reader	M.F. Kangal	Vaidika Samshodhan	125.00	
0000 A	20479	Yajnayudhani	T.N. Dharmadhikari	Vaidika Samshodhan	130.00	
0000 A	20480	Gatha Zaruthustra(मराठी)	Dr. M.A. Mehendale	Vaidika Samshodhan	200.00	
0000 A	20481	Vacaspatyam	Saroja Bhate & Dr. Madhav Deshpande Bhate	Vaidika Samshodhan	200.00	
0000 A	20482	Reflections on the Taittiriya Brahmana	Bhagyalata Pataskar	Vaidika Samshodhan	150.00	
0000 A	20483	Understanding the Vedas	Bhagyalata Pataskar	Vaidika Samshodhan	210.00	
0000 A	20484	Maitrayani Padapatha : Study	Bhagyashree Bhagwat	Vaidika Samshodhan	280.00	
0000 A	20485	Studies on Veda and Avesta	Bhagyalata Pataskar, Bhagyashree Bhagwat	Vaidika Samshodhan	170.00	
0000 A	20486	Maitrayani Smhita : Ritual Philosply	T.N. Dharmadhikari	Vaidika Samshodhan	685.00	
0000 A	20487	The Aranyaka-s (A Critical Study)	Indu Deshpande	Vaidika Samshodhan	300.00	
0000 A	20488	Kalpa-Vedanga : Origin & Dev.	Bhagyashree Bhagwat	Vaidika Samshodhan	170.00	
0000A	20489	The Katharanyakam	Bhagyalata Pataskar	Vaidika Samshodhan	120.00	
0000 A	20490	Studies on Siksas and the Pratisakhya	Bhagyalata Pataskar	Vaidika Samshodhan	450.00	
0000 A	20491	The Four Sacred Prayers of the Avesta	Bhagyalata Pataskar	Vaidika Samshodhan	140.00	
0000 A	20492	The Full-moon and new moon Sacrifices of the Katha Sakha	P.D. Nawathe	Vaidika Samshodhan	300.00	
0000 A	20493	The Studies in the Aranyaka	Bhagyalata Pataskar	Vaidika Samshodhan	550.00	
0000 A	20494	The Directory of the Indological Research	Dr. Bhagyalata Pataskar	Vaidika Samshodhan	400.00	
0000 A	20495	Yajnasambhara, Paribhasa, Ritual & Myths	Dr. Bhagyashree Bhagwat	Vaidika Samshodhan	600.00	
0000 A	20496	The Astadhyayi of Panini	J.A.F. Roodbergen	Vaidika Samshodhan	240.00	
0000 A	20497	Pavitresti	Bhagyalata Pataskar	Vaidika Samshodhan	300.00	
0000 A	20498	The Studies in Chandahsastra	Bhagyalata Pataskar	Vaidika Samshodhan	430.00	
0000 A	20499	The Agnyadheya of the Katha Sakha	P.D. Nawathe	Vaidika Samshodhan	180.00	
0000 A	20500	The Concept of Santi	Bhagyashree Bhagwat	Vaidika Samshodhan	120.00	
0000 A	20501	The Astadhyayi of Panini	J.A.F. Roodbergen	Vaidika Samshodhan	150.00	
0000 A	20502	डॉ. श्रीधर व्यंकटेश केतकर संपादित महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश	Bhagyalata Pataskar	Vaidika Samshodhan	700.00	
0000 A	20503	Verbal Forms of the Rgveda : Mandala II	Shailaja Shashikant katre	Vaidika Samshodhan	450.00	
0000 A	20504	के. विश्वनाथ–वामन–देवकृतो ग्रन्थः वैदिक पद्विज्ञानम्	Bhagyalata Pataskar	Vaidika Samshodhan	450.00	
0000 A	20505	Ekaksari Baithaparibhasa	Bhagyalata Pataskar	Vaidika Samshodhan	225.00	
0000 A	20506	श्रीशंकराचार्यविरचित विवेकचूड़ामणि	Supriya Aashish Mahajan	Vaidika Samshodhan	600.00	
0000 A	20507	The Vajapeya of the Katha Sakha	P.D. Navathe	Vaidika Samshodhan	200.00	
0000 A	20508	श्रीशंकराचार्यविरचित विवेकचूड़ामणि	श्रीशंकराचार्यविरचित विवेकचूड़ामणि	श्रीशंकराचार्यविरचित विवेकचूड़ामणि		
0000 A	20509	रामकृष्ण परमहंस	रोमाँ रोलाँ	लोकभारती प्रकाशन, इलाहबाद	275.00	
0000 A	20510	विवेकानन्द	रोमाँ रोलाँ	लोकभारती प्रकाशन, इलाहबाद	175.00	
0000 A	20511	उत्तरयोगी (श्री अराविन्द : जीवन और दर्शन)	शिवप्रसाद सिंह	लोकभारती प्रकाशन, इलाहबाद	450.00	
0000 A	20512	महर्षि दयानन्द	यदुवंश सहाय	लोकभारती प्रकाशन, इलाहबाद	300.00	
0000 A	20513	चैतन्य महाप्रभु	अमृतलाल नागर	लोकभारती प्रकाशन, इलाहबाद	175.00	
0000 A	20514	आदि शंकराचार्य	जयराम मिश्र	लोकभारती प्रकाशन, इलाहबाद	390.00	
0000 A	20515	गुरू नानकदेव : जीवन और दर्शन	जयराम मिश्र	लोकभारती प्रकाशन, इलाहबाद	350.00	
0000 A	20516	मय्रादा पुरूषोत्तम भगवान राम : जीवन और दर्शन	जयराम मिश्र	लोकभारती प्रकाशन, इलाहबाद	350.00	
0000 A	20517	श्री रामभक्त शक्तिपुंज हनुमान	जयराम मिश्र	लोकभारती प्रकाशन, इलाहबाद	300.00	

0000A	20518	तुलसी के हनुमान	श्रीराम मेहरोत्रा	लोकभारती प्रकाशन, इलाहबाद	600.00	
0000 A	20519	लीला पुरूषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण	जयराम मिश्र	लोकभारती प्रकाशन, इलाहबाद	395.00	
0000 A	20520	स्वामी रामतीर्थ : जीवन और दर्शन	जयराम मिश्र	लोकभारती प्रकाशन, इलाहबाद	500.00	
0000 A	20521	नानक वाणी	जयराम मिश्र	लोकभारती प्रकाशन, इलाहबाद	950.00	
0000 A	20522	श्री रामचरितमानस (लोकभारती टीका)	योगेन्द्र प्रताप सिंह	लोकभारती प्रकाशन, इलाहबाद	1,000.00	
0000 A	20523	विनय पत्रिका (सटीक)	योगेन्द्र प्रताप सिंह	लोकभारती प्रकाशन, इलाहबाद	595.00	
0000 A	20524	प्रथम सोपान श्रीरामचरितमानस (बाल काण्ड)	योगेन्द्र प्रताप सिंह	लोकभारती प्रकाशन, इलाहबाद	395.00	
0000 A	20525	द्वितीय सोपान श्रीरामचरितमानस (अयोध्या काण्ड)	योगेन्द्र प्रताप सिंह	लोकभारती प्रकाशन, इलाहबाद	495.00	
0000 A	20526	सप्तम सोपान श्रीरामचरितमानस (उत्तर काण्ड)	योगेन्द्र प्रताप सिंह	लोकभारती प्रकाशन, इलाहबाद	195.00	
0000 A	20527	पंचम सोपान श्रीरामचरितमानस (सुन्दर काण्ड)	योगेन्द्र प्रताप सिंह	लोकभारती प्रकाशन, इलाहबाद	125.00	
0000 A	20528	षष्ठ सोपान श्रीरामचरितमानस (लंका काण्ड)	योगेन्द्र प्रताप सिंह	लोकभारती प्रकाशन, इलाहबाद	325.00	
0000 A	20529	रामकथा इन इंडियन लैंग्वेज	योगेन्द्र प्रताप सिंह	लोकभारती प्रकाशन, इलाहबाद	600.00	
0000 A	20530	लीला और भक्तिरस	योगेन्द्र प्रताप सिंह	लोकभारती प्रकाशन, इलाहबाद	350.00	
0000 A	20531	लीला रामयण	भानुशंकर मेहता	लोकभारती प्रकाशन, इलाहबाद	550.00	
0000 A	20532	कर्म संन्यासी कृष्ण	झुन्नीलाल वर्मा	लोकभारती प्रकाशन, इलाहबाद	600.00	
0000 A	20533	Ramcharitmanas : Ocean of Science	S.P. Gautam	Lokbharti Prakashn, Illahabad	550.00	
0000 A	20534	उभय प्रबोधक रामायण	भगवतीप्रसाद मिश्र	लोकभारती प्रकाशन, इलाहबाद	125.00	
0000 A	20535	चित्त बसें महावीर (तीर्थकर महावीर : जीवन और दर्शन)	प्रा. प्रेम सुमन जैन	लोकभारती प्रकाशन, इलाहबाद	150.00	
0000 A	20536	भगवान महावीर एवे जैन दर्शन	महावीर सरन जैन	लोकभारती प्रकाशन, इलाहबाद	375.00	
0000 A	20537	शिरडी साई बाबा : दिव्य महिमा	गणपतिचनद्र गुप्त	लोकभारती प्रकाशन, इलाहबाद	190.00	
0000 A	20538	श्रीसत्य साई बाबा (व्यक्तित्व और संदेश)	गणपतिचनद्र गुप्त	लोकभारती प्रकाशन, इलाहबाद	275.00	
0000 A	20539	स्वामी राम : जीवन और दर्शन	र.श.केलकर	लोकभारती प्रकाशन, इलाहबाद	350.00	
0000 A	20540	मानवपुत्र ईसा : जीवन और दर्शन	डॉ. रघुवंश	लोकभारती प्रकाशन, इलाहबाद	300.00	
0000 A	20541	आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष	मधुरिमा सिंह	लोकभारती प्रकाशन, इलाहबाद	300.00	
0000 A	20542	ब्रह्म, जीव, जगत और माया	राजदेव सिंह	लोकभारती प्रकाशन, इलाहबाद	100.00	
0000 A	20543	ईश्वर, स्वतंत्रता ओर अमरत्व	श्यामकिशोर सेठ, नीलिमा मिश्रा	लोकभारती प्रकाशन, इलाहबाद	450.00	
0000 A	20544	भारतीय धर्म व्यवस्था	वाचस्पति गैरोला	लोकभारती प्रकाशन, इलाहबाद		
0000 A	20545	ज्ञान और कर्म (ईशावास्य–अनुवचन)	विष्णुकान्त शास्त्री	लोकभारती प्रकाशन, इलाहबाद	325.00	
0000 A	20546	भक्ति और शरणागति	विष्णुकान्त शास्त्री	लोकभारती प्रकाशन, इलाहबाद	195.00	
0000A	20547	हिन्दुओं के व्रत, पर्व ओर त्यौहार	रामप्रताप त्रिपाठी शास्त्री	लोकभारती प्रकाशन, इलाहबाद	350.00	
0000 A	20548	उपनिषद् की कहानियाँ	रामप्रताप त्रिपाठी शास्त्री	लोकभारती प्रकाशन, इलाहबाद	300.00	
0000 A	20549	सुबोध उपनिषत्सार	पुरूषोत्तम शास्त्री फड़के	लोकभारती प्रकाशन, इलाहबाद	100.00	
0000 A	20550	भक्ति सिद्धान्त	आशा गुप्त	लोकभारती प्रकाशन, इलाहबाद	300.00	
0000 A	20551	तीर्थो में तीर्थराज प्रयाग	श्रीप्रकाश	लोकभारती प्रकाशन, इलाहबाद	250.00	

0000 A	20552	महातीर्थ के अन्तिम यात्री (ल्हासा–कैलाशनाथ–मानसरोवर)	विमल दे	लोकभारती प्रकाशन, इलाहबाद	375.00	
0000 A	20553	हरि मन्दिर	हरनाम दास सहराई	लोकभारती प्रकाशन, इलाहबाद	250.00	
0000 A	20554	सहज गीता	अरविन्द कुमार	राधाकृष्ण प्रकाशन	200.00	
0000 A	20555	योग वासिष्ठ	रूपां. डॉ. बदरीनाथ कपूर	राधाकृष्ण प्रकाशन	500.00	
0000 A	20556	रामायनी : लक्ष्मन जी की सत्त परीक्षा	विजय चौरसिया	राधाकृष्ण प्रकाशन	300.00	
0000 A	20557	प्रेम से जमा करूँ	आदर्श अग्रवाल	राधाकृष्ण प्रकाशन	250.00	
0000 A	20558	भज ले मेरे मन		राधाकृष्ण प्रकाशन	250.00	
0000 A	20559	श्रीशंकरदिग्विजय (संस्कृत, गुजराती)		शंकराचार्य द्वारका शारदापीठ, द्वारका		
0000 A	20560	बालखिल्यपुराणन विवेचनात्मक अने सांस्कृतिक अभ्यास		शंकराचार्य द्वारका शारदापीठ, द्वारका		
0000 A	20561	विमर्श : (संस्कृत)		शंकराचार्य द्वारका शारदापीठ, द्वारका		
0000 A	20562	सौन्दर्य–लहरी (संस्कृत, हिन्दी, गुजराती, आंग्लभाषा सहितम)		शंकराचार्य द्वारका शारदापीठ, द्वारका		
0000 A	20563	त्रिपुरसुन्दरी नित्याराधनस्तोत्राणि		शंकराचार्य द्वारका शारदापीठ, द्वारका		
0000 A	20564	आद्यशंकराचार्य'जीवन–परिचय (त्रिभाषा हिन्दी, गुजराती, आंग्ल में)		शंकराचार्य द्वारका शारदापीठ, द्वारका		
0000 A	20565	दिव्य–द्वारका भव्य–शारदापीठ		शंकराचार्य द्वारका शारदापीठ, द्वारका		
0000 A	20566	Mathamnaya Setu or Mahanushasanam		शंकराचार्य द्वारका शारदापीठ, द्वारका		
0000 A	20567	भज–गोविन्दम्		शंकराचार्य द्वारका शारदापीठ, द्वारका		
0000 A	20568	गुरू दीक्षा–क्रम		शंकराचार्य द्वारका शारदापीठ, द्वारका		
0000 A	20569	परमार्थ–पथ		शंकराचार्य द्वारका शारदापीठ, द्वारका		
0000 A	20570	वार्षिक शोध–पत्रिका 'प्रदीप'		शंकराचार्य द्वारका शारदापीठ, द्वारका		
0000 A	20571	भागवत–प्रवचन–संकलन		शंकराचार्य द्वारका शारदापीठ, द्वारका		
0000 A	20572	दृष्टान्त–प्रबोध–गुजराती अनुवाद		शंकराचार्य द्वारका शारदापीठ, द्वारका		
0000 A	20573	शारदा–पत्रिका		शंकराचार्य द्वारका शारदापीठ, द्वारका		
0000 A	20574	नवभारती–पत्रिका		शंकराचार्य द्वारका शारदापीठ, द्वारका		
0000 A	20575	सामवेद (कौथुमशाखीयगानार्चिकपदस्तोभः)		शंकराचार्य द्वारका शारदापीठ, द्वारका		
0000A	20576	श्रीमच्छन्दरदिग्विजय (डिण्डिम नाम संस्कृतटीका एवं सदगुरूसपर्या नाम्नीहिन्दी टीका सहित)		शंकराचार्य द्वारका शारदापीठ, द्वारका		
0000 A	20577	शांकरपंचकम् (संकलन)		शंकराचार्य द्वारका शारदापीठ, द्वारका		
0000 A	20578	धर्मरथ (ज.शं.महाराज के प्रवचनों का संग्रह)		शंकराचार्य द्वारका शारदापीठ, द्वारका		
0000 A	20579	चमत्कार चिन्तामणि गुजराती अनुवाद सहित		शंकराचार्य द्वारका शारदापीठ, द्वारका		
0000 A	20580	कालिदास की कारक–योजना		शंकराचार्य द्वारका शारदापीठ, द्वारका		
0000 A	20581	पंचम संस्करण दिव्य द्वारका		शंकराचार्य द्वारका शारदापीठ, द्वारका		
0000 A	20582	ग्रहमंगलाष्टकम		शंकराचार्य द्वारका शारदापीठ, द्वारका		
0000 A	20583	दशोपनिषद (सदगुरूसपर्या टीका सहित)		शंकराचार्य द्वारका शारदापीठ, द्वारका		
0000 A	20584	चेन्नम्मा		शंकराचार्य द्वारका शारदापीठ, द्वारका		
0000 A	20585	ज्योतिषभावसुधाकर		शंकराचार्य द्वारका शारदापीठ, द्वारका		
0000 A	20586	द्वारका शारदापीठनी सर्वोच्चता अने प्राचीनता		शंकराचार्य द्वारका शारदापीठ, द्वारका		
0000 A	20587	ईशादिपंचोपनिषद		शंकराचार्य द्वारका शारदापीठ, द्वारका		

0000 A	20588	शुद्धाद्वैतकामधेनु		शंकराचार्य द्वारका शारदापीठ, द्वारका		
0000 A	20589	पंचदशी		शंकराचार्य द्वारका शारदापीठ, द्वारका		
0000 A	20590	श्रीविद्या खड्गमाला		शंकराचार्य द्वारका शारदापीठ, द्वारका		
0000 A	20591	यतिधर्मदर्शनी		शंकराचार्य द्वारका शारदापीठ, द्वारका		
0000 A	20592	ब्रह्मसिद्धिः		शंकराचार्य द्वारका शारदापीठ, द्वारका		
0000 A	20593	पंचदेवोपसना		शंकराचार्य द्वारका शारदापीठ, द्वारका		
0000 A	20594	श्रीविद्यानित्यार्चनविधिः		शंकराचार्य द्वारका शारदापीठ, द्वारका		
0000 A	20595	ललिता त्रिशती स्तोत्र		शंकराचार्य द्वारका शारदापीठ, द्वारका		
0000 A	20596	स्वरूप सपर्या		शंकराचार्य द्वारका शारदापीठ, द्वारका		
0000 A	20597	श्रीविद्या नवावरण सपर्या		शंकराचार्य द्वारका शारदापीठ, द्वारका		
0000 A	20598	शांकरपीठ परम्परा में चतुष्पीठ		शंकराचार्य द्वारका शारदापीठ, द्वारका		
0000 A	20599	सामवेद (रामायणी शाखा)		शंकराचार्य द्वारका शारदापीठ, द्वारका		
0000 A	20600	वेदान्त–विचार–चूडामणि		शंकराचार्य द्वारका शारदापीठ, द्वारका		
0000 A	20601	विवेक चूडामणि		शंकराचार्य द्वारका शारदापीठ, द्वारका		
0000 A	20602	ईशावास्योपनिषद (अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत और गुजराती)		शंकराचार्य द्वारका शारदापीठ, द्वारका		
0000 A	20603	प्रवचन प्रसून		शंकराचार्य द्वारका शारदापीठ, द्वारका		
0000 A	20604	करूणासागर द्वारकाधीश		शंकराचार्य द्वारका शारदापीठ, द्वारका		
0000 A	20605	Glory of Dwarkashardapeeth		शंकराचार्य द्वारका शारदापीठ, द्वारका		
0000 A	20606	ईशादि पंचोपनिषद् (गुजराती) यन्त्रस्थ		शंकराचार्य द्वारका शारदापीठ, द्वारका		
0000 A	20607	तन्त्राख्यानप्रकरणम् यन्त्रस्थ		शंकराचार्य द्वारका शारदापीठ, द्वारका		
0000 A	20608	पूजातिलकम् यन्त्रस्थ		शंकराचार्य द्वारका शारदापीठ, द्वारका		
0000 A	20609	मनुष्यालयचन्द्रिका		शंकराचार्य द्वारका शारदापीठ, द्वारका		
0000 A	20610	Sankara Philosophy and The Role of Religio	Dharmaraj Adat	New Bharatiya Book Corporation, Delhi	600.00	
0000 A	20611	Sanskrit Poetics in the Post Modern Scenari	Dharmaraj Adat	New Bharatiya Book Corporation, Delhi	2,000.00	
0000 A	20612	Samkhya Darshan	Kiran Singh	New Bharatiya Book Corporation, Delhi	2,500.00	
0000A	20613	Bhrathari Shataktrai	Kiran Singh	New Bharatiya Book Corporation, Delhi	600.00	
0000 A	20614	Poetics Art and Craft	P.K. Mishra	New Bharatiya Book Corporation, Delhi	800.00	
0000 A	20615	Simplified Grammer to Pali language	Alka Barua	New Bharatiya Book Corporation, Delhi	650.00	
0000 A	20616	Indian Freedom Movement & Reflected in S	Sreejish	New Bharatiya Book Corporation, Delhi	400.00	
0000 A	20617	Animals and Birds in Sanskrit Literature	Gauri Mahulikar	New Bharatiya Book Corporation, Delhi	600.00	
0000 A	20618	ऋग्वेद भाष्य (चार भागों में)	स्वामी दयानन्द सरस्वती	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	2,800.00	
0000 A	20619	The Truth about the Vedas	Dr. Bhawani Lal Bhartiya	Vijay Kumar Govindram Hasanand, Delhi	60.00	
0000 A	20620	गोमाताः प्राणदाताः मेहता जैमिनीजी अनुवाद	प्रो. राजेन्द्र जिज्ञासु	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली		
0000 A	20621	स्वास्थ्य के शत्रु अण्डे व मांस	स्वामी जगदीश्वरानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली		
0000 A	20622	रामायण की विशेष शिक्षाएँ	स्वामी ब्रह्ममुनि	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली		

0000 A	20623	महाभारत की विशेष शिक्षाएँ	स्वामी ब्रह्ममुनि	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली		
0000 A	20624	हम बचें कैंसे ?	प्रो. रामविचार	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली		
0000 A	20625	वैदिक धर्म और आर्य समाज के सिद्धान्त	प्रो. रामविचार	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली		
0000 A	20626	स्वामी श्रद्धानन्द ग्रन्थावली (दो भागों में, 2500 पृष्ठद्ध	..	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	2,200.00	
0000 A	20627	भारतवर्ष का इतिहास	पं. भगवद्दत्त	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	300.00	
0000 A	20628	शंका समाधान	पं. भवानीलाल भारतीय	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	150.00	
0000 A	20629	स्वामी दयानन्द और विवेकानन्द	डॉ. भवानीलाल भारतीय	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	150.00	
0000 A	20630	वेद प्रवचन	पं. गंगाप्रसाद उपाध्याय	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	160.00	
0000 A	20631	ऋषि दयानन्द के सर्वश्रेष्ठ प्रवचन	डॉ. भवानीलाल भारतीय	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	75.00	
0000 A	20632	सत्संग भजनावली	सं. डॉ. दिलीप वेदालंकार	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	125.00	
0000 A	20633	Back to the Vedas	Madan Raheja	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	150.00	
0000 A	20634	ऋषि दयानन्द का तत्व–दर्शन	डॉ. रूपचन्द्र दीपक	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	300.00	
0000 A	20635	दृष्टान्त समुच्चय	शिव शर्मा	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	125.00	
0000 A	20636	The Samskar Vidhi	Swami Dayanand	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	325.00	
0000 A	20637	वेद के पाठक सावधन	शिवनारायण सिंह गौतम	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	150.00	
0000 A	20638	ऋषि दयानन्द के भक्त	डॉ. भवानीलाल भारतीय	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	95.00	
0000 A	20639	Om The Symbol of God	J.M. Mehta	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	60.00	
0000 A	20640	Children's Quest	Madan Raheja	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	60.00	
0000 A	20641	The Essence of Satyarth Prakash	J.M. Mehta	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	60.00	
0000A	20642	Swami Dayanand Saraswati	Dr. Vivek Arya	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	75.00	
0000 A	20643	दयानन्द लघुग्रन्थ–संग्रह	महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	100.00	
0000 A	20644	ऋग्वेद भाष्य (चार भागों में)	महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	2,800.00	
0000 A	20645	यजुर्वेद भाष्य (शब्दार्थ व मन्त्रानुक्रमणिका सहित)	महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	600.00	
0000 A	20646	सत्यार्थ प्रकाश बृहद (स्थूलाक्षरी, बड़ा साइज, उपहार संस्करण)	महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	325.00	
0000 A	20647	सत्यार्थ प्रकाश (सजिल्द)	महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	110.00	
0000 A	20648	सत्यार्थ प्रकाश (अजिल्द)	महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	80.00	
0000 A	20649	ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका	महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	140.00	
0000 A	20650	संस्कारविधि : (सजिल्द)	महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	60.00	
0000 A	20651	संस्कारविधि : (अजिल्द)	महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	50.00	
0000 A	20652	आर्याभिविनयः	महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	30.00	
0000 A	20653	व्यवहारभानुः	महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	15.00	
0000 A	20654	मंच महायज्ञविधिः	महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	15.00	
0000 A	20655	वर्णोच्चारण शिक्षा	महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	10.00	
0000 A	20656	आर्योद्दश्यरत्नमाला	महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	8.00	

0000 A	20657	गोकरूणानिधिः	महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	6.00	
0000 A	20658	स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश	महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	8.00	
0000 A	20659	अमृत पान	महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	65.00	
0000 A	20660	आनन्द गायत्री कथा	महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	30.00	
0000 A	20661	भगवान शंकर और दयानन्द	महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	18.00	
0000 A	20662	वैदिक सत्यनारायण व्रत कथा	महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	20.00	
0000 A	20663	उपनिषदों का संदेश	महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	35.00	
0000 A	20664	मानव ओर मानवता	महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	65.00	
0000 A	20665	यह धन किसका है ?	महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	35.00	
0000 A	20666	दो रास्ते	महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	30.00	
0000 A	20667	तत्तवज्ञान	महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	35.00	
0000 A	20668	प्रभुभक्ति	महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	30.00	
0000 A	20669	सुखी गृहस्थ	महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	20.00	
0000 A	20670	एक ही रास्ता	महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	35.00	
0000A	20671	मानव जीवन–गाथा	महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	30.00	
0000 A	20672	भक्त और भगवान्	महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	30.00	
0000 A	20673	घोर घने जंगल में	महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	35.00	
0000 A	20674	प्रभु मिलन की राह	महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	35.00	
0000 A	20675	बोध कथाएँ	महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	35.00	
0000 A	20676	दुनिया में रहना किस तहर ?	महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	35.00	
0000 A	20677	प्रभु–र्दशन	महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	35.00	
0000 A	20678	महामन्त्र	महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	30.00	
0000 A	20679	त्यागमयी देवियाँ	महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	25.00	
0000 A	20680	माँ (गायत्री मन्त्र की महिमा)	महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	10.00	
0000 A	20681	यज्ञ–प्रसाद	महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	15.00	
0000 A	20682	हरिद्वार का प्रसाद	महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	7.00	
0000 A	20683	माहत्मा आनन्द स्वामी (जीवनी)	महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	40.00	
0000 A	20684	महाभारतम्	स्वामी जगदीश्वरानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	900.00	
0000 A	20685	वाल्मीकि रामायण	स्वामी जगदीश्वरानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	375.00	
0000 A	20686	सामवेद भाष्य	स्वामी जगदीश्वरानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	150.00	
0000 A	20687	पड्दर्शनम्	स्वामी जगदीश्वरानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	250.00	
0000 A	20688	विदुरनीतिः	स्वामी जगदीश्वरानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	90.00	
0000 A	20689	चाणक्यनीति–दर्पण	स्वामी जगदीश्वरानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	125.00	
0000 A	20690	चतुर्वेद शतकम्	स्वामी जगदीश्वरानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	150.00	

0000 A	20691	विद्यार्थी लेखावली (चरित्र निर्माण संबंधी ट्रैक्टों का संग्रह)	स्वामी जगदीश्वरानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	75.00	
0000 A	20692	गायत्री चालीसा	स्वामी जगदीश्वरानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	15.00	
0000 A	20693	भगवान श्रीकृष्ण और गीता उपदेश	स्वामी जगदीश्वरानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	15.00	
0000 A	20694	यज्ञोपवीत का महत्त्व	स्वामी जगदीश्वरानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	8.00	
0000 A	20695	वैदिक सत्यनारायण व्रत कथा	स्वामी जगदीश्वरानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	8.00	
0000 A	20696	भारत की अवनति के सात कारण	स्वामी जगदीश्वरानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	25.00	
0000 A	20697	वैदिक सूक्ति सरोवर	स्वामी जगदीश्वरानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	30.00	
0000 A	20698	ब्रह्मचर्य गौरव	स्वामी जगदीश्वरानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	25.00	
0000 A	20699	विद्यार्थियों की दिनचर्या	स्वामी जगदीश्वरानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	20.00	
0000A	20700	कुछ करो कुछ बनो	स्वामी जगदीश्वरानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	30.00	
0000 A	20701	मर्यादा पुरूषोत्तम राम	स्वामी जगदीश्वरानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	30.00	
0000 A	20702	आदर्श परिवार	स्वामी जगदीश्वरानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	35.00	
0000 A	20703	वैदिक विवाह पद्धति	स्वामी जगदीश्वरानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	50.00	
0000 A	20704	सामवेद शतकम्	स्वामी जगदीश्वरानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	18.00	
0000 A	20705	ऋग्वेद शतकम्	स्वामी जगदीश्वरानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	18.00	
0000 A	20706	यजुर्वेद शतकम्	स्वामी जगदीश्वरानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	18.00	
0000 A	20707	अथर्ववेद शतकम्	स्वामी जगदीश्वरानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	18.00	
0000 A	20708	भक्ति–संगीत शतकम्	स्वामी जगदीश्वरानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	20.00	
0000 A	20709	दिव्य औषधियाँ	स्वामी जगदीश्वरानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	70.00	
0000 A	20710	चमत्कारी औषधियाँ	स्वामी जगदीश्वरानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	70.00	
0000 A	20711	घरेलू औषधियाँ	स्वामी जगदीश्वरानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	70.00	
0000 A	20712	स्वर्ण–पथ	स्वामी जगदीश्वरानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	30.00	
0000 A	20713	दिव्य रसायन : गोमूत्र	स्वामी जगदीश्वरानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	10.00	
0000 A	20714	वेद सौरभ	स्वामी जगदीश्वरानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	25.00	
0000A	20715	वैदिक उदात्त भावनाएँ	स्वामी जगदीश्वरानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	25.00	
0000 A	20716	हास–परिहास	स्वामी जगदीश्वरानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	15.00	
0000 A	20717	बाल शिक्षा	स्वामी जगदीश्वरानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	18.00	
0000 A	20718	ईशोपनिषद्	स्वामी जगदीश्वरानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	25.00	
0000 A	20719	दिव्य दयानन्द	स्वामी जगदीश्वरानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	30.00	
0000 A	20720	सामवेद भाष्य	पं. रामनाथ वेदालंकार	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	600.00	
0000 A	20721	वेद मंजरी	पं. रामनाथ वेदालंकार	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	150.00	
0000 A	20722	ऋग्वेद ज्योति	पं. रामनाथ वेदालंकार	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	150.00	
0000 A	20723	शतपथ ब्राह्मण	स्वामी समर्पणानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	800.00	
0000 A	20724	पंजयज्ञप्रकाश	स्वामी समर्पणानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	50.00	

0000 A	20725	श्रीमद्भगवद्गीता	स्वामी समर्पणानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	125.00	
0000 A	20726	यजुर्वेद–अथर्ववेद–भाष्यम्	स्वामी समर्पणानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	100.00	
0000 A	20727	आग्नेय शतकम्	स्वामी समर्पणानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	12.00	
0000 A	20728	सम्राट शतकम्	स्वामी समर्पणानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	15.00	
0000 A	20729	परिवार शतकम्	स्वामी समर्पणानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	15.00	
0000 A	20730	गुरूकुल शतकम्	स्वामी समर्पणानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	15.00	
0000 A	20731	पाणिनीय प्रवेशिका	स्वामी समर्पणानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	20.00	
0000 A	20732	शपतथ के पथिक	पं. विनोदचंद्र	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	700.00	
0000 A	20733	उपनयन सर्वस्व	स्वामी दीक्षानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	20.00	
0000 A	20734	स्वाध्याय सर्वस्व	स्वामी दीक्षानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	30.00	
0000 A	20735	मृत्युंजय सर्वस्व	स्वामी दीक्षानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	15.00	
0000 A	20736	उपहार सर्वस्व	स्वामी दीक्षानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	20.00	
0000 A	20737	नाम सर्वस्व	स्वामी दीक्षानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	20.00	
0000 A	20738	उद्देश्य सर्वस्व	स्वामी दीक्षानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	6.00	
0000 A	20739	अग्निहोत्र सर्वस्व	स्वामी दीक्षानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	50.00	
0000 A	20740	दो पुटन के बीच	स्वामी दीक्षानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	10.00	
0000 A	20741	A loving Token	स्वामी दीक्षानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	20.00	
0000 A	20742	योगेश्वर कृष्ण	पं. चमूपति	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	110.00	
0000 A	20743	वैदिक दर्शन	पं. चमूपति	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	40.00	
0000A	20744	वैदिक स्वर्ग	पं. चमूपति	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	50.00	
0000 A	20745	श्रुति सौरभ	शिव कुमार शास्त्री	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	175.00	
0000 A	20746	भारत निर्माता	कृ.व. द्विवेदी	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	250.00	
0000 A	20747	स्वामी दीक्षानन्द सरस्वती का जीवन वृत्त	प्रे.ल.भटनागर	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	150.00	
0000 A	20748	श्रीमद्दयानन्द प्रकाश	सत्यानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	110.00	
0000 A	20749	सत्योपदेशमाला	सत्यानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	125.00	
0000 A	20750	भावार्थ प्रकाश	सत्यानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	300.00	
0000 A	20751	समाज का कायाकल्प	प्रियव्रत	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	50.00	
0000 A	20752	स्वाध्याय संहिता	वैदिक मुनि	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	300.00	
0000 A	20753	मनुस्मृतेः मानवार्षभाष्यम्	इन्दिरारमण	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	300.00	
0000 A	20754	सत्यार्थ प्रकाश कवितामृत	जयगोपाल	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	200.00	
0000 A	20755	भगवद् भक्ति	जयदत्त शास्त्री	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	15.00	
0000 A	20756	वेद गीतांजली	सत्यकाम विद्यालंकार	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	100.00	
0000 A	20757	वैदिक विनय	आचार्य अभयदेव विद्यालंकार	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	250.00	
0000 A	20758	ब्राह्मण की गौ	आचार्य अभयदेव विद्यालंकार	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	150.00	

0000 A	20759	वैदिक उपदेश माला	आचार्य अभयदेव विद्यालंकार	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	20.00	
0000 A	20760	वैदिक सम्पत्ति	पं. रघुनन्दन शर्मा	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	450.00	
0000 A	20761	महर्षि दयानन्द चरित	श्री देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	450.00	
0000 A	20762	एकादशोपनिषद् 1001 प्रश्नोत्तर	महात्मा चैतन्यमुनि	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	200.00	
0000 A	20763	श्रीमद्भगवद्गीता 1001 प्रश्नोत्तर	महात्मा चैतन्यमुनि	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	150.00	
0000 A	20764	पूर्ण व्यक्तित्व का आधार 16 संस्कार	महात्मा चैतन्यमुनि	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	15.00	
0000 A	20765	ईश्वर प्रणिधाम	महात्मा चैतन्यमुनि	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	12.00	
0000 A	20766	मुमुक्षुत्व का महत्व	महात्मा चैतन्यमुनि	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	12.00	
0000 A	20767	मनुप्रोक्त आध्यात्मिक उपदेश–संग्रह	स्वामी वेदानन्दतीर्थ	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	40.00	
0000 A	20768	स्वाध्याय संदीप	स्वामी वेदानन्दतीर्थ	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	350.00	
0000 A	20769	स्वाध्याय सन्दोह	स्वामी वेदानन्दतीर्थ	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	350.00	
0000 A	20770	वैदिक सम्पदा	पं. वीरसेन वेदश्रमी	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	300.00	
0000 A	20771	वैदिक सूक्त–माला	पं. वीरसेन वेदश्रमी	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	12.00	
0000 A	20772	इटली के महात्मा गैरी–बाल्डी	लाला लाजपतराय	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	100.00	
0000A	20773	इटली के महात्मा ग्वीसेप मेज़िनी का जीवन–चरित	लाला लाजपतराय	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	60.00	
0000 A	20774	छत्रपति शिवाजी का जीवन–चरित	लाला लाजपतराय	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	50.00	
0000 A	20775	मुनिवर गुरूदत्त विद्यार्थी (जीवन–चरित)	लाला लाजपतराय	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	125.00	
0000 A	20776	योगिराज श्रीकृष्ण (महाभारत पर आधारित जीवन–चरित)	लाला लाजपतराय	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	100.00	
0000 A	20777	युग–प्रवर्तक स्वामी दायानन्द	लाला लाजपतराय	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	150.00	
0000 A	20778	आर्यसमाज	लाला लाजपतराय	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	100.00	
0000 A	20779	दुःखी भारत (दो खण्डों में)	लाला लाजपतराय	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	250.00	
0000 A	20780	यूवा भारत	लाला लाजपतराय	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	125.00	
0000 A	20781	मेरी आत्मकथा	लाला लाजपतराय	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	130.00	
0000 A	20782	ऋषि दयानन्द के भक्त	डॉ. भवानीलाल भारतीय	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	95.00	
0000 A	20783	वेदों की अध्यात्म धारा	डॉ. भवानीलाल भारतीय	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	50.00	
0000 A	20784	वैदिक कथाओं का सच	डॉ. भवानीलाल भारतीय	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	35.00	
0000 A	20785	स्वामी दयानन्द और विवेकानन्द (तुलनात्मक अध्ययन)	लाला लाजपतराय	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	150.00	
0000 A	20786	ऋग्वेद : एक सरल परिचय	डॉ. भवानीलाल भारतीय	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	50.00	
0000 A	20787	यजुर्वेद : एक सरल परिचय	डॉ. भवानीलाल भारतीय	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	50.00	
0000 A	20788	सामवेद–एक सरल परिचय	डॉ. भवानीलाल भारतीय	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	50.00	
0000 A	20789	अथर्ववेद : एक सरल परिचय	डॉ. भवानीलाल भारतीय	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	50.00	
0000 A	20790	महर्षि दयानन्द सरस्वती की आत्मकथा	डॉ. भवानीलाल भारतीय	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	35.00	
0000 A	20791	मैंने ऋषि दयानन्द को देखा	डॉ. भवानीलाल भारतीय	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	50.00	
0000 A	20792	श्रीकृष्ण चरित	डॉ. भवानीलाल भारतीय	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	125.00	

0000 A	20793	ऋषि दयानन्द की खरी–खरी बातें	डॉ. भवानीलाल भारतीय	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	20.00	
0000 A	20794	ऋषि दयानन्द के चार लघु चरित	डॉ. भवानीलाल भारतीय	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	12.00	
0000 A	20795	विश्व धर्म कोश : सत्यार्थप्रकाश	डॉ. भवानीलाल भारतीय	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	20.00	
0000 A	20796	उपनिषदों की अध्यात्म धारा	डॉ. भवानीलाल भारतीय	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	12.00	
0000 A	20797	आर्य समाज का विषयक साहित्य परिचय	डॉ. भवानीलाल भारतीय	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	25.00	
0000 A	20798	महर्षि दयानन्द प्रतिपादित आठ गप्प तथा आठ सत्य	डॉ. भवानीलाल भारतीय	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	50.00	
0000 A	20799	उपनिषदों की कथाएँ	डॉ. भवानीलाल भारतीय	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	80.00	
0000 A	20800	आर्यसमाज के बीस बलिदानी	डॉ. भवानीलाल भारतीय	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	35.00	
0000 A	20801	यजुर्वेदीय अध्यात्म शतक	डॉ. भवानीलाल भारतीय	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	40.00	
0000A	20802	ऋग्वेदीय अध्यात्म शतक	डॉ. भवानीलाल भारतीय	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	40.00	
0000 A	20803	सामवेदीय अध्यात्म शतक	डॉ. भवानीलाल भारतीय	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	40.00	
0000 A	20804	अथर्ववेदीय अध्यात्क शतक	डॉ. भवानीलाल भारतीय	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	40.00	
0000 A	20805	श्याम जी कृष्ण वर्मा	डॉ. भवानीलाल भारतीय	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	24.00	
0000 A	20806	मत मतान्तरों का मूलस्त्रोत–वेद	पं. लक्ष्मणजी	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	80.00	
0000 A	20807	महर्षि दयानन्द के प्रेरक प्रसंग	पं. लक्ष्मणजी	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	150.00	
0000 A	20808	वेद के पाठक सावधन	शिवनारायण सिंह गौतम	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	150.00	
0000 A	20809	दृष्टान्त समुच्चय	श्री शिवशर्मा 'उपदेशक'	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	125.00	
0000 A	20810	महर्षि दयानन्द की जरूरत क्यों?	डॉ. अजय आर्य	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	50.00	
0000 A	20811	मेरे पिता (संस्मरण)	पं. इन्द्र विद्यावाचस्पति	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	80.00	
0000 A	20812	महर्षि दयानन्द	पं. इन्द्र विद्यावाचस्पति	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	80.00	
0000 A	20813	वैदिक सिद्धान्तों पर सहेलियों की वार्ता	पं. सरेशचन्द्र वेदालंकार	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	25.00	
0000 A	20814	कल्याण मार्ग का पथिक	स्वामी श्रद्धानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	125.00	
0000 A	20815	ईश्वरीय ज्ञानः वेद	प्रो. बालकृष्ण एम.ए.	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	200.00	
0000 A	20816	आर्यपथिक लेखराम	स्वामी श्रद्धानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	95.00	
0000 A	20817	स्वामी दर्शनानन्द ग्रन्थ संग्रह (संशोधित)	स. स्वामी जगदीश्वरानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	400.00	
0000 A	20818	दयानन्द चित्रावली (सचित्र)	पं. रामगोपाल विद्यालंकार	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	60.00	
0000 A	20819	निः सन्देह सर्वव्यापक है ईश्वर	श्रीमती गार्गी वर्मा	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	50.00	
0000 A	20820	स्वामी दयानन्द का वैदिक दर्शन	स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	225.00	
0000 A	20821	न्यायदर्शन की मान्यताएँ	डॉ. सुन्दरलाल कथूरिया	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	50.00	
0000 A	20822	वैदिक चिन्तन धारा	डॉ. सुन्दरलाल कथूरिया	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	40.00	
0000 A	20823	सुन्दर दोहावली	डॉ. सुन्दरलाल कथूरिया	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	50.00	
0000 A	20824	षड्दर्शन समन्वय	डॉ. प्रशान्त आचार्य	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	100.00	
0000 A	20825	सन्ध्या योग ब्रह्म साक्षात्कार (सचित्र)	ब्र. जगन्नाथ पथिक	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	300.00	
0000 A	20826	धर्म का वैज्ञानिक स्वरूप	डॉ. रामावतार	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	125.00	

0000 A	20827	याजुष मन्त्रों में अध्यात्म भावना	डॉ. उमेश यादव	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	150.00	
0000 A	20828	यज्ञ थैरेपी (संशोधित संस्करण)	संदीप आर्य	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	110.00	
0000 A	20829	संस्कार समुच्चय (संस्कार विधि की व्याख्या)	पं. मदनमोहन विद्यासागर	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	300.00	
0000 A	20830	वेद सौरभ	श्री गजानन्द आर्य	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	100.00	
0000A	20831	उपनिषद रहस्य (ग्यारह उपनिषदों का संकलन)	म. नारायण स्वामी	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	375.00	
0000 A	20832	धर्म और विज्ञान	स्वाीमी ब्रह्ममुनि	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	60.00	
0000 A	20833	राजर्षि मनु व उनकी मनुस्मृति	डॉ. सुरेन्द्र कुमार	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	150.00	
0000 A	20834	त्याग की भावना	पं. धर्मदेव वेदावाचस्पति	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	30.00	
0000 A	20835	सन्ध्या पथ	श्री देवनारायण भारद्वाज	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	20.00	
0000 A	20836	महापुरूषों के जीवन से सीखें	आचार्य अभिमन्यु	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	25.00	
0000 A	20837	भारत में मूर्तिपूजा	पं. राजेन्द्र	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	40.00	
0000 A	20838	सामवेद व्याख्या	पं. हरिशरण सिद्धान्तालंकार	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	50.00	
0000 A	20839	कालिदास–सूक्तिसुधा	डॉ. सुभाष विद्यालंकार	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	60.00	
0000 A	20840	नये युग की ओर आर्यसमाज	डॉ. चन्द्रशेखर लोखण्डे	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	80.00	
0000 A	20841	दयानन्द प्रश्नोत्तर–संवादनिधिः	पं. सत्यानन्द वेदवागीश	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	95.00	
0000 A	20842	हिन्दू शतकम्	डॉ. दीनबन्धु चन्दोरा	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	100.00	
0000 A	20843	पूर्वाहुति	डॉ. द्वारिकाप्रसाद अगवाल	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	100.00	
0000 A	20844	सुरभि–तरंग	अर्चना विद्यालंकार	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	125.00	
0000 A	20845	शान्ति का शाश्वत् मार्ग	डॉ. दिलीप वेदालंकार	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	150.00	
0000 A	20846	शतवर्षीय जीवन	श्री शरतचनद्र अग्रवाल	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	80.00	
0000 A	20847	विषवृक्ष	स्वामी विद्यानन्द सरस्वती	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	12.00	
0000 A	20848	बाल सत्यार्थप्रकाश	स्वामी जगदीश्वारानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	30.00	
0000 A	20849	स्वामी विवेकानन्द	डॉ. नरेन्द्र गुप्ता	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	14.00	
0000 A	20850	जीवन की डगर	डॉ. नरेन्द्र गुप्ता	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	14.00	
0000 A	20851	वैदिक विचारधारा का वैज्ञानिक आधार	प्रो. सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	175.00	
0000 A	20852	वैदिक संस्कृति का संन्देश	प्रो. सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	125.00	
0000 A	20853	सत्य की खोज	प्रो. सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	95.00	
0000 A	20854	ब्रह्मचर्य संन्देश	प्रो. सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	40.00	
0000 A	20855	Confidential Talks to Young Men	प्रो. सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	45.00	
0000 A	20856	मेरे अनुभव : मेरा चिन्तन	प्रो. रामविचार एम.ए.	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	100.00	
0000 A	20857	वेद–संदेश	प्रो. रामविचार एम.ए.	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	425.00	
0000 A	20858	योगिराज श्रीकृष्ण चन्द का महान व्यक्तित्व	प्रो. रामविचार एम.ए.	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	15.00	
0000 A	20859	श्रीरामचन्द्रजी का महान व्यक्तित्व	प्रो. रामविचार एम.ए.	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	15.00	
0000A	20860	वीतराग स्वामी सर्वदानन्द	प्रो. रामविचार एम.ए.	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	12.00	

0000 A	20861	आर्य (हिन्दू) जाति के पतन के कारण	प्रो. रामविचार एम.ए.	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	15.00	
0000 A	20862	जीने की कला सीखिए	प्रो. रामविचार एम.ए.	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	18.00	
0000 A	20863	ओंकार–स्तोत्र	स्वामी अमृतानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	5.00	
0000 A	20864	शंका समाधान	पं. रामचन्द्र देहलवी	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	6.00	
0000 A	20865	कथा माला	मं. नारायण स्वामी	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	20.00	
0000 A	20866	आर्य और आर्यसमाज का संक्षिप्त परिचय	श्री प्रकाश आर्य	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	15.00	
0000 A	20867	ईश्वर–पूजा का वैदिक स्वरूप	पं. रामचन्द्र देहलवी	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	18.00	
0000 A	20868	आर्य मन्तव्य दर्पण	मेधाथी स्वामी	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	12.00	
0000 A	20869	ओउम् की व्याख्या	रामसिंह आर्य भजनोपदेशक	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	18.00	
0000 A	20870	नमस्ते की व्याख्या	पं. सुखदेव विद्यावाचस्पति	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	10.00	
0000 A	20871	आर्यसमाज के दस नियमों की व्याख्या	प्रो. रत्नसिंह	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	25.00	
0000 A	20872	सत्यार्थ प्रकाश क्यों पढ़े ?	श्री नीरज विद्यार्थी	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	25.00	
0000 A	20873	आर्यन मैनिफेस्टो	पं. मदनमोहन विद्यासागर	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	12.00	
0000 A	20874	अमृत पथ	श्री कृष्णौतार	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	16.00	
0000 A	20875	पातंजल योग व महर्षि दयानन्द जीवन वृत्त	आचार्य ब्र. नन्दकिशोर	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	50.00	
0000 A	20876	उपनिषदों में आर्य समाज के 10 नियमों का दिग्दर्शन	आचार्य ब्र. नन्दकिशोर	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	30.00	
0000 A	20877	महर्षि दयानन्द के शब्दों में आर्यसमाज के 10 नियमों की व्याख्या	आचार्य ब्र. नन्दकिशोर	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	35.00	
0000 A	20878	वेदों द्वारा आर्यसमाज के 10 नियमों का सन्देश	आचार्य ब्र. नन्दकिशोर	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	40.00	
0000 A	20879	सौ वर्ष जीने की कला	आचार्य ब्र. नन्दकिशोर	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	20.00	
0000 A	20880	आचार्य गौरव	आचार्य ब्र. नन्दकिशोर	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	15.00	
0000 A	20881	श्री रामचन्द्र गौरव	आचार्य ब्र. नन्दकिशोर	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	15.00	
0000 A	20882	न्यायदर्शनम् भाष्य	आचार्य उदयवीर शास्त्री	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	300.00	
0000 A	20883	वैशेषिकदर्शनम् भाष्य	आचार्य उदयवीर शास्त्री	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	280.00	
0000 A	20884	सांख्यदर्शनम् भाष्य	आचार्य उदयवीर शास्त्री	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	250.00	
0000 A	20885	योगदर्शनम् भाष्य	आचार्य उदयवीर शास्त्री	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	225.00	
0000 A	20886	वेदान्तदर्शनम् भाष्य (ब्रह्मसूत्र)	आचार्य उदयवीर शास्त्री	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	400.00	
0000 A	20887	मीमांसादर्शनम् भाष्य	आचार्य उदयवीर शास्त्री	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	400.00	
0000 A	20888	सांख्यदर्शन का इतिहास	आचार्य उदयवीर शास्त्री	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	300.00	
0000A	20889	सांख्यसिद्धान्त	आचार्य उदयवीर शास्त्री	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	300.00	
0000 A	20890	वेदान्तदर्शन का इतिहास	आचार्य उदयवीर शास्त्री	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	400.00	
0000 A	20891	प्राचीन सांख्य–सन्दर्भ	आचार्य उदयवीर शास्त्री	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	100.00	
0000 A	20892	ऋषि दयानन्द का तत्व–दर्शन	पं. गंगाप्रसाद उपाध्याय	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	300.00	
0000 A	20893	वेद प्रवचन	पं. गंगाप्रसाद उपाध्याय	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	160.00	
0000 A	20894	आस्तिकवाद	पं. गंगाप्रसाद उपाध्याय	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	150.00	

0000 A	20895	शतपथ ब्राह्मण	पं. गंगाप्रसाद उपाध्याय	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	1,500.00	
0000 A	20896	सन्ध्या : क्या ? क्यों ? कैसे ?	पं. गंगाप्रसाद उपाध्याय	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	35.00	
0000 A	20897	विवाह और विवाहित जीवन	पं. गंगाप्रसाद उपाध्याय	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	35.00	
0000 A	20898	कर्मफॅल सिद्धान्त	पं. गंगाप्रसाद उपाध्याय	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	25.00	
0000 A	20899	शाश्वत् जीवन	पं. गंगाप्रसाद उपाध्याय	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	25.00	
0000 A	20900	जीवात्मा	पं. गंगाप्रसाद उपाध्याय	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	60.00	
0000 A	20901	वैदिक मणिमाला	पं. गंगाप्रसाद उपाध्याय	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	6.00	
0000 A	20902	आश्रम व्यवस्था एक प्रासंगिक विवेचन	महात्मा गोपाल स्वामी	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	51.00	
0000 A	20903	जीवन मे सफलता के तीन सूत्र	महात्मा गोपाल स्वामी	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	21.00	
0000 A	20904	वेद मनीषा के अनमोल रत्न	महात्मा गोपाल स्वामी	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	65.00	
0000 A	20905	उपनयन संस्कार	महात्मा गोपाल स्वामी	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	11.00	
0000 A	20906	वन्दना के स्वर	महात्मा गोपाल स्वामी	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	40.00	
0000 A	20907	वेद स्वाध्याय प्रदीपिका	महात्मा गोपाल स्वामी	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	100.00	
0000 A	20908	बरेली में स्वामी दयानन्द का प्रवास	महात्मा गोपाल स्वामी	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	25.00	
0000 A	20909	महर्षि दयानन्द सरस्वती का शास्त्रार्थ तथा बरेली में लिखित स्व–जीवन चरित	महात्मा गोपाल स्वामी	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	25.00	
0000 A	20910	वैदिक गणपति	श्री मदन रहेजा	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	55.00	
0000 A	20911	अन्धविश्वास निर्मूलन	श्री मदन रहेजा	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	115.00	
0000 A	20912	शंका समाधान	श्री मदन रहेजा	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	80.00	
0000 A	20913	सुविचार	श्री मदन रहेजा	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	35.00	
0000 A	20914	वेदों की वाणी सन्तों की जुबानी	श्री मदन रहेजा	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	100.00	
0000 A	20915	भारत वर्ष का इतिहास	पं. भगवद्दत्त	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	300.00	
0000 A	20916	वैदिक वाड.मय का इतिहास	पं. भगवद्दत्त	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	1,200.00	
0000 A	20917	प्रथम खण्ड–अपौरूषेय वेद तथा शाखा	पं. भगवद्दत्त	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	400.00	
0000A	20918	द्वितीय खण्ड–वेदों के भाष्यकार	पं. भगवद्दत्त	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	400.00	
0000 A	20919	तृतीय खण्ड–ब्राह्मण तथा आरण्यक ग्रन्थ	पं. भगवद्दत्त	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	400.00	
0000 A	20920	भारतीय संस्कृति का इतिहास	पं. भगवद्दत्त	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	125.00	
0000 A	20921	भाषा का इतिहास	पं. भगवद्दत्त	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	150.00	
0000 A	20922	स्वामी दर्शनानन्द जीवन चरित	प्रो. राजेन्द्र 'जिज्ञासु'	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	250.00	
0000 A	20923	पण्डित भगवद्दत रिसर्च स्कॉलर	प्रो. राजेन्द्र 'जिज्ञासु'	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	55.00	
0000 A	20924	बड़ों की बड़ी बातें	प्रो. राजेन्द्र 'जिज्ञासु'	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	70.00	
0000 A	20925	क्रान्तिवीर पण्डित नरेन्द्र	प्रो. राजेन्द्र 'जिज्ञासु'	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	200.00	
0000 A	20926	अभिनव सूक्ति सागर	प्रो. राजेन्द्र 'जिज्ञासु'	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	30.00	
0000 A	20927	आर्यसमाज क्या ? क्यों ?	प्रो. राजेन्द्र 'जिज्ञासु'	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	15.00	
0000 A	20928	पं. रामचन्द्र दहलवी व उनका वैदिक दर्शन	प्रो. राजेन्द्र 'जिज्ञासु'	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	175.00	

0000 A	20929	बलिदानी इतिहास हमारा	प्रो. राजेन्द्र 'जिज्ञासु'	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	45.00	
0000 A	20930	महात्मा हंसराज	प्रो. राजेन्द्र 'जिज्ञासु'	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	60.00	
0000 A	20931	उपनिषद् एक सरल परिचय	श्री नरेन्द्र विद्यावाचस्पति	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	90.00	
0000 A	20932	महापुरूषों के प्रेरक प्रसंग	श्री नरेन्द्र विद्यावाचस्पति	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	95.00	
0000 A	20933	राष्ट्र की चुनौतियाँ	श्री नरेन्द्र विद्यावाचस्पति	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	125.00	
0000 A	20934	खट्टे मीठे चरपरे	श्री नरेन्द्र विद्यावाचस्पति	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	75.00	
0000 A	20935	प्रेरक बोध कथाएँ	श्री नरेन्द्र विद्यावाचस्पति	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	35.00	
0000 A	20936	गीत भण्डार	पं. नन्दलाल वानप्रस्थी	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	100.00	
0000 A	20937	गीत सागर	पं. नन्दलाल वानप्रस्थी	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	35.00	
0000 A	20938	प्रकाश गीत व अन्य रचनाएं	पं. प्रकाशचनद्र कविरत्न	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	40.00	
0000 A	20939	सत्संग भजनावली	डॉ. दिलीप वेदालंकार	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	125.00	
0000 A	20940	प्रकाश भजनावली	पं. प्रकाशचन्द्र कविरत्न	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	30.00	
0000 A	20941	प्रकाश गीत–संगीत		विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	80.00	
0000 A	20942	प्रार्थना पुस्तक	स्वामी अमृतानन्द	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	20.00	
0000 A	20943	आर्य पर्व–पद्धति	पं. भवानीप्रसाद	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	90.00	
0000 A	20944	वेदिक नित्यकर्म विधि		विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	60.00	
0000 A	20945	आर्य सत्संग गुटका		विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	10.00	
0000 A	20946	पंचयज्ञ प्रकाशिका	पं. सोमदत्त विद्यालंकार	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	25.00	
0000A	20947	वैदिक सन्धया		विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	4.00	
0000 A	20948	सामाजिक पद्धतियाँ	मदनजीत आर्य	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	30.00	
0000 A	20949	सन्ध्या अग्निहोत्र	दिलीप वेदालंकार	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	80.00	
0000 A	20950	सन्ध्या अष्टांग्योग	स्वामी आत्मानन्द सरस्वती	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	16.00	
0000 A	20951	सन्त्येष्टि संस्कार	पं. सत्यानन्द वेदवागीश	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	20.00	
0000 A	20952	आर्यसमाज प्रवेश पत्र		विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	30.00	
0000 A	20953	महर्षि दयानन्द	त्रिलोकचन्द्र विशारद	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	15.00	
0000 A	20954	स्वामी श्रद्धानन्द	त्रिलोकचन्द्र विशारद	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	15.00	
0000 A	20955	स्वामी दर्शनानन्द	त्रिलोकचनद्र विशारद	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	8.00	
0000 A	20956	संतुलित भोजन	डॉ. देवव्रत आचार्य	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	50.00	
0000 A	20957	आधुनिक जीवन और स्वास्थ्य	श्री विजय चितौरी	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	75.00	
0000 A	20958	आहार विज्ञान	कुन्तल पण्डया	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	40.00	
0000 A	20959	सौ वर्ष जीने की कला	ब्रह्माचारी नन्द किशोर	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	20.00	
0000 A	20960	योग और स्वास्थ्य	आचार्य भद्रसेन	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	95.00	
0000 A	20961	प्राणायाम	आचार्य भद्रसेन	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	15.00	
0000 A	20962	योग शिक्षा प्रथम	डॉ. देवव्रत आचार्य	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	15.00	

0000 A	20963	योग शिक्षा द्वितीय	डॉ. देवव्रत आचार्य	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	15.00	
0000 A	20964	योग शिक्षा तृतीय	डॉ. देवव्रत आचार्य	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	15.00	
0000 A	20965	योग शिक्षा चतुर्थ	डॉ देवव्रत आचाय	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	15.00	
0000 A	20966	प्राणायाम विधि	महात्मा नारायण स्वामी	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	6.00	
0000 A	20967	घर का वैद्य –फिटकरी		विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	20.00	
0000 A	20968	घर का वैद्य –तुलसी		विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	20.00	
0000 A	20969	घर का वैद्य –नींबू		विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	20.00	
0000 A	20970	घर का वैद्य –नीम		विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	20.00	
0000 A	20971	घर का वैद्य –हींग		विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	20.00	
0000 A	20972	घर का वैद्य –बरगद		विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	20.00	
0000 A	20973	घर का वैद्य –लहसुन		विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	20.00	
0000 A	20974	घर का वैद्य –आंवला		विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	20.00	
0000 A	20975	घर का वैद्य –हल्दी		विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	20.00	
0000A	20976	घर का वैद्य –शहद		विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	20.00	
0000 A	20977	घर का वैद्य –दूध–घी		विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	20.00	
0000 A	20978	घर का वैद्य –अदरक		विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	20.00	
0000 A	20979	गुरू विरजाननद दण्डी एक प्रेरणात्मक जीवन चरित	श्री कृष्ण चौपड़ा	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	75.00	
0000 A	20980	सामवेद मूल संहिता	सं. स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	125.00	
0000 A	20981	यजुर्वेद मूल संहिता	सं. स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	150.00	
0000 A	20982	अथर्ववेद मूल संहिता	सं. स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	350.00	
0000 A	20983	ऋग्वेद मूल संहिता	सं. स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	600.00	
0000 A	20984	पौराणिक पोप पर वैदिक तोप	पं.मनसाराम	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	400.00	
0000 A	20985	पौराणिक पोपप्रकाश	पं.मनसाराम	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	400.00	
0000 A	20986	ब्रह्मनाद	डॉ. मनोहरलाल आर्य	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	50.00	
0000 A	20987	धर्म और मानवता	डॉ. मनोहरलाल आर्य	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	50.00	
0000 A	20988	गायत्री महिमा	डॉ. मनोहरलाल आर्य	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	50.00	
0000 A	20989	योग एक सरल परिचय	डॉ. मनोहरलाल आर्य	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	50.00	
0000 A	20990	Four Vedas in English Complete Set	Dr. Tulsiram	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	5,100.00	
0000 A	20991	The Essence of Satyarth Prakash	Sh. J.M. Mehta	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	60.00	
0000 A	20992	Om The Symbol of God	Sh. J.M. Mehta	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	60.00	
0000 A	20993	Makers of Arya Samaj	Er. Sh. J.M. Mehta	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	100.00	
0000 A	20994	Vaidika Marriage Ceremonial	Sh. Udayveer Vedalankar	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	50.00	
0000 A	20995	Light of Truth	Pt. Ganga Prasad Upadhyay	Vijay Kumar Govin	400.00	
0000 A	20996	Sanskar Vidhi Translation	S.P. Beegoo	Vijay Kumar Govin	325.00	
0000 A	20997	Sermons Delivered by Dyanand	Swami Dayananda	Vijay Kumar Govin	125.00	
0000 A	20998	An Introduction to the Commentary	Pt. Ghasi Ram	Vijay Kumar Govin	200.00	

0000 A	20999	Aryavrata	Vidyanand Saraswati	Vijay Kumar Govin	125.00	
0000 A	21000	Dayananda	Vidyanand Saraswati	Vijay Kumar Govin	75.00	
0000 A	21001	Brahmasutra : Vedant	Vidyanand Saraswati	Vijay Kumar Govin	225.00	
0000A	21002	The Only way	Anand Swami	Vijay Kumar Govin	75.00	
0000 A	21003	In the Dark Woods	Anand Swami	Vijay Kumar Govin	75.00	
0000 A	21004	The Message of Upanishads	Anand Swami	Vijay Kumar Govin	75.00	
0000 A	21005	Whose Wealth	Anand Swami	Vijay Kumar Govin	150.00	
0000 A	21006	Bodh Kathayen	Anand Swami	Vijay Kumar Govin	75.00	
0000 A	21007	Anand Gayatri Katha	Anand Swami	Vijay Kumar Govin	75.00	
0000 A	21008	How to live Life	Anand Swami	Vijay Kumar Govin	75.00	
0000 A	21009	The Critical & Cultural Study of the	Swami Satya Prakash Saras	Vijay Kumar Govin	350.00	
0000 A	21010	Coinage in Ancient India	Swami Satya Prakash Saras	Vijay Kumar Govin	600.00	
0000 A	21011	Geometry in Ancient India	Swami Satya Prakash Saras	Vijay Kumar Govin	350.00	
0000 A	21012	गृहस्थ आश्रम प्रवेशिका	महात्मा प्रभु		17.00	
0000 A	21013	पृथ्वी का स्वर्ग	महात्मा प्रभु		25.00	
0000 A	21014	कायाकल्प	महात्मा प्रभु		20.00	
0000 A	21015	गायत्री रहस्य	महात्मा प्रभु		10.00	
0000 A	21016	यज्ञ रहस्य	महात्मा प्रभु		65.00	
0000 A	21017	गृहस्थ सुधार	महात्मा प्रभु		40.00	
0000 A	21018	जीवन सुधार	महात्मा प्रभु		10.00	
0000 A	21019	अध्यात्म सुधा भाग.4	महात्मा प्रभु		65.00	
0000 A	21020	कर्मभोग चक्र	महात्मा प्रभु		70.00	
0000 A	21021	वर घर की खोज	महात्मा प्रभु		15.00	
0000 A	21022	सप्त सरोवर	महात्मा प्रभु		12.00	
0000 A	21023	श्रद्धा सुमन	महात्मा प्रभु		20.00	
0000 A	21024	प्रशान्त प्रवचन	महात्मा प्रभु		12.00	
0000 A	21025	रचना चरित्र	महात्मा प्रभु		12.00	
0000 A	21026	साधना प्रचार	महात्मा प्रभु		12.00	
0000 A	21027	सेवाधर्म	महात्मा प्रभु		12.00	
0000 A	21028	डरो वह बड़ा जबरदस्त है	महात्मा प्रभु		15.00	
0000 A	21029	एकादशोपनिषद्	डॉ. सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार		310.00	
0000 A	21030	उपनिषद् प्रकाश	डॉ. सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार		190.00	
0000A	21031	श्रीमद्भगवद्गीता	डॉ. सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार		245.00	
0000 A	21032	संस्कार चन्द्रिका	डॉ. सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार		230.00	
0000 A	21033	बुढ़ापे से जवानी की ओर	डॉ. सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार		185.00	
0000 A	21034	होमियापैथिक चिकित्सा	डॉ. सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार		250.00	
0000 A	21035	होमियोपैथिक चित्रण	डॉ. सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार		250.00	
0000 A	21036	होमियोपैथिक के मूल सिद्धान्त	डॉ. सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार		185.00	
0000 A	21037	होमियोपैथि का क ख ग	डॉ. सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार		185.00	
0000 A	21038	होमियोपैथि के अनुभूत प्रयोग	डॉ. सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार		275.00	
0000 A	21039	वैदिक संस्कृति का मूलतत्व	डॉ. सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार		150.00	
0000 A	21040	चतुर्वेद गंगालहरी	डॉ. सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार		185.00	
0000 A	21041	माँ और बच्चा	डॉ. सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार		45.00	
0000 A	21042	मेरी नानी की कहानी	डॉ. सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार		115.00	
0000 A	21043	वैदिक चिन्तन धारा	आ. रामनिवास गुणग्राहक		50.00	
0000 A	21044	सुखी जीवन	पं. कपिल देव द्विवेदी	विश्व भारती अनुसंधान, परिषद	40.00	
0000 A	21045	सुखी गृहस्थ	पं. कपिल देव द्विवेदी	विश्व भारती अनुसंधान, परिषद	40.00	
0000 A	21046	सुखी परिवार	पं. कपिल देव द्विवेदी	विश्व भारती अनुसंधान, परिषद	25.00	
0000 A	21047	आचार शिक्षा	पं. कपिल देव द्विवेदी	विश्व भारती अनुसंधान, परिषद	30.00	
0000 A	21048	नीति शिक्षा	पं. कपिल देव द्विवेदी	विश्व भारती अनुसंधान, परिषद	35.00	
0000 A	21049	वेदों में नारी	पं. कपिल देव द्विवेदी	विश्व भारती अनुसंधान, परिषद	30.00	
0000 A	21050	सुखी समाज	पं. कपिल देव द्विवेदी	विश्व भारती अनुसंधान, परिषद	35.00	

0000 A	21051	वैदिक मनोविज्ञान	पं. कपिल देव द्विवेदी	विश्व भारती अनुसंधान, परिषद	35.00	
0000 A	21052	यजुर्वेद सुभाषितावली	पं. कपिल देव द्विवेदी	विश्व भारती अनुसंधान, परिषद	25.00	
0000 A	21053	सामवेद सुभाषितावली	पं. कपिल देव द्विवेदी	विश्व भारती अनुसंधान, परिषद	25.00	
0000 A	21054	अथर्ववेद सुभाषितावली	पं. कपिल देव द्विवेदी	विश्व भारती अनुसंधान, परिषद	55.00	
0000 A	21055	ऋग्वेद सुभाषितावली	पं. कपिल देव द्विवेदी	विश्व भारती अनुसंधान, परिषद	75.00	
0000 A	21056	वेदों में आयुर्वेद	पं. कपिल देव द्विवेदी	विश्व भारती अनुसंधान, परिषद	175.00	
0000 A	21057	वैदिक दर्शन	पं. कपिल देव द्विवेदी	विश्व भारती अनुसंधान, परिषद	150.00	
0000 A	21058	वेदों में राजनीति शास्त्र	पं. कपिल देव द्विवेदी	विश्व भारती अनुसंधान, परिषद	200.00	
0000 A	21059	वेदों में विज्ञान	पं. कपिल देव द्विवेदी	विश्व भारती अनुसंधान, परिषद	250.00	
0000A	21060	वेदों में समाज, और शिक्षाशास्त्र	पं. कपिल देव द्विवेदी	विश्व भारती अनुसंधान, परिषद	200.00	
0000 A	21061	वैदिक साहित्य और संस्कृति	पं. कपिल देव द्विवेदी	विश्व भारती अनुसंधान, परिषद	150.00	
0000 A	21062	अथर्ववेद का सांस्कृतिक अध्ययन	पं. कपिल देव द्विवेदी	विश्व भारती अनुसंधान, परिषद	250.00	
0000 A	21063	वैदिक देवों का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक स्वरूप	पं. कपिल देव द्विवेदी	विश्व भारती अनुसंधान, परिषद	150.00	
0000 A	21064	वेदों में लोक कल्याण	पं. कपिल देव द्विवेदी	विश्व भारती अनुसंधान, परिषद	150.00	
0000 A	21065	अर्थविज्ञान और व्याकरण दर्शन	पं. कपिल देव द्विवेदी	विश्व भारती अनुसंधान, परिषद	400.00	
0000 A	21066	संस्कृत व्याकरण एवं लुघु सिद्धान्त कौमुदी	पं. कपिल देव द्विवेदी	विश्व भारती अनुसंधान, परिषद	225.00	
0000 A	21067	प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी	पं. कपिल देव द्विवेदी	विश्व भारती अनुसंधान, परिषद	200.00	
0000 A	21068	रचनानुवाद कौमुदी	पं. कपिल देव द्विवेदी	विश्व भारती अनुसंधान, परिषद	80.00	
0000 A	21069	प्रारम्भिक रचनानुवाद कौसुदी	पं. कपिल देव द्विवेदी	विश्व भारती अनुसंधान, परिषद	32.00	
0000 A	21070	संस्कृत निबन्ध शतकम	पं. कपिल देव द्विवेदी	विश्व भारती अनुसंधान, परिषद	100.00	
0000 A	21071	वैदिक कोश	राजवीर शास्त्री		700.00	
0000 A	21072	पातंजलयोग दर्शन	राजवीर शास्त्री		150.00	
0000 A	21073	सृष्टि रचना	गुरूदत्त	हिन्दी साहित्य सदन	60.00	
0000 A	21074	विश्वेदेवा	गुरूदत्त	हिन्दी साहित्य सदन	50.00	
0000 A	21075	ईश केन कठ उपनिषद्	गुरूदत्त	हिन्दी साहित्य सदन	50.00	
0000 A	21076	प्रश्न ऐतरेय उपनिषद्	गुरूदत्त	हिन्दी साहित्य सदन	40.00	
0000 A	21077	मुण्डक माण्डुक्य उपनिषद्	गुरूदत्त	हिन्दी साहित्य सदन	40.00	
0000 A	21078	तैत्तिरीय उपनिषद्	गुरूदत्त	हिन्दी साहित्य सदन	40.00	
0000 A	21079	अद्वैत मीमांसा	गुरूदत्त	हिन्दी साहित्य सदन	45.00	
0000 A	21080	ब्रह्मसूत्र (2 भाग)	गुरूदत्त	हिन्दी साहित्य सदन	300.00	
0000 A	21081	सांख्य दर्शन	गुरूदत्त	हिन्दी साहित्य सदन	250.00	
0000 A	21082	न्याय दर्शन	गुरूदत्त	हिन्दी साहित्य सदन	250.00	
0000 A	21083	श्रीमद्भगवद्गीता (भाष्य)	गुरूदत्त	हिन्दी साहित्य सदन	125.00	
0000 A	21084	भारतवर्ष का संक्षिप्त इतिहास	गुरूदत्त	हिन्दी साहित्य सदन	125.00	
0000 A	21085	हमारी सांस्कृतिक धरोहर	गुरूदत्त	हिन्दी साहित्य सदन	160.00	
0000 A	21086	हिन्दुत्व की यात्रा	गुरूदत्त	हिन्दी साहित्य सदन	50.00	
0000 A	21087	वेद और वैदिक काल	गुरूदत्त	हिन्दी साहित्य सदन	45.00	
0000 A	21088	वेद प्रवेशिका	गुरूदत्त	हिन्दी साहित्य सदन	80.00	
0000A	21089	सांइस और वेद	गुरूदत्त	हिन्दी साहित्य सदन	40.00	
0000 A	21090	वेदों में इन्द्र	गुरूदत्त	हिन्दी साहित्य सदन	25.00	
0000 A	21091	यजुर्वेद और गृहस्थ धर्म	गुरूदत्त	हिन्दी साहित्य सदन	50.00	
0000 A	21092	भारत गांधी नेहरू की छाया में	गुरूदत्त	हिन्दी साहित्य सदन	95.00	
0000 A	21093	महाकाल	गुरुदत्त	हिन्दी साहित्य सदन	120.00	
0000 A	21094	महाभारत	गुरूदत्त	हिन्दी साहित्य सदन	60.00	

0000 A	21095	विश्वासघात	गुरूदत्त	हिन्दी साहित्य सदन	100.00	
0000 A	21096	देश की हत्या	गुरूदत्त	हिन्दी साहित्य सदन	100.00	
0000 A	21097	दासता के नए रूपः 1948–49 का काल	गुरूदत्त	हिन्दी साहित्य सदन	100.00	
0000 A	21098	सदावत्सले मातृभूमे 1949 का काल	गुरूदत्त	हिन्दी साहित्य सदन	70.00	
0000 A	21099	परित्राणाय साधूनाम	गुरूदत्त	हिन्दी साहित्य सदन	395.00	
0000 A	21100	दो लहरों की टक्कर (2 भाग)	गुरूदत्त	हिन्दी साहित्य सदन	500.00	
0000 A	21101	गंगा की धारा	गुरूदत्त	हिन्दी साहित्य सदन	400.00	
0000 A	21102	वाम मार्ग	गुरूदत्त	हिन्दी साहित्य सदन	100.00	
0000 A	21103	सम्भवामि युगे–युगे (2 भाग)	गुरूदत्त	हिन्दी साहित्य सदन	90.00	
0000 A	21104	वेद मन्त्रों के देवता	गुरूदत्त	हिन्दी साहित्य सदन	60.00	
0000 A	21105	विज्ञान और विज्ञान	गुरूदत्त	हिन्दी साहित्य सदन	60.00	
0000 A	21106	वेदों में सोम	गुरूदत्त	हिन्दी साहित्य सदन	25.00	
0000 A	21107	वर्तमान दुर्व्यवस्था का समाधान हिन्दू राष्ट्र	गुरूदत्त	हिन्दी साहित्य सदन	40.00	
0000 A	21108	धर्म, संस्कृति और राज्य	गुरूदत्त	हिन्दी साहित्य सदन	150.00	
0000 A	21109	इतिहास में भारतीय परम्परा	गुरूदत्त	हिन्दी साहित्य सदन	150.00	
0000 A	21110	विक्रमादित्य साहसांक	गुरूदत्त	हिन्दी साहित्य सदन	150.00	
0000 A	21111	भगवान भरोसे	गुरूदत्त	हिन्दी साहित्य सदन	150.00	
0000 A	21112	पत्रलता	गुरूदत्त	हिन्दी साहित्य सदन	100.00	
0000A	21113	दिग्विजय	गुरूदत्त	हिन्दी साहित्य सदन	120.00	
0000 A	21114	लुढ़कते पत्थर	गुरूदत्त	हिन्दी साहित्य सदन	100.00	
0000 A	21115	अस्ताचल की ओर 3 भागों में	गुरूदत्त	हिन्दी साहित्य सदन	400.00	
0000A	21116	खण्डहर बोल रहे 3 भागों में	गुरूदत्त	हिन्दी साहित्य सदन	400.00	
0000 A	21117	जमाना बदल गया 4 भागों में	गुरूदत्त	हिन्दी साहित्य सदन	360.00	
0000 A	21118	परम्परा (रामकथा भाग–2)	गुरूदत्त	हिन्दी साहित्य सदन	70.00	
0000A	21119	अग्नि परीक्षा (रामकथा भाग–3)	गुरूदत्त	हिन्दी साहित्य सदन	70.00	
0000 A	21120	अध्यात्म–मीमांसा	स्वामी विद्यानन्द सरस्वती		150.00	
0000 A	21121	सत्यार्थ भास्कर (2 भाग)	स्वामी विद्यानन्द सरस्वती		900.00	
0000A	21122	भूमिका भास्कर (दो खण्ड)	स्वामी विद्यानन्द सरस्वती		500.00	
0000 A	21123	संस्कार भास्कर	स्वामी विद्यानन्द सरस्वती		150.00	
0000 A	21124	तत्वमसि	स्वामी विद्यानन्द सरस्वती		200.00	
0000A	21125	आर्यों का आदिदेश और उनकी सभ्यता	स्वामी विद्यानन्द सरस्वती		75.00	
0000 A	21126	द्रौपदी का चीरहरण और श्रीकृष्ण	स्वामी विद्यानन्द सरस्वती		65.00	
0000 A	21127	रामायणः भ्रान्तियाँ और समाधान	स्वामी विद्यानन्द सरस्वती		100.00	
0000A	21128	सत्यार्थ प्रकाश	महर्षि दयानन्द		80.00	
0000 A	21129	सत्यार्थप्रकाश	महर्षि दयानन्द		150.00	
0000 A	21130	ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका	महर्षि दयानन्द		140.00	
0000A	21131	सत्यार्थप्रकाश (नेपाली भाषा)	महर्षि दयानन्द		200.00	
0000 A	21132	ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका (नेपाली भाषा)	महर्षि दयानन्द		200.00	
0000 A	21133	वेद भाष्य 8 जिल्दों में	महर्षि दयानन्द		4,750.00	
0000A	21134	वैदिक गणित	स्वामी शिवानंद		195.00	
0000 A	21135	ब्रह्मचर्य ही जीवन है	स्वामी शिवानंद		48.00	
0000 A	21136	ऋग्वेद (संस्कृत हिन्दी भाष्य)	स्वामी शिवानंद		650.00	
0000A	21137	अथर्ववेद (संस्कृत हिन्दी भाष्य)	स्वामी शिवानंद		700.00	
0000 A	21138	यजुर्वेद (संस्कृत हिन्दी भाष्य)	स्वामी शिवानंद		450.00	
0000 A	21139	सामवेद (संस्कृत हिन्दी भाष्य)	स्वामी शिवानंद		400.00	
0000A	21140	शान्ति कथा	आचार्य प्रेम भिक्षु		25.00	
0000 A	21141	शुद्ध कृष्णायन	आचार्य प्रेम भिक्षु		50.00	
0000 A	21142	दो बहनों की बातें	आचार्य प्रेम भिक्षु		25.00	
0000A	21143	दो मित्रों की बातें	आचार्य प्रेम भिक्षु		25.00	
0000 A	21144	नित्य कर्म विधि	आचार्य प्रेम भिक्षु		30.00	
0000 A	21145	शुद्ध हनुमच्चरित	आचार्य प्रेम भिक्षु		40.00	
0000A	21146	शुद्ध रामायण	आचार्य प्रेम भिक्षु		150.00	
0000 A	21147	मनुस्मृति	डॉ. सुरेन्द्र कुमार		350.00	
0000 A	21148	विशुद्ध मनुस्मृति	डॉ. सुरेन्द्र कुमार		200.00	
0000A	21149	राजर्षि मनु और उनकी मनुस्मृति	डॉ. सुरेन्द्र कुमार		150.00	
0000 A	21150	शुक्र नीतिसार	स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती		150.00	
0000 A	21151	भर्तृहरिशतक	स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती		95.00	
0000A	21152	देवऋषि दयानन्द चरित	स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती		40.00	

0000 A	21153	वेदालोक	स्वामी विद्यानन्द विदेह		700.00	
0000 A	21154	वैदिक इतिहास निर्णय	शिवशंकर काव्यतीर्थ		300.00	
0000A	21155	त्रिदेव निर्णय	शिवशंकर काव्यतीर्थ		30.00	
0000 A	21156	जाति निर्णय	शिवशंकर काव्यतीर्थ		160.00	
0000 A	21157	त्रैतसिद्धान्तादर्श	शिवशंकर काव्यतीर्थ		150.00	
0000A	21158	मनुस्मृति	आर्य प्रतिनिधि सभा	आर्य प्रतिनिधि सभा	125.00	
0000 A	21159	आदश त्रैतवाद	आर्य प्रतिनिधि सभा	आर्य प्रतिनिधि सभा	35.00	
0000 A	21160	संस्कार चन्द्रिका	आर्य प्रतिनिधि सभा	आर्य प्रतिनिधि सभा	170.00	
0000A	21161	महर्षि दयानन्द की दृष्टि में कर्मकांड		आर्य प्रतिनिधि सभा	60.00	
0000 A	21162	न्याय दर्शन		आर्य प्रतिनिधि सभा	65.00	
0000 A	21163	सांख्य दर्शन		आर्य प्रतिनिधि सभा	45.00	
0000A	21164	वैशेषिक दर्शन		आर्य प्रतिनिधि सभा	65.00	
0000 A	21165	वेदनान्त दर्शन		आर्य प्रतिनिधि सभा	50.00	
0000 A	21166	योग रहस्य	महात्मा नारायण स्वामी	आर्य प्रतिनिधि सभा	50.00	
0000 A	21167	वेद रहस्य	महात्मा नारायण स्वामी	आर्य प्रतिनिधि सभा	50.00	
0000 A	21168	मृत्यु रहस्य	महात्मा नारायण स्वामी	आर्य प्रतिनिधि सभा	30.00	
0000 A	21169	भजनांजलि	आ. चन्द्रशेखर शास्त्री	आर्य प्रतिनिधि सभा	25.00	
0000 A	21170	मनन कर मन मेरे	आ. चन्द्रशेखर शास्त्री	आर्य प्रतिनिधि सभा	20.00	
0000 A	21171	वैदिक स्वरांजलि	सुरजीत दूखी	आर्य प्रतिनिधि सभा	150.00	
0000 A	21172	घर वापसी	फरहाना ताज	आर्य प्रतिनिधि सभा	151.00	
0000 A	21173	वेदों में विज्ञान	फरहाना ताज	आर्य प्रतिनिधि सभा	151.00	
0000A	21174	दयानन्द–सन्दर्भ–कोष (3 भाग)	प्रो. ज्ञानप्रकाश शास्त्री	आर्य प्रतिनिधि सभा	3,000.00	
0000 A	21175	भारतीय संघर्ष का इतिहास	डॉ. नित्यानन्द	आर्य प्रतिनिधि सभा	35.00	
0000 A	21176	अमेरिका की प्राचीन सभ्यताएँ	डॉ. नित्यानन्द	आर्य प्रतिनिधि सभा	150.00	
0000 A	21177	जीवनोपयोगी सनदेश	स्वामी सत्यपति परिव्राजक	दर्शन योग महाविद्यालय	15.00	
0000 A	21178	मेरा संक्षिप्त परिचय	स्वामी सत्यपति परिव्राजक	दर्शन योग महाविद्यालय	5.00	
0000 A	21179	ईश्वर सिद्धि	स्वामी सत्यपति परिव्राजक	दर्शन योग महाविद्यालय	8.00	
0000 A	21180	परा विद्या	स्वामी सत्यपति परिव्राजक	दर्शन योग महाविद्यालय	20.00	
0000 A	21181	विवेक वैराग्य श्लोक संग्रह	स्वामी सत्यपति परिव्राजक	दर्शन योग महाविद्यालय	5.00	
0000 A	21182	सत्यार्थ प्रकाश की तेज धाराएं	स्वामी सत्यपति परिव्राजक	दर्शन योग महाविद्यालय	5.00	
0000 A	21183	प्रवचनमाला	स्वामी सत्यपति परिव्राजक	दर्शन योग महाविद्यालय	20.00	
0000 A	21184	कर्मफल निबन्ध	स्वामी सत्यपति परिव्राजक	दर्शन योग महाविद्यालय	10.00	
0000 A	21185	दार्शनिक निबन्ध	स्वामी सत्यपति परिव्राजक	दर्शन योग महाविद्यालय	10.00	
0000 A	21186	बृहती ब्रह्ममेधा 3 भागों में	स्वामी सत्यपति परिव्राजक	दर्शन योग महाविद्यालय	800.00	
0000 A	21187	समस्या समाधान	स्वामी सत्यपति परिव्राजक	दर्शन योग महाविद्यालय	60.00	
0000 A	21188	शंका समाधान	स्वामी सत्यपति परिव्राजक	दर्शन योग महाविद्यालय	30.00	
0000 A	21189	उपनिषद् प्रकाश	स्वामी सत्यपति परिव्राजक	दर्शन योग महाविद्यालय	80.00	
0000 A	21190	योग दर्शन	स्वामी सत्यपति परिव्राजक	दर्शन योग महाविद्यालय	150.00	
0000 A	21191	क्रियात्मक योगाभ्यास	स्वामी सत्यपति परिव्राजक	दर्शन योग महाविद्यालय	10.00	
0000 A	21192	मेरी इंग्लैंड प्रचार यात्रा	स्वामी सत्यपति परिव्राजक	दर्शन योग महाविद्यालय	5.00	
0000 A	21193	योग मीमांसा	स्वामी सत्यपति परिव्राजक	दर्शन योग महाविद्यालय	20.00	
0000 A	21194	ब्रह्मविज्ञान	स्वामी सत्यपति परिव्राजक	दर्शन योग महाविद्यालय	40.00	
0000 A	21195	आर्यो के सोलह संस्कार	स्वामी सत्यपति परिव्राजक	दर्शन योग महाविद्यालय	6.00	
0000 A	21196	सरल योग से ईश्वर साक्षात्कार	स्वामी सत्यपति परिव्राजक	दर्शन योग महाविद्यालय	20.00	
0000 A	21197	अध्यात्म सरोवर	स्वामी सत्यपति परिव्राजक	दर्शन योग महाविद्यालय	70.00	
0000 A	21198	तत्त्वज्ञान	स्वामी सत्यपति परिव्राजक	दर्शन योग महाविद्यालय	20.00	
0000 A	21199	Four Vedas in English Complete Set (8 Vols)	Dr. Tulsiram		5,100.00	
0000 A	21200	योगीराज श्रीकृष्ण	लाला लाजपतराय	विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली	100.00	
0000 A	21201	Collected works of T.V. Kapali Sastri-I	-	Arvindo Ashram Puduccheri	-	-
0000 A	21202	Collected works of T.V. Kapali Sastri-II	-	Arvindo Ashram Puduccheri	-	-
0000A	21203	Collected works of T.V. Kapali Sastri-III	-	Arvindo Ashram Puduccheri	-	-
0000 A	21204	Collected works of T.V. Kapali Sastri-IV	-	Arvindo Ashram Puduccheri	-	-
0000 A	21205	Collected works of T.V. Kapali Sastri-V	-	Arvindo Ashram Puduccheri	-	-

0000 A	21206	Collected works of T.V. Kapali Sastri-VI	-	Arvindo Ashram Puduccheri	-	-
0000 A	21207	Collected works of T.V. Kapali Sastri-VII	-	Arvindo Ashram Puduccheri	-	-
0000 A	21208	Collected works of T.V. Kapali Sastri-VIII	-	Arvindo Ashram Puduccheri	-	-
0000 A	21209	Collected works of T.V. Kapali Sastri-IX	-	Arvindo Ashram Puduccheri	-	-
0000 A	21210	Collected works of T.V. Kapali Sastri-X	-	Arvindo Ashram Puduccheri	-	-
0000 A	21211	Savita Devta	Pt. Bhagvaddutt	Saraswati Prakasan, Delhi	-	1981
0000 A	21212	Brahspati Devta	Pt. Bhagvaddutt	Saraswati Prakasan, Delhi	-	1981
0000 A	21213	Rudra Devta	Pt. Bhagvaddutt	Saraswati Prakasan, Delhi	-	-
0000 A	21214	Surya Geeta	-	Bharat Dharma Mandal Varasi	-	-
0000 A	21215	Sri Dheesh Geeta	-	Bharat Dharma Mandal Varasi	-	-
0000 A	21216	Kavya Mala	Pt. Durgadutt	Nirnay Sager Press, Mumbai	-	-
0000 A	21217	Aryan Ka Aadi Desh	Dr. Sampoornanand 1944	Bharat+E21267 Bhandar, Allahabad	3.00	1944
0000 A	21218	Bhartiya Prasad	Dr. Dwijendra N. Shukla	Vastu Vangmay Publication, Allahabad		1956
0000 A	21219	Pratima Vigyan Origion-Development	Dr. Dwijendra N. Shukla	Vastu Vangmay Publication, Allahabad		1956
0000 A	21220	Sanskritik Kendra Ujjaini	Brij K Chaturvedi	Indian Press, Prayag	3.00	1955
0000 A	21221	Tripura Rahasya Charya Khand	-	-	-	-
0000 A	21222	Rigved Ke Bhvsya Ki Bhoomika	T.V. Kapali Sastri	Arvindo Ashram Puduccheri	-	-
0000 A	21223	Satya Swaroop Ramayan	Ram Verma	Roli Books	1,500.00	-
0000 A	21224	Bhusandi Ramayan-I,II,III Sanskrit	-	Visva Vidyalaya Prakshan	300.00	-
0000 A	21225	Sankracharya Samgra: 20 Volumes	-	Vani Vilas Press		
0000 A	21226	Unpublished Upanishad :71	C. Kunhan Raja	Adyar, Madras	-	1993
0000 A	21227	108 Upanished	C. Kunhan Raja	Adyar, Madras	-	1993
0000 A	21228	108 Upanished	-	Venkteshwar Press, Bombay	-	-
0000 A	21229	Vichar Sangrah	Pt. Gauri Shankar Shastri	71, Arya Nagar, Alwar	-	1962
0000 A	21230	Shiv Dristi	Somanand	Kashmir Tantra Series, Kashmir	-	-
0000 A	21231	Neelmat Puran Two Volume	Editor Dr. Ved Kumari	Govt. of J & K Sri Nagar	-	-
0000A	21232	Bhusandi Ramayan Hindi	-	Bhuvan Vani Trust	1,600.00	2016
0000 A	21233	Shri Guru Charitra	-	Dharma Gyan Prakashan	100.00	2000
0000 A	21234	Dharma Kranti Se Karagar Tak (Swami Swaroopanand Shankracharya)	-	Param Hansi Ganga Ashram, Jhonteshwar	-	-
0000 A	21235	Sri Krishan Charitra	Bamkim Chandra Chattopadhyay	Hope Publication, Gurgaon	120.00	-
0000 A	21236	Dharam Tatva	Bamkim Chandra Chattopadhyay			-
0000 A	21237	Uma Sahasnam	T.V. Kapali Sastri	Arbindo Ashram	-	-
0000 A	21238	Bhardwaj Rishi Ka Vaimanik Shastra	Editor : Brahm Muni	Sarvadeshik Arya Pratinidhi Sabha	-	1959
0000 A	21239	Devyan Sanskriti Ka Vikas Aur Ved	Dr. Arun Kumar	Yaduvansh Nyas, Faizabad	120.00	-
0000 A	21240	Bhardwaj Rishi's Vaimanic Sastra	Translation Joysher	Coronation press Bangalore	-	-

0000 A	21241	Chankya Sutrani	-	Swadhyay Mandal, Pardi	30.00	1946
0000 A	21242	Vradh Chankya Gujarati-Sanskrit	Ratneshwar Bhatt	Mumbai	-	1888
0000 A	21243	Chankya Rajaniti Shastra	-	Nag Prakashan, Delhi	75.00	1990
0000 A	21244	Brahaspati Rajaniti Shastra		Moti Lal Banarasi Das,	-	1926
0000 A	21245	Brahma Vidya	MM Madhusudan Ojha	Banaras Hindu University	-	-
0000 A	21246	Muni Jinvijay	Muni Jinvijay	Bal Siksha Mandir	-	1971
0000 A	21247	Nath Sampradaya	Swai Nath	Swai Nath, Alwar	-	-
0000 A	21248	Glimpses of Rural Rajasthan	-	Census of India, Rajasthan, Jaipur	12.00	1962
0000 A	21249	Fairs Festivals of Rajasthan	-	Census of India, Rajasthan, Jaipur	12.00	1962
0000 A	21250	Surya Tantra	Shatrugghan Lal Shukla	Bhasha Bhawan Mathura	60.00	2012
0000 A	21251	The Secret Path	Paul Bronton	BBL Pub. Delhi	-	1973
0000 A	21252	Bhartiya Vangmay Main Divya Dristi	Kashiram Sharma	Sabblakar, Delhi	80.00	1988
0000 A	21253	Vedon Main Vigyan	Dr. Kapil Dev Durvedi	Vishva Bharati Anusandhan Parishad	275.00	2014
0000 A	21254	An Introduction to Vaidik Study	Dr. Sampoornanande	Acdemy of Comprative Philosophy & Religion	2.00	1969
0000 A	21255	The Vedic Gods as Figures of Biology	V.G. Rele	Cosmo Publications, Delhi	-	-
0000 A	21256	Vaidik Manovigyan	Priyaratna Arya	Satya Dharma Publication, Delhi	45.00	2008
0000 A	21257	Physics of Tao in Hindi	Editor V.S. Sahasbudde	New Age Books	275.00	2014
0000 A	21258	Holy Quran Hindi	Translation Maulana Vahiduddin	Good world Books	-	2014
0000 A	21259	Vigyan and Vedanta	Mandha Singh	Gyan Vigyan Prakashan Baxer	100.00	1981
0000 A	21260	Vaidik Kalini Sanskriti	Bhushan Giri Goswami	Praveen Prakashan, Delhi	10.00	1954
0000A	21261	Shankar Digvijay	Baldev Upadhyay	Mahant Narottam Giri	700.00	1987
0000 A	21262	Vaidik Vishva Darshan	Hari Shankar Joshi	Kashi Hindu Visvaidyalaya	50.00	1966
0000 A	21263	Karmakand Ka Rahshya	Hari Shankar Joshi	Kashi Hindu Visvaidyalaya	50.00	1970
0000 A	21264	Purano Main Pancham Ved Darshan	Hari Shankar Joshi	Kashi Hindu Visvaidyalaya	70.00	1970
0000 A	21265	Sarva Vedant Saurabha	Anubhavanand swami	Anubhavanand Yog Kendra	50.00	1995
0000 A	21266	Panchvasna Mahasutra		Shaiv Bharati Sodh Sansthan	200.00	2004
0000 A	21267	Guru Samhita	Lalanji Gopal	BHU, Varanasi	60.00	1931
0000 A	21268	Vaidik Religion	V.G. Pranjape	Arya Samskriti Prakashan	12.00	1969
0000 A	21269	Yog Vashistha Four Volume	Awandbodh Saraswati	Nirnay Sagar Press, Mumbai	-	-
0000 A	21270	Raja Birbal : Life and Time	Dr. Parmashwar Prasad Sinha	Janaki Prakashan	70.00	1980
0000 A	21271	Prachin Bhartiya Veshbhusha	Dr. Moti Chandra	Bharati Bhandar, Prayag	50.00	-
0000 A	21272	Dalit Deva Bhav Two Volume	Kishor Kunal	Publication Division, GOI, Delhi	-	-
0000 A	21273	Radha Sudha	Karpatri Maharaj	Radha Krishan Dhunuka Prakasha	90.00	2012
0000 A	21274	Bhagwat Sudha	Karpatri Maharaj	Radha Krishan Dhunuka Prakasha	90.00	2012
0000 A	21275	Bhakti Sudha	Karpatri Maharaj	Radha Krishan Dhunuka Prakasha	190.00	2003

0000 A	21276	Ahirbudhanya Samhita -1	-	Adyar, Madras		1916
0000 A	21277	Ahirbudhanya Samhita -2	-	Adyar, Madras		1916
0000 A	21278	Shri Vidyaranav Tantra	-	Choukhamba Sur Bharati		1936

